

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

* ओ३म् *

अथर्ववेदसंहिता

CHECKED 2 MAY 1958

भाषा-भाष्य

(चतुर्थ खण्ड)

भाष्यकार

श्री पण्डित जयदेव शर्मा,

विद्यालंकार, मीमांसातीर्थ, कोशी.

प्रकाशक

आर्यसाहित्यमण्डल, अजमेर.

1966

मुद्रक—

श्रीदुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर

प्रयमावृत्ति
२०००

सं० १६८७ वि०

मूल्य
४) रुपये

आर्य-साहित्यमण्डल, अजमेर के
लिये सर्वाधिकार सुरक्षित.



श्री बाबू दुर्गाप्रसाद अग्रवाल के प्रबन्ध से
श्रीदुर्गा प्रिन्टिंग प्रेस, धानमण्डी,
अजमेर में मुद्रित.

चतुर्थखण्ड की भूमिका ।

इस खण्ड में १८, १९, २० काण्ड सम्मिलित हैं । गत काण्डों में विशेष २ मंदित्र्य प्रकरणों पर हमने पूर्व खण्डों की भूमिका में प्रकाश डाला है । इस खण्ड में भी कुछ विषय बड़े महत्व के हैं जिनको स्पष्ट करना आवश्यक है ।

(१) पूर्व दोनों खण्डों की भूमिका में 'मणि' शब्द का विवेचन तथा नाना मणि विषयक सूत्रों का स्पष्टीकरण कर दिया गया है । इस खण्ड में १९ वें काण्ड के २८-२९ सूक्तक के ९ सूत्रों में ओदुम्बर, दुर्भ, जंगिद्व और शतवार मणि का वर्णन आया है । भाष्य में इन सबकारहस्य स्पष्ट कर दिया है । इनके सम्बन्ध में विशेष लिखना व्यर्थ है । पाठक-गण हमारे अभिप्राय को पूर्व खण्डों की भूमिका में ही पुनः पढ़ने का कष्ट करें और ये सब संगति प्रस्तुत भाष्य में उपलब्ध हो जावेगी ।

१८ वें काण्ड में बहुत से विषय विचारणीय हैं जैसे (१) यमयमी संवाद (२) पितृगर (३) पिरडदान (४) प्रेतदाह (५) सतीदाह (६) जग-वव (७) कुछ औपदेशिक क्रियाएं ।

(१) यमयमी संवाद ।

ऋग्वेद (१० । १० । १-१४) में १४ और अथर्ववेद (१८ । १ । १-१६) १६ ऋचाएं यमयमी संवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं । आंच, ये

सायण के कथनानुसार—यमयमी दोनों भाई बहन हैं । इन १६ मन्त्रों में विद्वत्त्वान् के पुत्र पुत्री यम और यमी दोनों का संभोग के निमित्त संवाद करित है । भगिनी के साथ भोग करना अत्यन्त अनुचित होने से यम ने नाना युक्तियों से उसका प्रत्याख्यान कर दिया इस अभिप्राय को चित्त में रखकर सायण ने सम्पूर्ण सूक्त की योजना की है और इस संवाद को बड़ा ही अश्लील कर दिया है । बहिन भाई में किसी भगिनी का भाई से भोग की इच्छा प्रकट करना और उसका भाई के स्वीकार न करने पर कटाक्ष भरे आक्षेप करना यह वेद के सनातन धर्म ग्रन्थ में शोभा नहीं देता ।

‘यस्य वास्यं स ऋषिः’ इस न्याय से इन १६ मन्त्रों के ऋषि भी यम यमी स्वीकार किये जाते हैं । यदि यम यमी दोनों आलंकारिक रूप से कोई जड़ पदार्थ हैं तो उनको ऋषि मानना असंगत है । जब ऋषि हैं तो उनको आलंकारिक या काल्पनिक पात्र मानना अनुचित है ।

हमें कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि इन यम और यमी को भाई बहन स्वीकार करें । क्योंकि (१) समस्त सूक्त में कहीं भी यम और यमी को भाईबहिन स्वीकार नहीं किया । प्रत्युत यह पुत्रानिलापी स्त्री पुरुष का ही परस्पर संवाद है । इन मन्त्र में सखा को बरण करने की इच्छुक कुमारी वर वरिणिनी कन्या के विचारों को बड़ी उत्तम रीति से रक्खा गया है । वह एक सखा चाहती है । संसारसागर में वह अकेली न रहकर सखा से ही पितृ ऋष्य के उतारने के निमित्त सन्तान लाभ की इच्छा करती है । २५ मन्त्र में उसकी दात का अनुमोदन है । तीसरे मन्त्र में विवाहित पति पत्नी पुत्र प्राप्त न होने पर एक सन्तान के प्रति उत्सुक जान पड़ते हैं । चौथे मन्त्र में सन्तान से निराश दम्पति में पुरुष का वचन प्रतीत होता है । २.६.७ इन मन्त्रों में सन्तान से निराश दम्पती के भावों को उत्तम रीति से दर्शाया है । ८ वें में वरवणिनी कन्या के विवाह के पूर्व के विचारों का स्मरण है । ९ वें में निराश पति का स्त्री को निमोग द्वारा पुत्र ज्ञान करने की सन्मति

है। १० वें में पत्नी को कुछ अनिच्छा है। ११ वें में पति की स्त्री को पुनः आज्ञा है। १२ वें में स्त्री की स्वाभाविक लज्जावश पुनः अनिच्छा है। १३, १४ में पुत्रोत्पादन में असमर्थ एवं महाभारत के राजा पाण्डु के समान रोगादि पीड़ित पति की पुनः आज्ञा है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री को भी भगिनी के समान जान अपने शरीर के दोषों से स्त्री के शरीर का नाश नहीं करना चाहिये इस भाव से पत्नी को पृथक् रहने का आदेश करता है। १५ वें में पत्नी का कदाचपूर्वक पति के हृदय की बात जानने के लिये यत्नमात्र है। १६ वें में और भी स्पष्ट रूप से पति ने पुत्र लाभ के लिये आवश्यक कर्त्तव्य का आदेश किया है।

स्त्री पुरुष का स्वयंवर और विवाह एवं गृहस्य आदि के सामान्य कर्त्तव्यों का वर्णन तो १४ वें कार्ड में ही कर दिया है। इस कार्ड में तो पुत्रार्थी अपुत्र स्त्री पुरुषों के लिये ही आपद्-धर्म रूप नियोग का वर्णन किया है।

ऐसा ही महर्षि दयानन्द ने भी स्वीकार किया है। साधारण रीति से नियोग के नाना सामों का वर्णन महर्षि दयानन्द के बनाये सत्यार्थ-प्रकाश (श्रुत समु०) में कर दिया है। उनका यहां तिखना पिष्टपेषण है। यहां इतना तिखना ही पर्याप्त है कि—१ नियोग विधान से स्त्रियों के दायमार्ग के अधिकार की रक्षा होती है। पति के मृत्यु होजाने पर उसकी जायदाद (चर और अचर) का अधिकार स्त्री को होता है। यदि वह दूसरे पुरुष से पुनः विवाह करे तो वह अपने पहले पति की जायदाद को दूसरे पति के अर्पण कर देगी। परन्तु उस स्त्री के देवर और जेठ आदि संबन्धी उसे ऐसा नहीं करने देंगे। क्योंकि वह जायदाद उनके चाप दादों की सम्मिलित है। विशेषतया भूमि, नकान और पशु संपत्ति में ऐसा ही होता है। ऐसी दशा में या तो स्त्री विधवा ही रहे या जायदाद हक छोड़े। यदि जायदाद को छोड़ती है तो अन्य पुरुष के साथ विवाह करने पर स्त्री को जो हक

अपने पूर्व पति के सर्वस्व पर प्राप्त है वह नष्ट होता है । और वह हक जो देवर और जेठ आदि को प्राप्त नहीं था वह उनको मिलता है । यदि दाय भाग को नहीं छोड़ती तो जेठ और देवरादि में अन्य कुल का व्यक्ति उन के भाई के हक पर अधिकार जमाता है इससे शामिलता जायदाद में नया पति कलह का कारण होता है और स्त्री को फिर भी अपने पूर्वपति के जायदाद का हक नहीं रहता । क्योंकि वह हक दूसरे पति ने छीन लिया । (२) दूसरे जो इस नये पति से सन्तान होगी उससे पूर्वपति का वंश नहीं चलता और परस्पर वंश चलाने की प्रतिज्ञा भी खण्डित होती है । ऐसी दशा में स्त्री को अपने मृत पति की जायदाद पर हक भी बना रहे, पुत्र-लाभ भी हो और पूर्व पति का वंश भी चले इन सब सुविधाओं के लिये ऐसे विधान की आवश्यकता है जो स्त्री को पुत्र लाभ करने का अधिकार प्रदान करे और स्त्री को उसके दायभाग के अधिकार से भी च्युत न करें ।

(२) इस विधान का नाम 'नियोग' है । यह विवाह नहीं । इसीलिये पद्धतिकारों ने कोई पृथक् पद्धति नियोग के लिये नहीं रखी । नियोग का अर्थ 'आज्ञा' है । पत्नी पर जिसका मुख्य अधिकार है उसकी आज्ञा से ही वह स्त्री अपने पाणिग्राही अर्थात् संस्कार द्वारा विवाहित पति के लिये पुत्र उत्पन्न कर सकती है । ऐसे वंश कर सन्तान के लाभ के लिये शम पति ही अपने जीवित काल में अपनी असमर्थता की दशा में नियोग की आज्ञा दे सकता है । उसके अभाव में जो भी उस स्त्री का अभिभावक या संरक्षक हो । मनु आदि धर्मशास्त्रों ने इस नियोग को जहां तक होसका उस कुल में सीमित किया है अर्थात् वह स्त्री देवर से या और किसी अपने पति के सपिण्ड से पुत्र लाभ करे । ऐसा करने से दायभाग और पुत्र आदि अन्य कुल में न जाकर पति का वंश चलता है । इतिहास में ऐसे दृष्टान्त बहुत हैं । जैसे पाण्डु के असमर्थ रहने पर कुन्ती और माद्री दोनों रानियों को नियोग द्वारा सन्तान लाभ हुआ और उनके पुत्रों को वंशागत राज्य भी प्राप्त हुआ । इसी प्रकार विचित्र वीर्य और चित्राङ्गद

दोनों के मरने पर उनकी बधुओं में व्यासदेव द्वारा सन्तान का लाभ होकर वंश चला । और वह पौरव वंश ही कहाया । इसी प्रकार के पुत्र क्षेत्रज पुत्र कहाते हैं ।

जहां जायदाद के अधिकारों के प्रश्न न हों और केवल स्त्रियों को पेट का ही प्रश्न है । वहां श्रमी (शूद्र) लोगों में 'नियोग' का विशेष प्रयोजन नहीं है । ऐसी दशा में स्त्रियों का पुनः विवाह ही उत्तम है । यही महीषि का सिद्धान्त है । यहां ऐसा नियम नहीं कि पति के मर जाने पर स्त्री नियोग करे ही । प्रत्युत यदि सन्तान न हो और सन्तान की इच्छा हो तो नियोग विधान ऐच्छिक है । इसी प्रकार पुनर्विवाह के लिये भी समझना चाहिये । इतिदिक् ।

(२) पितृगण ।

'पिता' बहुत प्रचलित शब्द है । पालन करने वाला, पिता, कहाता है । विद्या सम्बन्ध से आचार्य भी 'पिता' कहाता है । ब्राह्मण ग्रन्थों में 'पिता' और 'पितर' शब्दों का प्रयोग नीचे लिखे प्रकारों से आया है ।

(१) यमो वैवस्वतो राजा इत्याह तस्य पितरो विद्मः । त इम आसत्त इति स्थ-
विरा उपसमेता भवन्ति तानुपदिशति यजूषिवेदः । शत० १३ । ४ । ३ । ६ ॥

वैवस्वत राजा यम की प्रजाएं 'पितरः' हैं ये स्थविर, वृद्धजन हैं उनका वेद यजुर्वेद है ।

(२) क्षत्रं वै यमो विद्मः पितरः । श० ७ । १ । १ । ४ ॥

क्षत्रिय 'यम' हैं और प्रजाएं ही 'पितर' हैं ।

(३) मर्त्याः पितरः । श० २ । १ । ३ । ४ ॥ मरने हारे मनुष्य ही 'पितर' हैं ।

(४) गृह्णां दि पितरः ईशते । श० २ । ६ । १ । ४० । घरों के स्वामी 'पितर' हैं ।

(५) देवाः वा एते पितरः । गो० ३ । १ । २४ ॥ देव गण, तेजस्वी च्यवनहार कुशाल दानशील पुरुष 'पितर' हैं ।

(६) त्रयाः वै पितरः । सोमवन्तः, बर्हिषदः, अग्निष्वात्ताः । श० ५।५।५।२८ ॥ तीन प्रकार के पितर हैं सोमवान् बर्हिषद् और अग्निष्वात्त ।

(७) यान् अग्निरेव दहनस्त्वदयति ते पितरो अग्निष्वात्ताः । श० २।६।१।७ ॥ जिनको अग्नि ही जलाता हुआ स्वाद देता है वे पितर अग्निष्वात्त हैं ।

(८) ये वै अयज्वानो गृहमेधिनः । ते पितरो अग्निष्वात्ताः । तै० १।६।७।६ ॥ जो गृहस्थ यज्ञशील नहीं हैं वे अग्निष्वात्त कहाते हैं ।

(९) अथ ये दत्तेन पक्वेन लोकं जयन्ति ते पितरो बर्हिषदः । श० २।६।१।७ ॥ जो दान और पाक यज्ञ से लोक का जय करते हैं वे पितर बर्हिषद् हैं ।

(१०) ये वै यज्यानः ते पितरो बर्हिषदः । तै० श्र० १ । ६ । ८ । ६ ॥ जो यज्ञशील हैं वे बर्हिषद पितर हैं ।

(११) तद् ये सोमेनेजानाः ते पितरः सोमवन्तः । श० १ । ६ । १ । ७ ॥ जो सोम से यज्ञ करते हैं वे सोमवान् पितर हैं ।

(१२) ओषधिलोको वै पितरः । श० १३ । ८ । १ । २ ॥ ओषधियां पितर हैं ।

(१३) पद् वा श्रुतवः पितरः । श० २ । ४ । ३ । छहों ऋतु पितर हैं ।

इस प्रकार 'पितर' शब्द बड़ा व्यापक शब्द है । पालन करने वाले गुणों का देखकर ओषधि आदि जड़ पदार्थों को भी 'पितर' कहा गया है । इसी प्रकार प्राणो वै पिता । ए० २ । ३८ । एष वै पिता एष तपति । श० १।४।१।७।१५ ॥ प्राण और सूर्य भी पिता हैं । परन्तु इन स्थलों पर भी कहीं मृत जीवों को पितर शब्द से नहीं कहा गया है ।

अथ वेद मन्त्रों में आये पितरों पर विचार करते हैं—वेद में जहाँ भी 'पितरों' ऐसा द्विवचन प्रयोग होगा वहाँ वह माता पिता के लिये प्रयुक्त हुआ है इसमें सन्देह नहीं है। मन्त्र (१८ । १ । ४२) में सरस्वती के उपासक पितरों का वर्णन है। सरस्वती शब्द परमात्मा, वेद वाणी और स्त्री तर्कों का वाचक है। इससे ईदवरोपासक मुमुक्षुजन, वेदज्ञ विद्वान् और गृहस्थजन 'पितर' कहते हैं। क्योंकि सरस्वती स्त्री वेदवाणी और विद्वत्सभा का भी वाचक है। मन्त्र (१८ । १ । ४४) में अदर पर, मध्यम, ये तीन प्रकार के पितर बनलाये हैं। उनके सोम्य, अमृत, ऋतज्ञ, ये तान विशेषण हैं। सोम्य का अर्थ सोम अर्थात् ऐश्वर्य ज्ञान और बल सम्पन्न हों। अमृत अर्थात् जो भंडिये के समान कुटल क्लृ चोर स्वभाव के न हों। ऋतज्ञ अर्थात् सत्य व्यवहार और वेदन्यवस्था, विधि विधान के जानकार हों। ये ही हव=यज्ञों और संग्रामों में रक्षक होते हैं। (१८ । १ । ४५) में 'सुविदत्र' उत्तम ज्ञानवान् पुत्रों का 'पितर' कहा गया है 'वर्हिपद्' वे हैं जो स्वधा के साथ अन्न का भाग ग्रहण करते हैं। 'स्वधा' का अर्थ है जल, अन्न तथा अमृत। या 'स्व' अर्थात् अपने शरीर के धारण करने वाले वेतन आदि को भी 'स्वधा' कहा जाता है। अपने शरीर और मानपद को धारण करने के सामर्थ्य को भी 'स्वधा' कहा जाता है। वर्हि का अर्थ वह लोक, शासकजन और विद्वान्जन प्रजा और कुश आसन हैं। उनपर विराजने योग्य आदरणीय पुरुष पितर हैं। प्रजापर शासन करने वाले उन पितर हैं, जो वेतन और अन्न लेकर वृत्ति करते हैं।

सु० १ म के मन्त्र ४६ में पृथिवी लोक पर शासन करने वाले उन अधिकारियों को पितर कहा गया है जो विभक्त प्रजाओं पर शासन करते हैं। मन्त्र ४७ में देवों, विद्वानों के सहायक पितर हैं जो प्रजाओं की संग्रामों में रक्षा करते हैं। ४८ में अजेय इन्द्र का वर्णन है और ४९ में समस्त जनों के धात्रय ह्य राजा वैवस्वत दम के आदर करने का आदेश है। इस स्थान पर स्पष्ट 'मत्त' स्वयं राजा है। वह विविध ऐश्वर्यों का और दसवेदारी

प्रजाओं का स्वामी होने से 'वैवस्वन' है और नियन्ता, शासक होने से 'यम' है । सबका आश्रय, परमात्मा भी 'यम, राजा आदि नाम से कहा जाता है । मन्त्र ५१ में शान्ति और दुःख निवारण करने वाले 'बर्हिपद्' पितरों के आदर करने का उपदेश है । मन्त्र ५२ में गोड़ों को संकोच कर भोजन स्वीकार करने वाले जीवित पितरों का वर्णन है जिनसे साधारण दोषों पर दण्ड न देने के लिये प्रार्थना है । समस्त सूक्त में जहां 'यम' शब्द से परमेश्वर का ग्रहण है वहां ही पदान्तर में राजा परक अर्थ भी आपसे आप निकलता है । प्रत्युत भाष्य में इस गौण अर्थ की कुछ उपेक्षा करदी है । मन्त्र ५२, ६१ में ज्ञानवान् पितरों का वर्णन है जिनके शुभ विचारों में रहने का आदेश है । वास्तविक पितर ये विद्वान् ही हैं इनको ही द्वितीय सूक्त में 'यम' के सहयोग में पढ़ा गया है । उनको ही मन्त्र २। २ में नमस्कार किया गया है । द्वितीय सूक्त में समस्त विद्वान् पुरुषों का वर्णन तथा जिज्ञासुओं को उनके पास से विद्या ग्रहण करने का आदेश किया गया है । इस सूक्त में 'यम' क्यों मृत्यु वाचक नहीं और 'पितरः' शब्द क्यों मृतपितरों को ग्रहण नहीं करता है इसका हेतु क्रम से पूर्ण सूक्त का पठन करने से स्पष्ट पता लग जाता है । इसी सूक्त में दुष्ट पुरुषों का नियम (२। २२) में शव के प्रति कर्त्तव्य, (२। २७) में वृद्धों के दीर्घ जीवन की प्राप्ति, नदी के समान सेनाओं का विजय, (२। ३७) में परम परमेश्वर (२। ३२) में दाम्पत्य भाव स्त्री पुरुषों के मिलने का दार्शनिक तत्त्व, (२। ३३) में अग्निदग्ध और अनग्निदग्ध जीवों की व्यवस्था, आचार्य और शिष्य के पक्ष में प्रकरण की योजना, (२, १६, ३७) में दीर्घ जीवन, (२२) में ईश्वर की नर्चादाएं और उत्तम सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है ।

सूक्त तीसरे में भी जहां २ पितरों का वर्णन है वहां मृत पितरों का कहीं भी वर्णन प्रतीत नहीं होता । इसकी स्पष्टता भाष्य पाठ करने पर ही विदित होजाती है ।

(३) प्रेतदाह और और्ध्वदैहिक कर्म-पद्धति ।

इस प्रसङ्ग में हम संक्षेप से १२ वें काण्ड के आधार पर प्राचीन सूत्र-कारों की बनाई कर्मकाण्ड-पद्धति की आलोचना करना आवश्यक समझते हैं । इस पद्धति से वर्तमान की प्रचलित पद्धतियों की तुलना की जा सकती है । यद्यपि इस पद्धति में सभी पदार्थ ग्राह्य एवं उपयोगी हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता । और न उनके सभी अभिप्रायों और संकेतों को ही भ्रमीतक हनने स्पष्ट जाना है तो भी अगले विचारक उनमें से कदा-चिन् कोई चमत्कार या विशेष तत्त्वपूर्ण सौन्दर्य प्राप्त कर सकें, केवल इस आशा से उनका ब्रह्मेख करना उचित समझते हैं ।

देहपात होजाने पर शरीर जीवरहित शव होजाता है प्राचीन कल्पसूत्र-कार ऋषियों ने १२वें काण्ड के मन्त्रों को उस शव की श्मशान-क्रिया और और्ध्वदैहिक क्रियाओं में नीचे लिखे प्रकार से विनियुक्त किया है ।

(१) चिता—जिस स्थान पर शव को दहन करना होता है वक्र काण्ड के सूत्र (२।३७) से उस स्थान को साफ करना और कम्पील वृक्ष की शाखा में वहां जल छिड़कना । (१। ४४) से उस स्थान पर चिता को माप कर चिह्न लगाना । (२।३७-४६) दहन स्थान को मापना । (१।४४) से चिता नोदना । (४। २५) से सलाखों या ईंटों से दहन स्थान को कूट कर सन करना । (३। ४६), (३। २४—३५) और (२।५०) से सलाखों या ईंटों को चुनना (१। ४६-४८, ५१), (३। ४५, ४६) और (४। ६८) से चिता के गढ़े में दान बिछाना । (१। ५२) से उस पर तिल छिड़कना ।

(२) शव—(२। १६-२१) से मरणासन्न के शरीर को नीचे कुशाओं पर धरना । (२। १-३), (३। ८) से प्रेत को उठाना । (२। ५७) से शव को कफन से टकना । (३। ६) से शव के शरीर को हिलाया हुआ । (२। ४८-४९), (१। ५४) से शव को उठाकर गाड़ी, शकट या अर्थी पर रखना । (४। ४६) से शव-वाहक शकट के

वैलों को देखना, पुचकारना । (२ । ५९) से गाढ़ी में वैलों का जोड़ना । (२ । ११-१८) इन्ने आठ मन्त्रों को मार्ग में शव शरीर को लेजाते हुए पढ़ना । (३ । ४४-४५) से दाभ बिछाना । (२ । १६-२१) से श्मशान में पहुँच कर शव को नीचे उतार कर दाभ पर धरना । (३ । २१-२४) को शव के समीप लोगों का आकर पढ़ना । (३ । ५५) से जलने की चिता को जल से छिड़कना । (३ । ४१-४२), (४ । ८८), (३ । ४७-४८), (२ । ३४-३५) से चिता में काष्ठों का चयन करना । इसी प्रकार (४।४१), (३ । ४१, ४७, ४८) से भी काष्ठ चयन करना और शव को उठाकर चिता में धरना । (३ । ५३-५४), (४ । ५, ६) से आहिताग्नि के यज्ञ पात्रों को शव के ऊपर यथास्थान रखना । (४ । ११-१५) से चिता पर रखे शव के समीप वन्धुओं का (४ । ११-१५) पाठ करना ।

(३) चरु—(४ । १६-२४) से ६ प्रकार के चरुओं का दाभों पर स्थापन । (४ । ५३, ५४) चरुपात्रों का पलाश पत्रों से ढक कर रखना । (४ । ५६) शव के हाथ में सुवर्णका देना । अग्निदान, शव के हाथों का पोछना । (२ । ५६, ६०) से क्रम से ब्राह्मण और क्षत्रिय शव के हाथ से वेदयाष्टि और धनुष् को पुत्र द्वारा ग्रहण करना । (२ । ५८) से मात छिद्र युक्त गोवृत् के पात्र से प्रेतमुख को ढकना । (३ । १) से चिता में प्रेत की स्त्री का लटाना । (३ । २) से स्त्री को उसके पुत्र द्वारा हाथ पकड़ कर उठाना । (३ । ३-४), अनुस्तरणी गौ का अभिमन्त्रण और शव की परिक्रमा करना । (२ । २२) (२ । ८, ९) से बकरे को चिता के इतने समीप बांधना कि वह आग के साथ जल जाय । (२ । ११-१३) में गौ पशु के दांतों वृकभागों को प्रेत के हाथों पर रखना । (४ । ३१) से वस्त्र को लेकर प्रेत का मुख ढकना ।

(४) धिनादहन—(१ । ५६-५७) से अग्नि जलाना । (३ । ७१) से अग्नि को ब्रह्मना । (३ । २७) से घृताहुति देना । अग्नि दान के पश्चात्

(१ । ७१, २३), (३ । २४-३७), (४ । ४५-५५) से वृत्र से पुत्र का सारस्वत होम और (३ । ४०) से जलते हुए शत्रु के पास प्रार्थना करना । (२ । ४६, २०) जलते हुए शरीर पर धान्य होम करना (२ । ३६), (१ । ५५-६४) से प्रेत के शरीर पर धान्य होम करना । (१ । ५-७) से अधिदान के पश्चात् गोत्र वालों का आग को बढ़ाना और अधिक तीव्र करना । (१ । ४-१२) से शरीर के जलते मन्य वस्तुओं का चित्रा के समीप आकर प्रार्थना करना । अथवा ३२ वें समस्त काण्ड का ७, ९, ११, १५ इत्यादि विषम संख्या वाले ब्राह्मणों में पाठ करना अथवा वृत्राहुति होम करना । (३ । १७) से शवेदहन के दिन बड़ा तोड़ना ।

(२) दहन के बाद—(३ । २६), (४ । ६६) से स्नान करना । (२ । ३२) से स्नानोत्तर नद्यं पार करना ।

(३) अस्थि-चयन—(४ । ५२) से अस्थियों का संचय करना । (३ । ५), (३ । ६०) से नाना ओषधियों से मिले जलों में अस्थियों का घोलना । (४ । ३६) से हड्डियों को मङ्गल वार पात्र से अभिरक्ष । (२ । १९) से अस्थि के लण्डों को देव्यकर मन्त्र पाठ करना । (३ । ६७) (४ । ३३, ३६, ३४, ४२) से अस्थियों पर तिल और घाणी छिड़कना । (३ । ११-१२) से इन छोट मन्त्रों से हड्डियों को एक कक्ष में रखकर गाड़ने के लिये लेजाना । (१ । २२) से अस्थियों का त्रिदशैर् लोके पर रखना, पूर्ववत् सुभिक्षान्त, अभिमन्त्रण और चयन करना । (४ । ५१७०) से अस्थियों का गड़े में रखना । (३ । ७२) से अस्थियों के समीप वी, मयु रखना ।

(७) पिरुडदान—(३ । १०-११) से आचमन करना । (३ । १२) से श्राप घोलना । (२-१२, २६, ७२) से पिरुडों पर वृत्र संचय करना । (४ । ६२) पिरुडों के लिये कुण्ड विद्धना । (४ । ७०-७२) पिरुडदान । (४ । ६१) से पिरुडोंस्थान के बाद परिषेक । (४ । ६२), (३ । १९) से त्रिदशैर्जन ।

(२) विग्रेय—(१।१६) से दो जलती लकड़ी लेना । उनमें से एक को (२ । २२) से परे फेंकना । या (४ । ३२) से एक को धूल में फेंक देना । दूसरे को धूलि में गाढ़ देना । (४।७०-७२) और (३ । ६२) को स्वस्ति के लिये सायं प्रातः पाठ करना ।

(३) दक्षिणा—(४ । १०) से दक्षिणारूप में गौ देना ।

(४) पद्धति-ममीक्षा ।

पद्धति का सामान्य रूप से यह दिग्दर्शनमात्र है । जिसमें से प्रायः अधिकांश अभी तक प्रयोग में आता है । परन्तु मन्त्र-पाठ में प्रायः भेद है । शव को कन्धों पर न लेजाकर गाड़ी पर लेजाना अच्छा है । बंगाल में अभी चारपाई पर ढालकर लेजाते हैं । मुसलमानों में भी चारपाई पर लेजाते हैं । अर्थात् या रथी या विमान आदि की कल्पना अर्वाचीन प्रतीत होती है । प्राचीन रीति शकट और शयन या चारपाई पर लेजाने की प्रतीत होती है । गाड़ी पर ईसाइयों का शव को लेजाना आर्ष-प्रयोग का अनुकरण है । इसका प्रचार होना उत्तम है । लेजाते समय गृहसूत्रों में यम-गाथा के गान का विधान है । इस पद्धति में भी (२ । ११-१२) इन आठ ऋचाओं को पढ़ना चाहिये । वे 'हरिणी ऋचा' कहाती हैं, क्योंकि इन से मुर्दे को लेजाया जाता है । चिनामापन, शयन आदि बहुतसे काम बिना मन्त्र के कर लिये जाते हैं । अच्छा हो कि उनको भी मन्त्र सहित किया जाय । इससे वेद की रक्षा होगी ।

कुछ विधियाँ अभिप्राय सहित हैं । जैसे दो में से एक जलती लकड़ी को फेंकना, धूल में डाल देना । इसमें स्त्री पुरुष के जोड़े में से एक का नृत्य से झुक कर मही में मिल जाना सूचित होता है, घड़े का तोड़ना शरीर के नष्ट होजाने का सूचक है ।

अज-बन्धन और टमका जलाना आत्मा के शरीर के जलने का सूचक है । अनुस्तरणी गौ टमकी स्त्री की प्रतिनिधि है । यह विधि कदाचित् सती दाह की विधि चक्र जाने के बाद मूर्च्छता और स्वार्थ से उसके विकल्प में पूर्ति

के लिये शुरू हुई प्रतीत होती है । वह अर्वाचान प्रतीत होती है । जिन वेद-मन्त्रोंको इस कर्ममें विनियुक्त किया गया है उनका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार स्त्री के जलाये जाने को भी समझना चाहिये । प्रस्तुत भाष्यमें से संदेह निवारण कर लेना चाहिये । हमारा विचार है कि चाहे कौशिकादि कल्पोक्त कर्मकाण्ड विधि किन्हीं ही प्राचीन क्यों हो, तो भी एकदेशी ही है क्योंकि इससे भिन्न २ विधियाँ भी अन्य गृह्यसूत्रों में देखी जाती हैं । इसलिये इन पद्धतियों में हमें उपोदय अंश ले लेना चाहिये और त्याज्य अंश को उपेक्षा कर देनी चाहिये । मन्त्र अपन भीतर विनियोग होने के लिये विशेष हेतु नहीं रखता । मन्त्र तो केवल अर्थ का स्मारक है । उनमें मानव-जीवन के कर्तव्यों का ही अधिकतर निर्देश है । जिनका स्मरण मृत्यु के अवसरपर कराना राचित है जिससे मनुष्य अपने जीवनपर उत्तम विचार करे और कर्तव्य को न भूले ।

(५) सतीदाह और अनुस्तरणी ।

पद्धति में (३ । ३) मन्त्र का विनियोग मृत पति की स्त्री को पति के चिता में बैठने का दे रक्ता है । इससे संदेह होता है कि क्या वेद-मन्त्र सतीदाह की आज्ञा देता है । सायण ने विनियोग लिखा है कि—‘आद्यया चितौ भार्या प्रेतैः सह संवशयेत् ।’ प्रथम अच्चा से चिता में भार्या को मृत पुरुष के साथ लेटा दे । मन्त्रपाठ इस प्रकार है—

इयं नारी पतिलोकं वृणाना निपद्यत उप त्वा मर्त्य प्रेतम् ।

अमं पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां ददियं चेह धेहि ॥

“यह नारी पतिलोक का वरण करती, हुई, पुराण धर्म का पालन करती हुई, तुम्हें मृत पुरुष के पास आती है तू उसको यहाँ प्रजा और धन प्रदान कर।” इस वाक्य-रचना से स्त्री को जला देने का अर्थ कैसे निकाला जाना है यह आश्चर्यजनक है । सायणाचार्य ने ‘पतिलोक’ का अर्थ लिया है याग, दान, होनादि से प्राप्त स्वर्गादि फल । ‘निपद्यत’ का अर्थ ‘नितरा

गच्छति' कह कर भी 'अनुसरणार्थं प्राप्नोति इत्यर्थः ।' यह अपनी तरफ से मिला दिया है । 'पुराणधर्म' से स्मृति पुराणादि प्रसिद्ध अनुमरण' लिया है । 'इह' शब्द से इस भूलोक और जन्मान्तर और लोकान्तर भी ले लिये हैं । अर्थात् वह मृत-पति उस स्त्री को इस लोक में भी पुत्र, धनादि दे और जन्मान्तर में भी पुत्रादि दे । इसमें हेतु सायण देते हैं कि—'अनुसरण' के प्रभाव से जन्मान्तर में भी वही उस स्त्री का पति होता है ।

इस तरह का वेदार्थ युक्तिविरुद्ध है । क्योंकि—(१) यदि पति के आचार और कर्म उसको नीच योनि में लेजाने वाले हुए और स्त्री पुर्याचार से अन्य लोक को पाई तो दोनों का सहयोग असम्भव है । (२) पत्नी के अनुमरण से वह ही उसको पति होगा यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि हमसे स्त्री के किये का पति भोगे, यह 'अकृताभ्यागमं दोष' आता है ।

इसलिये स्पष्ट तो विनियोग ऐसा प्रतीत होता है कि शोकतुर स्त्री उस समय चिन्ता के पास आती थी और शोक प्रकट करती या अन्तिम दर्शन करती थी । उस समय वह पति के मर जाने पर पति के सर्वस्व की उत्तराधिकारिणी बनती थी । पुराने आचार के अनुसार धर्माचरण पूर्वक रहती हुई मृत-पुरुष के प्रजा और ऐश्वर्य की स्वामिनी बनती थी । इसको पद्धति रूप में कर दिया जाता था । यही बात (३ । ३) मन्त्र में स्पष्ट होती है । जिसको सायण या पूर्व के पद्धतिकार ने अनुस्तरणी गौ को लाने में विनियोग कर दिया है । वह भी मन्त्र के आशय के विपरीत अनर्थकारी पद्धति चलाई है । इन मन्त्रों का सरल स्पष्टार्थ प्रस्तुत भाष्य में देखें ।

पिण्डदानादि का कार्य भी केवल कल्पनामात्र है । इसमें शरीर के अन्न द्वारा पोषण होने और एक शरीर से सन्तानों के शरीर की उत्पत्ति एवं पुत्रों के द्वारा अपने वृद्ध माता पिताओं के प्रति कर्तव्यों का निर्देश है । पिण्डदान में उसका अभिनयमात्र कर लिया जाता है । जो पीढ़े से कल्पित प्रतीत होता है । वेद में साक्षात् उसका कोई वर्णन नहीं है, इसलिये मान्य भी

नहीं है। इससे गतात्मा का भी कोई उपकार नहीं है। इस सारे विधान में १८वें काण्ड के वेद-मन्त्रों द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करना गतात्मा को शान्ति देता है। इसी से बन्धु बान्धवों को भी धैर्य प्राप्त होता है।

(६) कुन्तापसूक्त ।

२०वें काण्ड के १२७वें सूक्त से लेकर १३६वें सूक्त तक सामान्यतः कुन्तापसूक्त कहाते हैं। इनको छोड़कर शेष सब सूक्त न्यूनाधिक पाठभेद में ऋग्वेद में भी पठित हैं और कुन्तापसूक्तों का पाठ भी ऋग्वेद के परिशिष्ट में पढ़ा गया है। उनके सम्बन्ध में हम इतना कहना उचित समझते हैं कि कुन्तापसूक्तों का पाठ जो श्री पं० शंकर पाण्डुरंग ने स्वीकार किया है, जो चम्बई के निर्णयसागर में छपा है उससे अर्थ स्फुट नहीं होता। इसके प्रतिरिक्त ऋग्वेद 'परिशिष्ट' गत पाठ भी उससे बड़ा भिन्न है। श्री राय, श्री द्विदनी और श्री सेवकलाल के छपाये अथर्ववेद के भीतर कुन्तापसूक्तों का पाठ बहुत अधिक शुद्ध और स्फुटार्थ है उसी को हमने स्वीकार किया है। पं० चेमकरणजी ने अपना भाष्य शंकर पाण्डुरंगसम्मत मूल पाठ को लेकर किया है। विद्वान् पटक स्वयं तुलना करेंगे।

पैतरेय ब्राह्मण के अनुसार कुन्ताप सूक्तों में केवल ३० ऋचाओं का समावेश है। जिसमें ६ नाराशंसी, ३ रैभी, ४ पारीक्षित, ४ कारव्य, ५ त्रिशांक्वृषि, ६ जनकरूप और ५ इन्द्रगाथा हैं। ये ही 'कुन्ताप' सूक्त कहाते हैं। इसके अनन्तर ७० पद पैतृशप्रलाप कहे जाते हैं जिनको योग विभाग द्वारा ७६ पद बना कर (सू० १२६-३२) अथर्ववेदी पढ़ते हैं। इसके अनन्तर ६ प्रवर्णिहकापुं [१३३], ६ आजिज्ञासेन्यापुं [१३४], ३ प्रतिराधा, १ अनिवाद, २ देवनीथ नामक ऋचा हैं, बाद में ३ भूतेच्छद्, इसके अनन्तर १६ आहनस्या ऋचापुं हैं इन सबको अथर्ववेदी साहचर्य से कुन्ताप-सूक्तों के नाम से ही व्यवहृत कर लेते हैं।

(७) ऐतश-प्रलाप ।

इन कुन्ताप सूत्रों में ऐतशप्रलाप के विषय में ऐतरेय ब्राह्मणकार महीदास ने लिखा है कि—

ऐतशो ह मुनिरग्नेरायुर्ददर्श । यज्ञस्यापातयामनिति हैक आहुः सोऽत्रवीत् पुत्रान्, पुत्रकाः अग्नेरायुरदर्शं तद्भिल्लपिप्यामि यत्किं च वदामि तन्मे मा परिगातेति स प्रत्यपद्यतेता अश्वा आप्रवन्ते प्रतीपं प्रातिसत्त्वनमिति तस्यान्य-
ग्निरैतशायनः पृत्याऽकालेऽभिहाय सुखमप्यगृहाद् अट्टपन्नः पितेति ॥ तं होवाचापेह्यलसोऽभूयो मे वाचमवधीः । शतायुं गानकार्षिं सहस्रायुं पुरुषम् । आपिष्टां ते प्रजां करिष्यामि यो मे इत्यमसवधाः इति । तस्मादाहुरन्यन्नप-
ऐतशायना और्वाणां पापिष्टाः ।

अर्थ—“ऐतश मुनि ने अग्नि की आयु का साक्षात् किया। कोई इस मन्त्र-
कारण को यज्ञ का ‘अपातयाम’ कहते हैं। ऐतशमुनि ने पुत्रों को कहा—
हे पुत्रो ! मैंने अग्नि की आयु का साक्षात् दर्शन किया है। वह मैं कहूंगा।
मैं जो कुछ भी कहूँ उसको बुरा मत कहना। उसने कहना प्रारम्भ किया
‘पृता अश्वा आप्रवन्ते’ इत्यादि (सू० १२६-१३२)। ऐतश के अन्वग्नि
नामक पुत्र ने बीच ही में उठकर पिता का मुख पकड़ लिया। कहा कि—
हमारा पिता पागल होगया है। इसपर पिताने कहा—पुत्र ! दूर हो, तू मेरे
वचन समझने में नन्द है ? इसी से मेरी चाली को तूने बीच ही में नारा
किया है। मैं ‘गौ’ को १०० बरस और ननुष्य को १००० वर्ष की आयु
वाला कर सकता हूँ, परन्तु तूने मुझे बीच में इस प्रकार टोका है इसलिये
तेरी सन्तान को बहुत पापयुक्त पतित ठहराता हूँ। इसीसे और्व कुत्र में
ऐतशायन सबसे अधिक पतित कहे जाते हैं।”

इस कथा की सत्यता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह
कहना कि ये वचन ऐतश मुनि के स्वयं गढ़े हुए हैं ऐसा नहीं माना जा

मकता । सायण ने अपने भाष्य में अलसो भूयों मे.वाचमवधीः' इसका व्याख्यान करते हुए लिखा है—'अहमुन्मत्त इति तव बुद्धिर्नत्वहमुन्मत्तः किन्तु मन्त्रकाण्डमीदृशम् ।' हे पुत्र तू समझता है कि मैं उन्मत्त होगया हूं. परन्तु नहीं । मैं उन्मत्त नहीं । मन्त्रकाण्ड ही ऐसा है ? इससे प्रतीत होता है कि ऐतश मुनि तो द्रष्टामात्र हैं । मन्त्र तो पूर्व से ही विद्यमान थे । इस मन्त्र काण्ड के पूर्व 'पुता अथाः' ये पद होने से ही कदाचिद् उस सूत्र के दृष्टा ऋषि का नाम भी 'ऐतश' है ।

(८) आहनस्या ऋचाएं ।

सूत्र १३६ की १६ ऋचाएं 'आहनस्या' कहाती हैं । इनके सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है—आहनस्याद्वै रेतः सिच्यते । रेतसः प्रजाः प्रजायन्ते । (ऐत० ब्रा० १, ३०।१०) इस पर सायण का भाष्य है—'आहननं स्त्रीपुरुषयोः परस्परसंयोगः । तद्वत् प्रजोत्पत्तिहेतुत्वात् ऋचोऽप्याहनस्याः । आहनस्यं मिथुनमित्युक्तं ।'

अर्थात्—आहनस्य से वीर्य सेचन किया जाता है । वीर्य से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं । स्त्री पुरुषों का परस्पर संयोग 'आहनन' कहाता है । उसी प्रकार प्रजोत्पत्ति के कारण होने से ये ऋचाएं 'आहनस्या' हैं ।

इस आधार पर विचार करने से यह सूत्र प्रजोत्पत्ति के गूढ़ रहस्यों का भी वर्णन करता है । परन्तु हमने प्रस्तुत भाष्य में प्रजोत्पत्ति पक्ष पर विशेष प्रकाश नहीं डाला । हमने कई कारणों से राष्ट्र-पक्ष में ही इसकी व्याख्या की है । इन सूत्रों के विषय में यांरोपियन पण्डितों ने बड़ी ओछी कल्पनाएं की हैं । उनको ये सूत्र अरलीज प्रतीत होते हैं । जैसे पं० ब्लूमफील्ड ने इन सूत्रों के विषय में कुसित, शमल, अनून आदि शब्दों का प्रयोग किया है । यह प्रभाव उनके चित्त पर पतित कालों के बने कर्म-काण्डों से उत्पन्न हुआ है । हमारा विचार उनसे भिन्न है । जिस प्रकार गर्भ-विज्ञान, काम-विज्ञान और प्रजनन-विज्ञान के शास्त्रीय भाग को

विशुद्ध दृष्टि वाले विशुद्ध रूप से देखते हैं और पतित प्रवृत्ति वाले उन ही ग्रन्थों से अपने दुर्भाव तृष्णा की पूर्ति भी करते हैं उसी प्रकार इन सूक्तों को भी दुरुपयोग किया गया है। इन सूक्तों और इसी प्रकार वेदों के अन्तर्गत अन्य भी कतिपय सूक्तों के विशुद्ध ज्ञानप्रदर्शक भाष्य होने की बड़ी आवश्यकता है। उक्त सभी सूक्तों की मूलसंहिता के पाठ पर भी विद्वानों को श्रम करना चाहिये। हमने यथामति संहिता का शुद्ध पाठ रखने का प्रयत्न किया है परन्तु तो भी चित्त को सन्तोष नहीं हुआ है। इसी प्रकार भाष्य में भी बहुतसे अस्पष्ट और सन्देह युक्त स्थल हैं जिन पर और अधिक विचार अपेक्षित है।

(६) समाधान ।

पूर्व प्रकाशित तीन खण्डों के भाष्यों पर कुछ एक महानुभावों ने कुछ आक्षेप उपस्थित किये हैं। हम उनका समाधान वाचकों को संक्षेप में देना उचित समझते हैं। जैसे—

(१) आ०—[का०४। सू०३४] में त्रिष्टरी ओदन का वर्णन है। २य मन्त्र के भाष्य पर कुछ एक को यह आपत्ति है कि "मुक्त पुरुषों के सुख प्राप्ति के साधन सामर्थ्य दग्ध क्यों नहीं होते ? और उनको मुक्ति में बहुत से भोग्य-लोक कैसे प्राप्त होते हैं ?

समाधान—उन महानुभावों के लिये मैंने उसी स्थल पर छान्दोग्य उपनिषद् का उद्धरण देकर अपना अभिप्राय स्पष्ट किया है। शेष रहा मुक्तों के पास इन्द्रियों के सामर्थ्य सूक्ष्मरूप से रहते हैं या नहीं ? इसका उत्तर यही है कि लिङ्ग शरीर में सभी सामर्थ्य रहते हैं। और उनसे वे मुक्त जीव यथेच्छ सुखों को प्राप्त भी करते हैं। यही उपनिषदों का सिद्धान्त है। देखो छान्दोग्य अ० ८। १। ६ तथा ८। २। १-१० ॥

य इह आत्मानमनुविद्य व्रजन्ति एताश्च सत्यान् कामाँस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ।

भोग्यलोकों का निदर्शन देखिये—छान्दोग्य उप० अ० ८।२।
 १-१०॥ स यदि पितृलोककामो भवति० । स यदि मानृलोककामो भवति० ।
 न यदि गीतवादितलोककामो भवति० । अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति
 संकल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकंन सम्पन्नो महीयते । अं यम-
 न्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन
 सम्पन्नो महीयते ।

इसमें संदेह नहीं कि ये भोग्यलोक मुक्तात्मा के संकल्प बल से ही उत्पन्न
 होते और संकल्प द्वारा ही भोग्य हैं । कर्मफल रूप से भोग्य नहीं हैं ।
 इसी तत्व को भगवान् बादरायण ने वेदान्तदर्शन अ० ३ । पा० १ और २
 में भी दर्शाया है । पाठक उसका अध्ययन करें । इसी प्रकार मुक्तात्मा को
 स्वरूप 'परं ज्योति' की प्राप्ति है । उस दशा में भी लिखा है—

“पुंवमेवैष संप्रसादोऽस्मान् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य
 स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । स उत्तमः पुरुषः । स तत्र पर्येति जज्ञन् क्रीडन्
 रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा ।”

यहां भी ये सब रमण योग्य पदार्थ संकल्पासिद्ध ही हैं ।

कह्यों को संदेह है कि यहां 'स्वर्ग' शब्द मुक्ति का वाचक नहीं है ।
 यह उनका भ्रम है । सुख प्राप्त कराने वाला लोक ही स्वर्ग है । मुक्ति में
 सुख होने से ब्रह्मलोक 'स्वर्ग' नाम से कहा गया है । इसी को 'सम्य'
 लोक भी कहा है जिसकी व्याख्या करते हुए छान्दोग्य उप० में लिखा है—

अथ य एष संप्रसादोऽस्मान् शरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन
 रूपेणाभिनिष्पद्यते । एष आत्मेति होवाचैतदमृतमयमेतद् ब्रह्मेति । तस्य ह वा
 पुनस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति तानि ह वा प्तानि त्रीण्यक्षराणि 'सर्तीयन्'
 इति तद् यत् सत्तदमृतमय यत् 'ती' तन्मर्त्यम् । अथ यत् 'यं' तेन उभे
 यच्छति । यदनेन उभे यच्छति तस्माद् 'यम्' । अहरहर्वा एवंचित् स्वर्ग
 लोकमेति ।

इसी प्रकार और भी अधिक प्रमाण संग्रह किये जा सकते हैं । विस्तार-
भय से नहीं लिखते । विद्वान् इतने से ही सन्तोष करेंगे । इति दिक् ॥

(२) आ०—'पुनर्दाय ब्रह्मजायां०' [का०५।सू०१६ १५] इसके भाष्य पर
यह आक्षेप है कि स्त्री को पुनः दान करते समय उसके पुत्रादि सन्ततियों
या सन्पत्ति का पूर्व पतियों में विभाग कैसा ! इससे एक स्त्री के बहु
पतित्वादि दोष आते हैं ।

समाधान—कन्या का पुनर्दान का विधान स्मृतिकारों की दृष्टि में अपूर्व
झूठी है । पूर्व मन्त्र के भाष्य में कात्यायन का उद्धरण देखने योग्य है ।
सम्पन्न और पुत्रवती कन्याओं के पुनः दान के अवसर पर धन और सन्नि-
के लिये विवाद होना सम्भव हो सकता है । जैसे बृहस्पति की स्त्री तारा को
पुनः बृहस्पति के हाथ देते समय पुत्र बुध के लिये चन्द्र ने विवाद किया
और देवसभा ने उसका निर्णय किया । वह चन्द्र के वीर्य से उत्पन्न होने
के कारण चन्द्र का पुत्र कहाया । परन्तु देव रूप से स्त्रीप्रायश्चित्त के बाद
निर्दोष की जाकर बृहस्पति के हाथ पुनः दी गई । यद्यपि यह कथा पौराणिक
पूर्व कल्पित है । तथापि ऐसी घटनाएँ सम्भव हैं ? स्मृतियों (मनु६७६) में
प्रोषित पति स्त्री को ३, ६, ८, १२ वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अन्य पुरुष के वर
का आज्ञा है । यदि भाग्यवश उसका पूर्व पति पुनः आज्ञाय और स्त्री पर
अपना अधिकार करे तो वहाँ भी उसका निर्णय पृथ्वी के समान ही होगा ।
जिस प्रकार भूमि के नये स्वामी के हाथ में देने से पूर्व उसके विषय में
उठने वाले पूर्व स्वामियों के विवादों को दूर करना एवं उस भूमि में उत्पन्न
अज्ञादि सन्पत्ति का विभाग करना आवश्यक है उसी प्रकार पुनः नये हाथों
में स्त्री को देते समय पूर्व स्वीकृत पुरुषों के स्त्री से उत्पन्न पुत्रों एवं स्त्री
के पास विद्यमान चर अचर सम्पत्तियों का विभाग करना एवं प्रायश्चित्त
द्वारा शोधन करना आवश्यक है । [देखो याज्ञ० ३। ५५ पर मिताक्षरा]

अन्य पक्षों में इस मन्त्र की योजना नीचे लिखे स्वर से जाननी चाहिये ।

पुनर्वै द्वा० (म० १०)—(देवाः पुनः अद्दुः) वेदवाणी को विद्वान् गण शिष्यों को पुनः प्रदान करते हैं (मनुष्याः पुनः अद्दुः) मननशील पुरुष भी ज्ञानवाणी को पुनः प्रदान करते हैं (राजानः सत्यं गृह्णानाः) राजागण भी सत्य तत्व को ग्रहण करते हुए (ब्रह्मजायाम्) ब्रह्मज्ञान के उत्पन्न करने वाली वेदवाणी का (पुनः द्दुः) पुनः २ प्रदान करें । पृथिवी पक्ष में—(देवाः मनुष्याः) विद्वान् मननशील और (राजानः) तेजस्वी राजा सभी (सत्यं गृह्णानाः) सत्य धर्म को स्वीकार करते हुए (ब्रह्मजायाम्) धर्मश्रय को उत्पन्न करने वाली भूमि को (पुनः द्दुः) पुनः अपने अगले अधिकारियों के हाथ सौंपे ।

‘पुनर्दाय०’ म० ११)— ब्रह्मजायां पुनः दाय) वेदवाणी का पुनः २ प्रदान करके (देवैः) विद्वान् पुरुष (निष्किल्बिपम् कृत्वा) दोष रहित करके शुद्ध रूप में (पृथिव्या ऊर्जं भक्त्वा) पृथिवी के समान विशाल वेदवाणी के अन्नरस के समान बलवीर्य युक्त ज्ञान का सेवन करके (उरुगामम् उपासते) परमेश्वर की उपासना करते हैं ।

पृथिवी पक्ष में—(ब्रह्मजायां) धर्मश्रय की उत्पादक पृथिवी को पुनः प्रदान करके (देवैः) दिव्य पदार्थ, वायु सूर्यादि द्वारा (पृथिव्याः ऊर्जं) पृथिवी से उत्पन्न अन्न रस को (निष्किल्बिपं कृत्वा) दोष रहित करके शुद्ध करके (भक्त्वा) पृथिवी के समान विशाल वेदवाणी के अन्न रस

के समान बलदीर्घ युक्त ज्ञान का सेवन करके (उरु गायन् उपासते) वेदवक्ता या महान् आज्ञापक राजा के आश्रय लेते हैं।

अन्य विद्वान् जन भी वेद के संदिग्ध स्थलों पर यदि प्रकाश डालें तो उनके विचारों का हम अवश्य स्वागत करेंगे।

(३) आ०—(का० १२ । सू० २। मं० ५३। पृष्ठ ३५६) एक यह आश्रय है कि—मांसाहारी जीव काला भेड़ खाता है। क्या श्वेत भेड़ नहीं खाता।

समाधान—सीसे की गोली आदि से मारने के लिये मांसाहारी जीव को लुभाने के निमित्त भेड़ बकरी आदि काला पशु ही बांधा जाता है, श्वेत नहीं। चांदनी रात में श्वेत पशु नहीं दीखता, फिर निशाना कैसे लगेगा। इसलिये गोली से मारने और उसको नष्ट कर देने के लिये तो काला पशु ही चाहिये।

(४) आ०—आगे जो गृह्योक्त विधान का आधार इस मन्त्र को बतलाया है उससे क्या अभिप्राय है ?

समा०—वह केवल अपने प्रदर्शित भाष्य से गृह्योक्त अभिप्राय की तुलना करने के लिये लिखा है कि वह कितने अज्ञान की बात है।

स्थानाभाव से विशेष नहीं लिखते। जो इसी प्रकार की अन्यान्य शक्य हैं उनका समाधान वित्त पाठक स्वयं कर लेंगे।

(६०) उपसंहार

अभी और भी अथर्ववेद के नाना विषय हैं जिन पर विस्तार से लिखने से ही उनका पूर्ण भाव स्पष्ट किया जा सकता है। परन्तु प्रस्तुत खण्डों में स्थानाभाव से हम नहीं कर सके।

वेद पर क्रिये गये आहेंदों की विस्तृत आलोचना और उसके गूढ़ रहस्यों को विस्तार से प्रतिपादन करने के लिये बड़े विशाल ग्रन्थ की अपेक्षा है। जिसका लिखा जाना कदाचित् भविष्य काल के गर्भ में है।

ग्रन्थ में मैं विद्वान् महानुभावों से सप्रेम, सानुनय निवेदन करता हूँ कि मेरे इस ग्रन्थ में नितरां लक्षों त्रुटियां होनी सम्भव हैं। धनेक स्थलों पर मेरे विचार अपरिपक्व होने सम्भव हैं। सर्व पक्षों में प्रकाश करने वाली ईश्वरीय अनाद्य वेदवाणी के परम तत्व को सर्वाङ्ग रूप से प्रकट करने में मानव बुद्धि का क्या सामर्थ्य? तो भी इतना ही निवेदन है कि विद्वान्जन मेरे इस प्रवास में विचार और भाषा सम्बन्धी और सिद्धान्त और प्रमाण सम्बन्धी जिन त्रुटियों को भी दर्शावेंगे या वेद मन्त्रों पर जो भी स्वतन्त्र विचार प्रकट करेंगे मैं उनके उस उपकार के लिये कृतज्ञ होऊँगा। यदि मेरे जीवन काल में इस ग्रन्थ का पुनः संस्करण हुआ तो उनको यथा-प्रमाण सुधार कर विद्वानों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट कर सकूँगा और इस वेदाध्ययनरूप तप और वेदाचिन्तनरूप ज्ञान यज्ञ में सफल हो सकूँगा।

गुण ग्रहण करने में हंसस्वभाव को दर्शाने वाले महानुभाव गुण ग्रहण करने में तत्परता दिखायेंगे ही। यही सदा आशा है। और जो इस से विरगित केवल श्रेय-दर्शन करके व्यर्थ के निन्दा और कड़ह के प्रवाहों को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं उनके प्रति हमारा यही निवेदन है कि—

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्ववन्तं

अनन्तु ते किमपि, तान् प्रति नेप यन्तः ॥

अन्त में:—भट्ट कुमारिल के शब्दों में—

आगमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्वल्पज्ञापि ।


नहि सद्दर्शना गच्छन् स्खलितेष्वप्यपोद्यते ॥

अंजनेर, कैसरगंज,
क्षेत्र शुक्ला चतुर्दशी,
१६२७ विक्रमाब्द

विद्वानों का अनुचर—

जयदेव शर्मा

चियालंकार, सीमांसारार्थ



विषयसूची ।

भूमिका ।

प्रकरण	विषय	पृष्ठाङ्क
(१)	यमयन्त्रा संवाद	१
(२)	पितृगण	५
(३)	प्रेतद्रोह और और्वद्वैदिक क्रम पद्धति	६
(४)	पद्धति समीक्षा	१२
(५)	सर्वाद्रोह और अनुस्तरणी	१३
(६)	कुन्तापसूत्र	१५
(७)	पुत्रश प्रलाप	१६
(८)	आहनग्या आचार्य	१७
(९)	आहुष समाधान	१८
(१०)	उपसंहार	२२

सूक्तसंख्या

अष्टादशं कारणम् ।

१.	सन्तान के निमित्त पति-पत्नी का परस्पर व्यवहार	१
	परमेश्वर और वेदवाणी	१०
	सरस्वती रूप से परमेश्वर की स्तुति	२२
	पितृगण का वर्णन	२४
२.	पुरुष को सदाचारमय जीवन का उपदेश	३३
	आचार्य और शिष्य का कर्तव्य	३५
३.	स्त्री पुरुषों के धर्म	५६
	सूनपति स्त्री का अधिकार	६०
	पति के मरने पर पुत्र और स्त्री के लिये आज्ञा	६०
	परिनात्मक पुरुष का स्वरूप	६२
	अधिकारियों की पदों पर नियुक्ति	६५

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठाङ्क
	राजा और प्रजा का परस्पर व्यवहार स्त्रियों के कर्त्तव्य	७७ ८८
४.	देवयान और पितृयाण	९७

एकोनविंश कारण्डम् ।

१	यज्ञ के रूप से राष्ट्र की वृद्धि का उपदेश	१३६
२	शान्तिदायक जलों का वर्णन	१४०
३	जातवेदा अग्नि और परमेश्वर का वर्णन	१४३
४	वाणी और आकृति का वर्णन	१४५
५	उपास्य देव	१४८
६	महान् पुरुष का वर्णन	१४९
७	नक्षत्रों का वर्णन	१६१, १६३
८-१२	सुख आन्ति की प्रार्थना	१६६, १७४, १८१
१३	इन्द्र, राजा और सेनापति का वर्णन	१८६
१४	द्वेषरहित होकर अभय की प्राप्ति	१९२
१५	अभय की प्रार्थना	१९३
१६	अभय और रक्षा की प्रार्थना	१९६
१७—२०	रक्षा की प्रार्थना	१९७, २००, २०३, २०६
२१	छन्दों का वर्णन	२०८
२२, २३	अथर्व सूक्तों का संग्रह	२०९, २१३
२५	अश्व, वेगवान् यन्त्र या मृत्यु का वर्णन	२१९
२६	वीर्यरक्षा और आरमज्ञान	२१९
२७	जीवनरक्षा	२२२
२८	शत्रुनाशक सेनापति दर्भमाणि का वर्णन	२२०
२९, ३०	शत्रु का उच्छेदन	२३३, २३४
३१	उदुम्बरमाणि के रूप में अन्नाध्यक्ष पुष्टपति का वर्णन	२३७
३२	शत्रु दमनकारी दर्भ नामक सेनापति	२४३

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठाङ्क
३३	दर्भ, अग्नि नामक अनियुक्त राजा	२४८
३४, ३५	जांगिड नामक रथक का वर्णन	२५१, २५२
३६	शतवार नामक वीर सेनापति का वर्णन	२६०
३७	वीर्य, बल की प्राप्ति	२६३
३८	राजयज्ञा नाशक गुग्गुलु औषधि	२६६
३९	कुष्ठ नामक औषधि	२६७
४०	निर्दोष भेषादी, ज्ञानी होने की प्रार्थना	२७७
४१	लोकरोपकारी महापुरुषों का कर्त्तव्य	२७९
४२	ईश्वरोपासना	२७९
४३	ईश्वर से परमपद की प्रार्थना	२८२
४४	तारक आज्ञन का वर्णन	२८१
४५	रथक और विद्वान् आज्ञन	२८६
४६	अस्तृत नाम वीर पुरुष की नियुक्ति	२९१
४७, ४८	रात्रिलय ब्रह्मशक्ति और राष्ट्रशक्ति	२९६, ३०१
४९	रात्रि, परमशक्ति का वर्णन	३०६
५०	रात्रि लय राजशक्ति से दुष्ट दमन करने की प्रार्थना	३१६
५१	आत्म-साधना	३१६
५२	'काम' परमेश्वर	३२०
५३	'काल' परमेश्वर	३२३
५४	कालरूप परमशक्ति	३२६
५५	परमेश्वर की प्रातः सायं उपासना	३२९
५६	विद्वान् को अप्रमाद का उपदेश	३३६
५७	आजस्य प्रमाद को दूर करने का उपाय	३४०
५८	दीर्घ और सुखी जीवन का उपाय	३४४
५९	विद्वानों की सेवा और अनुसरण की आज्ञा	३४८
६०	शरीर के अंगों में शक्तियों की याचना	३४९

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठाङ्क
६१	सुख, शक्ति की प्रार्थना	३५१
६२	सर्वप्रिय होने की प्रार्थना	३५१
६३	ज्ञान और आयु आदि सम्पदाओं की याचना	३५२
६४	आचार्य और परमेश्वर से ज्ञान और दीर्घायु की प्राप्ति	३५२
६५	उच्चपद प्राप्ति के साधन का उपदेश	३५४
६६	दुष्टदमन और प्रजापालन	३५५
६७	दीर्घजीवन की प्रार्थना	३५६
६८	वेदज्ञान प्राप्ति का उपदेश	३५७
६९, ७०	पूर्णायु प्राप्ति का उपदेश	३५८, ३५९
७१	वेद माता की स्तुति, आयु आदि की प्राप्ति	३५९
७२	परमात्मा का वर्णन	३६०

विंश काण्डम् ।

१—१२	राजा, परमेश्वर और परमेश्वर की उपासना	३६२, ३६६
१३	राजा के राज्य की व्यवस्था	३६७
१४	राजा का वर्णन	३६८
१५	विद्युत् राजा और परमेश्वर	३७१
१६	परमेश्वर की उपासना और वेदवाणियों का प्रकाशित होना	३७६
१७, १८	परमेश्वरोपासना स्तुति	४११, ४२२
१९	परमेश्वर और राजा की शरण प्राप्ति	४२४
२०	परमेश्वर से प्रार्थना और सेनापति राजा का कर्त्तव्य	४२६
२१	परमेश्वर और राजा	४२८
२२—२५	राजा के कर्त्तव्य	४३४, ४३७
२६	राजा और ईश्वर का वर्णन	४४७
२७, २८	राजा के कर्त्तव्य	४५८, ४६०

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठाङ्क
३२	परमेश्वर की स्तुति	४६०
३३	राजा और परमेश्वर का वर्णन	४६२
३४	इन्द्र, परमेश्वर राजा और आत्मा का वर्णन	४६४
३५	परमेश्वर का वर्णन	४७७
३६	ईश्वर स्तुति	४८३
३७	राजा के कर्त्तव्य और परमात्मा के गुण	४८९
३८	ईश्वरस्तुति, प्रार्थना	४९६
३९	ईश्वर और राजा	४९९
४०	आत्मा और राजा	५०१
४१	आत्मा	५०२
४२	ईश्वर, राजा और आत्मा	५०५
४३	परमेश्वर से अभिलाषा योग्य ऐश्वर्य की याचना	५०६
४४	सन्नाट	५०७
४५	आत्मा, परमात्मा	५०८
४६	आत्मा और राजा	५०९
४७	ईश्वर	५१०
४८-५०	ईश्वरोपासना	५१५, ५१७, ५२०
५१	ईश्वरोपासना, आत्मदर्शन	५२१
५२	ईश्वरस्तुति	५२२
५३	ईश्वरदर्शन	५२४
५४	ईश्वरगुणगान	५२६
५५	ईश्वर से ऐश्वर्य की याचना	५२७
५६	दानशील ईश्वर	५२८
५७-५९	ईश्वरस्तुति	५२९—५३६
६०	ईश्वर और राजा का वर्णन	५३७

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठाङ्क
६१	पूर्णाानन्द परमेश्वर की स्तुति	२४०
६२	ईश्वर का स्तवन	२४२
६३-७३	राजा और ईश्वर	२४४, २६४
७४	राष्ट्ररक्षक राजा के कर्तव्य	२६४
७५	राजा और आत्मा का अभ्युदय	२६७
७६	आत्मा और राजा	२६६
७७	परमेश्वर, आचार्य, राजा	६०७
७८	राजा और परमेश्वर	६१२
७९-८२	परमेश्वर	६१४—१६
८३	राजा	६१७
८४, ८५	परमेश्वर	६१८
८६	आत्मा	६२१
८७	राजा, आत्मा	६२२
८८	परमेश्वर, सेनापति, राजा	६२७
८९	राजा, परमेश्वर	६३०
९०	राष्ट्रपालक, ईश्वर, विद्वान्	६३६
९१	विद्वान्, राजा, ईश्वर	६३८
९२	ईश्वरस्तुति	६४७
९३	ईश्वरस्तुति	६५५
९४, ९६	राजा, आत्मा और परमेश्वर	६५७—६७३
९७-९८	राजा	६७४—६७५
९९	राजा, सेनापति	६७६
१००	बलवान् राजा और आत्मा	६७७
१०१	विद्वान् राजा	६७८
१०२	परमेश्वर, राजा	६८०

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठाङ्क
१०३	परमेश्वर, विद्वान्, राजा	६८१
१०४	राजा, परमेश्वर	६८३
१०५	राजा, सेनापति	७८५
१०६	परमेश्वर	६८७
१०७	परमेश्वर	६८८
१०८	राजा, परमेश्वर	६९६
१०९	राजा, आत्मा, परमात्मा	६९९
११०	परमात्मा, आत्मा	६९४
१११	आत्मा	६९५
११२	आत्मा और राजा	६९६
११३	राजा, सूर्य और परमेश्वर	६९८
११४	राजा और आत्मा	६९९
११५	राजा, परमेश्वर	७००
११६	आत्मा, परमेश्वर, राजा	७०१
११७	राजा, आत्मा	७०२
११८	राजा	७०४
११९	इन्द्र	७०५
१२०-२१	राजा, परमेश्वर	७०६
१२२	पैशवयवान् राष्ट्र, गृहस्थ और राजा	७०८
१२३	सूर्य और राजा	७०९
१२४	परमेश्वर, राजा और आत्मा	७११
१२५	राजा	७१२
१२६	जीव, प्रकृति, परमेश्वर	७१५
१२७-१२६	कुन्दायसूक्तानि	७२६-७२६
१२७ (१)	स्तुति योग्य पुरुष का वर्णन	७२६

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठाङ्क
१२७ (२)	विद्वान् पुरुष का कर्तव्य	७३१
(३)	उत्तम राजा का स्वरूप परिचित	७३२
(४)	राजा को विद्वान् का आदेश और समृद्ध प्रजापुं	७३५
१२८ (५)	दिशाओं के नाम भेद से पुरुषों के प्रकार भेद	७३६
(६)	योग्य और अयोग्य पुरुषों का वर्णन	७३८
(७)	वीर राजा का कर्तव्य	७४२
१२९	वीर सेना और गृहस्थ में स्त्री का वर्णन	७४४
१३०	भूमि और स्त्री	७४६
१३१, १३२	राजशक्ति का वर्णन	७५३, ७५७
	ऐतश प्रलापों की अध्यात्म व्याख्या	७६१
१३३	ब्रह्म, प्रकृति विषयक ६ पहेलियां	७६६
१३४	जीव, ब्रह्म, प्रकृति (आजिज्ञासेन्याः)	७६६
१३५	.. (प्रतिराध्यः)	७७१
	.. (पद् प्रवादाः)	७७३
	.. (प्रतिराधानां प्रवादाः)	७७४
	.. (एकोतिवादः)	७७४
	दक्षिणा और विद्वानों का सत्कार (देवनीथाव्यः पदसमूहः)	७७६
	.. (भूतेच्छदः)	७७८
१३६	राजा और राजसभा के कर्तव्य (आहनत्या ऋत्रः)	७७९
१३७	राजपद	७८६
१३८	परमेश्वर और राजा	७८२
१३९	माता, पिता, विद्वान्	७८३
१४०, ४१	सत्यपालक दो अधिकारी	७८५, ७८६
१४२	वेदवाणी	७८६
१४३	विद्वानों के कर्तव्य	८०२
	समाप्त	८०६



अथर्ववेदसंहिता

अथाष्टादशं काण्डम् ।

[१] सन्तान के निमित्त पति-पत्नी का परस्पर व्यवहार ।

अथर्वा ऋषिः । यमो मन्त्रोक्ता वा देवताः । ४१, ४३ सरस्वती । ४०, रुद्रः ।
४०-४६, ५१, ५२ पितरः । ८, १५ आर्षापंक्ती । १४, ४६, ५० भुरिजः । १८, २०,
२१, २३ जगलः । ३७, ३८ परोष्णिक् । ५६, ५७, ६६ अतुष्टमः । ५६ पुरो
बृहती शेषास्त्रिष्टुम् । एकाशीत्यृचं सूक्तम् ॥

ओ चित् सखायं सख्या ववृत्यां तिरः पुरू चिदर्णवं जगन्वान् ।
पितुर्नपात्तमा दधीत वेधा अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥ १ ॥

ऋ० १० । १० । १ ॥

भा०—सन्तान का उद्देश्य । मैं स्त्री (सख्या) सखिभाव से प्रेरित हो
कर (सखायं चित्) अपने आदर योग्य सखा के समान पति को (आ
ववृत्याम् उ) ही स्वयं वरण कर चुकी हूँ । और (पुरू) और महान्
(अर्णवम् चित्) सागर के समान विस्तृत, काम्य जीवन को (तिरः)
पार (जगन्वान्) जाने हारा (वेधाः) बुद्धिमान् पुरुष (अधि क्षमि)
इस दुनियाँ में पृथ्वी के ऊपर या अपनी भूमिरूप जाया में (प्रतरम्) पुत्र

[१] १. (प्र०) 'आत्वा सखायः सख्या ववृत्युः' (द्वि०) 'अर्णवान् जगन्त्याः'
(च०) 'अस्मिन् चये प्रतरं दीधानः ।' इति साम० ।

को ही नवसागर को तैरने के साधन (दीर्घ्याः) विचारना हुआ (पितुः) कन्या के पिता के (नपातम्) नाती या अपने रिता के (नपातम्) वंश को न गिरने देने हारे वंशकर्ता सन्तान को (अधि क्षान्ति) गर्भ धारण में सन्तर्प पत्नी में (वा दधीत) आधान करे।

न ते सखां सख्यं वन्द्येतत् सलङ्गमा यद् विषुंरूपा भवाति ।

महस्पुत्रात्तो असुरस्य वीरा द्विवो घर्तारं उर्विया परिं स्यन् ॥३॥

ऋ० १० । १० । ३ ॥

भा०—हे पति ! (ते सखा) तेरा मित्रभाव से युक्त यह पति (एतत्) इस (सख्यन्) सख्य, मित्रता के भाव को (न चक्षि) क्या नहीं निभाना चाहता ? अर्थात् चाहता ही है (यत्) कि (सलङ्गमा) समान सुख, शोभा और सौभाग्य से युक्त स्त्री (विषुंरूपा) प्रजा आदि द्वारा बहुरूप (भवाति) हो जाय । क्योंकि (महः) बड़े (असुरस्य) बलवान् पुरुष के (वीराः) वीर्यावान् पुत्र ही (दिवः) द्यौलोक और (उर्विया) पृथिवी के (घर्तारः) धारण करने वाले (परिं स्यन्) देखे जाते हैं ।

उशान्ते घा ते अमृतांस एतदेकस्य चित् त्यजत् मर्त्यस्य ।

नि ते मनो मनसि घाच्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविश्याः ॥३॥

ऋ० १० । १० । ३ ॥

भा०—हे पति ! (ते) वे (अमृतांसः) अमृत, मोक्ष में प्राप्त जीवनमुक्त पुरुष (घ) भी (एतत्) यह (उशान्ति) कामना करते हैं कि (एकस्य मर्त्यस्य) प्रत्येक मनुष्य का (त्यजत् चित्) उत्तम पुत्र उत्पन्न हो । (ते मनः) तेरा मन (अस्मे मनसि) मेरे चित्त में ही (निवायि)

रक्ता है । तू (जन्तुः) पुत्र जनन में समर्थ वीर्यसेका (पतिः) मेरा पति होने के कारण तू ही (तन्वम्) मेरे शरीर में (आ विविदयाः) प्रविष्ट हो । मेरे साथ संग कर और पुत्र लाभ कर ।

न यत् पुरा चकृमां कद्धं नूनमुतं वदन्तो अचृतं रपेम ।

गन्धर्वो अण्वप्या च योपा सा नौ नाभिः परमं जामि तन्नौ ॥५॥

ऋ० १०।१०।४ ॥

भा०—सन्तान यौवन काल में न प्राप्त होने पर पति कहता है—कि (कत् ह) वह क्या दोष है (यत्) जो हमने (पुरा) पूर्व, यौवन काल में (न चकृम) नहीं किया अर्थात् सन्तान प्राप्ति के लिये सभी कुछ किया । (नूनम्) निश्चय से (ऋतम् वदन्तः) सत्य का भक्षण करने वाले, सत्यवादी होकर हम क्या (अनृतम् रपेम) असत्य बोलें ? जब (गन्धर्वः) गन्धर्व अर्थात् पुरुष भी (अप्सु) जलीय परमाणुओं का बना हो और (योपा च अप्या) स्त्री भी जलमयी हो अर्थात् स्त्री और पुरुष अग्नि और जल के स्वभाव के न होकर दोनों जल स्वभाव के, एक ही प्रकृति के हों तो (सा) वही जलीय प्रकृति (नौ) हम दोनोंको (नाभिः) उत्पत्ति कारण है । (तत्) वही (नौ) हम दोनों में (परमं जामि) बड़ा दोष है जो सन्तान उत्पन्न होने में बाधक है ।

गर्भे नु नौ जनिता दंपती कर्देवस्त्वप्यां साविता विश्वरूपः ।

नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेदं नावस्य पृथिवी उत द्यौः ॥५॥

ऋ० १०।१०।५ ॥

भा०—पत्नी निगमन होकर कहती है । (नु) क्या (जनिता) उत्पादक परमेश्वर (नौ) हम दोनों को (गर्भे) गर्भ में ही (दम्पती कः) एक दूसरे का पति पत्नी बना देना है ? वह परमात्मा (त्वया) समस्त

प्रकार के प्राणियों का रचयिता (सविता) सब का उत्पादक (विश्वरूपः) अखिल विश्व अर्थात् जीवों का बनाने वाला है। क्या (अस्य) उस परमात्मा के (व्रतानि) बनायो कर्म-व्यवस्थाओं को (नक्तिः प्रमिनन्ति) कोई भी नहीं तोड़ सकते ? क्या (नौ) हम दोनों (अस्य) इस रहस्य के विषय में (वेद) जान सकते हैं ? या (पृथ्वी उत द्यौः) पृथिवी और आकाश या माता और पिता दोनों ही (अस्य) उसके विषय में (वेद) जानते हैं ।
को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायून् ।
आसन्निपून् हृत्स्वसो मयोभून् य एपां भृत्यामृणधत् स जीवात् ॥६॥

ऋ० १ । २४ । १६ ॥

भा०—(अद्य) नित्य (ऋतस्य) इस गतिशील संसार और देह के (धुरि) भारवहन करने में समर्थ धुरे में (कः) कौन (शिमीवतः) क्रियाशक्ति से युक्त (भामिनः) तेजस्वी (दुर्हणायून्) दुष्ट क्रोध या मृत्यु से युक्त प्रतापी (गाः) इन्द्रियों, प्राणों और सूर्य आदि को घोटों या बैलों के समान (युङ्क्ते) नियुक्त करता है या योग द्वारा बश करता है। ये (आसन् इषून्) सुख में गति करने वाले, (हृत्स्व असः) हृदयों में विद्यमान् (मयोभून्) सुख के उत्पादक हैं। (यः) जो (एषाम्) इनके (भृत्याम्) भरण पोषण की क्रिया को (ऋणधत्) बढ़ाता है (सः जीवात्) वह दीर्घ काल तक जीता है।

को अस्य वैद प्रथमस्याह्नः क ई ददर्श क इह प्र वीचत् ।

बुहन्मित्रस्य वरुणस्य घाम कर्तुं त्रव आह्नो वीच्या नून् ॥ ७ ॥

ऋ० १० । १० । ६ ॥

भा०—(अस्य) इस संसार के (प्रथमस्य अह्नः) प्रथम दिन के

६—(तु०) 'आसन्नेषामप्सुवाहः' इति साम० ।

७—'वीच्याः नून्' इति सायणामिमतः पदपाठः ।

विषय में (ऋ वेद) कौन जानता है ? (इम्) इस जगत् को बनते हुए भी (ऋ वेदों) किसने देखा । (इह) इस विषय में (ऋ प्रवोचत्) कौन कह सकता है ? (मित्रस्य) सब के स्नेही (वद्गल्य) सर्वश्रेष्ठ परमात्मा (वाम) तंत्र, धारण सामर्थ्य भी (बृहत्) बड़ा भारी है । (ननु) सब ननुष्यों का (वीच्य) विवेक करके, हे (आहनः) हृदय पर चोट पहुंचाने या हृदय में प्रवेद कर देनेहारी प्रियतमे ! तुम (क्व ट) क्या (भवः) कह सकते हो ।

यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समाने योनौ सहशेष्याय ।

जायेव पत्ये तन्वै रिरिच्यं वि चिद् बृहेव रथ्यैव चक्रा ॥ = ॥

ऋ० १० । १० । ७ ॥

भा०—पति पत्नी आपस में विवाह के पूर्व काल के विषय में कहते हैं । पत्नी कहती है—(समाने योनौ) एक समान, पतिपत्नी भाव के योग्य (योनौ) स्थान में (सहशेष्याय) एक साथ शयन करने को, लिये (मा यम्यम्) मुझ यमी ब्रह्मचारिणी को (यमस्य) यम ब्रह्मचारी के लिये (कामः) काम अर्थात् अभिलाषा (आगन्) हुई । और यह भी अभिलाषा हुई कि (पत्युः जाया इव) जिस प्रकार स्त्री अपने पति के लिये अपना शरीर अर्पण करती है वही प्रकार मैं कौमार ब्रह्मचारिणी अपने (तन्वम्) शरीर को अपने अभिलषित ब्रह्मचारी कुमार के हाथों (रिरिच्यन्) सौंध दूँ । और (रथ्या चक्रा इव) रथ में लगे दो चक्रों के समान हम दोनों एक गृहस्थ रथ में जुड़कर (वि बृहेव चिद्) एक दूसरे का भार उठाएँ, विवाह करें ।

न तिष्ठन्ति न ति सिंयन्त्येत देवानां स्पर्श इह ये चरन्ति ।

अन्येन मदाहनो ग्राहि तूयं तेन वि बृह रथ्यैव चक्रा ॥ ८ ॥

ऋ० १० । १० । ८ ॥

भा०—(इह) इस संसार में (जे) जो (देवानाम्) देवों, विद्वान् राजाओं के (स्पशः) सिपाही (चरन्ति) विचरते हैं वे (न तिष्ठन्ति) न कभी विघ्नान लेते हैं और (न निमिषन्ति) न कभी झंपकते हैं । वे सदा सचेत रहते हैं । अतः उनके उत्तम राष्ट्र में और निरीक्षण में हे पुत्रानिलार्पणि ! हे (भाहनः) कदाज्ञ से आवात करने वाली ! या हृदयंगमे प्रियतमे ! (नत्) मुझ पुत्रोत्पादन में असमर्थ मुझ पति से अतिरिक्त (अन्येन) अन्य के साथ (त्वयं) शीघ्र (याहि) संग कर (तेन) उसके साथ ही (रथ्या चक्रा इव) रथ में लगे चक्रों के समान (वि वृह) परस्पर गृहस्थ-भार को उठा, संग कर ।

रात्रीभिरस्मा अहंभिदर्शस्येत् सूर्यस्य चक्षुर्मुहुर्गुण्णिर्ममीयात् ।
द्विवा पृथिव्या मिथुना सवन्धु यमीर्यमस्यं विवृहादजामि ॥१०॥ (१)

ऋ० १०।१०।६ ॥

भा०—वह परमात्मा (रात्रीभिः) बहुत सी रातों और (अहभिः) बहुत से दिन गुजर जाने पर स्वयं ही (अस्मै) इस पुरुष को (दर्शस्येत्) उत्तम मनोरथ पुत्र आदि दे दिया करता है । इसलिये सम्भव है कि (सूर्यस्य) सर्वप्रेरक उस परमेश्वर की (चक्षुः) दयानय दृष्टि, हम निरपत्य पति षली पर (मुहुः) फिर भी (उत् मीयात्) पड़े । और हम (द्विवा) प्रकाशमान सूर्य के और (पृथिव्या) पृथिवी के समान परस्पर (मिथुना) जोड़े बने हुए हम (सवन्धु) समान रूप से बन्धु होते हुए (यमीः) मैं पुनः संयमो, यमी अर्थात् व्रतनिष्ठ होकर (यमस्य) व्रतनिष्ठ तुझ पति के साथ (अजामि) दोपरहितरूप से (विवृहात्) संग करूँ । विरकाल तक यदि अपत्य उत्पन्न न हो तो सौ का विचार

६-१. (प्र०) 'निमिषःलैके' इति ऋ० ।

१०-च०) 'विभ्यान्' इति ऋ० । 'उन्निर्माल्यान्' इति द्वितानिजानितः ।

'आमिर्नयान्' इति तै० ब्रा० ।

होता है कि कुछ वर्षों में ईश्वर की कृपा दृष्टि से पुनः पुत्रलाभ हो । या सूर्य-पृथिवी के समान दोनों पति पत्नी परस्पर एकत्र रहकर भी ब्रह्मचारी और ब्रती रह कर तप करें तो पुनः पुत्रोत्पन्न कर सकें ।

आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृण्वन्नजामि ।

उप बर्हि वृषभार्य ब्राहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत् ॥ ११ ॥

ऋ० १०।१०।१० ॥

भा०—(ता) वे (उत्तरा) हमसे आगे आने वाले (युगानि) पति पत्नियों और वर-वधुओं के जोड़े (घ) भी निश्चय से (आगच्छान्) आने सम्भव हैं (यत्र) जिनमें से (जामयः) सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ, कन्याएँ या पुत्र-वधुएँ भी (अजामि) दोष रहित सन्तान उत्पन्न (कृण्वन्) करूँगी । इसलिये हे (सुभगे) उत्तम भाग्यशालिनि स्त्रि ! त् (वृषभार्य) वीर्य सेवन में समर्थ, वीर्यवान् पुरुष के लिये (ब्राहुम्) अपनी ब्राहु को (उप बर्हि) सिरहाने के समान ढगा, उसको सुखी कर और (मत्) मुझ सन्तान उत्पन्न करने में असमर्थ पुरुष से (अन्यत्) दूसरे पुरुष को (पतिम्) अपना पति, मेरी आज्ञा से (इच्छस्व) चाह ।

किं भ्रातासदयर्नाथं भवति किमु स्वसा यन्निर्ऋतिर्निगच्छात् ।

काममृता ब्रह्मेतद् रंपामि तन्वा/मे तन्वंसं पिपृग्धि ॥ १२ ॥

ऋ० १०।१०।११ ॥

भा०—इस प्रकार नियोग अर्थात् आज्ञा पूर्वक अपने से अन्य पति कर लेने की आज्ञा देते हुए पुत्र उत्पादन में असमर्थ पति के प्रति स्त्री लज्जा-वश पुनः अपने पति को कहती है । हे प्रियतम ! (किम्) क्या (भ्राता असत्) आप भाई हैं (यत्) कि जिससे आप (अनाथम्) नाथ के समान नहीं (भवति) आचरण करते ? और (किम् उ) क्या मैं भी (स्वसा)

आपकी भगिनी हूँ कि परस्पर स्वयं पुत्र उत्पन्न करने में हमें (निर्रतिः) पाप (निगच्छात्) लगे ! यद्यपि मैं आपकी वर्तमान में पुत्र उत्पन्न करने में असमर्थता, नपुंसकता एवं कुष्ठ आदि व्याधि के विषय में जानती हूँ तो भी मैं (काममृता) आप के प्रति अति अभिलाषा से आविष्ट होकर (एतत् बहु) यह सब, बहुत कुछ (रपामि) कह रही हूँ। मेरी इच्छा यही है कि (तन्वा) अपने देह से (मे तन्वम्) इस मेरे शरीर को (सं पिपृग्धि) भली प्रकार आलिंगन करो।

न ते नाथं यम्यत्राहमस्मि न ते तन् तन्वाऽ सं पपृच्याम् ।

अन्येन मत् प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत् ॥१३॥

ऋ० १०।१०।१२ ॥

भा०—हे (यमि) यमि ! जितेन्द्रिये प्रियतमे ! अपनी अभिलाषा के पूर्ण न होने पर भी पति गृह में संयम से रहने वाली स्त्रि ! (ते नाथम्) तेरे पुत्र लाभ रूप, आशारूप प्रयोजन को (अहम्) मैं (न अस्मि) पूर्ण करने में समर्थ नहीं हूँ। और इसी कारण (ते तन्म्) तेरे शरीर के साथ अपनी (तन्वः) शरीर का (न सं पपृच्याम्) सम्पर्क नहीं कराता हूँ। अतएव (मत् अन्येन) मेरे से दूसरे पुरुष के साथ अपने (प्रमुदः) हृदय के काम्य हर्षों को (कल्पयस्व) प्राप्त कर। हे (सुभगे) सौभाग्यवति ! तेरे आक्षेप के अनुसार यह असमर्थ पति (ते भ्राता) तेरा भ्राता ही सही। वह (एतत्) यह शरीर सम्पर्क आदि कार्य को (न वष्टि) नहीं चाहता।

न वा उ ते तन् तन्वाऽ सं पपृच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात् ।

असंयद्रेतन्मनसो हृदो मे भ्राता स्वसुः शयने यच्छयीय ॥ १४ ॥

ऋ० १०।१०।१२ प्र० द्वि० ॥

भा०—जब असमर्थ पति अपनी स्त्री को अपनी बहन के समान समझ

१४—'ते तन्वा तन्वं सम्' इति ऋ० ।

लेता है। तब वह उसी बुद्धि से कहता है—हे प्रियतमे ! (तितन्म्) तेरे शरीर को (तन्वा) अपने शरीर से (न वा उ सम् पृच्छ्याम्) अब एक इस पूर्व कथित वितर्क के कारण से भी नहीं सम्यक् कराऊँगा, क्योंकि विद्वान् लोग इसको (पापन् आहुः) पाप कहते हैं कि (यः) जो वह (स्वसारम्) अपने बहन का (निगच्छात्) भोग करे। क्योंकि (यत्) यदि मैं (भ्राता) तेरे भाई सा होकर (स्वसुः) अपनी बहिन के (शयने) सेज पर (शयीय) सो जाऊँ तो (मे) मेरे (हृदः) हृदय और (मनसः) चित्त का (एतत्) यह (असंयत्) संयम का भंग है। अर्थात् संयम या तपस्या के कारण जो पति पत्नी में भाई बहिन की भावना हो तो भी स्त्रीपुनः नियोग करे। “नष्टे मृते प्रव्रजिते” इस पराशर के विधान में ‘प्रव्रजिते’ इस का यही मन्त्र मूल है।

वृत्तो वतासि यस्म नैव ते मनो हृदयं चाविदाम ।

अन्या किल त्वां कर्ण्ये/व युक्तं परिं प्वजातै लिबुजेव वृक्षम् ॥१५॥

ऋ० १०।१०।१३ ॥

भा०—हे (यम) यम ! नियमवान् पुरुष ! (वत) खेद है कि तू (वतः असि) तू निर्बल है। (ते मनः) तेरे मन और (हृदयम् च) हृदय को (न अविदाम) हम नहीं समझ पाये। (किल) क्या (त्वां) तुझ को (कर्ण्य इव युक्तम्) बगल की रस्सी जिस प्रकार जुने हुए घोड़े के संग चिपटी रहती है उसी प्रकार या (वृक्षम्) वृक्ष को (लिबुजा इव) लता जिस प्रकार आलिंगन करती है उस प्रकार (अन्या) कोई दूसरी स्त्री (त्वाम्) तुझको (परिप्वजातै) आलिंगन करती है जिससे तू मेरे से इस प्रकार अपना मन बढो/ता है।

अन्यमूपु यम्यन्य उ त्वां परिं प्वजातै लिबुजेव वृक्षम् ।

तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवार्था कृणुष्व संविदं सुभद्राम्

॥ १३ ॥

ऋ० १०।१०।१४ ॥

भा०—हे (यानि) यामि ! दृढव्रते (अन्यम् उ सु) तु अन्य पुरुषों को ही मली प्रकार आलिंगन कर और (त्वान्) वृक्षको (अन्यः उ) दूसरा पुरुष ही (त्विवृजा वृक्षम् इव) वृक्ष को लता के समान (परि स्वजातै) आलिंगन करे। (वा) अथवा (त्वम्) तु ही (तस्व मनः इच्छा) उसके चित्त की अभिलाषा कर और (सः वा तव) वह तेरे चित्त को चाहे। (अघा) और तु (सुभद्राम्) सूत्र कल्याणकारी (संविदम्) परस्पर सहमति (कृणुष्व) काले।

बहुत से विद्वान् यम यमी को भाई बहिन मान कर उनका संवाद कराते हैं। महर्षि दयानन्द ने इसको पुत्रोत्पादन में असमर्थ पति और समर्थ पत्नी के बीच का संवाद स्वीकार किया है। वही अधिक युक्ति युक्त प्रतीत होता है। उसी को यहां दर्शाया है।

परमेश्वर और वेदवाणी ।

त्रीणि च्छन्दांसि क्वयों वि येतिरे पुरुषैर्दृशतं विश्वचक्षणम् ।
आपो वाता ओषधयस्तान्येकस्मिन् भुवने अर्पितानि ॥ १७ ॥

भा०—(त्रीणि) तीनों (छन्दांसि) छन्दः, वेद अथात् ऋक्, साम और यजुः, तीनों को (पुरुषैः) नाना प्रकार से विश्व में प्रकट होने वाले (विश्वचक्षणम्) विश्व के द्रष्टा (दृशतम्) अति दर्शनीय परमेश्वर को लक्ष्य करके ही (क्वयः) क्रान्तदर्शी विद्वान् पुरुष (वि येतिरे) व्याख्या करते हैं, योजना करते हैं। तीनों वेद परमेश्वर पर किस प्रकार लगते हैं उसमें दृष्टान्त कहते हैं। जिस प्रकार (आपः) जल, (वाताः) वायु और (ओषधयः) ओषधियें (तानि) वे सब (एकस्मिन्) एक ही (भुवने) भूलोक पर (अर्पितानि) आश्रित हैं, उसी प्रकार उस परमेश्वर के स्वरूप वर्णन में ही ऋग्वेद, सामगान और यजुष्ये तीनों आश्रित हैं।

१५—(च०) 'स्वजाते' इति ऋ० ।

१६—प्र०) 'अन्याम् पृ त्वं अन्य न्य उ त्वान्' (द्वि०) 'स्वजाते' इति ऋ० ।

वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दिवः पर्याति यद्वा अदितेरदाभ्यः ।

विश्वं स वेदं वरुणो यथा धिया स यज्ञियो यजति यज्ञियो

ऋतून् ॥ १८ ॥

ऋ० १०।११।१ ॥

भा०—(वृषा) वर्षण करने में समर्थ, (यहः) महान् परमेश्वर (अदाभ्यः) नित्य अविनाशी (अदितेः) अखण्ड (दिवः) द्यौलोक से (वृष्णे) बलवान् वर्षण करने में समर्थ सूर्य के (दोहसा) दोहन करने के सामर्थ्य से (दुदुहे) दोहन करता है, रस वर्षण करता है । (सः) वह (वरुणः) वरुण-सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर (यथा) जिस प्रकार से (विश्वम्) समस्त संसार को (धिया) ध्यान और धारण सामर्थ्य से (वेदं) ऋक २ जानता है । उसी प्रकार (सः) वह (यज्ञियः) महान् यज्ञकर्ता (यज्ञियान्) यज्ञ, विश्वमय यज्ञ के करनेहारे ! (ऋतून्) ऋतुओं को (यजति) परस्पर संयुक्त करता है ।

रपद् गन्धर्वीरप्यां च योषणा नदस्य नादे परि पातु नो मनः ।

इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि

वोचति ॥ १९ ॥

ऋ० १०।११।२ ॥

भा०—(गन्धर्वी) गौ, वाणी को धारण करने वाली (अप्या च) और अप्=कर्म और ज्ञान को देने में हितकर या प्रजा की हितकर (योषणा) अप्या=जलमयी स्त्री के समान सेवन करने योग्य (नदस्य) अति समृद्ध ऐश्वर्यवान्, या स्तुत्य परमेश्वर के (नादे) ऐश्वर्य या महिमा के स्तवन में लगा कर इस प्राकृतिक अपार संसार में (नः) हमारे (मन) मनन सामर्थ्य को (परि पातु) सब प्रकार से रक्षा करे । वही (अदितिः) अखण्ड परमेश्वर की अखण्ड, नित्य वेद वाणी हमारे मन

१८—(च०) 'यजतु' इति ऋ० ।

१९—(द्वि०) 'धातुमे' इति ऋ० ।

को (इष्टस्य मध्ये) इष्ट, अभिलषित, हितकारी, सुखकर कार्य में (नि धातु) स्थापित करे । (नः) हम में से (प्रथमः) सब से श्रेष्ठ और (ज्येष्ठः) बड़ा, पूजनीय महान् परमेश्वर ही सब का (आता) भरण पोषण करने हारा है । सब से प्रथम वही हमें (वि वोचति) नाना प्रकार से उपदेश करता है ।

सो चिन्नु भद्रा क्षुमती यशस्वत्युषा उवास मनवे स्वर्विती ।

यदीमुशान्तमुशतामनु क्रतुमग्निं होतारं विदथाय जीजनन् ॥२०॥
(२) ऋ० १०।११।३ ॥

भा०—(सा उ) वह वेदवाणी ही (चित् नु) निश्चय से (भद्रा) कल्याणकारिणी, सुखजनक, (क्षुमती) मन्त्रमय शब्द से युक्त - (यशस्वती) वीर्यवाली (उषा) सर्व जगत् की प्रकाशक, उषा के समान सब पदार्थों को प्रकाश करने हारी (मनवे) मननशील पुरुष के लिये (स्वर्विती) अत्यन्त सुख और प्रकाशवती, ज्ञान देने हारी होकर (उवास) प्रकट होती है (यत्) क्योंकि विद्वान् पुरुष (उशताम्) नाना प्रकार की कामना करने वालों में से (ईम्) इत् वेदवाणी की ही (उशान्तम्) कामना करने वाले (क्रतुम्) क्रियाशील (अग्निम्) ज्ञानवान्, (होतारम्) दूसरे को भी ज्ञान प्रदान करने हारे विद्वान् को (विदथाय) वेदवाणी के ज्ञान के लिये (जीजनन्) उत्पन्न करते हैं ।

अथ त्यं द्रप्सं विभ्वं विचक्षणं विराभरदिपिरः श्येनो अघ्वरे ।

यदी विशो वृणते द्रुस्ममार्या अग्निं होतारमघ धीरजायत ॥२१॥

ऋ० १०।११।४ ॥

भा०—(अघ) और (त्यम्) उस (द्रप्सम्) रस रूप से

२१—(द्वि०) 'इषितः' इति ऋ० ।

आस्वादन करने योग्य (विम्बम्) सर्वव्यापक, स' शक्तिमान् (विचक्षणम्) विद्वान्, विविध रूप संसार के द्रष्टा उस परमेश्वर को (इपिरः) कामानावान्, दृढ़ इच्छावान् (इयेनः) ज्ञानवान् (विः) हंस रूप सुपर्ण, पारगामी आत्मा (आभरत्) प्राप्त होता है । और (यदी) त्व (आर्याः) आर्य, श्रेष्ठ या गतिशील (विशः) प्रजापं या तत्व के भीतर प्रवेश करने वाले जन या प्राणगण (दस्मम्) उस दर्शनीय (होतारम्) दानशील (अग्निम्) अग्निस्वरूप ज्ञानवान् गुरु, स्वयंप्रकाश परमेश्वर या आत्मा को (वृणते) वरण करते हैं (भय) त्व (घीः) ध्यान वृत्ति या ज्ञान, विवेक बुद्धि (अजायत) उत्पन्न होती है । सदासि रण्वो यत्रसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुषः स्वध्वरः ।

विप्रस्य वा यच्छ्रशमान उक्थ्यो वाजं ससुवाँ उपयासि भूरिभिः ।

॥ २२ ॥

ऋ० १० । ११ । ५ ॥

भा०—(यत्रसा इव) जिस प्रकार वास भूसा आदि स्वाक्र उससे पशु (पुष्यते) अपने पोषण करने वाले स्वामी के लिये दर्शनीय एवं आनन्दजनक होता है उसी प्रकार हे (अग्ने) अग्ने ! प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! त्व (सु अध्वरः) उत्तम, अविनाशी, अमृत, यज्ञरूप होकर (मनुषः) मनुष्य की (होत्राभिः) स्तुतियों के द्वारा (सदा) सर्वदा (रण्वः) रमणीय, आनन्दजनक (भस्ति) बना रहता है ।

उदीरय पितरां जार आ भगमियक्षति हर्यतो वृत्त इप्यति ।

दिवं कित् वह्निः स्वप्स्यते मखस्ताविप्यते अतुरो वेपते मती ॥२३॥

ऋ० १० । ११ । ६ ॥

भा०—(जारः) जार—रात्रि का विनाश करने वाला आदित्य (भा) जिस प्रकार (मगम्) अपने सेवन करने योग्य प्रकाश को

२२—(वृ०) 'उक्थ्यम्' इति क० ।

सर्वत्र फौजाता है उसी प्रकार हे मनुष्य ! तू भी अपने (भगम्) ऐश्वर्य को (पितरौ) अपने माता पिता के प्रति (उत्-ईरय) प्रेरित कर, उनको प्रदान कर । जो पुरुष (इयक्षति) यज्ञ या पूजा करना चाहता है वह उनके प्रति (हर्यतः) परम अभिलाषावान् होकर पूजनीय इष्टदेव को (हन्तः) अपने हृदय से (इष्यति) चाहा करता है । उसी अवसर पर (वर्द्धिः) ज्ञान का वहन करने वाला, अग्नि के समान ज्ञानी परमेश्वर स्वयं (विवक्ति) नाना प्रकार के उपदेश करता है । और सायं (मस्रः) वह पूजनीय (सु-अपस्पते) शुभ कर्म में प्रेरित करता है और वह स्वयं (असुरः) प्राणों का प्रदाता (तविश्यते) बढ़ाता है और (मती) अपने स्तम्भन बल से (वेपते) दुष्टों को कंपाता है । या (मती=न्त्या वेपते) अपने मति अर्थात् ज्ञान संकल्प से ही समस्त संसार को प्रेरित करता है । यस्ते अग्ने सुमतिं मतीं अख्यत् सहसः सूनो अति स प्र शृण्वे । इपं दधानो वहमानो अश्वैरा स द्युमाँ अमवान् भूपति द्युन् ॥२४॥

ऋ० १० । ११ । ७ ॥

भा०—हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (यः) जो (भन्तः) मरणधर्मा पुरुष (ते) तेरे (सुमतिम्) ज्ञान का (अख्यत्) दूषणों को उपदेश करता है, हे (सहसः सूनो) बरु के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ! (सः) वह (भनि) बहुत अधिक (प्र शृण्वे) सुना जाता है, प्रख्यात हो जाता है । वह पुरुष (इपम्) अन्न को (दधानः) धारण करता और (अश्वैः वहमानः) घोड़ों की सवारी करता है (सः) वह (द्युमान्) तेजस्वी और (अमवान्) बलवान् होकर (द्युन्) बहुत दिनों तक (भूपति) बना रहता है ।

श्रुधी नो अग्ने सदने सधस्थे युद्धा रथममृतस्य द्रवित्नुम् ।

आ नो वह रोदसी देवपुत्रे माकिद्वानामपं भूरिह स्याः ॥ २५ ॥

ऋ० १० । ११ । ६ ॥

भा०—हे (वने) आत्मन् ! तू (नः) हमारी प्रार्थना को (श्रधि) श्रवण कर । (सधस्ये) एकत्र होकर बैठने के योग्य (सद्ने) आश्रयस्थान में अपने (अनृतस्य) अनृत के (द्रविन्तुम्) प्रवहणशील, बड़ाने वाले तीव्र (रथम्न्सन्) रथ रूप आत्मानन्द को या अमृत आत्मा के रथ अर्थात् रमणीय रूप को (युद्धा) युक्त कर । योग समाधिदाय प्राप्त कर । (देवपुत्रे) ज्ञानवान् पुरुष को रक्षा करने वाले या देव इन्द्रियों को पुत्र के समान पालने वाले (रोदसी) दौ और पूरिबो के समान विस्तृत प्राण और अपान को (वह) धारण कर और तू (देवानाम्) देव अर्थात् इन्द्रिय गणों में से (माकिः अथ भूः) कमी दूर न हों प्रत्युत (इह) उनके बीच में ही सदा सुखी (स्याः) बना रह । अर्थात् अपने सब वचन प्राण सामर्थ्यों सहित बना रह ।

यद्गन्त पृथां समितिर्मवाति देवी देवेपुं यजता यजत्र ।

रतां च यद् विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्

॥ २६ ॥

ऋ० १० । ११ । ७ ॥

भा०—हे (अन्ते) ज्ञानवन् ! हे (यजत्र) यजनीय, उपास्य ! (देवेपुं) देवों, प्राणों में (यजताम्) उपासनीय, देवपूजा के योग्य (यत्) जब (पृथा) यह प्रत्यक्ष (देवी) तेजोमयी ज्योतिष्मती (सन्-इतिः) परस्पर एकत्र स्थिति, एकप्रना (भवाति) हो जाये है और (चत्) जब हे (स्वधावः) स्वतः अर्थात् धारण शक्ति से सन्नद्ध, सर्व शक्तिमन् ! तू हमें (रतां) नाना रमणीय योग्य पदार्थ (विभजासि) नाना प्रकार से विभाग करता है तब (अत्र) इस लोक में (वसुमन्तम्) अति ऐश्वर्य युक्त (भागम्) सेवनीय अंश (नः) हमें (वीतात्) प्रदान कर ।

अन्वग्निरुपसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः ।

अनुसूर्यं उपसो अनुं रश्मीन्तु द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ २७ ॥

भा०—न्याख्या देखो अथर्व० ७ । ८३ । ४ ॥

प्रत्यग्निरुपसामग्रमख्यत् प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः ।

प्रति सूर्यस्य पुरुधा च रश्मीन् प्रति द्यावापृथिवी आ तंतान ॥ २८ ॥

भा०—न्याख्या देखो अथर्व० ७ । ८२० । ५ ॥

द्यावा ह क्षामा प्रथमे ऋतेनाभिश्चावे भवतः सत्यवाचा ।

देवो यन्मर्तान् यजथाय कृण्वन्त्सीदृद्धोता प्रत्यङ् स्वमसुं यन् ॥ २९ ॥

ऋ० १० । १२ । १ ॥

भा०—(द्यावा ह क्षामा) द्यौ और पृथिवी, पिता माता (प्रथमे) सबसे प्रथम (सत्यवाचा) सत्यवाणी युक्त (ऋतेन) सत्य ज्ञानमय वेद से (अभिश्चावे) प्रकट (भवतः) होते हैं । (यत्) जब (देवः) परमेश्वर (मर्तान्) मनुष्यों को (यजथाय) उपसाना या अपने-प्रति संगति लाभ करने के लिये (कृण्वन्) प्रेरित करता है तब वह (स्वम्) अपने आप को (असुम्) सबके प्रेरक प्राणरूप से (यन्) व्याप्त होकर (होता) सबको अपने भीतर ग्रहण करके (प्रत्यङ्) गुप्त रूप से (सीदत्) विराजता है ।

देवो देवान् परिभृर्ऋतेन वहां नो ह्व्यं प्रथमश्चिकित्वान् ।

धूमकेतुः समिधा भाऋंजीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजी-

यान् ॥ ३० ॥ (३)

ऋ० १० । १२ । २ ॥

भा०—(देवः) परमेश्वर (देवान्) समस्त देवों, दिव्यगुण के पदार्थों के (परिभूः) ऊपर अधिष्ठाता रूप से विराजमान है । हे पर-

मेखर ! आप (चिकित्वान्) सर्वज्ञ (प्रथमः) सब से पूर्व विद्यमान रह कर (नः) हमें (ऋतेन) सत्यज्ञान से अपने (हृन्व्यम्) स्तुति करने योग्य स्वरूप को (वह) प्राप्त करा । आप अग्नि के समान (सम्-इवा) अति अधिक दीप्ति से (धूमकेतुः) समस्त बन्धनों को तोड़नेवाले ज्ञान से सन्पन्न (मा-ऋजीकः) कान्ति से कान्तिमान, अति भारवर (मन्द्रः) आनन्दवन, (होता) समस्त जगत के दाता और ग्रहीता (नित्यः) नित्य, अविनाशी (वाचा) वाणी अर्थात् वेद वाणी द्वारा (यजीयान्) सबसे अधिक उपासना करने योग्य हैं ।

अर्चामि वां वर्धायापो घृतस्तू धावांभूमी शृणुतं रोदसी मे ।

अहा यद् देवा असुनीतिमायन् मध्वा नो अत्र पितरां शिशिताम्

॥ ३१ ॥

ऋ० १० । १२ । ४ ॥

मा०—हे (धावाभूमी) धौ और भूमिपिता और माता ! हे (घृतस्तू) घृत-प्रकाश से आत्मा को स्नान करानेवाले, हे (रोदसी) प्राणों पर वश करने हारे, प्राण और अपान के समान दोनों (मे शृणुतम्) मेरी स्तुति श्रवण करो । मैं (अपः वर्धाय) ज्ञान और कर्म की वृद्धि के लिये (अर्चामि) आप दोनों की स्तुति, उपासना करता हूँ । (अह) और (यत्) जब (देवाः) देव, इन्द्रियगण (असुनीतिम्) प्राण की शक्ति को (आयन्) प्राप्त होते हैं तब (अत्र) इस लोक में (पितरां) आप दोनों पालक होकर (नः) हमें (मध्वा) मधुर आनन्द रस से (शिशिताम्) आह्लादित करते हैं ।

स्वावृग् देवस्यामृतं यद्दी गोरतो जातासो धारयन्त उर्वी ।

विश्वे देवा अनु तत् ते यजुर्गुदुहे यदेनी दिव्यं घृतं वाः ॥ ३२ ॥

ऋ० १० । १२ । ३ ॥

भा०—(यदि) जब (देवस्य) प्रकाशमान (गोः) सूर्य से उत्पन्न (सु आवृक्) उत्तम रीति से सबके मन को लुभानेवाले (अमृतम्) अमृतमय प्राण शक्ति को (अतः) इस लोक से (जातासः) उत्पन्न जीव (उर्वोम्) इस पृथ्वी पर (धारयन्ते) धारण करते हैं । और (यत्) जब (एनी) प्रकाशमयी धौ ही (दिव्यम्) दिव्य (घृतम्) सरणशील (वाः) जल को (दुहे) दोहती है (तत्) उसको ही (ते) वे (विश्वे- देवाः) समस्त देवगण (अनु यजुः) उसी की संगति लाभ करते और उसी के (अनु गुः) पीछे २ चलते हैं ।

किं खिन्नो राजा जगृह कटस्याति व्रतं चक्रमा को वि वेद ।

मित्रश्चिद्धि ष्मा जुहराणो देवांल्लोको न यातामपि वाजो

अस्ति ॥ ३३ ॥

ऋ० १०। १२। ५ ॥

भा०—(राजा) राजा के समान सर्वोपरि विराजमान परमेश्वर (नः) हमें (किंस्वित्) क्योंकर (जगृहे) पकड़ता है ? वह क्यों देहबन्धनों में डालता है ? (अस्य) उसके बनाये (व्रतम्) किस व्रत अर्थात् नियम व्यवस्था को (कत्) कब (अति चक्रम) हम अतिक्रमण करते हैं । इस बात को (कः वि वेद) भलीभांति कौन जानता है ? (देवान्) देव=विषयों में रमण क्रीड़ा करते हुए जीवों को (जुहराणः) कुछ कुटिलता करता हुआ उनको उनके अपराधों का दण्ड देता हुआ भी उनका (मित्रः चित् हि स्म) वह निश्चय से मित्र ही है । वह (श्लोकः) सबका स्तुति योग्य ईश्वर (याताम् अपि वा) क्या यहाँ से देह छोड़ कर परलोक में जानेवालों का (वाजः न अस्ति) एकमात्र बल और आश्रय नहीं है ?

दुर्मन्त्वत्रामृतस्य नाम सलक्ष्मा यद् विपुरुषा भवति ।

यमस्य यो मन्वते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन् ॥ ३४ ॥

ऋ० १०। १२। ६ ॥

भा०—(अत्र) इस संसार में (अमृतस्य) अमृत आत्मा का

(नाम) नाम अर्थात् स्वरूप (दुर्मन्तु) समझ लेना बड़ा कठिन है। वह बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। अर्थात् आत्मा का तत्त्व 'दुर्विज्ञेय' है। (यत्) क्योंकि (सलक्ष्मा) समान लक्षणों वाली जीव जाति या प्रकृति ही इस संसार में (विपुरुषा) नाना रूप की (भवति) हो जाती है। और फिर (यमस्य) यम अर्थात् सर्वानियन्ता परमेश्वर के स्वरूप को जो विद्वान् (सुमन्तु) सुखमे जानने योग्य, सुगम (मनवते) मान लेता है हे (ऋन्व) महान् दर्शनीय ! हे (अग्ने) ज्ञानप्रकाशक परमेश्वर ! (तम्) उस तत्त्वदर्शी को (अप्रयुच्छन्) बिना प्रमाद के (पाहि) रक्षा कर।
 यस्मिन् देवा विद्ये मादयन्ते विवस्वतः सद्ने धारयन्ते ।
 सूर्ये ज्योतिरदद्भुर्मास्य अक्षुर् परे द्योतिर्नि चरतो अजन्ता ॥३५॥

ऋ० १०।१२।७ ॥

भा०—(यस्मिन्) जिस (विद्ये) प्राप्त करने योग्य या ज्ञान-स्वरूप परमेश्वर में (देवाः) ज्ञानी पुरुष (मादयन्ते) हर्ष और आनन्द प्राप्त करते हैं। और वे जिसके आश्रय पर रह कर (विवस्वतः) विवस्वान्, नाना प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर के (सद्ने) सदन या शरण में (धारयन्ते) अपने आप को स्थित करते हैं। उस (सूर्ये) सूर्यके प्रेरक सूर्य के सूर्य समान प्रकाशक परमेश्वर में ही (ज्योतिः अद्भुः) परम प्रकाश की कल्पना करते हैं। उसी (मासि) सूर्यके निर्माण कर्ता प्रभु में (अक्षुर्) चन्द्र में रात्रियों के समान समस्त व्यक्त होने वाले पदार्थों को (अद्भुः) आश्रित मानते हैं और (द्योतिर्नि परे) जिस प्रकाशवान् के आश्रय पर (अजन्ता) निरन्तर गतिशील सूर्य और चन्द्र दोनों भी (चरतः) अपने अपने मार्ग में गति कर रहे हैं।

यस्मिन् देवा मन्मति सुचरन्त्यपीच्छे न वयमस्य विद्म ।

मित्रो नो अत्रादितिरनांगान्त्साविता देवो वरुणाय वोचत् ॥३६॥

ऋ० १०।१२।८ ॥

भा०—(यस्मिन्) जिस (मन्मनि) मनन योग्य (अपीच्ये) सबके लिय होने के स्थान या परम दर्शनीये या परम गुप्त, गूढ़तम परमेश्वर में (देवाः) ज्ञानी, विद्वान् पुरुष (संचरन्ति) विचरते हैं (अस्य) उसके विषय में (वयम्) हम स्थूल बुद्धि के पुरुष (न विद्म) नहीं जानते, हम उस तक नहीं पहुँचते । (अत्र) इस संसार में (आनागान्) अपराध रहित (नः) हमारा (मित्रः) मित्र (अदितिः) अखण्डनीय, अविनश्वर (सावता) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक (देवः) परमेश्वर, देव ही (वरणाय) उसको वरण करनेहारे भक्त या साधक के प्रति (वोचत्) ज्ञान का उपदेश करता है ।

सिखाय आ शिषामहे ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे ।

स्तुप ऊ षु नृतमाय धृष्णवे ॥३७॥ साम० १।३६०॥ ऋ० ८।२४।१॥

भा०—हे (सिखायः) मित्रगण ! हम लोग (इन्द्राय) परमेश्वर्यवान् (वज्रिणे) परम शक्तिमान्, परमेश्वर की उपासना के लिये (ब्रह्म) महान्, वेद ज्ञान की (आशिषामहे) कामना करते हैं । और उसी (नृतमाय) सर्व नरश्रेष्ठ, सबके सर्वोत्तम नायक, (धृष्णवे) सबके धर्षण करनेवाले, शक्तिमान् की (उ) ही (सु स्तुपे) उत्तम रीति से स्तुति करता हूँ ।

शवसा ह्यासि श्रुतो वृत्रहत्येन वृत्रहा ।

मघेमघोनो अति शूर दाशासि ॥ ३८ ॥ ऋ० ८ । २४ । २ ॥

भा०—हे इन्द्र ! परमेश्वर ! तू (वृत्रहत्येन) आवरणकारी, ज्ञान के विघ्नरूप 'वृत्र' के नाश कर देने में समर्थ (शवसा) बल से (श्रुतः असि) सर्वत्र प्रसिद्ध है । तू ही (मघोनः) परमेश्वर्यवाले समस्त धनाढ्य

३७—(प्र०) 'शिषामहि' (तृ०) 'ऊषु वः' इति ऋ० ।

३८—'शतः' इति क्वचित् । 'वृत्रहत्येव' इति सायणाभिमतः ।

पुरुषों को (मन्त्रः) बतों से, पेशियों हो से नू, हे (शूर) नू वोर्यवन् !
(अग्नि) अनिक्रमग करके (दग्धि) समस्त जीवों को जीवन, अन्न और
वन प्रदान करता है ।

स्तेगो न ज्ञामत्येषि पृथिवीं सही नो वाता इह वान्तु भूमौ ।

मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो अग्निर्वने न व्यसृष्ट शोकम्

॥ ३६ ॥

सू० १०।३१।६ ॥

भा०—हे परमात्मन् ! (स्तेगः न) गर्जन करता हुआ मेव या सूर्य
या तीव्रगामी वेग से जानेवाला हरिण जिस प्रकार (पृथिवीन्) बड़ी भारी
(क्षान्) पृथिवी को पार करता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार नू
भी इस (पृथिवीन् क्षान्) विशाल जीवों के निवास योग्य संसार पट्टी
को (अग्नि पृथि) लांघ कर बैठा है । चाहे (इह) इस (भूमौ) भू-
लोक में (नः) हमारे लिये (सही वाताः) बड़े २ प्रचण्ड वायु चलें ।
(नः) तो भी हमारा (वरुणः) वरुण, सर्वश्रेष्ठ और सब दुःखों का
चारक (मित्रः) सर्वलेशही परमेश्वर (युज्यमानः) समाधि द्वारा साक्षात्
होकर (वने अग्निः न) वन में दहकनेवाले अग्नि के समान (शोकम्) जरने
परम तेज को (वि असृष्ट) नाना प्रकार से रचता है, प्रकट करता है ।
अर्थात् प्रचण्ड वायु के झरोखों में भी उस परमेश्वर के जलाये हुए ज्ञान-
दीपक कभी नहीं बुझते । स्तेगम्ब्रह्म सन्मवत हरिण । अंग्रेजों में stag
[स्तेग] इसी का अपभ्रंश हो ।

स्तुहि युतं गविसर्षं जनानां राजानं भीममुपहन्तुमुग्रम् ।

सृडा जग्धिरे रद्र स्तवानो अन्यमस्मत् ते नि वपन्तु सेन्यम्

॥ ४० ॥ (४)

सू० २।३३।११ ॥

३६-१ प्र०) 'पृति पृथीन्', 'मिह न वाता विहवादिभूम' (वृ०) 'मित्रो-
यन्', 'युज्यमानोग्नि' इति सू० ।

भा०—हे पुरुष ! तू (ध्रुतम्) वेद में उपदेश द्वारा श्रवण करने योग्य, (गर्त्तसदम्) गर्त्त, अर्थात् हृदयरूप गुहा में विराजमान (जनानां राजानम्) उतरा होने वाले प्राणियों के राजा, स्वामी, (भीमम्) भयानक, दण्डकर्त्ता (उपह्वलुम्) सब को दुष्ट कर्मों के दण्ड देनेवाले (उग्रम्) अति बलवान् उस परमेश्वर की (स्तुहि) स्तुति इस प्रकार कर । ' हे (रुद्र) सब पापियों को रूलाने हारे ! तू (स्तवानः) स्वयं स्तुति योग्य (जरित्रे) स्तुति करने हारे ज्ञानी पुरुष को (मृढ) सुखी कर । (ते) तेरी (सेन्यम्) सेनायें (अस्मत् अन्यम्) हमसे दूसरे अर्थात् शत्रु का (नि वपन्तु) विनाश करें ।

सरस्वती रूप से परमेश्वर की स्तुति ।

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने ।

सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सरस्वतीं दाशुपे वार्यं दात् ॥ ४१ ॥

ऋ० १० । १७ । ७ ॥ अथर्व० १२ । ४ । ४५ ॥

भा०—(देवयन्तः) देव परमेश्वर की उपासना और कामना करते हुए विद्वान् पुरुष (सरस्वतीम्) सरस्वती रूप परमेश्वरी वाणी का (हवन्ते) पाठ करते हैं । और (अध्वरे) यज्ञ के (तायमाने) होते हुए याज्ञिक पुरुष भी उसी (सरस्वतीम्) सरस्वती, वेदवाणी और प्रभु के रसवान् स्वरूप को स्मरण करते हैं । (सुकृतः) उच्चम पुण्याचरण करने वाले पुरुष भी (सरस्वतीम्) सरस्वती की (हवन्ते) उपासना करते हैं । वद् (सरस्वती) आनन्दमयी प्रभु शक्ति (दाशुपे) आत्मसमर्पण करनेवाले

४०—(प्र० द्वि०) 'सद युवानं मृगं न भाम' (च०) 'अन्य ते अत्मानि वपन्तु सेनाः' इति ऋ० ।

४१—(तृ०) 'अह्वयन्त' इति ऋ० । ४१, ४२ एवामृग्वेदे देवश्रवाय मायन ऋषिः ।

को (वायम्) अपने वरण करने योग्य स्वरूप या परम ऐश्वर्य का (दात्) प्रदान करती है ।

सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा युद्धमभिनक्षमाणाः ।

आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इपु आ ध्रैह्यस्मे ॥४२॥

ऋ० १० । १७ । ६ प्र० द्वि० ८ तृ० च० ॥ अथर्व० १८ । ४ । ४६ ॥

भा०—(पितरः) पालक पिता पितामह और देश के अधिकारी लोग भी (यज्ञम्) यज्ञ के (दक्षिणा) दक्षिण दिशा में (अभि नक्षमाणाः) विराजमान होकर (सरस्वतीम्) सरस्वती, वेद वाणी को या गृहस्थी माता पिता स्त्री को (हवन्ते) स्वीकार करते हैं । हे पुरुषो भाप लोग (अस्मिन्) (बर्हिषि) इस महान् यज्ञ में (आसद्य) बैठ कर (मादयध्वम्) हर्ष और आनन्द प्राप्त करो । हे सरस्वती ! तू (अस्मे) हमें (अनमीवाः इपुः) रोग रहित अन्नों का (आ धेहि) प्रदान कर ।

योषा वै सरस्वती वृषा पूषा । शं० २ । ५ । १ । ११ ॥ वाग्वि सरस्वती । ऐ० ३ । २ ॥

सरस्वति या सरथं ययाथोकथैः स्वधामिदेवि पितृभिर्मदन्ती ।

सहस्रार्धमिडो अत्र भागं रायस्पोपं यजमानाय धेहि ॥ ४३ ॥

ऋ० १० । १७ । ८ प्र० द्वि०, ६ तृ० च० ॥

भा०—हे (सरस्वति) सरस्वति, रसकी भरी नदिया के समान या हे छि ! (या) जो तू (उक्थैः) सबसे कहने योग्य, प्रशंसनीय आत्मा के या गृहपति स्वरूप (स्वधामिः) त्व=आत्मा को धारण करने वाले (पितृभिः) शरीर के पालक प्राणों के, या गृह के पालक बुजुर्गों के साथ (मदन्ती) हर्षित करती हुई या तृप्ति करती हुई (अत्र) इस शरीर या गृह में

४२—'सरस्वतीं याम् पि—' (तृ०) 'मादयस्व' इति ऋ० ।

४३—(च०) 'यजमानेषु' (प्र० द्वि०) 'ययाथ स्वधामिः' इति ऋ० ।

(इदः) अन्न के (सहस्रार्धम्) सहस्र गुणा मूल्य के (भागं) अंश को और (रायः पोषम्) धनकी वृद्धि को (यजमानाय) यजमान आत्मा के निमित्त (धेहि) प्रदान कर ।

पितृगण का वर्णन ।

उदीरतामवर उत् परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ।

असं य ईयुरवृका ऋतजास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु ॥ ४४ ॥

ऋ० १० । १५ । १ ॥ यजु० १६ । ४६ ॥

भा०—(अवर) अवर, इन से छोटे पुत्र, पौत्रादि (सोम्यासः) ज्ञान रूप सोम का पान करने वाले शिष्य, विद्यार्थी जन (उद् ईरताम्) उन्नति की तरफ चले, ऊंचे उठे । (परासः) पर, हमसे बड़े सौम्य स्वभाव, सुशील, ज्ञानवृद्ध आचार्य गण भी (उद् ईरताम्) ऊंचे पद को प्राप्त करें । (मध्यमासः सोम्यासः पितरः) मध्यम बीच के, ज्ञानवान्, पालकजन भी (उद् ईरताम्) उन्नति को प्राप्त करें । (ये) जो (असुम्) प्राण को (ईयुः) प्राप्त हैं अर्थात् जो भी प्राण धारण करते हैं (ते) वे (अवृकाः) भेड़िये के समान क्रूर और चौर्य, पातण्ड वृत्ति न होकर (ऋतजाः) सत्य वेद के जानने हारे होकर (पितरः) हमारे पालक रूप से (हवेषु) संग्रानों में भी (नः अवन्तु) हमारी रक्षा करें ।
आहं पितृन्सुविदत्रां अविच्छिन्नपातं च विक्रमणं च विष्णोः ।
अहिंपदो ये स्वधया नुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥४५॥

ऋ० १० । १५ । ३ ॥

भा०—(अहम्) मैं (सुविदत्रान्) उत्तम ज्ञानी (पितृन्) गुरुओं, पालक आचार्यों, कुलपतियों को (वा अविच्छिन्न) प्राप्त करूं और

४४—ऋग्वेदे शत्रोयानायन ऋषिः । पितरो देवताः ।

४५—(तु०) 'स्वधयाये' इति मे० सं० ।

उसी प्रकार (नरात्रम्) वंश को चलाने वाले तन्त्रु को न गिरने देने वाले, पुत्र आदि को भी प्राप्त करें। और (विष्णोः) ध्यानक परमेश्वर के (विक्रमगम्) नाना प्रकार के सृष्टि-कार्य का भलो प्रकार जानूँ। और (ये) जो (वर्हिषदः) वर्हि-नहान् ब्रह्म में निष्ठ होकर (स्वयया) आत्मा की धारणा शक्ति से (सुतस्य) निष्पादित (पितृः) ब्रह्म के समान स्वयं उत्पादित उत्तम कर्म के श्रेष्ठ फल का (भक्त्ये) भोग करते हैं (ते) वे (इह) यहां, इस लोक में (आगमिष्ठाः) आवें।

इहं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वसो ये अपरास ईयुः ।

ये पार्थिवे रजस्य निर्यत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु दिक्षु ॥ ४६ ॥

ऋ० १०।१५।२ ॥ यद्द० १६।६८ ॥

भा०—(अद्य) अब, आज, इस काल में (ये पूर्वसः) जो पूर्व के और (ये अपरासः) जो पंडित के (ईयुः) इस लोक में आये हैं उन सभी (पितृभ्यः) प्रजापालकों का (इदम् नमः) हम इस प्रकार आदर करें। और उनका भी आदर करें (ये) जो (पार्थिवे रजसि) पृथिवी सन्तन्वो रजस् अर्थात् लोक में (आ निर्यत्ताः) अच्छी प्रकार प्रविष्टा पूर्वक विराजते हैं और (ये वा) जो (नूनम्) निश्चय से (सुवृजनासु) उत्तम रीति से वर्गी कृत, विभक्त (दिक्षु) दिशाओं-देशों या देश वासी प्रजाओं में (आ निर्यत्ताः) अच्छी प्रकार राजा आदि पदों पर अविष्टित हैं।

मातली कुर्व्यर्थमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्ऋकभिर्वावृषानः ।

यांश्च देवा वावृषुर्यं च देवांस्ते नोवन्तु पितरो हवेषु ॥ ४७ ॥

ऋ० १०।१४।३ ॥

४६—(दि०) उपरासः । (च०) 'विक्षु' इति ऋ० । (दि०) 'अपरासः

पर्युः' (च०) 'सुवृजिनासु विक्षु' इति पैप्य० सं० । 'विक्षु', 'वृक्षु',

'दिविक्षु' इत्यपि पाठाः क्वचिन् ।

४७—(च०) 'साहाय्ये स्वययाऽन्येनदन्ति' इति ऋ०, तै०सं०, मै०सं० ।

भा०—(मातलां) ज्ञानों को प्राप्त करने वाला (कव्यैः) उत्तम उपदेशकर्ता, अध्यापक एवं शिक्षकों विद्वानों से (यमः) नियामक, व्यवस्थापक नेता (अंगिरोभिः) विद्वान्, पदाधिकारियों द्वारा और (बृहस्पतिः) बृहती, वेदवाणी का पालक विद्वान् (ऋक्वभिः) पूजनीय वेदज्ञों द्वारा (वावृधानः) वृद्धि को प्राप्त होता है । (यान् च) जिनको (देवाः) देव, राजागण (वावृधुः) बढ़ाते हैं उन्नति का पद देते हैं और (ये च) जो (देवान्) देवों, विद्वानां और राजा को बढ़ाते हैं (ते) वे राष्ट्र और देश के पालक जन (हवेषु) युद्धों में (नः) हमारी (भवन्तु) रक्षा करें ।

स्वाद्दुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रसवाँ उतायम् ।

उतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन सहत आहवेषु ॥ ४८ ॥

ऋ० ६ । ४७ । १ ॥

भा०—(अयम्) यह सोम भानन्दरस (किल) निश्चय से (स्वादुः) स्वादु है । (उत अयम् मधुमान्) और यह मधुर भी है । (उत अयम् तीव्रः) और यह तीव्र, अति तीक्ष्ण भी है । (किल अयम् रसवान्) अति भानन्दरस से पूर्ण है । (उतो नु) और क्या कहें ? बड़ी भारी बात तो यह है कि (अस्य) इसके (पपिवांसम्) पान करने हारे या पालन करने हारे (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् इन्द्र आत्मा को (कश्चन) कोई भी (आहवेषु) युद्धों में (न सहते) पराजित नहीं करता ।

परेयिवांसं प्रवतो महीरिति बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम् ।

वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपर्यत ॥ ४९ ॥

ऋ० १० । १४ । १ ॥

४८—ऋग्वेदे गर्ग ऋषिः ।

४९—(प्र०) 'महीरनु' (च०) 'हविषा दुवस्य' इति ऋ० । 'दुवस्यत' (प्र०) 'परेयुवांस' (द्वि०) 'अनपस्पशानम्' तै० आ० । (प्र०)

भा०—हे मनुष्यो ! (महीः प्रवतः) बड़े दूर २ के देशों तक मैं (परियात्रांसम्) पहुँचे हुए, व्यापक (इति) और इसी प्रकार (बहुभ्यः) बहुतों को (पन्याम्) मार्ग का (अनुपस्त्रज्ञानम्) उपदेश करने हारे (जनानाम्) सब जनों के (संगमनम्) एक मात्र उत्तम शरण, (वैवस्वतम्) विशेष ऐश्वर्यवान् (यमम् राज्ञानम्) सर्वनियामक, सब में विराजमान, सब के राजा, प्रभु, परमात्मा को (हविषा) ज्ञान या स्मरण द्वारा (सपर्यत) उपासना करो ।

यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरपभर्त्वा उ ।

यत्रा नः पूर्वे पितरः परेता एना जज्ञानाः पथ्याः अनु स्वाः

॥ ५० ॥ (५)

ऋ० १० । १४ । २ ॥

भा०—(यमः) सर्वनियन्ता, यम, परमेश्वर ही (नः) हमारे अगले (गातुम्) गमन करने के मार्ग को (प्रथमः) सब से पहले (विवेद) विशेष रूप से, खूब अच्छा प्रकार जानता है । (एषा) यह (गव्यूतिः) मार्ग (न अपभर्त्वा उ) परे भी किया नहीं जा सकता । (यत्र) जहाँ (नः) हमारे (पूर्वे पितरः) पूर्व पिता, पितामह आदि पुरुषा लोग (परेताः) मर कर गये हैं, और (एना) इन २ (स्वाः) अपने (पथ्याः) हितकारी प्राप्तव्य मार्गों या लोकों को प्राप्त होकर (जज्ञानाः) उत्पन्न हुआ करते हैं उनको भी वह परमेश्वर भली प्रकार जानता है ।

वर्हिपदः पितर ऊत्यर्वाग्निमा वा हृद्व्या चक्रमा जुषध्वम् ।

‘महीरति’ इति शं० पा० । ‘महीरनु’ सायणाभिमतः । ऋग्वेदे यम-
ऋषिः । यमो देवताः ।

५०—(तु०) ‘परेदः’ इति ऋ० । (च०) ‘येना जज्ञानाः’ इति साय-
णाभिमतः ।

त आ गृतावसा शंतमेनाधा नः शं योररपो दधात ॥ ५१ ॥

ऋ० १०।१५।४ ॥ यजु० १६।५५ ॥

भा०—रक्षक पालक पुरुषों का आदर स्वीकार करने का उपदेश करते हैं । हे (वहिपदः) वहि कुशा के आसनों या ब्रह्म या यज्ञ में उच्च आसनों पर बैठने वाले ! हे (पितरः) पालक पिता तुल्य पूज्य पुरुषो ! आप लोगों के लिये (इमा) ये नाना प्रकार के (हव्या) अन्नों को हम (चकृम) तैयार करते हैं । (जुषध्वम्) आप इनका प्रेम से उपभोग करें । (ते) वे आप लोग (शंतमेन) अति कल्याण और सुखकारी (अवसा) अपने रक्षा प्रबन्ध सहित (शं) शान्ति और (योः) निर्भयता या अभय (दधात) स्थापन करेंगे

आच्या जानुं दक्षिणतो निपद्येदं नो हविरभि गृणन्तु विश्वे ।

मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद् व आगः पुरुषता कराम ॥ ५२ ॥

ऋ० १०।१५।६ ॥ यजु० १६।६२ ॥

भा०—हे पालक पितृ लोगो ! आप लोग (जानु भा अच्य) गोड़ों को कुछ सिकोड़ कर (दक्षिणतः) हमारे दायें ओर (निपद्य) बैठ कर (नः इदं हविः) हमारा यह अन्न (विश्वे) आप सब लोग (अमि-गृहन्तु)^१ खावें, स्वीकार करें । और हे (पितरः) पालक वृद्ध पुरुषो ! (वः) आप लोगों के प्रति हम लोग (यत्) जो (आगः) अपराध (पुरुषता) मनुष्य होने होने के कारण (कराम) करें ऐसे (केन चिद्) किसी भी अपराध के कारण (नः) हमें (मा हिंसिष्ट) पीड़ित न

५१—(च०) 'अया' इति ऋ०, यजु० । 'अघात्मस्य' ते० सं० । 'दधातन' इति मै० सं० ।

५२—(द्वि०) 'इमं यत्नमभिगृणीत विश्वे'

१. विकरण व्यत्ययः ।

करें । देश के रक्षक लोग प्रजा से अन्न रूप कर लें, परन्तु उनको मनुष्यता के कारण होनेवाले साधारण त्रुटियों पर पीड़ित न करें ।

त्वष्टां दुहित्रे वदतुं कृणोति तेनेदं विश्वं भुवनं समेति ।

यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया चिवस्वतो ननाश ॥ ५३ ॥

ऋ० १०।१७।१ ॥

भा०—(त्वष्टा) समस्त जगत् का ऋषि, (दुहित्रे) समस्त लोकों को पूर्ण करने वाली या कामधेनु के समान ईश्वर के लोक सर्जन की इच्छा को पूर्ण करनेवाली प्रकृति से (वदतुम्) इस महान् ब्रह्माण्ड रूप भार को जिसको वह स्वयं उदाये हैं (कृणोति) बनाता है । (तेन) उसी कारण (इदम्) यह (विश्वम्) समस्त (भुवनम्) लोक (सम् एति) बना हुआ है । (यमस्य) सर्वनियन्ता परमेश्वर की (माता) जगन्निर्मात्री प्रकृति (परि-उह्यमाना) सब प्रकार से धारण की गई वह (महः जाया) बड़ी भारी उत्पादक शक्ति (चिवस्वतः) विविध रूपों में बने लोकों के स्वामी उस प्रभु की शक्ति से ही (ननाश) विकार को प्राप्त होती है, अर्थात् अप्रकट से प्रकट और सूक्ष्मरूप से स्थूल में आती है ।

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्यसौर्येनां ते पूर्वं पितरः परेताः ।

उभा राजानौ स्वधया मदन्तौ यमं पश्यासि वरुणं च देवम् ॥ ५४ ॥

ऋ० १०।१४।७ ॥

भा०—हे पुरुष ! तू (पूर्यसौर्येः) पुर को जाने वाले मार्गों के समान पूर्ण ब्रह्म तक पहुँचा देनेवाले उन (पथिभिः) मार्गों से (प्र-प्रेहि, प्र-

५३—'कृणोति इतीदं' इति ऋ० ।

५४—'पथिभिः पूर्यसौर्येनां ते पूर्वं पितरः परेताः ।' (तृ०) 'राजानौ', 'मदन्ता' इति ऋ० ।

इहि) नित्य भागे बड़ (येन) जिनसे (ते) तेरे (पूर्वे पितरः) पूर्व के गोत्रपरिपालक, पूर्व पुरुषा (परेताः) चल गये हैं । तू (उभौ) दोनों (राजानौ) प्रकाशमान (स्व-धया मदन्तौ) अपनी धारण शक्ति अमृत-मयी चेतना से आनन्द करते हुए (यमम्) सर्वनियामक यमस्वरूप और (वरुणम्) वरण करने योग्य सबसे श्रेष्ठ परमात्मा (देवम्) देव को भी (पश्यति) देख सकता है ।

अपेतं वीतं चिचं सर्पतातोस्मा एतं पितरो लोकांमक्रन् ।

अहोभिरद्भिर्वक्तुभिव्य/क्लं यमो ददात्यवसानमस्मै ॥ ५५ ॥

क्र० १० १४ ६ ॥ यजु० १२ । ४५ ॥

भा०—(अतः) इस लोक से हे जीव ! तुम (अप इत) दूर जाते हो । (वि इत) नाना दिशाओं में जाते हो, (वि सर्पत च) और विविध प्रकारों से जीवन यात्रा करते हो । (पितरः) पालक, पूर्व पुरुषा लोगों ने (अस्मै) इस अपने उत्तराधिकारी के लिये ही (एतम् लोकम्) यह लोक भोगने के लिये (अक्रन्) बनाया है ! (यमः) सर्वनियन्ता पर-मेश्वर (अहोभिः) दिनों (अद्भिः) जलों और (अक्तुभिः) रात्रियों से (वि-अक्तम्) विशेष रूप से कान्तियुक्त (अवसान्) इस भूलोक को (अस्मै) इन जीवों के निवास के लिये (ददाति) देता है ।

उशन्तस्त्वेधीमह्यशन्तः समिधीमहि ।

उशन्नुशत आ वह पितृन् हविषे अत्तवे ॥ ५६ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! हम (त्वा) तेरी (उशन्तः) कामना करते हुए, तुझे चाहते हुए (इधीमहि) तुझे ही प्रदीप्त करते हैं, हृदय में तुझे चेताते हैं । और (उशन्तः) तेरी कामना करते हुए (सम् इधी मही)—

५५—(च०) 'ददात्ववसा'—तै० आ०। (द्वि०) 'यत्रस्थ पुराणा येत्र नूतनाः' ।

५६—(प्र०) 'निधीमह्य'—इति क्र० । हवामहे, मै० सं० ।

तुझे मली प्रकार प्रदीप्त करते हैं । हे (उशन्) कान्तिमय, हे सर्वकाम ! तू ही (उशतः) नाना कामना करते हुए (पितृन्) सर्वपालक, पिता पितामह आदि को (हविषे अत्तवे) अपने प्राप्त कर्म फल के भोग करने के लिये (आ वह) अन्य लोक को प्राप्त करा, पहुँचा ।

द्युमन्तस्त्वेधीमहि द्युमन्तः समिधीमहि ।

द्युमान् द्युमत आ वह पित्र्ण हविषे अत्तवे ॥ ५७ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! हम स्वयं (द्युमन्तः) तेजस्वी होकर (त्वा इधीमहि) तुझे प्रज्वलित करें । हम (द्युमन्तः) तेजस्वी होकर (सम्-इधीमहि) मली प्रकार प्रज्वलित, हृदय में प्रबोधित करते हैं, तेरी ज्योति जगाते हैं । तू (द्युमान्) स्वयं तेजस्वी (पित्र्ण द्युमतः) तेजस्वी पूर्व पुरुषों को (हविषे अत्तवे) हवि अर्थात् स्वयंप्राप्त कर्मफल के भोग के लिये (आ वह) प्राप्त करा ।

अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः ।

तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ५८ ॥

ऋ० १०।१४।६ ॥ यजु० १६।५० ॥

भा०—(नः) हमारे (पितरः) पालक पूज्य, पुरुष (अङ्गिरसः) ऋते अंगारों के समान तेजस्वी (नवग्वाः) सदा नवीन, हृदय प्राहिणी स्तुतियों से पूर्ण वाणिषों को बोलने वाले, (अथर्वाणः) अहिंसक, प्रजापति (भृगवः) पापों को भून डालने वाले और (सोम्यासः) सोम रस, ज्ञान और ब्रह्मानन्द का रस पान करनेवाले, सौम्य स्वभाव वाले हों । (तेषाम्) इन (यज्ञियानाम्) श्रेष्ठ यज्ञ अर्थात् परमेश्वरोपासकों की (सुमतौ) शुभ मति में और उनकी (भद्रे) कल्याणकारी (सौमनसे) उत्तम सुमसन्न चित्तता में (वयम्) हम सदा (स्याम) रहें ।

अङ्गिरोभिर्यज्ञियैरा गङ्गीह यमं वैरूपैरिह मादयस्व ।

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेस्मिन् बर्हिष्या निपद्य ॥ ५६ ॥

ऋ० १०।१४।५ ॥

भा०—(यज्ञियैः) यज्ञ के उपासक ! (अङ्गिरोभिः) सूर्य के ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी पुरुष के साथ, हे (यम) नियन्ता वैज्ञानिक, राजन् ! (इह) इस लोक में (आगहि) तू आ, प्रकट हो । और (वैरूपैः) नाना रूपों से (इह) इस लोक में (मादयस्व) तू ही समस्त प्राणियों के सुख का कारण है । मैं उपासक (बर्हिषि) यज्ञ में या महान् ब्रह्म में या कुशासन पर (आ निपद्य) बैठकर उस (विवस्वन्तम्) नाना वसु-लोकों के स्वामी परमेश्वर को (हुवे) पुकारता हूँ, उसका स्मरण करता हूँ जो (ते) तेरा भी (पिता) पालक पिता है ।

इमं यमं प्रस्तरमा हि रोहाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः ।

आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता बहन्त्वेना राजन् हविषो मादयस्म ॥ ६० ॥

ऋ० १०।१४।४ ॥

भा०—हे (यम) यम ! राजन् ! (अङ्गिरोभिः) आङ्गिरस वेद के ज्ञाता (पितृभिः) राष्ट्र के पालक, पिता के समान पूजनीय पुरुषों के साथ (सं विदानः) राष्ट्र-व्यवस्था की मन्त्रणा करता हुआ तू (प्रस्तरम्) उत्तम बिछे हुए आसन पर (हि) ही (आरोह) आरूढ़ हो । (कविशस्ताः) क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी बुद्धिमान् पुरुषों द्वारा उपदेश किये गये (मन्त्राः) नीति उपदेश (त्वा) तुझ को (आवहन्तु) आगे के उचित मार्ग पर ले जाय । हे (राजन्) राजन् ! (एना) इन

५६—(च०) 'अस्मिन् यज्ञे आ' (प्र०) 'अङ्गिरोभिरागहि यज्ञियैभिः'

इति ऋ० ।

६०—'अतिसीद्', 'हविषः' इति० ऋ० ।

विद्वान् पुरुषों को (हविषः) उत्तम अन्न और आदर से प्रदत्त पुरस्कारों से (मादयस्व) प्रसन्न रख ।

इत एत उदारुहन् दिवस्पृष्टान्यारुहन् ।

प्र भूर्जयो यथा पथा द्यामङ्गिस्सो ययुः ॥६१॥ (६) साम० १।६२॥

भा०—(यथा पथा) जिस तरह के मार्ग से (अङ्गिरसः) ज्ञानी पुरुष (भूर्जयः) इस भूलोक को या भूः अर्थात् जन्म ग्रहण करने रूप भव-बन्धन को विजय करके (द्याम्) प्रकाशस्वरूप द्यौः या मोक्ष में (प्र-ययुः) प्रयाण करते हैं उसी प्रकार के मार्ग से जो लोग (दिवः) प्रकाशमान तेजोमय (पृष्ठानि) लोकों को (आरुहन्) जाते हैं (एते) वे (इतः) इस लोक से ही (उत्-आरुहन्) ऊपर जाते हैं ।

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

[तत्र एकं सूक्तं ऋचश्चैकपष्टिः]

[२] पुरुष को सदाचारमय जीवन का उपदेश ।

अथर्वो ऋषिः । यमो मन्त्रोक्ताश्च बहवो देवताः । ४, ३४ अग्निः, ५ जातवेदाः, २६ पितरः । १, ३, ६, १४, १८, २०, २२, २३, २५, ३०, ३६, ४६, ४८, ५०, ५२, ५६ अनुष्टुभः, ४, ७, ६, १३ जगत्यः, ५, २६, ३६, ५७ भुरिजः, १२६ त्रिप-दार्ची गायत्री । २४ त्रिपदा समविषमार्षी गायत्री । ३७ विराड् जगती । ३८, ४४ आर्षीगायत्र्यः (४०, ४२, ४४ भुरिजः) ४५ ककुम्भती अनुष्टुप् । शेषाः त्रिष्टुभः । पष्टयुचं सूक्तम् ॥

यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हविः ।

यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरकृतः ॥ १ ॥ ऋ० १०।१४।१३॥

६१—(च०) 'उद-द्याम्' इति साम० ।

[२] १—(प्र०) 'सोमं सुनुत' (दि०) 'बहुता' इति ऋ० । (तृ०) 'गच्छतु'

भा०—(यमाय) यम, नियम व्यवस्था के करने हारे, राजा प्रभु के निमित्त (सोमः) सोम रस (पवते) छाना जाता है । (यमाय हविः क्रियते) यम-राजा के लिये ही हवि अर्थात् अन्न उत्पन्न किया जाता है । (यज्ञः) यज्ञ, राष्ट्र (अग्निदूतः) ज्ञानवान् पुरुषों को अपना दूत प्रतिनिधि बन कर और (अरंकृतः) सुभूषित, सुशोभित होकर (यमं ह गच्छति) नियामक राजा की शरण में आता है ।

परमात्मा के पक्ष में—सर्वनियन्ता परमेश्वर की आज्ञा के निमित्त ही (सोमः-पवते) सोम, प्रेरक सूर्य गति करता है । उस नियन्त्रा के लिये ही (हविः) यज्ञ हवि तैयार की जाती है । अग्नि से प्रज्वलित यज्ञ भी परमेश्वर के निमित्त ही रचा जाता है ।

यमाय मधुमत्तमं जुहोता प्र च तिष्ठत ।

इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ २ ॥

ऋ० २० । १४ । १५ ॥

भा०—(यमाय) उस सर्वनियन्ता परमेश्वर के लिये ही (मधु-मत् तमम्) अति मधुर वचन का (जुहोत) एक दूसरे के प्रति प्रदान करा । (च प्र तिष्ठत) एक दूसरे के देशों को प्रस्थान करो (पूर्वजेभ्यः) पूर्व उत्पन्न (ऋषिभ्यः) ऋषियों और (पूर्वैभ्यः) अपने पूर्व काण्ड के (पथिकृद्भ्यः) मार्गविधाताओं, मार्गद्रष्टाओं से (इदम्) इस प्रकार से (नमः) आदर किया करो ।

यमाय घृतवत् पथो राज्ञे हविर्जुहोतन ।

स नो जीवेष्वा यमेदीर्यमायुः प्र जीवसे ॥ ३ ॥ ऋ० १०।२४।१४॥

इति तै० आ० । (च०) 'अलंकृतः' इति सायणासिमतः ।

२—(द्वि०) 'राज्ञे हव्यं जुहोतत्र' इति ऋ० ।

३—(द्वि०) 'जुहोता प्र च तिष्ठता' (प्र०) 'घृतवद् हविः' इति ऋ० ।

भा०—हे पुरुषो ! (यसाय) सर्वनियन्ता (राज्ञे) राजा के समान सब के राजा प्रभु परमेश्वर के लिये (घृतवत्) घृत से युक्त (पयः) पुण्ड्रकारक दुग्ध और (इविः) अन्न आदि (जुहोतन) अग्नि और उसके समान विद्वान् तेजस्वी ब्राह्मण को प्रदान करो । (सः) वह सर्वनियन्ता परमेश्वर (नः) हमें और हमारे (जीवेषु) जीवों में (दीर्घम् आयुः) दीर्घ जीवन को (ना यमेत्) प्रदान करे और वह (जीवसे) जीवन के लिये हमें (प्र यमेत्) सब पदार्थ प्रदान करे ।

आचार्य और शिष्य का कर्त्तव्य

मैतमग्ने वि दहो माभि शूशुचो मास्य त्वच्चं चिक्षिपो मा शरीरम् ।
श्रुतं यदा करासि जातवेदोऽथमेतं प्र हिणुतात् पितृन् उप ॥ ४ ॥

ऋ० १० । १६ । १ ॥

भा०—हे (अग्ने) आग्ने ! आचार्य ! (एनम्) इस शिष्य को (ना वि दहः) मत जला । (मा अभि शूशुचः) संतप्त मत कर (अस्य त्वचम्) इसकी त्वचा को (मा चिक्षिपः) मत काट फाट, और (शरीरम्) इसके शरीर को भी (मा चिक्षिपः) मत विनाश कर । हे (जातवेदः) जातप्रज्ञ ! विद्वन् ! (यदा) जब इसको (श्रुतम्) परिपक्व, पूर्ण ज्ञानवान् (करासि) करदे (अथ) तब (ईम् एनम्) उस शिष्य का (पितृन् उप) माता पिताओं के समीप (प्रहिणुतात्) भेज ।

(वृ०) 'स नो देवेन्द्रायमद ।'

५—(वृ०) 'यदो श्रुतं कृण्वो' (प्र०) 'मा विशोचः' (च०) 'पितृभ्यः'
इति ऋ० । (च०) 'अथमेतं' इति क्वचिन् । (प्र०) 'करवः'
इति तै० ब्रा० ।

यदा शृतं कृणवां जातवेदोश्चेमेनं परि दत्तात् पितृभ्यः ।
यदो गच्छात्यसुनीतिमेतामथ देवानां वशनीर्भवाति ॥५॥

३३

ऋ० १०। १६। २ ॥

भा०—हे (जातवेदः) जातप्रज्ञ ! विद्वन् आचार्य ! (यदा) जब आप शिष्य को (शृतम्) ज्ञान में परिपक्व (कृणवः) कर देते हो (अथ) और (इम् एताम्) इसको (पितृभ्यः परिदत्तात्) इसके माता पिता और दृद्धजनों को सौंप देते हो और (यदो) जब वह (एताम्) इस प्रकार के (असु-नीतिम्) असत् आचार में (गच्छाति) चला जाय (अथ) तभी वह (देवानां) विद्वान् शासकों के (वशनीः) वश में जाने योग्य (भवाति) हो जाय । अथवा—(यदो असु-नीतिम् एताम् गच्छाति) जब तक प्राणों के अपहार को प्राप्त हो अर्थात् मरणकाल को प्राप्त हो तब भी वह (देवानां वशनीः भवाति) अपने देव-इन्द्रियों को वश में करने वाला ही रहे । अर्थात् गृहस्थ में भी पुरुष अपने मृत्यु पर्यन्त जितेन्द्रिय होकर ही रहे ।

त्रिकद्रुकेभिः पवते पडुर्वीरेकमिद् बृहत् ।

त्रिष्टुप् गायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम आर्पिता ॥ ६ ॥

ऋ० १०। १४। ६ ॥

भा०—(एकम् इत् बृहत्) वह एक ही सब से महान् ब्रह्म तत्त्व (त्रिकद्रुकेभिः) तीन 'कद्रुक', गुणों से (पट् उर्वाः) छहों महान् दिशाओं में (पवते) व्याप्त हो रहा है । (त्रिष्टुप्) त्रिष्टुप् और गायत्री आदि (छन्दांसि) छन्द (सर्वा) सब (ता) वे (यमे) उस नियन्ता परमेश्वर में (आ-अर्पिता) गतार्थ हैं ।

५-१ 'शृतं यदा करमि' इति ऋ० ।

६-(प्र०) 'पतति' (च०) 'आहिता' इति ऋ० ।

सूर्यं चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मभिः।
 अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोपधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः॥७॥
 ऋ० १०।१६।३॥

भा०—हे पुरुष (चक्षुषा) अपने चक्षु द्वारा (सूर्यम्) सूर्य के प्रकाश को (गच्छ) प्राप्त कर, आंख में तेज का ग्रहण कर । (आत्मना) अपने शरीर में (वातम्) प्राण वायु को ग्रहण कर । (धर्मभिः) शरीर के धारक बलों द्वारा (दिवम्) द्यौः-आकाश और (पृथिवीम् च) पृथिवी को भी (गच्छ) प्राप्त कर, अपने वश कर । (अपः वा गच्छ) तू जलों को भी प्राप्त कर । और (यदि) जो कुछ (तत्र) उन (ओपधीषु) ओपधियों में भी (ते) तेरे लिये (हितम्) हितकर पदार्थ विद्यमान है तो उसको भी प्राप्त कर । फलतः तू (शरीरैः) अपने प्राप्त शरीरों में (प्रति तिष्ठाः) लोकों में प्रतिष्ठित होकर रह ।

अजो भ्रूंगस्तपसस्तं तं पवस्व त ते शोचिस्तपतु तं ते अर्चिः।
 यास्ते शिवास्तन्वो/ जातवेदस्ताभिर्वहेन सुकृतामु लोकम् ॥८॥

भा०—हे (जातवेदः) जातप्रज्ञ परमात्मन्, आचार्य ! (अजः भागः) अज, अजन्मा जीवात्मा ही शरीर में दुःख सुख का सेवन करता है । अतः तू उसे ही (तपसः) तप, ज्ञान, स्वाध्याय और प्रवचन और तपस्या द्वारा (तपन्व) मन्तव्य कर, उसको तपोमय आचरण करा । (तम्) उस आत्मा को ही (ते शोचिः) तेरी ज्ञान रूप ज्वाला या प्रकाश (तपतु) तप्त करे (तम्) उसको (ते अर्चिः) तेरी दीप्ति प्रकाशित करे । हे ईश्वर ! (ते) तेरे (याः) जो (शिवाः) कल्याणकारी (तन्वः) रक्षित पदार्थ या देह हैं (ताभिः) उनमें (एनम्) इस जीव को

७-(प्र०) चक्षुर्गच्छतु, 'आत्मा' (द्वि०) 'द्यां', 'धर्मणां' इति ऋ० ।

'सूर्यं ते' तं आ० ।

(सुकृताम्) पुण्यकर्ताओं के (लोकम् वद) लोक को प्राप्त करा। सायणादि ने इस मन्त्र में मृतशव के लिये बकरे या अनुकुरणी नाम गौ को मार कर होमने परक अर्थ किया है जो असंगत है।

यास्ते शोच्यो रंहयो जातवेदो याभिराप्सृणासि दिवमन्तरिक्षम्।
अजं यन्तमनुताः समृण्वतामथेतराभिः शिवतमाभिः शृतं कृधि।

भा०—हे (जातवेदः) सर्वज्ञ परमेश्वर! (ते) तेरी (याः) जो (शोच्यः) ड्वालाएँ और (रंहयः) वेगवती शक्तियाँ हैं और (याभिः) जिनसे (दिवम्) द्यौः और (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष को भी (आप्सृणासि) सर्वत्र व्याप रहा है, पूर रहा है। (ताः) वे सब (अनु-यन्तम्) उनके अनुकूल रहने वाले (अजम्) इस आत्मा को (समृण्वताम्) भली प्रकार सुख रूप से प्राप्त हों। (अथ) और (इतराभिः) उनसे दूसरी, प्रतिद्वन्द्व, कष्टमय प्रतीत होने वाली परतु (शिव-तमाभिः) अति कल्याणकारिणी शक्तियों से उस आत्मा को बराबर (शृतं कृधि) परिपक्व, सहनशील, तपस्वी बना।

अबं सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्तु आहुतश्चरति स्वधावान्।
आयुर्वसान्त उप यातु शेषः सं गच्छतां तन्वा सुधर्माः॥१०॥(७)

ऋ० १०। १६। ५ ॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवान् आचार्य! (यः) जो (स्वधावान्) स्व अर्थात् आत्मा या शरीर को धारण पोषण करने वाले वीर्य से युक्त होकर (ते) तेरे समीप (आहुतः) अग्ने को सर्वापंग करके (चरति) ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करे तू उसके (पुनः) फिर (पितृभ्यः) पिता, माता

६—(च०) 'शिवं कृधि' इति छिदानितम्मतः, बहुत्र च।

१०—(तु०) 'वितु' (द्रि०) 'स्वधाभिः', (च०) 'तन्वा जातवेद' इति

ऋ०। तत्रैव 'उपयातु शेषम्' इति तै० आ०।

भा०—हे (यन्) सर्वानियन्तः ! (ते) तेरे (यौ) जो दो (चतुरस्रौ) चारों तरफ बांध फेंकने वाले, सार्वधान (रक्षितारौ) रक्षा करने हारे (पथिषद्भ्यो) मार्ग में विराजने वाले (वृचस्रसौ) सब ननुष्यों को देखने वाले, (श्रानौ) सदा गतिशील रात्रि और दिन हैं । हे (रावन्) रावन्, सर्वोपरि विराजमान ! (तान्यां) उन दोनों से (पुनन्) इस पुरुष को (परि घेहि) सब तरफ से रक्षा कर । और (जलै) इस पुरुष को (ज्वलि) सुखपूर्वक और (अननीवं च) नीरोग (घेहि) रह ।

उरुणसावसुतृपावुदुम्बलौ यमस्य दृतां चरतो जनां अमुं ।

तावस्मभ्यं इशये सूर्याय पुनर्द्रीतामनुंसघेह भद्रम् ॥ १३ ॥

भा०—(उरु-नसौ=उरुनासौ) नहात् शब्द करने हारे (अनु-वृसौ) सब प्राणियों के प्राणों से दूत होने वाले या सब प्राणियों को प्राणों से दूत करने वाले (उदुम्बलौ=उदुबलौ) जति बलवान् (यमस्य) नियन्ता परमेश्वर के (दृतां) दो दूत, प्राणियों के तार देने वाले रात और दिन (जनात् अनुवृतः) प्राणियों के सदा साथ रहना करते हैं । (तौ) वे दोनों (जलान्यन्) इनमें (सूर्याय) सब के प्रेरक परमात्मा के (शो) दर्शन के लिये (पुनः) बार २ (अथ इह) यहां, इस लोक में (भद्रम्) कल्याणकारी, सुखप्रद (अनुन्) प्राण, जीवन (दातात्) प्रदान करें ।

सोसु एकैभ्यः पवते वृत्तमेकं उपासते ।

येभ्यो मधुं प्रधावन्ति नांश्चिदेवापि गच्छताव् ॥१४॥

भा०—(एकैभ्यः) जिन्होंने विद्वानों के लिये (सोसः पवते) सोस=

१२—(द्वि०) 'परिधीनी वृचस्रसौ' (वृ०) 'तान्यानेन परिदाहि रावन्'

(व०) 'ज्वलि च' ।

सोममय ब्रह्मरस वइता है । (एके घृतम् उपासते) और कोई विद्वान् 'घृत = आदित्य या यजुर्वेद प्रतिपादित तेजोमय ब्रह्म की उपासना करते हैं । (वेभ्यः) जिनके लिये (मधु) मधु = अथर्व प्रोक्त ब्रह्मज्ञान (प्रवाचति) प्रवाहित होता है । हे पुरुष ! तू (तान् चित्) उन पूज्य पुरुषों के पास (अपि गच्छतात्) सत्सग लाभ किया कर और ज्ञान प्राप्त कर ।

यत्सामानि सोम एभ्यः पवते... यद् नजृपि घृतस्य कृत्याः । यद् अय-
वांगिरसो मधोः कृत्याः ॥ इति तै० ब्रा० २।१०।३ ॥

ये चित् पूर्वं ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृथः ।

ऋपीन् तपस्वतो यम तपोजा अपि गच्छतात् ॥ १५ ॥

भा०—हे (यम) यम नियम और ब्रह्मचर्य में निष्ठ ब्रह्मचारिन् ! (ये) जो (पूर्वं चित्) पूर्व के या परिपूर्ण ज्ञाननिष्ठ (ऋतसाताः) तप और स्वाध्याय में संलग्न, (ऋतजाताः) ऋत = सत्य ज्ञान में उत्पन्न, प्रसिद्ध (ऋतावृथः) सत्य, ब्रह्मज्ञान को बढ़ाने, उपदेश करके उसकी वृद्धि करने वाले ऋषि लोग हैं उन (तपस्वतः) तपश्चर्या से युक्त, तपस्वी, (ऋषीन्) तपदर्शी (तपोजान्) तपोनिष्ठ ऋषियों को (अपि गच्छ-
तात्) प्राप्त हो और उनसे ज्ञान प्राप्त कर ।

तपसा ये अनावृष्यास्तपसा ये स्वविद्युः ।

तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ १६ ॥

भा०—हे पुरुष ! (ये) जो (तपसा) तप से (अनावृष्याः) कसब कजेय तेजबाले हैं और (ये) जो (तपसा) तप के बल से (स्वः) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हैं और (ये) जो (महः) महान् (तपः) तप (चक्रिरे) करते हैं (तान् चित् एव अपि) उन पूज्य पुरुषों के पास भी तू (गच्छतात्) जा ।

ये युध्यन्ते प्रथनेषु श्रास्ता ये तनूत्यजः ।

ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ १७ ॥

भा०—और हे पुरुष ! (वे) जो (शूरानः) शूरवीर पुरुष (प्रवनेष्टु) युद्ध के अवसरों में (युध्यन्ते) युद्ध करते हैं और (वे) जो (तन्व-यज्ञः) अपने देहों को भां त्याग देने में समर्थ हैं (दे च) और जो (सहस्र-इक्षिणाः) सहस्रों धन सम्पत्ति इक्षिणा रूप में दान करने में समर्थ हैं (तान् वित् एव अपि गच्छतात्) तू उनको भी प्राप्त कर । उनका भी सत्संग कर और शिक्षा ले ।

सहस्रंलीथाः क्वयो ये गोपायन्ति सूर्यम् ।

ऋषीन् तपस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात् ॥ २२ ॥

भा०—(सहस्रगाथाः) सहस्रों अपरिमित ज्ञान-चक्षुओं वाले (क्वयः) परम प्रज्ञा से सम्पन्न विद्वान् लोग ये (सूर्यम्) सूर्य के समान तेजस्वी परमेश्वर को, उसके ज्ञान भण्डार को (गोपायन्ति) रक्षा करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं । हे (यम) ब्रह्मचर्यपालक यम ! नियम में निष्ठ पुरुष ! ऐसे (तपस्वतः) तपस्वी (तपोजान्) तप में निष्ठ (ऋषीन् अपि गच्छतात्) ऋषियों को भी प्राप्त हो और उनके ज्ञान लाभ कर ।

स्योनास्मै भव पृथिव्यनृजरा निवेशनो ।

यच्छास्मै शर्म सप्रथाः ॥ २६ ॥

भा०—हे (पृथिवि) पृथिवी ! (अस्मै) इस पुरुष के लिये तू (स्योना) सुखकारिणी (अनृजरा) कांटों से रहित (निवेशनी) बसने योग्य (भव) हो और अस्मै (सप्रथाः) अति विन्मृत होकर (शर्म यच्छ) सुखमय शरण प्रदान कर ।

असंवाधे पृथिव्या उरौ लोके निधीयस्व ।

स्वधा याश्चकृपे जीवन् तास्तं सन्तु मधुश्चुतः ॥२०॥ (=)

१२—नीयते सनीधः नयनं वा । नयत्रैरौपादिकः कथम् । उपा० १।२।

भा०—हे पुरुष ! तू (पृथिव्याः) पृथिवी के (असंवाधे) पीड़ा और भय से रहित (उरौ लोके) बड़े विशाल लोक में (निधीयस्व) निवास कर । तू (जीवन) जीता रह कर अपने जीवन काल में (याः) जो भी (स्वधाः) अपने धारण, पालन, पोषण और रक्षा के उपाय (चक्रुषे) करे (ताः) वे सब (ते) तुझे (मधुश्रुतः) आनन्द-रस बहाने वाले हों । वे तेरे लिये परिणाम में दुःखकर न हों ।

ह्वयामि ते मनमा मनं इमेमान् गृहान् उप जुजुषाण एहि ।

संगच्छस्व पितृभिः सं यमेन स्योनास्त्वा वाता उप वान्तु शग्माः२२

भा०—हे पुरुष ! (मनसा) मनसे (ते मनः) तेरे चित्त को (ह्वयामि) बुलाता हूँ । तू (इमान् गृहान्) इन गृह के सम्बन्धियों को (जुजुषाणः) निरन्तर प्रेम करता हुआ (उप एहि) प्राप्त हो, उनके पान आ । और (पितृभिः) अपने बुजुर्ग, माता पिताओं से (संगच्छस्व) जाकर सत्-संग लाभ कर. उनके दर्शन कर । (यमेन) सर्वनियन्ता राजा या प्रभु से भी (संगच्छस्व) भेंट कर । (त्वा) तेरे लिये (स्योनाः) सुखकारी (शग्माः) शान्तिदायक (वाताः) वायु (उपवान्तु) बहा करें ।

उत् त्वा वहन्तु मरुत उदवाहा उदप्रुतः ।

अजेन कृष्वन्तः शीतिं वर्षेणोक्षन्तु वालिति ॥ २२ ॥

भा०—हे पुरुष ! (उदवाहाः) जल उठाने वाले और (उदप्रुतः) जलों से पूर्ण (मरुतः) वायुपुं, अथवा—(उदवाहा उदप्रुताः) जल को वाइन बनाने और जल के मार्ग से गति करने वाले (मरुतः) वैश्वगण (त्वा नद् वहन्तु) तुझे ऊपर प्रतिष्ठा-उद पर उठावें । और (अजेन वर्षेण) निरन्तर गति करने वाले, निरन्तर आने वाले धारा-वर्षण से (शीतम्) सर्वत्र शीत-च्छण्डक (कृष्वन्तः) करते हुए मेघयुक्त वायुपुं (वाल इति उक्षन्तु) 'वाल' इस प्रकार के शब्द के साय भूमि पर जल बरसाएँ ।

उदं ह्मायुरायुषे क्रत्वे दक्षाय जीवसे ।

स्वान् गच्छतु ते मनो अधा पितृ रूपं द्रव ॥ २३ ॥

भा०—हे पुरुष ! (आयुषे) दीर्घजीवन, (क्रत्वे) कर्म, (दक्षाय) बल और (जीवसे) आरोग्य जीवन के लिये (आयुः) प्राप्त करने का (उत्-अहम्) उपदेश करता हूँ । (ते मनः) तेरा चित्त (स्वान्) अपने बन्धुजनों के प्रति (गच्छतु) जावे (अधा) और तू मन्त्र भी (पितृन्) माता पिता आदि वृद्ध पूज्य पुरुषों के पास जा और उनसे विद्या और अनुभव प्राप्त कर ।

मा ते मनो मासोर्माङ्गानां मा रसंस्य ते ।

मा ते हास्त तन्वः किंचिन्नेह ॥ २४ ॥

भा०—हे पुरुष ! (ते मनः) तेरा मन (मा हास्त) तुझे न छोड़े । (असोः) प्राण का (किंचिन् मा) कुछ भी अंश तुझे न छोड़े । (ते अङ्गानां किञ्चन मा) तेरे अंगों का भी कुछ अंश तुझे न छोड़े । (इह ते तन्वः किंचिन् मा हास्त) यहां तेरे शरीर का कोई भाग भी तुझसे न छूटे ।

मा त्वा वृक्षः सं वाधिष्ट मा देवी पृथिवी मही ।

लोकं पितृपुं वित्तवैधस्व यमराजसु ॥ २५ ॥

भा०—(वृक्षः) वृक्ष जाति (त्वा) तुझको (मा संवाधिष्ट) पीड़ा न दे । (मही पृथिवी देवी) बड़ी यह पृथ्वी देवी भी (मा) तुझे पीड़ा न पहुंचावे । तू (यमराजसु) यम-नियन्ता परमेश्वर को ही एकमात्र अपना राजा मानने वाले या नियामक राजा को राजा मानने वाले (पितृपुं) पालक, देशरक्षकों में (लोकं वित्त्वा) स्थान पाकर तू (एधस्व) वृद्धि को प्राप्त हो ।

यत् ते अङ्गमतिहितं पराचैरपानः प्राणो य उ वा ते परैतः ।

तत् ते संगत्य पितरः सनीडा वासाद् वासं पुनरा वैशयन्तु ॥२६॥

भा०—अंग भङ्ग आदि विपत्ति और रोग आदि पर क्या करें । हे पुरुष ! (ते) तेरा (यत्) जो (अङ्गम्) अंग, शरीर का कोई भाग (पराचैः) दूर (अतिरहितम्) चला गया है, कष्ट पा गया है (वा) या (अपानः) अपान (प्राणः) और प्राण (ते) तेरा (परा इतः) दूर हो गया है (तत्) तब (सनीडाः) एकही आश्रयस्थान में रहने वाले (पितरः) परिपालक वृद्ध लोग (संगत्य) मिलकर एकत्र होकर (वासात्) अपने भोग्य अन्न पदार्थों में से तेरे लिये पर्याप्त (वासम्) भोग्य अन्न पदार्थ (पुनः) पुनः (वा वैशयन्तु) प्रदान करें । यदि कोई पुरुष किसी अंग से रहित लंगड़ा लूझा हो जाय या प्राण अपान बिगड़ कर बीमार हो जाय तो उसके पास के वृद्ध लोग मिलकर उसकी सहायता करें और अन्न वस्त्र ओषधि आदि अपने अंश में से जुटा दें ।

अपेमं जीवा अरुधन् गृहेभ्यस्तं निर्देहतं परि ग्रामादितः ।

मृत्युर्यमस्यासीद् दूतः प्रचेता असून् पितृभ्यो गम्यां चकार ॥२७॥

भा०—मृत्यु होने पर क्या करें सो बतलाते हैं—(जीवाः) जीवित लोग (इमम्) इस प्राणापान रहित मृत पुरुष को (गृहेभ्यः) घरों से निकाल कर (अप अरुधन्) बाहर रखें । हे गृह के जीवित पुरुषो ! (तम्) उस मृत शव को (इतः ग्रामात्) इस ग्राम से (परि निर्देहत) परे दूर ले जाओ । (मृत्युः) मृत्यु (यमस्य) सर्व नियन्ता परमेश्वर का (दूतः आसीत्) दूत, संतापकारी साधन है । वह (प्रचेताः) उत्तम ज्ञानवान् और ज्ञानप्रद, उपदेश देने और शिक्षा प्राप्त करने का भी साधन

२६-१. आङ् पूर्वका विश घातुर्दानेऽर्थे वर्तते ' पुष्ट वसु आवेशयन्ती'

अथर्व० ७।७६।३ ॥ इत्यादि प्रयोगदर्शनात् ।

भा०—(तः) हमारे (स्वाः पितरः) अपने सम्बन्ध के पालक पिता, पितामह, माता, मातामही आदि वृद्धजन (स्वानम्) हमारे लिये सुख, आनन्द के कार्य (कृण्वन्तः) करते हुए (आयुः) जीवन को (प्र तिगन्तः) बढ़ाने हुए, दीर्घजीवन भोगते हुए (इह) इस लोक में (सं विगन्तु) सुखपूर्वक रहें, विराजें । इम (तेभ्यः) उनके लिये (हविषा) अन्न स (नक्षमाणाः) उनकी सेवा करते हुए (पुरुषीः) बहुत (शरदः) वर्षों तक (श्योक्) खूब (जीवन्तः) जीते हुए (शक्रेम) शक्तिमान बने रहें ।

यां ते धेनुं निवृणामि यमुं ते क्षीर औदनम् ।

तेना जनस्यासौ भर्ता यात्रासद्जीवनः ॥ ३० ॥ (६)

भा०—हे परम पूजनीय पुरुष ! (ते) तुझे (याम्) जिस (धेनुम्) गौ और (यम् उ) जिस (क्षीरे औदनम्) दूध में पके भात 'क्षीर' पकावने को मैं (निवृणामि) प्रदान करता हूँ उससे तू (जनस्य) उन जनों का (यः) जो लोग (अत्र) इस लोक में (अजीवनः) जीवन, आज्ञाविज्ञा रहित, वे रोज़गार असमर्थ लंगड़े, लूके, अपाहिज और बालक आदि (असूक्) हों (भर्ता भसः) पालन पोषण कर ।

अश्ववतीं प्र तर या सुशेवाज्जिकि वा प्रतरं नवीयः ।

यस्त्वा जघान वधुः सो अस्तु मा सो अन्यद्विदत्त भागधेयम् । ३१

भा०—हे पुरुष ! तू (अश्ववतीम्=अश्वमावतीम्) प्रस्तरों से पूर्ण, तीव्र, उस नदी का (प्र तर) अली प्रकार पार कर (या) जो (सुशेवा) सुख से सेवन करने योग्य और सुख देनेहारी है । अथवा.—हे पुरुष ! तू (अश्ववतीं प्र तर या सुशेवा) जो सुख देनेवाली घोड़ों से युक्त शत्रु की सेना भी है उनको पार कर । (वा) और तू (नवीयः) नया अदृष्ट-

३१-२०) 'अश्वन्वतीं प्रतरया सुशेवाम्' इति द्विर्नि-अनुमितः ।

पूर्व (ऋज्ञाकम्) भल्लुओं से पूर्ण (प्रतरम्) अच्छी प्रकार पार करने योग्य वन को भी पार कर । अथवा-अध्यात्म में (अश्वावतीम्) अश्व-कर्मैन्द्रियों से युक्त इस कर्ममयी जीवन नदी को पार कर और (नवीयः) अति नवीन (प्रतरम्) उत्कृष्ट पथ में ले जाने वाले (ऋज्ञाकम्) ऋज्ञ-ज्ञानेन्द्रिय गण को भी (प्रतर) पाकर, वश कर, सुख से जीवन विता । हे पुरुष ! (त्वा) तुझे (यः) जो (जघान) मारे (सः) वह (बध्यः) मारने योग्य, बध करने और दण्ड करने योग्य हो । (सः) वह (अन्यत्) और अधिक (भागधेयम्) भोग, जीवनभाग्य को (ना विदत्) न प्राप्त करे । प्रत्येक पुरुष अपना जीवन पूर्ण भोगे, जो किसी का प्राण ले वह स्वयं जीवन का भोग न कर सके ।

यमः परोर्वरो विवस्वान् ततः परं नाति पश्यामि किं चन ।

यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो भुवो विवस्वान्वाततान ॥ ३२ ॥

भा०—(यमः) सर्वनियन्ता यम, परमेश्वर (परः) सबसे ऊंचा है । और (विवस्वान्) नाना प्रकार के वस्तु, लोकों का स्वामी यह सूर्य भी उससे (अध्वरः) नीचे, उससे कम शक्ति वाला है । (मे) मेरा (अध्वरः) न नष्ट होना या जीवन बना रहना भी (यमे) उस सर्व नियन्ता परमेश्वर पर ही (अधि निविष्टः) आश्रित है । (विवस्वान्) विविध लोकों का स्वामी सूर्य भी (भुवः) जीवों के उत्पत्तिस्थान रूप नाना लोकों को वह (अनु वाततान) उस ईश्वर की आज्ञा के वशवर्ती रह कर वश करता है ।

अपांगूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा सर्वानामद्भुविंस्वते ।

उताश्विनावमरद् यत् तदासीद् जहाद् द्वा मिथुना सरण्युः ॥ ३३ ॥

ऋ० १० । १७ । २ ॥

३३—(प्र०) 'अमृतां' इति सायणामिमतः । 'कृत्वा', 'अदद्' इति ऋ० । ऋग्वेदे देवश्रवा यामायन ऋषिः ।

भा०—देव, दिव्य पदार्थों ने, जगत् के विधायक पञ्चभूतों में (म-
र्त्येभ्यः) मरणधर्मा जीवों से उस (अमृताम्) कभी न मरने वाली अमर
चेतनाशक्ति को (अप-अगूहन्) छिपा लिया और उसको (सवर्णाम्)
समान वर्ण, कान्त और तेज से युक्त चेतनाशक्ति को उन्होंने (विवस्वते)
विविध लोकों और जीवों के स्वामी सूर्य के लिये (अद्भुः) प्रदान किया ।
(उत) और (यत्) जो (तन्) अमृत रूप बल था वही (अ-
श्विनौ) इन व्यापक शौं और पृथिवी को (अमरत्) पालन पोषण करता
है । और (सरण्युः) सर्वत्र व्यापक वही चित्ति शक्ति ही (द्वौ मिथुनौ)
दोनों जोड़ों (मिथुनौ) जो परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं और दम्पति
भाव से रहते हैं उन नर मादा, न्नी पुरुषों को भी (अजहात्) अपने
भीतर से बाहर किया । उत्पन्न किया, प्रकट किया है । व्यष्टिरूप से स्त्री
पुरुष ही समाष्टिरूप से द्यौः-पृथिवी हैं ।

ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः ।

सर्वोस्तानग्न आ वह पितृन् हविषे अत्तवे ॥ ३४ ॥

भा०—(ये) जो (निखाताः) निकट ही, दृढरूप से गढ़े हुए अपना
घर जमा कर बैठे हुए हैं और (ये परोप्ताः) जो दूर अपनी सन्तान
उत्पन्न करते हैं । और (ये दग्धाः) दग्ध अर्थात् अपने पाप आदि मानसिक
और कायिक, वाचिक मलों को भस्म कर चुके हैं (ये च) और जो (उद्-
हिताः) जो उलूट पदों पर पहुँचे हुए हैं (तान् सर्वान्) उन सब
(पितृन्) पिता के समान पूजनीय पालकों को (हविषे अत्तवे) पवित्र
अन्न भोजन करने के लिये हे (अग्ने) गृहस्थ, अग्रणी नेता पुरुष ! तू
(आ वह) प्राप्त कर । उनको अपने घर ला और प्रेमसे उनको भोजन करा
क्यवा—(ये निखाताः) जो पृथ्वी में गाढ़ दिये हैं ये (परा-उप्ताः) जो
दूर युद्धक्षेत्र आदि देशों में कट गये हैं (ये च उद्-हिताः) और जो ऊर्ध्व
गति को प्राप्त होगये हैं (तान् सर्वान् अग्ने ! आवह हविषे अत्तवे)

हे अग्ने परमेश्वर ! उन सब को हविः अर्थात् कर्मफल के भोग के लिये लोकान्तर को प्राप्त करा ।

ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ।
त्वं तान् वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञं स्वाधिति जुषन्ताम् ।

भा०—(ये) जो (अग्निदग्धाः) अग्नि से दग्ध, मस्म कर दिये गये हैं और (ये अनग्नि-दग्धाः) जो अग्नि से दग्ध नहीं हैं अथवा (ये अग्निदग्धाः ये अनग्निदग्धाः) जो अग्नि के समान तीव्रताप से स्वयं जाज्वल्यमान और जो अग्नि से भिन्न शीतल पदार्थों के समान तेजस्वी होकर (दिवः मध्ये) आनन्द मय मोक्ष धाम में (स्वधया) अपने कर्मों से प्राप्त शक्ति से (मादयन्ते) आनन्द लाभ करते हैं हे (जातवेदः) पूर्णब्रह्म, सर्वज्ञ, परमात्मन् ! (यदि) यदि (तान्) उन सबको वू (वेत्थ) अपनावे तो (ते) वे (स्वधया) निजी धारणाशक्ति से (स्वधितिम्) वे स्वतः धारण शक्ति स्वरूप (यज्ञम्) उस उपास्य प्रभु को (जुषन्ताम्) प्राप्त करें, वे ब्रह्म को प्राप्त हों ।

शं तप माति तपो अग्ने मा तन्वं । तपः ।

वनेषु शुष्मो अस्तु ते पृथिव्यामस्तु यद्हरः ॥ ३६ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! परमेश्वर ! आचार्य ! वू (शं तप) कल्याण के लिये तपा, दण्ड दे, हमें (मा अति तपः) अधिक संतप्त मत कर । (तन्वं) हमारे शरीर को (मा तरः) मत पीड़ित कर । (ते) तेरा (शुष्मः) बल (वनेषु) वनों में अग्नि के समान शिप्यों में (अस्तु) प्रकट हो और तेरा (यद् हरः) जो हरस् तेज है वह (पृथिव्याम्) समस्त पृथिवी पर (अस्तु) विद्यमान रहे ।

इदाम्यस्मा अवसानमेतद् य एव आगुन् मम चेदभूद्विह ।

यमिच्चिकित्वान् प्रत्येतदाह ममैव राय उप तिष्ठतामिह ॥ ३७ ॥

भा०—मैं परमेश्वर और आचार्य (ब्रह्म) उस पुरुष को (एतत्) यह, ऐसा (अवसानम्) सुखमय, अवसान, शरण (इदमि) प्रदान करता हूँ (वः) जो (एषः) यह पुरुष (जागत्) यहाँ जाता है (च) और (इह) यहाँ, इस लोक में (मन इव अनूर्) मेरा ही भक्त होकर रहे । इस प्रकार (चिकित्वात्) सर्वज्ञ (यमः) सर्वनियन्ता, परमेश्वर या राजा या आचार्य नानो (एतत्) उसको इस प्रकार नी (प्रति साह) कह रहा है कि (एषः) यह पुरुष (मन) मेरे दिव्ये (राये) धन ऐश्वर्य के उपभोग के लिये ही (इह) यहाँ (तिष्ठन्नात्) विराजे ।
इमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासति ।

शुते शरत्सु नो पुरा ॥ ३२ ॥

भा०—(शते शरत्सु) सौ वर्षों में हम (इमान्) जीवन के इस (मात्राम्) परिमाण को (मिमीमहे) ऐसी उच्चमता से मापें कि (यथा) जैसे (अपरं न मासति) और किसी वस्तु को नहीं मापते । और (पुरा नो) पहले भी किसीने वैसा न मापा हो । अर्थात् हम अपने जीवन को बहुत उच्चमता से व्यतीत करें ।

प्रेमां मात्रां ० । ० ॥ ३६ ॥ अप्रेमां मात्रां ० । ० ॥ ४० ॥ (१०)

श्रीभूमौ मात्रां ० ॥ ४१ ॥ निरिमां मात्रां ० ॥ ४२ ॥ उद्विमां मात्रां ० ।

० ॥ ४३ ॥ समिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासति ।

शुते शरत्सु नो पुरा ॥ ४४ ॥

भा०—(शते शरत्सु) जीवन के सौ वर्षों में हम अपने जीवन की (इमां मात्राम्) इस मात्रा, काल परिमाण को ऐसी (प्र मिमीमहे) उच्चमता से मापें, व्यतीत करें (यथा अपरं न मासति) जैसा दूसरा न माप सके, (तो पुरा) और न पहले किसी ने वैसा जीवन पूरा किया हो ।

(अप इमां मात्राम् इत्यादि) हम अपने इस जीवन की कालमात्रा इतनी सुगमता से व्यतीत करें, (इमां मात्रां वि मिमीमहे) इस जीवन-यात्रा को ऐसे विशेष रूपसे व्यतीत करें (इमा मात्रां निर मिमीमहे) इस जीवनयात्रा को ऐसी पूर्णता या निर्दोषता से व्यतीत करें । (इमां मात्रां उत् मिमीमहे) इस जीवन की काल मात्रा को ऐसी उत्तमता से व्यतीत करें, (इमां मात्रां सम् मिमीमहे) इस जीवन यात्रा को ऐसी भली प्रकार से समाप्त करें कि जैसी कोई न व्यतीत कर सके और न किसी ने ह्रस्वसे पहले की हो । अर्थात् हम अपने जीवन को ऐसी उत्तम रीति से, सुगमता से, विशेष रूपसे, निःशेष या निर्दोषरूपसे, उन्नत रूप से, समान रूपसे व्यतीत करें कि आदर्श हों । लोग कहें कि 'न भूतो न भविष्यति' ।

अमासि मात्रां स्वर्णामायुष्मान् भूयासम् ।

यथापरं न मासातै शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४५ ॥

भा०—मैं (मात्राम्) इस जीवन काल की मात्रा को (अमासि) पूर्ण रूपसे ऐसी उत्तमता से मापलूँ, पूर्ण रूपसे व्यतीत करूँ (स्वः अगाम्) सुखमय आनन्द-मय मोक्ष भी प्राप्त करूँ और (आयुष्मान् भूयासम्) दीर्घायु होकर रहूँ । (यथापरं) जैसे—इत्यादि पूर्ववत् ।

प्राणो अपानो व्यान आयुश्चक्षुर्दृशये सूर्याय ।

अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितृन् गच्छ ॥ ४६ ॥

भा०—हे पुरुष ! (प्राणः) प्राण, (अपानः) अपान, (व्यानः) व्यान, (आयुः) आयु और (चक्षुः) ये चक्षु आदि इन्द्रियगण सब (सूर्याय) उस सबके प्रेरक परमेश्वर रूप सूर्य के (दृशये) नित्य दर्शन करने के लिए बने रहें । हे पुरुष ! तू (यमराज्ञः) सर्वनियन्ता सब के राजा परमेश्वर के बनाये (अपरिपरेण) शत्रु से रहित अभय

और मित्र दृष्टिमय, द्वेष रहित (पया) मार्ग से तू (पितृन्) पूज्य
पुरुषों के पीछे २ (गच्छ) गमन कर ।

ये अग्रवः शशमानाः परैर्युर्हित्वा द्वेषांस्यनपत्यवन्तः ।

ते धामुदित्याविदन्त लोकं नाकस्य पृष्ठे अधि दीध्यानाः ॥४७॥

भा०—(ये) जो (अग्रवः) अविवाहित, आजन्म ब्रह्मचारी
(शशमानाः) शम का अभ्यास करते हुए, तपः साधना से युक्त होकर
सब प्रकार के (द्वेषांसि) द्वेष के भावों का (हित्वा) परित्याग करके
(अनपत्यवन्तः) अपनी अगली सन्तति से रहित भी रहे (ते) वे
भी (धाम् उद् इत्य) दिव, स्वर्गलोक को जाकर (नाकस्य पृष्ठे) परम
सुखमय धाम में, परमेश्वर के स्वरूप में (अधि दीध्याना) विराजते हुए
उसों का ध्यान करते हुए (लोकम्) उस दर्शनीय परमेश्वर को (अवि-
दन्त) प्राप्त करते हैं ।

उदन्वती द्यौरियमा पीलुमतीति मध्यमा ।

तृतीया ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसन्ते ॥ ४८ ॥

भा०—(अवमा) सवने नोचे की (द्यौः) भूमि (उदन्वती)
जलवाली या भोगमय, तावसा है और (मध्यमा) बीच को श्रंगाकी
भूमि (पीलुमती इति) वृक्षों से हरी भरी या कर्मफल से युक्त, राजस है
और (तृतीया) तीसरी सवने उच्छुष्ट (प्रद्यौः इति) अति अधिक
प्रकाश, शुद्ध ज्ञानवाली सात्विक 'प्रद्यौ' नाम मे कइती है । (यस्याम्)
जिसमें (पितरः) पालक पूज्य पिता नाता गुरु लोक विराजते हैं ।

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुर्ध्वान्तरिक्षम् ।

हू आञ्जियन्ति पृथिवीमुत द्यां तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥४९॥

भा०—(ये) जो (नः) हमारे (पितुः पितरः) पिता के भी
पिता हैं और (ये पितामहाः) जो पितामह, बाबा हैं (ये) जो (उरु

अन्तरिक्षम्) विशाल आकाश में (आविविशुः) प्रविष्ट हो गये हैं और (ये) जो (पृथिवीम्) इस पृथिवी (उत घान्) और स्वर्ग में (आक्षियन्ति) निवास करते हैं (तेभ्यः) उन सब (पितृभ्यः) पालक, पूजनीय पुरुषाओं के लिये हम (नमस्ता) नमस्कार या अन्न द्वारा (विधेम) सत्कार करें ।

इदमिद् वा उ नापरं द्विवि पश्यासि सूर्यम् ।

माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊर्णुहि ॥ ५० ॥ (११)

भा०—(इदम् इत् वा उ) इस लोक में हे पुरुष ! वस यही अन्न ही जीवन है । (न अपरम्) और कुछ दूसरा पदार्थ भोग्य नहीं । परन्तु (द्विवि) द्यौलोक में (सूर्यम्) सर्वप्रकार सूर्य के समान उत्तरिम-प्रकाश परमेश्वर को भी (पश्यासि) देख रहा है । हे (भूमे) भूमे ! या सर्वोत्पादक ईश्वर ! (यथा) जिस प्रकार (माता) माता (पुत्रम्) पुत्र को (सिचा) अपने अंचरे से ढक लेती है उसी प्रकार तू (एनं) इस जीव को (अभि ऊर्णुहि) आच्छादित कर, सुरक्षित रख ।

इदमिद् वा उ नापरं जरस्यन्यदितोपरम् ।

जाया पतिमिव वाससाभ्येनं भूम ऊर्णुहि ॥ ५१ ॥

भा०—(इदम् इत् वा उ) इस लोक में वस यही भोग है (न अपरम्) दूसरा भोग नहीं । (जरसि) और बुढ़ापे के गुजर जाने पर (इतः अपरम् अन्यम्) इससे दूसरा और भी एक जीवन है । हे (भूमे) भूमे ! (पतिम्) पति को जिस प्रकार (जाया) उसकी स्त्री (वाससा) अपने वस्त्र से ढक लेती है उसी प्रकार (एनं अभि-ऊर्णुहि) इस पुरुष को आच्छादित कर । कदाचित् ५०, ५१, इन दो मन्त्रों के आधार पर ही भूमि में दफन करने की विधि वेद से ही यवनों ने ली हो ।

अभि त्वोर्णामि पृथिव्या मातुर्वस्त्रेण भद्रया ।

जीवेषु भद्रं तन्मयि स्वधा पितृषु सा त्वयि ॥५२॥

भा०—हे पुरुष ! मैं परमेश्वर (त्वा) तुझको (पृथिव्याः मातुः)
माता पृथिवी के (वस्त्रेण) वस्त्र के समान निवास योग्य स्थान से ही
(भद्रया) बलि सुखकारी विधि से (कर्णोमि) आच्छादित करता हूँ ।
(जीवेषु) समस्त जीवों में जो भी (भद्रम्) सुख और कल्याण है (त्वत्)
वह सब (मयि) मेरे ही आधार पर है और (स्वधा पितृषु) स्वयं
धारण करने योग्य अपने कर्मों का फल (पितृषु) तेरे परिपालक माता
पिताओं में है और (सा त्वयि) वही 'स्वधा' अर्थात् स्वयं कर्म द्वारा
प्राप्त्यर्थ कर्मफल (त्वयि) हे पुरुष ! तेरे ही अधीन है ।

अग्नीषोमा पृथिकृता स्योनं देवेभ्यो रत्नं दधथुर्वि लोकम् ।

उप प्रेष्यन्तं पृषणं यो वह्नात्यञ्जोयानैः पृथिभिस्तत्र गच्छतम्

भा०—हे (अग्नीषोमा) अग्ने और हे सोम ! हे भाग के समान
शत्रुतापक, ज्ञानप्रकोशक और सोम, सर्वोत्पादक अग्नि और वायु ! ज्ञानी
तपस्विन् और शमदमादि सम्पन्न योगिन् ! आप दोनों (पृथिकृतौ) सब
भागों को बनाने हारे हो । आप दोनों ही (देवेभ्यः) समस्त ज्ञानवान्
पुरुषों के लिये (रत्नम्) रमण करने योग्य (लोकम्) लोक को (वि द-
धथुः) नाना प्रकार से धारण करते, विधान करते हो । (यः) जो (प्रे-

५३—(च०) 'गच्छन्तम्' (तु०) 'उप प्रेष्यन्तं' (च०) 'अजोयानैः' इति
द्विरनिकामितः । 'अजयानैः' इति च क्वचित् । 'अञ्जयानैः' (द्वि०)
अञ्जयानैः 'अञ्जः ज्यानैः' इति पदपाठः । अन्यत्रापि 'पयो
देवत्रा अञ्जसे वयानान्' इति ऋ० १० । ७३ । ७ ॥ प्राकृतेऽपि
अञ्जसायान ऋहुमार्गापरपर्यायोदृष्टः । तथा च सायणः 'अञ्जसा आ-
ज्वेन यान्ति गच्छन्ति एमिरिति । 'अञ्जोयानैरिलेव' पाठः साधा-
यान् । 'दधतुः' इति क्वचित् ।

प्यन्तं) समस्त जगत् के प्रेरणा करने हारे, (पूषणम्) समस्त जगत् के पोषक परमेश्वर को (वहाति) प्राप्त करावे, (तत्र) वहां (अज्ञोयानैः) अति वेगवान् रथों, गमन साधनों पे या अङ्गः=प्रकाशमय, ज्ञानमय गमन साधनों से सम्पन्न या सरलता और सुगमता से जाने योग्य, सीधे विशाल; राजकीय (पथिभिः) मार्गों से (गच्छतम्) वहां गमन करो ।

पूषा त्वेतश्चर्यावयतु प्र विद्वाननं प्रपशुर्भुवनस्य गोपाः ।

स त्वैतेभ्यः परिं ददत् पितृभ्योऽग्निदेवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥५४॥

ऋ० १० । १७ । ३ ॥

भा०—हे पुरुष, जीव ! (अनष्टपशुः) जिस परमेश्वर के जीव कभी मरते नहीं वह (गोपाः) उत्तम गोपाल के समान (भुवनस्य गोपाः) समस्त संसार का रक्षक है । वह (विद्वान्) सर्वज्ञ, (पूषा) सब का पोषक (त्वा इतः) तुझको इस लोक से (प्रच्यवयतु) निकालता है और दूसरे लोक में प्रवेश कराता है । (सः) वह ही (अग्निः) अगले लोकों में ले जाने हारा पथदर्शक होकर (सुविदत्रियेभ्यः) उत्तम ज्ञानवान् और ज्ञानशील (देवेभ्यः) सर्वद्रष्टा, सर्वपद (एतेभ्यः) उन २ नाना (पितृभ्यः) पूजनीय पालक पिता आचार्यों के हाथों (परिददात्) सौंपता है । ईश्वर को कृपा से उत्तम लोक और उत्तम माता, पिता, आचार्य आदि प्राप्त होते हैं ।

आयुर्विश्वायुः परिं पातु त्वां पूषा त्वां पातु प्रपथे पुरस्तात् ।

यत्रासते सुकृतो यत्र त इयुस्तत्र त्वां देवः संविता दधातु ॥५५॥

ऋ० १० । १७ । ४ ॥

५४—(वृ०) 'ददात्', 'सुविदत्रेभ्यः' इति तै० ब्रा० । ५४, ५५ अनयो-
ऋग्वेदे देवभ्रवा यामायन ऋषिः । पूषा देवता ।

५५—(प्र०) 'परिपासति त्वां' (वृ०) 'ते ययुः' इति ऋ० ।

भा०—हे पुरुष ! हे जीव ! (विश्वायुः) समस्त संसार का वायु, जीवनस्वरूप (वायुः) साक्षात् जीवनस्वरूप सर्वव्यापक, परमेश्वर (त्वा) तेरी (परिपातु) सब प्रकार से रक्षा करे और (पुरस्तात्) आगे भी (प्रपथे) उत्तम मार्ग में (त्वा पथा पातु) सर्वपोषक, परमात्मा तेरी रक्षा करे (यत्र) जिस लोक में (ते) वे विद्वान् प्रसिद्ध (सुकृतः) पुण्याचारी लोग (ईयुः) जाते हैं (तत्र) वहां (सविता देवः) सर्वोत्पादक परमेश्वर (त्वा) तुझे भी (दधातु) रखे ।

इमौ युनज्मि ते वही असुनीताय वोद्वे ।

ताभ्यां यमस्य सादन्तं समितीश्चाव गच्छताम् ॥१६॥

भा०—जिस प्रकार मनुष्य राजा के द्वार पर या राजसभाओं में जाने के लिये अपने रथ में दो घोड़े या बैल लगाकर पहुंचता है उसी प्रकार सर्वनियन्ता परमेश्वर के वर तक पहुंचने के लिये भी प्राण और अपान रूप दो वाहनों को योगान्यास द्वारा जोड़ना आवश्यक है । हे जीव ! हे पुरुष ! (असुनीताय) असु प्राण द्वारा लोकान्तर में पहुंचने वाले (ते) तेरे आत्मा को (वोद्वे) बहन करने के लिये (इमौ) इन दोनों प्राण और अपान को मैं (युनज्मि) एकत्र युक्त करता हूँ (ताभ्याम्) इन दोनों से (यमस्य) सर्वनियन्ता परमेश्वर के रथ (सादन्तम्) आश्रय-न्यास, शरण (सम-इतिः च) सब ज्ञानमय सत्संगों को (अवगच्छताम्) वृ प्राप्त हो ।

एतत् त्वा वासः प्रथमं न्यागन्नपैतदूह यदिहाविभः पुरा ।

इष्टापूर्तमनुसंक्राम विद्वान् यत्र ते वृत्तं बहुधा विवन्धुपु ॥१७॥

भा०—हे पुरुष ! जीव ! (यत्) जो वृत्त (पुरा) पहले भी, पूर्व जन्म में भी (अविभः) धारण किया था (एतत्) वह (वासः) बन्ध, चोला, यह देह (प्रथमं) सबसे उत्तम ही (नु त्वा आगत) तुझे प्राप्त हुआ है । (एतत्) उसको वृ (अप ऊह) दूर कर, त्याग दे । और

अपने किये (इष्टापूर्तम्) इष्ट, देव उपासना और 'आपूर्त' लोकोपकार के कार्यों के अनुसार (विद्वान्) ज्ञानवान् होकर (अनुसंक्राम) भगले उस लोक में जा (यत्र) जहां (बहुधा) प्रायः (विबन्धुषु) विशेष बन्धन करने वाले लोकों में (ते) तेरा अपना मन (दत्तम्) दिया हुआ, समर्पित या लगा है ।

यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ गीता० ॥

अग्नेर्वर्मं परि गोभिर्य्यस्व सं प्रोणुष्व मेदसा पीवसा च ।

नेत् त्वा धृष्युर्हरसा जर्हषाणो दधृक् विधक्षन् परीक्ष्यातै ॥५८॥

ऋ० १०।१६।७ ॥

भा०—हे पुरुष ! तू (अग्नेः) अग्नि के समान संतापक ज्वर आदि से बचने के लिये (वर्म) कवच को (गोभिः) गौ आदि पशुओं के चर्मों या बालों से बने दस्त्रों से, वेद की वाणियों से (परिय्यस्व) ढक ले और अपने को (मेदसा) परस्पर प्रेम और बुद्धि द्वारा और (पीवसा च) देह की पुष्टि से (सं प्र ऊणुष्व) अच्छी प्रकार ढकले, अपने बुद्धि और शरीर के बल से खूब सुरक्षित रख । (नेत्) नहीं तो (त्वा) तुझे (धृष्युः) तेरे शरीर बल का नाश करने वाला रोग आदि (हरसा जर्हषाणः) अपने हरणशील बल से तुझे हरण करने की इच्छा करता हुआ (दधृक्) अति निर्भय होकर (विधक्षत्) तुझे नाना प्रकार से संतप्त करता हुआ (परीक्ष्यातै) भय से कंपा देगा ।

दण्डं हस्ताद्वादानो गतासोः सह श्रोत्रेण वर्चसा वलेन ।

अत्रैव त्वमिह व्रयं सुवीरा विश्वा सृष्टो अभिमातीर्जयेम ॥५९॥

भा०—(गतासोः) मृत, प्राणों से रहित, शक्तिहीन पुरुष के (हस्तात्) हाथ से (दण्डम्) दमन करने के अधिकार को (श्रोत्रेण) कान

मृतपति स्त्री का अधिकार

इयं नारी पतिलोकं वृणाना नि पद्यत उप त्वा मर्त्यं प्रेतम् ।

धर्मं पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चेह धेहि ॥१॥

भा०—(पुराणम्) अपने पुराण, पूर्व के ही पातिव्रत (धर्म) धर्म का (अनुपालयन्ती) पालन करती हुई (इयम्) यह (नारी) स्त्री (पतिलोकं) ^१ पतिलोक, पति के रूप से पुरुष को (वृणाना) वरण करती हुई हे (मर्त्यं) मरणधर्मा पुरुष ! (त्वा प्रेतम्) तुझ मृतपति के (उप) समीप (निपद्यते) प्राप्त होती है । (तस्यै) इस स्त्री को तू (प्रजाम्) अपनी प्रजा और (द्रविणं च) द्रविण; धन का (धेहि) प्रदान कर । अर्थात् मृत पुरुष के सन्तान और धन की स्वामिनी उसकी पत्नी हो ।

पति के मरने पर पुत्र और स्त्री के लिये आज्ञा

उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुंसतमुप शेष एहि ।

हस्तप्राभस्य दधिपोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं वभूथ ॥ २ ॥

भा०—हे (नारि) नारि ! तू (उत्-ईर्ष्व) उठ । तू (गतासुम्) प्राण रहित (एतम्) इस पुरुष के पास (उप शेषे) सो रही है । यह क्या करती है ? (अभि जीवलोकम्) जीवित प्राणिलोक को (भा इहि) प्राप्त हो । हे स्त्रि ! तू (हस्तप्राभस्य) हाथ को ग्रहण करने वाले (दधिपोः) धारण-पोषणकारी (तव पत्युः) तेरे अपने पति के लिये ही (अभि इदम्) इस (जनित्वम्) जनित्व=भार्यापन को (अभि) लक्ष्य करके (संवभूथ) नियुक्त पति से सहवास कर । अथवा—(हस्तप्राभस्य पत्युः कृते दधिपोः=दिधिपोः तव स्त्रियां इदं जनित्वं पुत्रोत्पादनं स्यात् अतः

एवं अमिसंबभूय) पाणिग्रहण करने वाले पूर्व पति के लिये ही पुनः गर्भ धारण करना चाहने वाली नृश स्त्री का यह पुत्रोत्पादन रूप कार्य हो । अतः तू पुनः नियुक्त पति से संगत हो सकती है ।

अपश्यं युवतिं नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम् ।

अन्धेन यत् तमसा प्रावृतासीत् प्राक्तो अपाचीमनयं तदेनाम् ॥३॥

भा०—(मृतेभ्यः) मृत पुरुषों अर्थात् पूर्व पतियों के निमित्त (जीवां युवतिम्) जीवित युवति, जवान स्त्री को (नीयमानाम्) ले जाई गयी और (परिणीयमानाम्) पुनः परिणय या विवाह करती या दूर ले जाई जाती हुई को मैं गृह का व्यवस्थापक (अपश्यम्) देखूँ । (इत्) जब वह (अन्धेन तमसा) अन्धेरे अन्धकार, शोक मोह से (प्रावृता) ढकी हुई (भासात्) हो तो (पुनाम्) उसको (प्राक्तः) आगे के कष्टदार्पी हृदय से हटाकर (अपाचीम्) दूसरी ओर (अन्धम्) ले जाऊँ । पतियों के मर जाने पर युवतियों का पुनः विवाह जर दिया जाय या पतिविद्योग के मोह में ऐसी विलसती को जहाँ तक हो सके दूर रखें ।

प्रजान्त्य/अन्ये जीवलोकं देवानां पन्थामनुचरन्ती ।

अयं ते गोपतिस्तं जुपस्व स्वर्गं लोकमथि रोहयैनम् ॥ ४ ॥

भा०—हे (अन्ये) अन्या, कभी न मारने योग्य गौ के समान तू भी कभी न मारने योग्य, नित्य पालन करने योग्य छि ! तू (जीवलोकं प्रजानती) जीवित लोगों को भली प्रकार जानती हुई और (देवानां) देव, दानशील, विद्वान्, श्रेष्ठ पुरुषों के (पन्थाम्) मार्ग, शिष्टाचार को

३—(द्वि०) 'जीवमृतेभ्यः' (प्र० द्वि०) अपश्यं युवतिं आचरन्ताम् मृताय जीवा परिणीयमानाम् । (तु० च०) अन्धेन या तमसा प्रावृतासि प्राचीमवार्चामवयन्नरिष्ये इति तै० ब्रा० ।

(वनू संवरन्ती) पालन करती हुई यदि वू अपने इन्द्रियों को दान न कर सके तो (वयन्) यह प्रत्यक्ष में स्थित निष्पुत्र पति (ते) तेरे लिये (गोपतिः) गोपति के समान स्वयं जितेन्द्रिय पुरुष है । (तं वुषस्व) उसको प्रेम से सेवन कर । और (एनन्) इसको ही (स्वर्गं लोकम् अधिरोहय) स्वर्गलोक, सुखनयलोक को प्राप्त करा ।

परिपालक पुरुष का स्वरूप

उप चासुपं वेतसमवंचरो नदीनाम् । अग्नें पित्तमुपानंसि ॥ ५ ॥

यहु० १७ । ६ प्र० द्वि० ॥

भा०—हे (वग्ने) वज्रणी ! ज्ञाननय परमेश्वर ! वू (वयन्) जलों के समान स्वच्छ नाह पुरुषों को (पित्तन्) पवित्र करने या पालन करने वाला (जसि) है । वू (नदीनाम्) नदियों के (उप) समीप, उनके जलों में उतराने वाली (चान् उप) चौथोबार के समान व्यवस्था वाल फौजा कर और (वेतसन् उप) वेत के समान वट पर अपने नुक फौजा कर (नदीनां) नदियों के समान अति सृष्ट या सृष्टिशील प्रजाओं के नीतर रहता हुआ जो उनकी (अवत्तरः) बड़ी भारी रक्षा करनेहारा है ।

इसका विनियोग अनजनक है यादुप विनियोग और कौशिक के विनियोग में बड़ा अन्तर है ।

यं त्वमग्ने सुमदं हस्तमु निर्वापया पुनः ।

क्यान्बूरत्र रोहतु शाण्डदृषी व्यलंकरा ॥ ६ ॥ ऋ० १-११३।१३॥

भा०—हे (वग्ने) वज्रि के समान शत्रुसंतानक और वज्रणी ज्ञाननय राजन् ! परमेश्वर ! (त्वन्) वू (यन्) जिसको (सन् नदह) नाग के समान वृष्टु जादि कुत्र से उजाजा है, पीड़ित ना करता है,

५—(प्र० द्वि०) उपवन् उपवेदसेव्यर नदीनां, इति यहु० ।

दृण्डित भी करता है, (तम् उ) उसको ही (पुनः) फिर (निर्वापय) जल के समान इतना शान्त कर कि (कत्र) यहां (क्याम्बूः) जिस प्रकार अधिक जल पड़ने पर काई (रोहतु) उग जाती है और (व्यल्कशा) शाखावाली (शाण्डदूर्वा) बड़ी दूब पैदा हो जाती है उसी प्रकार जिस स्थान या प्रदेश या आत्मा में तैने यह कठोर दमन किया हो वहां भी ऐसी शान्ति स्थापन करता है कि नाना शाखाओं वाली (शाण्डदूर्वा) सब बना कर रहने वाले प्राण और 'क्याम्बू' ज्ञान जल के धारक चित्-शक्ति की वृद्धि होती है । क्षत्रं वा एतदोषधीनां यद् दूर्वा । ऐ० ८ । ८॥ प्राणो दूर्वेष्टका ॥ श० ७।४ । २२०॥ पशवो वै दूर्वेष्टका ॥ श० ७ । ४ । २ । १० । १० ॥

राजा के पक्ष में भी स्पष्ट है । राजा को प्रायः चित्ताग्नि से उपमा दी जाती है । जैसे चित्ताग्नि पहले जलाती है और शव जल बुकने पर फिर बड़ों से उसे बुझा दिया जाता है उसी प्रकार राजा प्रथम क्रोध करके पुनः शान्त हो जाता है जैसे महाभारत में—

पाण्ड्यः, स्वधामिवाप्य ज्वलतः पितृप्रियः ।

ततः प्रशान्तः सलिलप्रवाहतः ॥ (महा० ८।२०।५०॥)

इदं त एकं पुर ऊं त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व ।

संवेशने तन्वाः चारुधि प्रियो देवानां परमे सुधस्थे ॥ ७ ॥

ऋ० १० । ५६ । १ ॥

भ०—हे पुरुष ! (ते) तेरे लिये (इदम्) यह (एक) एक ज्योति है । (परः) वह दूर (उ) भी (ते) तेरे लिये (एकम्) एक परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति या वादित्य ज्योति है । तू यहां (तृतीयेन ज्योतिषा) तीसरी या प्राणों से भी उत्कृष्ट वाःमाख्य ज्योति से (सं विशस्व) ऊंचे पद पर प्रवेश कर । (संवेशने) इस उच्च पद प्राप्ति में भी (तन्वा)

७—(तु०) 'तन्वेः' (च०) 'परमे जनित्रे' इति ऋ० । 'प्रिये' इति तै० ब्रा० ।

अपने शरीर से (चारुः) कमफल भोगने में अति समर्थ, शोभनरूप और उस (परमे) परम उत्कृष्ट (सधस्थे) उत्तम स्थान में भी (देवानां) विद्वानों का (प्रियः एधि) प्रिय होकर रह ।

उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवौकः कृष्णुष्व सलिले सधस्थे ।

तत्र त्वं पितृभिः संविद्वानः सं सोमेन मदस्त्र सं स्वधाभिः ॥ ८ ॥

भा०—हे पुरुष ! (उत्-तिष्ठ) उठ । (प्र इहि) आगे बढ़ । (प्र द्रव) शीघ्रता से आगे बढ़ । (सलिले) जल के समान शान्त एवं सबके समान रूप से लीन होने योग्य परम शरण (कृष्णुष्व) बना । (तत्र) उसमें हे (त्वं) तू अपने (पितृभिः) पूज्य पालक, गुरु माता पिता आदि के साथ (सं विद्वानः) भली प्रकार सत्संग और ज्ञान लाभ करता हुआ (सोमेन) सर्वोत्पादक, सर्वप्रोक्त परमेश्वर के साथ (स्वधाभिः) अपने कर्मों से प्राप्त इष्ट फलों का (मदस्त्र) आनन्द लाभ कर, वृत्त हो ।

प्र च्यवस्व तन्वम् सं भ्रस्व मा ते गात्रा वि हायि मो शरीरम् ।
मनो निविष्टमनु संविशस्व यत्र भूमैजुपसे तत्र गच्छ ॥ ९ ॥

भा०—हे जीव आत्मन् ! पुरुष ! तू (तन्वम्) अपना शरीर (प्रच्य-वस्व) उत्तम रूप से छोड़ और उसको (संभ्रस्व) फिर भली प्रकार से प्राप्त कर, उसे बना ले । (ते) तेरे (गात्रा) अंग (मा विहायि) छूट न जायें । (मो शरीरम्) शरीर भी तेरा न छूटे । जहां तेरा (मनः) मन (निविष्टम्) लगा है वहां ही (अनु संविशस्व) अपनी इच्छानुकूल शरीर में प्रविष्ट हो । (भूमैः) भूमिदोक के (यत्र) जिस भाग में (जुपसे) प्रेम लगा हो (तत्र) तू वहां (गच्छ) चला जा ।

८—(च०) 'मदस्त्र परमे व्योमन्' इति तै आ० ।

९—उत्तिष्ठतः तनुवं सम्भ्रस्व मेह गात्रमवहा मा शरीरम् । (च०) यत्र-भूम्यं वृपसेतत्र गच्छ' इति तै० आ० । 'भूमै जु'—इति क्वचित् ।

वर्चसा मां पितरः सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना घृतेन ।

चक्षुषे मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जरदंष्टिं वर्धन्तु ॥१०॥ (१३)

भा०—(सोम्यासः) सोम, ब्रह्मानन्द रस का पान करानेद्वारे (पितरः) गुरु भादि वृद्धजन (मां) मुझको (वर्चसा) ब्रह्मवर्चस् से (अञ्जन्तु) युक्त करें । और (देवाः) देव, विद्वान्, विद्याप्रदाता जन मुझे (मधुना) मधुर ज्ञानमय (घृतेन) प्रकाश से (अञ्जन्तु) प्रकाशित करें । (चक्षुषे) साक्षात् दर्शन करने के लिये (प्रतरं) बहुत उत्कृष्ट रीति से अथवा पितृ-ऋण से तारने वाले पुत्र रूप (मा) मुझको (तारयन्तः) संसार-यात्रा के पार पहुंचाते हुए वे वृद्धजन (जरद्-अष्टिम्) वृद्धव्यवस्था तक पहुंचने वाले (मा) मुझको (वर्धन्तु) बढ़ावें ।

वर्चसा मां समनक्षत्रिर्मैधां मे विष्णुर्न्य/निका सन् ।

रयिं मे विश्वे नि यच्छन्तु देवाः स्योना मापः पवनैः पुनन्तु ॥११॥

भा०—(अग्निः) ज्ञान से प्रकाशित, अग्नि के समान तेजस्वी आचार्य (नान्) मुझको (वर्चसा) तेज से (सम् अनक्तु) खूब प्रकाशित करे । (विष्णुः) व्यापक परमेश्वर (मे आसन्) मेरे मुख में (मेधां) पवित्र बुद्धिपूर्वक वाणी को (नि अनक्तु) प्रकाशित करे । (विश्वेदेवाः) सब देवगण, इन्द्रियगण, प्राण और विद्वान्गण (मे) मेरे (रयिन्) बल को (नियच्छन्तु) पूर्ण रीति से संयम करें, वीर्य बल को रक्षा करें । और (आपः) जलों के समान स्वच्छ हृदय वाले आसजन (पवनैः) पवित्र करने वाले अपने उपदेशों से (मा पुनन्तु) मुझे पवित्र करें ।

मित्रावरुणा परि मामथातामादित्या मा स्वरवो वर्धयन्तु ।

वर्चो म इन्द्रो न्यनक्तु हस्तयोर्जरदष्टिं मा सविता कृणोतु ॥१२॥

ऋ० १० । १४ । १ ॥ (तु० च०) १८ । १ । ४६ ॥

भा०—(मित्रावरुणौ) मित्र मरण से रक्षा करने वाला और (वरुण) विघ्नों का विनाशक, सबसे वरण करने योग्य, मित्र और वरुण, माता पिता, दिन और रात (माम्) मुझे (परि अघाताम्) सब प्रकार से धारण पोषण करें । (आदित्याः) सूर्य के समान तेजस्वी (स्वरवः) उत्तम ज्ञान के उपदेष्टा गुरु लोग (मा) मुझे (वर्धयन्तु) ज्ञानोपदेश से बढ़ावें । (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजा और परमेश्वर (मा) मुझे (हस्तयोः) मेरे हाथों में (वर्चः) बल (नि अनक्तु) दे । (सविता) सर्वोत्पादक परमेश्वर और प्रेरक सूर्य (मा) मुझे (जरदष्टिम्) भोजन को नित्य पचा लेने में समर्थ, एवं दर्घायु (कृणोतु) करे ।

यो ममारं प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयार्यं प्रथमो लोकमेतम् ।

वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सर्पयत ॥१३॥

ऋ० १० । १४ । १ ॥ अथर्व० १८ । १ । ४६ ॥

भा०—(यः) जो मनुष्य (मर्त्यानां) मरणधर्मा मनुष्यों में से (प्रथमः) सबसे प्रथम (ममार) अपने प्राण त्यागता है और (यः) जो (एतम् लोकम्) उस परलोक को (प्रथमः) सबसे पहले (प्र ह्याय) प्राप्त होता है इस समस्त (जनानां) उत्पन्न होने वाले जनों के (संगमनम्) एकमात्र गमन करने योग्य, आश्रय स्थान (वैवस्वतम्) विशेष रूप से सबके आच्छादक, सर्वरक्षक, (यमं राजानम्) सबके राजा, सर्वनियामक 'यम' महापुरुष की (हविषा) स्तुति द्वारा आदर से (सर्पयत) पूजा करो, उसका आदर सत्कार करो । अथवा—जो पुरुष सबमें पहले मरा या जो सबसे पहले परलोक गया तबसे लेकर समस्त

प्राणियों के शरण और सर्वनियन्ता राजा परमेश्वर की आप लोग स्तुति द्वारा उपासना करो । अथवा—(यः मर्त्यानां=मर्त्यान् प्रथमः सन् समार=नारयति) जो सर्वश्रेष्ठ होकर प्रभु मरणधर्मा प्राणियों के प्राण त्याग कराता है और (यः प्रथमः) जो सर्वश्रेष्ठ होकर (एतम् लोकम् प्र इयाय) इस लोक में प्राणि को भेजता है । उस सर्वव्यापक सर्वनियामक प्रभु की उपासना करो ।

परां यात पितरु आ च यान्ताय वी यज्ञो मधुना समङ्गः ।

दत्तो अस्मभ्यं द्रविणैह भद्रं रयिं च नः सर्ववीरं दधात ॥ १४ ॥

भा०—हे (पितरः) पितृजनों, पूज्य बृद्ध पुरुषो ! (अथन्) यह (वः) आप लोगों का (यज्ञः) यज्ञमय आत्मा या दान (मधुना) मधु के समान मधुर ज्ञान से (सन्-अक्तः) भली प्रकार से प्रकाशित है आप (परा यात) दूर २ देश तक जाओ और (आयात च) दूर २ देशों से आओ भी । और (अन्मन्यन्) हम लोगों को (द्रविण) नाना प्रकार के ज्ञान और धनों को (दत्त ष) प्रदान करो और (इह) इस लोक में (मद्रन्) कल्याणकारी और सुखकारी (सर्ववीरन्) सब पुत्रों और वीरों सहित (रयिन्) ऐश्वर्य को (च) भी (दधात) धारण कराओ ।

कण्वः कक्षीवान् पुरुमीढो अगस्त्यः श्यावाश्वः सोभर्यश्चिनानाः ।
विश्वामित्रोयं जमदग्निरत्रिरवन्तु नः कश्यपो वामदेवः ॥ १५ ॥

भा०—(कण्वः) कण्व^१, ज्ञान का उपदेश करने वाला (कक्षी-वान्)^२ प्राण-रश्मियों को अपने वग करनेहारा, कक्षीवान्, (पुरुमीढः)^३ शक्ति अधिक पुत्रों और धनों से युक्त, पुरुमीढ, अतिदानी (अगस्त्यः)^४

[१५]—१. कण्वेः शब्दार्थवान् क्वन् । २. 'कक्षं सेवते' इति यात्कः (नि० २।२)

३. पुरुषि मीढानि अपलानि वनानि वा यस्य इति सायणः ।

४. अगाद् वृद्धाद् अत्यति इति अगस्तिः, इति दयानन्द उपादि० ।

अगस्त्य, अग-वृक्ष पर्वतादि को भी बलपूर्वक उखाड़ देने में समर्थ, भौतिक बलों से सम्पन्न, (श्यावाश्वः) श्यावाश्व, ज्ञानशील इन्द्रियों से सम्पन्न, (सोमरी) उत्तम रीति से पुष्ट करने वाला, सोमरी (अर्चनानाः)^५ 'अर्चनानस्' पूजनीय श्रेष्ठतम अनस् शकट भादि का रचयिता, (विश्वामित्रः) सबका मित्र विश्वामित्र, (जमदग्निः)^६ जमदग्नि, अग्नि को नित्य प्रज्वलित रखने वाला, तेजस्वी (अत्रिः)^७ 'अत्रि' त्रिविध तापों से मुक्त, (कश्यपः)^८ ज्ञान का पालक, ज्ञान का पानकर्ता या जगत् को सुक्ष्म रीति से देखने वाला पश्यक, सर्वद्रष्टा (वामदेवः)^९ देव परमेश्वर का उपासक, ये समस्त ज्ञानद्रष्टा समर्थ पुरुष (नः अवन्तु) हमारी रक्षा करें ।

अथवा—ऋष्व आदि द्वादश नाम द्वादश प्राणों के समझने चाहिये । द्वादश प्राण के संग रहने से लक्षणावृत्ति से वह आत्मा भी इन १२ नामों से पुकारा जाता है और आत्मा की उन द्वादश शक्तियों के साधक भी ऋष्व आदि नामों से पुकारे जाते हैं ।

विश्वामित्र जमदग्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव ।

शर्दिर्नो अत्रिरग्रभीन्नमोभिः सुसंशासुः पितरो मृडता नः ॥१६॥

भा०—हे (विश्वामित्र) विश्वामित्र, सबके मित्र ! हे (जमदग्ने) प्रज्वलित अग्नि वाले या अग्नि के समान दीप्तियुक्त ! हे (वसिष्ठ)^१ वसनेहारों में सबसे मुख्य ! हे (भरद्वाज)^२ अन्न को भरनेहारे ! हे

५. 'अर्चनायमनः शकटं यत्येति सायणः । ६. जमति ज्वलतिकर्मा ।

'जमिताग्निः इति यास्कः । ७. तत्समादत्रिर्नत्रय इति यास्कः

(नि० ३ । १७ ॥) ८. 'कश्यपः पश्यको भवति यत् सर्वं परि-

पश्यति सौक्ष्म्यात्' (तै० आ० १ । ८ । ८) ९. वामः वननीयो

देवः द्योतको बोधो यत्य सः' इति सायणः ।

१६—'सुसंशासः' इति द्वितनिकामितःसायणामिमतश्च ।

(वामदेव) ईश्वरोपासक ! आप लोग और (शर्दिः)^३ शरण देनेवाला चलवान् (अग्निः) त्रिविध तापों से मुक्त ये सब (नः) हमें (अग्रभीत्) ग्रहण करें, स्वीकार करें, अपनावें । ये सभी (सु संशासः) उत्तम रीति से शासन करने वाले (पितरः) सबके पालक, पूज्य वृद्धजन आप लोग(नमोभिः) ऋच और दुष्टों के नमाने वाले बल्युक्त साधनों से (नः) हमें (नृवत्) सुखी करो । इस मन्त्र में ७ ऋषि सात मुख्य प्राणों के नाम हैं और उन शक्तियों के साधक पुरुष और व्यष्टिरूप से जीव आत्मा और समष्टिरूप से परमेश्वर के भी वे नाम हैं ।

कस्ये मृजान्ना अति यन्ति रिप्रमायुर्दधानाः प्रतरं नवीयः ।

आप्यायमानाः प्रजया धनेनार्थं स्याम सुरभयो गृहेषु ॥ १७ ॥

भा०—(कस्ये) ज्ञानयोग्य, सर्वोपरि शासक, परम वैद्य, ब्रह्म के आश्रय पर निद्वान् लोग अपने आत्मा को (मृजानाः) शुद्ध करते हुए साधक जन वे (प्रतरम्) अति उत्तम, (नवीयः) नवीन (आयुः) जीवन को (दधानाः) धारण करते हुए (रिप्रम्) पाप और चित्त के मल को (अतियन्ति) दूर करते हैं । (प्रजया धनेन) प्रजा और धन से (आप्यायमानाः) नृव बढ़ते हुए, सम्पन्न और समृद्ध होते हुए हम लोग (अथ) भी उसी प्रकार (गृहेषु) घरों में (सुरभयः) पुण्य कार्य करके कीर्तिमान् और सुगन्धित या उत्तम धन लाभयुक्त एवं सदाचारी होकर (स्याम) रहें ।

१. 'वसुमत्तमः' इति सायणः । २. मरणाद् मरद्वाजः इति यास्कः ।

शर्दिःशर्दिः । गृहनामैतन् । यद्वा शर्दतिर्बलकर्मा ।

१७—'कस्ये' इति 'कस्ये' इति शब्दापत्रंशः इति त्रीणिशब्दित्यादयः ।

'कौकस' इत्यस्य पूर्ववर्णलोपे कस्ये श्मशाने इति सायणः । कस्य-
गतिशासनयो इत्यतो यगिति क्षेमकरणः । बाहुलको यदिति वयम् ।

अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते ।

सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुज्जर्णं हिरण्यपावाः पशुमांसु गृह्णते ॥१६॥

भा०—परमेश्वर के उपासक पुरुष (अञ्जते) प्रथम अपने नेत्रों को ज्ञानरूप अंजन से अंजते हैं, ब्रह्म को साक्षात् करते हैं । (वि-अञ्जते) फिर विशेष रूप से उसका साक्षात् करते हैं और फिर (सम् अञ्जते) निरन्तर भली प्रकार उसका साक्षात् करते हैं । और फिर (क्रतुं रिहन्ति) क्रतु=कर्त्ता आत्मा के स्वरूप को भी प्राप्त करते हैं, ब्रह्मानन्द ज्ञानरस का आस्वाद करते हैं । भर उसको (मधुना) मधु=अमृत ब्रह्मरस से (अभि अञ्जते) साक्षात् रूप से प्रकाशित करते हैं । (सिन्धोः) स्यन्द-नशील, या महासागर के समान सबके आश्रयभूत परमेश्वर के (उच्छ्वा-से) दिये उच्चतम प्राण के आधार पर (पतयन्तम्) गति करते हुए (उक्षणम्) धर्ममेघरूप आनन्द जल की वर्षा करने वाले (पशुम्) ब्रह्मद्रष्टा आत्मा को (हिरण्यपावाः) अपने आत्मा को पवित्र करने वाले साधक योगीजन ही (आंसु) इन भीतरी नाड़ियों में (गृह्णते) उसका साक्षात् करते हैं ।

यद् वीं मुद्रं पितरः सोम्यं च तेनो सचध्वं स्वयंशसो हि भूत ।

ते अर्वाणः कवय आ शृणोत सुविदत्रा विदथे ह्यमानाः ॥१६॥

भा०—हे (पितरः) पालक जनो ! वृद्ध पुरुषो ! माता पिता गुरु-जनो ! (वः) आप लोगों का (यद्) जो (मुद्रम्) हर्षजनक या मुद्रा-स्वरूप और (सोम्यं च) सोम्य, सोम, शिष्यों के देने योग्य ज्ञान या सोम, ब्रह्मानन्द परमेश्वर से प्राप्त भजन रस है (तेनो) उसके सहित आप लोग (स्वयंशसः) स्वयं यशस्वी और वीर्यवान् होकर (सचध्वम्) हमें प्राप्त होओ और उसी से (हि) निश्चय से (भूत) आप सामर्थ्य-

वान् बने रहो । (ते) वे नाना प्रकार के आप लोग (अर्वाणः) उत्तम मार्ग से गति करने वाले (अत्रयः) क्रान्त प्रज्ञावान्, मेधावी (सुविदत्राः) उत्तम दानशील या उत्तम ज्ञानसम्पन्न आप लोग (विदथे) ज्ञानमय यज्ञ में (ह्यमानाः) बुलाये जाकर (आ ऋणोत) हमारे वचनों को सुनो । ये अत्रयो अङ्गिरसो नवगवा इष्टावन्तो रातिपात्रो दधानाः ।

दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थासद्यास्मिन् वहिषि मादयध्वम्

॥ २० ॥ (१४)

भा०—(ये) जो (अत्रयः) अत्रि अर्थात् त्रिविध तापों से रहित (अंगिरसः) अंगों के समान तेज से चमकने वाले, वचस्वो (नवगवाः) नव-नवीन या नयी नयी वाणी, उत्तम ज्ञानोपदेशों को प्राप्त करने या प्राप्त कराने वाले अथवा नवों प्राणों के वश करने वाले, (इष्टावन्तः) यज्ञ करनेहारे (राति-साचः) दान देने, पवित्र दान ग्रहण करने हारे और सबको (दधानाः) धारण पोषण करने वाले हैं (ये उ स्य) और जो आप में (दक्षिणावन्तः) दक्षिणा वाले, दानशील, क्रियाकुशल (सुकृतः) पुण्य-कर्मा (स्य) हैं वे सब आप एकत्र निराज कर (अस्मिन् वहिषि) इस आसन या यज्ञ में (मादयध्वम्) प्रसन्न रहो ।

अष्टा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अत्र ऋतमांशशानाः ।

शुचीदयन दीध्यंत उक्थशासः क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरप व्रन्

॥ २१ ॥

ऋ० ६।२।१६ ॥ यद्द० १६।६६ ॥

भा०—(अष) और (यथा) जिस प्रकार (नः) हमारे (परासः) अतिश्रेष्ठ (प्रत्नासः) पुरातन (पितरः) गुरुजन (ऋतम्) सत्य ज्ञान

१६—(द्वि०) 'भूतम्' इति प्रायशः । (तृ०) 'अर्वाणः' इति द्विटनिकामितः ।

२१—(द्वि०) 'आशुधायाः' (तृ०) 'दीधितम्' इति क्विप् ।

को (भा शशानाः) प्राप्त करते हुए (शुचि इत्) शुद्ध प्रकाश को (भयन्) प्राप्त होते हैं और (दीध्यतः) स्वयं प्रकाशमान होकर (उक्थ-शासः) उक्थ=ब्रह्म या वेद मन्त्रों का अनुशासन करते हुए (क्षाम) अन्धकार को (भिन्दन्तः) नाश करते हुए (अरुणीः) अरुण, तेजमय कान्तिमय, ज्ञानधाराओं को या वेदवाणियों को भी (भपत्रन्) प्रकट या-प्रकाशित करते रहे हैं उसी प्रकार हम भी किया करें ।

सुकर्माणः सुरुचो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धमन्तः ।

शुचन्तो अग्निं वावृधन्त इन्द्रमुवी गव्यां परिपदं नो अक्रन् ॥२२॥

ऋ० ४।२।१७ ॥

भा०—(सुकर्माणः) उत्तम कर्म करनेवाले सदाचारी, परोपकारी, (सुरुचः) शुद्ध, सुन्दर कान्ति या रुचिवाले, उत्तम प्रवृत्ति वाले (देवयन्तः) देवोपासना करनेवाले, ईश्वरभक्त पुरुष स्वयं (देवाः) देव, विद्वान् होकर भी अपने (जनिमा) जन्म को या उत्पन्न देह को (भयः न) लोहार जिस प्रकार लोहे को आग में तपा २ कर शुद्ध करता है उसी प्रकार (धमन्तः) बराबर तपस्या द्वारा तप्त करते हुए और (अग्निं) अपने ज्ञानमय आत्मा को अग्नि के समान (शुचन्तः) प्रदीप्त करते हुए और (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर की (वावृधन्तः) स्तुतियों द्वारा महिमा बढ़ाते हुए (उवीम्) विशाल (गव्याम्) गो, वाणी के प्रकाश करने के लिये (नः) हमारी (परिपदम्) परिपद् (अक्रन्) बनावें ।

आ यूथेवं जामतिं पश्वो अख्यद् देवानां जनिमान्त्युग्रः ।

मर्तासाश्चिदुर्वशीरकृपन् वृधे चिद्वर्य उपरस्यायोः ॥ २३ ॥

ऋ० ४।२।१८ ॥

२२—‘देवयन्तोऽयो’ इति ऋ० । (च०) ‘उर्व गव्यं परिपदन्तो अगमन्’ इति ऋ० ।

भा०—(उग्रः) उग्र, बलवान् गोपाल जिस प्रकार (क्षुभति) अज्ञ वाले स्थान पर (पशुः) पशु के यूगों को (आभख्यत्) देखता है उसी प्रकार (उग्रः) उग्र सदा उद्यत दण्ड परमेश्वर भी उग्र होकर (देवानां जनिमा) अग्नि आदि देवों, विद्वानों और प्राणों के (जनिम) उत्पत्ति पर (भख्यत्) देखता है, उस पर सदा दृष्टि रखता है, उसी की रक्षा करता है। (मर्त्तासः चित्) मरणधर्मा पुत्रप तो केवल (सर्वशीः) स्त्रियों का (अङ्क-प्रन्) भोग करते हैं। परन्तु (भयः) वह सबका स्वामी परमेश्वर ही (उपरस्य) गर्भाशय में वपन किये हुए गर्भस्थ (आयोः) मनुष्य के (वृषे चित्) बढ़ाने के लिये समर्थ होता है।

अकर्म ते स्वपसो अभूम ऋतमवत्तन्नुपसो विभातीः ।

विश्वं तद् भद्रं यदवन्ति देवा बृहद् वदेम विदथे सुवीराः ॥२५॥

भा०—हे परमेश्वर ! हम (ते) तेरे लिये (अकर्म) नित्य कर्म करें। और तभा (सु अपसः) उत्तम कर्म और ज्ञान वाले हों। (विभातीः) प्रकाशवान (उपसः) उपाएं (ऋतम्) हमारे यज्ञ या ज्ञान के कर्म में (अवत्तन्) नित्य आया करें। (देवाः) देवगण, विद्वान् जन (यद् अवन्ति) जिसकी रक्षा करते हैं। (तद् विश्वम्) वह विश्व (भद्रम्) भक्ति सुखकारी हो। हम (सुवीराः) उत्तम वीर, वीर्यवान् होकर (विदथे) ज्ञानमय यज्ञ में (बृहद्) उस महान् परमेश्वर की खूब (वरेम) स्तुति करें, उसके गुणों का वर्णन करें।

इन्द्रो मा सुरत्वान् प्राच्या दिशः पातु वाहुच्युता पृथिवी धामिब्रोपरि
लोककृतः पथिकृतो यजामह ये देवानां हुन्भागा इह स्थिर ॥

२३—(द्वि०) 'देवानामहं जनि' (तु०) 'मर्त्तानां' इति द्विटानिकामितः ।

ऋग्वेदे २१-३३ इत्यासां वामदेव ऋषिः । अग्निदेवता ।

२४—(द्वि०) 'अवन्नुपसः' इति सायणाभिमतः ।

२५—(द्वि०) 'वाहुच्युताम्' इति वेबरकामितः पाठः ।

भा०—(मरुत्वान्) प्राणों और वायुओं या प्रजाओं का स्वामी (इन्द्रः) इन्द्र ऐश्वर्यवान् आत्मा, परमात्मा और राजा (मा) मुझे (प्राच्याः) प्राची (दिशः) दिशा की ओर से (पातु) रक्षा करे (उपरि) ऊपर से (घाम् इव) घौलोक को जिस प्रकार पृथिवी रक्षा करती है उसी प्रकार (बाहुच्युता) हमारे बाहुबल से च्युत=सुरक्षित, बाहुओं के अधीन आई हुई या बाहुओं द्वारा विजय की हुई (पृथिवी) पृथिवी, भूमि लोक या उसमें रहनेवाली प्रजा (उपरि घाम् इव) अपने ऊपर विद्यमान आकाश या सूर्य के समान आच्छादक या प्रकाशक या रक्षक राजा की रक्षा करती है । ये जो (देवानाम्) देव-राजा और राजा के नियत अधिकारियों में से (इह) इस राष्ट्र में (हुतभागाः स्थ) आप लोग अपने भाग, वेतन या अंश को प्राप्त करने वाले हैं वे (लोककृतः) लोक, प्रजाओं के व्यवस्थाकर्ता और (पथिकृतः) मार्ग दर्शाने वाले या कानून बनाने वाले हैं, हम (यजामहे) उनकी पूजा, सत्कार करें ।

अयं वै पृथिवीलोको मित्रः असौ द्युलोको वरुणः । वरुणो राजा ।
 श० । १२ । ८ । २ । १२ ॥ एष वा वैश्वानरो यद् द्यौः । श० । अ० । ६ ।
 १ । ९ ॥ असौ द्यौः पिता । है० ३ । ८ । ९ । १ ॥ ऐन्द्री द्यौः । तार्०
 १५ । ७ । ८ ॥

धाता मा निर्ऋत्या दक्षिणाया दिशः पातु बाहु० । ० ॥ २६ ॥

भा०—(धाता) सवका पालक पोषक और धारण करने वाला पर-
 मेश्वर (मा) मुझको (निर्ऋत्या) घोर, बलवती और तीव्र तेजस्विनी
 विद्युत् शक्ति से (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण की दिशा से भाने वाले
 उपद्रवों से अर्थात् नृग्यु के उपद्रवों से उसी प्रकार (पातु) बचावे । जिस
 प्रकार (बाहुच्युता पृथिवी उपरि घाम् इव) अपने बाहुबल से सुरक्षित

१. दिवेर्वा द्यौतनार्थस्य, ददातेर्वा दानार्थस्य दयतेर्वा पालनार्थस्य ।

२. च्युद् गतौ । न्वादिः । च्यु हसनसहनयोः । चुरादिः ।

पृथिवी अपने ऊपर के रक्षक राजा की रक्षा करती है (लोककृतः० इत्यादि) पूर्ववत् ।

अदितिर्मादित्यैः प्रतीच्या दिशः पातु बाहु० । ० ॥ २७ ॥

भा०—(अदितिः) अखण्डित, शासनवाला, नित्य, परमेश्वर (अदित्यैः) अपने उत्पन्न किये सूर्य आदि पदार्थों से (मा) मुझे (प्रतीच्या दिशः) प्रतीची दिशा से (पातु) रक्षा करे । (बाहुच्युता० इत्यादि) पूर्ववत् ।

सोमो मा विश्वेदेवेर्दद्यादद्या दिशः पातु बाहु० । ० ॥ २८ ॥

भा०—(सोमः) सर्वोत्पादक और सर्वप्रेरक प्रभु (मा) मुझे (विश्वैः देवैः) समस्त देव, जीवन दान करने वाले, दिव्य गुण वाले पदार्थों से (दद्यादद्या दिशः) उदीची दिशा की ओर से (पातु) रक्षा करे (बाहुच्युता० इत्यादि) पूर्ववत् ।

घर्ता ह त्वा घृणो धारयाता ऊर्ध्वं भानुं सविता चामिवोपरि ।
लोककृतः ० ॥ २९ ॥

भा०—(घर्ता) सब विश्व को धारण करने वाला (घृणः) आश्रय-स्तम्भ के समान, सब विश्व का नाधारभूत (त्वा) तुझे (ऊर्ध्वम्) ऊर्ध्व, ऊँचे स्थानों में भी (धारयातै) उसी प्रकार धारण करता, पालन पोषण करता है जिस प्रकार (सविता) सर्वप्रेरक सूर्य (उपरि) ऊपर (भानुम्) प्रकृतशमान (चाम् इव) द्यौ लोक को धारण करता है । (लोककृतः) इत्यादि पूर्ववत् ।

अधिकारियों की पदों पर नियुक्ति ।

प्राच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहु० । ०
॥ ३० ॥ (१५)

भा०—हे पुरुषो ! (प्राच्यां दिशि) प्राची दिशा में (पुरा) पालन

करने वाली पुरी या नगरी के चारों ओर लगी परिखा द्वारा (संवृतः) भली प्रकार आवृत, सुरक्षित होकर मैं राजा (त्वा) तुझ को (स्वधायाम्) स्वयं धारण करने योग्य, अन्न आदि के वेतन या पृथिवी आदि पुरस्कार पर (आदधामि) स्थापित करता हूँ । (बाहुच्युता इत्यादि) पूर्ववत् । अथवा मैं राजा (त्वा पुरा संवृतः १) तुझ को 'पुर' नागरी से संवरण या गुप्त करके (स्वधायाम् आ दधामि) तुझे तेरे पद पर स्थापित करता हूँ ।

दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा० । ० ॥ ३१ ॥ प्रतीच्यां त्वा दिशि पुरा० । ० ॥ ३२ ॥ उदीच्यां त्वा दिशि पुरा० । ० ॥ ३३ ॥ ध्रुवायां त्वा दिशि पुरा० । ० ॥ ३४ ॥ ऊर्ध्वायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युतां पृथिवीं द्यामिवोपरि । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३५ ॥

भा०—हे पुरुष ! (त्वा ५) तुझको; (दक्षिणायां दिशि) दक्षिण दिशा में, (प्रतीच्यां दिशि) प्रतीची दिशा में (उदीच्यां दिशि) उदीची दिशा में (ध्रुवायां दिशि) ध्रुवा नीचेकी दिशा में (ऊर्ध्वायां दिशि) और ऊर्ध्व-ऊपर की दिशा में (पुरा संवृतः) पुर की-नगरकोट से सुरक्षित रहता हुआ मैं राजा तुझ पुरुष को (स्वधायाम् आदधामि) स्वयं धारण ग्रहण करने योग्य अन्न वेतन या भूमि पर अधिकारी रूप से नियत काता हूँ (बाहुच्युता लोककृतः ० इत्यादि पूर्ववत्)

धर्तासि धरुणोसि वंसगोसि ॥ ३६ ॥

उद्वप्रांसि मधुप्रांसि वातप्रांसि ॥ ३७ ॥

भा०—हे राजन् ! प्रभो ! (धर्ता असि) प्रजाओं का धारण करने वाला, (धरुणः असि) सबका आश्रय या सबको अपने में धारण करने योग्य, सर्वतः उपास्य है । और (वंसगः) वृषभ के समान सुन्दर

मनोहर गति से चलने वाला नरपुंगव, नरश्रेष्ठ है । (उद्रुः अग्नि) मेव के समान जल द्वारा प्रजा का पालन करने वाला और (मधुः अग्नि) अन्न द्वारा प्रजा का पालन करने वाला और (वातुः अग्नि) वायु द्वारा प्रजा का पालक है अथवा जल, मधु, अन्न और वायु इनको पवित्र करने वाला है ।

राजा और प्रजा का परस्पर व्यवहार ।

इतश्च मामुतश्चावतां यमे इव यतमाने यद्वैतम् ।

प्र वां भरुन् मानुषा देवयन्तो आ सीदतां स्वर्मु लोकं विदाने ॥३२॥

द्वि० तु० च० ऋ० १० । १३ । १ प्र० द्वि० तु० ॥

भा०—(यत्) जब तुम दोनों राजगण और प्रजागण माता और पिता, अन्न का धारण करने वाले आप दोनों (यमे) सुख्यर्वास्थित युगलह्व से (यतमाने) परस्पर के पालन में बल करते हुए (येतम्) जाते हो तब तुम दोनों (नाम्) सुझको (इतः च) समीप के देश से और (अमुतः च) दूर के देश से भी (अवतान्) रक्षा करो । पृथ्वी समीप से और आकाश दूरके देश से रक्षा करे । (देवयन्तः) देव, चमकने वाले और शक्ति देने वाले पदार्थों को अपने वश करने वाले विद्वान् (मानुषाः) विचारशील लोग (वां) तुम दोनों का (भरुन्) मर्जी प्रकार पालन पोषण करें । आप दोनों (स्वं लोकम्) अपने २ स्थान, पद और प्रतिष्ठा को (विदाने) प्राप्त करते हुए (आसीदतान्) विराजमान रहो । और्हविर्वातम् । तै० २ । १ । ५ । १ ॥ यावा पृथिवी वै देवानां हविर्घति आस्तान् । ऐ० १ । २९ ॥

स्वास्थ्ये भवतुमिन्द्रो नो युजे वां ब्रह्मं पूर्य नमोभिः ।

१. स्वार्थे कः । संकृत्य इत्यर्थः ।

३२-४१ पर्यन्तानामृचां ऋग्देवे विवस्त्रानादिल ऋषिः हविर्घाने देवते ।

वि श्लोकं पति पृथगे/व सूरिः शृण्वन्तु विश्वे अमृतांस पतत् ॥३६॥

(तृ० च०) ऋ० १० । १३ । २ ॥ प्र० द्वि० तु० ॥

भा०—हे अज्ञों को धारण करने हारे राजागण और प्रजागण ! आप दोनों (नः) हमारे (इन्द्रवे) परम ऐश्वर्यवान् राजा के लिये (सु आसस्थे) सुखपूर्वक अपने २ आसन पर उपविष्ट (भवतम्) हो जाओ । (वां) तुम दोनों को मैं (नमोमिः) नमन करने वाले, वश करने वाले उत्तम नियमों से (पूर्वं ब्रह्म) पूर्ण या पुरातन ब्रह्म वेद का उपदेश (युजे) करता हूँ । (सूरिः) सूर्य जिस प्रकार (पथ्या) उचित मार्ग के अनुसार आता है उसी प्रकार (श्लोकः) समस्त पदार्थों का दर्शन कराने वाला यह ज्ञानमय वेद भी (वि पति) विविध मार्गों में गति करता है । हे (अमृतांसः) अमृत, अमर, दीर्घायु पुरुषो ! आप (विश्वे) सब लोग (पतत्) इस वेद ज्ञान का (शृण्वन्तु) श्रवण करें ।

त्रीणि पदानि रूपो अन्वरोहश्चतुष्पदीमन्वैतद्भूतेन ।

अक्षरेण प्रति मिमीते अर्कमृतस्य नाभावमि सं पुनाति ॥ ४० ॥

ऋ० १० । १३ । ४ ॥

भा०—(रूपः) बीज से उत्पन्न होने वाला जीव (त्रीणि पदानि) तीन पदों, ज्ञानमय वेद त्रयी को (अनु, प्ररोहत्) कम से चढ़ जाता है । (अनु पतत्) और उसके पश्चात् (भूतेन) भूत पूर्वक (चतुष्पदीम्) चार पदों वाली चतुर्वेदमय वेद वाणी को प्राप्त होता है, तब (अक्षरेण) अक्षर अविनाशी 'ओंकार' रूप से (अर्कम्) अर्चना, उपासना करने योग्य

३६--(तृ०) 'सूरिः' इति ऋ० ।

४०--'पञ्चपदानि', 'अन्वरोहम्' (द्वि०) 'अन्वेमि' (तृ०) 'प्रतिमिमे' (च०) 'सम्पुनामि' इति ऋ० ।

परमेश्वर का (प्रति सिमीते) प्रत्येक गुण से या प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान शक्ति सहित ज्ञान करता है। और तब (ऋतस्य) ऋत-सत्य ज्ञान या समस्त संसार या यज्ञ के (नामौ) एकमात्र आश्रयरूप परमेश्वर में ही भग्न होकर (अग्नि) उसको साक्षात् करके अपने को (सं पुनाति) भली प्रकार पवित्र कर लेता है।

देवेभ्यः कर्मवृणीत मृत्युं प्रजायै किममृतं नावृणीत ।

बृहस्पतिर्यज्ञमत्तनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्वमा रिरिच ॥ ४२ ॥

ऋ० १०। १२। ४ ॥

भा० (देवेभ्यः) देवों के लिये (कम्) किस प्रकार के या कौन से (मृत्युन्) मृत्यु को परमेश्वर ने (अवृणीत्) दूर किया है ? (प्रजायै) प्रजा से (किन्) किस प्रकार के (अमृतम्) अमृत को (न अवृणीत) नहीं दूर किया। अर्थात् देवों की कैसी मृत्यु दूर की है और प्रजा को किस प्रकार का अमृत प्रदान किया है ? (बृहस्पतिः) महान् लोकों का पालक (ऋषिः) सर्वदृष्टा परमेश्वर (यज्ञन्) ऐसे प्रजातन्तु रूप यज्ञ को (अत्तनुत) विस्तारित करता है और (यमः) वह सर्वनियन्ता परमेश्वर जीव के (प्रियान्) प्रिय शरीर को (आरिरिच) मृत्यु रूप अग्नि से हर लेता है अथवा (यमः) ब्रह्मचारी योषाग्नि में अपने (प्रियाम् तन्वं आरि-रिच) सन्तति को गर्माधान द्वारा वपन करता है। ईश्वर ने विद्वानों की मृत्यु को इसी प्रकार दूर किया है कि प्रजाओं को ही परमात्मा ने सन्तति रूप से अमर कर दिया है। यह परमात्मा का महान् यज्ञ है कि वह जीव के देह को नष्ट कराता है और उसकी मृत्यु रूप अग्नि में आहुति लेता है और नये २ जीवों को उत्पन्न करता है।

४१-(दि०) 'कमृतं' (तु०) 'बृहस्पतिर्यज्ञमत्तनुत ऋषिम्' (च०)

'आरिरिचात्' इति ऋ० ।

त्वमंग्न ईडितो जातवेदो वाङ्मह्व्यानि सुरभीणि कृत्वा ।

प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नाद्धि त्वं देव प्रयता हवीषि ॥४२॥

ऋ० १०। १५। १२ ॥

भा०—हे (जातवेदः) समस्त उत्पन्न पदार्थों को जानने हारे (अग्ने) ज्ञानप्रकाशक ! सब के अप्रणी ! (ईडितः) स्तुतिपात्र (त्वम्) तू (ह्व्यानि) अन्नों को (सुरभीणि) अति सुगन्धित, एवं पुष्टिकारक (कृत्वा) करके (अवाट्) प्रदान करता है । और (पितृभ्यः) प्रजा के पालन करने वाले गृहस्थ मा बाप को (प्रादाः) प्रदान करता है । (ते) वे (स्वधया) अपनी धारण और पालन करने की शक्ति से या स्वधा, अपने देहको पालन करने वाले पर्याप्त अन्न के रूप में (ह्व्यानि) उन नाना प्रकार के हव्य रूप अन्नों को (अक्षन्) प्राप्त करते, उनका उपयोग करते हैं । हे (देव) सब को देने वाले देव राजन् ! प्रभो ! (त्वं) तूही सब (प्रयता हवीषि) प्रदान किये हवियों अन्न को (अद्धि) स्वीकार कर लेता है ।

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुपे मर्त्याय ।

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोर्जं दधात ॥ ४३ ॥

यजु० १६। ६३ ॥ ऋ० १०। १५। ७ ॥

भा०—हे (पितरः) राष्ट्र के पालक माता पिता गुरुजन एवं वृद्ध पुरुषो ! आप लोग (अरुणीनाम्) अरुण, लाल वर्णवाली माताओं या गौओं या पृथिवियों के (उपस्थे) समीप, उनके आश्रय में (आसीनासः) रहते हुए (दाशुपे) आपको अन्न आदि प्रेम से देने वाले (मर्त्याय) अरण्य-धर्मा पुरुष को (रयिं धत्त) धन प्रदान करो । और (पितरः) पिता लोग जिस प्रकार (पुत्रेभ्यः) पुत्रों को धनादि प्रदान करते हैं वही प्रकार आप लोग भी (वस्वः) वसु-धन (प्रयच्छत) प्रदान करो । (ते)

४२-ऋग्वेदे ४२-४४ आसामृचां शंसो यामायन ऋषिः । पितरो देवताः ।

वे नाना विभागों के अध्यक्ष, प्रजापालक अधिकारी पुरुषो ! आप लोग (इह) इस राष्ट्र में (ऊर्जम्) पुष्टिकारक, बलकारक अन्न (दधात) प्रदान करो ।

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छतु सदः सदः सदत सुप्रणीतयः ।

अत्तो हवींषि प्रयंतानि वहिंषि रयिं च नः सर्ववीरं दधात ॥ ४॥

यजु० १६ । ५६ ॥ ऋ० १० । १५ । १६ ॥

भा०—(अग्नि-स्वात्ताः) जिन गृहस्थ पुरुषों ने सोमपान नहीं किया वे 'अग्निष्वात्त' हैं अथवा जिन्होंने अग्नि, विद्युत् आदि का विज्ञान प्राप्त किया है या अग्नि के समान तापदायक तेजों से सम्पन्न हैं वे आप (पितरः) प्रजाके पालक गण, (इह) इस यज्ञ में (आ गच्छत) आवें । हे (सुप्रणीतयः) भली प्रकार सब अनुष्ठान करने हारे और उत्तम फल प्राप्त करने में उत्तम नीति, साधना का उपदेश करने हारे विद्वान् लोगो ! आप (सदः सदः) प्रत्येक समा गृह में (सदत) प्राप्त होओ । और (वहिंषि) वहिं, यज्ञ में (प्रयतानि) प्रदान किये (हवींषि) अन्न आदि पदार्थों को (अत्तो) प्राप्त करो, खाओ और (नः) हमें (सर्ववीरम्) सब प्रकार वीर पुरुषों से युक्त (रयिम्) धन सम्पत्ति का (दधात) प्रदान करो । ये वा अयज्वानो गृहमेधिनस्तेऽग्निष्वात्तास्ते पितरोऽग्निष्वात्ताः, इति तै० ब्रा १ । ६ । ९ । ६ ॥

उपहृताः नः पितरः सोम्यासो वहिंष्ये/पु निधिपु प्रियेषु ।

ते आ गमन्तु त इहश्रुवन्त्वधिं वृचन्तु ते/वन्त्वस्मान् ॥ ४५ ॥

ऋ० १० । १५ । ५ ॥ यजु० १६ । ५६ ॥

४४—(तु०) 'अत्ता' (च०) 'अधारयि सर्ववीरं दधातनं ।' इति ऋ० ।

अत्ता, (च०) 'दधातन' इति सायणामिमत्तश्च ।

४५—(प्र०) 'उपहृताः पितरः' इति ऋ०, यजु० ।

भा०—(नः) हमारे (सोम्यासः) सोमपान करने वाले, पर ब्रह्मोपासक, एवं विद्वान् या राजा के हितकारी (पितरः) पालक जन (बर्हिष्येषु) यज्ञ सम्बन्धी (प्रियेषु) प्रिय (निविषु) रत्न आदि बहुमूल्य पदार्थों द्वारा (उपहृताः) आदर सत्कार पूर्वक वर्चित किये जायें । (ते) वे (आगमन्तु) आवें (ते) वे (इह) इस यज्ञ या राष्ट्र या लोक में (श्रुवन्तु) हमारी प्रार्थनाओं को सुनें और (अस्मान्) हमें ते (अधि श्रुवन्तु) उपदेश करें, आज्ञा दें और (अस्मान् कवन्तु) हमारी रक्षा करें ।

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा अनुजहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ।
तेभिर्ममः सं रराणो हवीष्युशन्तुशङ्गिः प्रतिकाममन्तु ॥ ४६ ॥

ऋ० १०।१५। = ॥ यजु० १।५१ ॥

भा०—(ये) जो (नः) हमारे (पितुः) पिता के (पितरः) पिता और (ये) जो (पितामहाः) बाबा हैं जो (वसिष्ठाः) वसु, बसने वाले बस्ती के निवासियों में सब से श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित होकर (सोमपीथं) सोमपान या राष्ट्र के पालन कार्य को (अनुजहिरे) क्रम से एक दूसरे के बाद करते हैं । (तेभिः) उनके साथ (सं रराणः) अच्छी प्रकार रमण करता हुआ, आनन्द प्रसन्न होकर (यनः) प्रजाओं का नियन्ता राजा (हवीषि उशन्) हविः श्रेष्ठ बलों को या योग्य पदार्थों को चाहता हुआ (उशङ्गिः) नाना योग्य पदार्थों को स्वयं भी चाहने वाले प्रजापति अधिकारियों के साथ (प्रतिकामम्) अपने इच्छानुसार इन (हवीषि) प्रजा से प्राप्त बल आदि योग्य पदार्थों को (अन्तु) योग करे ।

४६—(४६) 'येनः पूर्वं पितरः सोम्यासः' इति ऋ० । (द्वि०) 'अनुजहिरे' इति यजु० । 'अनुजहिरे', 'अनुजहिरे', 'अनुजहिरे'. 'अनुजहिरे' इति नानापठः ।

ये तातृपुद्वैत्रा जेहमाना होत्राविदुः स्तोमतथासो अर्कैः ।

आग्ने याहि सहस्रं देववन्दैः सत्यैः ऋषिभिर्ऋषिभिर्धर्मसद्भिः ॥३७॥

ऋ० १० । १५ । ६ प्र० द्वि० तृ० च० ॥

भा०—(ये) जो (देवत्रा) देव विद्वान् परमेश्वर की प्राप्ति के लिये (जेहमानाः) निरन्तर यत्नशील होते हुए (होत्राविदः) 'होत्र' त्यागपूर्वक दिये अन्नों को प्राप्त करने वाले (अर्कैः) स्तुति के दचनों से (स्तोमतथासः) स्तुतियों को बनाने वाले (तातृपुः) ईश्वर के रसके लिए पिपासा अनुभव करते हैं । इन (सत्यैः) सच्चे (धर्मसद्भिः) तेजःसम्पन्न या यज्ञ में बैठने वाले (ऋषिभिः कविभिः) मन्त्रद्रष्टा ऋषियों, कान्तदर्शी, विद्वान् (देववन्दैः) (सहस्रं) हजारों ईश्वर के उपासकों के साथ हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्विन् ! राजन् या आचार्य ! (न याहि) क्षाप आवें ।

ये सत्यासों हविर्दो हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथं तुरेण ।

आग्ने याहि सुविद्वैर्भिर्वाङ् परैः पूर्वैर्ऋषिभिर्धर्मसद्भिः ॥४८॥

ऋ० १० । १५ । १० प्र० द्वि० तृ० ६ च० ॥

भा०—हे (अग्ने) राजन् ! आचार्य ! परमेश्वर ! (ये) जो (सत्यासः) सत्यवादी, सत्यकर्म (हविः अदः) पवित्र अन्न को खानेवाले (हविष्पाः) पवित्र अन्न का पान करने वाले अथवा (हविर्दः, हविष्पाः) हवि अर्थात् वेतन का भोग करने वाले और हवि अर्थात् आज्ञा का पालन करने वाले होकर (तुरेण) शत्रुनाशक या वेगवान् (देवैः) सामन्त राजाओं के साथ (सरथम्) उनके समान रथ पर सवार होकर चलते हैं उन

४७—(च०) 'कव्यैः पितृभिः' इति ऋ० । (प्र०) 'तातृपुः' इति तै०
ब्रा० । (द्वि०) 'होत्रावृधः'

४८—(दि०) 'सरथं दधानाः' (च०) 'पूर्वैः पितृभिः' इति ऋ० ।

(सुविदत्रेभिः) उत्तम ज्ञानी पुरुषों और (परैः) उक्कृष्ट, ज्ञानवृद्ध और (पूर्वैः) अपने कला और कौशल और ज्ञान में पूर्ण (धर्मसद्भिः) सूर्य के प्रखर धाम के समान तापकारी तेज में विराजमान (ऋषिभिः) ऋषि, ज्ञानद्रष्टा पुरुषों के साथ (आयाहि) हमें प्राप्त हो ।

उप सर्प मातरं भूमिमेतासुरुव्यचंसं पृथिवीं सुशेवाम् ।

ऊर्णमद्राः पृथिवी दक्षिणावत एषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ॥४६

ऋ० १०।१८।१॥

भा०—हे राजन् ! (एताम्) इस (उरुव्यवसम्) विशाल विस्तार वाली (सुशेवाम्) सुखप्रद (पृथिवीम्) अति महान्, विस्तृत, (मातरम्) सब की माता, उत्पन्न करने वाली (भूमिः) सर्वाधार भूमि को (उपसर्प) तू प्राप्त हो (दक्षिणावतः) दक्षिणा या शक्ति से सम्पन्न अर्थ सम्पत्ति या कार्य को अधिक बलपूर्वक करने की शक्तियों से सम्पन्न पुरुष के लिए यह (पृथिवी) पृथिवी भी (ऊर्णमद्राः) कठिन न-होकर उनके समान अति कोमल है (एषा) वह (प्रपथे) सब मार्ग में (पुरस्तात्) तेरे आगे से (त्वा) तुझको (पातु) पालन करे ।

उच्चत्त्वस्व पृथिवि मा निवाधथाः सूपायनास्मै भव सूपसर्पणा ।

माता पुत्रं यथा सिचाभ्ये/नं भूम ऊर्णहि ॥ ५० ॥ (१७)

ऋ० १०।१८।११॥ तृ० च० अथर्व० १८।२।५० तृ० च० ॥

भा०—हे (पृथिवि) भूमि ! तू (उच्चत्त्वस्व) उन्नति को प्राप्त हो । ऊपर उठ । (मा नि बाधथाः) अपने ऊपर के निवासी प्रजा और राजा को पीड़ित मत कर । (अस्मै) इस उत्तम राजा के लिये (सू-

४६-(तृ०) 'ऊर्णमद्राः युवतिर्द' (च०) 'पातु निर्ऋतेरुपस्थात्' इति ऋ० ।

५०-(द्वि०) 'सूपवञ्चना' इति ऋ० । (प्र०) 'उच्चत्त्वस्व', 'निवाधिताः सूपवञ्चना' (च०) 'भूमिवृणु' इति तै० आ० ।

स्थापना) उत्तम रीति से प्राप्त करने योग्य एवं उत्तम उपहार के समान और (सु-व्यसर्पणा) उत्तम रीति से व्यसर्पण करने वाली उसके शरण में आनेवाली होकर (भव) रह । हे (भूमे) सर्वाश्रय भूमे ! (माता पुत्रं यथा) जिस प्रकार माता पुत्र को प्रेम से अपना दूध पिलाती है वही प्रकार तू (एम्) उस राजा को (सिव) सुखप्रद अन्नों से पूर्ण कर और (अग्नि ऊर्णहि) सब प्रकार आच्छादित कर, सुरक्षित कर । यहां पृथिवी से पृथिवी और उसमें निवास करने वाली प्रजा दोनों का ग्रहण करना चाहिये ।

उच्चृञ्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मितु उप हि श्रयन्ताम् ।
ते गृहासो वृत्तश्चतः स्याना विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र ॥५१॥

ऋ० १० । १८ । १२ ॥

भा०—(उच्चृञ्चमाना) ऊपर उठे शरीर वाली, खूब पुलकित शरीर-अर्थात् खूब ओषधि और कृषि आदि से सम्पन्न (पृथिवी) पृथिवी (सु तिष्ठतु) उत्तम रीति से विराजमान रहे । (सहस्रन्) हजारों लोग (मितु=मितयः) परस्पर मिलकर (उप) पास (श्रयन्ताम्) इस पर अपना बनेरा करें । (ते) वे (गृहासः) गृह (वृत्तश्चतः) वृत्त आदि पुष्टिकारक पदार्थों को देने वाले (स्यानाः) मुखकारक और (अस्मै) इस स्वामी के लिये (विश्वाहा) सब प्रकार से (अत्र) इस लोक में (शरणाः) शरणप्रद (सन्तु) हों ।

उत्तं स्तभ्नामि पृथिवी त्वत् परीमं लोग निद्रयन्मो अहं रिपम् ।
एतां स्यूणां पितरो धारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते कृष्योतु ॥५२॥

ऋ० १० । १८ । १३ ॥

५१—(वृ०) 'वृत्तश्चतो भवन्तु' इति ऋ० ।

५२—(वृ० च०) 'धारयन्तु तत्र' (च०) 'मिनोतु' इति ऋ० । (प्र०)

भा०—हे राजन् ! (ते पृथिवीन्) तेरे निमित्त पृथिवी को (उद-
स्तन्नानि) उन्मत्त करता हूँ, और हे राजन् (त्वत् परि) तेरे इर्दगिर्द,
तेरे आश्रय पर, तेरा रक्षा में (इमं लोगन्) इस लोकनाज को (निदधन्)
बसाता हुआ (बहन्) मैं (मा रिपन्) पीड़ित न होऊँ । (पितरः)
राष्ट्र के पालक लोग (पुतान्) इस (स्थूणाम्) आश्रयभूत, राज्य के
भार को उठाने वाली धुरा को (धारयन्ति) स्वयं धारण करते हैं ।
हे पुरुष ! (तत्र) इस कार्य में (यम—मयः) नियानक, नियन्ता,
शक्तियों को नियानक, व्यवस्थापक या शिली (ते) तेरे लिये (सादना)
आश्रयस्थान, गृहों, इमारतों को (कृणोतु) बनावे ।

इममन्ते चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानामुत सोन्यानाम् ।
श्रयं यश्चमसो देवपानस्तस्मिन् देवा अनृता मादयन्ताम् ॥१३॥

ऋ० १०।१६। = ॥

भा०—हे (वन्ते) वन्ते ! अग्रणी ! सेनापते ! वृ (इमन्) इस
(चमसन्) पृथ्वी के भोग्य पदार्थों के भोग करने वाले राजा के प्रति
(मा वि जिह्वरः) कुदिलता का चर्चाव मत कर । यह (देवानां प्रियः)
देव, समस्त विद्वानों और राजाओं का (उत) और (सोन्यानाम्) सोन,
ज्ञान से सम्पन्न विद्वानों का (प्रियः) प्यारा है । (वयन्) यह (यः)
जो (देवपानः) देवों, विद्वानों का रक्षक (चमसः) स्वयं जो नाना
भोग्य पदार्थों का भोक्ता है । (तस्मिन्) उसके आश्रय पर रहने वाले
(अनृताः) अनृतरूप, नृत्पूरहित दीर्घायु (देवाः) देवगण, विद्वान्
पुरुष (मादयन्ताम्) हर्षित और आनन्दित हों । यह चमस मैं नी
शब्दसाम्य से श्लेष पूर्वक इसकी योजना स्पष्ट है ।

‘तन्नोति’ इति वै० धा० । (दि०) ‘लोकं’ (उ०) ‘धारयन्तु तत्र’
इति ऋ० सायणान्वितम् ।

१३—(वृ०) ‘इयं’ (व०) ‘मादयन्ते’ इति ऋ० ।

अथर्वा पूर्णं चमसं यस्मिन्प्रायाविभर्वाजिनीवते ।

तस्मिन् कृणोति सुकृतस्य भक्षं तस्मिन्निन्दुः पवते विश्वदानीम् १५

भा०—(अथर्वा) सब का कल्याण करने हारा पुरोहित, अथर्वा, (यन्) जिस (पूर्णं) पूर्ण (चमसम्) चमस पात्र को (वाजिनीवते) सेना में बल से युक्त (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् सेनापति के लिये (अविमः) स्वयं धारण करता है (तस्मिन्) उसके आश्रय पर ही (सुकृतर) उत्तम कार्यों, पुण्यमय कार्यों के (भक्षं) भोग्य फलको (कृणोति) उत्पन्न करता है। (तस्मिन्) और उसके आश्रय पर ही (इन्दुः) पात्र में सोमके समान ज्ञान रससे सम्पन्न विद्वान् गण भी (विश्वदानीम्) नित्यकाल (पवते) धन्नति को प्राप्त करता है ।

यत् ते कृष्णः शकुन आतुतोद् पिपीलः सर्प उत वा श्वापदः ।

अग्निष्टद् विश्वाद्गदं कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणो आविवेश ॥१५॥

सू० १०।१६।६॥

भा०—हे पुरुष ! (ते) तेरे शरीर में (यत्) यदि (कृष्णः शकुनः) काला पत्तो, काक आदि (पिपीलः) कौड़ी आदि जन्तु (सर्पः) सांप, (उत श्वापदः) और कुत्ता, बृक आदि हिंसक जन्तु (आतुतोद्) धाव करदे तो (तत्) उसको (विश्वत्) सब पदार्थों का भक्षक (अग्निः) अग्नि (अगदं कृणोतु) रोग रहित करे । और (यः) जो (सोमः) सोम ओषधि या शान्तिदायक पुरुष भी जो (ब्राह्मणान्) ब्रह्मके विद्वान् पुरुषों में (आविवेश) विद्यमान है वह वैद्य भी तुम्हें को (अगदं कृणोतु) रोग रहित करे ।

पर्यस्वतीरोषधयः पर्यस्वन्मामकं पर्यः ।

अपां पयसो यत् पयस्तेन मा सह शुम्भतु ॥ ५६ ॥

प्र० दि० अथर्व० ३ । २४ । १ प्र० दि ॥ ऋ० १० । १७ । १४ ॥

भा०—(ओषधयः) सब ओषधियां (पयस्वतीः) पुष्टिप्रद रस वाली हों और (मामकं पयः) मेरा प्राप्त किया सारभूत पदार्थ, वचन भी (पयस्वत्) पुष्टिकारक रस वाला हो और (यत्) जो (अपां) जलों के (पयसः) सारभूत पदार्थ का भी (पयः) पुष्टिप्रद रस है (तेन सह) उससे परमात्मा (मा) मुझे (शुम्भतु) सुशोभित करे ।

स्त्रियों के कर्त्तव्य

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम् ।

अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥५७॥

ऋ० १० । १८ । ७ ॥ अथर्व० १२ । २ । ३ ॥

भा०—(इमाः) ये (अविधवाः) सधवार्यें (नारीः) नारियें (सुपत्नीः) उत्तम गृहस्वामिनी हैं । वे (सर्पिषा) घृत से मिले (आञ्जनेन) अंजन, लेपन द्रव्य से (संस्पृशन्ताम्) अपनी देह भांजें उस पर मलें । और वे (अनश्रवः) बिना भांतू के सुप्रसन्न, (अनमीवाः) रोगरहित, स्वस्थ शरीर रहती हुईं (जनयः) स्त्रियां (सुरत्ना) सुन्दर रमणीय रूपवाली या उत्तम रत्नों को धारण करती हुईं (अग्रे) प्रथम (योनिम्) निवासगृह या प्रतिष्ठा के पद या सेज को (आरोहन्तु) प्राप्त करें ।

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेप्रापुतेनं परमे व्योमन् ।

५६—(च०) 'शुम्भत' इति क्वचित् । (दि०) 'मामकं वचः' (तृ०)

'अपां पयस्वदित् पयः' (च०) 'शुम्भत' इति ऋ० । (दि०) पयस्व

द्वीत्थां पयः' (च०) 'तेन मामिन्द्र संसृज' इति तै० ब्रा० ।

हित्वावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छतां तन्वा सुवर्चाः ॥ ५८ ॥

ऋ० १० । १४ । ८ ॥

भा०—हे पुरुष ! तू (पितृभिः) पालन करने वाले बृद्ध महानुभावों से (संगच्छस्व) सत्संग किया कर । (यमेन) इन्द्रियों का संयम करने वाले ब्रह्मचारी पुरुष से (सम्) संगति लाभ कर । (परमे व्योमन्) उस परम, रक्षास्थान, सब के शरण परमेश्वर का आश्रय लेकर (दृष्टापूर्तेन सम्) इष्ट, यज्ञ आदि देव उपासना के कार्यों और 'बाधुर्त्त' लोकरोपकार के कार्यों के साथ (सं) अपने को संगत कर । और (अवद्यं हित्वा) निन्दा योग्य आचरण को छोड़ कर तू (पुनः) फिर (अस्तम्) अपने घर को आ । और (सुवर्चाः) उत्तम तेज से सम्पन्न होकर (तन्वा) देह से (सं गच्छताम्) सदा संयुक्त रहे । अर्थात् जबतक शरीर रहे तबतक शरीर में तेज भी बना रहे ।

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुर्व्वान्तरिक्षम् ।
तेभ्यः स्वराडसुनीतिर्नो अद्य यथावशं तन्व/ कल्पयाति ॥५९॥

ऋ० १० । १५ । १४ ॥ यजु० १६ । ६० ॥

भा०—(ये) जो (नः) हमारे (पितुः) पिता के (पितरः) पिता लोग और (पितामहाः) उनके भी पिता पितामह लोग हैं और (ये) जो भी (उरु) विशाल (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष में (आविविशुः) प्रविष्ट हैं अर्थात् देह छोड़ कर जो मोक्ष में आश्रय करते हैं (असुनीतिः) प्राणों को वाद में वायु में प्राप्त करानेवाला सर्व प्राणप्रद (स्वराद्) स्वयं प्रकाशमान परमेश्वर (यथावशम्) उनके आपने वश=

५८—(तु०) 'हित्वाय' (च०) 'गच्छस्व' इति ऋ० । (द्वि०) 'सं त्वधामिः समिष्टा' इति तै० आ० ।

५९—'तेभ्यः स्वराडसुनीतिर्नो यथावशं तन्वं कल्पयस्व' इति ऋ० ।

कामना या प्रबल इच्छाके अनुसार (अद्य) आज तक (तेभ्यः) उनके (तन्वः) शरीरों को (कल्पयति) बनाता है ।

शं ते नीहारो भवतु शं ते प्रुप्त्राव शीयताम् ।

शीतिके शीतिकावति ह्लादिके ह्लादिकावति ।

मण्डूक्यः प्रुप्त्रु शं भुव इमं स्वग्निं शमय ॥ ६० ॥ (१८)

तु०-५० ऋ० १० । १६ । १४ ॥ प्र० दि० तै० आ० ६ । ४ । १ ॥

भा०—हे पुरुष ! (ते) तेरे लिये (नीहारः) नीहार, कोहरा (शं) सुखकारक (भवतु) हो । (प्रुप्त्रा) जलविन्दु के फुहार भी (ते) तेरे लिये (शम्) सुखकारी रूप से (भव शीयताम्) भूमि पर आवें । हे (शीतिके) शीत गुण वालो लते ! हे (शीतिकावति) शीतगुण वाली लता से युक्त भूमे और (ह्लादिके) आह्लाद, चित्त में हर्ष उत्पन्न करने वालो लते ! और हे (ह्लादिकावति) हर्ष उत्पन्न करने वाली ओषधियों से युक्त भूमे ! तू (मण्डूकी) मण्डूकी या मँडूकी के समान जल में डूबी रहकर तू सदा (शंभुवः) कल्याणकारी हो और (इमन् अग्निम्) इस जीव रूप अग्नि को (सु शमय) भली प्रकार शान्त कर ।
विवस्वान् नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामां जीरदानुः सुदानुः ।
इहेमे वीरा ब्रह्मो भवन्त गोसुदृश्वन्मर्यस्तु पुष्टम् ॥ ६१ ॥

भा०—(यः) जो (सुत्रामा) उत्तम रीति से प्रजाके पालन में समर्थ (जीरदानुः) सब को प्राण और अन्न देने में समर्थ और (सुदानुः) उत्तम कल्याणमय दान करने हारा है वह (विवस्वान्) विशेष वस्तु, धनैश्वर्य सम्पन्न, महापुरुष राजा या प्रभु (नः) हम प्रजाओं

६०—'मण्डूक्यासु संगमः' (च०) 'इमं त्वग्निं हर्षय' इति ऋ० । 'शंभुव' इति सायणामिमतः । (च० , 'ह्लादुके ह्लादुकावति' (प्र०) 'नीहारो वर्पतु', 'शुमुप्त्रा' इति तै० आ० ।

के लिये (अभयम्) अभय (कृणोति) करे । (इह) इस राष्ट्र में (इमे) ये (बहवः) नाना प्रकार के बहुतसे (वीरा) वीर पुरुष (भवन्तु) रहें । और (मयि) मेरे पास (गोमत्) गौओं और (भश्ववत्) घोड़ों का जंगम धन बहुत (पुष्टम्) पुष्टिकारी या अति-पुष्ट (अस्तु) हो ।

विवस्वान् नो अमृतत्वे दधातु परंतु मृत्युरमृतं न ऐतु ।
इमान् रक्षतु पुरुषाना जरिम्णो मो प्वे/पामसवो यमं गुः ॥६२॥

भा०—(विवस्वान्) विविध ऐश्वर्यों से युक्त राजा या परमेश्वर (नः) हमें (अमृतत्वे) अमृत=दीर्घजीवन के मार्ग में (दधातु) बनाये रखे । (मृत्युः) मृत्यु, प्राणों के देह से छुटने की घटना (परा एतु) दूर चली जाय । (अमृतम्) अमृत, दीर्घ सैकड़ों वर्षों का जीवन (नः) हमें (एहं) प्राप्त हो । वह प्रभु (इमान् पुरुषान्) इन राष्ट्रवासी पुरुषों को (आ जरिम्णः) वृद्धावस्था तक, शरीर के स्वयं जीर्ण होजाने के काल तक (रक्षतु) रक्षा करे । (एपाम्) इनके (असवः) पाप (यमम्) यम, प्राकृतिक नियमबन्धन करने वाले नियम, मृत्यु के वश (मो सुगुः) न हों । अर्थात् प्राणों का वश करना हमारे हाथ में हो, न कि नैसर्गिक बन्धन में हमारे प्राण फंसे रहें ।

यो दृध्रे अन्तरिक्षे न म्हा पितृणां क्विः प्रमतिर्मतीनाम् ।
तमर्चत विश्वमित्रा हविभिः स नो यमः प्रतरं जीवसे धात् ॥६३॥

भा०—(यः) जो (म्हा) महान् सामर्थ्य से (न) मानो (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष आकाश में समस्त लोकों को (दध्रे) धारण करता है और जो (पितृणां) पालन करने वाले समस्त पालकों में

६२—(दि०) 'अमृतं म आगात्' (प्र०) 'विवस्वतो नो' इति मै० त्रा० ।

६३—'अन्तरिक्षेण' इति क्वचित् सायणामिमतश्च ।

से (कविः) सब से अधिक प्रज्ञावान्, कवि और (मतीनाम्) मनन-शील पुरुषों में से (प्रमतिः) सबसे उत्कृष्ट मननशील है। हे (विश्व-मित्राः) समस्त प्राणियों को स्नेह करने वाले सज्जन पुरुषो ! आप लोग (तम् अर्चन्त) उसकी अर्चना करो, उसके गुणानुवाद करो। (नः) हम सबका (यमः) नियन्ता यम वही है, जो हमें (जीवसे) जीवन भर (प्रतरम्) बड़ी ही उत्तम रीति से (धात्) पालन पोषण करता है।
आ रोहंत दिवमुत्तमामृषयो मा विभीतन।

सोमपाः सोमपायिन इदं वः क्रियते हविरगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ ६४ ॥

भा०—हे (ऋषयः) ऋषियो, वेद के मन्त्रों का साक्षात् करने हारे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (उत्तमाम्) सबसे उत्तम (दिवम्) प्रकाशमय तेजोमय भूमि को या सूर्य के समान प्रकाशमान द्यौः=मोक्ष पदवी को (आरोहत) प्राप्त करो। हे (सोमपाः) सोम रस, ब्रह्मानन्द रस का पान करने हारे योगिजनो ! और हे (सोमपायिनः) अर्षों को उस सर्वप्रेरक, सर्व जगत् के उत्पादक परमेश्वर के आनन्द रसको पान कराने हारे पुरुषो ! (वः) आप लोगों के लिये (इदम्) यह इस प्रकार का (हविः) ज्ञानमय अन्न, (क्रियते) तैयार किया जाता है। जिससे हम भी (उत्तमम्) सर्वोत्कृष्ट (ज्योतिः) ज्योति, परम प्रकाश परमेश्वर को (अगन्म) प्राप्त हों।

प्र केतुना बृहता भात्यग्निरा रोदसी वृषभो रौरवीति।

द्विवश्चिदन्तादुपमामुदानुपामुपस्थे महिपो ववर्ध ॥ ६५ ॥

ऋ० १०। ८। १ ॥ साम० १। ७१ ॥

भा०—(अग्निः) ज्ञानमय सूर्य के समान, सर्वप्रकाशक, सबका

६५—(प्र०) 'यात्यग्निः' इति ऋ० साम०। (तु०) 'अन्तानुपमाम्' इति ऋ०। 'अन्तादुपमाम्' इति तै० आ०। अन्तामिति क्वचित्।

ब्रह्मी, परमेश्वर (बृहता केतुना) बड़े भारी ज्ञान से (प्र भाति) प्रकाशित है । (रोदसी) और आकाश और पृथिवी भरको वह (वृषभः) सब सुखों का वर्षक मेव के समान प्रजापति (आ रोदसीति) अपनी गर्जना से प्रतिध्वनित करता है । वह (दिवः) घौं, महान् आकाश के (अन्तात्) परले सिरे से (उपमान्) मेरे तक या आकाश के परले से परले सिरे तक के (उपमान्) जगत् के निर्माण करने वाली व्यापक शक्ति को (एत् आन्त्) व्याप रहा है । वही (महिपः) महान् शक्तिमान्, सर्वव्यापक (अपान्) समस्त 'आपः' मूल प्रकृति के परमाणुओं, ढोँधों और प्रजाओं के (उपस्थे) भीतर भा (ववर्थ) व्यापक है ।

नाके सुपर्णमुप यत् पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यव्रजत त्वा ।

हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनीं शकुनं भुरण्युम् ॥ ६६ ॥

ऋ० १० । १२३ ६ ॥ साम० १ । ३२० ॥

भा०—हे आत्मन् ! (यत्) जब (हृदा वेनन्तः) हृदय से कामना करते हुए, विद्वान् मेधावी ऋषि लोग (नाके) परम आनन्दमय मोक्षधाम में (उपपतन्तः) गमन करते हुए (त्वा) तेरा (अमि अचक्षत) साक्षात् दर्शन करते हैं तब वे तुझको (हिरण्यपक्षम्) अनिरमणीय, तेजोमय स्वरूप को ग्रहण करने वाला (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ, सबके लिये वरणीय परमेश्वर का (दूतम्) दूत और (यमस्य) सर्वनियन्ता के (योनीं) परमधाम में विद्यमान और (शकुन्म्) अति शक्तिमान् (भुरण्युम्) सबके मरण पोषण करने वाले तेरा हां साक्षात् करते हैं ।

इन्द्रं कर्तुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।

६६—'भुरण्युम्' इति क्वचिद् । ऋग्वेदेऽसावेन ऋषिर्वेनो देवता ।

शिक्षां णो अस्मिन् पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥६७॥

ऋ० ७।३२।२६ ॥ साम० १।१५६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र, परमेश्वर! (यथा) जिस प्रकार (पिता) पालक पिता (पुत्रेभ्यः) पुत्रों को धनैश्वर्य और ज्ञान प्रदान करता है उसी प्रकार तू (नः) हमें (क्रतुम्) कर्म, कर्मफल और ज्ञान (आभर) प्राप्त करा। हे पुरुहूत ! समस्त मनुष्यों से पुकारे गये (नः) हमें (शिक्ष) शिक्षा दो। (अस्मिन्) इस (यामनि) व्यवस्थित संसार में (जीवाः) हम जीवित रह कर (ज्योतिः अशीमहि) परम ज्योति का भोग करें।

अपूपापिहितान् कुम्भान् यांस्ते देवा अधारयन् ।

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ ६८ ॥

अथर्व० १८।४।२५ ॥

भा०—हे पुरुष ! (ते) वे नाना (देवाः) देव, दिव्य पदार्थ, पञ्चभूत, सूर्य, चन्द्र, मेघ आदि नैसर्गिक शक्तिमान् पदार्थ या स्वयं प्राणगण (यान्) जिन (कुम्भान्) रस को गुप्तरूप से धारण करने हारे कलशों के समान रसपात्रों को (अपूप-अपिहितान्) अपूप=इन्द्रिय और तद् ग्राह्य विषयों से आच्छादित रूप से (अधारयन्) धारण करते हैं (ते ते) वे वे, नाना प्रकार के रसपूर्ण कलश (स्वधावन्तः) स्व=आत्मा के अपने धारण सामर्थ्य या शक्ति से युक्त (मधुमन्तः) मधु के समान मधुर आनन्द से युक्त और (घृतश्चुतः) घृत के समान पुष्टिकर और तेज को प्रदान करने वाले (सन्तु) हों।

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः ।

तास्ते सन्तु विन्धीः प्रन्धीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम् ॥६९॥

अथर्व० १८।४।२६ ॥ १८।४।४३ ॥

अग्नि के समान हा मस्म कर डाल, जिनसे फिर कर्मबीज अंकुरित न हो । और (एनम्) इस पुरुष को (सुकृताम्) पुण्यकारी पुरुषों के (लोके) लोक में ही (धेहि) रख । लौकिक रीति से शवदहन इसी मन्त्र के आधार पर है ।

ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये ।

तेभ्यो घृतस्य कुल्यै/तु शतधारा व्युन्दती ॥ ७२ ॥

भा०—(ये ते) वे जो (पूर्वे) पूर्व पुरुष लोग (परागताः) हमसे परे चले गये हैं, बिछुड़ गये हैं और (ये) जो अपने दूसरे (पितरश्च) पालक पिता के समान पूजनाय पुरुष विद्यमान भी हैं (तेभ्यः) उन सबके लिये (घृतस्य कुल्या) घृत के समान पुष्टिकारक अन्न और आनन्द रस को नहर (शतधारा) सैकड़ों धारा होकर (व्युन्दती) नाना प्रकार से आर्द्र करती हुई (एतु) प्राप्त हो ।

एतदा रोह वयं उन्मृजानः स्वा इह वृहदु दीदयन्ते ।

अभि प्रेहि मध्यतो माप हास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र ॥ ७३ ॥ (१६)

भा०—हे पुरुष ! (उन्मृजानः) तू ऊर्ध्व गति करता हुआ, (एतद् वयः) इस आयु का (आ रोह) प्राप्त कर । (इह) इस लोक में (स्वाः) तेरे अपने बन्धुजन (वृहत्) बहुत अच्छी प्रकार (दीदयन्ते) प्रकाशित हो रहे हैं । तू उनके (मध्यतः) बीच में से (अभि प्रेहि) उनके सामने ही प्रयाण कर । (पितृणां लोकं) पालक पिता पितामह आदि के उस लोक को (मा अप हास्थाः) परित्याग मत कर (यः) जो (अत्र) इस लोक में (प्रथमः) सबसे प्रथम, सर्व श्रेष्ठ है ।

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

[४] देवयान और पितृयाण ।

अर्वा ऋषिः । यमः, मन्त्रोक्ताः बहवश्च देवताः (८१ पितरो देवताः ८८
 अग्निः, ८९ चन्द्रमाः) १, ४, ७, १४, ३६, ६०, भुरिजः, २, ५, ११, २६, ५०,
 ५१, ५८ जगत्यः । ३ पञ्चपदा भुरिगतिजगती, ६, ६, १३, पञ्चपदा राक्वरी
 (६ भुरिक्, १३ च्यवसाना), ८ पञ्चपदा वृहती, (२६ विराट्) २७
 याज्ञुषी गायत्री [२५], ३१, ३२, ३८, ४१, ४२, ५५-५७, ५९, ६१ अनुष्टुप्
 (५६ ककुम्भती । ३६, ६२, ६३ आस्तारपंक्तिः (३६ पुरोविराट्, ६२ भुरिक्,
 ६३ त्वराट्), ६७ द्विपदा आर्ची अनुष्टुप्, ६८, ७१ आसुरी अनुष्टुप्, ७२,
 ७४, ७६ आसुरीपंक्तिः, ७५ आसुरीगायत्री, ७६ आसुरीजम्बिक्, ७७ दैवी
 जगती, ७८ आसुरीत्रिष्टुप्, ८० आसुरी जगती, ८१ प्राजापत्यानुष्टुप्, ८२
 सान्नी वृहती, ८३, ८४ सान्नीत्रिष्टुप्, ८५ आसुरी वृहती, (६७-६८, ७१-
 (८६ एकावसाना), ८६, ८७, चतुष्पदा जम्बिक् (८६ ककुम्भती, ८७
 शंकुमती), ८८ च्यवसाना पथ्यापंक्तिः, ८९ पञ्चपदा पथ्यापंक्तिः, शेषा
 त्रिष्टुमः । एकोननवत्युच्चं सूक्तम् ॥

आ रोहत्त जानित्रीं जातवेदसः पितृयाणैः सं व आ रोहयामि ।
 अवाद्भुव्येपितो हव्यवाह ईजानं युक्ताः सुकृतां धत्त लोके ॥१॥

भा०—हे (जातवेदसः) ज्ञान प्राप्त किये हुए, ब्रह्मज्ञानी विद्वानो !
 आप लोग (पितृयाणैः) पिता, प्रजापति के योग्य मागों से (जानित्रीम्)
 प्रजा के उत्पन्न करने वाली उस परमेश्वरी जगद्गवा शक्ति को (आरोहत्त)
 प्राप्त करो । मैं (वः) आप लोगों को (आ रोहयामि) उस तक पहुँचाता
 हूँ । उसका उपदेश करता हूँ । हे (हव्यवाहः) हव्यों, ज्ञानों को बहन
 करने हारे विद्वानो ! (ईपितः) कामना से प्रेरित पुरुष आत्मा (हव्या)
 स्तुतियों से (अयाट्) उस परमेश्वर की ही पूजा करता है । आप लग

(तु०) '—व्येपिता' इति सायणाभिमत पाठः ।

(ईजानम्) देवोपासना करने हारे आत्मा को : (युक्ताः) समाहित, एकाग्रचित्त होकर (सुकृतां लोके) पुण्याचरण करने वाले पुरुषों के लोक में (घत्त) रखो ।

देवा यज्ञमृतवः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशं स्रुचो यज्ञायुधानि ।

तेभिर्याहि पथिभिर्देवयानैर्यैरीजानाः स्वर्गं यन्ति लोकम् ॥ २ ॥

भा०—(देवाः) देव, विद्वान् पुरुष और राजागण भी और (ऋतवः) ऋतुएं, प्राण और होतागण, दिशाएं आदि (यज्ञम्) यज्ञ (कल्पयन्ति) करते हैं । उसमें (हविः) हवि=भन्न (पुरोडाशम्) 'पुरोडाश' है और (स्रुचः) आहुति देने के चमस, स्रुवे और प्राण और ये लोक (यज्ञायुधानि) यज्ञ करने के आयुध हथियार या उपकरण के समान हैं । (तेभिः) उनसे (देवयानैः) देवों के गमन करने योग्य (पथिभिः) मार्गों से (ईजानाः) यज्ञद्वारा देव उपासना करने वाले लोग (स्वर्गं लोकम्) स्वर्ग, सुखमय लोक को (यन्ति) प्राप्त होते हैं ।

ऋतवः होत्राशंसिनः । कौ० २१।८॥ ऋतवो वा होत्राः । गो० ३।६॥ सदस्याऋतवोऽभवन् । तै० २।१२॥ दिशः । गो० ७० ६।१२॥ पञ्च हि ऋतवः । तां० १२।४।८॥ त्रयो वा । श० ३।०।७।१०॥ याः पद् विभूतयः ऋतवस्ते । जै० ३।१।२।१।१॥ यानि भूतानि ऋतवस्ते । श० ६।१।३।८॥ पुरोडाशः । सः कूर्मरूपेणाच्छन्नः पुरोडाशः । स वा पुभ्यः तत्पुरादशयत् । श० १।६।२।५॥ पुगे वा एतान् देवाः अक्रत । ऐ० २ । २३ ॥ आत्मा वै यजमानस्य पुरोडाशाः । कौ० १३।४।६॥ मस्तिष्को वै पुरोडाशः । है० ३।२।२।७ ॥ पुरोडाश शब्द से ब्रह्माण्ड, आत्मा मस्तिष्क और हवि आदि लिये जाते हैं ।

स्रुचः—इमे वै लोकाः स्रुचः । तै० ३।३।१।२॥ प्राणो वै स्रुचः । है० ३।२।१।५॥ आधिदैविक, आधिआत्मिक आदि भेद से इनकी योजना कर लेनी चाहिये ।

ऋतस्य पन्थामनुं पश्य साध्वङ्गिरसः सुकृतो येन यन्ति ।

तेभिर्व्याहि पथिभिः स्वर्गं यत्रादित्या मधुं भक्षयन्ति

तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ३ ॥

भा०—(ऋतस्य) सत्यन्वरूप यज्ञ, प्रजापति के ऋष (पन्थाम्) मार्ग को (साधु) भली प्रकार (अनुपश्य) साक्षात् कर (येन) जिससे (सुकृतः) उत्तम रूपसे योगादि कर्म को करने हारे (अंगिरसः) ज्ञानी पुरुष (यन्ति) जाते हैं । (तेभिः) उन (पथिभिः) मार्गों से हे पुरुष ! तू (स्वर्गम्) सुखमय ऋष स्वर्ग लोक को (व्याहि) प्राप्त हो (यत्र) जहां (आदित्याः) अदिति, अन्नगृह ब्रह्मके पुत्र रूप परम योगी आदित्य के समान तेजस्वी पुरुष (मधु) ब्रह्ममय, अमृत, अमय, आनन्द का (भक्षयन्ति) भोग करते हैं । हे पुरुष ! तू (तृतीये) ऋष तीर्णतम, सवसे उत्कृष्ट सर्वोच्च (नाके) सर्व दुःखरहित, निःश्रेयस पद में (अधि वि श्रयस्व) अपने आपको प्रतिष्ठित कर ।

त्रयः सुपर्णा उपरस्य मायू नाकस्य पृष्टे अधि विष्टपि श्रिताः ।

स्वर्गा लोका अमृतेन विष्टा इपमूर्जं यजमानाय दुहाम् ॥ ४ ॥

भा०—(त्रयः) तीन (सुपर्णाः) सुरर्णां, अग्नि, सूर्य और सोम, उत्तम पालन शक्ति से युक्त (उपरस्य) उपर=ठपल, मेव के (मायू) गध या गर्जना कराने वाले वे (नाकस्य पृष्टे) स्वर्ग के स्थान पर (अधि विष्टपि) सूर्य में (श्रिताः) आश्रित हैं । (स्वर्गाः लोकाः) सुखमय लोक सब (अमृतेन) अमृत, जल से (विष्टाः) व्याप्त हैं । वे (यजमानाय) यज्ञ करने वाले पुरुष के लिये (इपमूर्जं) अन्न और उत्तम रस का (दुहाम्) प्रदान करते हैं ।

जुह्वदीधारं द्यामुपभृन्तरिक्तं ध्रुवा दीधारं पृथिवीं प्रतिष्ठाम् ।

प्रतीमां लोका घृतपृष्ठाः स्वर्गाः कामकामं यजमानाय जुह्वाम् ॥५॥

भा०—विराट् यज्ञ का वर्णन करते हैं—(जुहुः) परमेश्वर के विशाल आदान करने वाली वशकारिणी शक्ति (घान्) घौः महान् आकाश जिसमें सनस्त सूर्य और नक्षत्र विद्यमान हैं उसको (दाधार) धारण करती है । (उपनृत्) सनस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाली महान् परमेश्वरी शक्ति (अन्तरिक्षन्) अन्तरिक्ष, जिसमें वायु और मेघ विद्यमान हैं उसको धारण करती है । (ध्रुवा) परमात्मा की ध्रुवा, स्थिर करने वाली अचल शक्ति (प्रतिष्ठान्) सब प्राणियों को अपने भीतर स्थित करने वाली (पृथिवीन्) पृथिवी को (दाधार) धारण करती है । (इमान् प्रति) इस पृथिवी के प्रति (घृतपृष्ठाः) घृत=घृत के समान पुष्टिकारक पदार्थ और जल से पूर्ण तल वाले (स्वर्गः) सुकमय लोक या प्रदेश (यजमानाय) यजमान, देवोपासक के लिये (कामं कामन्) उच्छकी प्रत्येक कामना को (जुह्वाम्) पूर्ण करते हैं ।

ध्रुव आ रोह पृथिवी विश्वभोजसमन्तरिक्षमुपभृदा क्रमस्व ।
जुहु घां गच्छ यजमानेन साकं स्रुवेण वत्सेन दिशः प्रपीत्ताः
सर्वा ध्रुवाहणीयमानः ॥ ६ ॥

भा०—हे (ध्रुवे) ध्रुवे ! अचलशक्ते ! (विश्वभोजसन्) सनस्त भोज्य पदार्थ के आश्रयभूत (पृथिवीन्) ; इस पृथिवी पर तू (आरोह) अधिष्ठाता होकर रह । हे (उपनृत्) सनस्त प्राणियों को भरण पोषण करने वाली शक्ते ! तू (अन्तरिक्षन्) अन्तरिक्ष लोकमें (आक्रमस्व) आ, सदा विद्यमान रह । हे (जुहु) भूमि से जल आदि

५—(वृ०) 'प्रतिमाद्' इति प्रायः पदपाठः । 'प्रति । इमान्' इति सायणामिमतः । 'प्रतिमाद्' इति क्वचिद् पाठः । 'प्रति । माद्' इति द्विटनिः ।

लेने और उस पर बरसाने वाली शक्ति ! तू (यज्ञमानेन साकम्) यज्ञ-
मान, ईश्वर की यज्ञ द्वारा उपासना करने हारे पुरुष के साथ (चान्-
गच्छ) चौथोक, नूर्य में विद्यमान रह । (वत्सेन) बड़ड़े के समान
दिशाओं के वायव्य में रहने वाले (तुवेण) निरन्तर गतिशील वायु से
(दिशाः) समस्त दिशाएँ (प्रयीनाः) पूरी तरह से हृष्ट पुष्ट, दुग्धपूर्ण
गौओं के समान मरी पूरी हैं । बड़ड़े को देखकर जैसे गौएँ अपना दूध
प्रेम से बहाती हैं वही प्रकार वायु के द्वारा दिशाएँ भी अपना रस
पृथ्वी पर बरसाती हैं । हे पुरुष ! तू (सर्वाः) उन सबको (महणी-
यमानः) बिना किसी लज्जा और संकोच के (शुद्ध) दोहन कर ।

तीर्थैस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति ।

अत्राद्युर्यजमानाय लोकं दिशो भूतानि यदकल्पयन्त ॥ ७ ॥

भा०—जिस प्रकार (तीर्थैः) तरण करने के साधन नाव आदि
से (नदीः) बड़ी (प्रवतः) वेगवान् नदियाँ तरी जाती हैं वही प्रकार
(तीर्थैः) भवसागर से पार उतरने के साधनमृत बध्यात्म यज्ञ,
उप आदि तीर्थों और उपस्वी आदि जंगम तीर्थों द्वारा (नदीः प्रवतः)
बड़ी २ भारी विपत्तियों को भी (तरन्ति) लोग तैर जाते हैं । (इति)
इस प्रयोजन से (येन) जिस मार्ग से (सुकृतः) उत्तम कर्म करने हारे
पुण्यात्मा और (यज्ञकृतः) ईश्वरोपासना करने वाले प्रदानशील पुरुष
(यन्ति) गमन करते हैं (अत्र) वही मार्ग में रहकर वे (दिशाः)
दिशा और (भूतानि) उपपन्नशील प्राणी (यत्) जो २ भी (अकल्प-
यन्त) बनाये हैं वे (यज्ञमानाय) परमेश्वर के उपासक यज्ञशील
पुरुष के लिये (लोकम्) लोक, स्थान को (अद्युः) बनाते हैं । पुण्या-
त्माओं के मार्गगामी ईश्वरोपासक को समस्त प्राणी और दिशाएँ आश्रय
देते हैं । यज्ञों को कच्चा तरण साधन अर्थात् निर्बल जहाज़ माना गया
है, जैसे—

हुवा होते अद्भुत यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । उप० ॥

इदं साधनं तो ब्रह्मज्ञान के साधन ही हैं ।

त्रिणाचकतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत् तरति जन्ममृत्यू ॥ कठ उ० १।१॥

अङ्गिरसामयनं पूर्वा अग्निरादित्यानामयनं

गार्हपत्यो दक्षिणानामयनं दक्षिणाग्निः ।

महिमानमग्नेर्विहितस्य ब्रह्मणा समङ्गः सर्वं उपयाहि शग्मः ॥ ८ ॥

भा०—(अङ्गिरसाम्) ज्ञानी पुरुषों का (अयनम्) गमन या परम चरम उद्देश्यरूप आश्रय (पूर्वः अग्निः) वह पूर्व दिशा से निकलने वाले सूर्य के समान सबसे पूर्व विद्यमान, आदि मूल, सबका प्रवर्तक नेता परमेश्वर है । (आदित्यानाम्) आदित्य के समान सब के पालक पोषक प्रजापतियों का (अयनम्) आश्रयस्थान (गार्हपत्यः) गार्हपत्य, गृहपति के समान होकर रहनेहारा प्रजापति है । और (दक्षिणानाम्) बलवान् पुरुषों का आश्रय वह (दक्षिणाग्निः) दक्षिणाग्नि अर्थात् क्रिया-शक्ति प्रदान करने वाला वही परमेश्वर है । हे पुरुष (विहितस्य) नाना प्रकार से वर्तमान या व्यापक (अग्नेः) उस सर्वप्रकाशक, सर्वप्रवर्तक परमेश्वर के (महिमानम्) महिमा, महत्त्व को तू (ब्रह्मणा) ब्रह्म, वेद से (सम्-अङ्गः) भली प्रकार ज्ञानवान् (सर्वः) सब प्रकार से पूर्ण और (शग्मः) शक्तिमान् होकर (उपयाहि) प्राप्त कर, जान, उस तक पहुँच ।

पूर्वा अग्निष्वा तपतु शं पुरस्ताच्छं पश्चात् तपतु गार्हपत्यः ।

दक्षिणाग्निष्टं तपतु शर्म चर्मोत्तरतो मध्यतो अन्तरिक्षाद्

दिशोदिशो अग्ने परि पाहि घोरात् ॥ ६ ॥

भा०—हे पुरुष ! (त्वा) तुझको (पूर्वः अग्निः) सबसे पूर्व और सबसे पूर्ण (अग्निः) ज्ञानी, अग्रणी, प्रवर्तक परमेश्वर (पुरस्तात्) तेरे

भाग (शं) तेरे कल्याण और शान्ति प्रदान करने के लिये (तपतु) प्रकाशित हो । और (पश्चात्) पीछे से (गार्हपत्यः) गृहपति के समान प्रजापति परमेश्वर (तपतु) सन्तुष्ट हो, प्रदीप्त हो । (दक्षिणान्तिः) बलप्रदाता परमेश्वर (ते) तुझे (शर्म) सुख और (वर्म) कवच के समान रक्षक होकर (तपतु) तपे । हे (अग्ने) अग्ने ! परमेश्वर ! तू (उत्तरतः ' उत्तर से, बहुत ऊपर से (मध्यतः) बीच से (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष से और (दिशः दिशः) प्रत्येक दिशा से आने वाले (वीरात्) घोर, कष्टदायी आक्रमण से (परि पाहि) रक्षा कर ।

यूयर्मन्ते शतमाभिस्तून्भिरीजानमभि लोकं स्वर्गम् ।

अश्वां भूत्वा पृष्टिवाहो वहाथ यत्र देवैः सधमादं मदन्ति ॥१०॥ (२०)

भा०—हे अग्ने ! परमेश्वर और उसकी प्रेरित नाना शक्तियो ! (यूयम्) तुम सब अपने (शतमाभिः) अत्यन्त कल्याणकारी (तनूभिः) स्वरूपों से (पृष्टिवाहः अश्वाः) पीठ पर लाद कर चलने वाले घोड़ों के समान (अश्वाः) व्यापक शक्ति (भूत्वा) होकर (ईजानम्) यज्ञ, दानशील, ईश्वर उपासक और दिव्यशक्ति, विद्युत्, जलवायु के साधक विज्ञानवान् पुरुष को (स्वर्गं लोकम् अभि) उस सुखमय लोक में (वहाथ) लेजाते हो (यत्र) जहां मुक्त आत्मा लोग (देवैः) देवों के साथ (सधमादं मदन्ति) आनन्द प्रसन्न रहते हुए उनके सुखका भोग करते हैं ।

शर्मन्ते पश्चात् तप शं पुरस्ताच्छमुत्तराच्छर्मधरात् तपैनम् ।

एकस्त्रेधा विहितो जातवेदः सम्यगेनं धेहि सुहृतांमु लोके ॥११॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! परमेश्वर ! तू (पश्चात्) पीछे से (शं) कल्याणरूप होकर (तप) तप हो और आत्मा को तपा, परिष्कार कर, (पुरस्तात् शं तप) भागे से भी कल्याणकारी होकर तपा;

(उत्तरात् शम्) उत्तर, ऊपर से भी कल्याणकारी होकर तपा । और (पुनम्) इस आत्मा को (अधरात् शं तप) नीचे से भी कल्याणकारी होकर तपा । हे (जातवेदः) सर्वज्ञ, सब पदार्थ के उत्पादक प्रभो ! बाप (एकः) एक हैं और तो भी (त्रेधा) तीन रूप, तीन अग्नियों के रूप में (विहितः) विशेष रूप से बतलाये जाते हो । बाप (पुनं) इस आत्मा को (सुकृताम्) उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्माओं के (लोके) लोक में (सम्यग्) भली प्रकार (धेहि) स्थापित करो ।

शमग्नयः समिद्धा आ रमन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः ।

शृतं कृण्वन्त इह माव चिक्षिपन् ॥ १२ ॥

भा०—(समिद्धाः) तूव प्रदीप्त (अग्नयः) ज्ञानी जन (जातवेदसः) अकृष्ट ज्ञानवान् होकर (प्राजापत्यं) प्रजापति परमेश्वर सम्बन्धी (मेध्यं) पवित्र यज्ञ कार्य को (आ रमन्ताम्) प्रारम्भ करें । बाप लोग इस आत्मा को भी (शृतं कृण्वन्तः) पक करते हुए (इह) इस मर्त्यलोक में (मा भव चिक्षिपन्) न गिरने दें, अधःपतित न होने दें ।

यज्ञ एति विततः कल्पमान ईजानसभि लोकं स्वर्गम् ।

तमग्नयः सर्वहुतं जुपन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः ।

शृतं कृण्वन्त इह माव चिक्षिपन् ॥ १३ ॥

भा०—(स्वर्गं लोकं भनि) स्वर्ग-सुखमय लोक को उद्देश्य करके (ईजानम्) यज्ञ करने वाले देव-उपासक पुरुष को स्वयं (यज्ञः) यज्ञ, यज्ञमय प्रजापति, परमात्मा (कल्पमानः) सब प्रकार से समर्थ होकर (विततः) विस्तृतरूप में या व्यापकरूप में (एति) प्राप्त होता है । (तम्) उस (सर्वहुतम्) सर्वत्व को ईश्वर के निमित्त समर्पण कर देने वाले पुरुष को (अग्नयः) प्रकाशवान् (जातवेदसः) ज्ञानी पुरुष भी (प्राजापत्यं मेध्यम्) प्रजापति स्वरूप, पूजनीय जानकर (जुपन्ताम्)

प्राप्त होते हैं । वे उसको (अतं कृण्वन्तः) परिपक्व तपोनिष्ठ करते हुए (इह) इस संसार में (मा अव चिक्षिपन्) कभी नीचा न गिरने दें ।

ईजानश्चित्तमारुन्नाग्निं नाकस्य पृष्ठाद् दिवमुत्पतिष्यन् ।

तस्मै प्र भाति नभसो ज्योतिर्पीमान्स्वर्गः पन्थाः सुकृते देवयानः १५

भा०—(ईजानः) यज्ञशील, देव का उपासक जन (नाकस्य पृष्ठाद्) सुखमय लोक में (दिवम्) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर के प्रति (उत्पतिष्यन्) ऊपर उठने की अभिलाषा करता हुआ (चिनन्) चित्स्वरूप (अग्निम्) ज्ञानमय परमेश्वर का (आरुन्नात्) आश्रय लेता है । (तस्मै) उसके लिये ही (नभसः) आकाश के बीच (ज्योतिर्पीमान्) ज्योतिर्मय, सूर्य के समान अति ही प्रमेश्वर (नभसः) प्रकाश रहित अन्धकार के बीच में (प्र भाति) प्रकाशित होता है । यही वास्तव में (स्वर्गः) सुख से गमन करने योग्य (देवयानः पन्थाः) देवयान मार्ग (सुकृते) उत्तम काम करने हारे के लिये प्राप्त होता है ।

अग्निर्होताध्वर्युष्टे बृहस्पतिरिन्द्रो ब्रह्मा दक्षिणतस्ते अस्तु ।

हुतोयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वमयनं हुतानाम् ॥ १५ ॥

भा०—हे पुरुष (ते) तेरे यज्ञका (होता) होता, (अग्निः) अग्नि, ज्ञानवान् परमेश्वर ही है और वही (बृहस्पतिः) समस्त वेद-वाणी का स्वामी परमेश्वर (ते अध्वर्युः) तेरा अध्वर्यु अर्थात् रक्षक है । और (इन्द्रः) वही ऐश्वर्यवान्, इन्द्र, परमेश्वर (ते ब्रह्मा) तेरे यज्ञ का ब्रह्मा (ते) तेरे (दक्षिणतः) दक्षिण भाग में, दाईं ओर (अस्तु) सदा विद्यमान रहे । हे पुरुष (अयम्) यह तेरा देह (हुतः) अग्नि में आहुति कर दिया जाता है और तभी (यज्ञः संस्थितः) यह जीवनमय यज्ञ समाप्त हो जाता है । अथवा (संस्थितः) जीवन समाप्त करके मृत हुआ

(अयं) यह देह (हुतः) अग्नि में आहुति कर दिया जाता है और (यज्ञः) यज्ञ रूप आत्मा उस स्थान पर (एति) चलाजाता है (यत्र) जहां (पूर्वं हुतानाम्) पूर्व आहुति किये आत्माओं का (अयनम्) आश्रय लोक है ।

अपूपवान् क्षीरवांश्चरुरेह सीदतु लोककृतः पथिकृतो यजामहे
 ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ १६ ॥ अपूपवान् दधिवांश्चरुरेह
 ० । ० ॥ १७ ॥ अपूपवान् द्रप्सवांश्चरुरेह ० । ० ॥ १८ ॥ अपूपवान्
 घृतवांश्चरुरेह ० । ० ॥ १९ ॥ अपूपवान् मांसवांश्चरुरेह ० । ०
 ॥ २० ॥ (२१) अपूपवान्नवांश्चरुरेह ० । ० ॥ २१ ॥ अपूप-
 पवान् मधुमांश्चरुरेह ० । ० ॥ २२ ॥ अपूपवान् रसवांश्चरुरेह
 ० । ० ॥ २३ ॥ अपूपवानपवांश्चरुरेह सीदतु । लोककृतः
 पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २४ ॥

भा०—(इह) यहां, इस लोक में (अपूपवान्) अपूप और (क्षीरवान्) क्षीर से युक्त (चरुः) भोग्य द्रव्य, अन्न, भात आदि (आ सीदतु) रक्खा जावे । (देवानां) देवों के निमित्त (ये) जो लोग (हुतभागः) उनके प्राप्त होने योग्य भोग्य अंशों का प्रदान करते (स्थ) हैं उन (लोककृतः) लोक-व्यवस्थापक पुरुषों और (पथिकृतः) मार्ग निर्माण करने वाले उपकारी पुरुषों को (यजामहे) हम उक्त पदार्थ प्रदान करें । ॥ १६ ॥ (अपूपवान् दधिवान् चरुः इह आसीदतु) इस लोक में अपूप और दधिवाला चरु अन्न द्रव्य रक्खा जाय इत्यादि पूर्ववत् ॥ १७ ॥ (अपूपवान्, द्रप्सवान् चरुः इत्यादि) अपूप और रस वाला चरु यहां रक्खा जाय इत्यादि पूर्ववत् ॥ १८ ॥ (अपूपवान्

घृतवान्० इत्यादि) अपूप और घृत से युक्त चरु यहां रक्ता जाय इत्यादि पूर्ववत् ॥ १९ ॥ (अपूपवान् मांसवान् चरुः० इत्यादि) अपूपवाला और मांस=गूदेवाला चरु यहां रक्ता जाय इत्यादि पूर्ववत् ॥ २० ॥ (अपूपवान् अन्नवान् चरुः० इत्यादि) अपूप और अन्न से युक्त चरु यहां रक्ता जाय, इत्यादि पूर्ववत् ॥ २१ ॥ (अपूपवान् मधुनान् चरुः० इत्यादि) अपूप और मधु से युक्त चरु यहां रक्ता जाय, इत्यादि पूर्ववत् ॥ २२ ॥ (अपूपवान् रसवान् चरुः० इत्यादि) अपूप और रसवाला चरु इत्यादि पूर्ववत् ॥ २३ ॥ (अपूपवान् अपवान् चरुः० इत्यादि) अपूप और अपः से युक्त चरु यहां रक्ता जाय इत्यादि पूर्ववत् ॥ २४ ॥

क्षीर, दधि, द्रप्स, घृत, मांस, अन्न, मधु, रस, आपः, इन नौ पदार्थों का और अपूप और चरु का विवरण तिग्गलित्विज जानना चाहिये ।

(१) क्षीरं, पयः । यत् पयस्तद्रेतः । गो० ३० २ । ६ ॥ अग्निः तां गां सन्धमूव तस्यां गवि रेतः प्रासिञ्चत् तत् पयोऽभवत् । श० २ । २ । ४ । १५ ॥ क्षत्रं वै पयः । श० २२ । ७ । ३ । ८ ॥ प्राणः पयः । श० ५ । ५ । ४ । १५ ॥ अपानेय ओषधीनां रसो यत्पयः । कौ० २ । १ ॥ पयो वा ओषधयः । है० ३ । ७ । १५ ॥ सोमः पयः । श० १२ । ७ । ३ । १३ ॥

(२) दधि—इन्द्रो यदन्नवीत् धिनोति मेति तस्माद् दधि । श० १ । ६ । ४ । ८ ॥ ऐन्द्रं वै दधि । श० ७ । ४ । १ । ४२ । इन्द्रियं वै दधि । तै० २ । १ । ५ । ६ ॥ दधि हँवास्य लोकस्य रूपम् । श० ७ । ५ । १ । ३ ॥ ऊर्वा अन्नाद्यं दधि । तै० २ । ७ । २ । २ ॥ सोमो वै दधि । कौ० ८ । ९ ॥

(३) द्रप्सः—असौ आदित्यो वा द्रप्सः । श० ७ । ४ । १ । २० ॥ स्तोत्रो वै द्रप्सः । जो० २ । १२ ॥

(४) घृतम्—अन्नस्य घृतमेव रसस्तेजः । मं० २ । ६ । १५ ॥

देवव्रतं वै घृतम् । तां० १८ । २ । ६ ॥ रेतः सिक्त्वि वै घृतम् । कौ० १६ ।
५ ॥ ह्रस्वं घृतम् । श० ६ । ६ । २ । १५ ॥ घृतमन्तरिक्षस्य रूपम्
श० ७ । ५ । १ । ३ ॥

(५) मांसं वै पुरीषम् । श० ८ । ६ । २ । १४ ॥ मांसं सादनं ।
श० ८ । १ । ४ । ५ ॥ एतद् ह वै परममन्नाद्यं यन्मांसम् । श० ११ । ७
। १ । ३ ॥ अन्नम् उ पशोर्मांसम् । श० ७ । ५ । २ । ४२ ॥

(६) रसः—रसो वै मधु । श० ६ । ४ । ३ । २ ॥ रसो वा
आपः । श० ३ । ३ । १८ ॥

(७) अन्नं—अर्को वै देवानामन्नं । श० १२ । ८ । १ । २ ॥
अन्नं वै देवा अर्कं इति वदन्ति । ता० १५ । ३ । २३ ॥ शान्तिर्वा अन्नम् ।
ऐ० ५ । २७ ॥ अन्नं प्राणमन्नमपानमाहुः अन्नं मृत्युं तमु जीवातु-
माहुः । अन्नं ब्रह्माणां जरसं वदन्ति अन्नमाहुः प्रजननं प्रजानाम् । तै०
२ । ८ । ८ । ३ ॥ अन्नं पशवः । ऐ० ५ । १९ ॥ अन्नमु श्रीः । श० ८ ।
६ । २ । १ ॥ अन्नमु चन्द्रमाः । तै० ३ । २ । ३४ ॥ अन्नं वा अपां पायः
श० ७ । ५ । ३ । ६१ ॥

(८) मधुः—प्राणौ वै मधु । श० १४ । १ । ३ । ३० ॥ ओषधी-
नां वा एष परमो रसो यन्मधु । श० १ । ५ । ४ । १८ ॥ परमं वा एदन्नाद्यं
यन्मधु । तां० १३ । ११ । १७ ॥ महत्यै वा एतद् देवतायै रूपं यन्मधु ।
तै० ३ । ८ । १४ । २ ॥ मधु अमुष्य स्वर्गस्य लोकस्य रूपम् । श०
८० । ५ । १ । ३ ॥ सर्वं वा इदं मधु यदिदं किञ्च । श० ३ । ७ ।
१ । ११ । १४ ॥

(९) अपः—अमृतं च वा आपः । कौ० १२ । १ ॥ शान्तिर्वा
आपः । ऐ० ७ । २ ॥ अद्वा वा आपः । तै० १ । ६ । २ । ४ । १ ॥
आपो वै क्षीर आसन् । तां० १३ । ३ । ८ ॥ अन्नमापः । कौ० १२ ।
३ । ८ ॥ वीर्यं वा आपः । श० २ । ३ । ४ । १ ॥ रेतो वा आपः । ऐ०

१ । ३ ॥ पशवो वा एते यदापः । रो० १ । ८ ॥ आपो वै सर्वे कामाः । श०
१० । ५ । ४ । १५ ॥ आपो वै सर्वे देवाः । श० १० । ५ । ४ । १४ ॥
आपो वरुणस्य पत्न्य कासन् । तै० १ । १ । ३ । ८ ॥ योषा वा आपः ।
श० १ । १ । १ । २८ ॥

(१०) अपूपम्—इन्द्रियमपूपः । पृ० २ । २४ ॥

(११) चरुः—ओदनो हि चरुः । श० ५ । ४ । २ । १ ॥ परमेष्ठो
वा एष यदोदनः । तै० १ । ७ । १० । ६ ॥ प्रजापतिर्वा ओदनः । श०
१३ । ३ । ६ । ७ ॥ रेतो वा ओदनः । श० १२ । १ । १ । ४ ॥ उक्त-
ब्राह्मण प्रोक्त अर्थों के अनुसार मन्त्रों का अर्थ नीचे लिखे अनुसार है ।

(अपूपवान्) इन्द्रिय शक्ति से युक्त (क्षीरवान्) वीर्य या बल मे
युक्त (चरुः) यह प्रजापति आत्मा (इह) इस शरीर में (आर्षादतु)
विराजे । (ये) जो पुरुष (देवानां) विषयों में क्रीड़ा करने और अर्थों के
प्रकाश करने वाली इन्द्रियों के निमित्त (हुतभागाः) सेवन करने योग्य
भोग्य अंशों का आदान प्रदान करते हैं वे (इह) इस लोक में (स्य)
सुखपूर्वक रहें । हम (लोककृतः) जो लोककृत अर्थात् मनुष्यों को उत्पन्न
करने वाले और उनके लिये (पथिकृतः) सम्भारग बनाने वाले हैं उनकी
(यजामहे) उपासना करें या उनके प्रति दान करें ।

इसी प्रकार यह आत्मा इन्द्रिय, ध्यान धारणा शक्ति से युक्त हो ।
वह इन्द्रियां (द्रुप्तवान्) और तेज से युक्त हो । (घृतवान्) वह अन्न
से प्राप्त तेज या वीर्य से युक्त हो वह (मांसवान्) परमश्रेष्ठ मनोहारी
उत्तम अन्नों से युक्त हो । वह (अन्नवान्) अन्नों से युक्त हो, वह
(मधुवान्) मानन्द से युक्त हो, वह (रसवान्) अमृत से युक्त हो,
वह (अपवान्) प्राणों से युक्त हो । इत्यादि शेष पूर्ववत् समान है ।

अपूपापिहितान् कुम्भान् यांस्ते देवा अधारयन् ।

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ २५ ॥

अर्थव० १८। ३। ६८ ॥

भा०—(यान्) जिन (अपूप-अपिहितान्) अपूप इन्द्रिय या आत्मा की विषयग्राहक शक्तियों से ढके हुए, आवृत (कुम्भान्) रस के आश्रय स्थानों को (देवाः) ज्ञान को प्रकाशित करने वाले देवगण, पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश आदि अथवा चक्षु आदि प्राण (अधारयन्) धारण करते हैं (ते) वे (ते) वे, सब (स्वधावन्तः) स्व, अपने आत्मा की धारणा शक्ति से युक्त (मधुमन्तः) मधुर आनन्द से युक्त और (घृतश्चुतः) तेज, प्रकाश और ज्ञान को देने वाले हों ।

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः ।

तास्ते सन्तुद्भ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम् ॥ २६ ॥

अर्थव० १८। ३। ६३ ॥ ६। ४। ४। ३ ॥

भा०—हे पुरुष ! (याः धानाः) जो खीलों या फुल्लियों के समान उजले, प्रकाशवान् दिनों को (तिलमिश्राः) तिल के समान काठी अन्धकार मय रात्रियाँ सहित मिलाकर (स्वधावतीः) उनको 'स्वधा', अन्न से या सूर्य चन्द्र की शक्ति से युक्त करके (अनुकिरामि) तेरी जीवन स्थिति के अनुकूल विस्तृत करता हूँ । (ताः) वे दिन और रात्रियाँ (ते) तेरे लिये (उद्भ्वीः) उत्तम फलों को उत्पन्न करने वाली (प्रभ्वीः) प्रचुर फलजनक (सन्तु) हों । और (यमः) यम, सर्वनियन्ता (राजा) सर्वोपरि विराजमान परमेश्वर (ते) तुझे (ताः) उनको (अनुमन्यताम्) अनुकूल बनावे । अथवा— (या धानाः तिलमिश्राः स्वधावतीः ते अनुकिरामि) जिन स्वयं अपने को धारण करने में समर्थ शक्ति से

१६० (तृ०) 'अम्बीः' इति सायणामिमतः । 'विम्बीः' इति अर्थव०

६। ३। ६३ ॥

सम्पन्न 'धाना' फुल्लियों के समान उज्वल नक्षत्रों को तिल के समान प्रकाशरहित ग्रहों के साथ संसार में फैलाता हूँ । वे हे पुरुष ! तेरे लिये (उद्भृतिः प्रन्वः) उत्तम गतिप्रद और प्रचुर सम्पत्ति जनक हों । (यमः राजा ते अनुमन्यताम्) सर्वान्वियन्ता परमेश्वर तुझ पर सदा अनुग्रह करें ।

(१) धानाः—नक्षत्राणां वा एतद् रूपं यद् धानाः । तै० ३ । ८ । १४ । ५ ॥ अहोरात्राणां वा एतद् रूपं यद् धानाः । श० १३ । २ । १ । ४ ॥ पद्मवां वै धानाः । गो० ३० । ४ । ६ ॥

अथवा—(याः धानाः तिलनित्राः) जो पशु तिल के समान मध्यशरीर वाले अपने दण्डों और (स्वभावतीः) अन्न से सहित तेरे लिये हे पुरुष ! फैलाता हूँ वे (उद्भृतिः प्रन्वीः) उत्तम फलजनक और प्रचुर सम्पत्तिजनक अति अधिक मात्रा में हों । (यमो, राजा) नियन्ता राजा तेरे अनुकूल बना रहे । इसी अर्थ को स्पष्ट करने वाली ऋचाएँ आगे देना ३२, ३३, ३४ ।

अज्ञितिं भूर्यसीम् ॥ २७ ॥

भा०—हे पुरुष ! नियन्ता परमेश्वर की अनुपति मे तू (भूर्यसीम्) बहुत (अज्ञितिम्) कमी क्षय न होने वाली, अज्ञय सम्पत्ति को चिरकाल तक भोग कर । तै० आ० में 'एषा ते यमसादने स्वधा निधीयते गृहे अज्ञिति नाम ते वसो ।' (ते भा० ६ । ७ । २ ॥) गृह में संवित अन्नही अज्ञिति है ।

द्रुप्तश्चस्कन्द पृथिवीमनु द्यासिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः ।

समानं योनिमनुं संवरन्तं द्रुप्तं जुहोम्यनु सत होवाः ॥ २८ ॥

यद्ग० १३ । ५१ ॥ ऋ० १० । १७ । ११ ॥

२८—(प्र०) 'प्रयमानुयुन्' इति ऋ० । (वृ०) 'नृवायं योनिद्' इति तै० सं० तै० आ० ।

भा०—(द्रप्सः) आदित्य, (पृथिवीम् अनु, घाम् अनु) पृथिवीं और यौ=आकाश को (चस्कन्द) व्याप्त करता है अर्थात् वह (इमं योनिम् च) वह इस योनि=लोक को भी और (यः च पूर्वः) जो इस से पूर्व विद्यमान था लोक है (अनु) उसको भी अनुप्राणित करता है । (समानं योनिम्) दोनों लोकों में समानरूप से (अनु संचरन्तम्) व्याप्त होते हुए (द्रप्सम्) उस तेजःस्वरूप आदित्य के (अनु) भात्रय पर ही (सप्तहोत्राः) सात होत्र सबको अपने भीतर लें लेने वाले दिशाओं को (जुहोमि) अर्पित करता हूँ ।

अध्यात्म पक्ष में—(द्रप्सः) द्रवरूप भरण पोषण करने में समर्थ वीर्य (घाम् अनु च पृथिवीम् च स्कन्द) प्रथम तेजो युक्त पुरुष और वाद में पुत्रोत्पत्ति में समर्थ पृथिवीरूप स्त्री को प्राप्त हुआ । (इमं च) इस पुरुष को (यः च पूर्वः) जो पूर्व विद्यमान था उसको प्रथम प्राप्त हुआ और वाद में (अनुयोनिम्) योनि-गर्भाशय में आया । (समानं) समानरूप से (योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं अनु) योनि में संचरण करने वाले वीर्य के आधय पर ही (सप्त होत्राः) सात प्राणों के रूप में मैं गृहस्थ योषाग्नि में (जुहोमि) वीर्य को आधान करता हूँ । इसी प्रकार सब जगदुत्पादक परमेश्वरीय वीर्य की प्रकृति में आहुति का वर्णन भी इसी ऋचा से हुआ जानना चाहिये ।

अग्नि में घृताहुति रूप द्रप्स प्रथम पृथ्वीपर पड़ कर अग्नि के तेज से आकाश में और अन्तरिक्ष में जाता और फैलता और सातों दिशाओं में चला जाता है । यह दृष्टान्त है । इसके दार्ष्टान्त आधिभौतिक में सूर्य पृथिवी की जीवनी शक्ति अध्यात्म में गर्भगत वीर्य के तत्व को उत्करीति से समझना चाहिये । सायणकृत तै० भा० [६ । ६ । १] भाष्य और अथर्व भाष्य दोनों परस्पर असंगत हैं ।

असौ वादित्यो द्रप्सः । सा दिवं च पृथिवीं च स्कन्दति । इमं च योनिम्

अनु यश्च पृथः इति इमं च लो धमसुं चेत्येतत् । समानं योनिमनुसंचरन्तम्
इति । समानं ह्येष एतं योनिमनु संवरति । द्रप्सं जुहोन्मनु सप्त होत्रा
इति असाँ वा आदित्यो द्रप्सः दिशः सप्त होत्राः अमुं तदादित्यं दिक्षु
प्रतिष्ठापयति । श० ब्रा० ७। ४। १२० ॥

शतधरिं वायुमंके स्वविदं नृचक्षुस्ते अभि चक्षते रयिम् ।
ये पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सर्वदा ते दुहते दक्षिणां सप्तमातरम्
॥ २६ ॥ ऋ० १०। २०७। ४ ॥

भा०—(शतधरं) सैकड़ों धार वाले मेघ के समान सैकड़ों
के परिपोषक, (वायुम्) नित्यगतिशील, वायु के समान स्रवण्यापक
(अंकेम्) सूर्य के समान तेजस्वी, एवं अर्चना करने योग्य और
(स्वविदम्) स्वः—सुख के प्राप्त करने और कराने वाले परमानन्दमय
फनेश्वर को (ते) वे (नृचक्षुः) उस परमपुरुष सर्वनेता परमेश्वर
को साक्षात् करने वाले (रयिम्) सर्वैश्वर्यरूप, प्राणरूप, बलरूप ही
(अभि चक्षते) साक्षात् करते हैं । और (ये) जो पुरुष (सर्वदा)
सब कालों में (पृणन्ति) समस्त जीवों का पालन करते हैं और
उनको (प्रयच्छन्ति च) अन्न, वस्त्र, आश्रय सुख प्रदान करते हैं (ते)
वे (सप्त मातरम्) सातों प्रकार के अन्नों वाली अथवा सात निर्मातृ पदार्थों
अर्थात् सप्त धातुओं वाली, (दक्षिणां) दक्षिणा रूप पृथिवी को
(दुहते) दोहते हैं वे पृथिवी के समस्त जीवनोंयोगी उत्तम २ सार
पदार्थों को प्राप्त करते हैं ।

'दक्षिणा वै यज्ञानां सुयोगवी ।' ऐ० ६। ३५॥ अन्नं दक्षिणा । ऐ० ६।

२६—(दि०) 'चक्षतहविन् । (तु०) यच्छन्ति संगमे' (च०) 'दुहते'
इति ऋ० । (प्र० दि०) 'इमं साहस्रं शतधरमुत्सं व्यच्यमानं
सरिरत्य मये ।' इति यजु० ।

३ ॥ तै० आ० में 'इमं समुद्रं शतधारमुत्सं'... 'धृतं दुहानामदिति
जनयाग्ने' इत्यादि में शतवार उत्स=मेव और अदिति=गौ और पृथिवी ।
कोशं दुहन्ति कलशं चतुर्विलमिडां धेनुं मधुमतीं स्वस्तये ।
ऊर्जे मदन्तीमदितिं जनेष्वग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन् ॥३०॥ (२२)

यजु० १३ । ४७ ॥

भा०—(चतुर्विलम्) चार छिद्र या इंशी वाले (कलशम्) बड़े
जलपात्र या कलशे से जिस प्रकार लोग चारों तरफ़ से टपी सोलकर
जल लेते हैं उसी प्रकार विद्वान् लोग (चतुर्विलम्) चार विल या छिद्रों
या चार द्वारों वाले (कोशं) ज्ञान, बल और अन्नके खजाने स्वरूप पृथ्वी
और (मधुमतीम्) अन्न आदि मधुर पदार्थों से समृद्ध (धेनुम्) समस्त
प्रजाको जीवन रस का पान करने वाली गायके समान चतुर्विणी (इडाम्)
इडा नाम पृथिवी को (दुहन्ति) दोहते हैं, उससे सारवान् पदार्थों का संग्रह
करते हैं । हे (अग्ने !) अग्नि के समान ज्ञानवान् ! अग्रणी नेतः ! राजन् !
तू अपने परम, सर्वोत्कृष्ट (व्योमन्) विशेष रक्षा में रखकर (जनेषु)
समस्त जनों में (अदितिम्) अक्षण्डनीय, भोग किये जाने पर कभी
खण्डित या विनष्ट न होने वाली, अविनश्चर, सदा ध्रुव, ऊर्जम् अन्न आदि
परम रससे सबको (मदन्ती) संवृष्ट करती हुई भूमि माता को
(मा हिंसीः) कभी विनश मत कर ।

एतत् तै देवः संविता वा जो ददाति भर्तवे ।

तत् त्वं यमस्य राज्ये वसानस्ताप्यं चर ॥ ३१ ॥

३०—(तू०) 'धृतं दुहानामदितिं जनायाग्ने ।' इति यजु० ॥ इमं समुद्रं
शतधारमुत्सं व्यच्यमानं भुवनस्यमध्ये धृतं दुहानामदितिं जनयाग्ने ।
इति तै० आ० ॥

३१—(छि०) 'ददातु' इति क्वचित् ।

भा०—हे पुरुष ! (सविता) सबका उत्पादक (देवः) देव, पर-
मेश्वर (ते) तुझे (मर्तवे) धारण करने, अपने को बचाने के लिये
(एतत्) यह (वासः) बख या निवासस्थान, देह (ददाति) प्रदान
करता है । (त्वं) तू (यमस्य) सर्वनियन्ता, यम, परमेश्वर के
(राज्ये) राज्य में (वसानः) निवास करता हुआ (तार्ष्यं चर)
आत्मा को तृप्तकर सन्तुष्ट-करने हारे प्रीति या भोग्य पदार्थों का भोग कर ।
अथवा (त्वं यमस्य राज्ये एत् तार्ष्यं वसानः चर) तू यम-नियन्ता के
राज्यमें तृप्ता, नाम तृप्त-के बने वस्त्रको पहन कर विचर ।

धाना धेनुरभद् वत्सो अस्यास्तिलो भवत् ।

तां वै यमस्य राज्ये अक्षितामुप जीवति ॥ ३२ ॥

भा०—पूर्वोक्त २५ में कहे 'तिलमिश्रा धाना' की व्याख्या करते हैं ।
(धानाः) 'धाना', लोक के धारण पोषण में समर्थ होने से ही (धेनुः
अभवत्) धेनु है और (अस्याः वत्सः) उसका बछड़ा (तिलः अभवत्)
स्नेह युक्त होने से तिल हैं । २७ मन्त्र में कहे 'अक्षिति' की व्याख्या
करते हैं । (यमस्य राज्ये) नियन्ता परमेश्वर के राज्य में (ताम्)
उस गो माता को (अक्षिताम्) सदा भक्षणीय रूप में या भक्षय समुदा
के रूप में प्राप्त करके उसके आधार पर (उप जीवति) यह लोक अपनी
जीवन वृत्त बढाना है ।

पृतास्ते असौ धेनवः कामदुर्घा भवन्तु ।

एनीः श्येनीः सरुपा विरुपास्तिल वत्सा उप तिष्ठन्तु त्वात्रं ॥ ३३ ॥

भा०—हे पुरुष ! (पृताः धेनवः) ये रसपान काने हारी धेनुएं

१. तर्पणार्हं प्रीतिकरमिति सायणः ।

३२—(च०) 'जीवति' इति सायणामिमतः ।

३३—(द्वि०) 'भयन्ति' इति सायणामिमतः ।

गौर्वे (ते) तेरे लिये (कामदुघाः भवन्तु) सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामदुघा हों । ये (एनीः) गेहुंए रंगकी कपिल और (श्येनीः) श्वेतवर्ण की, (स्रुपाः) समानरूप की, (विरुपाः) विविध रूप की रहती हुईं भी (तिलवत्साः) खीलों के साथ तिल के समान स्नेह युक्त छोटे २ बड़ों वाली (त्वा) तुझे (अन्न) इस भूमिपर (उप तिष्ठन्तु) प्राप्त हों ।

एनीर्धाना हरिणीः श्येनीरस्य कृष्णा धाना रोहिणीर्धेनवस्ते ।

तिलवत्सा ऊर्जमस्मै दुहाना विश्वाहा सन्त्वनपस्फुरन्तीः ॥३॥

मा०—(एनीः) गेहुंए रंग की, लाल या कपिला गौएँ और (हरिणीः) हरित या नीले वर्ण की, (श्येनीः) श्वेत वर्ण की और (कृष्णाः) कृष्णा, काले रंग की (रोहिणीः) रोहिणी, लाल रंगकी गौर्वे जो (अस्य धानाः) इस लोक की धारण पोषण करने में समर्थ हैं वे ही (धानाः) 'धाना' शब्द से कहीं जाती हैं और वेही (धानाः) भरण पोषण में समर्थ (धेनवः) दुधार गौर्वे (ते) तुझे-प्राप्त हों । और (तिलवत्साः) तिल के समान स्नेह से पूर्ण बड़ों वाली गौर्वे (अरमै) इस लोक के निमित्त (ऊर्जम्) परम पुष्टिकारक रसको (दुहानाः) प्रदान काती हुईं (विश्वाहा) सब प्रकार से (अनपस्फुरन्तः) निर्भय, निराकुल, आपद्रहित, सुखी (सन्तु) होकर रहें ।

वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहस्रं शतधारमुत्सम् ।

स विभर्ति पितरं पितामहान् प्रपितामहान् विभर्ति पिन्वमानः ३५

३४-१ तिलस्नेहने तुदादिः । तिल गर्तो इति धातोरि-गुपध-
लक्षणः कः ।

(प्र० द्वि०) 'एनीर्धाना हारणीरर्जनीः सन्तुधेनवः' इति तै० आ० ।

(च०) 'रन्तीः' इति क्वचित् ।

३५-(द्वि०) 'सहस्रमुत्सं शतधारमेतम्' (तृ० च०) 'तस्मिन्नेवपितरं

भा०—(वैश्वानरे) समस्त मनुष्यों के हितकारी देव के निमित्त मैं (इदं हविः) इस अन्न आदि त्याग करने योग्य पदार्थ की (जुष्टोमि) आहुति करता हूँ । यह (सहस्रं) सहस्रों फलों को देने वाला (अक्षधरम्) सैकड़ों धाराओं वाला (वत्सम्), ज्ञात है । (सः) वह समस्त हितकारा, परम देव (पिन्वमानः) स्वयं प्रसन्न होकर (पितरं) पालक पिताको (पितामहान् प्रपितामहान्) पितामह और प्रपितामह आदि वृद्ध पूजनीय पुरुषों का (विमर्त्रि) पालन पोषण करता है ।

सहस्रधारं शतधारमुत्सुमक्षितं व्यच्यमानं सलिलस्य पृष्ठे ।

ऊर्जे दुहानमनपस्फुरन्तमुपासते पितरः स्वधाभिः ॥ ३६ ॥

(प्र० द्वि०) यद् ० १३ । ४६ प्र० द्वि० ॥

भा०—‘सहस्रधार और शतधार’ उनका वर्णन करते हैं । (सलिलस्य पृष्ठे) सलिल अर्थात् अन्तर्िक्ष के पृष्ठ पर (वि-अच्यमानम्) विविध प्रकार से प्रकट होने वाले (सहस्रधारम्) सहस्रों धारण शक्तियों से या सहस्रों धाराओं से समुद्र (शतधारम्) सैकड़ों का धारण पोषण करने वाले उस (अक्षितम्) अक्षय, अविनाशी, अगाध (वत्सं) जल आदि सुखकारी पदार्थों को वहाने वाले, (ऊर्जे दुहानम्) समस्त प्राणियों को सर्वोत्तम अन्नादि रस का प्रभूत मात्रा में प्रदान करने वाले (पितरः) नाना पालक जन (अनपस्फुरन्तम्) धीर, कभी भी न दुःखित होने वाले आदित्य और सूर्य के समान राजा और परमेश्वर को (पितरः) प्रजापालक लोग (स्वधाभिः) स्वधा, अपनी धारण शक्ति से और अन्नादि से (उपासते) उसकी उपासना करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं ।

पितामहं प्रपितामहं विमर्त्र् पिन्वमानं इति तै० आ० ।

३६—(प्र०) ‘इमं महत्त’ इति यद् ० । ‘इमं समुद्रं शत’-तै० सं० ।

‘मुखस्य नप्ये’ इति तै० सं० ‘सरिस्त्य नप्ये’ इति यद् ० ।

इदं कसाम्बु चयनेन चितं तत् सजाता अर्व पश्यतेत ।

मर्त्योयममृतत्वमेति तरमै गृहान् कृणुत यावत्सर्वन्धु ॥ ३७ ॥

भा०—पुरुषकी उत्पत्ति का रहस्य खोलते हैं । (इदं) यह 'कसा
म्बु', विकरवर 'अम्बु', वीर्य ही (चयनेन) 'चयन' अर्थात् अवयवों के
एकत्र संगृहीत होजाने से (चितम्) संचित होकर उत्पन्न होजाता है । हे
(सजाता) समान रूपसे इसके साथ उत्पन्न हुए बन्धुजनो ! (भा इत)
आओ, इसे (भव पश्यत) देखो (मर्त्यः भयम्) यह मनुष्य अपनी
(अमृतत्वम्) अमृतत्व-मोक्ष या पूर्णायु को (एति) प्राप्त कर लेता
है । इसलिये (तरमै) इस जीव के लिये (यावत् सर्वन्धु) जितने
भी बन्धु जन हैं (तरमै गृहान् कृणुत) उसके लिये गृह आदि बनाओ ।
अथवा-यह (कसाम्बु) पुरुष के शासन का जल है जो चयन या
संग्रह द्वारा एकत्र है । हे (सजाताः) समानपद पर स्थित राजगण !
आओ आँ देखो । (मर्त्यः भयम् अमृतत्वम् एति) यह मर्त्य अब
अमृतत्व, मानपद, राजपदको प्राप्त होता है उसके लिये समस्त बन्धुजन
सकानात बनावें ।

इहैधि धनसानिहचित्त इहक्रतुः ।

इहैधि वीर्यवित्तरो वयोधा अपराहतः ॥ ३८ ॥

भा०—हे पुरुष ! राजन् ! तू (धनसनिः) धन ऐश्वर्य का प्रदान
करने वाला, दानी बनकर (इह एव) यहां ही (एधि) रह । (इहचित्तः)
इस लोक में सर्व प्रसिद्ध और (इहक्रतुः) इसलोक में प्रशस्त कर्मवान्
और (वीर्यवित्तरः) अन्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक वीर्यवान्, (वयोधाः)
रुद्ध और ऐश्वर्य को धातन करने वाला, (अपराहतः) क्रतु से अपराजित
रहता हुआ ही (इह एधि) इस संसार में रह ।

३७—(प्र०) 'चित्तम्' इति बहुत्र । (द्वि०) 'पश्यत । आ । इत ।' इति
पदपाठः ।

पुत्रं पौत्रमभितर्पयन्तीरापो मधुमतीरिमाः ।

स्वधां पितृभ्योऽमृतं दुहाना आपो देवीरुभयास्तर्पयन्तु ॥२६॥

भा०— (इमाः आपः) ये अन्न के समान स्वच्छ आचरणवाली (देवीः) दिव्य उपदेश प्रदान करने वाली (आपः) आप्त प्रजापुं (पुत्रं पौत्रम्) पुत्रों और पौत्रोंको भी (अभितर्पयन्तीः) सब प्रकार से नृस करती हुई और स्वयं (मधुमतीः) मधुर अन्न से समूह होकर (पितृभ्यः) अपने पालक पितरों को (स्वधाम्) स्वयं धारण करने योग्य या स्व=शरीर का धारण पोषण करने में समर्थ अन्न और (अमृतम्) जलको (दुहानाः) प्रदान करते हुए (तर्पयन्) पुत्र, पौत्र और पालक पितृजनों को (तर्पयन्तु) सदा नृस, प्रसन्न किया करें ।

आपोऽग्निं प्र हिणुत पितॄरुपेमं यज्ञं पितरो मे जुपन्ताम् ।

आसीनामूर्जमुषु यं सचन्ते ते नो रयिं सर्ववीरं नि यच्छान्

॥ ४० ॥ (२३)

भा०—हे (आपः) प्रजाओ ! या आप्तजनो ! आपलोग (पितृन् उप) पालक कर्ता रक्षकों और गुरु जनों के समीप (अग्निम्) अग्नि, अपने अग्रणी नेता पुरुष को (प्र हिणुत) भेजा करो । और (पितरः) पालक पितृजन (मे यज्ञम्) मेरे, मुझ राजा के यज्ञ या परस्पर मिल जुलकर संचालन करने योग्य राष्ट्र या यज्ञमय श्रेष्ठ कर्म में (जुपन्ताम्) प्रेम पूर्वक योग दें । (ये) जो लोग (आसीनाम्) बैठी हुई (ऊजम्) बल-कारिणी सेना शाक्तको (सचन्ते) सेवन करते हैं या उपयोग करते हैं (ते) वे वीर जन (नः) हमें (सर्ववीरम्) समस्त वीरों से युक्त (रयिम्) रयि, धनैश्वर्य (नि यच्छान्) प्रदान करें ।

४०—आपो देवीः प्रहिणुताग्निमेतं यज्ञं पितरो नो जुपन्ताम् । मासीनामूर्जं

मुत ये सजन्ते ते नो रयिं सर्व वीरं नियच्छन्तु । इति हि० गृ०सू० ।

समिन्धते अमर्त्यं हव्यवाहं घृतप्रियम् ।

स वेदं निहितान् निधीन् पितॄन् परावतो गतान् ॥ ४२ ॥

भा०—लोग (घृतप्रियम्) घृत के प्रियं अग्नि के समान तेजोमय पदार्थों को धारण करने वाला तेजस्वी (हव्यवाहम्) हव्य, चरु आदि के समान समस्त स्तुतियों और ज्ञानों को वहन करने वाले (अमर्त्यम्) मरण धर्म रहित, अविनाशी परमात्मा को यज्ञ के अग्नि के समान (समिन्धते) सपत्नी हृदय वेदि में प्रदीप्त करते हैं । वह परमेश्वर ही (निहितान्) गुह्यरूपसे रखे (निधीन्) सज्जानों को समस्त ऋद्धि सिद्धि आदि ऐश्वर्यों को भी (वेद) जानता है और वही (परावतः गतान्) दूर गये (पितॄन्) इनारे पूज्य पुरुषों को वेद जानता है ।

यं ते मन्थं यमोद्वनं यन्मांसं निष्पृणामि ते ।

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्रुतः ॥ ४२ ॥

(वृ० ३०) अथर्व० १२ । ३ । ६२ वृ० ३० ॥

भा०—हे पुरुष ! मैं परमेश्वर (यं) जिस (मन्थम्) मये हुए दहि को (यम् ओदनम्) और जिस मात को और (यत् मांसम्) जिस मन चाहे परम अन्नादि पदार्थ को (ते) तेरे लिये (निष्पृणामि) प्रदान करता हूँ (ते) वे समस्त पदार्थ (ते) तेरे लिये (स्वधावन्तः) अपने शरीरों को पुष्टि देने वाले, (मधुमन्तः) मधुः रसवाले और (घृतश्रुतः) घृत के समान तेज, वीर्य के देने वाले (सन्तु) हों ।

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावन्तीः ।

तास्ते सन्नूद्भीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानुमन्यताम् ॥ ४३ ॥

अथर्व० १२ । ३ । ६६ ॥

भा०—व्याख्या देखो इस सूक्त का मन्त्र [२६] और १८।३।६९॥ मा ।

इदं पूर्वमपरं नियानं येनां ते पूर्वं पितरः परेताः ।

पुरोगवा ये अभिशाचो अस्य ते त्वां वहन्ति सुकृतासु लोकम् ॥४४॥

भा०—हे पुरुष ! (इदं) यह मानुष देह ही वह (नियानम्) रथ है जो (पूर्वम् अपरम्) पहले रहा और बाद में भी विद्यमान है । (येन) जिसके द्वारा (ते) तेरे (पूर्वं पितरः) पहले पालक, पिता, पितानह आदि (पराहताः) अपना जीवन बिताकर इस लोक से चल बसे । (जन्म) इस देह में लगे ये (अभिशाचः) सब प्रकार से शक्तिमान् और (पुरोगवाः) आगे लगे बैलों के समान आगे २ जानेवाले इन्द्रिय रूप प्राण हैं (ते) वे (त्वा) तुझ को (सुकृतान्) पुण्याचारवान् पुरुषों के (लोकम्) लोकको (वहन्ति) लेजावें ।

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे त्वायमाने ।

सरस्वतीं सुकृतां हवन्ते सरस्वतीं द्वाशुषे वार्यं दात् ॥ ४५ ॥

भा०—(देवयन्तः) देव, उपास्य परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा वाले विद्वान् पुरुष (सरस्वतीन्) परमेश्वर को रस से परिपूर्ण नदी के समान (हवन्ते) स्तुति करते हैं । और (अध्वरे) हिंसारहित, यज्ञ के (त्वायमाने) किये जाते हुए यज्ञकर्ता, उपासक जन भी (सरस्वतीन् हवन्ते) परमेश्वर को सरस्वतीरूप से स्मरण करते हैं । (सुकृतः) पुण्य कर्म करने वाले पुरुष भी (सरस्वतीन् हवन्ते) सरस्वती का स्मरण करते हैं । (सरस्वती) वह आनन्द रसमयी ब्रह्मवेदमयी, प्रभु देवता (द्वाशुषे) दानशील, आत्मसमर्पक भक्त को (वार्यम्) वरण करने योग्य श्रेष्ठ धन का (दानु) प्रदान करती है ।

सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्ष्माणाः ।

श्रासत्यास्मिन् ब्रह्मिणिं मादयध्वमनमीवा इप्सु आ घेह्यस्मे ॥४६॥

संरस्वति या सरथं ययाथोकथैः स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती ।
सहस्रार्घमिडो अत्र भागं रायस्पोपं यजमानाय धेहि ॥ ४७ ॥

भा०—व्याख्या देखो अथर्व० १८ । ९ । ४२ । ४३ ॥

पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा वेशयामि देवो नो धाता प्र तिरात्यार्युः ।
परापरैता वसुविद् वो अस्त्वधा मृताः पितृपु सं भवन्तु ॥४८॥
(प्र०) अथर्व० १२ । ३ । २२ ॥

भा०—हे स्त्री ! पृथिवी ! (पृथिवीम्) के समान ब्रतपालन में स्थिर रहने वाली (त्वाम्) तुझको (पृथिव्याम्) इस पृथिवी पर (आवेशयामि) बसाता हूँ । (धाता) सर्वपोषक (देवः) देव सब पदार्थों का प्रदाता परमेश्वर (नः) हमें (आयुः) दीर्घजीवन (प्र तिराति) प्रदान करे । हे प्रजागण ! (परापरैता) दूर दूर तक के देशों में जाने वाला व्यापारी (वः) तुम में से (वसुविद्) नाना वसु धनों को प्राप्त करने में समर्थ (अस्तु) हो । (अध) धौर (मृताः) जो पुरुष मर जाय वे पुनः (पितृपु) पुत्रों के पालक गृहस्थ मां बापों के घरों में पुत्र रूपसे पुनः (सं भवन्तु) उत्पन्न हों ।

आ प्र च्यवेथामप तन्मृजेथां यद् वामभिभा अत्रोचुः ।

अस्मादेतंसध्न्यौ तद् वशीयो दातुः पितृष्विह भोजनौ मम ॥४९॥

भा०—हे स्त्री पुरुषो ! तुम दोनों जब (आ प्र च्यवेथाम्) धर्म-युक्त मार्ग से स्खलित होजाया करो (तद्) तमी (अभिभाः) सर्वतः प्रकाशमान, त्रिद्वान् पुरुष (अत्र) इस विषय में (वाम्) आप दोनों के (यद्) जब २ जैसा (उचुः) उपदेश करें तब २ वैसे ही (तद्) उस स्खलित पाप कम को (अप मृजेथाम्) शुद्ध कर, दूर कर दिया करो

४८—(तृ०) 'परापरैताः' (च०) 'अधामृताः' इति च सायणाभिमतः ।

४९—(तृ०) 'वशीयः' इति सायणाभिमतः ।

उसका प्रायश्चित्त कर लिया करो । हे (अध्वयौ) भविनाशी आत्माओ !
 (अस्मात्) इस प्रकार के खलित पाप से तुम सदा (आ इतम्) पुनः
 लौट कर स्व पथ पर आजाओ । (तत्) तुमारा यह धर्म ही (वशीयः)
 तुमारे सब पाप प्रवृत्तियों पर वश करने में प्रशस्त है । और (मम दातुः)
 सब पदार्थ प्रदान करने वाले मुझ पुत्र के (पितृषु) पालक गृहस्थों के
 बीच (इह) इस लोक में तुम दोनों ही (भोजनौ) परिपालक होकर
 (एतम्) भाओ ।

एयमग्न् दक्षिणा भद्रतो नो अनेन दत्ता सुदुधा वयोधाः ।
 यौवने जीवानुपपृञ्चती जरा पितृभ्य उपसंपरानयादिमान्
 ॥ ५० ॥ (२४)

भा०—(इयम् दक्षिणा) यह दक्षिणा, दक्ष=बल-या शक्ति से पूर्ण
 दक्षिणारूपसे प्राप्त गीं (भद्रतः) कल्याणमय पुरुष से (नः) हमें
 (आ अगन्) प्राप्त हो । क्योंकि (अनेन) इस उत्तम यजमान से
 (दत्ता) प्रदान की हुई यह गीं (वयोधाः) अन्न आदि पुष्टिकारक
 पदार्थों की दात्री, (सुदुधाः) स्वाम २ पदार्थों को भी प्रदान करती है ।
 और (यौवने) यौवन काल में और (जरा) बुढ़ापे के कालमें भी
 वर्तमान जवान और बूढ़े सभी (जीवान्) जीवों को (उपपृञ्चती)
 प्रसन्न होती, उनसे प्रेम करती हुई (इमान्) इन समस्त जीवों को
 (पितृभ्यः) उनके पालकों के लिये (उप-संपरानयात्) प्रयास दीर्घ
 जीवन तक की यात्रा करा देती है, अर्थात् देरतक पालती रहती है ।

इदं पितृभ्यः प्र भरामि बहिर्जीवं देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि ।
 तदा रोहि पुरुषमेध्यो भवन् प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम् ॥५१॥

५१—(प्र०) 'भराम' (द्वि०) 'देवेभ्यो जावन्त उत्तरं भराम' (तु० च०)

'तत्त्वंमारोहासो मेध्यो भव यमेन त्वं यस्या संविदानः' इति तै०शा०।

भा०—(पितृभ्यः) पालन करने हारे पिता पितामह आदि के लिये मैं (इदम्) यह (बहिः) कुश आदि का बना आसन (प्र भरामि) नित्य लाऊँ और बिछाऊँ । और (देवेभ्यः) देव, विद्याप्रदाता, गुरुजनों के लिये (जीवन्) स्वयं जीवित रहता हुआ (उत्तरम्) अपने मांवाप से भी ऊँचा 'आसन (स्तृणामि) बिछाऊँ । हे (पुरुष) पुरुष ! तू (मेघ्यः) मेघ्य, पवित्र, (भवन्) होकर (तत्) उस आसनपर (आ रोह) चढ़, विराजमान हो । (पितरः) पालक पिता आदि गुरुजन (परा इतम्) दूर या उच्छ्रष्ट स्थान पर प्राप्त हुए या परलोक में गये हुए भी (त्वाम्) तुझको (प्रति जानन्तु) स्मरण करें । अर्थात् पुरुष ऊँचे पदों को पवित्र होकर प्राप्त करे कि जिससे उसके गुरुजन उसको अपने से दूर देश में रहते या मृत को भी प्रेम से स्मरण किया करें ।

एदं ब्रह्मिरेसदो मेघ्योभूः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम् ।

यथापरु तन्वं सं भरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि ॥५२॥

भा०—हे पुरुष ! तू (इदं) इस (बहिः) कुशा के बने आसन पर (आ असदः) बैठ । और (मेघ्यः अभूः) तू पवित्र, यज्ञज्ञोक्त्य हो । (पितरः) तेरे पालक पिता माता आदि जन (परेतम्) लोकान्तर या देशान्तर में दूर चले जाने पर भी (त्वा) तुझे (प्रतिजानन्तु) स्मरण करें । तू (यथा परु) प्रत्येक पर्व २ या शरीर के प्रत्येक जोड़ की बिना उपेक्षा किये भरने (तन्वं) शरीर को (सं भरस्व) अच्छा प्रकार पुष्ट कर । मैं विद्वान् पुरुष या अमृत जीवन शक्ति (ते गात्राणि) तेरे समस्त गात्रों की (ब्रह्मणा) ब्रह्म, बल, वीर्य, सामर्थ्य से (कल्पयामि) युक्त करता हूँ । यदमृतं तद् ब्रह्म । गो० ५।३।४ ॥

(द्वि०) 'जीवन् देवेभ्यः' इति सायणामिमतः ।

५२—(तृ०) 'यथा परु' इति सायणामिमतः ।

पर्णो राजापिधानं चरुणामर्जो वलं सह ओजो न आगन् ।

आयुर्जावेभ्यो विद्घत् दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ ५३ ॥

भा०—प्रजा के रक्षक राजा का स्वरूप बतलाते हैं । (चरुणाम्) जिस प्रकार भात जो डेगर्ची में पकते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिये (पर्णम् अपिधानम्) पत्ते का टुकड़ा धर दिया जाता है वसी प्रकार (चरुणाम्) संचरण करने वाले प्रजाओं, जीवों को (अपिधानम्) ढककर धरने वाला पुरुष (पर्णः) उनको पालन और पूरण करने वाला पुरुष ही उनका रक्षक है । वह ही (ऊर्जः) राष्ट्रका बल और प्राणरूप, (सहः) शत्रुओं को पराजय करना (ओजः) देह में कान्ति, वर्णकारी भोज के समान राष्ट्र में तेजः स्वरूप होकर (नः) हमें (आ अगन्) प्राप्त होता है । वह (शतशारदाय) सौ बरस तक के (दीर्घायुत्वाय) दीर्घ जीवन के प्राप्त करने के लिये (जावेभ्यः) समस्त राष्ट्र के मनुष्य प्रजाओं का (आयुः) जीवन (विद्घत्) प्रदान करता है । उत्तम सुरक्षक राजा के राज्य में प्रजाएं दीर्घायु होती हैं ।

ऊर्जा भागो य इमं जजानाश्मानानामाधिपत्यं जगाम ।

तमर्चत विश्वमित्रा हविर्भिः स नो यमः प्रतरं जीवसे धात् ॥५४॥

(तु० च०) अथर्व० १० । ३ । ६३ तु० च० ॥

भा०—(ऊर्जः) अन्न, या बल और प्राण देनेव ले पदार्थ का (यः) जो (भागः) पट्ट भाग (इमम्) इस राजा को (जजान) उत्पन्न करता है उसमे ही वह (अश्माना अज्ञानाम्) अज्ञों को पिस डालने वाले रक्षी के पाट के समान (अश्माना अज्ञानाम्) प्रजाओं को दलन करने में समर्थ वीर्यवान् होकर (आधिपत्यम्) अधिपति पद को (जगाम) प्राप्त हो जाता है । हे (विश्वमित्राः) समस्त प्रजाओं के स्नेहपात्र, प्रतिष्ठित

५३-१. ऊर्जं बलप्राप्तयोरितत्साण्यन्तात्पदाधत् । ऊर्जः ।

पुरुषो! आप लोग (हविर्भिः) उत्तम स्तुतियों और अन्नों द्वारा (तम् अर्चत) उसकी अर्चा या पूजा सत्कार करो। (सः) वह (नः) हमारा, हमारे राष्ट्र का (यमः) नियन्ता यम, राजा है, वह हमें (पतरं) खूब लम्बे (जीवसे) जीवन के लिये (धात्) शक्ति प्रदान करे।

यथा यमाय हर्म्यमवपन् पञ्च मानवाः।

एवा वपामि हर्म्यं यथा मे भूरयोसत ॥ ५५ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (पञ्च मानवाः) पांच प्रकार के मनुष्य (यमाय) सर्व नियन्ता राजा के लिये (हर्म्यम्) हर्म्य, राजमहल (अवपन्) खड़ा कर देते हैं (एवा) उसी प्रकार मैं (हर्म्यम्) बड़ा महल अपने लिये भी (वपामि) खड़ा करूँ (यथा) जिससे (मे) मेरे अधीन (भूरयः) बहुत से मिलने जुड़ने वाले मित्र, मृत्यु आदि (असत) रहें। सायण के अनुसार इस मन्त्र में समाधि या कबरे बनाने परक अर्थ निकलता है।

इदं हिरण्यं विभृद्भि यत् ते पिताविभः पुरा।

स्वर्गं यतः पितुर्हस्तं निर्मृद्भिति दक्षिणम् ॥ ५६ ॥

भा०—हे पुरुष! (यतः) जिस सुवर्ण के आभूषण को (ते पिता) तेरे पिता ने (पुरा) पहले (अविभः) धारण किया, तू (इदं) इस (हिरण्यम्) सुवर्ण के बने आभूषण को (विभृद्भि) धारण कर। (स्वर्गं) स्वर्गमय लोह में (यतः) प्रयाण करते हुए (पितुः) पिता के (दक्षिणम् हस्तम्) दायें हाथ को (निर्मृद्भिति) स्वच्छ कर। अर्थात्—इसके दायें हाथ का कर्तव्य अपने ऊपर ले।

५५—(प्र० तृ०) 'हर्म्यं' (तृ०) 'एवं' (च०) 'यथासां जीवलोकं भूरयो-सत' इति तै० आ०। (च०) 'असतः' इति कश्चित्।

५६—(च०) 'शतधारा' अथर्व०।

ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च यज्ञियाः ।

तेभ्यो घृतस्य कुल्यै/तु मधुधारा व्युन्दती ॥ ५७ ॥

अथर्व० १८ । ३ । ७२ तृ० च० ।

भा०—(ये च) जो भी (जीवाः) जीवित पुरुष है, और (ये च-मृताः) जो मर गये हैं और (ये जाताः) जो उत्पन्न हुए, नवजात शिशु हैं, और (ये च) जो (यज्ञियाः) यज्ञ, आत्मा और पर ब्रह्म की उपासना में लगे हैं अथवा (यज्ञियाः=ऋज्ञियाः) जो उत्पन्न होते हैं (तेभ्यः) उन सब के लिये (घृतस्य कुलया) घृत और अन्यान्य पुष्टिहारक पदार्थों की धारा और (मधुधारा) मधु, मधु और आनन्द की धारा (वि-उन्दती) हृदय को लार्द्र करती हुई (पतु) प्राप्त हो ।

अध्यात्म ऊर्ध्वगति का वर्णन करते हैं ।

वृषां मतीनां पवते विवक्षणः सूर्यो अर्हो प्रतरीतोपसां दिवः ।

प्राणः सिन्धूनां कुलशां अचिक्रद्विन्द्रस्य हार्दिमाविशन्मनीषया

॥ ५८ ॥-

ऋ० ६ । ८६ । १ ॥

भा०—(मतीनाम्) मनन करने योग्य ज्ञानों का (वृषा) वर्णन करने वाला (विवक्षणः) विविध प्रकार से ज्ञानों का द्रष्टा (मह्यम्) दिनों का (सूरः) प्रेरक, उपादेय (दिवः) प्रकाश और (उपसा) उपासकों के (प्रतरीता) प्रवर्तक सूर्य के समान (विवक्षणः) विविध

५७-१. 'जहि' उत्पत्ति यान्ति इति 'जहियाः' इति सायखः । 'जहियाः'

इति साययामिमतः । (द्वि०) 'जन्त्या' इति तै० ब्रा० ।

५८—(द्वि०) 'सोमो अहः प्रतरीतोपसो दिवः' (तृ०) 'क्राया', 'अत्रो-वचर्' (च०) 'हार्दि', 'मनीषिभिः' इति ऋ० । 'हार्दिम् विशन् मनी' इति साययामिमतः ।

रूप से दर्शनीय (सिन्धूनाम्) निरन्तर विषयों में बहनेवाले इन्द्रियों का (प्राणः) जीवित, चेतन करने वाला मुख्य प्राण रूप आत्मा (कलशान्) कलश या घट रूप इन देहों को (अचिक्रदत्) प्राप्त होता और उनको भी सजीव करता है और (इन्द्रस्य) इन्द्र आत्मा के (हार्दिम्) हृदय में (मनीषया) मनकी प्रेरणा शक्ति द्वारा (आविशत्) प्रविष्ट होता है ।

त्वेषस्ते धूम ऊर्णोतु दिवि पंलुक्त् आततः ।

सूर्यो न हि शुता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ५६ ॥

ऋ० ६ । २ । ६ ॥ साम० २ । ८३ ॥

भा०—हे आत्मन् ! हे परम पुरुष ! (ते) तेरा (धूमः) धूमके समान नीला (त्वेषः) प्रकाश (ऊर्णोतु) सर्वत्र फैले । और (दिवि) प्रकाश स्वरूप मोक्ष में तू (शुक्रः) शुक्र, निष्पाप, कान्तिमान् होकर (आततः) व्याप्त हो । (त्वं) तू (शुता) कान्ति से (सूरः न) सूर्य के समान प्रकाशवान् होकर (कृपा) अपने सामर्थ्य से हे (पावक) पवित्र करने हारे, आत्ममलशोधक अग्निस्वरूप आत्मन् ! (रोचसे) प्रकाशित हो ।

प्र वा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतिं सखां सख्युर्न प्र मिनाति संगिरः ।

मर्यं इव योपाः समर्पसे सोमः कलशे शतयामना पथा ॥ ६० ॥

ऋ० ६ । ८६ । १६ ।

भा०—जीव ईश्वर के मोक्षमें मिलाप का वर्णन काते हैं । (इन्दुः) चन्द्र के समान आल्हादक गुणों से युक्त तथा पर प्रकाश से प्रकाशित होने वाला

५६—(प्र०) 'धूम ऋणयति' इति ऋ० ।

६०—(प्र०) 'प्रो अयासीदुन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतम्' (द्वि०) 'संगिरं' (तृ०)

'युवतिभिः', 'अर्पति' (च०) 'शतयाम्ना' इति ऋ० ।

जीव मोक्षमें (इन्द्रस्य) उस महान् ऐश्वर्यवान्, सूर्य के समान तेजस्वी परमेश्वर के (निष्कृतिम्) उस परम मोक्ष धामको जिसमें और कोई कार्य करना शेष न रह जाय (प्र एति) प्राप्त होता है । तब (सखा सख्युः न) जिस प्रकार मित्र अपने परममित्र के स्थान को प्राप्त करता है और बराबर (संगिरः) उत्तम मित्रतायुक्त प्रेमोक्तियों को (प्रमिनाति) कहता है उसी प्रकार वह जीव भी उस परमेश्वर के धाम को पहुंच कर उसके संग (संगिरः) उत्तम स्तुति वाणियों को (प्रमिनाति) उच्चारण करता है, उसकी बहुत २ स्तुतियां करता है । और फिर (मर्यः) हे परमेश्वर ! जिस प्रकार पुरुष, मद्र (योपाः इव) नाना स्त्रियों को भी स्वयं भोग लेता है उसी प्रकार प्रेम युक्त होकर तू एक होकर नाना जीवों का अपा अनन्त सामर्थ्य से सबको उसी आनन्दमय रूप में (शतयामना पया,) सैकड़ों पुरुषों में चलने योग्य मार्गद्वारा तू (सोमः) सर्व प्रेरक होकर (कलशे) हृदय कलश में (सम् अर्पसे) सबको एक साथ ही प्राप्त-होता है, साक्षात् होकर आनन्दित करता है । इसी एक पुरुष के नाना स्त्री भोगने के दृष्टान्त में पद्मपुराण, भागवत आदि में कृष्ण गोपी आदि के रमण को प्रधानता देने का साम्प्रदायिकों ने यत्न किया है ।

अक्षन्मीमदन्तु ह्यव प्रियाँ अधूपत ।

अस्तौपतु स्वभानत्रां विप्रा यविष्ठा ईमहे ॥ ६१ ॥

२५०

ऋ० १ । २२ । २ ॥ यजु० ३ । ५१ ॥

१०—(स्वभानत्रः) स्वयंप्रकाश, ज्ञानी (विप्राः) मेवाचो पुरुष जब उस परम ब्रह्मके साक्षात्कार से प्राप्त सोम रस को (अक्षन्) आश्वादन करते हैं तब वे (अमीमदन्त) निरन्तर नृष्ट-रहा करते हैं, तब ही वे अपने (पियान्) प्रिय शरीर के भोगों को (अधूपत) कपांकर झाड़ देते हैं वे अपने कर्म बन्धनों और हार्दिक मलों का त्यागकर अवधून पापरहित

६१—(दि०) 'प्रियाः' (च०) 'विप्रा न विष्टयामती' इति ऋ० ।

भा०—(जातवेदाः) वेदों का जानने द्वारा जो पुरुष सूर्य के समान हमारे पास (दूतः) दूत, उत्तम सदेश पहुंचाने वाले के रूप में (प्रहितः) भेजा (अभूत्) जाता है। वह (सायं विन्ध्यः) सायं प्रातः दोनों समय (नृभिः) पुरुषों द्वारा (उपवन्द्यः) सदा नमस्कार करने योग्य होता है। हे (जातवेदः) विद्वान् ! तू (हवीषि) नाना अन्न (पितृभ्यः) अपने पूज्यपितरों को (प्र अदाः) प्रदान कर। (ते) वे (स्वधया) अपने प्राणशक्ति से या अपने शरीर के धारण के हेतु (हवीषि अक्षन्) उन अन्नों का भोजन करें। और हे (देव) देव ! विद्वन् ! तत्र (त्वम्) तमी (प्रयता) अति नियमित (इवापि) अन्नों का स्वयं (अद्धि) भोगकर।

असौ हा इह ते मनः ककुत्सलमिव जामयः ।

अभ्ये/तिं भूम ऊर्णुहि ॥ ६६ ॥

भा०—(है असौ) हे परलोकगत और परदेशगत पुरुष ! (इह ते मनः) तेरा मन उस लोक में ही लगा है। (जामय इवः) भगिन.यें या स्त्रियों जिस प्रकार (ककुत्सलम्) अपने कंधे के भाग को ढके रहती हैं, हे (भूमे) भूमे ! तू भी (एनम्) उसकी (अभि ऊर्णुहि) एव प्रकार से ढांक, सुाक्षित रख।

क्या यवनों और ईसाइयों में दफन करने का यही मूल तो नहीं है ?

शुम्भन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषदने त्वा लोक आं सादयामि
॥ ६७ ॥

यजु० ५ । २६ ॥

भा०—(पितृषदनाः) पूज्य पालक पुरुषों के घर, निवास के

मजति मानवेभ्यः श्रेष्ठेनो अत्र द्रविष्यं यथा दधत् इति ऋ० ।

६६—(दि०) 'ककुत्सलमिव' इति सायणाभिमतः ।

६७—'शुम्भन्तां' इति यजु० ।

जीव मोक्षमें (इन्द्रस्य) उस महान् ऐश्वर्यवान्, सूर्य के समान तेजस्वी परमेश्वर के (निष्कृतिम्) उस परम मोक्ष धामको जिसमें और कोई कार्य करना शेष न रह जाय (प्र एति) प्राप्त होता है । तब (सखा सख्युः न) जिस प्रकार मित्र अपने परममित्र के स्यान को प्राप्त करता है और वर'वर (संगिरः) उत्तम मित्रतायुक्त प्रेमोक्तियों को (प्रमिनाति) श्रुता है उसी प्रकार वह जीव भी उस परमेश्वर के धाम को पहुंच कर उसके संग (संगिरः) उत्तम स्तुति वाणियों को (प्रमिनाति) उच्चारण करता है, उसकी बहुत २ स्तुतियां करता है । और फिर (मर्यः) हे परमेश्वर ! जिस प्रकार पुरुष, मद् (योषाः इव) नाना स्त्रियों को भी स्वयं भोग लेना है उसी प्रकार प्रेम युक्त होकर तू एक होकर नाना जीवों का अपन अनन्त सामर्थ्य में सबको उसी आनन्दमय रूप में (शतयामना पया,) सैकड़ों पुरुषों में चलने योग्य मार्गद्वारा तू (सोमः) सर्व प्रेरक होकर (कलशे) हृदय कलश में (सम् अर्पसे) सबको एक साथ ही प्राप्त होता है, साक्षात् होकर आनन्दित करता है । इसी एक पुरुष के नाना स्त्री भोगने के दृष्टान्त से पद्मपुराण, भागवत आदि में कृष्ण गोपी आदि के रमण को प्रधानता देने का सान्प्रदायिकों ने यत्न किया है ।

अज्जन्मीमदन्त ह्यव प्रियाँ अधूपत ।

अस्तौपत स्वभानवो विप्रा यविष्टा ईमहे ॥ ६१ ॥

ऋ० १ । २२ । २ ॥ यजु० ३ । ५१ ॥

भा०—(स्वभानवः) स्वयंप्रकाश, ज्ञानी (विप्राः) मेधावी पुरुष जब उस परम ब्रह्मके साक्षात्कार से प्राप्त सोम रस को (अक्षन्) आस्वादन करते हैं तब वे (अमीमदन्त) निरन्तर वृत्त रहा करते हैं, तब ही वे अपने (प्रियान्) प्रिय शरीर के भोगों को (अधूपत) कर्पाकर क्षाड़ देते हैं वे अपने कर्म बन्धनों और हार्दिक मलों का त्यागकर अवधूत पापरहित

६१—(द्वि०) 'प्रियाः' (च०) 'विप्रा न विष्टयामती' इति ऋ० ।

भा०—(जातवेदाः) वेदों का जानने द्वारा जो पुरुष सूर्य के समान हमारे पास (दूतः) दूत, उत्तम सदेश पहुंचाने वाले के रूप में (प्रहितः) भेजा (अभूत्) जाता है। वह (सायं विन्ध्यहः) सायं प्रातः दोनों समय (नृभिः) पुरुषों द्वारा (उपवन्धः) सटा नमस्कार करने योग्य होता है। हे (जातवेदः) विद्वान् ! तू (हवीषि) नाना भक्ष (पितृभ्यः) अपने पूज्यपितरों को (प्र अद्वाः) प्रदान कर। (ते) वे (त्वधया) अपने प्राणशक्ति से या अपने शरीर के धारण के हेतु (हवीषि अक्षन्) उन भक्षों का भोजन करें। और हे (देव) देव ! विद्वन् ! तत्र (स्वम्) तनी (प्रयत्ता) अति नियमित (हवापि) अन्नों का स्वयं (अद्धि) भोगकर।

असौ हा इह ते मनः ककुत्सलमिव जामयः ।

अभ्ये/नि भूम ऊर्णुहि ॥ ६६ ॥

भा०—(है असौ) हे परलोकगत और परदेशगत पुरुष ! (इह ते मनः) तेरा मन उस लोक में ही लगा है। (जामय इवः) भगिनःयं या स्त्रियं जिस प्रकार (ककुत्सलम्) अपने कन्धे के भाग को ढके रहती हैं, हे (भूमे) भूमे ! तू भी (एनम्) उसको (अभि ऊर्णुहि) सब प्रकार से ढांक, सुरक्षित रख।

क्या यवनों और ईसाइयों में दफन करने का यही मूल तो नहीं है ?

शुम्भन्तां लोकाः पितृपदनाः पितृपदने त्वा लोक आं सादयामि
॥ ६७ ॥

यजु० ५ । ३६ ॥

भा०—(पितृपदनाः) पूज्य पालक पुरुषों के घर, निवास के

मज्जति मानवेभ्यः श्रेष्ठेनो अत्र द्रविणं यथा दधन् इति ऋ० ।

६६—(दि०) 'ककुत्सलमिव' इति सायणाभिमतः ।

६७—'शुम्भन्तां' इति यजु० ।

जीव मोक्षमें (इन्द्रस्य) उस महान् ऐश्वर्यवान्, सूर्य के समान तेजस्वी परमेश्वर के (निष्कृतिम्) उस परम मोक्ष धामको जिसमें और कोई कार्य करना शेष न रह जाय (प्र एति) प्राप्त होता है । तब (सखा सख्युः न) जिस प्रकार मित्र अपने परममित्र के स्थान को प्राप्त करता है और बरचर (संगिः) उत्तम मित्रतायुक्त प्रेमोक्तियों को (प्रमिनाति) ब्रह्मा है उसी प्रकार वह जीव भी उस परमेश्वर के धाम को पहुंच कर उसके संग (संगिरः) उत्तम स्तुति वाणियों को (प्रमिनाति) उच्चारण करता है, उसकी बहुत २ स्तुतियां करता है । और फिर (मर्यः) हे परमेश्वर ! जिस प्रकार पुरुष, मद्र (योपाः इव) नाना स्त्रियों को भी स्वयं भाग लेता है उसी प्रकार प्रेम युक्त होकर तू एक होकर नाना जीवों का अपरानन्त सामर्थ्य में सबको उसी आनन्दमय रूप में (शतयामना पया,) सैकड़ों पुरुषों में चलने योग्य मार्गद्वारा तू (सोमः) सर्व प्रेरक होकर (कलशे) हृदय कलश में (सम् अर्पसे) सबको एक साथ ही प्राप्त होता है, साक्षान् होकर भानन्दित करता है । इसी एक पुरुष के नाना जीव भोगने के दृष्टान्त से पद्मपुराण, भागवत आदि में कृष्ण गोपी आदि के रमण को प्रधानता देने का साम्प्रदायिकों ने यत्न किया है ।

अत्तन्नमीमदन्त ह्यव प्रियाँ अधूपत ।

अस्तोपत् स्वभानवो विप्रा यविष्टा ईमहे ॥ ६१ ॥

ऋ० १ । ८२ । २ ॥ यजु० ३ । ५१ ॥

भा०—(स्वभानवः) स्वयंप्रकाश, ज्ञानी (विप्राः) मेधावी पुरुष जब उस परम ब्रह्मके साक्षात्कार से प्राप्त सोम रस को (अक्षन्) आस्वादन करते हैं तब वे (अमीमदन्त) निरन्तर नृत्य रहा करते हैं, तब ही वे अपने (प्रियान्) प्रिय शरीर के भोगों को (अधूपत) कपांकर क्षाढ़ देते हैं वे अपने कर्म बन्धनों और हार्दिक मलों का त्यागकर अवधूत पापरहित

६१—(द्वि०) 'प्रियाः' (च०) 'विप्रा न विष्टयामती' इति ऋ० ।

भा०—(जातवेदाः) वेदों का जानने द्वारा जो पुरुष सूर्य के समान हमारे पास (दूतः) दूत, उत्तम सदेश पहुंचाने वाले के रूप में (प्रहितः) भेजा (अभूत्) जाता है। वह (सायं विन्ध्यः) सायं प्रातः दोनों समय (नृभिः) पुरुषों द्वारा (उपवन्धः) सदा नमस्कार करने योग्य होता है। हे (जातवेदः) विद्वान् ! तू (हवींषि) नाना अन्न (पितृभ्यः) अपने पूज्यपितरों को (प्र अदाः) प्रदान कर। (ते) वे (स्वधया) अपने प्राणशक्ति से या अपने शरीर के धारण के हेतु (हवींषि अक्षन्) उन अन्नों का भोजन करें। और हे (देव) देव ! विद्वन् ! तव (स्वम्) तमी (प्रयता) अति नियमित (हवंपि) अन्नों का स्वयं (अद्धि) भोगकर।

असौ हा इह ते मनः ककुत्सलमिव जामयः ।

अभ्ये/निं भूम ऊर्णुहि ॥ ६६ ॥

भा०—(है असौ) हे परलोकगत और परदेशगत पुरुष ! (इह ते मनः) तेरा मन उस लोक में ही लगा है। (जामय इवः) भगिन.यं या स्त्रियें जिस प्रकार (ककुत्सलम्) अपने कंधे के भाग को ढकें रहती हैं, हे (भूमे) भूम ! तू भी (एनम्) उसकी (अभि ऊर्णुहि) एव प्रकार से ढाँक, सुशिक्षित रख।

क्या यवनों ओर ईसाइयों में दफन करने का यही मूल तो नहीं है ?
शुभ्रन्तां लोकाः पितृपदानाः पितृपदाने त्वा लोक आसादंयामि
॥ ६७ ॥

यजु० ५ । २६ ॥

भा०—(पितृपदानाः) पूज्य पालक पुरुषों के घर, निवास के

मज्जति मानवेभ्यः श्रेष्ठनो अत्र द्रक्षिणं यथा दधन् इति ऋ० ।

६६—(दि०) 'ककुत्सलमिव' इति सायणामिमतः ।

६७—'शुभ्रन्तां' इति यजु० ।

(लोकाः) लोक (शुभन्ताम्) सुशोभित रहें । हे पूजनीय पुरुष !
 (पितृपदने लोके) पितरों के विराजने के स्थान में (त्वा) तुम्हको
 (आसादयामि) प्राप्त करता हूँ, आदर पूर्वक विडाता हूँ ।

येऽस्माकं पितरस्तेषां वर्हिरसि ॥ ६८ ॥

भा०—(ये) जो (अस्माकं) हमारे (पितरः) पूज्य पालक गुरु-
 जन हैं हे आसन ! त् (तेषां) उनके (वर्हिः असि) वृद्धि को प्राप्त कराने
 वाला, प्रतिष्ठा का आसन है ।

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ।

अथा वयमादित्य व्रते तर्धानागसो अदितये स्याम ॥ ६९ ॥

ऋ० १ । ५४ । १५ ॥ अथर्व० ७ । २३ । ३ ॥

भा०—हे (वरुण) सब से वरण करने योग्य परमेश्वर ! आप हमारे
 (उत्तम) उत्कृष्ट (पाशम्) सात्विक कर्म बन्धन को (उदुत्तमाय)
 रूप से झोल दे । (अधमं पाशं अथ श्रथाय) नीचे के पाशको नीचे ढीला-
 कर, सरकादे और (मध्यमं) बीच-के राजस कर्मबन्धन को भी (वि श्रथाय)
 विशेष रूप से ढीला कर । (अथा) और हे (आदित्य) सूर्य के
 समान, सबके वशयितः । (तव व्रते) तेरे व्रत में निष्ठ होकर (वयम्)-
 हम (अदितये) अखण्ड, अविनाशी पदकी प्राप्ति के लिये (अनागसः)
 पापरहित, (स्याम) हों । ग्याख्या देखो (अथर्व० ७ । ८३ । ३ ॥)

प्रास्मत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् यैः समामे वध्यते यैर्व्यामि ।

अथा जीवेम शरदं शतानि त्वया राजन् गुपिता रक्षमाणाः ॥ ७० ॥

भा०—हे (वरुण) वरुण ! परमात्मन् ! (अस्मत्) हममे (सर्वान्)
 उन सब (पाशान्) कर्मबन्धनों को (प्रमुञ्च) छुड़ा (यैः) जिनों से यह
 जीव (समामे) समान रूप से (वध्यते) बांधा जाता है और जिनों से
 जीव (व्यामे) विशेष रूप से भा बन्ध जाता है । हे ! (राजन्) सबके

(वः यद्) आप लोगों का जो (घोःम्) अयंकर कार्य है (तस्मै नमः) उसका भी हम आदर करते हैं । (यत् वः क्रूरं तस्मै नमः) जो आपका युद्ध आदि के अवसर पर क्रूर शत्रुहिंसा आदि कर्म है उसका भी हम आदर करते हैं । हे (पितरः पितरः) प्रजाके पालक पुरुष ! (वः यत् शिवम् तस्मै नमः) आप लोगों का जो शिव, महल, कल्याणकारी कार्य है उसका हम आदर करते हैं । (वः यत् स्योनं तस्मै नमः) आप लोगों का जो प्रजाके सुख पहुचाने वाला कार्य है उसका हम आदर करते हैं । हे (पितरः २) पालक पुरुषो ! (वः नमः) आप लोगों का हम आदर करते हैं और (वः स्वधा) आप लोगों के निमित्त शरीर पोषक यह अन्न प्रदान करते हैं ।

येत्र पितरः पितरो येत्र यूयं स्थ ।

युष्मांस्तेनु यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ॥ २६ ॥

भा०—हे (पितरः) माता, पिता, आचार्य आदि गुरुजन (!भद्र) इस लोक में (ये) जो भा (पितरः) पालन करनेवाले हैं और (ये) जो (भद्र) यहां (यूयं स्थ) आप लोग हैं उनमें से जो (युष्मान् वनु ते) आप लोगों के अनुगामी है वे पूजनीय हैं । और (तेषाम्) उनमें से (यूयम्) आप लोग ही (श्रेष्ठाः भूयास्थ) श्रेष्ठ, अधिक आदर और प्रशंसा के पात्र रहें ।

य इह पितरो जीवा इह वयं स्मः ।

अस्मांस्तेनु वयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ २७ ॥

भा०—(इह) इस लोक में हे (पितरः) पालक जनो ! (ये)

२६—२७—'पितरो व' इति द्विटानिकामिः । 'येत्र पितरः पितरः स्थ यूयं तेषां श्रेष्ठाः स्थ' । 'य इह पितरो मनुष्या वयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म' इति शा० धा० सू० । य एतस्मि लोके स्थ युष्मांस्ते ऽनु ।

(लोकाः) लोक (शुम्भन्तान्) सुशोभित रहें । हे पूजनीय पुरुष !
(पितृपदने लोके) पितरों के विराजने के स्थान में (त्वा) तुझको
(आसाद्यामि) प्राप्त करता हूं, आदर पूर्वक बिठाता हूं ।

येऽस्माकं पितरस्तेषां बृहिरसि ॥ ६८ ॥

भा०—(ये) जो (अस्माकं) हमारे (पितरः) पूज्य पालक गुरु-
जन हैं हे आसन ! तु (तेषां) उनके (बृहिः अग्नि) वृद्धि को प्राप्त कराने
वाला, प्रतिष्ठा का आसन है ।

उदुत्तमं वरुण पाशंसस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ।

अधा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ६९ ॥

ऋ० १ । ५४ । १५ ॥ अथर्व० ७ । ८३ । ३ ॥

भा०—हे (वरुण) सब से वरण करने योग्य परमेश्वर ! आप हमारे
(उत्तम) उत्कृष्ट (पाशम्) सात्विक कर्म बन्धन को (उदुत्तम)
ऊपर से खोल दे । (अधमं पाशं भव श्रथाय) नीचे के पाशको नीचे हीला-
कर, सरकादे और (मध्यमं) बीच के राजस कर्मबन्धन को भी (वि श्रथाय)
विशेष रूप से हीला कर । (अथा) और हे (आदित्य) सूर्य के
समान सबके वशयितः । (तव व्रते) तेरे व्रत में निष्ठ होकर (वयम्)
हम (अदितये) अखण्ड, अविनाशी पदकी प्राप्ति के लिये (अनागसः)
पापरहित, (स्याम) हों । व्याख्या देखो (अथर्व० ७ । ८३ । ३ ॥)

प्रास्मत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् यैः समामे बध्यते वैव्यामे ।

अधा जीवेम शरदं शतानि त्वया राजन् गुपिता रक्षमाणाः ॥ ७० ॥

भा०—हे (वरुण) वरुण ! परमात्मन् ! (अस्मत्) हममे (सर्वान्)
उन सब (पाशान्) कर्मबन्धनों को (प्रमुञ्च) छुड़ा (यैः) जिनों से यह
जीव (समामे) समान रूप से (बध्यते) बांधा जाता है और जिनों से
जीव (व्यामे) विशेष रूप से भा बन्ध जाता है । हे ! (राजन्) सबके

(वः यद्) आप लोगों का जो (घोरम्) भयंकर कार्य है (तस्मै नमः) उसका भी हम आदर करते हैं । (यत् वः क्रूरं तस्मै नमः) जो आपका युद्ध आदि के अवसर पर क्रूर शत्रुहिंसा आदि कर्म है उसका भी हम आदर करते हैं । हे (पितरः पितरः) प्रजाके पालक पुरुष ! (वः यत् शिवम् तस्मै नमः) आप लोगों का जो शिव, मङ्गल, कल्याणकारी कार्य है उसका हम आदर करते हैं । (वः यत् स्योनं तस्मै नमः) आप लोगों का जो प्रजाको सुख पहुंचाने वाला कार्य है उसका हम आदर करते हैं । हे (पितरः २) पालक पुरुषो ! (वः नमः) आप लोगों का हम आदर करते हैं और (वः स्वधा) आप लोगों के निमित्त शरीर पोषक यह अन्न प्रदान करते हैं ।

येत्र पितरः पितरो येत्र यूयं स्थ ।

युष्मांस्तेनुं यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ॥ २६ ॥

भा०—हे (पितरः) माता, पिता, आचार्य आदि गुरुजन (!अत्र) इस लोक में (ये) जो भा (पितरः) पालन करनेवाले हैं और (यो) जो (अत्र) यहां (यूयं स्थ) आप लोग हैं उनमें से जो (युष्मान् अनु ते) आप लोगों के अनुगामी है वे पूजनीय हैं । और (तेषाम्) उनमें से (यूयम्) आप लोग ही (श्रेष्ठाः भूयास्य) श्रेष्ठ, अधिक आदर और प्रशंसा के पात्र रहें ।

य इह पितरो जीवा इह वयं स्मः ।

अस्मांस्तेनुंवयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ २७ ॥

भा०—(इह) इस लोक में हे (पितरः) पालक जनो ! (ये)

२६-२७—'पितरो व' इति द्विटनिकामिनः । 'येत्र पितरः पितरःस्य यूयं तेषां श्रेष्ठाःस्य' । 'य इह पितरो मनुष्या वयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म' इति शा० ब्रा० सू० । य एतस्मि लोके स्य युष्मांस्ते ऽनु ।

जो (जीवाः) जीव हैं और (इह) इस लोक में (ये वयं स्मः) जो हम लोग भी हैं । (ते) वे सब जीव (अस्मान् अनु) हम से उतर कर रहें । और (वयं) हम (तेषाम्) इन सब जीवों में (श्रेष्ठाः भूयास्म) श्रेष्ठ होकर रहें ।

अर्थात् सब पादकों में से मां बाप, गुरुजन अधिक आदर योग्य हों और अन्य सब जीवों में हम श्रेष्ठ होकर रहें ।

आ त्वाग्नि इधीमहि धुमन्तं देवाजरम् ।

यद् घृ सा ते पनीयसी समिद् दीदयति द्यवि ।

इयं स्तोत्रभ्यु आ भर ॥ ८८ ॥ ऋ० ५ । ६ । ४ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! ज्ञानवन् ! हे (देव) देव ! द्योतमान ! प्रकाश स्वरूप ! (धुमन्तम्) प्रकाशमान् (अजरम्) अविनाशी (त्वा) तेरी (इधीमहि) उपसना करें । (यत्) क्योंकि (ते) तेरी ही (सा) यह जगत् प्रतिद (पनीयसी) अति प्रशंसनीय, स्तुति करने योग्य (समिद्) अति इदीप्यमान सूर्यरूप शक्ति (द्यवि) द्यौलोक में (दीदयति) प्रकाशमान है । हे परमेश्वर ! तू (स्तोत्रभ्यः) गुण गान करने वाले उपासकों को (इयम्) अन्न और भीतरी मानस प्रेरणा को (आ भर) प्राप्त करा ।

चन्द्रमा अष्टादशान्तरा सुपर्णो धावते द्विवि ।

ॐ येऽस्मि लोके मां तेऽनु । य एतस्मिन् लोकेश्य यूयं तेषां वसिष्ठा भूवस्त । येस्मिं लोकेऽहं तेषां वसिष्ठा भूयासम् । इति तै० ब्रा० 'एषा अत्माकं पितरः । इमा अत्माकम् । जीवा वो जीवन्त इह सन्तः स्याम । इति मै० सू० । 'एता युष्माकं पितरः । इमा अत्माकं ।' इति आ० श्रौ० । सू० ॥

८८—'आते अन्न' (तु०) 'यद्द स्यात्' इति ऋ० । ऋग्वेदे वसुधुत अत्रिय ऋषिः ।

करने वाले, लाने वाले हवि=भाजा या उपाय से इस यज्ञ में (जुहोमि)
 आहुति करता हूँ, अपने आपको लगाता हूँ ।

इमं होमा यज्ञमवत्तमं संस्त्रावणा उत ।

यज्ञमिमं वर्धयता गिरः संस्त्राव्ये/ण हविषा जुहोमि ॥ २ ॥

भा०—हे (होमाः) होमो ! यज्ञो ! आप (इमम् यज्ञम्) इस यज्ञ
 की, यज्ञकर्ता पुरुष की या यज्ञमय राष्ट्र की (अवत्त) रक्षा करो ।
 (उत) और हे (संस्त्रावणाः) समस्त ऐश्वर्यों को भली प्रकार प्राप्त करानेवा
 उपायो ! तुम भी (इमम् अवत्त) इस यज्ञपति और राष्ट्रपति की रक्षा-
 करो । (यज्ञम् इमम् इत्यादि पूर्ववत्)

रूपंरूपं वयोवयः संरभ्यैनुं परि ष्वजे ।

यज्ञमिमं चतस्रः प्रदिशो वर्धयन्तु संस्त्राव्ये/ण हविषा जुहोमि ॥ ३ ॥

भा०—(रूपंरूपं) प्रत्येक प्रकार का रूप अर्थात् पशु और (वयोवयः)
 प्रत्येक प्रकार के अन्न और वृक्ष को (संरभ्य) भली प्रकार प्राप्त करके
 मैं (एनम्) इस राष्ट्रपति और यज्ञपति को (परिष्वजे) सब ओर से
 अं लिगन काता हूँ, सब ओर से उसकी रक्षा करता हूँ । (चतस्रः प्रदिशः)
 चारों मुख्य दिशाएँ, अर्थात् चारों दिशाओं के वासीजन (इमम्) उसको
 (-वर्धयन्तु) बढ़ावें । (संस्त्राव्येण हविषा जुहोमि) मैं, धन ऐश्वर्य को
 बढ़ाने वाले हवि=उपाय से राष्ट्र की रक्षा करता हूँ ।



[२] शान्तिदायक जलों का वर्णन ।

सिन्धुद्वीप ऋषिः । आपो देवता अतुष्टमः । पञ्चर्षं सूक्तम् ॥

शं त आपो हैमवतीः शमु ते सन्तुःस्याः ।

२--'होमा यज्ञ पचते इदं' इति पैप्प० सं० ।

[२] १--(द्वि०) 'शं ते' इति सायणाभिमतः । (प्र०) 'शं तापः (तु०)

जो (जीवाः) जीव हैं और (इष्ट) इस लोक में (ये वयं स्मः) जो हम लोग भी हैं । (ते) वे सब जीव (अस्मान् अनु) हम से उत्तर कर रहें । और (वयं) हम (तेषाम्) उन सब जीवों में (श्रेष्ठाः भूयास्म) श्रेष्ठ होकर रहें । अर्थात् सब पालकों में से मां बाप, गुरुजन अधिक आदर योग्य हों और अन्य सब जाँवों में हम श्रेष्ठ होकर रहें ।

आ त्वाङ्ग इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम् ।

यद् घृ सा ते पनीयसी समिद् दीदयति द्यवि ।

इयं स्तोत्रभ्य आ भर ॥ ८८ ॥ ऋ० ५ । ६ । ४ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! ज्ञानवन् ! हे (देव) देव ! द्योतमान ! प्रकाश स्वरूप ! (द्युमन्तम्) प्रकाशमान् (अजरम्) अविनाशी (त्वा) तेरी (इधीमहि) उपसना करें । (यत्) क्योंकि (ते) तेरी ही (सा) यह जगत् प्रसिद्ध (पनीयसी) अति प्रशंसनीय, स्तुति करने योग्य (समिद्) अति देदीप्यमान सूर्यरूप शक्ति (द्यवि) द्यौलोक में (दीदयति) प्रकाशमान है । हे परमेश्वर ! तू (स्तोत्रभ्यः) गुण गान करने वाले उपासकों को (इयम्) अन्न और भान्तरि मानस प्रेरणा को (आ भर) प्राप्त करा ।

चन्द्रमां अष्टादशान्तरा सुपर्णो धावते द्विवि ।

येऽस्मि लोके मां तेषु । य एतस्मिन् लोकेत्य यूय तेषां त्रिभिश्च भूवस्त । येस्मिं लोकेऽहं तेषां त्रिभिश्च भूयासम् । इति तै० ब्रा० 'एष अत्माकं पितरः । इमा अत्माकम् । जीवा वा जीवन्त इह सन्तः स्याम । इति मै० सू० । 'एता युष्माकं पितरः । इमा अत्माकं ।' इति आ० श्रौ० । ८० ॥

८८—'प्राते अग्नि' (नृ०) 'यद्द स्याति' इति ऋ० । ऋग्वेदे वसुधुन आत्रेय ऋषिः ।

करने वाले, लाने वाले हवि=भाजा या उपाय से इस यज्ञ में (जुहोमि)
आहुति करता हूँ, अपने आपको लगाता हूँ ।

इमं होमां यज्ञमवतेमं संत्वावणा उत ।

यज्ञसिमं वर्धयता गिरः संत्वाव्ये/ण हविषां जुहोमि ॥ २ ॥

भा०—हे (होमाः) होमो ! यज्ञो ! आप (इमम् यज्ञम्) इस यज्ञ
की, यज्ञकर्त्ता पुरुष की या यज्ञमय राष्ट्र की (अवत) रक्षा करो ।
(उत) और हे (संत्वावणाः) समस्त ऐश्वर्यों को मली प्रकार प्राप्त करानेवाले
उपायो ! तुम भी (इमम् अवत) इस यज्ञपति और राष्ट्रपति की रक्षा-
करो । (यज्ञम् इमम् इत्यादि पूर्ववत्)

रूपंरूपं वयोवयः संरभ्यन्तुं परिं प्वजे ।

यज्ञसिमं चतत्रः प्रदिशो वर्धयन्तु संत्वाव्ये/ण हविषां जुहोमि ॥ ३ ॥

भा०—(रूपंरूपं) प्रत्येक प्रकार का रूप अर्थात् पशु और (वयोवयः)
प्रत्येक प्रकार के बल और बल को (संरभ्य) मली प्रकार प्राप्त करके
मैं (यज्ञम्) इस राष्ट्रपति और यज्ञपति को (परिप्वजे) सब ओर से
अभिमान करता हूँ, सब ओर से उसकी रक्षा करता हूँ । (चतत्रः प्रदिशः)
चारों मुख्य दिशाएं, अर्थात् चारों दिशाओं के वासीजन (इमम्) उसको
(वर्धयन्तु) बढ़ावें । (संत्वाव्येण हविषा जुहोमि) मैं, घन ऐश्वर्य को
बढ़ाने वाले हवि=उपाय से राष्ट्र की रक्षा करता हूँ ।

[२] शान्तिदायक जलों का वर्णन ।

सिन्धुद्रोप ऋषिः । आपो देवता अनुन्मः । पञ्चर्वं सूक्तम् ॥

शं त आपो हैमवतीः शमु ते सन्तूत्स्याः ।

२—'होमा यज्ञ पचते इदं' इति पैप्प० सं० ।

[२] १—(द्वि०) 'शं ते' इति सायणामिमतः । (प्र०) 'शं तापः (तृ०)

शं ते सन्निप्यद्वा आपः शम् तु ते सन्तु वर्याः/ः ॥ १ ॥

भा०—हे मनुष्य ! (ते) तुझे (हैमवतीः आपः) हिमवाले पर्वतों से बहने वाली जलधाराएं (शम्) सुखप्रद, कल्याणकारी ह । (ते) तुझे (दरियाः) स्रोतों से बहनेवाली जलधाराएं भी (शम् उ सन्तु) सुखकारी हों । (सन्निप्यद्वाः आपः) विशेष वेग से बहने वाली जलधाराएं (ते शम्) तुझे कल्याणकारी हों, (वर्याः) वर्षों से प्राप्त जलधाराएं भी (ते) तुझे (शम् उ सन्तु) शान्तिदायक हों ।

शं तु आपो धन्वन्या उः शं ते सन्त्वनुष्याः/ः

शं ते खन्नित्रिमा आपः शं याः कुम्भेभिराभृताः ॥ २ ॥

भा०—हे मनुष्य ! (धन्वन्याः) धन्व. मरुदेश में होनेवाली (आपः) बल धाराएं (ते शम्) तुझे शान्तिदायक हों । (अनुष्याः) अनुपदेश में उत्पन्न जलधाराएं (ते शम् सन्तु) तुझे शान्तिदायक हों । (खन्नित्रिमाः आपः) खोदकर प्राप्त हुए जल (ते शम्) तुझे शान्तिदायक हों । और (याः) जो (कुम्भेभिः) बर्तनों में (आभृताः) रखे हैं, या बर्तनों द्वारा बुर्रसे लाये हैं वे जल भी (शम्) शान्तिकारक हों ।

अनभ्रयः खनमाना विप्रा गम्भीरे अपसः ।

भिपग्भ्यो भिपक्करा आपो अच्छा वदामसि ॥ ३ ॥

भा०—(अनभ्रयः) खोदने के औज़ार, कुदाल आदि से रहित होकर (खनमानाः) तले को खोदते हुए (गम्भीरे) गंभीर, गहरे स्थान में

प्यदा पाः इति पैप्य० सं० ।

२—(प्र०) 'शं तपो' (तु०)—त्रिमायः इति पैप्य० सं० । (द्वि०)

'सन्त्वनुष्याः' इति तै० ब्रा० ।

३—'गम्भीरे-अपसः' इत्येकेपदे इति सायणः । (द्वि०) गम्भीरेऽपसः

इति पैप्य० सं० ।

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! (ते) तेरा (यः) जो (त्वत्पु) जलों में (महिमा) महान्, महत्वपूर्ण सामर्थ्य है और (यः) जो (वनेषु) वनों में और वनस्पतियों में जो तेरा महान् सामर्थ्य है, (यः क्षीपधीषु) और जो क्षीपधियों में और (पशुषु) पशुओं में, और (त्वत्पु) प्रजाओं में या अपों, नदियों, जलधारा और लोक लोचान्तर्गों में तेरा महान् सामर्थ्य है हे अग्ने ! वृ (सर्वाः) समस्त (तन्वः) रूपोंको (सूरमस्व) उत्तम रीति से प्रकट कर । और (ताभिः) उन सहित (नः) हमें द्रविण, धन, ऐश्वर्य के प्रदाता और (भजतः) अविनाशों, रूपमें (एहि) प्राप्त हो । यस्तै देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तनूः पितृष्वान्विवेशं ।

पुष्टिर्या ते मनुष्येषु पप्रथेग्ने तया रयिमस्मासु धेहि ॥ ३ ॥

भा०—हे (अग्ने) परमेश्वर ! अग्ने ! (ते) तेरा (यः महिमा) जो महान् सामर्थ्य (देवेषु) ज्ञान और ऐश्वर्य के देने और विज्ञान के प्रकाश करने और देखने वाले विद्वानों में, (स्वर्गः) सुख और प्रकाश को प्राप्त काने वाला आनन्दमय है और (या ते तनूः) जो तेरा स्वरूप (पितृषु) प्रजा के पालन करने हारे वृद्ध अनुभवी शक्तिशाली पुरुष और ऋतु आदि पद्यों में (आविवेश) आविष्ट है, इनमें विद्यमान है और (या ते) जो तेरा (पुष्टिः) पोषक स्वरूप से (मनुष्येषु) मनुष्यों में (पप्रथे) विस्तृत है (तया) उस सर्वोपक, ज्ञानमय, रक्षामय, पुष्टिमय स्वरूप से (अस्मासु) हम में (रयिम् धेहि) सर्व प्रकार के ऐश्वर्य और बलों का प्रदान कर ।

श्रुत्कर्णाय कृद्ये वेद्याय वचोभिर्वकैरुपं यामि रातिम् ।

यतो भयमभयं तन्नो अस्त्वव देवानां यजु हेडो अग्ने ॥ ४ ॥

३- प्र०) 'स्वर्गो' इति कचिन् । (दि०) यस्त आत्म पशुषु प्रविष्टः

(च०) तं नो अग्ने जुषमाण एहि इति तै० ब्रा० ।

शं ते सनिष्यद्वा आपः शम् ते सन्तु वर्ष्याः ॥ १ ॥

भा०—हे मनुष्य ! (ते) तुझे (हैमवतीः आपः) हिमवाले पर्वतों से बहने वाली जलधाराएं (शम्) सुखप्रद, कल्याणकारी ह । (ते) तुझे (उरस्याः) स्रोतों से बहनेवाली जलधाराएं भी (शम् व सन्तु) सुखकारी हों । (सनिष्यदाः आपः) विशेष वेग से बहने वाली जलधाराएं (ते शम्) तुझे कल्याणकारी हों, (वर्ष्याः) वर्षा से प्राप्त जलधाराएं भी (ते) तुझे (शम् व सन्तु) शान्तिदायक हों ।

शं त आपो धन्वन्या ३ः शं ते सन्त्वनुष्याः

शं ते खनित्रिमा आपः शं याः कुम्भेभिराभृताः ॥ २ ॥

भा०—हे मनुष्य ! (धन्वः) धन्व. मरुदेश में होनेवाली (आपः) बल धाराएं (ते शम्) तुझे शान्तिदायक हों । (अनुष्याः) अनुपदेश में उत्पन्न जलधाराएं (ते शम् सन्तु) तुझे शान्तिदायक हों । (खनित्रिमाः आपः) खोदकर प्राप्त हुए जल (ते शम्) तुझे शान्तिदायक हों और (याः) जो (कुम्भेभिः) घटों में (आभृताः) रखे हैं, या घटों द्वारा बरसे लिये हैं वे जल भी (शम्) शान्तिकारक हों ।

अनभ्रयः खनमाना विप्रा गम्भीरे अपसः ।

भियग्भ्यो भियक्तरा आपो अचञ्जा वदामसि ॥ ३ ॥

भा०—(अनभ्रयः) खोदने के औज़ार, कुदाल आदि से रहित होकर (खनमानाः) तले को खोदते हुए (गम्भीरे) गंभीर, गहरे स्थान में

प्यदा पाः इति पैप्प० सं० ।

२—(प्र०) 'शं तापो' (तु०) —त्रिमायः इति पैद्य० सं० । (द्वि०)

'सन्त्वनुष्याः' इति तै० ब्रा० ।

३—'गम्भीरे-अपसः' इत्येकेपदे इति सायणः । (द्वि०) गम्भीरेऽपसः

इति पैप्प० सं० ।

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! (ते) तेरा (यः) जो (अप्सु) जलों में (महिमा) महान्, महत्त्वपूर्ण सामर्थ्य है और (यः) जो (वनेषु) वनों में और बनत्वतियों में जो तेरा महान् सामर्थ्य है, (यः क्षीपवीषु) और जो क्षीपवियों में और (पशुषु) पशुओं में, और (अप्सु) प्रजाओं में या अर्षों, नदियों, जलधारा और लोक लोहान्तरों में तेरा महान् सामर्थ्य है हे अग्ने ! वृ (सर्वाः) समस्त (तन्वः) रूपोंको (तरमस्व) उत्तम रीति से प्रकट कर । और (तामिः) उन सहित (नः) हमें द्रविण, धन, ऐश्वर्य के प्रदाता और (अजलः) अविनाशो, रूपमें (एहि) प्रकट हो ।
यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तनुः पितृष्वान्विवेश ।

पुष्टिर्या ते मनुष्येषु पश्येन्ने तया रश्मिस्मासु धेहि ॥ ३ ॥

भा०—हे (अग्ने) परमेश्वर ! अग्ने ! (ते) तेरा (यः महिमा) जो महान् सामर्थ्य (देवेषु) ज्ञान और ऐश्वर्य के देने और विज्ञान के प्रकाश करने और देखने वाले विद्वानों में, (स्वर्गः) सुत्र और प्रकाश को प्राप्त करने वाला आनन्दमय है और (या ते तनुः) जो तेरा स्वरूप (पितृषु) प्रजा के पावन करने हारे वृद्ध अनुभवी शक्तिशाली पुरुष और ऋषि आदि पद्यों में (आन्विवेश) आविष्ट है, उनमें विद्यमान है और (या ते) जो तेरा (पुष्टिः) पोषक स्वरूप से (मनुष्येषु) मनुष्यों में (पश्ये) विस्तृत है (तया) उस सर्वपोषक, ज्ञानमय, रक्षामय, पुष्टिस्वरूप से (अस्मासु) हम में (रश्मि धेहि) सर्व प्रकार के ऐश्वर्य और बलों का प्रदान कर ।

श्रुत्कर्णाय कृद्ये देवाय वचोभिर्वाकैरुपं यामि रातिम् ।

यतो भयमभयं तन्नो अस्त्वव देवानां यज हंडो अग्ने ॥ ४ ॥

३- प्र०) 'स्वर्गो' इति क्वचित् । (दि०) यस्त आत्म पशुषु प्रविष्टः

च०) तं नो अग्ने उषमाय एहि इति तै० ब्रा० ।

भा०—(श्रुत्कर्णाय) श्रवण करने हारे कान रूप, (कवये) कान्तदर्शी, (वेद्याय) परम रूप से ज्ञान करने योग्य, परमेश्वर से (वाकैः) नित्य पाठ करने योग्य अथवा (वाकैः=पाकैः) अच्छी प्रकार सुविचारित (वचोमिः) स्तुति वचनों और वेद मन्त्रों द्वारा (रातिम्) अभिलषित दान की (उपयामि) याचना काता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ कि (यतः) जिधर से भो (भयम्) भय हो (तत्) उधर से (नः भयम् अस्तु) हमें भय हो। हे (अग्ने) अग्रणी, नेतः! प्रभो! आप (देवानां) दिव्य पदार्थों, और विद्वानों अथवा क्रीड़ाशील पुरुषों के (हेडः) क्रोध को (भवयज) दूर कर। राजा और ईश्वर के पक्षमें समान है।



(४) वाणी और आकृति का वर्णन ।

अथर्वाङ्गिरा ऋषिः। अग्निस्त मन्त्रोक्ता देवता । १ पञ्चपदा विराट् अतिजगती,
२ जगती ३,४ त्रिष्टुप् । चतुर्ऋचं सूक्तम् ॥

यामाहुतिं प्रथमामथर्वा या जाता या हव्यमकृणोञ्जातवेदाः ।
तां त एतां प्रथमो जोहवीमि ताभिष्टुतो वहतु हव्यमग्निरग्नये स्वाहा
॥ १ ॥

भा०—(अथर्वा) प्रजापति परमात्मा ने (याम्) जिस (आहुतिम्) आहुति=आहूति उरदेश रूप वेद वाणी को (प्रथमाम्) सब से प्रथम (अकृणोत्) बनाया। और (या) जो स्वयं प्रकट हुई और (या=यया) जिससे (जातवेदः) वेदों के उत्पादक, सर्वज्ञ परमेश्वर ने

[४] १—(द्वि०) 'अथर्वा या जाताय हव्याम्' । (त्व०) 'तामिः स्तुतः' इति सायणामितः (च०) 'तया तृप्ता' इति द्विष्टनिकामितः ।

(हव्यम्) आदान करने योग्य इस समस्त संसार को (अकृणोत्) प्रकट किया (ताम्) उस (एताम्) इस को ही मैं (प्रथमः) सब से प्रथम हे पुरुष ! (ते) मुझे (जोहवोमि) प्रदान करता हूँ, उपदेश करता हूँ (तामिः) उन वेद वाणियों से (स्तुतः) यथार्थ रूप से वर्णन करने योग्य (अग्निः) सर्वप्रकाशक, सब से पूर्व विद्यमान, परमेश्वर (हव्यम्) समस्त संसार, को (वहतु) धारण करता है । (अग्नये) उस अग्नि परमेश्वर की हम (स्वाहा) उत्तम रीति से प्रार्थना करें, हम उसकी स्तुति उपासना करते हैं ।

आकृतिं देवीं सभगा पुरा दध चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु ।
याम्नाशामोमि केवली सा मे अस्तु विदेयमेनां मनांसि प्रविशाम्

॥ २ ॥

भा०—(सुभगाम्) उत्तम ऐश्वर्य या सन्निधि से युक्त, (देवीं) सर्वं गूढतत्वों को दर्शाने और प्रकाशित करने वाली, (आकृतिम्) आकृति मन की अभिप्रायज्ञापिका, वाक्यतत्पर्यरूप शक्ति को मैं (पुरः दधे) साक्षात् धारण करता हूँ, उसको ज्ञान करता हूँ । वह (चित्तस्य) चित्त, ज्ञान करने के साधन रूप अन्तःकरण की (माता) जननेवाली स्वयं (सुहवा) उत्तमरीति से ज्ञान करने वाली (नः) हमें (अस्तु) प्राप्त हो । मैं (याम्) जिस (आशाम्) आशा या कामना को (एमि) प्राप्त करूँ, च.हूँ (सा) वह (मे) मेरी (केवली) अवश्य शुद्धरूप से (अस्तु) पूर्ण हो । औ. (एताम्) इस 'आकृति' नामक अन्तःकरण की विशेष, प्रवच धारणावती, साक्षात्कारशक्ति को

२—(प्र०) 'देवीं मनसः' (हि०) 'यज्ञस्य माता सुहवो मे अस्तु (तु० च०) । यदिञ्चामि मनसा सजानो विदेयं मेनन् हृदये निविष्टम् ।' ति० त्र० ।

(मनसि) ज्ञान या मनन करने हारे आत्मा या मन में (प्रविष्टाम्)
भांतर गुप्त रूप से विद्यमान को भी मैं (विद्म्यम्) जान लूँ, उसका
साक्ष व कहूँ ।

आकृत्या नो बृहस्पत आकृत्या नु उपा गंहि ।

अथो भगस्य नो घेह्यथो नः सुहवो भव ॥ ३ ॥

भा०—हे (बृहस्पते) बृहती वेदवाणा के स्वामिन् ! आप (आकृ-
त्या) अकृति, वाक्य के तात्पर्य रूप उच्चारण करने योग्य वाणी के मर्म
या प्रथम उच्यन्न, मूल बुद्धि रूप से (नः) हमें (उप आगहि) प्राप्त
हो । (आकृत्या नः उप आगहि) 'आकृति' रूप से आप हमें प्राप्त हों ।
(अथो) और (नः) हमें (भगस्य) ज्ञानरूप ऐश्वर्य (घेहि) प्रदान
कर । (अथो) और (नः) हमारे लिये (सुहवः) उत्तम राति से
स्तुतियोग्य, (भव) हो ।

बृहस्पतिर्म आकृतमाङ्गिरसः प्रति जानातु वाचमेताम् ।

यस्य देवा देवताः संवभृवुः स सुप्रणीताः कामो अन्वेत्त्वस्मान्
॥ ४ ॥

भा०—(आङ्गिरसः) अंग २ में रस, प्राण के समान प्रत्येक
भौतिक देह में भी सर्वाष्ट चैनन्य रूप से विद्यमान (बृहस्पतिः) बृहती
वेदवाणी का स्वामी परमेश्वर (ने) मुझे, (आकृतिम्) जो वात मेरे
मुक्त से निकले उसका प्रथम स्पष्ट तात्पर्य रूप विचार और फिर
(एतम्) तदनुरूप प्रकट होने वाली (वाचम्) व्यक्त रूप से उच्चारण

३—(वृ०) 'देहि' इति सायणामिमतः । (य०) 'सुमगो भव' इति
पैप्प० सं० ।

४—'तस्य देवा देवता संवभृवुः शिशुप्रचीह' [?] इति पैप्प० सं० ।
(व०) 'अन्वेत्त्वस्मान्' इति सायणामिमतः ।

की जाने वाली व्यक्त वाणी को भी (प्रति जानातु) मुझे प्रदान करे ।
 (यस्य) जिसके अधीन (देवः) सब दल प्रदान करने और बाह्य
 विषयों का दर्शन, और प्रकाश करने वाले इन्द्रिय भादि प्राण गण
 भी (तु प्रणीताः) उत्तम रीति से प्रयोग किये जाते हैं और (देवताः)
 शरीर में देवता, देव=आत्मा की विशेष शक्तियां, उसके ही विशेष रूप
 होकर (सं बभूवुः) प्रकट होते हैं (सः) वह (कामः) महान् 'काम'
 समष्टिकामना या महती इच्छा रूप, संकल्परूप, 'काम' परमात्मा
 (अस्मान्) हमें (अनु एतु) प्राप्त हो ।

(५) उपास्य देव ।

अथर्वाङ्गिरा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् । एकवर्षं वृत्तम् ।

इन्द्रो राजा जगत्तश्चर्पणां नामधि क्षमि विपुंरूपं यदस्ति ।

ततो ददाति द्वाशुपे वसूनि चोदद् राघ उपस्तुतश्चिद्वर्वाक् ॥ १ ॥

ऋ० ७ । २७ । ३ ॥

भा०—(इन्द्रः) परमेश्वर्यवान्, परमात्मा (जगतः) समस्त
 जगत् का, (चर्पणीनाम्) समस्त प्रजाओं का और (अधि क्षमि) इस
 पृथिवी पर (यत्) जो कुछ भी (विपुंरूपम्) नाना प्रकार के पदार्थ
 हैं उन सबकां (राजा) स्वामी, राजा है । वह (ततः) उस अपने
 स्वजाने में से ही (द्वाशुपे) दानशील पुरुष को (वसूनि) नाना
 जीवनोपयोगी धन, ऐश्वर्य (ददाति) प्रदान करता है । वह ही
 (चित् उपस्तुतः) भक्तिपूर्वक स्तुति करने योग्य है । वह हमें (वर्वाक्)
 नित्य हमारे प्रति (राघः) धन ऐश्वर्य और ज्ञान (चोदद्) प्रदान करे ।

(६) महान् पुरुष का वर्णन ।

पुनश्चक्रम् । नारायण ऋषिः । इत्येव देवता । अनुष्टुप् । षोडशर्चं मूक्तम् ।

सहस्रबाहुः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं विश्वतो वृत्वान्यतिष्ठद् दशाङ्गुलम् ॥ १ ॥

ऋ० १० । ६० । १ ॥ यजु० ३१ । १ ॥

भा०—(सहस्रबाहुः) हजारों बाहुओं वाला, (सहस्राक्षः) हजारों आँखोंवाला, (सहस्रपात्) हजारों पैरोंवाला, (पुरुषः) पुरुष, जो इस समस्त ब्रह्माण्ड रूप पुर में व्यापक है । (सः) वह (विश्वतः) सब ओर से (भूमिम्) भूमि, समस्त प्राणियों और समस्त जगत् की उत्पत्ति करने वाली भूमिके समान उत्पादिका प्रकृति को भी (वृत्वा) रम्यं वाण करके, स्वयं व्याप्त करके (दशाङ्गुलम्) और भी दश अंगुल, अर्थात् और भी दश अंग=विकार भूत पदार्थों को (अतिष्ठत्) अनि क्रमण करके, व्याप्त होकर विराजता है ।

(अति अतिष्ठत् दशाङ्गुलम्) सायण—(१) सात समुद्रों वाली पृथ्वी को अपनी महिमा से व्याप्त करके पहले दशाङ्गुल=हृदयाकाश में परिच्छिन्न रह कर भी सर्व व्यापक होकर विराजता है । (२) वह पुरुष (भूमिम्) भूमि जल आदि पांचों भूतों को अर्थात् पंचभूतों के बने ब्रह्माण्ड और उसके भीतर विद्यमान भूमि, जल आदि विकारों को भी जैसे बड़े आदि पदार्थों में मिट्टी व्याप्त रहती है वैसे व्याप्त करके (दशाङ्गुलम्) दश अंगुल और भी बाहर तक फैला हुआ है (३) एक अंश से ब्रह्माण्ड को व्याप्त करके दश अंशों से कार्य प्रपंच से अछूता रह कर वह स्वप्रतिष्ठ होकर विद्यमान है ।

नहरिं दयानन्द—(दशाङ्गुलम्) पांच स्थूल भूत और पांच सूक्ष्म-

[३] १--(२०) सहस्रशीर्षा' (तु०) 'सर्वतः' इति ऋ० 'स्पृत्वा' इति यजु० ।

भूत इन दस अंगुलियों अर्थात् अंगों से युक्त दशांग जगत् को व्याप्त करके भी उससे अतिरिक्त देश में भी व्याप्त है ।

(सहस्रबाहु, सहस्राक्ष, सहस्रपात्) समस्त व्यष्टि प्राणियों की बाहु, आँखें और पैर उसी की बाहु, आँखें और पैर हैं, अथवा, अनेक कार्य सम्पादन करने से उसके असंख्यात बाहु आदि हैं ।

जैसे गीता में—‘अनेकबाहुदरवक्रनेत्रम् ।’ ‘अनादिमध्यान्तमनन्त वीर्यमनन्तबाहुम् ।’ ‘रूपं महत्ते बहु वक्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहूरूपादम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम्’ इत्यादि । गी० (११ अ०)

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् । सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रै द्यावाभूमौजनयन् देव एकः ॥ ऋ० १०।८१।३॥

त्रिभिः पद्भिर्द्यामरोद्धत् पादस्येहामवत् पुनः ।

तथा व्यक्रामद् विष्वडशनानशने अत्रु ॥ २ ॥

ऋ० १०।६०।४ ॥ यजु० ३१।४ ॥

भा०—ब्रह्माण्ड में व्याप्त परम ब्रह्म शक्ति (त्रिभिः पद्भिः) तीन पाद या अंशों से (द्याम्) द्यौ, प्रकाश रूप मोक्षक्षी (आरोहत्) व्याप्त करता है और (अस्य) उसका (पात्) एक पाद, एक अंश (इत्) इस हृदय जगत् में (पुनः) वार २ सृष्टि और प्रलय के रूप में (अमवत्) प्रकट होता है । (तथा) इसी प्रकार से वह (विश्वम्) सर्वत्र, नाना रूपों में (वि अक्रामत्) व्याप्त हो रहा है । और वह (अशन-अनशने) ‘अशन’ भोजन करने वाले प्राणियों, और ‘अनशन’ भोजन न करने वाले जड़, पर्वत समुद्र आदि समस्त पदार्थों के (अनु) भीतर भी व्याप्त है । अर्थात् परमेश्वर की महान् शक्ति का एक अंश

२--(प्र०) त्रिपाद् ऊर्ध्व उदेन् पुरुषः (तृ०) ‘ततोविश्वद् व्यक्रामत् सारानानशने त्रिभिः’ इति ऋ० यजु०। (द्वि०) पादोऽत्येहामवत् पुनः ।

समस्त संसार को उ पन्न करता, पालता और प्रलय करता है और शेष तीन अंश मोक्षमय, परम तेजोमय, असंग रूप से हैं । यही कहने का प्रयोजन है ।

अध्यात्म में—स्थावर, जंगम आदि देह में आत्मा पुरुष का एक अंश है और शेष ३ अंश असंग, स्वभावतः तेजोमय हैं ।

तावन्तो अस्य महिमानुस्ततो ज्यायांश्च पूरुषः ।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं द्विवि ॥ ३ ॥

ऋ० १० । १० । ३ ॥ यजु० ३१ । ३ ॥

भा०—(अस्य) इस महान् परमेश्वर के (तान्तः महिमानः) वे सब लोक लोकान्तर और उसमें होने वाले बड़े २ कार्य सब उसकी असंख्य 'महिमा', महान् शक्ति के प्रदर्शनमात्र हैं (पूरुषः) विशाल ब्रह्माण्डपुरी से व्यापक वह परमेश्वर, महान् आत्मा (ततो ज्यायान् च) उन सब से कहीं बड़ा है । (विश्वा भूतानि) ये समस्त भूत, घर अचर प्राणि, एवं भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पंचभूत एवं उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ (अस्य) इस महान् पुरुष के (पादः) एक अंश हैं । (अस्य) उसके (त्रिपात्) शेष तीन अंश (द्विवि) द्यौ, परम तेजोमय स्वरूप में (अमृतम्) अमृतमय, परमसुखमय, मोक्षरूप है ।

पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम् ।

उतामृतत्वस्येश्वरो यदन्येनाभवत् सह ॥ ४ ॥

ऋ० १० । १० । २ ॥ यजु० ३१ । २ ॥

भा०—(इदं सर्वं) यह सब कुछ (यत् भूतम्) जो उत्पन्न हुआ और (यत् च) जो (भाव्यम्) उत्पन्न होने वाला है और (यत्) जो

३—(प्र० द्वि०) एतावानस्य महिमातो ज्ययांश्च पूरुषः इति ऋ० यजु० ।

४—(तृ० च०) उतामृतत्वस्येश्वरो यदन्येनातिरोहति । इति ऋ० यजु० ।

(अन्वेन) अन्यरूप से, ब्रह्म या चेतन रूप के अतिरिक्त जड़ प्रकृति (सह अभवत्) साथ रहता है (उत) अ जो स्वयं (अमृतत्वस्य) अमृत स्वरूप, अमृत का सत्ताका (ईश्वरः) स्वामी है वह (पुरुष एव) परम पूर्ण, सर्वव्यापक परमात्मा ही है। परमेश्वर ही जगत् का उत्पादक वही, प्रकृति के साथ अनादि रूप से वर्तमान, और यह परम अनृत मोक्ष का ईश्वर है। 'यद् अन्वेनाभवत् सह' इस पाठ के अनुसार वह ईश्वर ही है जो (अन्वेन सह) भन्न, समस्त जीवों के प्राणप्रद अन्नादि पदार्थों के साथ जीवनशक्ति देने वाले के रूप में विद्यमान है।

यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

मुखं किमस्य किं बाहू किमूरु पादा उच्येते ॥ ५ ॥

ऋ० १०।६०।११ ॥ यजु० । १० ॥

भा०—(यत्) जो विद्वान् ज्ञानी पुरुष (पुरुषम्) उस महान् पूर्ण पुरुष का (वि अदधुः) विधान करते हैं, विशेष रूप से प्रतिपादन करते हैं उसको उन्होंने (कतिधा) भला कितने प्रकार से (वि, अकल्पयन्) विविध रूपों में कल्पित किया है विभक्त किया है? (अस्य) इसके (मुखम् किम्) मुख क्या पदार्थ है। (बाहू किम्) बाहुएँ क्या हैं (ऊरु किम्) जाँघें क्या पदार्थ हैं और (पादा) उसके पैर भाग क्या (उच्येते) कहे जाते हैं?

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्योभवत् ।

मध्यं तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥ ६ ॥

ऋ० १०।६०।१२ ॥ यजु० ३१।११ ॥

५-(तु०) 'मुखं' किमस्यासीत् किं इति यजु० । 'कौबाहू' इति ऋ० ।

'कावूरु' इति तै० आ० 'पादावुच्यते' इति प० सं० ।

६-(द्वि०) 'राजन्य कृतः' (तु०) 'जलतदस्य' इति ऋ० यजु० ।

भा०—(अस्य) इस पुरुष के बनाये सदान् सृष्टिरूप समष्टि में या पुरुषरूप प्रजापति के ब्राह्मण, वेद और विद्वान् यः ईश्वर के साक्षात् उपासकजन (मुखम् आर्सात्) मुख हैं । वे मुखके समान ऊंचेपद पर स्थित, एवं समाज के अग्रणी और प्रमुख हैं । अर्थात् जिस प्रकार पुरुष के शरीर में मुख ऊंचा है उसी प्रकार वेदज्ञ और ब्रह्मोपासक जन समाज के शिरोमणि ज्ञान प्रद और ज्ञान के द्रष्टा हैं । (राजन्यः) राजा के पुत्रके समान पालित वीर योद्धा जन (बाहूकृतः) शरीर में विद्यमान बाहू के समान समाज के शत्रुओं के बाधक, समाज के रक्षक, और बलका कार्य करने में समर्थ बनाये गये हैं । (अस्य यद् मध्यम्) इस समाजरूप विराट् शरीर का जो मध्यभाग है वह भी शरीर में ऊरु, कटि, पेट के समान (तत् वैश्यः) वह वैश्य जन है । (पद्भ्याम्) पैरों से (शूद्र) शूद्र को (अजायत) प्रकट किया जाता है । अर्थात् शूद्रों को पैरों के समान दर्शाया जाता है ।

किसी प्रजापति के शरीर के, मुख आदि अवयवों से गर्भ से बालक के समान ब्राह्मण आदि वर्णों के उत्पन्न होने का मत असम्भव होने से अप्रमाणित है । यह देवल समाज रूप प्रजापति पुरुष जिसकी हजारों आंखों और पैरों आदिका प्रथम मन्त्र में वर्णन किया है उस के ही समाजमय शरीर के अंगों का वर्णन किया गया है ।

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत ।

मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत ॥ ७ ॥

ऋ० १० । १६ । १३ ॥ यजु० ३१ । १२ ॥

७—(तु० च०) 'श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादाग्निर जायत' इति ।
यजु० । (द्वि०) 'चक्षुषोरधिसूर्यः' । नसो वायुश्चप्राणश्च मुखादाग्निर
जायत इति क० ब्रा० ।

भा०—प्रजापति के ब्रह्माण्डमय विराट् शरीर का वर्णन करते हैं ।
 (चन्द्रमाः) चन्द्र (मनसः) मन से (जातः) कल्पना किया गया
 है अर्थात् चन्द्र उस विराट् शरीर के मनया मनन सान्ध्यं वा हृदय स्तण्ड
 के समान है । (चक्षोः सूर्यः अजायत) चक्षु से सूर्य बना । अर्थात् चक्षु के
 स्थान में सूर्य को कल्पित किया । (सुखात् इन्द्रः च अग्निः च) मुखसे इन्द्र,
 अर्थात् विद्युत् और अग्नि दो को कल्पित किया गया । (प्राणाद् वायुः अजा-
 यत) और प्राण, घ्राण इन्द्रिय से वायु अर्थात् प्राण के स्थान में वायु को
 कल्पित किया । मानो उस विराट् शरीर में चन्द्र मन था, सूर्य आंख थी,
 इन्द्र और अग्नि, मुख के दो जबाड़े थे, वायु रूप नासिकागत प्राण था ।

नाभ्यां आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत ।

पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात् तथा लोकाँ अकल्पयन् ॥ ८ ॥

ऋ० १०।६०।७ ॥ यजु० ३१।१४ ॥

भा०—(नाभ्या) नाभी से (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष (आसीत्)
 कल्पित था । (शीर्ष्णः) शिरसे (द्यौः) द्यौ, ऊपर का महान् आकाश
 (स्रम् अवर्तत) कल्पित था । (पद्भ्याम् भूमिः) पैरों से भूमि और
 (श्रोत्रात् दिशः) कानों से दिशाएँ कल्पित की गयीं । (तथा) और उसी
 प्रकार विद्वान् पुरुषों ने (लोकान् अकल्पयन्) अन्य लोकों को भी प्रजा-
 पति शरीर के अन्य अंगों के रूप में कल्पना की । अर्थात् अन्तरिक्ष नामि
 के समान. द्यौ शिर के समान, भूमि पैरों के समान, श्रोत्र दिशाओं के
 समान और अन्य लोक अन्धन्तर अंगों के समान माने ।

विराड्ग्रे समभवद् विराजो अग्निं पूरुषः ।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः ॥ ९ ॥

ऋ० १०।६०।५ ॥ यजु० ३१।५ ॥

भा०—(ततः) उस पूर्ण पुरुष, परमेश्वर से (अग्रे) सब से प्रथम (विराट्) विराट्, नाना ज्योतिर्भय पदार्थों से प्रकाशमान् ब्रह्माण्ड (सम् अभवत्) उत्पन्न हुआ । उस (विराजः) विराट्, सर्व प्रथम उत्पन्न ब्रह्माण्ड के भी (अधि) ऊपर (पुरुषः) उस पुरी में भी ध्यापक परमेश्वर अधिष्ठाता रूप से विराजमान रहा । (सः) वह (जातः) इतने विविध पदार्थों में नाना कार्यों में शक्ति रूप से प्रकट होकर भी (अति अरिच्यत) अभी बहुत अधिक शेष रहा अर्थात् संसार के संचालक अंश से भी अतिरिक्त शक्ति का बहुत बड़ा अंश और शेष था । वही (पश्चात्) इस प्रथम उत्पन्न हिरण्यगर्भ के बाद (भूमिम्) सब जंगम स्यावर सृष्टि के आश्रय और उत्पादक भूमि को उत्पन्न करता है (अथो) और (पुरः) उन सब से पहले विद्यमान रहता है । अथवा (अथो पुरः) और नाना शरीरों को भी रचता है ।

सायण ने कुछ एक अर्थ इस प्रकार किये हैं—(१) आगे विविध प्रदीप्त वस्तुओं का आश्रय विराट् नाम पुरुष हुआ । और (विराजः अधि) उस विराट् से अन्य पुरुष हुआ । वह तृतीय पुरुष यज्ञ रूप उत्पन्न ह ते ही (अति अरिच्यत) बहुत बढ़ा । (भूमिम् पश्चात् अथो पुरः) वह भूमि आदि सब लोको के पीछे के भाग में और आगे अर्थात् पीछे और आगे भी ध्यास करके उनको लांघकर रहा । (२) अध्यात्म पक्षमें—सृष्टि के आदिमें विराट्, मन नामक प्रजापति सहस्रबाहु, सहस्राक्ष पुरुष से उत्पन्न हुआ । उसके बाद (विराजः अधि) विराज् को आश्रय करके (पुरुषः) दूसरा प्रजापति समस्त भूत इन्द्रिय पुरुष समष्टि रूप हुआ । (सः जातः अति अरिच्यत) प्रकट होते ही उसने अपने आपको अनेक रूपों में बना लिया । अर्थात् भूत, इन्द्रिय आदि बनाये । (पश्चात् भूमिम् अति अरिच्यत्) पीछे भूत समूह की सृष्टि के बाद भूमि को बनाया । इससे

आकाश से लेकर पृथिवी तक की सृष्टि कइ दीगयी । (अथो पुरः) भूमि के बाद सात धातुओं से पुरने वाले 'पुर' शरीर, देव, नर, तिर्यक् स्थावर आदि और भी बनाये । (३) अर्थात् मम ही—(अग्ने विराट् सप्तभवत्) उस आदि पुरुष से प्रथम विराट्=ब्रह्माण्डरूप देह उत्पन्न हुआ (विराजः अधि पुरुषः) उसी विराट् देह के ऊपर उस देह का अभिमानी, कोई पुरुष हुआ । अर्थात् वेदान्तग्रन्थ परमात्मा ही अपनी माया से ब्रह्माण्ड रूप बनाकर जीवरूप से ब्रह्माण्डाभिमानी देवता रूप जीव हुआ । (स जातः अति अरिच्यत) वह उत्पन्न होकर अतिरिक्त अर्थात् देव तिर्यक्, नर आदि रूप हुआ । (पश्चात्) उसके पश्चात् उसदे (भूमिन्) भूमि को बनाया । भूमि बनाने के बाद (पुरः) शरीर बनाये ॥ सायण के तृतीय अर्थ को ही महीधर ने अक्षरशः लिखा है ।

उच्चट के मत में—पहले विराट् हुआ । विराट् से (पुरुषः) प्रधान, तेज हुआ । (सः जातः) उस ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता ने उत्पन्न होकर (अति अरिच्यत) और अधिक सृष्टि की । पीछे भूमि और शरीर बनाये ।

यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत ।

वसन्तो अस्यासीदाज्यं त्रीप्स इधमः शरद्भुविः ॥ १० ॥

ऋ० १०। १०। ६ ॥ यजु० ३१। ५ ॥

भा०—(यत्) इव (हविषा) हविः=ज्वोकार करने योग्य, सब प्रकार से अपनी योग्य, साक्षात् करने योग्य (पुरुषेण) ब्रह्माण्ड में व्यापक, पूर्ण पुरुष परमेश्वर से (देवाः) देव, विद्वान् गण (यज्ञम्) यज्ञ, मानस ज्ञानमय उपासना रूप या देवाचना रूप यज्ञ (अतन्वत) करते हैं तत्र (अरुप) इस यज्ञ का (वसन्तः) वर्ष के प्रारम्भ काल के समान दिनका प्रारम्भ भाग (लाज्यम्) यज्ञ में ही जिस प्रकार अग्नि को प्रदीप्त करता है उसी प्रकार आत्मा को शक्ति को प्रदीप्त करता है । (त्रीप्सः) त्रीप्स, वर्ष का त्रीप्स काल जिस प्रकार सूर्य को प्रचण्ड करता

है उसी प्रकार दिन का मध्याह्न काल मानस यज्ञ में आत्मा की जाठर अग्नि और ज्ञान को (इध्मः) अग्नि को काष्ठ के समान दीप्त करता है । और (शरत्) वर्ष का शरत् काल जिस प्रकार सूर्य के तेज को कुछ शीतल या सौम्य कर देता है, लोग उसके सेवन करने के उत्सुक हो जाते हैं, उसी प्रकार मानस यज्ञ करने वाले के लिये (शरत्) अर्ध, रात्रिकाल अत्यन्त शान्तिमय होने से (हविः) आत्मा की समस्त शक्तियों को आत्मा में आहुति कर देने, उनको ध्यानबल से एकत्र कर आत्मा में अभ्यय करा देने के लिये अति उत्तम है । इसी प्रकार जीवन का प्रारम्भ काल, बाल्यकाल वसन्त । आञ्ज्य=त्रल वीर्य के सम्पादन का काल है । ग्रीष्म यौवन, जीवन के लिये इन्धन के समान अधिक तेज, ज्ञान, उजाला, शक्ति का काल है । शरत्, उतरता हुआ बुढ़ापा जब शरीर के बल क्षीण हो रहे हों वह परिपाक काल ज्ञानानुभवों के भी परिपाक का काल है । संवत्सरमय यज्ञ में देव=दिव्यगुण के सूर्य, अग्नि, वायु आदि पदार्थ वसन्त को आञ्ज्य, ग्रीष्म को काष्ठ और शरत् को हवि के समान बनाकर यज्ञ कर रहे हैं ।

उक्त्व के मतमें—वसन्त=सखगुण, ग्रीष्म राजस, शरत् तमोगुण । तीनों गुणों को योगी आत्मयज्ञ में आहुति करते हैं ।

तं यज्ञं प्रावृषा प्रौक्तन् पुरुषं जातमग्रशः ।

तेन देवा अयजन्त साध्या वसवश्च ये ॥ ११ ॥

ऋ० १० । ६० । ७ ॥ यजु० ३१ । ६ ॥

भा०—(तम्) उस (यज्ञम्) पूजनीय यज्ञस्वरूप (अग्रशः) समस्त सृष्टि के भी पूर्व (जातम्) विद्यमान जगत् के कर्ता को योगिजन (प्रावृषा) वर्षा के समान आत्मरूप भूमि में ब्रह्मानन्द के वर्षण करने

११--(प्र०) 'तं यज्ञं वहिषि' (द्वि०) 'अग्रतः' (च०) 'साध्या ऋषयश्च ये' इति ऋ० यजु० । 'साध्याश्च' इति पैप्प० सं० ।

वाले धर्ममेघ समाधि द्वारा (प्र औक्षण) खूब अभिषिक्त करते हैं, आप्ला-
वित करते हैं। (देवाः) देव, ज्ञानी पुरुष, (साध्याः) योगाभ्यास
आदि साधन के करने वाले और (ये च) जो (वसवः) प्राणों के वश
करने वाले हैं वे (तेन) उसी यज्ञमयं परम पुरुष से (अयजन्त)
आत्मयज्ञ सम्पादन करते हैं।

तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चोभयादतः।

गावो ह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः ॥ १२ ॥

ऋ० १०। ६०। १० ॥ यजु० ३१। ८ ॥

भा०—(अश्वाः) अश्व, घांटे और (ये च के च) जो कोई भी (दम-
यादतः) ऊपर नीचे दोनों जगहों के दातों वाले प्राणों हैं (तस्मात्)
उस परम पुरुष से ही (अजायन्त) उत्पन्न होते हैं। और (तस्मात्)
उससे ही (गावः) गौं, दूध देने वाले वे पशु जिनके ऊपर के दात नहीं
होते वे भी उत्पन्न हुए। और (तस्मात्) उससे ही (अजावयाः) बकरी
और भेड़ें भी (जाताः) पैदा हुईं। अर्थात् नाना पशु भी उस ईश्वर के
सामर्थ्य से ही पैदा हुए। अध्यात्म में सब पशु भी उस आत्मा के ही
नाना शरीर हैं। उसी से उत्पन्न होते हैं।

तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे।

छन्दो ह जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥ १३ ॥

ऋ० १०। ६०। ६ ॥ यजु० ३१। ७ ॥

भा०—(तस्मात्) उस (यज्ञात्) पूजनीय, (सर्वहुतः) सर्वस्व
रूप से आहुति कर देने योग्य अथवा सर्वत्र व्यापक, समस्त संसार के
प्रलय काल में अपने भीतर लेने वाले परमात्मा से (ऋचः सामानि जज्ञिरे)

१२-१ द्वि०) 'ये के चो' इति ऋ० यजु०।

१३(तृ०) 'छन्दांसि' ऋ० यजु०। क्वचिन्वय।

जिस प्रकार यज्ञ के प्रज्वलित होने पर ऋक्माम आदि सब उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार उससे भी ऋग्वेद के मन्त्र और साम के समस्त गान उत्पन्न हुए । अथवा (सर्वहुतः) सब को अपने भीतर आहुति रूप से लेने वाले अग्नि से ज्ञानमय ऋचाएं साम और गान के प्रकार भी पैदा हुए । (तस्मात्) उससे ही (छन्दः जज्ञिरे) छन्द, अथर्व के मन्त्र उत्पन्न हुए । और (तस्मात्) उससे ही (यजुः अजायत) यजुर्वेद के मन्त्र, उनमें कहे कर्मोपदेश भी उत्पन्न हुए । अध्यात्म में आत्मयज्ञ करने पर योगसाधना के बल से उसमें ऋग्, यजु, साम, अथर्व, आदि वेदों का भी ज्ञान प्रकट होता है (उव्वट) ।

तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् ।

पशूस्तांश्चक्रे वायव्या/नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ १४ ॥

ऋ० १० । ६० । ८ ॥ यजु० ३१ । ६ ॥

भा०—(तस्मात्) उस (यज्ञात्) यज्ञमय, (सर्वहुतः) सर्व व्यापक, सर्वशुद्ध, एवं सर्वधारक परमेश्वर प्रजापति से (पृषद्-भाज्यम्) दधि, घी आदि समस्त भोज्य पदार्थ (सम्भृतम्) प्राप्त हुआ है । वह ही (तान्) उन नाना प्रकार के (वायव्यान्) वायु के समान तीव्रगामी और (ये नारण्याः) नारण्य, जंगल के वासी, हरिण, सिंह, हस्ती आदि और (ग्राम्याः च) ग्राम के वासी गर्दभ, अश्व, गौ आदि उन सब को (चक्रे) उत्पन्न करता है ।

अथवा—(सर्वहुतः पृषदाज्यम् संभृतम्) सब के जीवनदाता उस प्रजापति से ही वह 'पृषद्-भाज्य' प्रायेक 'पृ' शरीर में 'सत्' व्यापक भाज्य=वीर्य विन्दु (संभृतम्) प्राप्त हुआ है । उसी के द्वारा उसने सरस्त पशु आदि प्राणियों की सृष्टि की ।

सप्तस्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त सामिधः कृताः ।

देवा यद् यज्ञं तन्वाना अर्धधन् पुहपं पशुम् ॥ १५ ॥

ऋ० १०। ६०। १५ ॥ यजु० ३१। १५ ॥

भा०—(देवाः) देव, विद्वान् योगीजन (यद्) जब (यज्ञं तन्वानाः) यज्ञ, ज्ञानमय उपासना को करते हुए (पशुम्) दर्शनयोग्य, या सर्वद्रष्टा (पुरुषम्) देह और ब्रह्माण्ड में व्यापक आत्मा को (अर्धधन्) समाधि द्वारा साक्षात् करते हैं तो देखते हैं कि (अस्य) उसकी (सप्त परिधयः) सात परिधि, उसको सब ओर से बांधने वाले या घेरने वाले पदार्थ हैं और (त्रिः सप्त सामिधः कृताः) तीन साते, इकोस पदार्थ उस यज्ञ के (समूहः) उत्तम रीति से प्रकाशक (कृतः) बनाये गये हैं ।

सात परिधियें—प्रयत्नी आदि सात छन्द, यज्ञ में आहवनीय की तीन परिधि, उत्तर वेदि की तीन और सातवां आदित्य । भाष्यवाद में—पृथिवी, अप तेज, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, और शरीर योग में मांस त्वचा, मेद, अस्थि, शुक्र, शोणित, मज्जा ये सात घातुएँ । २१ समिधें १२ मास, ५ ऋतुएँ और आदित्य । आध्यात्म में—५ महाभूत, ५ तन्मात्रा, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, और मन । ब्रह्माण्ड में प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, ५ महाभूत, ५ सूक्ष्मभूत, ३ गुण, ५ ज्ञानेन्द्रिय ।

मूर्ध्नो देवस्य बृहतो अंशवः सप्त संसतीः ।

राज्ञः सोमस्याजायन्त जातस्य पुरुपादधि ॥ १६ ॥

भा०—(पुरुपात्) व्यापक परमेश्वर से (अधि जातस्य) उत्पन्न (मूर्ध्नः) सब से ऊंचे शिरके समान सर्वोपरि विद्यमान, (बृहतः) महान्, (देवस्य) प्रकाशमान, (सोमस्य) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक, बीजमय (राज्ञः) भक्ति प्रदीप्त हिरण्यगर्भ के घटक (सप्त संसतीः) ४९०

चारसौ नव्वे (अंशवः) अंशु व्यापक सूक्ष्मत्व (अजायन्त) उत्पन्न हुए ।
ब्रह्माण्ड और वीर्य के ४९० घटक सूक्ष्मत्वों का विश्लेषण वैज्ञानिक करें ।

[७] नक्षत्रों का वर्णन

गार्ग्य ऋषिः । नक्षत्राणि देवताः । त्रिष्टुभः । पञ्चर्च सूक्तम् ॥

चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि ।

तुर्मिशं सुमतिमिच्छमानो अहानि गीर्भिः संपर्यामि नाकम् ॥१॥

भा०—(चित्राणि) चित्र विचित्र नाना वर्ण के (साकम्) एक साथ (रोचनानि) दीप्तिमान् (भुवने) उत्पन्न ब्रह्माण्ड में (जवानि) वेगवान्, (सरीसृपाणि) सदा गतिशील (अहानि) कभी नष्ट न होने वाले नक्षत्रों को और (नाकम्) सुखमय द्यौलोक को (गीर्भिः) उत्तम ज्ञानवाणियों से (तुर्मिशम्) हिंसाकारी, अनिष्ट के नाशक (सुमतिम्) शुभमति को (इच्छमानः) चाहता हुआ (सपर्यामि) उनका ज्ञान करूं, उनके द्वारा उचित कार्य और तदनुसार होने वाली अन्तर्दि और आकाश की घटनाओं के जानने का अभ्यास करूं ।

सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शमाद्रा ।

पुनर्वसु सूनृता चारु पुष्यां भानुराश्लेषा अयनं मघा में ॥ २ ॥

भा०—हे (अग्ने) सूर्य ! विद्वन् ! (कृत्तिका रोहिणी च) कृत्तिका और रोहिणी दोनों नक्षत्र (सुहवं) उत्तम रीति से यज्ञ करने योग्य हों । (मृगशिरः) मृगशिरा नक्षत्र (मदम् अस्तु) सुखकारी हो । (शमाद्रा-शम्) शमाद्रा नक्षत्र शान्तिदायक हो । (पुनर्वसु) दोनों पुनर्वसु नक्षत्र

(सूनृता) शुभ, उत्तम वाणी और ज्ञान देने वाले हों। (पुष्यःचारु) पुष्य नक्षत्र उत्तम हो। (आश्लेषा) आश्लेषा नक्षत्र (भानुः) अति दीप्ति-जनक हो और (मघा) मघा नक्षत्र (मे) मेरे लिये (अयनम्) सब सम्पत्ति प्राप्त करने वाला या सूर्य की गति का चरमस्थान हो।

पुरयं पूर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्ताश्चित्रा शिवा स्वाति सुखे में अस्तु।
राधे विशाखे सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्ट मूलम् ॥ ३ ॥

भा०—(पूर्वाफल्गुन्यौ) पूर्वा फल्गुनी के दो नक्षत्र (पुरयम्) पुरय, सुखकर हों। (अत्र) इस लोक में (हस्तः) हस्त नक्षत्र और (चित्रा) चित्रा नक्षत्र (शिवा) कल्याणकारी हो। (स्वाति) स्वाति नक्षत्र (मे सुखः अस्तु) मुझे सुखकारी हो। (राधे विशाखे) हे राधा नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र तुम दोनों भी (सुहवा) उत्तम रीति से यज्ञ करने योग्य और (अनुराधा) अनुकूल सिद्धि देने वाले होवें। (ज्येष्ठा सु-नक्षत्रम्) ज्येष्ठा उत्तम नक्षत्र हो। (मूलम् अरिष्ट) मूल नक्षत्र भी कल्याणकारी हो।

अन्नं पूर्वा रासतां मे अपाढा ऊर्जं देव्युत्तरा आ वहन्तु।

अभिजित्मे रासतां पुरयमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कुर्वतां सुपुष्टिम् ॥४॥

भा०—(पूर्वा अपाढा) पूर्वा अपाढा नक्षत्र (मे अन्नम्) मुझे अन्न (रासताम्) प्रदान करे। (उत्तरा) उत्तरा अपाढा नक्षत्र (देवी) प्रकाशवान् होकर (ऊर्जम्) उत्तम अन्न रस और चल (आवहन्तु) प्राप्त करावें। (अभिजित्) अभिजित् नामक नक्षत्र (मे पुरयम् रासताम्)

३—'पुरयं द्वयाफल्गुन्यौ' अथवा—'पूर्वाफल्गुन्यौ चोत्तरा', 'स्वाति' 'स्वाती वा कश्चिद्। 'सुखा' 'सुखं' वा(तु०) 'राधा' अथवा 'राधो, विशाखो', 'अरिष्ट' इत्यादि द्विदिनितानि संशोधनानि। 'सुखा' इति तावणाभिमतः।

मुझे पुण्य पवित्रता प्रदान करे । (श्रवणः श्रविष्ठाः) श्रवण और श्रविष्ठा दोनों नक्षत्र (सुपुष्टिम्) उत्तम पुष्टि प्रदान (कुर्वताम्) करें ।

आ में महच्छतभिषग् वरीय आ में द्वया प्रोष्टपदा सुशर्म ।
आ रेवती चाश्वयुजौ भगं म आ में रथि भरण्य आ वहन्तु ॥१॥

भा०—(महत् शतभिषग्) बड़ा भारी शतभिषग् नामक नक्षत्र मुझे (वरीयः) धन प्राप्त करावे । (द्वया प्रोष्टपदा) दोनों प्रोष्टपदा नाम के नक्षत्र (मे सुशर्म आवहताम्) मुझे उत्तम सुख प्रदान करें । (रेवती अश्वयुजौ च) रेवती और अश्वयुग् या अश्विनी के दोनों नक्षत्र (मे भगम् आ) मुझे ऐश्वर्य प्राप्त करावें । (भरण्यः) भरणी नाम के नक्षत्र (मे रथिम् आ वहन्तु) मेरे लिये ऐश्वर्य समृद्धि प्रदान करावें ।

[८] नक्षत्रों का वर्णन ।

गार्ग्य ऋषिः । मन्त्रोक्तानि नक्षत्राणि देवताः । ६ ब्रह्मणस्पतिर्देवता । १ विराट् जगती । २, ५, ७ त्रिष्टुभः । ६ अथवसाना पदपदा अति जगती । सप्तर्चं सूक्तम् ॥

यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु भूमौ यानि नगेषु दिक्षु ।

प्रकल्पयन्श्चन्द्रमां यान्येति सर्वाणि ममैतानि शिवानि सन्तु ॥१॥

भा०—(यानि) जो नक्षत्र (दिवि) आकाश में विद्यमान हैं (यानि) और जो (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष, वायुमण्डल में, (अप्सु) जलों में या समुद्रों में, (भूमौ) भूमि पर (नगेषु) पर्वतों पर और (दिक्षु)

४—(प्र०) 'रासन्तान्' इति द्विदिकामितः । (द्वि०) 'देषुत्तरा' इति क्वचित् । 'दिव्य उत्तरा' इति सायणाभिमतः । 'ये क्षुत्तरे' इति क्वचित् । 'या पुत्तरा वा' इति द्विदिकामितः । 'अत्रपूर्वा रासतां मे अवाजे जेदेव्युत्तरा वदान्' इति लेन्यनकामितः ।

या स्त्री और (पुरुष्याः च) पुरुष पवित्र मार्ग से जाने वाला पुरुष अर्थात् उत्तम स्त्री पुरुष दोनों (मेहतान्) मूत्र करें अर्थात् तेरा अपमान करें तुझे मान झाड़ न दें ।

सु—इत्यज्ञनाम [निघं० अ० ७ । २]

इमा या ब्रह्मणस्पते विष्ट्रीचीर्वात् ईरते ।

सुष्ट्रीचीरिन्द्र ताः कृत्वा मह्यं शिवतमास्त्वृधि ॥ ६ ॥

भा०—हे (ब्रह्मणस्पते) वेद के जानने हारे ब्रह्मन् ! विष्ट्रन् ! तेरे (या इमाः) इन जिन (विष्ट्रीचीः) नाना दिशाओं को (वातः) वायु प्रबल वात (ईरते) कंपा देता है (ताः) उनको हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् आचार्य या ईश्वर ! तू (सुष्ट्रीचीः) एक साथ अपने २ स्थान पर यथास्थान (कृत्वा) करके तू उनको (मह्यं) मेरे लिये (शिवतमाः कृधि) अव्यन्त कल्याणकारी बना ।

स्वस्ति नो अस्त्वभयं नो अस्तु नमोहोरात्राभ्यामस्तु ॥७॥

भा०—हे ईश्वर ! (नः) हमारा (स्वस्ति अस्तु) कल्याण हो । (नः अभयम् अस्तु) हमें अभय हो, कहीं भी भय न रहे । (अहोरात्राभ्यां) दिन रात्रि पर (नमः) हमारा वश (अस्तु) हो ।



(६) सुख शान्ति की प्रार्थना

अस्रष्टपिः । शान्तिरुत्तमम् । शान्तिर्देवता । १ विराड् व्रो वृहती । ५ पञ्चमदा पथ्यापंक्तिः । ९ पञ्चमदा ककुम्भती । १२ श्रवसाना उत्तमदा कटिः । १४ चतुष्पदा संहतिः । २, ४, ६, ८, १०, ११, १३ ककुम्भमः । चतुर्दशर्व वृहन् ॥

शान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्वान्तरिक्षम् ।

शान्ता उद्वन्वर्तीरापः शान्ता नः सन्त्वोपथीः ॥ १ ॥

भा०—(द्यौः शान्तम् अस्तु) द्यौः, आकाश शान्त, शान्तिदायक, सुखप्रद हो (पृथिवी शान्ता) पृथिवी शान्तिदायक हो । (इदम्, उरु अन्तरिक्षम्) यह विशाल अन्तरिक्ष (शान्तम्) शान्तिदायक हो । (उदन्वृत्तीः आपः) समुद्र के जल भी (शान्ताः) शान्तिदायक हों । (नः) हमारे लिये (ओपधीः) ओपधियों (शान्ताः) शान्तिदायक हों । ये सब पदार्थ हमारे लिये सुखकारी, शान्तिदायक हों और उपद्रवकारी, कष्टप्रद न हों ।

शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्तं नो अस्तु कृताकृतम् ।

शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमेव शमस्तु नः ॥ २ ॥

भा०—(पूर्वरूपाणि) पहले २ प्रादुर्भूत हुए उपद्रवों और रोगों के पूर्व रूप हमारे लिये (शान्तानि) शान्तिदायक हों, कष्टजनक न हों । (नः) हमारे (कृताकृतम्) किये विरुद्ध कार्य और न किये या प्रमादवश न किये हुए अवश्य कर्तव्य कार्य भी (नः) हमें (शान्तम् अस्तु) शान्तिदायक हों, अर्थात् अनर्थजनक न हों । (भूतम् भव्यम् च शान्तम्) भूत, अतीतकाल और भव्य, भविष्यत् काल दोनों भी हमें सुखप्रद हों । (नः) हमारे लिये (सर्वम् एव) सब ही (शम्) शान्तिदायी, कल्याणकारी हों ।

इयं या परमेष्ठिनी वाग् देवी ब्रह्मसंशिता ।

ययैव संसृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः ॥ ३ ॥

भा०—(या) जो (इयम्) यह (परमेष्ठिनी) परम, सबके पालन में समर्थ, सर्वोपरि विद्यमान, परमेश्वर में स्थित (वाग्देवी) वाणी-रूप दिव्य शक्ति (ब्रह्मसंशिता) ब्रह्म, ब्रह्मवर्चस, ब्रह्मचर्य के बल से अति बलवती है, (यया एव) जिससे ही (घोरम्) अति घोर, भयानक कार्य (संसृजे) किये जा सकते हैं (तया एव) उससे ही (नः) हमें (शान्तिः) सुखप्राप्ति (अस्तु) हो ।

इदं यत् परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्मसंशितम् ।

येनैव संसृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥ ४ ॥

भा०—(यत्) जो (इदम्) यह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने योग्य (ब्रह्मसंशितम्) ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मचर्य के बल से तर्पण होकर (परमेष्ठिनम्) परम स्थान में स्थित (वां मनः) हे श्री पुरुषो ! तुम दोनों का मन है (येन एव) जिससे ही (घोरं संसृजे) घोर, क्रूरकर्म भी किये जा सकते हैं, (तेन एव नः शान्तिः अस्तु) उससे ही हमें शान्ति सुख प्राप्त हो। इमानि यानि पञ्चैन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि । यैरेव संसृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः ॥ ५ ॥

भा०—(इमानि यानि) ये जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त (मनः षष्ठानि) छठे मन सहित (पञ्च इन्द्रियाणि) पांच ज्ञानेन्द्रिय (ब्रह्मणा) ब्रह्मचर्य के बल से (संशितानि) अति उत्तम रूप से खूब तर्पण होकर (मे हृदि) मेरे हृदय में, आत्मा में धाध्रित हैं (यैः एव घोरम् संसृजे) जिनके द्वारा घोर कार्य भी किया जाता है (तैः एव) उनसे ही (नः शान्तिः अस्तु) हमें शान्ति प्राप्त हो।

शं नो मित्रः शं वरुणः शं विष्णुः शं प्रजापतिः ।

शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो भवत्वर्च्यमा ॥ ६ ॥

यजु० ३६।९।॥ ऋ० १।९०।॥

भा०—(नः) हमें (मित्रः) सबका स्नेही, सबको मरण से बचाव करने वाला पुरुष (शम्) शान्तिदायक हो। (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ, सबके

४—'मनो वा' इति सिद्धनिकामितः ।

६—प्र० च० वृ० द्वि० इति पादानां क्रमः । ऋ० यजु० । शंनो विष्णुरक्तामः

इति ऋ०, यजु० ।

वरण करने योग्य, एवं सय शत्रुओं का वारक पुरुष (शम्) कल्याणकारी हो । (विष्णुः) व्यापक, सर्वत्र प्रभुता से सम्पन्न या व्यवस्थापक पुरुष हमें शान्तिदायक हो । (प्रजापतिः शम्) प्रजा का पालक पुरुष भी शान्ति-दायक हो । (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् (बृहस्पतिः) बृहती, वाणी का पालक विद्वान् पुरुष (अर्यमा) और दुखों का नियामक, न्यायकारी पुरुष ये सब (शम्) सदा हमें कल्याण सुख प्रदाता (भवतु) हो । अथवा वे सय विशेषण परमेश्वर के हैं । गुण भेद से सभी नाम परमात्मा के भी हैं ।

शं नो मित्रः शं चरुणः शं विवस्त्रांलुमन्तकः ।

उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शं नो दिविचरा ग्रहाः ॥ ७ ॥

श्रु० १ । ९० । ९ ॥ यजु० ३६ । ९ ॥

भा०—(मित्रः) सय का सहेही, सयका मरण से ज्ञाता (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ, सय के वरण करने योग्य, सय दुःखों का वारक (शम् शम्) सुखकारी शान्तिदायक हो । (विवस्वान् शम्) विविध वस्तुओं, जीवों को प्राण देकर बसाने वाला या विविध ऐश्वर्यों का स्वामी पुरुष या सूर्य या परमेश्वर (शम्) शान्ति प्रदान करे । (अन्तकः) अन्त करने वाला मृत्यु भी (शम्) हमें शान्ति दे, हमारी पूर्णायु हो । (पार्थिवान्तरिक्षाः) पृथिवी और अन्तरिक्ष में होन वाले (उत्पाताः) नाना उपद्रव और (दिविचराः) द्यौ, आकाश में विचरने वाले ग्रह भी (नः शम्) हमें शान्तिदायक हों ।

शं नो भूमिर्वैष्यमाना शमुत्का निर्हतं च यत् ।

शं नात्रो लोहितक्षीराः शं भूमिर्वं तीर्यतीः ॥ ८ ॥

७—(वृ०) 'पार्थिवाऽन्तरिक्षाच्छं नो' इति क्वचित् ।

८—(प्र०) 'वैष्यमाना' इति क्वचित् । 'उल्कानिहत' इति क्वचित् । (च०)

भूमिर् 'वतीर्यती' इति सायणाभिमतः ।

भा०—(वेप्यमाना भूमिः शम्) किन्हीं भी प्राकृतिक उद्वेगों से कंपाई गयी भूमि (नः) हमारे लिये (शम्) सुखकारी हो, हमें हानि-कारक न हो । (उल्का शम्) आकाश से भूमिपर गिरने वाले लघुग्रह (शम्) शान्तिदायक हों । और (यत् निर्हन्तम्) जो भी वेग से पृथ्वीपर आकर गिरें वह भी हमें शान्तिदायक हों । (गावः) गौएं जो (लोहितचाराः) विपरीतकाल या रोग के कारण रुधिर के समान दूध देती हों वे भी (शम्) शान्ति दें । और (अत्र तीर्यतीः) अत्रात्र फट जाने वाली (भूमिः) भूमि भी (शम्) शान्ति सुखकारी हो, हानि न पहुंचावे ।

नञ्जत्रमुल्काभिहतं शमस्तु नः शंतां भिचाराः शमुं सन्तु कृत्याः ।
शंतां निखाता वल्गाः शमुल्का देशोपसर्गाः शमुं नो भवन्तु ॥१॥

भा०—(उल्काभिहतम्) उल्का उपग्रहों से अभिहत, युद्ध (नञ्-त्रम्) नञ्त्र (नः शम् अस्तु) हमारे लिये कल्याणकारी हो । (अभिचाराः) दूसरों के हमपर गुप्त अभिचार, आक्रमण भी (नः शम्) हमारे लिये शान्त ही रहें, न उठें, न सफल हों । (कृत्याः) घातक क्रियाएं भी (शम् उ सन्तु) शान्त ही रहें । (निखाताः) धोखा देकर गिर कर मारने, या भीतर विस्फोटक द्रव्य भरकर उड़ा देने के लिये खोदे हुए स्थान सुरंग या Mines (नः) हमारे लिये शान्त, निरुपद्रव, हानिरहित रहें । (वल्गाः) अन्य कपट के हिंसा के कार्य भी हमारे लिये शान्त रहें । (उल्काः) पृथ्वीपर उल्काओं का गिरना (शम्) शान्त हो । (देशोपसर्गाः) देश में उत्पन्न होने वाले संहारक उपद्रव (नः) हमारे लिये (शं उ भवन्तु) शान्त ही रहें, उत्पन्न ही न हों ।

शं नो ग्रहांश्चान्द्रमस्ताः शमादित्यश्चं राहुणा ।

शं नो मृत्युर्धूमकेतुः शं रुद्रास्तिग्मतोजसः ॥१० ॥

९-(वृ०) 'वल्गाः' इति क्वचित् ।

१०-(द्वि०) आदित्यः इराडुना इति वदुः ।

भा०—(चान्द्रमसाः) चन्द्रमा से सम्बद्ध, चन्द्रमा से युक्त वा चन्द्रमा को ग्रहण करने वाले भूमि की छाया आदि (ग्रहाः) ग्रह (नः शम्) हमें शान्ति दें । (राहुणा) प्रकाश के नाशक, आवरण से युक्त (आदित्यः च) आदित्य भी (शम्) शान्ति दे । (सृत्युः) जनों के सृत्यु का कारण (धूमकेतुः) धूमकेतु ग्रह (नः शम्) हमारे लिये शान्त, हानिरहित रहे । (तिग्मेजसः रुद्राः) तीक्ष्ण प्रकाश वाले, प्रजा को रूलाने वाले नाना 'रुद्र' नामक केतु ग्रह अथवा प्राण अपान आदि ११ रुद्र भी (शम्) शान्त रहें, उत्पात न करें ।

शं रुद्राः शं वसवः शमादित्याः शमरनयः ।

शं नो महर्षयो देवाः शं देवाः शं बृहस्पतिः ॥११॥

भा०—(रुद्राः शम्) प्रजा के रूलाने वाले, 'रुद्र' रूप ४४ वर्ष के ब्रह्मचर्य के पालक निष्ठ पुरुष हमारे लिये शान्तिदायक हों । (वसवः) वसु नामक २४ वर्ष के ब्रह्मचारी (शं) हमारे लिये कल्याणकारी हों । (आदित्याः) आदित्य, ४८ वर्ष के बाल ब्रह्मचारी गण हमें (शम्) सुख दें । (अग्रयः) अग्नि के समान तीक्ष्ण स्वभाव के पुरुष अथवा राजागण, षत्रियजन और अन्य विद्वान् लोग हमें (शम्) सुख दें । (देवाः) ज्ञान प्रकाशक, ज्ञानप्रद, तेजस्वी (महर्षयः) बड़े २ मन्त्रदृष्ट ऋषियजन (नः शम्) हमारे लिये शान्तिदायक हों, (देवाः) देव, विद्वान्गण और संसार के दिव्य पदार्थ (शं) शान्तिदायक हों । (बृहस्पतिः शम्) महान् लोकों का पालक परमेश्वर हमें शान्ति दे । अथवा (रुद्राः) रुद्र ११—प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कृमि, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय और जीव । वसु आठ—अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, द्यौः, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र और

१२ आदित्य, १२ मास (अग्नयः) अग्निये वैतानिक आदि पांच इत्यादि सब हमें शान्ति दें ।

ब्रह्मं प्रजापतिर्भ्राता लोका देवाः सप्त ऋपयोनयः ।

तैर्मे कृतं स्वस्त्ययनमिन्द्रो मे शर्मं यच्छतु ब्रह्मा मे शर्मं यच्छतु ।
विश्वं मे देवाः शर्मं यच्छन्तु सर्वे मे देवाः शर्मं यच्छन्तु ॥ १२ ॥

भा०—(ब्रह्म) महान्, सच्चिदानन्द परमेश्वर (प्रजापतिः) प्रजा का पालक, (धाता) सबका पोषक हिरण्यगर्भ (लोकाः) समस्त लोक, (वेदाः) ज्ञानमय समस्त वेद, ऋग्, यजुः, साम, अथर्व एवं उनके व्याख्यान, (सप्त ऋपयः) सात ऋषि सात प्रकार के मन्त्रार्थदृष्टा, अथवा शरीरस्थ सात इन्द्रिये और (अग्नयः) पांचों अग्निये, अग्नि, विद्युत्, सूर्य, जाठर और ब्रह्म । (तैः) इन सब में मेरे लिये (स्वस्त्ययनम्) कल्याण का मार्ग (कृतम्) बना हो । (इन्द्रः) इन्द्र, परमेश्वर (ये) मुझे (शर्मं यच्छतु) सुख प्रदान करें । (ब्रह्मा) वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा (मे) मुझे (शर्मं यच्छतु) सुख प्रदान करे । (विश्वे देवाः) समस्त विद्वान् ज्ञानप्रद पुरुष (मे शर्मं यच्छन्तु) मुझे सुख शान्ति दें । (सर्वे देवाः मे शर्मं यच्छन्तु) समस्त प्रकाशक पदार्थ या राजागण मुझे शान्ति प्रदान करें ।

यानि कानि विच्छान्तानि लोके सप्तऋपयो विदुः ।

सर्वाणि शं भवन्तु मे शं मे अस्त्वभयं मे अस्तु ॥ १३ ॥

भा०—(लोके) लोक में (सप्त ऋपयः) शरीरगत सातों इन्द्रिये और उन द्वारा सूक्ष्म ज्ञान के प्राप्त करने वाले विद्वान् ब्राह्मण (यानि कानिचित्) जिन किन्हीं पदार्थों को भी (शान्तानि) शान्तिदायक (विदुः)

१२—(प्र०) 'दक्षा प्र' 'लोका देवाः' इति द्विजन्तानितिः ।

१३—'लोके उत्तरेयो' इति कचित् ।

जाने (सर्वाणि) वे सब (मे शं भवन्तु) मेरे लिये कल्याणकारी हों ।
(मे शम् अस्तु) मुझे शान्ति प्राप्ति हो, (अभयम् मे अस्तु) मुझे अभय
प्राप्त हो ।

पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिद्यौः शान्तिरापः शान्तिरोप-
धयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वं मे देवाः शान्तिः सर्वं मे देवाः
शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिभिः । ताभिः शान्तिभिः सर्वं शान्तिभिः
शमयामोहं यद्विह घोरं यद्विह क्रूरं यद्विह पापं तच्छान्तं तच्छिवं
सर्वमेव शमस्तु नः ॥ १४ ॥

यजु० ३६। १७ ॥

भा०—(पृथिवी, अन्तरिक्षम्, द्यौः, आपः, ओपधयः, वनस्पतयः,
विश्वे देवाः, सर्वं देवाः) पृथिवी, अन्तरिक्ष=वायु, द्यौ, आकाश जल, ओप-
धियां, वनस्पति, वड़े वृक्ष, समस्त देव=विद्वान् लोग, सब देव=दिव्यगुणवान्
पदार्थ (मे) मेरे लिये (शान्तिः) शान्ति उत्पन्न करें । (शान्तिभिः)
समस्त प्रकार की शान्तियों के साथ २ (शान्तिः) मेरा शान्तिमयी आत्मा
भी (शान्तिः) शान्तिरूप धारण करे । (ताभिः शान्तिभिः) उन शान्तियों
से और अन्यान्य (सर्वं शान्तिभिः) सब प्रकार के शान्ति साधनों से
(अहम्) हम लोग (शम् श्रयामः) शान्तिमय परम सुख को प्राप्त हों ।
अथवा (यत् इह घोरम्) जो पदार्थ इस लोक में (घोर) कष्टदायक,
(यत् इह क्रूरम्) जो यहाँ क्रूर, हिंसाजनक, त्रासात्पादक और (यद् इह पापम्)
जो यहाँ पाप दूर करने योग्य आत्मा का नाशक (तत् शान्तम्) वह


१४—'शमय, मोहन्' इति पठपाठः । शमयामः । अहम् इति सादृणाभिमतः ।

शम, । अयामः । अहन् । इत्यपि शं० पा० पठपाठः । द्यौः शान्तिरन्त-
रिक्षं शान्तिरापः.....विश्वे देवाः शान्तिर्भक्ष शान्ति सर्वं शान्ति-
शान्तिरेवं शान्ति सा मा शान्तिरेधि । इति यजुः० ।

शान्त हो । (तत् शिवम्) वह सब कल्याणकारी हो । (नः) हमारे लिये
(सर्वम् एव) सब ही (शम् अस्तु) शान्तिदायक हो ।

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

[तत्र नवसूक्तानि एकोनपष्टिध्रुवः]



[१०] सुख शान्ति का वर्णन ।

शान्तिकामो ब्रह्मा ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुभः । दशर्चं सूक्तम् ॥

शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या ।

शमिन्द्रासोमां सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ॥१॥

ऋ० ७ । ३५ ॥ यजु० ३६ । १२ ॥

भा०—(इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि वायु और राजा और सेना-
प्रति, प्राण, उदान (अवोभिः) रक्षा साधनों द्वारा (नः शम् भवताम्)
हमें शान्तिदायक हों । (रातहव्या) अन्न आदि उत्तम पदार्थ प्राप्त करके
(इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरुण, वायु और मेघ, राजा और दुष्टों का दमन
करने हारा पुलिस विभाग का अध्यक्ष, प्राण और व्यान (नः शम्) हमें
सुख और शान्ति दें । (इन्द्रासोमा) इन्द्र और सोम, वायु और सूर्य
राजा और न्यायाधीश, प्राण और समान (सुविताय) उत्तम सुख के लिये
(शं योः) लोगों के शम, और भयों के दूर करने के लिये हों (इन्द्रापूषणा)
इन्द्र और पूषा, वायु और अन्न, प्राण और घपान (वाजसातौ) बल और
वीर्य के प्राप्त करने के कार्य में (नः शम्) हमें शान्तिदायक हों ।

शं नो भगुः शम् नः शंसो अस्तु शं नः पुरांश्विः शम् सन्तु रायः ।

शं नः सुत्यस्य सुयमंस्य शंसुः शं नो अर्वमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥

ऋ० ७ । ३५ । २ ॥

भा०—(भगः) भजन करने योग्य, ऐश्वर्यवान्, देव, परमेश्वर अथवा ऐश्वर्यवान् धनाढ्य लोग (नः शम्) हमें शान्ति सुख दें । (शंसः नः शम्) उत्तम उपदेश करनेहारा शास्त्रवक्ता पुरुष अथवा समस्त पुरुषों द्वारा प्रशनीय पुरुष या परमेश्वर (नः शम् उ) हमें शान्ति सुख दें । (पुरन्धिः) पुर=राष्ट्र नगर का धारण करने वाला पुरुष (पुरन्धिः) पुर देह को धारण करने वाली बुद्धि अथवा पूर्ण ब्रह्माण्ड को धारण करने वाला पुरुष परमेश्वर, पुर=गृह को धारण करने वाला स्त्रीजन (नः शम्) हमें शान्ति सुख दें । (रायः) समस्त ऐश्वर्य (शम् उ सन्तु) हमें शान्तिदायक हों । (सुयमस्य) उत्तम नियमन, उत्तम रूप से संयमन करने वाले (सत्यस्य) सत्यस्वरूप परमेश्वर का या उत्तम संयम, ब्रह्मचर्य से युक्त सत्य ज्ञान का (शंसः) भजनकीर्त्तन, अथवा उपदेशक पुरुष (नः शम्) हमें शान्ति दें । (पुरजातः अर्थमा) बहुत से प्रजाजनों में सब की सहमति से बनाया गया (अर्थमा) न्यायकारी पुरुष अथवा समस्त पदार्थों में व्यापक परमेश्वर अथवा पुरु-इन्द्रियों में सामर्थ्यवान् आत्मा (नः शम् अस्तु) हमें शान्तिदायक हो ।

शं नो धाता शमु धर्त्ता नो अस्तु शं न ऊरुची भवतु स्वधाभिः ।
शं रोदसी वृहती शं नो अद्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥

भा०—(धाता) पालन पोषण करनेवाला परमेश्वर, या दुग्ध आदिसे पृष्ट करने वाला पिता (नः शम्) हमें शान्ति सुखदायक हो । (धर्त्ता नः शम्) आश्रय प्रदाता, परमेश्वर या संरक्षक हमें शान्तिदायक (अस्तु) हो । (ऊरुची) बहुत दूर तक फैली हुई पृथिवी, (स्वधाभिः) अन्नों द्वारा (नः शम् भवतु) हमें सुखप्रद हो । (वृहती) विशाल (रोदसी) चौ,

पृथिवी और अन्तरिक्ष (शम्) हमें सुख दें । (अग्निः) पर्वत और मेघ (नः शम्) हमें सुख दे । (देवानाम्) देवों, विद्वानों की (सुहवानि) उत्तम स्तुतियों, उनके उत्तम ज्ञान और उत्तम उपदेश (नः शम् सन्तु) हमें सुख दें और कल्याणकारक हों ।

शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणाश्विना शम् ।

शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इपिरो अग्निं वातु वातः ॥४॥

भा०—(ज्योतिः अनीकः) ज्योति, ज्वाला, दीप्ति के बने मुख वाला अर्थात् अपनी ज्वाला से सब पदार्थों को खाजाने या भस्म कर देने वाला (अग्निः) अग्नि और उसके समान ज्ञान ज्योति को अपने मुख में धारण करने वाला, अग्नि के समान ज्ञानप्रकाशक ब्राह्मण, ज्योति को अपने मुख में या अग्रभागमें रखने वाला मार्गदर्शक, ज्योतिर्मय दीपक को अपने मुख भाग या अग्रभाग में रखने वाला सूर्य या अग्नि के बलपर चलने वाला महायन्त्र या, ज्योतिर्मय तेज स्त्री पुरुषों के अनीक सेना बल से युक्त अग्नि—अग्रणी, सेनापति (नः) हमारे लिये (शम् अस्तु) कल्याण कारक हो । (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण, परस्पर स्नेह करने वाली धन और ऋण विद्युत और वरुण अर्थात् समान जाति को परे-वारण करने वाली धन और ऋण दोनों (नः) हमें (शम्) शान्तिदायक हों । (अश्विनौ) दो अश्वि, सूर्य रूप अश्वपर सदा आरूढ़ दिन और रात, एवं देह रूप रथ और एवं इन्द्रियरूप अश्वोंपर आरूढ़ प्राण और अपान, देह में व्यापक, अथवा स्त्री पुरुष (शम्) शान्तिदायक हों । (सुकृताम्) उत्तम सुन्दर कार्य करने वाले उत्तम शिल्पियों के (सुकृतानि) बनाये उत्तम प्रशंसनीय शिल्प के कार्य और पुर्यात्माओं के किये हुए उत्तम प्रशंसनीय परोपकार के कार्य (नः) हमें (शम्) शान्तिदायक (सन्तु)

हैं। (इपिरः) निरन्तर गतिशील, सब पदार्थों का प्रेरक, (वातः) महान् वायु और देहों का प्रेरक प्राण वायु (नः) हमारे किये (शम्) कल्याणकारी, सुखकारी होकर (वातु) प्रवाहित हो।

शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहृतौ शमन्तरिक्तं दृश्ये नो अस्तु।

शं न ओपधीनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥३१॥

भा०—(द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी, आकाश और भूमि (पूर्व-हृतौ) सबसे पूर्व समस्त पदार्थों को प्रदान करने में (नः शम्) हमें शान्ति-दायक हों। (अन्तरिक्तम्) अन्तरिक्त, मध्यमलोक, वातावरण भी (दृश्ये) हमारे दर्शन शक्ति को स्वतन्त्र व्यापार के लिये (शम् नः अस्तु) हमें कल्याणकारी हो। अन्तरिक्त स्वच्छ रहे कि हम दूर २ तक देख सकें। (ओपधीः) ओपधियें (निनिः) सेवन करने योग्य होकर (नः शं भवन्तु) हमें शान्तिदायक हों। (रजसःपतिः) लोकों का पालक सूर्य और सूर्य के समान तेजस्वी (जिष्णुः) विजयशील राजा (नः शम् अस्तु) हमें शान्तिदायक हो।

शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः।

शं नो रुद्रो रुद्रोभिर्जलापः शं न स्त्वष्टाः ग्नाभिरिह शृणोतु ॥३२॥

भा०—(देवः) प्रकाशमान, तेजोमय, ऐश्वर्यवान् सूर्य (वसुभिः) प्राणियों को अपने में बसाने में समर्थ पृथिवी आदि लोक, वायु पर्जन्य आदि वसु पदार्थों सहित (नः शम्) हमें शान्तिदायक (अस्तु) हो अथवा (देवः) देव=राजा (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् होकर (वसुभिः) वसु विद्वान् शासकों के साथ हमें शान्तिदायक हो और इन्द्र आत्मा वसुरूप प्राणों सहित हमें शान्तिदायक हो। (वरुणः) सबके वरण करने योग्य, राजा

(आदित्येभिः) आदित्य के समान तेजस्वी पुरुषों के साथ (सुरांसः) उत्तम रीति से स्तुति करने योग्य, उत्तम गुणों से युक्त होकर बारह मासों सहित सूर्य के या पर्जन्य के समान (शन् ब्रह्म) हमें कल्याणकारी हों । (रुद्रः) सब दुष्टों को हलाने वाले, दुष्ट दमनकारी पुरुष-सिंह । रुद्रेभिः) दुष्टों को हलाने में समर्थ अन्य अधिकारियों सहित (जलापः) सुखकारी होकर (नः शम्) हमें शान्तिदायक हो । (त्वष्टा) सर्वत्वष्टा परमेश्वर (आग्निः) अपनी व्यापक दिव्य शक्तियों सहित (नः) हमारे लिये (शन्) शान्तिप्रद हो और (इह) इस लोक में हमारी सब प्रार्थनायें (शृणोतु) श्रवण करे ।

अध्यात्म में आत्मा या पुरुष की तीन दशा हैं वयः क्रम से व्रत पालन में इन्द्र, वरुण और रुद्र उनके व्रत से परिषिक्व हुए प्राणों के तीन नाम हैं वसुगण, आदित्यगण और रुद्रगण । त्वष्टा, कर्त्ता, आत्मा उसकी ज्ञान-शक्तियाँ 'आ' हैं । अथवा त्वष्टा शिल्पी अपनी (आग्निः) गमनशील, अति वेगवती विद्युत्, कला, यन्त्र आदि वैज्ञानिक शक्तियों सहित हमें सुख शान्ति दे । इन्द्र=राजा, वरुण जलाध्यक्ष, आदित्य, पानी खींचने के यन्त्र रुद्र, वैद्य, रुद्रगण=ओषधियाँ ।

शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो आवाणः शम् सन्तु वृद्धाः ।
 शं नः स्वहृणां भित्तयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्बन्तु वेदिः॥७॥

भा०—(सोमः) सोम, वायु और सोम ओषधि (नः शम् भवतु) हमें शान्तिदायक हो । (ब्रह्म) वेदज्ञान (न शम्) हमें शान्तिदायक हो । (आवाणः) षपदेशकर्त्ता गुरुजन (नेः शम्) हमें शान्तिदायक हों अथवा (आवाणः) प्राणगण, पशुगण, प्रजागण, प्रस्तर या सिल्लद्वे के समान शत्रुओं को पीसने वाले शत्रुवाती सिपाहीजन या वज्र आदि शस्त्र और शस्त्रधारी पुरुष (नः शम्) हमारे लिये शान्तिदायक हों । (महाः

उ शम् सन्तु) यज्ञ भी शांतिदायक हो । (स्वरूपां मितयः) स्वरू, उप-
देशप्रद मंत्रों के (मितयः) ज्ञान करने वाले विद्वान्जन या (स्वरूपां)
उपदेशप्रदाता पुरुषों के (मितयः) नाना ज्ञान (नः शम्) हमारे लिये
शांतिदायक (भवन्तु) हों । (प्रस्वः) नाना प्रकार से उत्पन्न होने वाली ओष-
धियां या उत्कृष्ट पुत्रोत्पादक माताएं, और गौपं और पृथिविपुं (नः शम्) हमें
शांति सुख दें । (वेदिः) वेदि पृथिवी और यज्ञवेदि हमको (शम् अस्तु)
हमें शांति दे ।

वज्रमानो वा एष निदानेन यद् यूपः । श० ३ । ७ । १ । ११ ।
वज्रो वै यूपशकलः । श० ३ । ८ । १ । ५ ॥ आदित्यो यूपः । तै० २ । १ ।
५ । ५ ॥ यूपान् वा राप शकलः स्वरूपां । श० ३ । ७ । १ । २४ ॥
अथवा स्तृशब्दोपतापयोः । स्वरति उपादिशति उपादिश्यते इति वा स्वरूः ।
तेषामितयो ज्ञानानि ।

शं नः सूर्यं उरुचक्षां उदेतु शं नो भवतु प्रदिशश्चतस्रः ।

शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सुन्त्वापः ॥ ३ ॥

भा०—(उरुचक्षाः) विस्तीर्ण तेज वाला, सर्व प्रत्यक्ष सर्वदर्शी
(सूर्यः) सूर्य और उसके समान तेजस्वी आदित्य योगी (नः शम्) हमें
शांतिदायक होकर (उत् एतु) उदय को, वृद्धि को प्राप्त हो (चतस्रः)
चारों (प्रदिशः) मुख्य दिशापुं (नः शं भवन्तु) हमें शांतिदायक हों ।
(ध्रुवयः) अञ्जल, स्थिर खड़े (पर्वताः) पर्वत (नः शं भवन्तु) हमें
शांति सुख देने हारे हों । (सिन्धवः) वेग से बहने वाले, नद महानद
और (आपः) अन्य नाना जल भी (नः शम्) हमें शांति-
दायक हों ।

शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः ।

शं नो विष्णुः शम् पुषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शम्बस्तु वायुः ॥१६॥

भा०—(अदितिः) अखण्ड पृथिवी (व्रतेभिः) नाना कार्य व्यवहारों द्वारा (नः शम् भवतु) हमें शान्तिदायक हो । अथवा सूर्य, पृथिवी, अन्तरिक्ष और उसमें रहने वाले पांचों प्रकार के जन और समस्त प्राणि अपने व्रतों, कर्मों और व्यवहारों द्वारा हमें शान्तिदायक हों । (स्वर्काः) उत्तम गति करने वाले (मरुतः) मरुद्गण वायुपुं, प्राण और वैश्यजन (नः शम् भवन्तु) हमें शान्तिदायक हों । (विष्णुः) व्यापक परमेश्वर, यज्ञ और सूर्य (नः शम्) हमें शान्तिदायक हों । (पूषा) पोषक अन्न वा सूर्य (नः शम् उ) हमें शान्तिदायक हो । (भवित्रम्) यह उत्पत्तिस्थान भुवन, जल या अन्तरिक्ष इनमें (शं नः अस्तु) शान्तिदायक हो । (वायुः शम् उ अस्तु) वायु हमें शान्तिदायक हो ।

शं नो देवः सविता त्रायंमाणः शं नो भवन्तूपसो विभातीः ।

शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः ॥१७॥

भा०—(त्रायमाणः) सबका पालन करता हुआ (सविता) सर्व प्रेरक सर्वोत्पादक (देवः) देव, प्रकाशक सूर्य (नः शम्) हमें शान्तिदायक हो । (विभातीः) विविध और विशेषरूप से प्रकाशित (उपसः) उपापुं (नः शं भवन्तु) हमें शान्तिदायक हों । (पर्जन्यः) मेघ, रसों का देने वाला (नः) हमें प्रजाओं के लिये (शं भवतु) शान्तिदायक हो । (क्षेत्रस्य पतिः) क्षेत्र का स्वामी, आत्मा और क्षेत्र, प्रधान प्रकृति का स्वामी परमेश्वर (शंभुः) समस्त सुखों का उत्पादक अग्नि, जल या स्वयं क्षेत्रपति-किसान (नः शम् अस्तु) इनारे लिये शान्तिदायक हो ।

[११] शान्ति की प्रार्थना ।

शान्तिकामा न्ना ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुभः । १५ टृचं मृत्तन् ॥

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शम् सन्तु गावः ।

शं नं क्रभवंः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१॥

श्र० ७ । ३५ । २३ ॥

भा०—(सत्यस्य पतयः) सत्य ज्ञानके पालक, सत्य की रक्षा करने वाले, प्राङ्गविवाक और धर्माधिकारी, न्यायकर्ता, व्यवस्थापक अथवा (सत्यस्य) सत्य, वर्तमान जगत् के (पतयः) पति, सूर्य, चन्द्र, जल, अग्नि, वायु आदि (नः) हमें (शम् भवन्तु) शान्तिदायक हों । (अर्वन्तः) शीघ्रगामी अश्व (नः शम्) हमें शान्तिदायक हो । (गावः) गौधुं (शम् उ सन्तु) हमें शान्तिसुख दें । (सुकृतः) उत्तम २ पदार्थ बनाने वाले (सुहस्ताः) शिल्प में सिद्धहस्त (ऋभवः) विद्वान्, शिल्पीजन (नः शम्) हमें शान्तिसुखप्रद हों । (हवेषु) यज्ञों और युद्धों में (पितरः) हमारे पालक, राष्ट्र के रक्षक अधिकारी लोग (नः शम् भवन्तु) हमें शान्तिदायक हों ।

शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु ।

शमभिपात्रः शम् रात्रिपात्रः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अ्रुप्याः ॥१॥

श्र० ७ । ३५ । ११ ॥

भा०—(विश्वदेवाः) समस्त प्रकार की क्रीड़ा करने में चतुर, विजयीपने में कुशल, व्यवहारों में निपुण, प्रकाशमान्, समस्त आमोद प्रमोद में कुशल, (देवाः) देव, विद्वान् लोग (नः शं भवन्तु) हमें शान्ति सुखदायक हों । और (सरस्वती) सरस्वती, वाणी (धीभिः सह) नाना उत्तम ध्यान-

गम्य विचारों और शुभ चिन्तनाओं, स्तुतियों प्रज्ञा और कर्मों सहित (शम् अस्तु) शान्तिदायक हो । (अभिषाचः) चारों ओर से एकत्र होकर विराजने वाले प्रतिनिधि गण (शम्) शान्तिदायक हों । (राति-पाचः) दान दक्षिणा के दान और प्राप्ति के लिये एकत्र होने वाले दाता और प्रति ग्रहीता, ऐश्वर्यवान् विद्वान् पुरुष (शम्) हमें शान्तिदायक हों । (दिव्याः) दिव्य आकाश से प्राप्त होने वाले पदार्थ (पार्थिवाः) पृथिवी से उत्पन्न पदार्थ और (अप्याः) जल, समुद्र, नदी आदि से उत्पन्न पदार्थ सब (नः शम्, नः शम्) हमें शान्तिप्रद हों ।

शं नो अज एकपाद् देवो अस्तु शमहिर्बुध्न्यं शं समुद्रः ।

शं नो अपां नपात् परुरस्तु शं नः पृश्नैर्भवतु देवगोपाः ॥ ३ ॥

श्रु० ७।३५।१३ ॥

भा०—(एकपात्) समस्त स्थावर जंगम, चराचर प्राणियों को अपने चित्तमय या आनन्दमय एक चरण में धारण करने वाला अथवा 'एक' ब्रह्मरूप से जानने योग्य (अजः) कभी उत्पन्न न होने वाला (देवः) प्रकाशमय परमेश्वर (नः शम् अस्तु) हमें शान्तिदायक हो । (अहिर्बुध्न्यः) जो कभी नाश नहीं हो, वह सर्वाधार स्वरूप, सर्वाश्रय परमेश्वर (शम्) शान्ति प्रदान करे । (सम-उदः) समस्त संसार का उत्पत्ति स्थान अर्थात् जैसे समस्त बर्दियां समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं ऐसे ही समस्त लोकों और आत्माओं के लीन होने के परमस्थान, महासमुद्र रूप परमेश्वर (शम्) हमें शान्ति प्रदान करे । (परुः) समस्त दुःखों से पार उतारने हारा (अपां नपात्) जलों को न गिरने देने हारा, मेघ के समान, समस्त आपोमय प्राणों को धारण करने वाला, प्रजाओं को न गिरने देने वाला, सबको जीवनप्रद परमेश्वर (नः शम्) हमें शान्ति दे । (देवगोपाः) समस्त देव, सूर्य, चन्द्र,

३-सस्पृष्टो न्योतिर्भिः पुण्यकृद्भिश्चेति । निरु० २।४।२ ॥ (द्वि०)

'शं नो हिर्बुध्न्यः' (च०) 'देवगोपाः' इति श्रु० ।

नक्षत्र, ऋतु, दिन, मास, पक्ष, एवं पृथिव्यादि पांचभूत, १० इन्द्रिय, पञ्च प्राण आदि समस्त देवों का रक्षक एवं उन सबसे सुरक्षित (पृथिवीः) समस्त रसों और ज्योतिर्मय पिण्डों का आश्रय, परमेश्वर (नः शम्) हमें शांति दे । अथवा एकपाद् अज=सूर्य, आहिर्बुध्न्य=वायु, समुद्र=पर्जन्य, अपां न-पात्=अग्नि, पृथिवी=पृथिवी ये कल्याणकारी हैं ।

आदित्या रुद्रा वसवो जुपन्तामिदं ब्रह्मा क्रियमाणं नवीयः ।

शृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवास्तो गोजाता उत ये यज्ञियांसः ॥४॥

ऋ० ७ । ३५ । १४ ॥

भा०—(इदम्) इस (नवीयः) नये से नये (क्रियमाणं) बनाये गये (ब्रह्म) बृहत् जगत् को (आदित्याः) १२ आदित्य, १२ मास अथवा समस्त सूर्य (रुद्राः) नाना वायुगण या अग्निर्षे या प्राण (वसवः) जीवों के वास कराने हारे लोक (जुपन्ताम्) सेवन करें । (दिव्याः) दिव्य (पार्थिवासः) पृथिवी के स्वामी, राजा लोग और (गोजाताः) पृथिवी पर उत्पन्न अथवा गो वाणी में उत्पन्न वाग्मी, मंघावी पुरुष (यज्ञियांसः) यज्ञ में विराजमान पुरुष भी (नः) हमारे वचनों को (शृण्वन्तु) श्रवण करें । अथवा (आदित्याः) आदित्य के समान परम तेजस्वी, आदित्य ब्रह्मचारी (रुद्राः) प्राणों के साधक रुद्र ब्रह्मचारी (वसवः) वसु ब्रह्मचारी ये सब (नवीयः) नये २ ही अर्थात् नित्य नवीन (क्रियमाणम्) किये जाते हुए अनुष्ठानरूप से प्रयोग और अनुभव द्वारा सिद्ध किये जाते हुए (ब्रह्म) ब्रह्म, ब्रह्मज्ञानभय तपस्वा और वेदाध्ययन का (जुपन्ताम्) सेवन करें । या (नवीयः ब्रह्म) नये बने ब्रह्म अर्थात् ब्राह्मण वर्ग या विद्वान् वर्ग से (जुपन्ताम्) प्रेम करें । (गोजाताः) वाग्मी और (यज्ञियांसः) यज्ञ में पूजनीय दिव्य (पार्थिवासः) पृथिवी पर उत्पन्न प्राणी (नः) हमारा (शृण्वन्तु) उपदेश और ज्ञान सुनें ।

ये देवानामृत्विजो यज्ञियांसो मनोर्यजत्रा अमृतां ऋतज्ञाः ।

ते नो रासन्तामुरुगाय मद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ५ ॥

ऋ० ७ । ३५ । १५ ॥

भा०—(ये) जो (देवानाम्) देव, विद्वान् पुरुषों में से (ऋत्विजः) ऋतुओं ऋतुओं में यज्ञ करने वाले (यज्ञियासः) यज्ञों में पूजनीय (मनोः) मनु-मननशील पुरुष के (यजत्राः) यज्ञ करने वाले (अमृताः) अमृत, अमरराधर्मा (ऋतज्ञाः) ऋत्-वेद, सत्य ज्ञान के जानने वाले हैं (ते) वे (नः) हमें (उरुगायम्) विशाल ज्ञानोपदेश (अद्य) निरन्तर (रासन्ताम्) प्रदान करें । हे विद्वान् पुरुषो ! (यूयम्) आप लोग (स्वस्तिभिः) कल्याणकारक साधनों से (नः सदा पात) हमारी सदा रक्षा करें ।

तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने शं योरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम् ।

अशी महिं गाधमुत प्रतिष्ठा नमो दिवे बृहते सार्दनाय ॥ ६ ॥

ऋ० ५ । ४७ । ७ ॥


भा०—हे (मित्रावरुणा) मित्र, मरण से बचाने वाले और (वरुणा) सर्व दुःखवारक सर्वश्रेष्ठ प्राण और अपान और हे (अग्ने) अग्ने, जाडर शक्ते ! अथवा हे दिन और रात्रि ! और हे अग्ने ! सूर्य ! अथवा हे मित्र और वरुण, राजा और न्यायाधीश और हे अग्ने ! अग्रणी सेनापते ! (अस्मभ्यम्) हमें (तत्) वह (तत्) वह नाना प्रकार के पदार्थ (शम्)

५-१ उरुगायन् विस्तीर्णमार्गमिति त्रिफिथद्विद्वनी । प्रभृतां कीर्त्तिमिति सायणः ।

कै नै रे शब्दे अतोषम् । गास्तुतौ गाच्यतौ इथास्माद् अन् वा ।

६-(रु०) 'गातुमुत' (च०) 'साधनाय' इति पंप्प० सं० । 'तिस्रो-
धावः', 'त्रिदिव' इत्यादौ दिव् शब्दो लोकेतचनः ।

शांतिदायक और (योः) रोग, विपत्तिनाशक (अस्तु) प्राप्त हों, (इद्रम्) यह प्राप्त पदार्थ भी (शस्तम् अस्तु) उत्तम, लाभदायक, श्रेष्ठ ही हो। हम (गाघम्) अपने अभिलषित ऐश्वर्य और (प्रतिष्ठाम्) प्रतिष्ठा कीर्ति का (अशीमहि) लाभ करें और (वृद्धने) बढ़े भारी (सादृनाय) आश्रय प्राप्त करने के लिये (दिवे) धौलाक के समान विशाल पृथिवी को (नमः) हम अपने वश करें।



[१२]

शान्तिनामो । ब्रह्मा ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप् । पक्व चक्षुम् ।

उपा अप् स्वसुस्तम् : सं वर्तयति वर्तनिं सुजातता ।

अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ १ ॥ :

(प्र० द्वि०) अ० १० । १७२ । ४ प्र० द्वि० ॥ (वृ० च०) ऋ० ६ ।

१७ । १५ वृ० च० ॥

भा०—(स्वसुः) स्वयं सरण करने वाली, आप से आप हट जाने वाली रात्रि के (तमः) अन्धकार को (उपाः) उपा-प्रभात वेला (अप वर्तयति) दूर हटा देती है। और (सुजातता) अपने उत्तम, शुभ सुख-कर उत्पत्ति से (वर्तनिम्) उत्तम मार्ग को या लोक व्यवहार को (संवर्तयति) भली प्रकार चला देती है। (अया) इस उपा, मार्गप्रवर्तक प्रकाशमयी प्रवृत्ति से हम (देवहितम्) देवीं, दिव्य पदार्थों में विद्यमान, देवीं, प्राणों के हितकारी (वाजम्) चल, शक्ति को (सनेम) प्राप्त करें। और हम (सुवीराः) उत्तम वीर्ययुक्त, प्राणों से युक्त रह कर (शतं हिमाः) सौ वर्षों तक (मदेम) हृष्ट पुष्ट, आनन्द प्रसन्न, सदा वृत्त रहें।

[१२] १—(द्वि०) 'सुजातता' इति क्वचित् ॥

[१३]

भा०—अप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुभः । एकादशर्चं सक्तम् ॥

इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ वृषाणौ चित्रा इमा वृषभौ पारायिष्णु ।
तौ योन्ते प्रथमो योग आगते याभ्यां जिनमसुराणां स्वर्थात् ॥१॥

ताम० उ० ९।३।७।३ ॥

भा०—(इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्यसम्पन्न राजा के समान इस आत्मा को (स्थविरौ) दृढ़, सदा स्थिर रहने वाली (वृषाणौ) सकल काम्य सुख की वर्षा कर देने वाली, अति बलवान् (चित्रा) विचित्र आश्चर्यजनक (वृषभौ) समस्त सुखों की वर्षक, बलों के समान (पारायिष्णु) पूर्ण मार्ग, जीवनयात्रा के पार पहुंचा देने वाली (बाहू) समस्त विघ्नों को दूर करने वाली दो बाहुओं के समान प्राण और अपान (तौ) उन दोनों को (योगे आगते) योग समाधि के प्राप्त हो जाने पर (प्रथमः) प्रथम अभ्यासी, साधक होकर (योन्ते) युक्त अर्थात् समाहित करें। (याभ्याम्) जिनसे (असुराणाम्) प्राणों का (यत्) जो जितना भी (स्वः) स्वर अर्थात् प्रेरक बल है उसको (जितम्) जीता या वश किया जाता है।

आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघ्नः क्षोभंणश्चर्षणीनाम् ।
संक्रन्दनो निमिष एकत्रीरः शतं सेनां अजयत् साकमिन्द्रः ॥२॥

इ० १०।१०३।२ ॥ वजु० १७।३३ ॥

[१३] १—(प्र० द्वि०) 'युवानावृष्यौ अप्रतीकावसर्षी' (वृ०) सौंयुंजीव प्रथमौ (व०) 'असुराणां तहोनहत्' । (द्वि०) 'योऽप्ये' इति द्विजिनकामितः । 'ता योऽप्ये' इति पैप्प० सं० । 'प्रथमौ योग' इति ताम० । 'प्रथमयोगान्ते' इति पैप्प० सं० ।

२—'वृषभो न युष्मः' इति तौ सं० ।

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यशील राजा (आशुः) शीघ्रगामी (शिशानः) तीक्ष्णमति, तीक्ष्णस्वभाव एवं तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों से युक्त (वृषभः न) वृषभ, वड़े सांड के समान (भीमः) अति भयंकर (घनाघनः) शत्रुओं को बराबर मारने और परास्त करने वाला (चर्पणीनां लोभणः) मनुष्यों और प्रजाओं के विचित्र करने, कंपा देने हारा (संक्रन्दनः) शत्रुओं को रूलाने वाला या उनको संग्राम के लिये ललकारने वाला (अनिमिषः) कभी आंख न रूपकने वाला, कभी न चूकने वाला, प्रमादरहित, अत्यन्त सावधान (एकवीरः) समस्तसेना में एकमात्र वीर, सर्वोपरि सामर्थ्यवान् होकर (शतं सेनाः) सैकड़ों सेनाओं को (साकम्) एक साथ ही (अजयत्) विजय कर लेता है ।

अध्यात्म में—(आशुः) व्यापक (शिशानः) तीक्ष्णमति ज्ञान और तपसे (वृषभः न भीमः) वृषभ के समान भयानक (घनाघनः) मेघ के समान आनन्दघन (चर्पणीनां लोभणः) विपदष्ट इन्द्रियों प्राणों का प्रेरक, (संक्रन्दनः) आनन्दमय, आह्लाद रूप (अनिमिषः) कभी न चूकने वाला, नित्यचेतन (एकवीरः) समस्त प्राणों का मुख्य प्राण हांकर (शतं सेनाः) सौ सेनाओं के समान, सैकड़ों चिन्तवृत्तियों को एकही वार (अजयत्) विजय करता है ।

संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुनायोध्येन दुश्च्यवनेन धृशुनां ।

तदिन्द्रेण जयत् तत्सहध्वं युधो नर इपुंहस्तेन वृष्णा ॥ ३ ॥

श्र० १० । १०३ । २ ॥ वजु० २७ । ३४ ॥

भा०—हे (नरः) नेता पुरुषो ! आप लोग (संक्रन्दनेन) शत्रुओं को ललकारने वाले (अनिमिषेण) निमेषरहित, बेचूक, अत्यंत साव-

धान (जिष्णुना) विजयशाल (अयोधेन) जिसको कोई युद्ध में पराजय न कर सके ऐसे अजेय बलशाली (दुश्च्यवनेन) जिसको कोई सुगमता से पदच्युत न कर सके ऐसे अत्रिकम्प, अविचल (धृष्णुना) शत्रुओं का धर्षण करनेहारे (इषुहस्तैन) बाण का हाथ में लिये या आज्ञा करने और प्रेरणा करने के कार्य को अपने हाथ में रखने वाले (वृष्णा) बलवान् (इन्द्रेण) ऐश्वर्यवान् राजा को साथ लेकर उसके द्वारा (तत्) उस अभिलाषित राष्ट्र को (जयत) विजय करो और (तत् सहध्वम्) उस शत्रु राष्ट्र का दमन करो ।

अध्यात्मविषयक विवेचन देखो सामवेद अलोक-भाष्य पृ० ८२३ ॥

स इषुहस्तैः स निपङ्क्तिभिर्वशी संसृष्ट्या स युध्वा इन्द्रो गणेन ।
संसृष्टजित् सोमपा बाहुशर्धुः उग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ४ ॥

अ० १० । १०३ । ३ ॥

भा०—(सः सः) वह (निपङ्क्तिभिः) कवच धारण किये (इषुहस्तैः) धनुषबाण हाथ में लिये (वशी) राष्ट्र और अपने देहेन्द्रियों पर वश करने वाला (युध्वाः संसृष्ट्या) युद्धों का करनेहारा (गणेन) सेना के सुभटों की श्रेणियों सहित (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजा होता है । वह (संसृष्टजित्) भली प्रकार परस्पर दलबद्ध सेनाओं का जीतने वाला (सोमपाः) सोमरस का पान या शत्रुका भोग करनेहारा (बाहुशर्धुः) अपने बाहुबलसे शत्रुओं को पराजय करनेहारा (उग्रधन्वा) उग्र, भयंकर धनुर्धर (प्रतिहिताभिः) प्रतिपन्न के लिये खड़ी की गई सेनाओं और फेंकी गई बाण परम्पराओं से (अस्ता) शत्रुओं को उखाड़ डालने और धुन देने में समर्थ होता है ।

४—(च०) 'उग्रधन्वा' तै० सं० । (द्वि०) संसृष्ट्या युस्त्विन्द्रोगणेषु ।

इति नै० सं० । (च०) 'प्रतिहिताभिरस्ता' इति प्रायः ।

बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः ।

अभिवीरो अभिपत्वा सहोजिजैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविदन् ॥५॥

श्र० १०।१०३।४ ॥

भा०—(बलविज्ञायः) अपने और पराये के बल, सेनाबल को भली प्रकार जानने वाला अथवा सब द्वारा यही हमारा बल है ऐसा जाना हुआ (स्थविरः) युद्ध में स्थिर या पुराना अनुभवी (प्रवीरः) उत्कृष्ट वीर्यवान् सुवीर (सहस्वान्) बलवान् (वाजी) वीर्यवान् अन्न, बल से सम्पन्न (उग्रः) अति भयकारी (सहमानः) शत्रु को पराजित करता हुआ (अभिवीरः) साथ अपने दायें दायें वीर्यवान् नाना वीर पुरुषों को लिये हुए (अभिपत्वा) साक्षात् अधिक सत्व-बल को धारण करने वाला अथवा चारों तरफ अपने मोर्चे बैठाने वाला या मुकाबले पर डटने वाला, अथवा चारों ओर बलवान् पुरुषों से घिरा या बलवान् पुरुषों से भी बढ़कर बलवान् (सहोजित्) सबके बलों का विजेता ही राजा इन्द्र है । हे (इन्द्र) इन्द्र ऐश्वर्यवान् राजन् ! हे (गोविदन्) गौ पृथिवी को अपने वश करने हारे तू (रथम् आतिष्ठ) विजयी रथ पर बैठ ।

इमं वीरमनुं हर्षध्वमग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम् ।

शामजितं गोजितं वज्रं वाहुं जयन्तमज्मं प्रमृणन्तमोजंसा ॥ ६ ॥

श्र० १०।१०३।९ ॥ अथर्व० ६।९७।३ ॥

भा०—हे (सखायः) इन्द्र के मित्र राजागण ! (इम्) इस (उग्रम्) उग्र स्वभाव तीक्ष्ण, (इन्द्रम् वीरम् शत्रु) वीर इन्द्र के अनुकूल रह कर ही (हर्षध्वम्) तुम हर्ष उत्सव करो । (अनु) और

५—(वृ०) 'सहोवाः' (च०) 'गोवित्' इति साम० श्र० । (च०)

'वैत्रायैस्थमातिष्ठ गोविदन्' इति पैप्प० सू० । 'गोविदन्' इति क्वचित् ।

उसकी आज्ञा में रह कर ही (संरमध्वम्) एकत्र होकर युद्ध आदि कार्य प्रारम्भ करो । (ग्रामजितम्) शत्रु समूहों के विजेता (वज्रबाहुम्) वज्र, तलवार एवं शक्ति को अपने हाथ में बरा में किये हुए (अग्नि जयन्तम्) युद्ध को विजय करने वाले (शौजसा) अपने बल, पराक्रम और प्रभाव से शत्रुगण को (प्रमृणन्तम्) खूब कुचलते हुए (इन्द्रम् अनुसंरभस्वम्) इन्द्र राजा के अनुकूल वशवर्ती होकर उसके कार्य में सहयोग दो ।

अभि गोत्राणि सहस्रा गाहमानोदाय उग्रः शतमन्युरिन्द्रः ।

दुश्च्यवनः पृतना पांड्योध्योऽस्माकं सेनां अत्रतु प्र युत्सु ॥७॥

ऋ० १०।१०३।७।

भा०—(गोत्राणि) गौ=पृथिवी को पालन करने वाले, राष्ट्रों को (सहसा) अपने बल से (अभिगाहमानः) अपने आक्रमण से पार करता हुआ (अदायः) शत्रुओं पर निर्दय (उग्रः) अति भयंकर (शतमन्युः) सैकड़ों शत्रुओं को अपने दाहुबल से स्तम्भन करने वाला (दुश्च्यवनः) बड़ी कठिनाता से संग्राम से उखड़ने द्वारा, अविचल (पृतनापाद्) शत्रु-सेना का पराजय करने में समर्थ (अयोध्यः) युद्ध में अजेय (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजा (अस्माकम्) हमारी (सेनाः) सेनाओं को (युत्सु) युद्धों में (प्रभवतु) अच्छी प्रकार सुरक्षित रखे ।

बृहस्पते परिं दीया रथेन रत्नो हामित्राँ अपवायमानः ।

प्रमञ्जुत्रं प्रमृणन्मित्रान्स्माकमेध्यव्रिता तनूनाम् ॥ ८ ॥

ऋ० १०।१०३।४॥

७—(दि०) 'अग्नि उग्रः' इति पदघाठः । ऋ० ज्ञान० दजु० । (वृ०)

'अयोध्यः' इति नै० सं० ।

८—(वृ०) 'प्रमन्त्रत सेना प्रनो पुत्रावन्त', 'कविता स्थानान्' इति ऋ०

दजु० ज्ञान० ।

भा०— बृहस्पतिः) बृहती-सेना के स्वामिन् ! शत्रुगण को (अपवाध-मानः) दूर करता और रोकता हुआ, उनका विनाश करता हुआ (रक्षोता) विघ्नकारी राक्षसों का नाश करता हुआ (रथेन) रथ से (परिदीयाः) चारों ओर आक्रमण कर । (शत्रून्) शत्रुओं को (प्रभञ्जन्) खूब कुचलता हुआ (अभित्रान्) शत्रुओं को (प्रमृणन्) खूब मसलता हुआ (अस्माकं तनूनाम्) हमारे शरीरों का (अविता) रक्षक (ऐधि) होकर रह ।

इन्द्रं एषां नेतां बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः ।

देवसेनानामभि भञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतां यन्तु मध्ये ॥ ६ ॥

सू० १०३ । ८ ।

भा०—(इन्द्रः) इन्द्र राजा (एषां) इन वीरों का नेता हो और (बृहस्पतिः) बृहती, बड़ी भारी सेना का स्वामी सेनापति (दक्षिणा) दक्षिण हाथ में होकर चले । (यज्ञः) आज्ञा प्रदान करने वाला या समस्त सेनाओं को ब्यूह में संगठित करने वाला (सोमः) सब का प्रेरक आज्ञापक पुरुष (पुरः एतु) आगे २ चले । (अभिभञ्जतीनाम्) सब ओर शत्रुओं को कुचलने वाली (जयन्तीनाम्) विजय करती हुई (देवसेनानाम्) युद्ध विजयी लोगों की सेनाओं के (मध्ये) बीच में (मरुतः) वायुओं के समान तीव्र गतिशील अथवा मारने में चतुर वीर सुभट (यन्तु) चलें ।

इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञे आदित्यानां मरुतां शर्धं उग्रम् ।

महामनसां भुवनच्यवानां घापो देवानां जयन्तामुदस्थात् ॥१०॥

भा०—(इन्द्रस्य) ऐश्वर्यशील (वृष्णाः) शत्रुओं पर अलों का वर्षण करने वाले, प्रजा पर सुखों के वर्षण, एवं बलवान् (वरुणस्य) सर्व दुःखों के निवारक एक सर्वश्रेष्ठ होने से प्रजा द्वारा वरण किये गये

(राज्ञः) राजा के और (आदित्यानाम्) सूर्य के समान तेजस्वी (नस्तां) शत्रुओं के मारने वाले सुभटों के (उग्रम् शर्धम्) अति भयंकर मारकाट हो । (महामनसान्) बड़े विचारशील (भुवनच्यवानाम्) भुवन-जगत् को पलट देने वाले (जयताम्) विजयशील (देवानाम्) विजिगीषु राजाओं के (घोषाः) घोष, हर्षपूर्वक सिंहनाद (उद् अस्वात्) उठे ।

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इष्वस्ता जयन्तु ।
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मान् देवासोवता हवेषु ॥११॥

अ० १० । १०३ । ११ ॥ यजु० १७ । ४३ ॥

भा०—(अस्माकम् इन्द्रः) हमारा इन्द्र राजा (समृतेषु ध्वनेषु) जब युद्ध के ऋण्डे भी परस्पर मिल रहे हों तब भी रक्षा करे । (याः अस्माकं इषवः) जो हमारे बाण हैं (ताः जयन्तु) वे ही शत्रुओं पर विजय करें । (अस्माकं वीराः) हमारे वीरगण (उत्तरे भवन्तु) उत्कृष्ट बलशाली विजयी रहें । हे (देवासः) समस्त योद्धा और राजागण (हवेषु) युद्ध में (अस्मान्) आप लोग हमें (अवत) रक्षा करो ।

[१४] द्वेष रहित होकर अभय की प्राप्ति ।

कथां ऋषिः । चावापृथिव्यौ देवते । त्रिष्टुप । प्लव वक्तु ॥

इदमुच्छ्रेयोऽस्मान्पराणां शिवे मे चावापृथिवी अभूताम् ॥

असपत्नाः प्रादिशो मे भवन्तु न वै त्वां द्विप्सो अभयं नो अस्तु ॥१॥

११-(च) 'अस्मान् उदेवाः' इति अ० यजु० ।

[१४] १-(प्र) 'इदमुच्छ्रेय' इति द्विजिनिकामितः । (दि०) 'शिवे' (च) 'नोऽस्तु' इति वक्ति । इदं श्रेयोऽवसानंपराणां स्वोन्मे चावापृथिवी अभूताम् । अननीषाः प्रादिशः सन्तु नयं गोमद्—त्वादेत्यवसितं जुहोति इति जप०

भा०—भैं । इदम्) यह इस प्रकार (उत् श्रेयः अवसानम्) सर्वोत्तम, परम कल्याणमय कार्य या मार्ग की समाप्ति तक या लक्ष्य तक या मोक्ष तक (आ अगाम्) पहुंचूं । (द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी, आकाश और जमीन (मे) मेरे लिये (शिव) अति कल्याणकर, सुखकारी (अभूताम्) हों । (प्रदिशः) मुख्य दिशाएं (मे) मेरे लिये (असपत्नाः) शत्रुरहित (भवन्तु) हों । हे शत्रो ! या हे पुरुष ! (त्वा) तुझसे हम (न वै द्वेषमः) द्वेष नहीं करते, इसलिये तेरे से (नः अभयं अस्तु) हमें सदा अभय रहे ।

जिसके साथ संधि करनी हो उससे भी विजय कार्य के अवसान पर द्वेष न करने का वचन देकर उससे निर्भय होना उचित है ।

[१५] अभय की प्रार्थना ।

अथर्वा ऋषिः । १-४ इन्द्रः । मन्त्रोक्ता बहवो देवताः । १ पथ्या बृहती । २-५ चतुष्पदा जगत्पथः । ६ विराट् पथ्यापक्तिः । ४, ६ त्रिष्टुभौ । पहुंचं सृजन् ॥

यत इन्द्र भयंमिहे ततो नो अभयं कृधि ।

मयंवहृन्धि तव त्वं न ऊतिभिर्वि द्विपो वि मृधो जहि ॥१॥

सू० ८।६१।१३॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ऐश्वर्यवान् राजन् ! या प्रभो ! हम (यतः) जिससे (अभयामहे) भय करें (ततः) उससे (नः) हमें (अभयं कृधि) अभय कर । हे (मयवन्) समस्त ऐश्वर्यों के स्वामिन् ! (त्वन्) तू ही (शग्धि , ऐसा करने में समर्थ भी है । तू ही (तव ऊतिभिः) अपने रक्षाकारी उपायों, शक्तियों से (द्विपः) द्वेष करने वाले (मृधः) हिंसाकारी शत्रुओं को (वि वि जहि) विशेषरूप और निविध उपायों से विनाश कर ।

राजा प्रजा को क्षम्य करे और प्रजा की रक्षा करने के नाना उपायों से रक्षा करे, शत्रु का विविध प्रकार से नाश करे। अर्थात् शत्रु का नाश करने में प्रजा की रक्षा का भाव मुख्य प्रयोजन होना चाहिये।

इन्द्रं वयमनुरात्रं हवामहेतुं राध्यात्म द्विपदा चतुष्पदा ।

मा नः सेना अररुषीरुपं गुर्विपूचीरिन्द्र इहो वि नाशय ॥२॥

भा०—(वयम्) हम (अनुराधम्) आराधना करने योग्य, या कार्य सिद्ध करने वाले । (इन्द्रम्) इन्द्र की (हवामहे) स्तुति करते हैं। हम (द्विपदा) दो पाये, स्त्री, पुत्र नृत्य आदि और (चतुष्पदा) चार पाओं वाले पशुओं से (अनु राध्यात्म) सुखपूर्वक समृद्ध हों। (अररुषीः) अदान शील, कृपण, अनुदार (सेनाः) सेनाएं स्वामीसहित दलबद्ध श्रेणियों (नः) हम तक (मा उप गुः) न पहुंचे। हे (इन्द्र) राजन् ! (विपूचीः) सब प्रकार की (द्रुहः) द्रोह करने वाली सेनाओं को (वि नाशय) विनाश कर। प्रजा अनुकूल राजा का आदर करे। जन, धन, पशुओं में समृद्ध हों; अनुदार सेनादल प्रजा का नाश न करे, द्रोहियों को राजा दण्ड दे।

इन्द्रस्त्रातोत वृत्रहा परस्फानो वरेण्यः ।

स रक्षिता चरमतः स मध्यतः स पश्चात् स पुरस्तातो अस्तु ॥३॥

भा०—(वृत्रहा इन्द्रः) धरने वाले मेघ को विनाश करने वाले सूर्य के समान धरने वाले शत्रु का नाशक राजा (त्राता) प्रजा का रक्षक है (उत) और वही (परस्फानः) शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करने वाला, (वरेण्यः) सब के वरण करने योग्य, सर्व श्रेष्ठ, या उत्तम मार्ग में ले जाने वाला है। (सः) वही (चरमतः) अन्त में (मध्यतः) बीच में से, (पश्चान्) पीछे से (पुरस्तात्) आगे से भी (नः रक्षिता) हमारा रक्षक (अस्तु) हो।

३—(दि) 'परस्परं न' इति सायनाभिनितः। 'गदस्त्रानः' इति द्विद्विनिकाभिनितः।

'अस्मानो [अस्मानो ?] इति पृथक्-सु० । 'परस्मानो' इति क्वचिद् ।

उरु नो लोकमनुं नेपि विद्वान्स्वर्ग्यज्ज्योतिरभयं स्रस्ति ।

दृशा त इन्द्र स्यविरस्य वाह् उप क्षयेम शरणा बृहन्तां ॥ ५॥

श्र० ४।८०।८ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् राजन् ! तू (नः) हमें (उरुं लोकं नेपि) उस विशाल लोक या देश में लेजा (यत्) जहां (स्वः) सुखमय प्रकाशमय (ज्योतिः) ज्योति, सूर्य का प्रकाश और (अभयम्) अभय, भय रहित और (स्वस्ति) सुख, कल्याण हो । हे राजन् ! (स्यविरस्य) युद्ध में स्थिर रहने वाले (ते) तेरी (वाह्) सब विपत्तियों का वाध करने वाली वाहुओं को ही (बृहन्ता) बड़ी (शरणा) शत्रु के नाशक एवं शरणा, आश्रयस्थान मानकर उनके आश्रय में (उप क्षयेम) सुख से रहें । राजा प्रजा को सुख, प्रकाश और कल्याणमय स्थिति आर देश में रखे, प्रजा राजा के शत्रुनाशक बल की छाया में निर्भय होकर रहे ।

अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे ।

अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादंशरादभयं नो अस्तु ॥५॥

भा०—(अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष, वातावरण, (नः) हमें (अभयं-करति) अभय प्रदान करे । (इमे उभे द्यावापृथिवी) ये दोनों द्यौ, आकाश और पृथिवी (अभयं करतः) अभय करें । (पश्चाद् अभयम्) पीछे से या पश्चिम से भय न रहे । (पुरस्तात्) आगे से या पूर्व से अभय हो । (उत्तरात् अधरान्) ऊपर से और नीचे से अथवा उत्तर और दक्षिण से (नः अभयम् अस्तु) हमें अभय हो । वायु मण्डल, जर्मन, आत्मान, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, सर्व और से हमें अभय रहे ।

४-(न०) 'दृशा त' (च०) 'स्येयाम' (दि०) 'न्वज्ज्यो' (श्रुति श्र०)

'स्वर्ग्यो' इति पैप० सं० ।

दिवो मादित्या रक्षन्तु भूम्यां रक्षन्त्वग्नयः ।

इन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्तादश्विनोऽभितः शर्मं यच्छताम् ।

तिरश्चीन्अध्या रक्षतु जातवेदा भूतकृतो मे सर्वतः सन्तु वर्म ॥२॥

भा०—(दिवः) घोलोक, आकाश से (आदित्यः) आदित्य, १२ नास (मा रक्षन्तु) मेरी रक्षा करें । (भूम्याः) भूमि से (अग्नयः) अग्नि, अग्रणी नेता लोग (रक्षन्तु) रक्षा करें । (पुरस्तात्) आगे से (मा) मुझको (इन्द्राग्नी रक्षताम्) इन्द्र और अग्नि, वायु और आग, एवं राजा और सेनापति रक्षा करें । (अश्विनौ) दिन और रात दोनों, या सूर्य चन्द्र, या अथ, अश्वारोही जन, (अभितः) इधर उधर से (शर्म-यच्छताम्) सुख प्रदान करें । (जातवेदाः) प्रज्ञावान् पुरुष (अध्या न मारुते योग्य (तिरश्चीन्=तिरश्चीः) तिर्यग् योनि के जन्तुओं की (रक्षतु । रक्षा करें । (भूतकृतः) प्राणियों के हितकारी जन अथवा भूत, पञ्चभूतों के नाना प्रकार के विकारों और विज्ञानों के आविष्कर्ता लोग (मे) मेरे (सर्वतः) सब ओर से (वर्म सन्तु) रक्षाकारी कवच के समान हों ।

[१७] रक्षा की प्रार्थना ।

वथर्वा ऋषिः १, मन्त्रोक्ता वेदताः १२-४ जगत्पतयः । ५, ७, १० अतिजगत्पतयः, ६ भुरिक्, ९, पञ्चपदा अति शक्वरी । दशर्चं सत्तम् ॥

अग्निर्मां पातु वसुभिः पुरस्तात् तस्मिन् क्रमे तस्मिंस्तुये तां पुरं प्रैमिं ।
स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा अत्मान् परिं दृष्टे स्वाहा ॥१॥

भा०—(अग्निः) अग्रणी, ज्ञानवान् (पुरस्तात्) आगे से या पूर्व की दिशा से (वसुभिः) वसुओं सहित (मा पातु) मेरी रक्षा करे । मैं (तस्मिन्) उसके बलपर या उसपर (क्रमे) आगे पग बढ़ाऊं या उसे वश करूं (तस्मिन् श्रेय) मैं उसी में आश्रय लूं (तां) उसीको (पुरम्) अपनी पालक दुर्गनगरी समझकर (प्रैमि) उसको प्राप्त करूं । (स मां

रक्षतु) वह मेरी रक्षा करे। (स मा गोपायतु) वह मुझे बचाये रखे।
(तस्मै) उसी के हाथों (आत्मानं परिददे) मैं अपने आपको सौंपता
हूँ। (सु-आहा) यही मेरी उत्तम आहुति है, या त्याग है।

इन दशों मन्त्रों में परमेश्वर से रक्षा की प्रार्थना है। राष्ट्र के पक्ष में
भिन्न दिशा के भिन्न २ अधिकारियों या राजा के भिन्न २ गुणों द्वारा उनसे
रक्षा की प्रार्थना है। या आधिभौतिक शक्तियों को वश करें, वह वास योग्य
अन्नादि पदार्थों से हमारी रक्षा करें।

वायुर्मन्तरिरेक्षेतस्या दिशः पातु तस्मिन् क्रमे० । ० ॥२॥

भा०—(वायुः) सर्व व्यापक वायु, या वायु के समान तीव्र वेगवान्
बलवान् पुरुष (अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष या उसके समान सर्वाच्छादक
पुरुष के बल से (एतस्या दिशः) इसी पूर्व दिशा से (पातु) मेरी रक्षा
करे। (तस्मिन् क्रमे०) पूर्व कहे 'वायुं' में मैं पैर जमाऊँ, उसे वश करूँ,
(तस्मिन् श्रये) उसमें आश्रय पाऊँ० इत्यादि पूर्ववत्।

सोमो मा रुद्रैर्दक्षिणाया दिशः पातु० । ० ॥३॥

भा०—(सोमः) सोम (रुद्रैः) रोदनकारी प्राणों, रुद्रों सहित
(दक्षिणायाः दिशः पातु,) दक्षिण दिशा, से मेरी रक्षा करे। (तस्मिन्
क्रमे०) इत्यादि पूर्ववत्।

वरुणो मादित्यैरेतस्या दिशः पातु० । ० ॥ ४ ॥

भा०—(वरुणः) वरुण, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर (मा) मुझे (आदि-
त्यैः) आदित्य, १२ मासों द्वारा (एतस्याः) उसी दक्षिण दिशा से रक्षा
करें। शेष पूर्ववत्।

सूर्यो मा द्वावापृथिवीभ्यां प्रतीच्या दिशः पातु० । ० ॥५॥

भा०—(सूर्यः) सूर्य (मा) मुझे (प्रतीच्याः दिशः) प्रतीची, पश्चिम दिशा
से (द्वावापृथिव्यान्) द्यौः और पृथिवी द्वारा (पातु) रक्षा करें। शेष पूर्ववत्।

आग्ने मौरधामतीरंतस्यां दिशः पांतु तासु क्रमे तासु श्रये
तां पुरं प्रैमिं । ता मां रक्षन्तु ता मां गोपायन्तु ताम्यं श्चात्मानं
परिं द्द्वे स्वाहां ॥ ६ ॥

भा०—(ओषधीमतीः आपः) ओषधियों के रस से पूर्ण जल
(एतस्याः दिशः पांतु) उस प्रतीची दिशा से ही मेरी रक्षा करे । (तासु
क्रमे०) उनके बलपर आगे बढ़े । इत्यादि पूर्ववत् ।

विश्वकर्मा मा सप्तऋषिभिर्दद्यात् दिशः पांतु तस्मिन् क्रमे० ॥७

भा०—(विश्वकर्मा, विश्व का रचने वाला परमेश्वर (मा) मेरी (सप्तऋषिभिः)
सात ऋषि, सात प्राणों द्वारा (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशा से (पातु)
रक्षा करे । अथवा (विश्वकर्मा) शिल्पी जन सात ऋषियों, सात प्रकार के
भिन्न ज्ञानवान शिल्पज्ञों से मेरी रक्षा करें । शेष पूर्ववत् ।

इन्द्रो मा मरुत्वान्नेतस्यां दिशः पांतु० ॥८॥

भा०—(मरुत्वान् इन्द्रः) मरुत्, प्राणों से सम्पन्न इन्द्र, आत्मा (एत-
स्या दिशः) इसी उदीची दिशा से (मा पातु) मेरी रक्षा करे अथवा वायुओं
से युक्त इन्द्र मेघ मेरी उत्तर से रक्षा करे । शेष पूर्ववत् ।

प्रजापतिर्मा प्रजननवान्त्सुहृ प्रतिष्ठाया ध्रुवायां दिशः पांतु० ॥९॥

भा०—(प्रजननवान्) प्रजाके उत्पन्न करने के सामर्थ्य से युक्त
(प्रजापतिः) प्रजापति, परमेश्वर या प्रजा का पालक गृहस्थ (प्रतिष्ठायाः)
जमकर या घर बसाकर बैठने अर्थात् प्रतिष्ठा देने वाली (ध्रुवाया दिशः)
ध्रुवा, नीचे की आधार दिशा से (मा पातु) मेरी रक्षा करे । शेष पूर्ववत् ।

बृहस्पतिर्मा विश्वेदेवैरुर्ध्वार्यां दिशः पांतु तस्मिन् क्रमे तस्मिं
क्षये तां पुरं प्रैमिं । स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां श्चात्मानं
परिं द्द्वे स्वाहां ॥ १० ॥

भा०—(बृहस्पतिः) बृहती वेदवाणी का पालक. या बृहत्=महान् लोको का पालक (विश्वैः देवैः) समस्त दिव्य पदार्थों द्वारा (ऊर्वायाः दिशः) ऊपर की दिशाओं से (मा पातु) मेरी रक्षा करे । शेष पूर्ववत् ।

ईश्वर पक्ष में—अग्नि, वायु, सोम, वहण, सूर्य, आपः, विश्वकर्मा इन्द्र, प्रजापति, और बृहस्पति, ये दसों नाम ईश्वर के हैं, वह वसुओं वास योग्य पृथिव्यादि लोकों से, अन्तरिक्ष से, ११ रुद्र नाम प्राणों से, आदित्यनाम १२ मासों से, सौ, पृथिवी, औपधि, सप्त ऋषि महत्, प्राणों से मुक्त जीवक रक्षा करें।

राजा पक्ष में—भिन्न २ विभाग की शक्ति प्राप्त करके राजा ही दश नामों को धारण करता है । अथवा उसीके अधीन सेनापति, आदि अधिकारी इन नामों से कहे जाने योग्य हैं । प्राची आदि दिशा, आगे पीछे दायें बायें, ऊपर नीचे के निदर्शक हैं । शैव आदि पाखण्ड धर्मों में भी एक ही देव के नाना गुणानुरूप नामों से नाना दिशाओं से रक्षा की प्रार्थना करने वाले कवच और स्तोत्र वेद के इस सूक्त का अनुकरण मात्र हैं ।

[१८] रक्षा की प्रार्थना ।

वर्षा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवताः । १, ८ सान्त्व्यो विष्टुभो, २' ६ कर्ष्यदुष्टभो ।

५ ५ सत्राङ्=स्वराड । ७, ९ १०, प्राजापत्यालिष्टुभः । दशर्च सूक्तम् ॥

अग्निं ते वसुवन्तमृच्छन्तु ये मांघ्रायवः प्राच्यां दिशो/भिदासात् ॥

वायुं ते अन्तरिक्षवन्तमृच्छन्तु ये मांघ्रायव एतस्यां दिशो/भिदासात्

भा०—ये जो 'मा' मुक्त पर अघायवः वध का प्रयोग करने वाले दस्यु लोग (प्राच्याः दिशः) प्राची, पूर्व की दिशा से (अभिदासात्) हिंसाकारी आवात करें (ते) वे (वसुवन्तम्) वसु अर्थात् नव युवक यांदाओं सहित (अग्निम्) अग्रणी, सेनापति को (ऋच्छन्तु) पहुंचकर दिनष्ट हो जावें ।

[१८] १, २—'अभिदासान्' इति क्वचित् ।

और (ये अधायव मा एतस्या दिशः अभिदासात्) उसी प्रकार जो मेरे द्रोही, आक्रमक लोग उर्मी दिशा से आवें (अन्तरिक्षवन्तम् वायुम्) अन्तरिक्ष सहित वायु को या अन्तरिक्षका वश करने वाले वायुके समान सेनापति को प्राप्त होकर (अच्छन्तु) नष्ट हो जाय ।

सोमं ते रुद्रवन्तमृच्छन्तु। ये माघायवा दक्षिणाया दिशो/भिदासात् ३
वरुणं ते आदित्यवन्तमृच्छन्तु। ये माघायव एतस्यां दिशो/भिदासात् ३

भा०—(ये मा अधायवः दक्षिणायाः दिशः अभिदासात्) जो मेरे द्रोही दक्षिण दिशा से, या द्र.यें से आक्रमण करें (ते) वे (रुद्रवन्त-सोमम् , रादनकारी योद्धाओं के स्वामी सोम, उनके प्रेरक राजा को प्राप्त होकर (अच्छन्तु) विनाश को प्राप्त हों ।

इसी प्रकार (ये मा अधायव इत्यादि) वे उसी दिशा के आक्रमक लोग (आदि-यवन्तम् वरुणम् , आदित्य के समान तेजस्वी, चमत्कामात् अग्निमय अस्त्रों के स्वामी, (वरुणं) शत्रुघ्नरक, वरुण नाम सेनापति को प्राप्त होकर (अच्छन्तु) नष्ट हो जाय ।

सूर्यं ते द्यावापृथिवीवन्तमृच्छन्तु ।

ये माघायवः प्रतीच्या दिशो/भिदासात् ॥५॥

अपन्त ओषधीमतीर्कच्छन्तु ।

ये माघायव एतस्यां दिशो/भिदासात् ॥६॥

भा०—(ये मा अधायवः प्रतीच्याः दिशः अभिदासात्) जो मेरे द्रोही, सुम्भर प्रतीची, पश्चिम दिशा से आक्रमण करें (ते) वे (द्यावापृथिवीवन्तम् सूर्यम्) आकाश और पृथिवी पर वश करने वाले सूर्य के समान, आकाश और पृथिवीके स्वामी तेजस्वी, 'सूर्य' नाम अधिकारी को अच्छन्तु) प्राप्त होकर नष्ट हो जाय । (ये मा अधाय० इत्यादि) और वे उसी

दिशा से आक्रमण करने वाले (ओषधिमतीः आपः प्राप्य ऋच्छन्तु) ओषधियों से समृद्ध जलों के समान सर्वरोग और कष्ट दूर करने में समर्थ पुरुषों को प्राप्त होकर नष्ट हो जाय ।

विश्वकर्माणां ते सप्तऋषिवन्तमृच्छन्तु ।

ये माघायव उदीच्या दिशोऽभिदासात् ॥ ७ ॥

इन्द्रं ते मरुत्वन्तमृच्छन्तु ।

ये माघायव एतस्यां दिशोऽभिदासात् ॥ ८ ॥

भा०—(ये अघायवः मा उदीच्याः दिशः अभिदासात् ते) जो द्रोही मेरे ऊपर उत्तर दिशा से आक्रमण करें वे (सप्तऋषिवन्तं विश्वकर्माणां ऋच्छन्तु) सात ऋषियों से युक्त विश्वकर्मा को प्राप्त होकर नष्ट हो जाय । (ये अघायवः मा एतस्यां दिशः अभिदासात्) जो द्रोही उसी दिशा से मुझ पर आक्रमण करते हैं (ते) वे (मरुत्वन्तम् इन्द्रम् ऋच्छन्तु) मर्त्यों या नाना वायु, शक्तियों या वायु के समान वेगवान् सैनिकों से सम्पन्न इन्द्र सेनापति को प्राप्त होकर नष्ट हों ।

प्रजापतिं ते प्रजननवन्तमृच्छन्तु ।

ये माघायवो ध्रुवाया दिशोऽभिदासात् ॥ ९ ॥

बृहस्पतिं ते विश्वदेववन्तमृच्छन्तु ।

ये माघायव ऊर्ध्वायां दिशोऽभिदासात् ॥ १० ॥

भा०—(ये अघायवः मा ध्रुवायाः दिशः अभिदासात्) जो द्रोही लोग मुझपर नीचे की दिशा, पृथ्वी की ओरसे आक्रमण करें (तेः) वे (प्रजननवन्तं प्रजापतिम् ऋच्छन्तु) सन्तानोत्पादन की शक्ति से युक्त प्रजापालक गृहस्थ जन को प्राप्त होकर नाश हों । (अघायवः मा ऊर्ध्वायाः दिशः अभिदासात्) जो द्रोही लोग मुझपर ऊपर की दिशा से आक्रमण

करें वे (विश्वेदेववन्तम् बृहस्पतिम् अच्यन्तु) समस्त विद्वान् पुरुषों से युक्त बृहस्पति, वेदज्ञ विद्वान् के पास प्राप्त होकर नष्ट हों ।

इस सूक्तको विचारने से प्रतीत होता है कि विद्वानों की ओरसे होने वाला आक्रमण ऊर्ध्व दिशासे होनेवाला आक्रमण है । उसके निराकरण के लिये देववान् बृहस्पति उपयुक्त है । गृहस्थों की तरफ से होनेवाला आक्षेप या व्युत्क्रम, ध्रुवा दिशासे आक्रमण है उसको रोकने के लिये प्रजननवान् प्रजापति है । ओषधिरसायन द्वारा आक्रमण पश्चिम दिशाका आक्रमण, है उसका प्रतीकार भी वही है । दूसरे ग्रन्थकार में से होनेवाले आक्रमण भी प्रतीची या पीछे से होनेवाले आक्रमण के समान है उनका निराकरण सूर्य करे । शिल्पियों की ओर से उठा आक्रमण उत्तर दिशा से आक्रमण होने के समान है । व्यापारियों और सैनिकों की ओर से उठा द्रोह या आक्रमण दक्षिण दिशासे होने वाले आक्रमण के समान है क्योंकि वे राजा के दाहिने हाथ के समान शक्तिप्रद हैं । वैज्ञानिकों और धन अन्न आदि के स्वामियों की तरफ से उत्पन्न द्रोह पूर्व दिशा से होने वाले आक्रमण के समान है । क्योंकि सब से प्रथम वही कठिनाई है । परमेश्वर के विषय में इसे पूर्व सूक्त के समान जानो ।

[१६] रक्षा की प्रार्थना

अथर्वा ऋषिः चन्द्रमा उत मन्त्रोक्ता देवता १, ३, ९ सुरिण् बृहस्पतः १०
स्वराट् २, ४-८, ११, अनुष्टुप् ३ । शेषांपत्नयः । एकादशर्चं सूक्तम् ॥

मित्रः पृथिव्योर्दक्रामत् तां पुरं प्र शंयामि वः ।

तामा विंशत् तां प्र विंशत् सा वः शर्मं च वर्मं च यच्छतु ॥ १ ॥

भा०—(मित्रः) प्रजा के साथ स्नेह करने वाला राजा (पृथिव्या) पृथिवी से, पृथिवी के ऊपर बसने वाली प्रजा, या पृथिवी के समान विस्तृत

मान्नाज्य शक्तिने उद् अक्रामत्) ऊपर उठता है उच्च पद प्राप्त करता है ।
 मैं । ताम् । उसको । वः) तुम लोगों के लिये (पुरम्) पुर, पालक और
 ररुक दुर्ग के समान (प्रणयामि) बनाता हूं । हे पुरुषो ! (ताम्) उसमें
 (आ विशत) आकर बसो । तां (प्र विशत ; उसमें प्रवेश करो । आं
 (सा) वह (वः) तुमको (शम्) सुख और (वने च) दुखों से बचने
 का साधन (यच्छतु) प्रदान करे ।


वायुरन्तरिक्षेणोदक्रामत् तां० । ० ॥ २ ॥ सूर्यो दिवोदक्रा
 मत् तां० । ० ॥ ३ ॥ चन्द्रमा नक्षत्रेणोदक्रामत् तां० । ० ॥ ४ ॥
 सोम ओषधीभिरुदक्रामत् तां० । ० ॥ ५ ॥ यज्ञो दक्षिणाभिरुद
 क्रामत् तां० । ० ॥ ६ ॥ समुद्रो नदीभिरुदक्रामत् तां० । ० ॥ ७ ॥
 ब्रह्म ब्रह्मचारिभिरुदक्रामत् तां० । ० ॥ ८ ॥ इन्द्रो वीर्येणोद
 क्रामत् तां० । ० ॥ ९ ॥ देवा अमृतेनादक्रामंस्तां० । ० ॥ १० ॥
 प्रजापतिः प्रजाभिरुदक्रामत् तां पुरं प्र संयामि वः । तामा
 विशत तां प्र विशत सा वः शमं च वमं च यच्छतु ॥ ११ ॥

भा०—(२) (वायुः) व्यापन गुणवाला वायु (अन्तरिक्षेण)
 अन्तरिक्ष, अर्थात् अन्तरिक्षस्थ मेघ, विद्युत् आदिशक्तियों से (उद् अक्रामत्)
 उच्च पद को प्राप्त है, उसको भी मैं तुम्हारे लिये पालक दुर्ग के समान
 बनाता हूं, उसमें अश्रित होकर रहो, उसमें प्रवेश करो, वह तुमको दुःख
 और विपत्तियों से बचने का कवच या साधन प्रदान करे । अन्तरिक्ष और
 वायु मण्डल प्रजाओं की आकाश से घाने वाले नाना उत्पातों से रक्षा
 करता है । यदि यह न हो तो उत्काण्ड पृथ्वी के जीवों का नाश करदे । वायु
 मण्डल में भारी २ उत्काण्ड भी रगड़ से भुर भुराकर नष्ट हो जाती हैं ।

(२) सूर्य, धौलोक या तेजोमय सूक्ष्मत्व से (उत् अक्रामत्) उच्च शक्ति को प्राप्त है । उसको भी हे जीव ! तुमें एक दुर्ग के समान बनाता हूं । इत्यादि पूर्ववत् । (४) (चन्द्रमाः नक्षत्रैः उत् अक्रामत्) चन्द्रमा नक्षत्रों के संग से उत्तम पद को प्राप्त है । (तां वः पुरम् प्रणयामि) इत्यादि पूर्ववत् । (५) (सोमः आपधीभिः उन् अक्रामत्) सोम लता शोषाधियों के संग से उन्नत पद को प्राप्त है । हे प्रजाओं ! (ताम् पुरम् वः प्रणयामि) इत्यादि पूर्ववत् । (६) (यज्ञः दक्षिणाभिः उद् अक्रामत्) यज्ञ दक्षिणाओं के संग से उन्नति को प्राप्त है । (ताम् पुरम्०) इत्यादि पूर्ववत् । (७) (समुद्रः नदीभिः उद् अक्रामत्) समुद्र नदियों के साथ उच्चगति को प्राप्त है । (ता पुरं वः०) इत्यादि पूर्ववत् । (८) (ब्रह्म ब्रह्मचारिभिः उद् अक्रामत्) ब्रह्म, वेद, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी पुरुषों के योग से उन्नति को प्राप्त होता है । (तां पुरम्०) इत्यादि पूर्ववत् । (९) (इन्द्रः वीर्येण उद् अक्रामत्) इन्द्र, ऐश्वर्यवान् राजा वीर्य से उन्नत पद को प्राप्त है, (तां पुरं० इत्यादि) पूर्ववत् । (१०) (देवाः) देव, विद्वान् जन (अमृतेन) अमृत, परमात्मा के ज्ञान या मोक्ष बल से उन्नति को प्राप्त होते हैं, (ताम् पुरम्०) इत्यादि पूर्ववत् । (११) (प्रजापतिः) प्रजा का पालक परमेश्वर या पिता गृहस्थ (प्रजाभिः) प्रजाओं, उत्कृष्ट सन्ततियों द्वारा (उद् अक्रामत्) उत्तम पद को प्राप्त होता है । (ताम् पुरं०) इत्यादि पूर्ववत् ।

अर्थात्, अधीन, सहकारी पुरुषों के सहयोग से ही मुख्य पुरुष का उन्नति प्राप्त होती है इसलिये प्रजागण अपने मुख्य में मित्र का सा स्नेह, वायुकासा, व्यापक गुण, सूर्यका सा तेज, चन्द्रका सा मधुर प्रकाश, और शालहादक गुण, सोमकासा उत्तम रस, यज्ञका सा संगठन, समुद्र की नदी सर्वाश्रयता, वेदकासा ज्ञान, प्रजापति के समान उत्तम प्रजा आदि, उत्तम गुणों से युक्त पुरुषों के साथ रहकर स्वयं अन्तरिक्ष के समान अवकाश प्रदान, दिव, वा आकाश के समान तेज, प्रसारक गुण, नक्षत्रों के समान

मधुर प्रकाश, ओषधियों के समान रोग नाशकता, नदियों के समान पति के सम्पत्ति की वृद्धि, ब्रह्मचारियों के समान तपस्या और ज्ञानप्रेम, वीर्य के समान पोषकता, अमृत के समान शान्तिप्रदता, प्रजाओं के समान स्नेहा नुवर्त्तिता आदि गुणों को अपने में धारण करके अपनी उन्नति करें और अपने नेता पुरुष को अपने दुर्ग के समान समन्वय करके उसके अधीन रहें और उसकी शक्ति बढ़ावें तभी वह अधीन प्रजाओं को सुख और शांति प्रदान करता और विपत्तियों से उनकी रक्षा करता है ।



[२०] रक्षा की प्रार्थना

अथर्व ऋषिः । नाना देवताः १. त्रिष्टुप्, २. ज्याती, ३. पुरस्ताद्बृहती, ४. जनुष्टुप् । ऋक्चन्द्रं क्व ॥

अथ न्यधुः पौरुषेयं च्छ्रं यमिन्धानी धाता सविता बृहस्पतिः ।
सोमो राजा वरुणो अश्विना यमः पूषास्मान् परि पातु मृत्याः ॥१॥

मा०—(यन्) जिस (पौरुषेयं) पुरुषों द्वारा किये जाने वाले (गधम्) मारने या घात प्रतिघातके साधन शस्त्र अस्त्रों को (अपं नि अधुः) वे शत्रुगण दूर, गुप्त रूपमें ला रखते हैं उस (नृत्योः) नृत्यु प्राण घातक साधन से (इन्द्र-अग्नी) इन्द्र और अग्नि, विद्युत् और अग्नि, (धाता) पोषक वायु (सविता) सूर्य, (बृहस्पतिः) वाणीका स्वामी, ऋषि या वेदज्ञ, (सोमः) ओषधियों का स्वामी, सोम, (राजा) प्रजाका स्वामी राजा, (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ, दुष्टों का वारक, (अश्विना) स्त्री पुरुष, या दिन और रात, (यमः) नियन्ता, या ब्रह्मचारी, (पूषा) सबका पोषक परमेश्वर या पृथिवी (अस्मान् परि पातु) हमारी रक्षा करें ।

इन्द्र अग्नि आदि रास्ट्र के भिन्न २ पदाधिकारी भी हो सकते हैं ।
वे हमारी पुरुषकृत हत्या-साधनों से रक्षा करें ।

यानि चकार भुवनस्य यस्पतिः प्रजापतिमार्तरिश्वां प्रजाभ्यः ।
प्रदिशो यानि वसते दिशश्च तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु ॥२॥

भा०—(भुवनस्य) समस्त भुवन, संसार का (यः) जो (पतिः) पालक (प्रजापतिः) प्रजा, उत्पन्न होने वाले प्राणियों का पालक, स्वामी (मातरिश्वा) सर्वनिर्मात्री प्रकृति के मूल परमाणुओं के भीतर भी व्यापक है, वह (यानि) जिन रक्षासाधनों को (प्रजाभ्यः) प्रजाओं के लिये (चकार) बनाता है और (यानि) जो रक्षासाधन (प्रदिशः दिशः च) दिशाओं और उपदिशाओं तक को (वसते) आच्छादित कर रहे हैं (तानि) वे सभी (मे) मेरे लिये (बहुलानि) बहुत प्रकार के पदार्थ (वर्माणि) वर्म, कवच के समान मेरे जीवन के रक्षक (सन्तु) हों ।

यत् ते तनूष्वनह्यन्त देवा द्युराजयो देहिनः ।

इन्द्रो यच्चक्रे वर्मं तदस्मान् पातु विष्वतः ॥३॥

भा०—(यत् वर्मं) जिस वर्म, रक्षाकारी साधन, कवच को (ते) वे (देवाः) दिव्य पदार्थ (द्युराजयः) प्रकाश और तेज से चमकने वाले (देहिनः) परमाणु पुण्ड्रों में टपचय प्राप्त करके स्थूल रूप में प्रकट होकर अपने (तनूषु) वित्तृत प्रकट स्वरूपों में (अनह्यन्त) धारण करते हैं और (यत्) जिसको (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर या आत्मा स्वयं (चक्रे) बनाता है (तत्) वह (अस्मान् विश्वतः पातु) हमें सब और से रक्षा करे अर्थात् दिव्य पदार्थ अग्नि जल आदि स्थूल पदार्थ भी अपनी संज्ञा को स्थिर रखने के लिये जिन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और ईश्वर या आत्मा जो बल या रक्षासाधन स्वयं बनाता है वह हमें बचावे ।

[२०] ३—(दिः) 'देवा अधिराज्याय योधिनः' इति द्विर्निकामितः । 'देवाधिरी' ज्योयोधेहि नः' इति क्वचित् । देव अधिराज यः वेहिनः । इति क्वचित् पदपाठः । (च०) 'पातु सर्वतः' इति क्वचित् पदपाठः ।

अथवा—(घुराजयः) प्रकाशमय ज्ञान से चमकने वाले (देहिनः) शरीरधारी (देवाः) विद्वान और योद्धा लोग पुरुष (यत् वर्म) जिस कवच को (तनूवु) शरीरों में धारण करते हैं वे कवच और ' इन्द्रः, राजा (यत्) जिस (वर्म) वर्म रक्षा के साधन दुर्ग आदि को (चक्रे, वनवाता है (तत् अस्मान् विश्वतः पातु) वह हमारी सब और से रक्षा करे ।

वर्म से छात्रांपृथिवी वर्माहर्वर्म सूर्यः ।

वर्म से विश्वं देवाः क्रन् मा मा प्रापत् प्रतीचिका ॥४॥

। भा०—(छात्रा पृथिवी) आकाश और पृथिवी दोनों (में वर्म) मेरे लिये रक्षाकारी कवच हों, (अहः) दिन (सूर्यः) सूर्य, और (विश्वेदेवाः) समस्त दिव्य पदार्थ या देव विद्वान् जन सभी (ये वर्म ३) मेरे रक्षाकारी कवच (क्रम) बनावें । जिससे (प्रतीचिका) मेरे विरुद्ध उठने वाली शत्रु सेना (या) मुझ तक (मा प्रापत्) न पहुँच सके ।

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

[तत्रै कादगास्तानि दातततिध्वजः]

[२१] छन्दो का वर्णन

ब्रह्मा ऋषिः । छन्दो देवता । एकावसाना द्विपदा बृहती । एकं सूक्तम् ॥

गायत्र्युःप्लिगनुष्टुप् बृहती पङ्क्तिस्त्रिष्टुप् जगत्थी

भा०—(गायत्री,) गायत्री छन्द, (उप्लिग्) उप्लिग् छन्द, (अनुष्टुप्) अनुष्टुप् छन्द, (बृहती) बृहती छन्द ' पंक्तिः) पंक्ति छन्द (त्रिष्टुप्

४—(च०) 'योना' इति क्वचित् । (८० च०) वर्म मे ब्रह्मण्यत्ततिर्मानाम्

पत्तो भयन् इत्याप० ।

[२१] १—'गायत्र्युप्लिग' इति क्वचित् । त्रिष्टुप् जगत्थे, ती, ० त्थे इति तानानासत् ।

जगत्सौ) त्रिष्टुप् छन्द और जगती छन्द । इन समस्त छन्दों का ज्ञान विद्वानों को करना चाहिये । ये क्रम से २४, २८, ३२, ३६, ४०, ४४, ४८ अक्षरों की संख्या से हैं । इनके अनुसार ही ब्रह्म अर्थात् वेद के स्वाध्याय के लिये मनुष्य अपने जीवन में २४, २८, ३२, ३६, ४०, ४४ और ४८ वर्षों का ब्रह्मचर्य धारण करें । इसके अतिरिक्त मानव शक्ति की वृद्धि के लिये गायत्री=पृथिवी, ब्राह्मण, प्राण, शिर, अग्नि, प्राची, वसुओं की पालक शक्ति । उष्णिक्=आयु, चक्षु, पशु, यजमान, नासिका या ग्रीवा । अनुष्टुप्=मित्र की पालक शक्ति, वाणी, ज्येष्ठता, पादभाग, गोदे, प्रजापति राजन्य, अश्व, आपः, सत्यानृत । बृहती=पशु, स्वाराज्य, श्री, अन्तरिक्ष, वाणी, मन, प्राण, व्यान, आत्मा, द्यौः । पंक्तिः=विष्णु की पालक शक्ति, पक्ष, अन्न, अग्नि, ४४, पुरुष, पशु, यज्ञ, श्रोत्र । त्रिष्टुप्=वज्र, इन्द्र, वीर्य, ओजः, इन्द्रिय, उरस्, राजन्य, क्षेत्र, वायु, अन्तरिक्ष, पशु, अपान, आत्मा । जगती=पृथ्वी, सिनीवाली, पशु, ओपधि, अश्व, वैश्य, आदित्यों की पालक शक्ति, श्रोणिभाग, वर्षाऋतु, सत्य, अनुकभाग, अचङ्घि प्राण, मध्यभाग, श्रोत्र, यश ॥ अर्थात् आध्यत्म, में सप्तप्राण, आधियाज्ञिक में सप्त सोम याग, देह में सप्तधातु, राज्य में सप्त प्रकृति और त्रिभुवन में ५ सूक्ष्म भूत और महत् और अहंकार तत्त्व इत्यादि सात छन्दों की योजना यथोचित रीति से जाननी चाहिये ।

[२२] अथर्व सूक्तों का संग्रह

अंगिरा ऋषिः । गन्धोक्ता देवताः । १ साम्न्युष्णिक् ३, १९ प्राजापत्या गायत्री । ४, ७, ११, १७, दैव्यो जगत्यः । ५, १२, १३ दैव्यस्त्रिष्टुभः, २, ६, १४, १६, २०, दैव्यः पंक्तयः । ८-१० आसुर्यो जगन्यः । १८ आसुर्यो अनुष्टुभः, (१०-२० एकावसानाः) २ चतुष्पदा त्रिष्टुभः । एकविंशत्पृथ्वं समासभूक्तम् ॥

आहिरसानामाद्यैः पञ्चानुवाकैः स्वाहा ॥१॥

भा०—(आङ्गिरसानाम्) आङ्गिरस वेद में कहे अनुवाकों में से (आद्यैः) आदि के (पञ्चानुवाकैः) पांच अनुवाकों से (स्वाहा) उत्तम ज्ञान प्राप्त करो ।

पष्ठाय स्वाहा ॥ २ ॥ सप्तमाष्टमाभ्यां स्वाहा ॥ ३ ॥

भा०—(पष्ठाय स्वाहा) छठे अनुवाक से उत्तम शिक्षा ग्रहण करो । (सप्तमाष्टमाभ्यां स्वाहा) सातवें और आठवें अनुवाकों से उत्तम ज्ञान प्राप्त करो ।

नीलनखेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥

भा०—(नीलनखेभ्यः स्वाहा) 'नीलनख' नामक उन सूक्तों से उत्तम ज्ञान प्राप्त करो जिनमें शत्रुओं द्वारा दुष्ट पुरुषों के दमन करने का उपदेश किया गया है ।

हरितेभ्यः स्वाहा ॥ ५ ॥

भा०—(हरितेभ्यः स्वाहा) हरितसूक्त जिनमें औषधि लता, वनस्पतियों का वर्णन है उनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करो ।

क्षुद्रेभ्यः स्वाहा ॥ ६ ॥

भा०—(क्षुद्रेभ्यः स्वाहा) क्षुद्र नामक सूक्त जिनमें अति सूक्ष्म ब्रह्म का विवेचन किया है जैसे स्कम्भ सूक्त आदि, उनसे भी तुम उत्तम सुख जनक ज्ञान का लाभ करो ।

पर्यायिकेभ्यः स्वाहा ॥ ७ ॥

भा०—(पर्यायिकेभ्यः स्वाहा) पर्याय सूक्तों से भी उत्तम ज्ञान करो ।

प्रथमेभ्यः शङ्खेभ्यः स्वाहा ॥ ८ ॥ द्वितीयेभ्यः शङ्खेभ्यः स्वाहा ॥ ९ ॥

तृतीयेभ्यः शङ्खेभ्यः स्वाहा ॥ १० ॥

भा०—(प्रथमेभ्यः, द्वितीयेभ्यः तृतीयेभ्यः शंखेभ्यः ३ स्वाहा ३) प्रथम, द्वितीय और तृतीय शंख सूक्तों का भी उत्तम ज्ञान प्राप्त करो । शंख सूक्त 'शंखेदेवी' आदि शान्तिगण में पठित सूक्त समझने चाहिये । वे तीन कारणों में पृथक् वर्णित होने से प्रथम, द्वितीय, तृतीय नाम से कह गये हैं ।

उपोत्तमेभ्यः स्वाहा ॥११॥ उत्तमेभ्यः स्वाहा ॥ १२ ॥

उत्तरेभ्यः स्वाहा ॥ १३ ॥

भा०—(उपोत्तमेभ्यः उत्तमेभ्यः उत्तरेभ्यः स्वाहा ३) उत्तमों के समीप उपोत्तम, उत्तम और उत्तर इन तीन प्रकार के सूक्तों का भी ज्ञान करना चाहिये, मोक्ष विषयक सूक्त उत्तम, साधना विषयक सूक्त उपोत्तम, और कर्मकारण विषयक या यज्ञ विषयक सूक्त उत्तर प्रतीत होते हैं ।

ऋषिभ्यः स्वाहा ॥१४॥ शिखिभ्यः स्वाहा ॥१५॥

भा०—(ऋषिभ्यः स्वाहा) वेदमन्त्रों के द्रष्टा ऋषियों के उत्तम ज्ञान को प्राप्त करो । (शिखिभ्यः स्वाहा) ब्रह्मज्ञान के प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारियों से प्राप्त ज्ञान को प्राप्त करो ।

गणोभ्यः स्वाहा ॥१६॥ महागणोभ्यः स्वाहा ॥१७॥

सर्वेभ्योङ्गिरोभ्यो विद्गणोभ्यः स्वाहा ॥१८॥

पृथक्सहस्राभ्यां स्वाहा ॥१९॥ ब्रह्मणे स्वाहा ॥२०॥

भा०—(गणोभ्यः स्वाहा) गणों में पढ़े गये सलिल, शान्ति सूक्त आदि का उत्तम रीति से ज्ञान प्राप्त करो । (महागणोभ्यः स्वाहा) महागण, बड़े गणों में पढ़े गये पृथ्वीसूक्त आदि का भी उत्तम रीति से ज्ञान करो । (सर्वेभ्यः अंगिरोभ्यः विद्गणोभ्यः स्वाहा) समस्त आंगिरसवेद के जानने हारे विद्वान् पुरुषों द्वारा देखे गये ज्ञानसूक्तों को भी उत्तम रीति से

मनन करो । 'पृथक् सूक्त' अर्थात् १२वां काण्ड और 'सहस्र सूक्त' अर्थात् पुरुष सूक्त इनका भी ज्ञान उत्तम रीति से प्राप्त करो । (ब्रह्मणे स्वाहा) समस्त ब्रह्मविषयक सूक्तों का स्वाध्याय करो ।

ब्रह्मज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह्मात्रे ज्येष्ठं दिवमा ततान ।

भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत् जज्ञे तेनार्हति ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः ॥२१॥

भा०—(ब्रह्मज्येष्ठा) जिन समस्त वीर्यों या बलों में ब्रह्म ही सब से अधिक प्रबल और उत्कृष्ट बल है वे (वीर्याणि) समस्त वीर्य, बल से साधने योग्य कार्य (संभृता) उत्तम रीति से धारण करने चाहियें । (ज्येष्ठम्) उस सर्व से उत्तम (ब्रह्म) ब्रह्म, उस महान् ब्रह्म शक्ति ने ही (अत्रे) सृष्टि के प्रारम्भ में (दिवम्) द्यौ, आकाश को या सूर्य को (आत-तान) विस्तृत किया था, रचा था ।

अथवा (ब्रह्म=ब्रह्मणि, ज्येष्ठानि वीर्याणि संभृतानि) ब्रह्म में ही समस्त वीर्य=बल एकत्र विद्यमान हैं । ब्रह्म ने ही (दिवम्) तेजोमय ब्रह्मणों से युक्त आकाश या द्यौलोक अर्थात् तेजोमय सूर्यों से पूर्ण संसार और संसार के समस्त सूर्यों और नक्षत्रों को रचा । (भूतानां) समस्त उत्पन्न होने वाले प्राणियों और भुवनों में से (ब्रह्मा प्रथम उत) ब्रह्मा, वेदज्ञान या ब्रह्मज्ञान से युक्त पुरुष ही (जज्ञे) उत्पन्न हुआ । अर्थात् प्रथम आदि में जो लोग उत्पन्न हुए सबसे प्रथम ब्रह्मज्ञानी अपि-गण ही हुए । (तेन) उससे (ब्रह्मणा) उस महान् ब्रह्म से (कः स्पर्धि-तुम् अर्हति) कौन मुकाबला कर सकता है । उसकी बराबरी कौन कर सकता है ।

२१—(व०) 'प्रथमा उत इति पदपाठः क्वचिद् । 'प्रथमोह' इति हित्त्विका मितः । 'प्रथमोऽथ' इति क्वचित् । ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या संभृतानि... (व०) नृत्तस्य ब्रह्म प्रथमोत् जज्ञे इति पेप्य० सं० ।

[२३] अथर्व वेद के सूक्तों का संग्रह

अथर्व ऋषिः । मन्त्रोक्ताः उत्तचन्द्रमा देवता । १ वासुदेव बृहती । २-७, २०, २३, २७ दैव्यस्त्रिष्टुभः । १, १०, १२, १४, १६ प्राजापत्या गाथभ्यः । १७, १९, २१, २४, २५, २९ दैव्यः पंक्तयः, । १३, १८, २२, २६, २८ दैव्यो जगलः
(१-२९ एकावसानाः) । त्रिंशद्वचं द्वितीयं समासयुक्तम् ।

आथर्वणानां चतुर्च्येभ्यः स्वाहा ॥१॥ पञ्चच्येभ्यः स्वाहा ॥२॥
 पञ्चच्येभ्यः स्वाहा ॥३॥ सप्तच्येभ्यः स्वाहा ॥४॥ अष्टच्येभ्यः
 स्वाहा ॥५॥ नवच्येभ्यः स्वाहा ॥६॥ दशच्येभ्यः स्वाहा ॥७॥ एका-
 दशच्येभ्यः स्वाहा ॥८॥ द्वादशच्येभ्यः स्वाहा ॥९॥ त्रयोदशच्येभ्यः
 स्वाहा ॥१०॥ चतुर्दशच्येभ्यः स्वाहा ॥११॥ पञ्चदशच्येभ्यः स्वाहा
 ॥१२॥ षोडशच्येभ्यः स्वाहा ॥१३॥ सप्तदशच्येभ्यः स्वाहा ॥१४॥
 अष्टादशच्येभ्यः स्वाहा ॥१५॥ एकोनविंशतिः स्वाहा ॥१६॥
 त्रिंशतिः स्वाहा ॥१७॥ महत्कारणाय स्वाहा ॥१८॥ तूच्येभ्यः
 स्वाहा ॥१९॥ एकच्येभ्यः स्वाहा ॥२०॥ जुष्टेभ्यः स्वाहा ॥२१॥
 एकानुच्येभ्यः स्वाहा ॥२२॥ रोहितेभ्यः स्वाहा ॥२३॥ सूर्याभ्यां
 स्वाहा ॥२४॥ घ्रात्याभ्यां स्वाहा ॥२५॥ प्राजापत्याभ्यां स्वाहा
 ॥२६॥ विप्रासह्यै स्वाहा ॥२७॥ मङ्गलिकेभ्यः स्वाहा ॥२८॥
 ब्रह्मणे स्वाहा ॥२९॥

भा०—(आथर्वणानाम्) अथर्ववेद में आथर्वे सूक्तों में से (चतुर्च्ये-
 च्येभ्यः) चार २ ऋचा के बने सूक्तों का स्वयं मनन करो । (पञ्चच्येभ्यः
 स्वाहा० इत्यादि २-१७ ।) इसी प्रकार ६, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२

१३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, और २० ऋचा वाले सूक्तों का भी ज्ञान करो। इसके अतिरिक्त (महत् काण्डाय स्वाहा) बड़े काण्ड का स्वाध्याय करो। (एकचेंभ्यः स्वाहा) एक ऋचा के सूक्तों का भी स्वाध्याय करो। (बुद्रेभ्यः) बुद्रे सूक्त [का० १० १०] अर्थात् स्कन्ध आदि सूक्तों का भी ज्ञान करो। (एकानृचेभ्यः) एक चरण के मन्त्र जो 'अनृच' अर्थात् पूर्ण ऋचा नहीं और जिनमें पाद की व्यवस्था नहीं है जैसे ब्रात्य सूक्त उनका भी स्वाध्याय करो। (रोहितेभ्यः स्वाहा) रोहित देवता विषयक सूक्तों [१३ का०] का स्वाध्याय करो (सूर्येभ्यः स्वाहा) 'सूर्य' देवता के दो अनुवाकों [का० १४] का स्वाध्याय करो। (ब्रात्याभ्यां स्वाहा) ब्रात्य विषयक [का० १५] दो सूक्तों का स्वाध्याय करो। (प्राजापत्याभ्यां स्वाहा) प्राजापतिविषयक [का० १६] दो अनुवाकों का स्वाध्याय करो। (विपासह्यै स्वाहा) विपासहि सूक्त [१७ का०] का स्वाध्याय करो। (मंगलिकेभ्यः स्वाहा) मंगलिक, स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ [१६ का०] का भी स्वाध्याय करो। (ब्रह्मणे स्वाहा) शेष ब्रह्मवेद [२० का०] का भी स्वाध्याय करो।

ये दोनों समास सूक्त कहाते हैं। इनमें समस्त अथर्ववेद को संवित्त करके उनके स्वाध्याय करने का उपदेश किया है। ज्ञान सूक्तों की आहुति स्वाध्यायमय ज्ञान यज्ञ है इसलिये 'स्वाहा' शब्द का सर्वत्र 'अध्ययनं करो' ऐसा ही अर्थ किया गया है।

ब्रह्मं ज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिव्यमा तंतान ।
भूतानां घृह्णा प्रथमोत जंष्टे तेनाहति ब्रह्मणा स्पार्धितुं कः ॥२०॥

भा०—व्याख्या देखो इसी सूक्त के मन्त्र २१ में।

[२४] राजा के सहायक रक्षक और विशेष वृद्ध ।

येन देवं संवितारं परि देवा अयात्त्यन् ।

तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि रान्द्राय धत्तन ॥१॥

भा०—(येन) जिस प्रयोजन से (सवितारम्) सर्व प्रेरक (देवम्) विजिगीषु राजा को (देवाः) युद्धविजयी अन्य राजा लोग (परि अधारयन्) चारों ओर से रक्षा करते, उसे धरे रहते हैं (तेन) उसी प्रयोजन या उद्देश्य से (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्म, वेद के पालक स्वामी, वेदज्ञ विद्वान् जन आप लोग भी (राष्ट्राय) राष्ट्र की रक्षा के लिये (परि धत्तन) उसकी रक्षा करो और उसके चारों ओर विराजो । प्रेरक अग्रणी नेता की बल वृद्धि के लिये योद्धाओं के समान वेदज्ञ विद्वान् भी राजा की रक्षा करें और उस का साथ दें । अथवा—(येन) जिस वस्त्र या पोशाक से विजयी योद्धागण अपने अग्रणी को (परि अधारयन्) सुशोभित करते हैं (तेन) उसी से हे (ब्रह्मणस्पते) वेदज्ञ विद्वान् तथा अन्य विद्वद्गण आप लोग मिलकर भी (राष्ट्राय) राष्ट्र के लिये (इमं) इस राजा को (परिधत्तन) आच्छादित करो ।

परिममिन्द्रमायुषे महे क्षत्राय धत्तन ।

यथैनं जरसे नयां ज्योक् क्षत्रेधि जागरत् ॥२॥

भा०—(इमम् इन्द्रम्) इस राजोचित गुणैश्वर्य से सम्पन्न राजा को (आयुषे) दीर्घ आयु प्राप्त कराने और (महे क्षत्राय) बड़े भारी क्षत्र-बल को प्राप्त कराने के लिये हे विद्वान् पुरुषो ! (परिधत्तन) सब प्रकार से पुष्ट करो (यथा) जिससे (एनम्) इसको इम (जरसे) वार्धक्य काल तक (नयान्) प्राप्त करा सकें । और वह (क्षत्रे अधि) राष्ट्र को क्षति से बचाव करने वाले बल के ऊपर (ज्योक्) चिरकाल तक (अधिजागरत्) जागृत सावधान होकर रहे ।

परिमं सोममायुषे महे श्रोत्राय धत्तन ।

यथैनं जरसे नयां ज्योक् श्रोत्रेधि जागरत् ॥३॥

भा०—हे विद्वानों और राज्य के प्रधान पुरुषों ! (इनम् सोमन्) इस सौम्य गुण और स्वभाव वाले राष्ट्र के संचालक न्यायाधीश को (आयुषे) राष्ट्र को दीर्घ आयु प्राप्त कराने और (ओत्राय) प्रजा के कष्टों के श्रवण करने के लिये (परिधत्तन) रक्त्वा, नियत करो या परिपुष्ट करो या तदुचित आसन वेप भूषा से युक्त करो, (यथा) जिससे (एनं) इससे (वरसे) बुढ़ापे तक के लिये (नयान्) प्राप्त करावें और (ज्योक्) चिरकाल तक वह (ओत्रे) राष्ट्र की आवश्यकताओं, त्रुटियों और प्रजा के कष्टों के श्रवण के कार्य पर (अधि जागरत्) सदा जागृत, सचेत रहे ।

परिं धत्त धत्त नो वर्चसं ज्वरान्युं कृणुत दीर्घमायुः ।

वृहस्पतिः प्रायच्छद् वासं एतत् सोमाय राज्ञे परिंघातवा उं ॥२४॥

भा०—हे राष्ट्र के नेता पुरुषों ! (परिधत्त) आप लोग राष्ट्र की रक्षा करें । और (इनम्) इस राजा को भी (नः वर्चसे) हमारे ही तेज और बल, प्रभाव और आतङ्क के लिये (परिधत्त) इसको पुष्ट करो । और इसकी (आयुः) आयु को (जरामृत्युन्) बुढ़ापे के अन्त में मृत्यु प्राप्त कराने वाली और (दीर्घम्) दीर्घ (कृणुत) बनाओ । (वृहस्पतिः) वृहती, वेदवाणी का पालक, विद्वान् पुरुष (एतत्) ऐसा प्रजा का बलरूप आच्छादन, रक्षा साधन (वासः) वस्त्र, (सोमाय राज्ञे) राजा सोम को (परिघातवा उं) धारण करने के लिये (प्रायच्छद्) प्रदान करता है जिससे वे सुरक्षित रह कर अपना कर्तव्य पूर्ण रीति से निभा सकें ।

राजाओं का लम्बा लटकता चोगा या गाउन दीर्घ आयु और विशाल प्रजाबल को धारण करने वाले राजा के विशेष सान्ध्य को सूचित करने के लिये होता है यह अभिप्राय इस मन्त्र के भावार्थ से स्पष्ट है ।

क्षुरां सु गच्छ परिं धत्त्र वासो भवां गृहीनामंभिगस्तिपा उं ।

शतं च जीवं शरदः पुरुची रायश्च गोयंमुप सं व्यंस्व ॥२५॥

भा०—हे राजन् ! तू (जरां) बुढ़ापे तक (सु) मली प्रकार, सुख से (गच्छ) पहुँच। (वासः) वस्त्र (परिधत्स्व) धारण कर और (गृधीनाम् = कृधीनाम्) समस्त प्रजा के पुरुषों की (अभिशस्तिपा उ भव) चारों ओर से होने वाले हिंसाकारी आक्रमणों या दृष्ट अपवादों से भी रक्षा करने में समर्थ हो। (शतम् शरदः जीव) तू सौ बरस तक प्राण धारण कर। (पुरुचीः) बहुत से सुखों से पूर्ण (रायः च) धन की (पोपम्) पुष्टि, समृद्धि को (उप सं व्ययस्व) अपने ऊपर धारण कर। अर्थात्-राजा के ऊपर प्रजा के विशाल, लम्बे चौड़े शरीर को बचाने का जो विस्तृत, विशाल कार्य है उसको सदा स्मरणादि लाने के लिये राजा को विशेष, असाधारण लम्बा चौड़ा वस्त्र पहनाया जाता है। इसी कारण उसको नाना प्रकार के धन, कोश समृद्धि रखने का भी वेद में आदेश है। यह मन्त्र की ध्वनि है।

परीदं वासां अधिथाः स्वस्तये भूर्वापीनामभिशस्तिपा उ ।

शतं च जीवं शरदः पुरुचीर्वसूनि चारुर्वि भञ्जासि जीवन् ॥६॥

भा०—हे राजन् ! (इदम् वासः) तू इस वस्त्र को (परि अधिथाः) धारण कर और (वापीनाम्) अपने बीज वपन द्वारा खेतियों को बोने वाले कृषक प्रजाओं या (वापीनाम्) अपने बीजवपन द्वारा सन्तानों को उत्पन्न करने वाली प्रजाओं के (अभि-शस्तिपाः उ) ऊपर चारों ओर से होने वाले हिंसामय चौर डाकुओं के आघातों से रक्षा करने वाला होकर ही तू उनके (स्वस्तये) सुख कल्याण के लिये (अभूः) हो। और (पुरुचीः) पुत्र-नाना अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले अनेक भोग्य पदार्थों से परिपूर्ण (शरदः शतम्) सौ बरसों तक (जीव) प्राण धारण कर। और (जीवन्) अपने जीते हुए ही तू (चारुः) पृथ्वी के उत्तम जीवन सुखों को यथावत् भोगता हुआ भी (वसूनि) प्रजा के जीवन और आदास के उपयोगी नाना धन सम्पत्तियों को (वि भञ्जासि) विविध रूपों में बाँटा कर।

योगैयोगे त्वस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमृतये ॥७॥

भा०—हे (सखायः) मित्र जनो ! (योगे योगे) प्रत्येक नवीन पदार्थ के प्राप्त कर लेने के अवसर पर और (वाजे वाजे) बल के प्रत्येक कार्य या संग्राम में हम (ऊनये) अपनी रक्षा के लिये (तवस्तरम्) अति बलवान्, आक्रामक से अधिक शक्तिशाली (इन्द्रम्) राजा को (हवामहे) शरण के लिये बुलावें ।

अध्यात्म में—प्रत्येक योगाभ्यास काल में और प्रत्येक ज्ञान कार्य में हम परमेश्वर को स्मरण करें ।

हिरण्यवर्णो अजरः सुवीरो जरामृत्युः प्रजया सं विशस्व ।

तदग्निराह तद् सोमं आह बृहस्पतिः सवित । तदिन्द्रः ॥८॥

भा०—(हिरण्यवर्णः) हित और रमणीय वर्ण वाला, सुन्दर, कान्तिमान् अथवा हिरण्य=सुवर्ण के समान तेजस्वी अथवा सुवर्ण, ऐश्वर्य का सदा वरण करने वाले या सुवर्ण के समान सभी के द्वारा वरण करने योग्य श्रेष्ठ, (अजरः) जरा रहित, (सुवीरः) उत्तम वीर्यवान् या उत्तम वीर पुत्रों से युक्त या उत्तम वीर भटों से युक्त और स्वयं उत्तम वीर और (जरामृत्युः) बुढ़ापे के अनन्तर ही मृत्यु अर्थात् शरीर को त्याग करने वाला, अकाल मृत्यु से रहित होकर (प्रजया) प्रजा के साथ (सं विशस्व) पृथ्वी पर बस, नगर बसा कर रह । (अग्निः) ज्ञानी, परमेश्वर अथवा ज्ञानवान् पुरुषों का (तत्) यही (आह) उपदेश है । (सोमः तत् आह) सबके प्रेरक, शम दम आदि सम्पन्न योगिजन का यही आदेश है । (बृहस्पतिः) बृहती, वेदवाणी का पालक विद्वान् अथवा बृहती पृथ्वी के स्वामी-महाराज (सविता) सबके प्रेरक और उत्पादक और (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजा या परमेश्वर भी (तत् आह) उसी बात का उपदेश या आज्ञा करता है ।

[२५] अथ वा वेगवान् यन्त्र या मृत्यु का वर्णन ॥

गोपथ ऋषिः । वाजी देवता । अनुष्टुप् । स्तुतम् ॥

अश्रान्तस्य त्वा मनसा युनजिम प्रथमस्य च ।

उत्कूलमुद्धो भत्रोदुह्य प्रति धावतात् ॥१॥

भा०—हे पुरुष ! (त्वा) तुम्हें मैं (अश्रान्तस्य) अनथक और (प्रथमस्य च) सबसे श्रेष्ठ पुरुष के लिये (मनसा) मनन, ज्ञानपूर्वक (त्वा युनजिम) तुम्हें गाड़ी मैं घोड़े की तरह नियुक्त करता हूँ । (उत्कूलम्) अपने करारों को भी लांचकर नदी जिस प्रकार वेग से उनपर उमड़ आती है उसी प्रकार तू कार्य को (उद् वहः भव) वंग से पहुँचाने वाला हो । और (उद् उह्य) स्वामी के कार्य को या स्वामी को ही अपने ऊपर लेकर (प्रति धावतात्) उसी स्थान की तरफ वेग से चल पड़ । वेगवान् अथ वा अग्नि, विद्युत् आदि घन्त्रमय रथ के पक्ष में भी—हे वेगवान् यन्त्र ! तू अनथक, सर्वश्रेष्ठ है इस विचार से तुम्हें मैं लगाता हूँ तू उमड़ती नदी के समान भार को उठाकर चल और उसे उठाकर शीघ्र दौड़ ।

[२६] वीर्यरक्षा और आत्मज्ञान ॥

अथवा ऋषिः । अग्निहिरण्यं च देवते । १, २ त्रिष्टुभौ । ३ अनुष्टुप् । ४ पथ्या पंक्तिः ।

चतुर्ध्वं सुक्तम् ॥

अग्नेः प्रजातिं परि यद्विरण्यममृतं दध्ने अग्नि मर्त्येषु ।

य एतद् वैद् स इदेनमर्हति जुरामृत्युर्भवति यो विभर्ति ॥२॥

भा०—(यत्) जिस प्रकार (हिरण्यम्) हित और रमणीय, स्वाभाविक तेज या बल (अग्नेः परि) अग्नि या नेता पुरुष से (प्रजातम्) अति उत्तम रूप में प्रकट होता है उसी प्रकार का (मर्त्येषु अधि) मरणशाल प्राणियों में या प्राणियों के देहों में भी (अमृतम्) अमृत,

वीर्य या आत्मा के रूप में अदिनाशी (दध्ने) धारण किया जाता है ।
 (यः) जो पुरुष (एनद् वंद) इसको साक्षात् जान लेता है (स इत्) वह
 ही (एनम् अर्हति) इसको प्राप्त करने और धारण करने योग्य है और
 (यः) जो इस अमर आत्मा की शक्ति को स्वयं (विभर्ति) धारण कर-
 लेता है वही (जरामृत्युः) बुढ़ापा भोगकर शरीर को छोड़ने वाला चिरायु
 (भवति) होता है ।

यद्विराण्यं सूर्येण सुवर्णे प्रजावन्तो मनवः पूर्वं ईषिरे ।

तत् त्वां चन्द्रं वर्चसा संसृजात्यायुष्मान् भवति यो विभर्ति ॥२॥

भा०—हे आत्मन् ! (यत्) जो या जिस प्रकार के (हिरण्यम्)
 सब प्रकार से रमणीय, मनोहर, हितकारी और सुन्दर दुःस्वनाशक बल
 (सूर्येण) सूर्य के समान (सुवर्णम्) उत्तम वर्ण और कान्ति को धारण
 करने वाले, उत्तम रीति से वरण करने योग्य, बल या आत्मा की ज्योति
 को (पूर्वं) पूर्व के, उत्तम श्रेणी के (प्रजावन्तः) प्रजाओं वाले (मनवः)
 मनुष्य प्रजाओं के त्वासी राजा लोग (ईषिरे) चाहते हैं (तत्) उसी प्रकार
 के (चन्द्रम्) आल्हादजनक, सुवर्ण के समान मनोहर (त्वा) तुम्हें आत्मा
 को (यः विभर्ति) जो धारण करता है वह (वर्चसा) तेज से (संसृ-
 जाति) युक्त हो जाता है और (आयुष्मान् भवति) दीर्घायु हो जाता है ।
 सुवर्ण के पद में स्पष्ट है ।

आयुषे त्वा वर्चसे त्वौजसे च वलाय च ।

यथा हिरण्यतेजसा विभासासि जनां अनुं ॥३॥

भा०—हे पुरुष ! (आयुषे) आयु, (वर्चसे) तेज, (औजसे) औज,
 (च) और (वलाय च) बलके लिये (त्वा २) तुम्हें वह परम आश्चर्य-
 रूप सुवर्ण प्राप्त है (यथा) जिसके कारण तू (जनान् अनुं) जनों के

प्रति (हिरण्य-तेजसा) सुवर्ण के तेज से, चात्र तेज से या आत्मा के वास्तविक प्रकाश से (विभासासि) विशेष रूप से चमकने में समर्थ है । तू उस सुवर्ण की साधना कर और तेजस्वी बन ।

यद् वेद राजा वरुणो वेदं देवो बृहस्पतिः ।

इन्द्रो यद् वृत्रहा वेदं तत् तं आयुष्यं/भुवत् तत् ते वर्चस्यं/भुवत् ॥४॥

भा०—(यत्) जिसको (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ (राजा) राजा (वेद) स्वयं साक्षात् करता या लाभ करता है । और जिसको (बृहस्पतिः) बड़े २ लोकों का पालक (देवः) विद्वान्, देदीप्यमान पुरुष (वेद) प्राप्त करता है और (यत्) जिसको (वृत्रहा) वृत्र, मेघ का नाशक (इन्द्र) तेजस्वी सूर्य और उसी प्रकार नगररोधी शत्रुका नाशक ऐश्वर्यवान् राजा (वेद) प्राप्त करता है (तत्) वह आत्मरूप सुवर्ण (ते) तेरे लिये (आयुष्यम्) दीर्घ आयुप्रद (भुवत्) हो और (तत्) वही (ते वर्चस्यं भुवत्) तुझे तेजस्वी बनाने वाला (भुवत्) हो ।

हिरण्यम्—प्रजापतेः पृतस्यां रम्यायां तन्वां देवाः अरमन्त । तस्माद् हिरण्यं । हिरण्यं ह वै तत् हिरण्यमित्वाचनते । श० ७ । ४ । १ । ३६ ॥ अग्निर्ह वा आपोऽभिदध्यौ मिथुनी आभिः स्यान् । इति ताः सम्बभूव । तानु-रेतः प्रासिञ्चत् । तत् हिरण्यमभवत् । श० २ । १ । १ । ५ ॥ अभिर्वा पृतद् रेतो यत् हिरण्यं नाप्याणां रक्षसामपहत्यै । श० १४ । १ । ३ । २६ ॥ कन्नस्यैतद् रूपं यत् हिरण्यम् । श० १३ । २ । २ । १७ ॥ आयुर्हिरण्यम् ॥ श० ४ । ३ । ४ । २४ ॥ अमृतं हिरण्यम् ॥ श० ६ । ४ । ४ । ५ ॥ प्राणो वै हिरण्यम् । श० ७ । २ । २ । ८ ॥ शुक्रं हिरण्यम् । ऐ० ७ । १२ ॥ यशो हिरण्यम् । ऐ० ७ । १८ ॥ सत्यं हिरण्यम् । गो० ८० ३ । १७ ॥ अर्थात्—शरीर में जिस बल पर समस्त इन्द्रिय गण और ब्रह्माण्ड में जिस बल पर समस्त पञ्चभूत और १२ नास, ऋतु आदि उत्तम रीति से विशर

करते हैं वह हिरण्य है । अग्नि-नेता पुरुष का दुष्टों का नाशक बल, तेज 'हिरण्य' है । साधुबल, आयु, अनृत=मोक्ष, वीर्य, यशः, और सत्य ये सब पदार्थ (वेद में) 'हिरण्य' शब्द से कहे हैं गये । उनको योजना भी प्रकरण वश कर लेनी चाहिये ।

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

[तत्र सूक्तानि सप्त । पञ्चषष्टिश्चवः]



[२७] जीवन रक्षा ।

मृगंगिरा अग्निः । त्रिवृत् उर चन्द्रमा देवता । ३, ९ त्रिष्टुभौ । १० लक्ष्मी । ११ लार्वा वणिक् । १२ वाचर्तुष्टुम् । १३ तान्नी त्रिष्टुम् (११-१३ फक्तावसानाः) ।
शेषाः अनुष्टुभः ।

गोभिर्वा पातृपुत्रो वृषां त्वा पातु वाजिभिः ।

वायुर्वा ब्रह्मणा पात्विन्द्रस्त्वा पात्विन्द्रियैः ॥१॥

भा०—हे मनुष्य ! (त्वा) तुम्हें (ऋषभः) वीर्य सेचन में समर्थ लाँद (गोभिः) गौश्रों द्वारा (पातु) पालन करें । (वृषा) वीर्य सेचन में समर्थ अश्व (वाजिभिः) वेगवान घोड़ों से (त्वा पातु) तेरा पालन और रक्षण करे । (वायुः) विद्वान् पुरोहित या शिल्पी (ब्रह्मणा पातु) ब्रह्म=वेदज्ञान या शिल्प से (त्वा पातु) तुम्हें पालन करे । अथवा (वायुः) वायु अन्तरिक्षका स्वामी या प्राण (ब्रह्मणा) अन्न द्वारा तेरा पालन करे । (इन्द्रः) इन्द्र आत्मा (इन्द्रियैः) इन्द्रियों से (त्वा पातु) तेरा पालन करे अथवा (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, बलवान् पुरुष, राजा, परमेश्वर और विद्युत् प्राण और आचार्य वे सभी अपने (इन्द्रियैः) विशेष बलों या खंवित पदार्थों व अनुभूत ज्ञानों से (त्वा पातु) तेरा पालन करें । (वायु-

वैनमसस्पतिः । गो० उ० ४ । ६ ॥ वायुर्वा अन्तरिक्षस्ताध्यक्षः । तै० ३ ।
२ । १ । ३ ॥ वायुर्वा अध्वर्युः । गो० ५-२ । २४ ॥ वायुर्वाव पुरोहितः ।
ऐ० ८ । २७ ॥ अयं वै वायुर्विश्वकर्मा । श० ८ । ११ । ७ ॥

सोमस्त्वा पात्वोपधीभिर्नक्षत्रैः पातु सूर्यः ।

मान्द्रथस्त्वा चन्द्रो वृत्रहा वातः प्राणेन रक्षतु ॥२॥

भा०—(सोमः) सोमलता (ओपधीभिः) अपने दोपनाशक श-
क्तियों से (त्वा पातु) तेरी रक्षा करे अथवा (सोमः) ओपधियों का निष्कर्ष
या सार पदार्थ निकालने में चतुर वैद्य पुरुष (त्वा ओपधीभिः) तुम्हें
रोगनाशक ओपधियों से (पातु) पालन करे । (सूर्यः) सूर्य तुम्हें (नक्षत्रैः
पातु) अपने व्यापक अथवा नक्ष=नाश से ब्राण करने वाले गुणों से
पालन करे । (चन्द्रः) आरुहादकारी चन्द्र (त्वा) तुम्हें (मान्द्रथः) अपने
मासों से रक्षा करे । और (वृत्रहा वातः) आवरणकारी मेघों का नाशक,
मेघों को छिन्न भिन्न करने वाला (वातः) वायु अथवा मलशोधक रोगों
का नाशक प्राणवायु (त्वा रक्षतु) तेरी रक्षा करे ।

तिस्रो दिवास्तिस्त्रः पृथिवीस्त्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुरः समुद्रान् ।

त्रिवृतं स्तोमं त्रिवृतं आपं आहुस्तास्त्वां रक्षन्तु त्रिवृतां त्रिवृद्धिः ३ ।

भा०—(तिस्रः दिवः) तेज को तीन प्रकार का बतलाते हैं ।
(तिस्रः पृथिवीः) पृथिवी को भी तीन प्रकार का बतलाते हैं । (अन्त-
रिक्षाणि) अन्तरिक्ष अर्थात् वायु को भी तीन रूप का बतलाते हैं ।
(समुद्रान् चतुरः आहु) समुद्रों को चार प्रकार का बतलाते हैं । (स्तोमं
त्रिवृतं) स्तोम लोक, प्राण, और वीर्य तीन प्रकार का है । (आपः त्रिवृतः)
आपः—जल या प्रकृति सूक्ष्म परमाणुओं को भी तीन प्रकार का कहते हैं ।
(त्रिवृता) वे सब (त्वा) तुम्हें (त्रिवृता) तीन २ रूपों में परिखत होकर
(त्रिवृद्धिः) तीन २ रूपों से (त्वा रक्षन्तु) तेरी रक्षा करें ।

१. दिवः तिस्रः-तीन द्यौः अर्थात् तेजोमय पदार्थ तीन प्रकार का है। शरीर, इन्द्रिय और अर्थभेद से। इसी प्रकार पृथिवी, वायु, आपः ये भी तीन २ प्रकार के हैं। पञ्चदश, सप्तदश और एकविंश ये तीन प्रकार के स्तोम हैं। अथवा प्राण तीन प्रकार के, प्राण, अपान, उदान। मूल प्रकृति के परमाणु, सत्व, रजस्, तमस् भेद से त्रिविध हैं। समुद्र चार हैं आग्नि, आदित्य, चन्द्रमा और विद्युत्। शरीर में आकर तेजः, अपः और पृथिवी तीनों तीन २ प्रकार के होजाते हैं। जैसे पृथिवी के तीन रूप-स्थूल रूप पुरीष, मध्यमरूप मांस, सूक्ष्म रूप मन। जल के तीन रूप-स्थूल मूत्र, मध्यम लोहित, सूक्ष्म प्राण। तेज के तीन रूप-स्थूल अस्थि, मध्यम मज्जा, सूक्ष्म वाणी। जिस प्रकार मधने से मक्खन ऊपर उठ आता है उसी प्रकार सूक्ष्मतम, मन, प्राण, वाणी और चौथी आत्मा ये चार ऊपर उठ आने से ही समुद्र कहाते हैं। वे चार प्रकार के हैं। इसी प्रकार पिण्ड रचना के अनुसार ब्रह्माण्ड में भी इन पृथिवी, अप् तेज के तीन २ रूप स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म भेद से जानने चाहिये।

(२) स्तोम-शरीर में 'वीर्य' पञ्चदश है। या त्रिवृद् आत्मा प्राण पञ्चदश अर्थात् पन्द्रहवां है। पीठ के मोहरे १४ और १५वां प्राण है। समाज में 'क्षत्र' या 'राजा' पञ्चदश स्तोम है।

'सप्तदश'-सोलह कला सत्तरहवां प्रजापति या प्रजनन शक्ति १७वीं कहाती है। १२ मास, पांच ऋतु इन सब का आश्रय प्रजापति 'सप्तदश' प्रजापति कहाता है। अथवा शरीर में दश प्राण, ४ अंग, १५ आत्मा, १६वीं गर्दन, १७वां सिर। समाज में वैश्य 'सप्तदश' है।

'एकविंश'=सूर्य, १२ मास, पांच ऋतु और तीन लोक इनके आश्रय 'एकविंश' सूर्य है। अथवा शूद्रवर्ण 'एकविंश' है।

त्रिवृत् प्रकरण देखो छान्दोग्य उप० ६।२।३ ॥

त्रीन्नाकांस्त्रीन् समुद्रांस्त्रीन् ब्रह्मांस्त्रीन् वैष्ट्रपान् ।

त्रीन् मातरिश्वनस्त्रीन्सूर्यान् गोप्तृन् कल्पयामि ते ॥४॥

भा०—मैं तेरे लिये (त्रीन् नाकान्) तीन सुखमय लोकों को, (त्रीन् समुद्रान्) तीन समुद्रों को, (त्रीन् ब्रह्मन्) तीन बन्धनशूल, बड़े शक्तिशाली पदार्थों को, (त्रीन् वैष्ट्रपान्) तीन विशेष रूप से तपने या तपाने वाले लोकों को, (त्रीन् मातरिश्वनः) तीन वायुओं को (त्रीन्-सूर्यान्) तीन सूर्यों को, हे राजन् ! हे पुरुष ! (ते) तेरे (गोप्तृन्) रक्षक (कल्पयामि) बनाता हूँ ।

तीन नाक या तीन सुखमय स्थान, माता, पिता, आचार्य । तीन समुद्र आत्मा, परमात्मा, प्रकृति । तीन ब्रह्म, मनः, वाक्, काय । तीन विष्ट्रप, आध्यात्मि, आधिदैविक, आधिभौतिक । तीन मातरिश्वा प्राण, अपान, उदान । तीन सूर्य अग्नि, विद्युत्, सूर्य, इन सबको हे पुरुष तेरा रक्षक बनाता हूँ ।

घृतेन त्वा समुच्चाभ्यग्न् आज्येन वर्धयन् ।

अग्नेश्चन्द्रस्य सूर्यस्य मा प्राणं मायिनो दभन् ॥५॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! अग्रणी, राजन् ! जिस प्रकार अग्नि को विलीन घृत से बढ़ाया जाता है और उसकी आहुति दी जाती है उसी प्रकार (आज्येन) आज्य, घीर्ष या युद्धोपयोगी समस्त सामग्री और सेना-बल से तुझे (वर्धयन्) बढ़ाता हुआ (त्वा) तुझको (घृतेन) चरणशील वेगवान् अथवा तेजस्वी बल से (सम् उच्चाभि) भली प्रकार अभिपेक्षित करता हूँ । (अग्नेः) अग्नि के समान शत्रुतापक (चन्द्रस्य) चन्द्र के और (सूर्यस्य) सूर्य के समान मनोहर और तेजस्वी तुझ राजा के (प्राणम्) प्राण को (मायिनः) मायावी पुरुष अथवा बुद्धिमान् शिल्पी लोग (न दभन्) विनाश न करें ।

मा वः प्राणं मा वीपानं मा हरो मायिनो दभन् ।

आजन्तो विश्ववेदसो देवा दैव्येन धावत ॥६॥

भा०—(मायिनः) नायावी पुरुष (वः) आप लोगों के (प्राणम्) प्राण को (मा दभन्) विनाश न करे । (वः अपानं मा) वे तुम्हारे अपान को नष्ट न करें । (मा हरः) तुम्हारे हरः अर्थात् बल को भी वे नाश न करें । हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (विश्ववेदसः) सब प्रकार ऐश्वर्यवान् होकर (आजन्तः) तेजस्वी होकर (दैव्येन) दिव्य पदार्थ, अग्नि, जल वायु आदि के वेग या वेगवान रथ से (धावत) शीघ्र गति से जाया करो ।

प्राणेनाग्निं संसृजति वातः प्राणेन संहितः ।

प्राणेन विश्वतोमुखं सूर्यं देवा अजनयन् ॥७॥

भा०—जिस प्रकार मनुष्य (प्राणेन) अपने प्राण वायु से या फूंक से (अग्निं) अग्नि को या आग को (संसृजति) उत्पन्न करता है, क्योंकि (वातः) यह बाह्य वायु ही (प्राणेन) शरीरगत प्राण के साथ (संहितः) सम्बद्ध रहता है, ठीक इसी प्रकार (देवाः) देव, दिव्य पदार्थ भी (विश्वतो मुखं) सब ओर प्रकाशमान सूर्य को (प्राणेन) महान् महा वायु या महान् चैतन्य के बल से (अजनयन्) दीप्त रूप में प्रकट कर रहे हैं । अथवा जिस प्रकार इस देहपिरह में (प्राणेन अग्निं) अग्नि (संसृजति) मनुष्य अपने प्राण से अपनी जाठराग्नि को उत्पन्न करता है और बाह्य वायु उस प्राण से जुड़ा है, इसी प्रकार (देवाः) दिव्य पदार्थ भी (विश्वतो मुखं) सब ओर प्रकाशित सूर्य को (प्राणेन) उस महान् जीवन प्रद शक्ति से उत्पन्न करते हैं और सूर्योत्पादक बल उस महान् परमेश्वर शक्ति से जुड़ा है ।

आयुषाशुःकृतां जीवायुष्मान् जीव मा नृथाः ।

प्राणेनांमन्वतां जीव मा मृत्योरुदंगा वशन् ॥८॥

भा०—(आयुःकृताम्) आयु को दीर्घ बनाने वाले पदार्थों के (आयुषा) जीवन वृद्धि करने वाले बल से, हे पुरुष ! तू (जीव) प्राण धारण कर । हे पुरुष ! तू (आयुष्मान्) आयु से सम्पन्न, दीर्घायु होकर (जीव) जीता रह । (मा मृथाः) मर मत । (आत्मन्वताम्) आत्म शक्ति से युक्त शूरवीर पुरुषों के (प्राणेन) प्राण-बल से तू (जीव) प्राण धारण कर । (मृत्योः वशम्) मृत्यु के वश में (मा उद् अगाः) मत जा ।

देवानां निहितं निधिं यमिन्द्रोन्वविन्दत् पृथिभिर्देवयानैः ।

आपो हिरण्यं जुगुप्सुस्त्रिवृद्धिस्तास्त्वा रक्षन्तु त्रिवृता त्रिवृद्धिः ॥६॥

भा०—(यम्) जिस (देवानाम्) देव, दिव्य पदार्थों, इन्द्रियों, दिव्य शक्तियों के भीतर (निहितम्) गुप्त रूप से रखे, सुरक्षित (निधिम्) खजाने को (इन्द्रः) इन्द्र-ऐश्वर्यवान् आत्मा (देवयानैः) देव, प्राणों द्वारा जाने योग्य (पृथिभिः) मार्गों द्वारा (अनु अविन्दत्) प्राप्त करता है । उस (हिरण्यम्) अति रमणीय आत्मारूप खजाने को भी (आपः) आपस पुरुष (त्रिवृद्धिः) तीन प्रकार के प्राणों द्वारा (जुगुप्सुः) रक्षा करते हैं । अथवा उस हिरण्य या तेजोमय आत्मा को भी (आपः) सूक्ष्म प्राण या प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु अपने (त्रिवृद्धिः) त्रिगुण सामर्थ्यों से रक्षा करते हैं । (ताः) वे आपस जन या सूक्ष्म परमाणु (त्रिवृद्धिः) तीन २ गुणों से (त्रिवृता) त्रिवृत् हुए देह या प्राण से (त्वा रक्षन्तु) तैरी रक्षा करें । त्रिवृत् के विषय में देखो इसी सूक्त का प्रथम मन्त्र ।

त्रयस्त्रिंशद् देवतास्त्रीणि च वीर्याणि प्रियायमाणा जुगुप्सुस्त्वंतः
अस्मिश्चन्द्रे अग्निं यद्विरण्यं तेनायं कृणवद् वीर्याणि ॥१०॥

९—(प्र०) 'यमिन्द्रा'—इति क्वचिन् । (च०) 'त्रिवृतास्त्रिवृद्धिः' । इति क्वचिन् ।

'निधिं देवानां विहितं यमिन्द्रो' इति लैन्गनकामितः पाठः ।

भा०—(देवताः) देवता, दिव्य शक्तियां, दिव्य पदार्थ (त्रयः त्रिंशत्) तैत्तिरीय है । और (वीर्याणि च) वीर्य विशेष रूप से प्रेरक बल (त्रीणि) तीन हैं । वे (अणु अन्तः) अणु, प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं के भाँतिर भी उस (हिरण्यम्) आत्मा को अति (प्रियःयमाणा) प्रिय बनते हुए (अस्मिन् चन्द्रे) इस आत्मादकारी आत्मा में (यत् हिरण्यम्) जिस ' हिरण्य ' अर्थात् हित और रमणीय तेज को (जुगुपुः) सुरक्षित रखते हैं (तेन) उससे (अयं) यह आत्मा (वीर्याणि) बल, वीर्य को (कृणवत्) उत्पन्न करे ।

त्रयस्त्रिंशद् देवताः—= वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य प्रजापति और वषट्कार । अथवा = वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य इन्द्र और प्रजापति । कायिक, वाचिक, मानस ये तीन वीर्य हैं ।

ये देवा दिव्येकादश स्य ते देवास्तो हविरिंद्रं जुषध्वम् ॥११॥

ये देवा अन्तरिंज्ञ एकादश स्य ते देवास्तो हविरिंद्रं जुषध्वम् ॥१२॥

ये देवाः पृथिव्यामेकादश स्य ते देवास्तो हविरिंद्रं जुषध्वम् ॥१३॥

ऋ० १ । १३९ । ११ ॥ वसु० ७ । १९ ॥

भा०—हे (देवाः) देवगण ! दिव्य पदार्थों ! आप (दिवि) घौलोक में, (अन्तरिंज्ञे) अन्तरिक्ष में और (पृथिव्याम्) पृथिवी में (ये) जो (एकादश ३) ग्यारह ग्यारह (स्य) हों (ते) वे आप (देवास्तः) देव, दिव्य पदार्थ (इंद्रं) इस (हविः) हवि-अन्न को (जुषध्वम् ३) सेवन करें ((११-१२)

११-१३—ऋग्वेदे परब्रह्मेण अग्निः । विभेदेवाः देवताः ॥ ये देवास्तो दिव्ये-
कादश स्य पृथिव्यामेकादश स्य । अन्तरिक्षो नारिंज्ञः इत्यात्थ ते देवास्तो
पशुनिने जुषध्वम् ॥ इति ऋ० । ११-(६०) 'ये देवाः दिव्यादिव्ये'
इति चाप्यानिगतः ।

यजुर्वेद (७ । १७) में महर्षि दयानन्द के लेखानुसार-द्यौं में ११ देव प्राण अपान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनजय और जीव । अप्सुक्षित एकादश देव-श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसन, घ्राण, वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ और मन । भूमि पर एकादश देव-पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश, आदित्य, चन्द्र, नक्षत्र, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति ।

अथवा जैसे शरीर में दश प्राण, ११वां आत्मा, भौतिक में-पञ्च स्थूल भूत, ५ सूक्ष्मभूत और महत्त्व हैं । और जिस प्रकार शरीर में दश इन्द्रिय और मन है उसी प्रकार समाज के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीनों क्षेत्रों में विद्यमान ११, ११ देव, राजसभा के विद्वान् जन मेरे इस अन्न को स्वीकार करें ।

असपत्नं पुरस्तात् पश्चात् अभयं कृतम् ।

सञ्चिता मां दक्षिणत उत्तरान्मा शचीपतिः ॥१५॥

भा०—(नः) हमारे (पुरस्तात्) आगे और (पश्चात्) पीछे से भी (असपत्नम्) शत्रुओं से रहित (अभयम्) अभय (कृतम्) बना रहे । (मा दक्षिणतः) मेरे दायें तरफ (सविता) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक राजा और (आ उत्तरात्) मेरे उत्तर या बायें तरफ (शचीपतिः) शची, शक्तिवाली सेना का स्वामी, सेनापति रहे, दोनों मेरे दोनों ओर से रक्षा करें ।

द्वित्रो मादित्या रक्षन्तु भूम्यां रक्षन्त्वग्नयः ।

इन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्तादश्विनावभितः शर्म यच्छताम् ।

तिरश्चीनध्व्या रक्षतु जातवेदा भूतकृतां मे सुर्वतः सन्तु वर्म ॥१५॥

अथर्व० १९ । १६ । २ ॥

भा०—(आदित्याः) आदित्य, १२ मास (मा) मुझे (दिवः) आकाश की ओर से (रक्षन्तु) रक्षा करें । (भूम्याः) भूमि की ओर

से (अग्नयः) अग्नि के समान शत्रुसंतापक राजा लोग और विद्वान् लोग मेरी (रक्षन्तु) रक्षा करें । (इन्द्राग्नां) इन्द्र और अग्नि राजा और सेनापति (मां) मुझे (पुरस्तात्) आगे से (रक्षताम्) रक्षा करें । (अभितः) दोनों ओर से (अभिनौ) दिन रात के समान दो अश्वारोही मुझे (शम्बच्छतान्) शान्ति प्रदान करें । (जातेवदाः) धनाढ्य पुरुष (तिरश्चीन्) तिर्यग् योनियों में गये (अन्त्या) न मारने योग्य पालतू पशुओं की (रक्षतु) रक्षा करें (भूतकृतः) पञ्चभूतों के यन्त्र आदि द्वारा अपने वश करने वाले प्राणियों के हितकारक विद्वान् पुरुष (सर्वतः) सब प्रकार के (मे) मेरे (वर्म) शरीर के कवच के समान रक्षक हों ।

[२८] शत्रुनाशक सेनापति दर्भ मणि का वर्णन

सुपत्नश्च कामो ब्रह्माश्रुषिः । मन्त्रोक्तो दर्भमणिर्देवता । अनुष्टुभः । दशर्चं मूलम् ॥

इमं बध्नामि ते मणिं दीर्घायुत्वाय तेजसे ।

दर्भं सपत्नदम्भनं द्विपतस्तपनं हृदः ॥१॥

भा०—हे राजन् और प्रजाजन ! मैं (ते) तेरे (दीर्घायुत्वाय) दीर्घ जीवन और (तेजसे) तेज और पराक्रम के कार्य के लिये (सपत्नदम्भनम्) शत्रुनाशक , (द्विपतः) शत्रु के (हृदः) हृदय को (तपनम्) तपाने वाले (दर्भम्) दुष्टों के हिंसक (मणिम्) मननशील, शिरोमणि पुरुष को (बध्नामि) बांधता हूँ, नियुक्त करता हूँ ।

द्विपतस्तापयन् हृदः शत्रूणां तापयन् मनः ।

दुर्हार्दः सर्वोस्त्वं दर्भं घर्म इवाभिन्तस्तापयन् ॥२॥

घर्म इवाभितपन् दर्भं द्विपतो नि तपन् मणे ।

हृदः सुपत्तानां भिन्धीन्द्रं इव विरुजं बलम् ॥३॥

भा०—(द्विपतः) प्रेम न करने वाले पुरुष के (हृदः) हृदयों को (तापयन्) सन्तप्त करता हुआ, और (शत्रूणां) शत्रुओं के (मनः) मन को सन्तप्त करता हुआ और (सर्वान् दुर्हार्दः) सभी दुष्ट हृदय वाले (अभीन्) भय रहित पुरुषों को भी (धर्म इव) धर्म के समान (अभि तपन्) खूब प्रसन्न, प्रचण्ड होकर है (मणे) मननशील नर, रत्न ! (द्विपतः नितपन्) बहुत से शत्रुओं को भी खूब तपाता हुआ (इन्द्र इव) इन्द्र, ऐश्वर्यवान् राजा के समान या (बलम् इन्द्र इव विरुजन्) मेघ को सूर्य के समान या प्रचण्ड वायु या विद्युत् के समान नाना प्रकार से छिन्न भिन्न करता हुआ (सपत्नानां) शत्रुओं के (हृदः) हृदयों को (भिन्धि) भेद और उनके (बलम्) बल-सेना बल को तोड़ डाल ॥ २, ३॥
भिन्धि दर्मसपत्नानां हृदयं द्विपतां मणे !

उद्यन् त्वर्चमिव भूम्याः शिरं एषां वि पातय ॥४॥

भा०—हे (दर्भ) शत्रुहिंसक दर्भ ! सेनापते ! हे (मणे) मनन-शील शिरामणे ! सेनापते ! तू (सपत्नानां) हमारे राष्ट्र पर अपना अधिकार करने वाले और (द्विपतांम्) द्वेष करने वाले पुरुषों के (हृदयं भिन्धि) हृदय को तोड़ दे । और (उद्यन्) ऊपर उठता हुआ सूर्य जिस प्रकार (भूम्या) पृथिवी के (त्वचम् इव) घेरने वाले मेघ को नीचे बरसा देता है उसी प्रकार तू (उद्यन्) ऊपर उठता हुआ (एषाम् शिरः) इन शत्रुओं के शिर को (वि पातय) नाना प्रकार से नीचे गिरा दे ।

हे सेनापते ! तू (उद्यन् एषां शिरः भूम्याः त्वचम् इव निपातय) उदित होता हुआ इन शत्रुओं के शिर को भूमि की त्वचा या घूल या तृण के समान विविध दिशाओं में गिरा २ कर विद्धादे ।

भिन्धि दर्म सपत्नानां मं भिन्धि मं पृतनायतः ।

भिन्धि मे सर्वान् दुर्हार्दां भिन्धि मं द्विपतां मणे ॥५॥

भा०—हे (दर्भ) शत्रु नाशकारी पुरुष ! तू (मे) मेरे (सपत्नान्) शत्रुओं और (मे पृतनायतः) मेरे राष्ट्र पर सेना लेकर चढ़ने वाले शत्रुओं को (भिन्धि) तोड़दे. नाश कर । और हे (मणे) मननशील शिरोमणि पुरुष ! तू (मे) मेरे प्रति (सर्वान् दुर्हादः) सब प्रकार के दुष्ट हृदय वाले (द्विपतः) द्वेषकारी पुरुषों को (भिन्धि) विनाश कर ।

छिन्धि दर्भ सपत्नान् मे छिन्धि में पृतनायतः ।

छिन्धि मे सर्वान् दुर्हादान् छिन्धि में द्विपतो मणे ॥६॥

भा०—(मे पृतनायतः मे सपत्नान्) हे दर्भ ! शत्रुनाशक सेनापते ! तू मेरे पर सेना लेकर चढ़ने वाले और द्वेष करने वाले पुरुषों को (छिन्धि) काट डाल, उनको फोड़ डाल, उनको फोड़ फाड़ कर दो कर दे । इसी प्रकार हे (मणे) शिरोमणि पुरुष ! (सर्वान् दुर्हादान् द्विपतः) सब दुष्ट हृदय वाले शत्रुओं को भी (छिन्धि) काट डाल या फोड़ डाल ।

वृश्च दर्भ सपत्नान् मे वृश्च में पृतनायतः ।

वृश्च मे सर्वान् दुर्हादान् वृश्च में द्विपतो मणे ॥७॥

कृन्त दर्भ सपत्नान् मे कृन्त में पृतनायतः ।

कृन्त मे सर्वान् दुर्हादान् कृन्त में द्विपतो मणे ॥८॥

पिंश दर्भ सपत्नान् मे पिंश में पृतनायतः ।

पिंश मे सर्वान् दुर्हादः पिंश में द्विपतो मणे ॥९॥

विध्यं दर्भ सपत्नान् मे विध्यं मे पृतनायतः ।

विध्यं मे सर्वान् दुर्हादान् विध्य मे द्विपतो मणे ॥१०॥

भा०—हे (दर्भ) शत्रुनाशक सेनापते ! (मे सपत्नान्) मेरे शत्रुओं को और (मे पृतनायतः) मेरे ऊपर सेना से चढ़ाई करने वालों को

(वृश्च) फरसा जिस प्रकार लकड़ी को काटता है उस प्रकार काट डाल
 (कृन्त) कैची जिस प्रकार कपड़े को काट डालती है उस प्रकार काट डाल ।
 (पिंश) चक्की जिस प्रकार दानों को पीस डालती है उस प्रकार पीस
 डाल । (विध्य) बाण जिस प्रकार लक्ष्य को वेधता है उस प्रकार वेध
 डाल । इन्हीं प्रकार (सर्वांन् द्विपतः दुर्हादः) समस्त द्वेष करने वाले, दुष्ट
 हृदयों से युक्त, कुटिल पुरुषों को भी (वृश्च, कृन्त, पिंश विध्य) फरसे के
 समान काट, कैची के समान कतर, चक्की के समान पीस, बाण के समान
 वेध अथवा फरसों से काट, कैचियों से कतर, चक्कियों से पीसवा, बाणों
 से वेध ।

[२६] शत्रु का उच्छेदन

सपत्नक्षयकामो ब्रह्माक्षपिः । दर्भो देवता । अनुष्टुभः । नवर्च सूक्तम् ॥

निक्षं दर्भं सपत्नान् मे निक्षं मे पृतनायतः ।

निक्षं मे सर्वांन् दुर्हादो निक्षं मे द्विपतो मणे ॥१॥

तृन्धि दर्भं सपत्नान् मे तृन्धि मे पृतनायतः ।

तृन्धि मे सर्वांन् दुर्हादस्तृन्धि मे द्विपतो मणे ॥२॥

रुन्धि दर्भं सपत्नान् मे रुन्धि मे पृतनायतः ।

रुन्धि मे सर्वांन् दुर्हादो रुन्धि मे द्विपतो मणे ॥३॥

मृण दर्भं सपत्नान् मे मृण मे पृतनायतः ।

मृण मे सर्वांन् दुर्हादो मृण मे द्विपतो मणे ॥४॥

मन्थं दर्भं सपत्नान् मे मन्थं मे पृतनायतः ।

मन्थं मे सर्वांन् दुर्हादो मन्थं मे द्विपतो मणे ॥५॥

पिण्डि दर्भं सपत्नान् मे पिण्डि मे पृतनायतः ।

पिण्डि मे सर्वांन् दुर्हादो पिण्डि मे द्विपतो मणे ॥६॥

ओषं दर्मं स्रपत्तान् मे ओषं मे पृतनायतः ।

ओषं मे सर्वान् दुर्दादौ ओषं मे द्विपुतो मणे ॥७॥

दहं दर्मं स्रपत्तान् मे दहं मे पृतनायतः ।

दहं मे सर्वान् दुर्दादौ दहं मे द्विपुतो मणे ॥८॥

जुहिं दर्मं स्रपत्तान् मे जुहिं मे पृतनायतः ।

जुहिं मे सर्वान् दुर्दादौ जुहिं मे द्विपुतो मणे ॥९॥

भा०—हे (दर्म) शत्रुहिंसन करने में कुशल पुत्र्य ! तू (मे स्रप-
त्तान् पृतनायतः) मेरे शत्रुओं और मुझसे सेना द्वारा युद्ध करने वालों
को (निह) माले के समान काँच डाल । हे (नखे) नरनये ! (मे
द्विपुतः) मेरे से द्वेष करने वालों को और (सर्वान् दुर्दादौः) समस्त दुष्ट
हृदय वालों को भी (निह) काँच डाल, छेद डाल ॥७॥ इसी प्रकार (वृन्धि)
उनको तिनके की तरह तोड़ डाल ॥ २ ॥ (सृण्वि) उनको हाथी के
समान पैरों तले रेंद डाल ॥ ३ ॥ (नृण्वि) कुन्हार जिस प्रकार नष्टी को
नसलता है उस प्रकार नसल डाल ॥ ४ ॥ (मन्थ) जिस प्रकार नक्कन
के लिये दही को मथा जाता है उसी प्रकार मथ डाल या आटे के समान
गूँथ डाल ॥ ५ ॥ (पिण्डुडि) सिल पर चटनी के समान पीस डाल या
कुन्हार के समान गीली मिट्टी की तरह नल २ कर पिण्डे बना डाल ॥६॥
(ओष) हांडी में दाल की तरह पका डाल ॥ ७ ॥ (दह) नष्टी में
लकड़ी के समान जला डाल ॥ ८ ॥ (जुहि) उनको नाना प्रकार से हनन
कर ॥ ९ ॥

[३०] शत्रु का उच्छेदन

नरनयकामो ब्रह्म ऋषिः । मनो देवा । अणुपुनः । सर्व्वं दलन् ॥

यत् ते दर्मं ज़रामृत्युः शतं वर्मसु वर्मं ते ।

नेनेमं वर्मिणं कृत्वा सपत्नान् जहि वीर्यैः ॥१॥

भा०—हे (दर्म) शत्रुनाशक सेनापते ! (यत्) जो (जरामृत्युः) उन सबको (ते) तेरे (शतं) सैकड़ों प्रकार के (वर्मसु) कवचों में सब से उत्तम (वर्म) कवच या रक्षा साधन है । वृद्धावस्था के पश्चात् मृत्यु को प्राप्त कराने वाला है । (ते) उस रक्षाकारी कवच से (इमं) इस पुरुष को (वर्मिणं कृत्वा) कवचवान् सुरक्षित करके (वीर्यैः) नाना वीर्यों—सामर्थ्यों से (सपत्नान्) शत्रुओं को (जहि) नाश कर ।

शतं ते दर्मं वर्माणि सहस्रं वीर्याणि ते ।

तमस्मै विश्वे त्वां देवा ज़रसे भर्त्तवा श्रद्धुः ॥२॥

भा०—हे (दर्म) शत्रुनाशक सेनापते ! (ते वर्माणि शतम्) तेरे सैकड़ों वर्म, रक्षा साधन हैं । (ते वर्माणि सहस्रम्) तेरे वीर्य सामर्थ्य भी सहस्रों हैं । इसीलिये (विश्वे देवाः) समस्त देव, विद्वान् पुरुष (तं) उस (त्वां) तुझ वीर्यवान् पुरुष को (अस्मै) राजा की (जरसे) जरा, वृद्धावस्था तक (भर्त्तवे) भरण पोषण के निमित्त (श्रद्धुः) सौंपते हैं, प्रदान करते हैं ।

त्वामाहुर्देववर्मं त्वां दर्मं ब्रह्मणस्पतिम् ।

त्वामिन्द्रस्याहुर्वर्मं त्वं राट्पारिं रक्षसि ॥३॥

भा०—हे (दर्म) शत्रुहंसक पुरुष (त्वां) तुझको (देववर्मं आहुः) देव राजा और विद्वानों को वर्म रक्षक कवच के समान कहते हैं । और (त्वा) तुझे (ब्रह्मणः पतिम्) ब्रह्म वेद का या विशाल राष्ट्र का रक्षक

[३०] १—(प्र० द्वि०) 'जरामृत्युशतं वर्मसु वर्मं ते' इति सायणाभिमतः पाठः ।

जरामृत्यु शतं वर्म सु वर्मं ते इति द्विचिकामितः पाठः ।

पालक कहते हैं । (त्वाम्) तुम्हको (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् राजा या धन-
वान् समृद्ध राष्ट्र का (वर्म आहुः) रक्षक कवच कहते हैं । क्योंकि (त्वं)
तू तो (राष्ट्रानि) राष्ट्रों की (रक्षसि) रक्षा करता है ।

सपत्नक्षयणं दर्भ द्विपुतस्तपनं हृदः ।

मृणि क्षत्रस्य वर्धनं तनूपानं कृणामि ते ॥ ४ ॥

भा०—हे (दर्भ) शत्रुओं को नाश करने वाले पुरुष ! (द्विपुतः)
शत्रु के (हृदः) हृदय को (तपनम्) तपाने और (सपत्नक्षयणम्)
शत्रु का क्षय करने वाले और (क्षत्रस्य वर्धनं) क्षत्रियों के क्षत्र-बल को
बढ़ाने वाले तुम्ह (मृणिम्) शिरोमणि पुरुष को हे राजन् ! (ते) तेरे
(तनूपानं) शरीर की रक्षा करने वाला (कृणामि) नियत करता हूँ ।

यत् समुद्रो अभ्यक्रन्दत् पर्जन्यो विद्युता सह ।

ततो हिरण्ययो विन्दुस्ततो दर्भो अजायत ॥ ५ ॥

भा०—(यत्) जिस प्रकार (समुद्रः) जलों का बरसाने वाला
(पर्जन्यः) मेघ (विद्युता) विद्युत के (सह) साथ (अभि अक्रन्दत्)
खूब गरजता है, उससे (ततः) उस (हिरण्ययः) हिततम और रम-
णीय (विन्दुः) जलविन्दु उत्पन्न होता है और उससे (दर्भः) दर्भ कुश
घास (अजायत) उत्पन्न होता है । उसी प्रकार (समुद्रः) प्रजाओं पर
नाना उपकारों की वर्षा करने वाला, समुद्र के समान गम्भीर और
(विद्युता सह पर्जन्यः) विशंप शोभा सहित पर्जन्य=प्रजा को सन्तुष्ट करने
वाला राजा (अभि अक्रन्दत्) गर्जना करता है और उससे (हिरण्ययः-
विन्दुः) प्रजा के हितकारी और सबको प्रिय, एवं सुवर्ण धन ऐश्वर्य से युक्त
राष्ट्र लाभ करने वाला राजा उत्पन्न होता है (ततः) और उससे (दर्भः)
शत्रुनाशक पुरुष भी उत्पन्न होता है ।

[३१] औदुम्बर मणि के रूप में अन्नाध्यक्ष, पुष्टपति का वर्णन ।
 पुष्टिकामः सविता ऋषिः । मन्त्रोक्त उदुम्बरमणिर्वेना । ५, १२ विष्टुर्भौ । ६
 विराट् प्रस्तार पंक्तिः । ११, १३ पञ्चपदे शक्यव्यां । १४ विराट् आस्तारपंक्तिः ।
 शेषा मनुष्टुभः । चतुर्दशर्च सूक्तम् ॥

औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा ।
 पशूनां संवपां स्फातिं गोष्टे में सविता करत् ॥१॥

भा०—(औदुम्बरं) उत्तम पुष्टि कराने वाले या पापों से ऊंचे
 उठाने वाले या अन्नाध्यक्ष (वेधसा) विद्वान् (मणिना) नरशिरोमणि,
 उत्तम पुरुष द्वारा (सविता) सर्वोत्पादक, सर्व प्रेरक राजा (पुष्टिकामाय)
 पुष्टि की कामना करने वाले (मे) मेरे (गोष्टे) गोष्ट, गोशाला में भी
 (संवपां पशूनाम्) समस्त पशुओं की (स्फातिम्) वृद्धि (करत्) करे ।
 राजा अपने राज्य में राष्ट्र के पशुओं की वृद्धि और पुष्टि का काम एक
 पशु पुष्टिवित् विद्वान् नरशिरोमणि द्वारा संचालित करे ।

सोव्रणीत् श्रयं दाव स मा सर्वस्मात् पाप्मन उद् श्रभार्पीत् । तस्मात्
 उदुम्बरः । उदुम्बर इति आचाते परोक्षम् । श० ७ । १ । १ । २२ ॥
 स्रजं वा ऊर्जा उदुम्बरः । श० ३ । १ । १ । ३३ ॥

यो नो अग्निर्गार्हपत्यः पशूनामधिपा असत् ।

औदुम्बरो वृषा मणिः सं मा सृजतु पुष्टया ॥२॥

भा०—(यः) जो (अग्निः) अग्नि नेता (गार्हपत्यः) गृहपति
 के पद पर नियुक्त-होकर (नः) हमारे (पशूनाम्) पशुओं के (अधिपाः)

[३१] १—(द्वि०) 'वेधसे' इति द्विजनकामितः ।

२—(च०) 'स मा सृजतु' इति सापणाभिमतः । 'सः । मा' इति पदपाठः ।

'सं मा सृजतु' इति द्विजनिः । पं० सं० ।

पालक अधिष्ठाता (असत्) है वही (औदुम्बरः) औदुम्बर अर्थात् पुष्टि-
कारक, अन्न उत्पन्न करने में कुशल, (वृषा) सब सुखों का वर्षक (मणि)
नरश्रेष्ठ (मा) मुक्तको (पुण्ड्या) धन ऐश्वर्य और पशु सम्पत्ति की वृद्धि
से (सं सजनु) युक्त करे ।

कुरीपिणीं फलवतीं स्वधामिनीं च नो गृहे ।

औदुम्बरस्य तेजसा धाता पुष्टिं दधातु मे ॥३॥

भा०—(धाता) सबका पोषक परमेश्वर या राजा अपने नियत किये
हुए (औदुम्बरस्य) औदुम्बर अर्थात् अन्न और पुष्टि के अर्ध्यक्ष के (तेजसा)
तेज, पराक्रम से, प्रयत्न से (नः गृहे) हमारे घरों में (कुरीपिणीम्)
लक्ष्मी समृद्धि से युक्त और (फलवतीम्) खूब उत्तम फल से युक्त (स्व-
धाम्) अन्न और (इराम्) जलको या स्वधा=अन्न और भूमि को प्रदान
करे और (मे) मुझे (पुष्टिम्) पुष्टि, पशु समृद्धि प्रदान करे ।

पुरीष्य इति वै तमाहुः यः श्रियं गच्छति ।

समानं वै पुरीषं च करीषं च ॥ श० २।२।१।७ ॥

यद् द्विपाञ्च चतुष्पाञ्च यान्यन्नानि ये रसाः ।

गृह्णेद्वं त्वेषां भूमानं विभुदौदुम्बरं मणिम् ॥४॥

भा०—(अहम्) मैं (औदुम्बरम् मणिम्) 'औदुम्बर' नामक श्रेष्ठ
पुरुष को अपने राष्ट्र में भृति या वेतन पर नियुक्त करता हुआ ही (यद्
द्विपात् च) जो दो पाये और (चतुष्पात् च) चौपाये जन्तु हैं और (यानि
अन्नानि) जितने अन्न और (ये रसाः) जितने रस हैं (एषाम्) उन
सबकी (भूमानम्) बहुत भारी संख्या को (गृह्णे) प्राप्त करने में
समर्थ हूँ ।

पुष्टिं पशूनां परिं जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम् ।

पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नियच्छात् ॥५॥

भा०—(सविता) सबका प्रेरक और उत्पादक (बृहस्पतिः) वहाँ र का स्वामी, पालक राजा या परमेश्वर (मे) मुझे (पशूनाम्) पशुओं के (पयः) दूध और (ओषधीनाम्) ओषधियों के (रसम्) रस का (नियच्छात्) प्रदान करे और (अहम्) मैं (पशूनाम्) पशुओं की और (द्विपदाम् चतुष्पदाम्) दो पाये और चौपायों की (पुष्टिम्) पुष्टि और (यत् च धान्यम्) जो उनके खाने योग्य धान्य है वह भी मैं (परिजग्रभ) तब प्रकार से प्राप्त करूँ ।

अहं पशूनामाधिपा अंसानि मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु ।

मह्यमौदुम्बरो मणिर्द्रविणानि नि यच्छतु ॥६॥

भा०—(अहम्) मैं (पशूनाम्) पशुओं का (अधिपाः) राजा, स्वामी (असानि) होऊँ । (पुष्टपतिः) पुष्ट=पोषणकारी अन्न, रस, पशु आदि का पालक पुरुष (मयि) मुझ में (पुष्टम्) पोषणकारी अन्न आदि पदार्थ (दधातु) प्रदान करे । (औदुम्बरः) वही अन्न और बलका वृद्धिकारी (मणि) सर्वश्रेष्ठ अर्घ्य (मह्यम्) मुझे (द्रविणानि) नान्य प्रकार के धन (नियच्छतु) प्रदान करे ।

उप मौदुम्बरो मणिः प्रजयां च धनेन च ।

इन्द्रेण जिन्वितो मारिणामागन्त्सह वर्चसा ॥७॥

भा०—(इन्द्रेण) ऐश्वर्यवान् राजा द्वारा (जिन्वितः) वेतन आदि द्वारा सन्तुष्ट करके नियुक्त हुआ (मणिः) शिरोमणि पुरुष (वर्चसा सह) अपने तेज सहित (मा आ भ्रगन्) मुझे प्राप्त हो, और वही (औदुम्बरः

मणिः) (अद्वाप्यद्) नानक नरश्रेष्ठ (प्रजया च धनेन च) प्रजा, उत्तम
सन्तान और धनके सहित (मा उप अगन्) मेरे पास आवे ।

देवो मणिः संपत्सुहा धनसा धनसातये ।

पुशोरन्नस्य भूमानं गवां स्फातिं नि यच्छतु ॥२॥

भा०—पूर्वोक्त (देवः) सब पदार्थों का प्रदाता (मणि) नर शिरो-
मणि पुरुष (संपत्सुहा) शत्रुओं का नाशकारी होकर और (धनसा)
नाना प्रकार के धन ऐश्वर्यों का प्रदाता होकर (धनसातये) हमें ऐश्वर्य
लाभ के लिये उपयोगी है । वह हमें (पशोः) पशु (अन्नस्य) अन्न और
(गवां) गो आदि नाना पशुओं की (भूमानम्) बहुत भारी (स्फातिम्)
वृद्धि को (नि यच्छतु) प्रदान करे ।

यथाग्रे त्वं वनस्पते पुष्ट्या सह जज्ञिषे ।

पुषा धनस्य मे स्फातिमा दधातु सरस्वती ॥३॥

भा०—हे (वनस्पते) यनों के पालक (यथा) जिस प्रकार (त्वं)
तू (अग्रे) सबसे प्रथम त्वयं (पुष्ट्या) पोषणकारी शक्ति के साथ
(जज्ञिषे) प्रकट होता है उसी प्रकार (सरस्वती) समस्त रत्नों का प्रदान
करने वाली, पुष्टि की स्वामिनी स्त्री भी (मे) मेरे (धनस्य स्फातिम्) धन
की वृद्धि (आ दधातु) करे ।

३ सरस्वती पुष्टिःपुष्टि पत्नी । तै० २।६।७।४।४।

आ मे धनं सरस्वती पर्यस्फातिं च धान्याम् ।

खिनीत्राल्युषां वडाह्यं चौदुम्बरो मणिः ॥ ३० ॥

८-(३०) 'स्फातिनि' इति ऋचिः । (४०) 'दौ नानं' इति पैन्० सं० ।

९-(३०) 'खान्नाति' इति पैन्० सं० ।

१०-(४०) 'वनाहत्' इति पैन्० सं० ।

भा०—(सरस्वती) उत्तम रस प्रदान करने वाली और (सिनी वाली) अन्न प्रदान करने वाली स्त्री, गौ या पृथिवी (मे) मुझे (धनम्) धन (पयः स्फातिम्) खूब अधिक पुष्टिकारक दूध घी आदि पदार्थ, (धान्यम् च) अन्न आदि धान्य (उपवहाद्) प्राप्त करावे । और इसी प्रकार (अयम्) यह (औदुम्बरः मणिः) अन्न का और रसों का स्वामी पुरुष मुझे धन दूध, अन्नदि प्रदान करे ।

त्वं मणीनामञ्चि वा वृषाञ्चि त्वयि पुष्टं पुष्टपतिर्जजान ।
त्वयिमे वाजा द्विविणानि सर्वौदुम्बरः स त्वमस्मत्सहस्वारा
दरातिममतिं क्षुधं च ॥११॥

भा०— हे मण्ये ! नरशिरोमण्ये ! (त्वं) तू (मणीनाम्) अन्य समस्त नर-रत्नों का भी (अधिपाः) पालक और (वृषा) अन्नादि पदार्थों का प्रदाता (अस्ति) है । (पुष्टपतिः) पोषणकारी समस्त पदार्थों का स्वामी राजा (त्वयि) तेरे बलपर (पुष्टम्) समस्त पोषणकारी पदार्थों को (जजान) उत्पन्न करता है । (त्वयि) तेरे ही बलपर (इमे) ये सब (वाजाः) अन्न, (द्विविणानि) समस्त धन ऐश्वर्य उत्पन्न किये जाते हैं । इसीलिये तू (औदुम्बरः=उरुम् भरः) सबको उत्पन्न करने वाला या प्रजा को बहुत पुष्ट करने वाला अधिकारी होकर (सः त्वम्) वह तू (अरातिम्) शत्रु या कृपणता, (अमतिम्) अन्विवेक और (क्षुधम् च) भूख और प्यास को भी (अस्मत् आरात्) हमसे परे ही (सहस्व) दूर कर ।

११—(प्र०) 'अधिपः' इति सायणाभिमतः । (द्वि०) 'पुष्टिपतिः' इति पैप्य० सं० (वृ०) 'त्वया मे' इति सायणाभिमतः । 'अमृतं क्षुधं च' इति बट्टन 'अवतिम्' इति कश्चित् । आरादरातिमभितिक्षयं च इति पैप्य० सं० ।

ग्रामणीरसि ग्रामणीरुत्थायाभिषिक्तोभि मां सिञ्च वर्चसा ।
तेजोसि तेजो मयि धारयावि रयिरसिरयि मे धेहि ॥१२॥

भा०—हे शिरोमणि पुरुष ! तू (ग्रामणीः असि) ग्रामका नेता है इस कारण तू (उत्थाय) उच्च पद प्राप्त करके स्वयं (ग्रामणीः) 'ग्रामणी' अर्थात् ग्राम के प्रमुख नेतृत्व के पदपर (अभिषिक्तः असि) अभिषेक किया जाता है । तुझे ग्राम के प्रमुख नेता एवं शासक की गद्दीपर बिठलाया जाता है । तू (मा) मुझ प्रजाजन या राजा को भी (वर्चसा सिञ्च) तेज से युक्त कर । तू स्वयं (तेजः असि) तेजस्वरूप है तू (मयि) मुझ में भी (तेजः अधि धारय) तेज धारण करा । तू (रयिः असि) साक्षात् 'रयि', धनैश्वर्यमय है । तू (मे) मुझे (रयि धेहि) ऐश्वर्य प्रदान कर ।

पुष्टिरसि पुष्ट्या मा समङ्गरि गृहमेधी गृहपति मा कृणु ।

श्रौदुम्भरः स त्वमस्मानु धेहि रयिं च नः सर्ववीरं नि यच्छ ।
रायस्पोपाय प्रति मुञ्चे श्रद्धं त्वाम् ॥१३॥

भा०—तू (पुष्टिः असि) साक्षात् पुष्टिमय है (मा) मुझको (पुष्ट्या) पुष्टि, पोषणकारी अन्न आदि की समृद्धि से (सन् अङ्घ्रि) युक्त कर । तू स्वयं (गृहमेधी) गृहमेधी, गृह को पुष्ट करने वाला है (मा) मुझको (गृहपतिं कृणु) गृह का स्वामी बना । (त्वन्) तू (सः) वही (श्रौदुम्भरः) बहुतों को अन्न आदि से पुष्ट करने में समर्थ है । (त्वम्) तू (अस्मानु) हममें भी बहुतों का पालन और भरण पोषण के सामर्थ्य को (धेहि) स्थापन कर और (नः) हमें (सर्ववीरं रयिम् च) समस्त वीरों

१२—'उक्थाया,' 'उक्थ्याया,' 'उच्छाया,' 'ग्रामणी छाया,' 'उच्छ्राय,' इति नाना पाठाः । (च०) धारयाध्वधिरयिरसि इति शं० पा० अनु-
मितः पाठ० ।

१३—(प्र०) 'समिन्धि' इति क्वचित् । 'समग्धि' इति पंप्प० सं० ।

वीर पुरुषों से युद्ध ऐश्वर्य (नियच्छ) प्रदान कर । (अहम्) मैं (त्वाम्) तुम्हको (रायस्पोषाय) धन ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये (प्रति मुञ्चे) धारण करता हूँ, अपने राष्ट्र में नियुक्त करता हूँ, तुम्हें स्वीकार करता हूँ ।

अयमौदुम्बरो मणिर्वीरो वीराय वध्यते ।

स नः सृनि मधुमतीं कृणोतु रयिं च नः सर्ववीरं नि यच्छात् ॥१४॥

भा०—(अयम्) यह (औदुम्बरः) बहुतों के पालन पोषण में समर्थ (मणिः) शिरोमणि पुरुष (वीरः) वीर, वीर्यवान् होकर (वीराय) वीर्यवान् राजा के उपकार के निमित्त (वध्यते) बांधा जाता है, वेतन आदि द्वारा नियुक्त किया जाता है । (सः) वह (नः) हमारी (सनिम्) धन प्राप्ति को (मधुमतीम्) आनन्द और सुखसे युक्त (कृणोतु) करे । और (नः सर्ववीरं च रयिम् नियच्छात्) हमें सब सामर्थ्यों से युक्त धन ऐश्वर्य प्रदान करे ।

[३२] शत्रुदमनकारि 'दर्भ' नामक सेनापति ।

सर्वकाम वायुष्कानोद्युः कृषिः । नन्वोक्तो दर्भो देवता । ८ परस्ताद् बृहती । ९ त्रिष्टुप् ।

१० जगती । शेषा अनुष्टुभः । दशर्चं दक्षन् ।

शतकाण्डो दुश्च्यवनः सहस्रपर्ण उत्तरः ।

दर्भो य उग्र ओपधिरत्तं तं वध्नाम्यायुषे ॥१॥

भा०—(शतकाण्डः) जिस प्रकार दाम बहुतसे काण्ड अर्थात् पौधों वाला होता है उसी प्रकार (शतकाण्डः) सैकड़ों काण्ड अर्थात्

१४—'वीराय वध्यते' इति पृष्प० सं० ।

[३२] १—(प्र०) 'दुश्च्यवनः' इति क्वचित् । (द्वि०) 'उत्तरः' इति सायणाभिमतः ।
(च०) 'तत्ते' इति क्वचित् । 'तेन' इति सायणः । 'यो ओपधि'
इति पृष्प० सं० ।

काम्य, अभिलाषा करने योग्य पदार्थों से सम्पन्न, अथवा सैकड़ों काण्ड अर्थात् वारों से युक्त, (दुश्च्यवनः) संग्राम में शत्रु द्वारा न ढिगाये जाने वाला, स्थायी, दुःसाध्य योद्धा, (सहस्रपर्णः) सहस्रों 'पर्ण' अर्थात् शीघ्रगामी बाणों या रथों वाला, (उत्तिरः) शत्रुओं को उखाड़ देने में समर्थ, (उग्रः) भयानक (ओपधिः) शत्रुओं के संतापकारी, पराक्रम को धारण करने वाला, (दर्भः) उनका हिंसक 'दर्भ' नामक सेनापति है हे राजन् ! (तम्) उसको (ते) तेरे (आयुषे) आयु, जीवन की रक्षा के लिये (बभामि) नियुक्त करता हूँ । वेतनादि से उसे तेरे साथ बांधता हूँ ।

नास्य केशान् प्र वपन्ति नोरासि ताडमा धन्ते ।

यस्मां अच्छिन्नपर्णेन दर्भेण शर्म यच्छति ॥२॥

भा०—(अच्छिन्नपर्णेन) अत्रिच्छिन्न, निरन्तर चलने वाले वारों से युक्त, (दर्भेण) शत्रुहिंसक सेनापति द्वारा (यस्मा) जिसको (शर्म) सुख, शरण (यच्छति) प्रदान किया जाता है, (अस्य) उसके (केशान्) केशों को शत्रु लोग (न) कभी नहीं (प्र वपन्ति) काट सकते और शत्रु लोग उसके (उरसि) उसकी छाती पर भी (ताडम् न आधन्ते) प्रहार नहीं करते । अथवा, (अस्य) उसके सम्बन्धी लोग (केशान् न प्रवपन्ति) अपने बाल नहीं नोंचते और (न असिताडम् आधन्ते) न छाती पीट कर दुहत्थड़ मार कर रोया करते हैं । अर्थात् वे सुखी रहते हैं ।

द्विवि ते तूलमोपये पृथिव्यासंसि निष्ठितः ।

स्त्वयां सहस्रैकाण्डेनायुः प्र व्रय्यामेहे ॥३॥

२-(द्वि०) 'धन्ति' (तृ०) 'यत्मान्छन्' इति पैप० सं० ।

३-(द्वि०) 'निष्ठितः' इति पैप० सं० ।

भा०—हे (ओपधे) शत्रुओं को संतापदायक पुरुष ! (ते) तेरा (तूलम्) तूल, मुख्य बल (दिवि) आकाश में सूर्य के समान सभा में विद्यमान है । और तू स्वयं (पृथिव्याम्) पृथिवी में (निष्ठितः, असि) दृढ़ता से स्थित है । (सहस्रकारण्डेन त्वया) सहस्रों वाणों से युक्त तेरे द्वारा हम राष्ट्र के (आयुः) आयु, जीवन को (प्र वर्धयामहे) बढ़ाते हैं ।

तिस्रो दिवो अत्यन्तृणात् तिस्र इमाः पृथिवीरुत ।

त्वयाहं दुर्हादो जिह्वां नि तृणाग्नि वचांसि ॥४॥

भा०—शत्रुनाशकारी पुरुष (तिस्रः दिवः) तीनों धौलोक और (इमाः तिस्रः पृथिवीः) इन तीनों पृथिवियों को (अति अतृणात्) पारकर जाता है । (त्वया) तेरे बल से (अहम्) मैं राजा (दुर्हादः) दुष्ट हृदय वाले पुरुष के (जिह्वां) जीभ और (वचांसि) वचनों को (नि तृणाग्नि) सर्वथा नाश करूं ।

त्वमसि सहमानोहमस्मि सहस्वान् ।

उभौ सहस्वन्तौ भूत्वा सपत्नान् सहिपीमहि ॥५॥

अथर्व० ३।२८।५ ॥ ऋ० १०।२४५।५ ॥

भा०—हे शिरोमण्ये ! (त्वम्) तू (सहमानः) शत्रुओं को निरन्तर दबाता रहता (असि) है । और (अहम्) मैं राजा भी (सहस्वान्) शत्रुओं को पराजित करने वाले बल से युक्त (अस्मि) हूँ । (उभौ) हम दोनों (सहस्वन्तौ भूत्वा) बलवान् होकर (सपत्नान्) शत्रुओं को अपने सेनाओं सहित (सहिपीमहि) दवान में समर्थ होंगे ।

४—(दि०) 'तिस्रो धां पृथिवीरुत', (च०) 'नितृणाग्नि वचांसि च' इति

पैप्प० सं०, क्वचित् च । (प्र०) 'अत्यन्तृणः । इति सायणाभिमतः ।

५—अहमस्मि सहमाना त्वमसि सासहिः । उभे सहस्वन्तौ भूत्वा सपत्नौ

मे म्हावहे । इति । (चः) 'सहिपीमहि' इति पैप्प० सं० ।

सहस्व नो अभिमाति सहस्व पृतनायतः ।

सहस्व सर्वान् दुर्हादः सुहादो मे बहून् कृधि ॥६॥

भा०—हे (मणे) शत्रुओं को स्तम्भन करने हारे पुरुष ! तू (नः) हमारे प्रति (अभिमातिम्) अभिमान करने वाले, गर्वीले शत्रु को (सहस्व) पराजित कर । और (पृतनायतः) सेना से आक्रमण करने वाले शत्रुओं को भी (सहस्व) पराजित कर । (सर्वान् दुर्हादः) समस्त दुष्ट चित्त वालों को भी (सहस्व) पराजित कर । (मे) मेरे (बहून्) बहुत से (सुहादः) उत्तम चित्त वाले मित्रों को (कृधि) टपन्न कर, बना ।

दर्भेण देवजातेन दिवि पृम्भेन शश्वदित् ।

तेनाहं शश्वतो जनान् असन्तु सनवानि च ॥७॥

भा०—(दिवि) द्युलोक, महान् आकाश में जिस प्रकार सूर्य अपनी शक्ति से समस्त ग्रहों को धामे रहता है उसी प्रकार (शश्वत् इत्) निरन्तर ही (स्तम्भेन) राष्ट्र के उत्तम भाग में स्थित होकर सबको धामने वाले (दर्भेण) शत्रु नाशक (तेन) उस पुरुष द्वारा (शश्वतः) निरन्तर रहने वाले, दीर्घजीवी (जनान्) जनों को (असन्तु) प्राप्त करे, अपने वश करे और (सनवानि च) अपने वश किये रहें ।

प्रियं मां दर्भं कृणु ब्रह्मराज्याभ्यां शूद्राय च अर्याय च ।

अस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विप्रश्यते ॥८॥

भा०—हे (दर्भं) शत्रुनाशन ! तू (मा) मुझको (ब्रह्मराज्याभ्याम्) ब्राह्मणों और क्षत्रियों, (शूद्राय च अर्याय च) शूद्रों और वैश्यों

६—(प्र० द्वि०) नोऽभि० 'स्वा०' । इति पंप्य० सू० । (च०) 'बहून्' इति कचिच् ।

७—(च०) 'असन्तु', 'असन्तुस', 'असन्तुत्', 'जनानसन्तु' इति पाठाः ।

८—(द्वि०) 'सर्व्याय चार्याय च' इति बहुव्र ।

का भी अथवा (शूद्राय च आर्याय च शूद्रौ) और आर्य श्रेष्ठ पुरुषों का और (यस्मै ह) जिसको हम (कामयामहे) चाहते हैं और जो (विवश्यते) अपने विपरीत शत्रु भाव से हमें रखते हैं (सर्वस्मै च) उन सब का भी (मा) मुझे (प्रियं कृणु) प्रिय बना सबका प्रेमपात्र बनादे ।

यो जायमानः पृथिवीमदृष्ट्वा यो अस्तंभ्नादन्तरिक्षं दिवं च ।

यं विभ्रतं ननु पाप्मा विवेद स नोयं दुर्भो वरुणो दिवा कं ॥६॥

भा०—(यः) जो (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ स्वयं (पृथिवीम्) पृथिवी को (अदृष्ट्वा) दृढ़ करता है और जो (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष को चायु के समान अपने वश करता और (दिवम् च) द्यौलोक या विद्वानों की सभा को सूर्य के समान प्रकाशित करता है (विभ्रतम्) भरण पोषण करने वाले (यम्) जिसको अथवा (यं विभ्रतम्) जिस भरण पोषण करने वाले पुरुष को (पाप्मा) पाप (न विवेद) नहीं न छूता (स दुर्भः) वह दुर्भ. शत्रु नाशक सेनापति साक्षात् (वरुणः) सब पापों का निवारक होकर (दिवा) दिन के समान प्रकाश करता है अर्थात् अन्धेर मिटाकर व्यवस्थित राज्य की स्थापना करता है ।

सप्ततहा शतकाण्डः सहस्रानोपधीनां प्रथमः सं वभूव ।

स नोयं दुर्भः परित् पातु विश्वतस्तेन साक्षीय पृतनाः पृतन्यतः १०

भा०—जो (सप्ततहा) एक ही देश पर समान रूप से अपना स्वामित्व चाहने वाले अन्य शत्रुओं का हनन करने वाला, (शतकाण्डः) सैकड़ों वाणों से युक्त, (सहस्रान्) शत्रुओं को पराजय करने में समर्थ होकर (ओपधीनाम्) शत्रु और दुष्टों को सन्ताप देने में (प्रथमः) सब

९—(च०) 'वरुणोऽधिवाकः' इति द्वितिकामितः । 'वरुणोऽधिवाकः'

इति राधकामितः । (तृ०) 'नानुपा'-इति द्वितिकामितः । 'तनु'

इति क्वचित् ।

से प्रथम, सर्वश्रेष्ठ (सं वभूव) है, (सः) वह (अयन् दर्भः) यह 'दर्भ' नाम से विख्यात शत्रुनाशक पुरुष (नः) हमें (विश्वतः) सब ओर से और सब प्रकार से (परि पातु) रक्षा करे । (तेन) उसके बल से मैं (पृतन्यतः) सेना द्वारा आक्रमण करने वाले शत्रु की (पृतनाः) समस्त सेनाओं को (साक्षीय) विजय करने में समर्थ होऊँ ।

[३३] 'दर्भ', 'अग्नि' नामक अभिषिक्त राजा

सर्वकामो मृगुर्नाभिः । दर्भो देवता । १ जगती । २, ५ त्रिष्टुभौ । ३ आर्षी पंक्तिः । ४
आस्तारपंक्तिः । पञ्चर्च सक्तम् ॥

सहस्राद्यः शतकारण्डः पर्यस्वानुपासन्निर्वीरुधां राजसूर्यम् ।

स नोयं दर्भः परि पातु विश्वतो देवो मणिरायुं प्रा सं सृजाति नः ॥१॥

भा०—(सहस्राद्यः) सहस्रों के बराबर अकेला बलशाली या सहस्रों पुरुषों और राजाओं से सहस्रों प्रकार के सम्मान प्राप्त करने वाला, (शतकारण्डः) सैकड़ों वाणों या वाणधारियों का स्वामी, (पर्यस्वान्) समुद्र के समान गम्भीर और स्वयं 'पर्यः' अर्थात् पुष्टिकारक सामर्थ्य वाला (अपाम्) समुद्र के जलों के बीच में भी (अग्निः) दहकने वाले और्वानल के समान प्रजाओं के बीच में (अग्निः) अग्रणी नेता के समान और (दीरुधाम्) बढ़ते शत्रु बलों को विशेष रूप से रोकने वाले योद्धाओं का (राजसूर्यम्) राजारूप से प्रेरक (सः अयं) वह यह (दर्भः) शत्रुनाशक 'दर्भ' सेनापति, (देवः) सबको शान्तिदायक, देव, राजा (नः) हमें (विश्वतः) सब ओर से (परि पातु) रक्षा करे और वह (मणिः) मजबूत और शत्रुस्तम्भन में समर्थ या उज्वलमणि, रत्न का धारक होकर (नः) हमें (आयुषा संसृजाति) दीर्घ आयु से युक्त करे ।

[३३] १—(प्र०) 'सहस्राद्यः' (च०) 'देवः', 'संसृजतु' इति पैप० सं० ।

घृतादुल्लुप्तो मधुमान् पर्यस्वान् भूमिद्वंद्वोऽच्युतश्च्यावयिष्युः ।

नुदन्स्रपत्नानधरांश्च कृएवन् दर्भारोऽ महतामिन्द्रियेण ॥२॥

अथर्व ५ । २८ । १४ ॥

भा०—(घृतात्) घृत=तेज या प्रजा के प्रति स्नेह से (उल्लुप्तः)
 आवृत, व्याप्त (मधुमान्) मधु-अन्न आदि समृद्धि से युक्त (पर्यस्वान्)
 पुष्ट वीर्य से समर्थ, (भूमिद्वंद्वः) भूमि, राष्ट्र को दृढ़ करने वाला, (अच्युतः)
 युद्धमें स्वयं आविचलित और (च्यावयिष्युः) शत्रुओं को पदच्युत करने वाला,
 (सपत्नान्) शत्रुओं को (नुदन्) पीछे हटाता हुआ और उनको (अध-
 रान् च कृएवन्) नीचे गिराता हुआ, हे (दर्भः) शत्रुनाशक सेनापते तू
 (महताम्) बड़े नरपतियों, महापुरुषों के (इन्द्रियेण) बल वीर्य से (आ-
 रोह) सबसे ऊँचे पद पर आरूढ़ हो ।

त्वं भूमिमत्येप्योजसा त्वं वेद्यां सीदसि चारुध्वरे ।

त्वां पवित्रमृपयो भरन्त त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत् ॥३॥

भा—(त्वम्) तू (भूमिम्) इस भूमि को अपने (ओजसा) ओज
 तेज, पराक्रम से (अति एपि) अतिक्रमण कर जाता है । और तू (अध्वरे)
 अहिंसामय, अजेय राष्ट्र पालनरूप यज्ञ में (चारुः) अति उत्तम होकर
 (वेद्याम्) वेदि, यज्ञवेदि, पृथिवी पर (सीदसि) विराजता है । (पवित्रम्
 त्वाम्) सबको पवित्र करने वाले तुझको (ऋपयः) साक्षात् मन्त्रदद्या,
 विद्वान् ऋषिगण (प्र भरन्त) भरण करते, तुझे पुष्ट करते या तुझे लाकर
 सत्यासत्य विवेक करने के लिये न्यायासन पर ला विठलाते हैं । (त्वं)
 तू (दुरितानि) दुष्टाचर्यों को (अस्मत्) हमसे दूर करके हमें (पुनीहि)
 पवित्र कर ।

२-(च०) 'महता महेन्द्रियेण' इति पैप्प० सं० ।

३-(तः) 'तेजो देवानां', (च) 'तत् ते' इति पैप्प० सं० ।

तीक्ष्णो राजां विपासही रज्जोऽा विश्वचर्षणिः ।

ओजो देवानां बलनुग्रमेतत् तं ते वध्नामि जरसे स्वस्तये ॥ ४ ॥

भा०—(तीक्ष्णः) अति तीक्ष्ण, दूमरे के अत्याचार को सहन करने में असमर्थ (राजा) सर्वोपरि राजमान् प्रजा का अनुरञ्जक सबका स्वामी, (विपासहिः) विविध ठपायों से शत्रु को पराजय करने वाला, (रज्जोहा) राष्ट्रव्यवस्था में विघ्नकारी, दुष्ट पुरुषों का नाशक, (विश्वचर्षणिः) समस्त राष्ट्र का द्रष्टा, (देवानाम्) देवों विद्वान् पुरुषों का (ओजः) पराक्रमस्वरूप और (एतत्) ये मूर्तिमान् (उग्रम् बलम्) उग्र भयंकर बल है (तम्) उसको हे राजन् ! और राष्ट्रवन् ! (ते) तेरे (जरसे) वृद्धावस्था तक के (स्वस्तये) कल्याण के लिये (वध्नामि) नियुक्त करता हूँ ।

दर्भेण त्वं कृणवद् वीर्याणि दर्भं विश्रंदात्मना मा व्यधिष्टाः ।

अतिष्टाया वर्चसा ध्रान्यान्तसूर्यं इवा भाहि प्रदिशश्चतन्त्रः ॥५॥


भा०—हे राजन् ! (त्वम्) तू (दर्भेण) शत्रुनाशक सेनापति के बल से (वीर्याणि) वीर्य, पराक्रम के विजय आदि (कृणवद्) कार्य करता हुआ और (आत्मना) अपने बलसे (दर्भम्) उस शत्रुनाशक सेनापति को (विश्रत्) भरण पोषण करता हुआ (मा व्यधिष्टाः) कभी दुःखित मत हो । (अथ) और (वर्चसा) अपने तेज से (ध्रान्यान्) अन्य शत्रु

५-(प्र०) 'कृणवः' इति हिंयनिकामितः । (६०) 'वर्चसेधन्यां', 'वर्चसेधन्यां', 'वर्चसेधन्यां', 'वर्चसेधन्यां', 'वर्चसेधन्यां', 'वर्चसेधन्यां', इति नानापाठाः । 'इदि । मन्दान् ।', 'ऐधि । मन्दान्' 'एधन्यान्', इति नाना पदपाठाः । 'अतिष्टापो वर्चसेधन्या इवाभाहि' इति पृथक् सं० ।

राजाओं पर (अतिघाय) प्रबल राजा होकर (चतस्रः प्रदिशः) चारों दिशाओं को (सूर्य इव) सूर्य के समान (आ भाहि) प्रकाशित कर ।

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

[तत्र सप्तसूक्तानि अष्टाषष्टिश्चः अचः ।]



[३४] जंगिड नामक रक्षक का वर्णन

अंगिरा ऋषिः । वनस्पतिलिंगोक्तो वा देवता । अनुष्मः । दशर्चं सूक्तम् ॥

जंगिडोसि जंगिडो रक्षितासि जंगिडः ।

द्विपाच्चतुष्पाद्स्माकं सर्वं रक्षतु जंगिडः ॥१॥

भा०—हे जंगिड ! वनस्पते ! आश्रय वृक्ष के समान प्रजाके रक्षक ! तू (जंगिडः असि) जंगिड अर्थात् शत्रुओं के निगलने वाला अतएव (जंगिडः) 'तू सचमुच' जंगिड है । तू (जंगिडः) जंगिड होकर ही (रक्षिता असि) प्रजा का रक्षक है (अस्माकम्) हमारे (द्विपात्) दो पाये और (चतुष्पाद्) चौ पाये (सर्वम्) सबको (जंगिडः रक्षतु) जंगिड ही रक्षा करे ।

'जंगिड' के विषय में विशेष विवरण देखो अथर्व० का० २ । सू० ४॥

'जातानां निगरणकर्त्ता असि अतो 'जंगिड' इत्युच्यते । यद्वा जंगम्यते शत्रून् वाधितुम् इति जंगिडः । ' अथवा जनेर्जयतेर्वा डप्रसाये 'ज' इति भवीति । जं गिरतीति जंगिरः । कपिलकादित्वात् लत्वम् । पूर्वपदस्थस्य सुपो लुगभावश्च्छान्दसः । खच् प्रत्ययो वा द्रष्टव्यः । इति सायणः ॥ उत्पन्नं हुण् प्राणियों को निगलने वाला या शत्रुओं पर चढ़ाई करने वाला या विजयी लोगों को भी निगलने वाला वीर पुरुष 'जंगिड' कहाता है ।

या गृत्स्यस्त्रिपञ्चाशीः शतं कृत्याकृतंश्च ये ।

सर्वान् विनक्तु तेजसोरसां जङ्गिडस्करत् ॥२॥

भा०—(याः) जो (त्रिपञ्चाशीः) त्रिरेपन १३ या १५० प्रकार की या सैंकड़ों (गृत्स्यः) लोभकारिणी या विषय विलास में फंसी स्त्रियें या जन श्रेणियों और (शतं) सौ प्रकार के या बहुत से (कृत्याकृतः) घातक प्रयोग करने वाले (ये) जो दुष्ट पुरुष हैं (सर्वान्) उन सबको (तेजसा) अपने तेज या पराक्रम से (जङ्गिडः) जङ्गिड नामक शत्रुनाशक सेनापति (विनक्तु) हमसे दूर करे और उनको (अरसान्) निर्बल (करत्) करे ।

‘त्रिपञ्चाशीः’—सायण के मत में त्रेपन १३ । ह्विटनि के मत में ‘त्रिपञ्चाशीः’ अर्थात् त्रिःपञ्चाशत् अर्थात् १५० ।

या ‘त्रिपञ्चाशीः गृत्स्यः’—१५० या १३ लोभ की चालें चलने वाली मनुष्यों की श्रेणियां हैं जो जुधाखोरी का पेशा करती हैं । जैसा लिखा है कि-

त्रिपञ्चाशः क्रीडति व्रात एषां देव इव सविता सत्यधर्मा ।

उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजाचिदेभ्यो नमइत्कृणोति ॥

ऋ० १०।३४।६ ॥

इन जुधाखोरों के १३ या १५० का समूह जूआ खेला करता है । वे उग्र पुरुष के गुत्से की भी परवाह नहीं करते । परन्तु सत्यधर्म के पालक सूर्य के समान तेजस्वी राजा इनको दण्ड से बश करता है । जूआखोरी

२—(वृ० च०) ‘सर्वान् विनष्टतेजसोरसाञ्जङ्गिडस्करत्’ । इति सायणा-
मिमतः । (प्र०) ‘जागृत्स्यस्त्रिः’, ‘यागृत्स्यस्त्रु’, ‘ज्यागृत्स्यस्त्रि’ ।
इति नानापाठाः । (वृ०) ‘विनष्टि तेजसा’, भनक्ति तेजसा, विनक्त
तेजसो, भिनक्ति तेजसा, भिनक्तु, विनक्त, विनक्ति, इत्यादि नाना
पाठाः । ‘याः कृच्छाः=त्रिपञ्चाशीइच्छा’ इति पैप्प० सं० । ‘सर्वान्यनक्तु
तेजसः’ इति पैप्प ।

तथा विषय विलास में फंसी स्त्रियां या जनश्रेणी यहां 'गृत्सी' शब्द से कही गई हैं। यजुर्वेद (१६। २५) में 'नमो गृत्सेभ्यः गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो' लिखा है। वहां गृत्स शब्दों के अर्थों में विवाद है। 'गृत्सो मेधावी' इति उव्वटः। गृत्साः विषयलम्पटाः मेधाविनो वा इति महीधरः। उव्वट के मत में गृत्स का अर्थ मेधावी विद्वान् है। और महीधर के मत में वैकल्पिक अर्थ मेधावी और धात्वर्थ विषयलम्पट है। अथर्ववेद के इस प्रयोग से 'गृत्स, गृत्सी' विषय लम्पट और धन तृष्णालु के अर्थ में आया है। जिसका शब्दान्तर पैप्पलाद ने 'कृच्छ्राः', 'पीडाकारिणी' किया है। सायण ने कृत्याः का विशेषण माना है। ह्यिदनी के अनुमान से यह पाठ 'याः कृत्याः त्रिपञ्चाशीः' ऐसा सम्भव है। उत्तरार्ध में—'सर्वान् विनष्टते-जसोरसां जंगिडस्करत्' यह पाठ मेद है, अर्थात् जंगिड उन सबको तेजोहीन और निर्बल करे।

अरसं कृत्रिमं नादमरसाः सप्त विस्त्रसः।

अपेतो जङ्गिडामंतिमिपुमस्तेव शातय ॥३॥

भा०—हे (जंगिड) शत्रुनाशक ! तू (कृत्रिमं) कृत्रिम साधनों द्वारा उत्पन्न किये (नादम्) शंख के विस्फोटकअस्त्रों के नादको (अरसम्) निर्बल कर देता है अथवा तू शत्रु के (कृत्रिमं नादम् अरसं) कृत्रिम नाद अर्थात् सम्पन्न या समृद्ध रूप को या परिवर्धित आडम्बर को निर्बल कर देता है। तेरे सामने (सप्त) सातों (विस्त्रसः) विविध दिशाओं से आने वाले शत्रु (अरसाः) निर्बल होजाते हैं। (अमतिम्) अदम्य शत्रु को भी (इतः) यहां से (अस्ता इपुम् इव) धनुर्धारी जिस प्रकार बाण को दूर फेंक देता है उसी प्रकार (अप शातय) दूर मार भगा।

३—(प्र०) 'कृत्रिमनादं' इति कचित् । 'कृत्रिन् अनादं' इति पदच्छेदः

कचित् । सप्त विलुहः इति पीठ० लाक्ष० कामितः । (प्र० दि०)

रसं कृत्रिमं नाद अरसः' (च०) 'सायण' इति पैप्प० सं० ।

कृत्यादूपण एवायमथो अरातिदूपणः ।

अथो सहस्वाञ्जंगिडः प्र ण आयुषि तारिषत् ॥४॥

भा०—(अयम्) यह (कृत्यादूपणः) घातक गुप्त प्रयोगों को नाश करने वाला (अथो) और (अरातिदूपणः) शत्रुओं का नाश करने वाला है। (अथो) और (जंगिडः) शत्रुओं को निगलने में समर्थ वीर राजा (सहस्वान्) शक्तिशाली होकर (नः आयुषि) हमारे जीवनों को (प्रतारिषत्) बढ़ावे।

स जंगिडस्य महिमा परि णः पातु विश्वतः ।

विष्कन्धं येन सासह संस्कन्धमोज्ञ ओजसा ॥५॥

भा०—(सः) वह (जङ्गिडस्य) पूर्वोक्त शत्रुविजयी राजा का (महिमा) महान् सामर्थ्य है जो (नः) हमें (विश्वतः परिपातु) सब ओर से रक्षा करे। (येन) जिस सामर्थ्य से (विष्कन्धं) सेना के पृथक् २ निवेशों या दस्तों को और (संस्कन्धम् ओजः) शत्रु सेना के संयुक्त सेनाबल के वीर्य को भी अपने (ओजसा) वीर्य से (सासह) धर दवाता है।

त्रिष्ट्वां देवा अंजनयन् निष्ठितं भूम्यामधि ।

तमु त्वाङ्गिरा इति ब्राह्मणाः पूर्या विदुः ॥६॥

४—(चः) तर्पित् इति क्वचित् । (प्र० दि०) 'कृत्यादूपण वायमथोज०' इति पंप्प० सं० ।

५—(तु०) 'ससहे' इति क्वचित् । 'सासहा' (च०) 'साजोजता' इति पंप्प० सं० । 'येन सहसं—' इति सायणाभिमतः ।

६—(दि०) 'तिष्ठन्तं' इति सायणाभिमतः । 'तृष्ट्वा' इति क्वचित् । 'निष्ट्वा' इति पंप्प० सं० ।

भा०—हे जंगिड ! शत्रुनाशक राजन् ! (देवाः) विद्वान् युद्धक्रीडी पुरुष (भूम्याम् अधि) भूमि पर (त्वा) तुम्हको (त्रिः) तीन वार (निष्ठितम्) स्थापित (अजनयन्) करते हैं । (तम् ३ त्वा) उस तुम्हको ही (पूर्व्याः ब्रह्मणाः) पूर्व काल के, तुम्ह से पूर्व विद्यमान वृद्ध विद्वान् पुरुष (अङ्गिराः) 'अङ्गिरा' अङ्गार के समान प्रदीप्त या अङ्ग अर्थात् शरीर में रस के समान प्राण रूप (विदुः) जानें ।

अध्यात्म में—हे जंगिडि ! आत्मन् ! तुम्हको पूर्व के विद्वान् 'अंगिरा' ज्ञानवान् प्रकाशमय जानते हैं । भूमि=शरीर में स्थित तुम्हको देव-प्राणों ने तीन वार उत्पन्न किया । पुरुष देह से स्त्रीयोनि में आना प्रथम जन्म है, स्त्री-योनि से बाहर आना द्वितीय जन्म है । इस भौतिक शरीर से मुक्त होना तीसरा जन्म है । शक्ति, अधिकार और मान तीनों द्वारा राजा को स्थापित किया जाता है ।

न त्वा पूर्वा ओपधयो न त्वां तरन्ति या नवाः ।

विवाध उग्रो जङ्गिडः परिपाणः सुमङ्गलः ॥७॥

भा०—(पूर्वाः) पूर्वकाल में या, तुम्हसे पूर्व उत्पन्न हुई (ओपधयः) सन्तापदायी शक्तियाँ और (याः नवाः) जो नयी शक्तियाँ भी उत्पन्न हैं वे भी (त्वा) तुम्हको (न तरन्ति) पार नहीं करतीं । तू स्वयं (उग्रः) उग्र, अति तीव्र और दलवान् होकर (जंगिडः) शत्रुओं की शक्तियों को नेगल जाने वाला (परिपाणः) सब ओर से अपनी रक्षा करता हुआ और (सुमङ्गलः) शुभ, मङ्गलस्वरूप होकर शत्रुओं को (विवाध) विविध ढङ्ग से पीड़ित कर, नाश कर ।

अथोपदान भगवो जङ्गिडामितवीर्ये ।

पुरा तं उग्रा असत् उपेन्द्रो वीर्यं/द्विदौ ॥६॥

भा०—(अय) और हे (उपदान) अपने समीप प्राप्तों के रक्षक ! हे (भगवः) ऐश्वर्यशाल ! हे (जङ्गिड) शत्रु को अपने भीतर निगल जाने में समर्थ ! हे (स्नानित वीर्य) असीम बलशालिन् ! (उग्रा) उग्र उद्धत बलशाली होकर (पुरा) पहले ही से (असते ते) शत्रुओं को प्राप्त कर जाने में समर्थ होते हुए तुम्हें तेरी रक्षा के लिये (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष राजा या राष्ट्र के समुद्दिमान लोग अपना (वीर्य) बल भी तुम्हें (उपददौ) प्रदान करता है । अर्थात् तुम्हें बलवान् देखकर ही राजा पदाधिकार देता है ।

पैप्लाद पाठ—(पुरा ते उग्राम सते इन्द्रः वीर्यं उपददौ) पूर्व उग्र होते हुए तुम्हें इन्द्र राजा वीर्य अर्थात् अधिकार प्रदान करता है । (पुरा उग्रा ते असते इति इन्द्रः वीर्यं उपददौ) कहीं बलवान् पुरुष तुम्हें न अस जायं इस मय से इन्द्र ने तुम्हें वीर्य या बल दिया । इति सायणः ।

उग्र इत् ते वनस्पत इन्द्रं श्रोज्मानमा दधौ ।

अर्मावाः सर्वाश्चातर्यं जुहि रक्षांस्योपधे ॥६॥

भा०—(उग्रः इन्द्रः) उग्र, भयंकर, बलशाली (इन्द्रः) इन्द्र राजा, हे (वनस्पत) महा वृक्ष के समान प्रजा पालक । (ते) तुम्हें (श्रोज्मानम्) बल (दधौ) प्रदान करता है । तू (सर्वान्) समस्त (अर्मावाः) पीढ़ी

८—'अथो इति पदा । न । भगवाः' इति लुक्त्वि पदानाः । 'अथोक्तानि भ—' इति पैप्ल० सं० । (वृ० च०) 'पुरा तं उग्राय सतो पेन्द्रो' इति पैप्ल० सं० । 'उग्र' 'सते । इन्द्रः' । इति फल्गुदेशः । १ देहू रक्षणे स्वादिः ।
० (वृ०) अर्मावाः सर्वा रक्षांसि चातर्यं जलोपधे, इति पैप्ल० सं० ।

कारि शत्रुघ्नां को (चातयन्) विनाश करता हुआ, हे (ओपधे) दुष्टों के तापकारिन् ! रोगनाशक ओपधि के समान ! तू भी (रक्षांसि) विघ्नकारियों को (जहि) विनाश कर, मार, दण्ड दे ।

आशरीकं विशरीकं वृत्तासं पृष्ट्यामयम् ।

तवमानं विश्वशारदमरुसां जङ्गिडस्करत् ॥१०॥

भा०—(जंगिडः) पूर्वोक्त शत्रुनाशक, वीर पुरुष (आशरीकम्) चारों ओर से राष्ट्र पर आघात करने वाले, (विशरीकम्) नाना प्रकार से पीड़ा देने वाले, (वृत्तासम्) बलके नाशक (पृष्ट्यामयम्) पीठ में विद्यमान रोग के समान, राष्ट्र के धारण करने में समर्थ, (पृष्ट्यामयम्) पीठ की पत्तुलियों के से दृढ़ राज्य के मुख्य पुरुषों में विद्यमान (तवमानम्) अति कष्टदायी, ज्वर के समान पीड़ाकारी, (विश्वशारदम्) समस्त आयु भर लगे हुए या समस्त वर्ष भर दुःखदायी, या सब प्रकार से देह को तोड़ने वाले शत्रुओं को भी (शरसान्) निर्बल (करत्) कर देता है ।

इस सूक्त में साथ ही 'जङ्गिड' नामक ओपधि का वर्णन भी होगया है । जैसे—

१-जंगिड नाम ओपधि हमारे दोषाये चौपाये सबकी रक्षा करे ।

२, ३-प्रकार की गृत्सी या गृध्रसी नामक चात रोग और सब कृत्याकृत अर्थात् विष के उपचारों से उत्पन्न रोगों को नाश करें ।

३-जंगिड शिर के भीतर उठने वाले नाद और सातों धातुओं के विपरीत रूप में बहने या नष्ट होने के रोगों को दूर करे ।

४-वह वीर्यवान् ओपधि, विष आदि कूट प्रयोगों को दूर करे ।

५-वह अपने वीर्य से कंधों की फूटन को दूर करे ।

६-वह 'अंगिरा' अंगों में रस के समान व्यापक या अग्नि के गुण वाला है। अतएव वात नाशक है।

७-वह सब ओषधियों से अधिक वीर्यवान् है। इसीसे सब रोगों का नाशक है। उसमें इन्द्र=सूर्य ने तेज प्रदान किया है।

१०-वह देह की व्यापक पीड़ा या स्थानिक पीड़ा, क्लृप्तजन्म रोग पीठ के पल्लवियों के दर्द को, स्वर को और समस्त शरीर में शीत लगाने के रोग को नाश करता है।

[३५] पूर्वोक्त जङ्घिड सेनापति का वर्णन।

अंगिरा ऋषिः। अंगिडो देवता। ३ अंध्यामन्तिः। ४ निन्दुः निन्दुः। देवा
कतुमुदुः। पन्वर्च इत्तन्।

इन्द्रस्य नामं गृह्णन्त ऋषयो जङ्घिडं दंडुः।

देवा यं चक्रुर्मपजमत्रं विष्कन्धद्रूपणम् ॥३॥

भा०—(इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् इन्द्र या राजा का नाम (गृह्णन्तः) ग्रहण करने हुए, अर्थात् उस जङ्घिड, शत्रुनाशक पुत्र्य के लिये 'इन्द्र' राजा का नाम, उपाधि स्वीकार करते हुए (ऋषयः) ऋषि, तत्त्वदर्शी लोग प्रजा के लिये (जङ्घिडं) शत्रुनाशक उस पुत्र्य को ही (दंडुः) प्रदान करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। (यन्) जिसको (देवाः) देव, विद्वान् पुत्र्य (अथ) तब से आगे, सर्वप्रथम (विष्कन्धद्रूपणम्) शत्रु के विविध सेनाओं को नाश करने वाला (मपजन्) उपाय (चक्रुः) बनाते हैं।

स तां रजतु जंगिडो अन्पाला धनेव।

देवा यं चक्रुर्माह्वयाः परिपालमरातिदन् ॥३॥

[३५] १-(दि०) 'विदुः' इति क्वचित्।

२-(दि०) 'धनेव' इति वैज० सु०।

भा०—(धनपालः) धन का पालक, राजा का धनाध्यक्ष (धना-
इव) जिस प्रकार धनों की रक्षा करता है ऐसे ही (जङ्गिडः) वह शत्रु
नाशक पुरुष भी हमारी (रक्षतु) रक्षा करे (यं) जिसको (ब्राह्मणाः)
ब्रह्म-वेद के विद्वान् पुरुष और (देवाः) दानशील राजा लोग (परिपाणम्)
चारों ओर से रक्षा करने, (अरातिहम्) और शत्रुओं को नाश करने में
समर्थ (चक्रुः) बनाते हैं । अर्थात् उसको रक्षा करने और शत्रुनाश करने
के समस्त उपाय और अधिकार प्रदान करते हैं ।

दुर्हार्दः सं घोरं चक्षुः पापकृत्वान्मागमम् ।

तांस्त्वं सहस्रचक्षो प्रतीबोधेन नाशय परिपाणांसि जंगिडः ॥३॥

भा०—यदि मैं (दुर्हार्दः) दुष्ट हृदय के पुरुष के (घोरं चक्षुः) घोर
(चक्षुः) चक्षु को और (पापकृत्वानम्) अपने ऊपर पाप, अत्याचार करने
वाले को (सं आ अगमम्) प्राप्त हो जाऊं तो हे (सहस्रचक्षो) सहस्रचक्षो
हजारों आंखों वाले ! हजारों गुप्तचरों की चक्षुओं से युक्त या (सहस्रचक्षो)
बलवान् शत्रु को पराजित करने में समर्थ चक्षु वाले राजन् ! तू (तान्)
उन दुष्ट हृदय वाले अत्याचारी पुरुषों को (प्रतिबोधेन) अपने प्रतिबोध,
सावधान, खतरे या उनपर सदा सतर्क रहने की प्रवृत्ति से उनको (नाशय)
विनाश कर क्योंकि तू (जंगिडः) शत्रुनाश करने वाला और सब ओर से
(परिपाणः असि) रक्षा करने हारा है ।

परिं मा द्विवः परिं मा पृथिव्याः पर्यन्तरिंजात् परिं मा वीरुद्भयः ।

परिं मा भूतात् परिं मोत भव्याद् दिशोदिशो जंगिडः पांत्वस्मान् ४

३—'दुर्हार्दं घोरचक्षुसं' इति हिटनिकामितः । 'दुर्हार्दसं घोरचक्षुम्' इति
पैप्प० सं० ।

(द्वि०) 'मागतम्', 'मादयन्' इति च क्वचित् ।

भा०—(जगिडः) जङ्गिड नाम राजा (मा) मुक्के (दिवः परि-
पातु) द्यौः, सुदूर आकाश से रक्षा करे। (मा पृथिव्याः परि पातु) मुक्के
पृथिवी से रक्षा करे। (अन्तरिक्षात् परि पातु) अन्तरिक्ष से रक्षा करे।
(वीरुद्भ्यः परि पातु) लताओं से रक्षा करे। (मा भृतात् परि पातु) मुक्के
अतीत से रक्षा करे। (उत मा भव्यात् परिपातु) और मुक्के वह भावी
काल से रक्षा करे और (अस्मान्) हम सबको (दिशोदिशः) प्रत्येक
दिशा से (परि पातु) रक्षा करे।

य ऋणवो देवकृता य उतो ववृतेन्यः।

सर्वोस्तान् विश्वभेषजोरसां जगिडस्करत् ॥५॥

भा०—(ये) जो (देवकृताः) देव, राजा या विद्वान् पुरुषों द्वारा
बनाये गये या नियुक्त किये हुए (ऋणवः) हिंसाकारी पदार्थ या पुरुष
हैं, (उतो) और (ये) जो (अन्यः) हमारा शत्रु (ववृते) हैं। (तान्
सर्वान्) उन सबका (विश्वभेषजः) समस्त रोग पीड़ाओं का उपाय करने
वाला (जगिडः) शत्रुनिवारक पुरुष (अस्मान्) निर्बल (करत्) करे।

[३६] 'शतवार' नामक वीर सेनापति का वर्णन।

ब्रह्मा ऋषिः। शतवारो देवता। अनुष्टुभः। षड्वचं सूक्तम् ॥

शतवारो अनीनशद् यच्छमान् रक्षांश्चि तेजसा।

आरोहन् वचसा स्रष्ट मणिर्दुर्गाम्चातनः ॥१॥

भा०—(शतवारः) शत, सैकड़ों शत्रुओं को वारण करने में समर्थ
पुरुष, (मणिः) शत्रुओं का स्तम्भन करने वाला और (दुर्गाम्चातनः) दुष्ट

५—'यः कृणावो' इति षड्वचं। 'यतो' इति क्वचित्। 'देवकृताय', 'ववृतेन्यः',
'ववृतेन्यः,' इति क्वचित् पाठः।

[३६] १—(च०) 'मणि' इति षड्वचं। 'मणिं चातनम्' इति पंचम्यं चं०।

ख्याति वाले दुर्दान्त, वदनाम जीव पुरुषों का नाशकारी, अपने (वचं-
सा सह) तेज से (आरोहन्) उन्नति को प्राप्त होकर (तेजसा) पराक्रम
और तेज से (यच्मान्) रोगकारी-पीड़ाकारी पुरुषों और (रक्षांसि) विघ्न-
कारी पुरुषों को (अनीनशत्) विनाश करे ।

शृङ्गाभ्यां रक्षां नुदते मूलेन यातुधान्यः ।

मध्येन यक्ष्मं वाधते नैनं पाप्माति तत्रति ॥२॥

भा०—वह शतवार नाम शिरोमणि, शत्रुनाशक पुरुष (शृङ्गाभ्याम्)
सींगों के समान हिंसाकारी साधनों से (रक्षः नुदते) राक्षसों दुष्ट पुरुषों को
भगाता है । और (मूलेन) अपनेमूल, स्थिर स्थिति से (यातुधान्यः)
प्रजा को पीड़ाकारी द्वियों से बचाता है । (मध्येन) अपने बीच के भाग से
(यक्ष्मं) यक्ष्म, रोगजनक कार्यों को (वाधते) दूर करता है और (पुनम्)
इसको (पाप्मा) कोई भी पाप और पापकारी पुरुष (न अति तत्रति)
नहीं दवा सकता ।

ये यक्ष्मांसो अक्ष्का महान्तो ये च शब्दिनः ।

सर्वां दुर्णामिहा मणिः शतवारो अनीनशत् ॥३॥

भा०—(ये) जो (यक्ष्मासः) रोग, दुःखदायी कारण (अक्ष्कासः)
छोटे हैं और (ये) जो (महान्तः) बड़े और (शब्दिनः) विकराल शब्द
करते हैं, (सर्वां) उन सबको (शतवारः) सैकड़ों को वारण करने में
समर्थ (मणिः) शत्रुस्तम्भक (दुर्णामिहा) दुष्ट नाम वाले, दुर्दान्त पुरुषों
का नाशक पुरुष (अनीनशत्) नाशकरे ;

२-(च०) 'तरति' इति द्विवचनकामितः ।

३-(प्र०) 'अक्ष्कः' इति क्वचित् । (द्वि०) 'शपथिनः' इति पेंप० सं० ।

शतं वीरानंजनयच्छतं यच्चमानपांवपत् ।

दुर्णाम्नः सर्वान् हृत्वाद् रक्षांसि धूनुते ॥५॥

भा०—वह (शतं वीरान्) सैकड़ों वीर पुरुषों को (अंजनयत्) उत्पन्न करता है और (शतं यच्चमान्) सैकड़ों कष्टदायी पुरुषों को (अपावपत्) उखाड़ने में समर्थ है । वह (सर्वान्) समस्त (दुर्णाम्नः) बुरे पुरुषों को (हृत्वा) मारकर (रक्षांसि) विघ्नकारी पुरुषों को (अथ धूनुते) नीचे गिरा देता है, धुन डालता है ।

हिरण्यशृङ्ग ऋषभः शातवारो अयं मणिः ।

दुर्णाम्नः सर्वास्तृड्द्वात्र रक्षांस्यक्रमीत् ॥५॥

भा०—(हिरण्यशृङ्गः) हिरण्य अर्थात् धातु के बने अति प्रदीप्त शृङ्ग अर्थात् हिंसा साधन शत्रुओं वाला, (ऋषभः) नरश्रेष्ठ (अयं) यह (शातवारः मणिः) सैकड़ों का वारण करने में समर्थ शत्रुस्तम्भक पुरुष (सर्वान्) समस्त (दुर्णाम्नः) दुर्दमनीय, दुर्दान्त पुरुषों को (तृड्द्वा) नाश करके (रक्षांसि) प्रजा के कार्यों में विघ्नकारी पुरुषों को भी (अथ अक्रमीत्) दवाता है ।

शतमृहं दुर्णाम्नीनां गन्धर्वाप्सरसां शतम् ।

शतं च श्वन्वतीनां शतवारेण वारये ॥६॥

४—(प्र०) 'वीरा अंजन—' 'वीरात्रं जन—' इति च क्वचित् । 'शतं वीराणि जनयच्छ—' इति पैप्प० सं० । 'वीराणि जनयन्', 'शतं वीरा अंजनयन्' इत्युभयथा द्विद्व्यनुमित्री पाठौ ।

५—(द्वि०) 'शतवारो' इति क्वचित् । 'दुर्णाः त्रिः सर्वास्त्रिद्वा अरक्षांस्यक्रमीन्' इति पैप्प० सं० ।

६—(तृ०) 'शतं श्वन्वतीनां' इति शं० पा०, सायणाभिमतश्च । 'शतं च श्वन्वतीनां' इति पैप्प० सं० ।

भा०—(शतं) सैकड़ों (दुर्नाम्नीनाम्) दुर्दान्त और सैकड़ों (गन्धर्वाप्सरसां) कामी पुरुष और कामिनी स्त्रियों को और (शतं च) सैकड़ों (श्वन्वतीनां) कुत्तों को साथ लिये आने वाली मांसभक्षिणी स्त्रियों को या कुत्तों के स्वभाव वाली अति कामुक स्त्रियों को मैं प्रजापालक पुरुष (शतवारण) सैकड़ों को चारण करने में समर्थ पुरुष के द्वारा ही चारण करूँ ।

श्वन्वती अप्सराएं—जैसे 'श्वन्वतीरप्सरसो हयका उतावुदे' । अथर्व० ११।२।१५
कामी पुरुष—जैसे 'श्वैवैकः कपिरिवैकः कुमारः' । अथर्व० ४।३७।११ ॥

श्रोषधि पत्र में—शतवार नामक श्रोषधि 'शतवार' इसलिये है कि १म वह सैकड़ों रोग को चारण करने वाली और २य वह सैकड़ों काटों वाली है । (१) वह यक्ष्मा-रोगों को और कुष्ठ को नाश करे । (२) वह कांटों से दुष्ट पुरुषों को मूल से पीड़ाओं को और मध्यभाग-काण्ड से राजयक्ष्मा को नाश करता है । (३) वह छोटे बड़े और रुलाने वाले सब रोगों को नाश करे । (४) सैकड़ों वीर्यों को उत्पन्न करती और सैकड़ों रोग को शरीर से नाश करती है । वह बुरे नाम के कुष्ठ आदि त्वचा के रोगों को भी दूर करती है । (५) उसके पीले कांटे हैं । वह त्वचा के रोगों को दूर करता है । (६) सफेद कोढ़, दाद, खाज आदि दुष्ट नाम के रोग गन्धर्व और अप्सरा अर्थात् गन्ध या वायु द्वारा या जल द्वारा मनुष्य को लग जाने वाली वीमारियों को और श्वन्वती अर्थात् कुत्तों द्वारा फैल जाने वाली कोलिक, दुःसाध्य पीड़ाओं को भी वह सैकड़ों की संख्या में दूर करती है । ऐसी 'शतवार' नामक श्रोषधि वैद्यों को तैयार करनी चाहिये ।

[३७] वीर्य, बल की प्राप्ति ।

श्रुवा ऋषिः । अग्निदेवता । १ त्रिण्डुम् । २ आस्तारपंक्तिः । ३ त्रिपदा महा-
बृहती । ४ पुरोणिक् । चतुर्दशं सखम् ॥

इदं वर्चो अग्निना दत्तमागन् भर्गो यशः सह ओजो वयो बलम् ।
त्रयस्त्रिंशद् यानि च वीर्याणि तान्यग्निः प्र ददातु मे ॥१॥

भा०—(इदं) यह (वर्चः) तेज जो (अग्निना) अग्नि ने (दत्तम्)
प्रदान किया है वह मुझे (भर्गः) तेज, (यशः) यश, (सहः) शत्रु-
धर्षक बल, (ओजः) ओज, (वयः) दीर्घ आयु और (बलम्) बल
रूप में (आ अगन्) प्राप्त हो । (यानि) जो (त्रयः त्रिंशत् वीर्याणि)
तेतीस वीर्य, अधिकार हैं (तानि) उन सबको वह (अग्निः) अग्नि, पर-
मेश्वर, राजा, आचार्य और विद्युत् (मे प्रददातु) मुझे प्रदान करे ।

वर्च आ धेहि मे तन्वांसि सह ओजो वयो बलम् ।

इन्द्रियाय त्वा कर्मणे वीर्यायि प्रति गृह्णामि शतशारदाय ॥२॥

भा०—हे पूर्वोक्त अग्ने ! तू (मे) मेरे (तन्वांसि) शरीर में (वर्चः)
ब्रह्मवर्चस वीर्य, (सहः) सहनशक्ति, (ओजः) तेज, ओज, (वयः)
जीवन शक्ति और (बलम्) बल, ताकत (आ धेहि) प्रदान कर । (त्वा)
तुम्हको मैं (इन्द्रियाय) इन्द्रियों के बल के लिये (कर्मणे) कर्म या
क्रिया शक्ति को प्राप्त करने और (वीर्यायि) वीर्य प्राप्त करने के लिये और
(शतशारदाय) सौ वर्ष के जीवन के लिये (प्रति गृह्णामि) स्वीकार
करता हूँ ।

ऊर्जे त्वा बलाय त्वौजसे सहसे त्वा ।

अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्युहामि शतशारदाय ॥३॥

[३७] १—(प्र०) 'आगत्' तै० ब्रा० । 'इदं राधो' इति आश्रौ० सू० । 'यशो
भर्गः सह ओजो बलं च' इति तै० ब्रा० । नहि राधः सह ओजो बलं यत् ।
मं० स० ।

२—(प्र०) 'तन्व' इति क्वचिन् । वीर्यायुत्वाय शतशारदाय प्रतिगृह्णामि,
इति तै० ब्रा० ।

भा०—हे शत्रे ! (त्वा) तुम्हको (ऊँ) अन्न से पुष्टि प्राप्त करने के लिये, (बलाय) बल की वृद्धि करने के लिये, (श्रोजसे) श्रोज, पराक्रम के लिये, (सहसे) शत्रुधर्मण के लिये, (आभिभूयाय) शत्रुओं का पराजय करने के लिये और (राष्ट्रभूयाय) राष्ट्र के भरण पोषण के लिये और (शतशारदाय) प्रजाओं के नौ २ वर्षों तक के दीर्घ जीवन के लिये (पर्युहामि) स्वीकार करता हूँ । यहां अग्नि शब्द से राजा का ग्रहण है ।

ऋतुभ्यद्भारतवेभ्यो मादृभ्यः संवत्सरेभ्यः ।

धात्रे विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे ॥४॥

अथर्व० ३।१०।१०॥

भा०—हे शत्रे ! राजन् (त्वा) तुम्हको (ऋतुभ्यः) ऋतुओं अर्थात् राजसभा के सदस्यों के लिये, (आर्तवेभ्यः) उनके समान अन्य प्रजाधिकारियों के लिये (मादृभ्यः) संवत्सर प्रजापति के अधीन मासों के समान आदित्य प्रजा के अधिकारियों के लिये और (संवत्सरेभ्यः) वर्ष के समान अन्य प्रजापतियों, प्रजापालक भूपतियों के लिये अर्थात् उनपर शासन करने के लिये वरण करता हूँ । और (धात्रे) राष्ट्र के धारण करने वाले, (विधात्रे) कानून विधान करने वाले, (समृधे) देश को प्रम्पन्न करने या राज्य कार्य में शत्रुओं को वश करने वाले (भूतस्य-पतये) समस्त प्राणियों के पालक उस परमेश्वर या महान् राजा का यजे) मैं संगति-लाभ करूँ । देखो अथर्व० ३।२।८।११॥

प्रायः हस्तलिपियों में इस मन्त्र की प्रतिक मात्र दी है 'ऋतुभिद्भे-
रेका सायण ने भाष्य में ३।१०।१० को दो हराया है । द्विदाने ने ३।

४-अस्याः स्थाने द्विदानीं प्रिधादयः अथर्व० ५।२८।१३ इति ऋधं
पुनरावर्तयन्ति । तदसत् । 'ऋतुभ्यद्भारतवेभ्यः' तिस्पष्टमनुक्रमणिका
वचनात् । सायणोत्प्लेखान् ।

३८ । १३ को दोहराया है। अथर्व सर्वानुक्रमणी में 'ऋतुभ्यस्त्वार्त्तवेभ्यः' रलिखा है। अतः जो मन्त्र दिया है वही ठीक है।

[३८] राज यक्ष्मा नाशक गुल्गुलु अश्रुधि

अथर्वा अग्निः । मन्त्रोक्ता गुल्गुलुदेवता । १ अनुष्टुप् । २ चतुष्टुप् षष्ठी । ३ एका
वसाना प्राजापत्यानुष्टुप् । वृत्तं इक्षम् ॥

न तं यक्ष्मा अरुन्धते नैनं शपथो अश्नुते ।

यं भेषजस्य गुल्गुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते ॥१॥

विष्वन्चस्तस्माद् यक्ष्मां मृगा अश्वां इवेरते ।

भा०—(यम्) जिसके शरीर को (भेषजस्य) रोग नाशक (गुल्गुलोः) गूगल का (सुरभिः) उत्तम (गन्धः) गन्ध (अश्नुते) व्यापता है (तम्) उसको (यक्ष्मा) राजयक्ष्मा के रोग (न अरुन्धते) नहीं पीड़ा देते, नहीं घेरते। और (एनं) उसको (शपथः) दूजेर की निन्दा वचन भी (न अश्नुते) नहीं लगता है। वह सदा स्वस्थ प्रसन्न रहने से दूसरे के कहे बुरे वचनों को बुरा नहीं मानता। (तस्माद्) उससे (विष्वन्चः) सब प्रकार के (यक्ष्माः) राजयक्ष्मा रोग (अश्वाः मृगा इव) शीघ्रगामी हरिणों के समान (ईरते) कांपते हैं, डरकर भागते हैं।

यद् गुल्गुलु सैन्ध्रवं यद् वाप्यासि समुद्रियम् ॥२॥

उभयोरग्रभं नामास्मा अरिष्टतातये ॥३॥

[३८] १—'अरुन्धते' इति क्वचित् । 'शपथोद्यु०' इति क्वचित् ।

२—'गुल्गुलु', 'वाप्यासि' इति क्वचित् । 'यक्ष्माद् मृगावजाय वेभ्यस्ते' इति पैप० सं० ।

भा०—(यद्) जो (गुल्गुलु) गूगल (सैन्धवं) सिन्धु से उत्पन्न है अर्थात् नदी के तटों पर उत्पन्न होता है और (यद् वा अपि) और जो (समुद्रियम् असि) समुद्र के तट पर उत्पन्न होता है । (उभयोः) उन दोनों के (नाम) नाम, स्वरूप का (अस्मै) इस पुरुष के (अरिष्टतातये) कल्याण के लिये (अग्रभम्) उपदेश करता हूँ ।

[३६] कुष्ठ नामक श्लोषधि

भृग्वहिरा ऋषिः । मन्त्रोक्तः कुष्ठो देवता । २, ३ पथ्यापंक्तिः । ४ पद्पदा जगती । (२-४ त्र्यवसाना) ५ सप्तपदा शक्वरी । ६-८ अष्टयः (५-८ चतुरवसानाः) । शेषा अनुष्टुभः । दशर्च सक्तम् ।

रतु देवस्त्रायमाणः कुष्ठो हिमवत्स्परि ।

तक्मानं सर्वं नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः ॥१॥

भा०—(त्रायमाणः) रक्षा करने वाला (देवः) दिव्य गुणवान्, हर्षोत्पादक (कुष्ठः) कुष्ठ नामक वनस्पति (हिमवतः परि) हिम वाले पर्वत से (आ रतु) हमें प्राप्त होता है । हे कुष्ठ ! (सर्वम्) सब प्रकार के (तक्मानं) पीड़ादायी ज्वरों को और (सर्वाः च यातुधान्यः) सब प्रकार की पीड़ाकारिणी यातनाओं को (नाशय) नाश कर ।

शीर्णिं ते कुष्ठ नामानि नद्यमारो नद्यारिपः । नद्यायं पुरुषो रिपत् ।

यस्मै परिव्रवीमि त्वा स्यात्प्रान्तरथो दिवा ॥२॥

[३९] १—'नाशयत्' इति द्विटनिकामितः ।

२—नद्यमारो, नद्यारिपः नद्यायः इति बहुत्र पाठः । घद्ययोरविवेकः । 'नद्यारिपे'

इति पूर्वत्रापि ७ । २ । ६ ॥ ७ । ७ । ६ ॥ प्रयोगदर्शनात् घः सधुः ।

'अस्मै' 'दिवः' इति पृष्य० सं० ।

भा०—हे (कुष्ठ) कुष्ठ ! (ते) तेरे (त्रीणि) तीन प्रकार के (नामानि) रोगों को दमन करने के सामर्थ्य हैं । एक तो (नघमारः) पुरुष को कभी मरने नहीं देता, दूसरा (नघ-अरिपः) कभी कोई अरिष्ट या रोग नहीं होने देता । अथवा कुष्ठ के तीन नाम हैं कुष्ठ, नघमार और नघारिप, इसी कारण हे कुष्ठ ! (यस्मै) जिस पुरुष को भी (त्वा) तेरा (परि ब्रवीमि) मैं उपदेश करूं । (अथं) वह (पुरुषः) पुरुष चाहे (सायं प्रातः अथो दिवा) सायंकाल, प्रातःकाल, मध्याह्न हो, कभी भी, (नघ रिपत्) रोग पीड़ा आदि कष्ट को प्राप्त नहीं होता ।

'नघमारो, नघारिपः, नघायं' यह पाठ प्रायः सर्वत्र छपी पुस्तकों में है । परन्तु 'नघारिपाम्' आदि प्रयोग (अथर्व० ८ । २ । ६॥ ८ । ७ । ६ ॥) देखने से शुद्ध पाठ 'नघमारो नघारिपः नघायं' यही है । शंकर, पारदुरंग और ह्रिटनी को इस पाठ में संदेह है । परन्तु बनारस संस्कृत कालिज के पण्डित श्रीफिथ को इस पाठ में कोई संदेह नहीं । उसको प्राप्त हस्तलिपि में 'नघमारो नघारिपः, नघायं' यही पाठ रहा प्रतीत होता है । यही पाठ पैप्पलाद् का भी है ।

'जीवला नाम ते माता जीवन्तो नाम ते पिता । नघायं पु० । ० ॥ ३॥

भा०—(ते माता) तेरी माता. तेरी रचना करने वाली शक्ति (जीवला नाम) प्राण धारण करने वाली होने से 'जीवला' कहाती है । इसी प्रकार (ते) तेरा (पिता) पिता, पालक शक्ति भी (जीवन्तः) जीवनप्रद होने से 'जीवन्त' नाम से कहाती है । (नघ अयम्- इत्यादि) पूर्वम् ।

३—'जीवलो नाम ते पिता' इति श्रीफिथसन्मनः । 'जीवन्तः'—इत्यत्र रुहिनन्दि जीवि प्राणिभ्यः पिशाशिपि, इत्यौणादिभैः प्रत्ययः । जीवति स-जीवन्तः । औपथं वा । इति दया० उग० व्या० ।

उत्तमो अस्योपधीनामनइवान् जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव ।
नद्यायं पुरुषो रिपत् । यस्मै परिवर्षामि त्वा स्वायं प्रातरश्रो
दिवा ॥ ४ ॥

भा०—हे कुष्ट नामक ओपधे ! तू (ओपधीनाम्) दोषों को नाश करने या वात, पित्त, कफ आदि को पुष्ट करने वाली ओपधियों में से (उत्तमः) सब से उत्तम (अस्ति) है । और (जगताम्) जंगम संसार में (अनइवान् इव) वैल जिस प्रकार हृष्ट पुष्ट एवं गाढ़ी खींचने में समर्थ होता है उसी प्रकार यह ओपधि शरीर को चलाने में समर्थ है । (श्वपदाम्) नख वाले कुत्ते की जाति के प्राणियों में से (व्याघ्रः इव) जिस प्रकार व्याघ्र, सिंह बलवान् होने से सब से श्रेष्ठ है उसी प्रकार बलकारी यह ओपधि भी सब से श्रेष्ठ है । (नव अयम्०) इत्यादि पूर्ववत् ।

त्रिः शाम्बुभ्यो अङ्गिरेभ्यस्त्रिरादित्येभ्यस्परि । त्रिर्जातो विश्व-
देवेभ्यः । स कुष्टो त्रिश्वभेपजः । साकं सोमेन तिष्ठति । तृन्मानं
सर्वं नाशयु सर्वाश्च यातुश्चान्यः ॥ ५ ॥

भा०—(सः) वह (कुष्टः) कूठ नामक (विश्वभेपजः) समस्त रोगों को दूर करने वाली ओपध (शाम्बुभ्यः=साम्बुभ्यः) साम्बु अर्थात् जल सहित नदी, समुद्र और मेघ इनसे (त्रिः) तीन प्रकार का, तीन भेदों वाला (जातः) उत्पन्न होता है । इसी प्रकार (अङ्गिरेभ्यः) अग्नि्यों के भेदों से भी वह (त्रिः) तीन प्रकार का होता है (आदित्येभ्यः) आदित्य अर्थात् वर्ष के मासों के भी तीन प्रकार ग्राम्, वर्षा और

४—'उत्तमोस्योप' इति पेष्य० सं० ।

५—'त्रिर्भृगुभ्योऽङ्गिरेभ्यः' इति द्विविनि-अनुमितः । 'अग्निरयेभ्यः' इति क्वचिद् । 'तिष्यामिविधोङ्गिरेभ्यः' इति पेष्य० सं० । (पं०) 'तिष्ठति' इति पेष्य० सं० ।

शीत ऐसे ऋतु भेद होने से भी वह कुष्ठ (त्रिः परि जातः) तीन प्रकार का होजाता है । और (विश्वदेवेभ्यः) समस्त अन्य देव अर्थात् जल, वायु, पृथिवी आदि भेद से भी (त्रिः जातः) वह तीन प्रकार का होजाता है । इसी कारण से (सः) वह (कुष्ठः) कुष्ठ औषधि या (कुष्ठः) कुष्ठ=पृथिवी पर विद्यमान नाना प्रकार के औषध (विश्वभेषजः) सभी रोगों के औषध होजाते हैं । यह समस्त वनस्पति (सोमेन) प्रेरक, उत्तेजक रस के साकं) साथ (तिष्ठति) विद्यमान है । इनकी सहायता से हे पुरुष ! तू (सर्वं तन्मानं) सर्व कष्टदायी रोगों को और (सर्वाः च यातुधान्यः) सब प्रकार की पीड़ा प्रदान करने वाली दशाओं को भी (नाशय) विनाश कर ।

कौ पृथिव्यां तिष्ठतीति कुष्ठः । पृथिवी पर स्थित समस्त वनस्पतियों के लिये भी कुष्ठ शब्द सामान्य से आया प्रतीत होता है । जल भेद से, अग्नि भेद से, रस भेद से, सूर्य के भिन्न २ प्रकार के आतपभेद या मास भेद और ऋतु भेद से वायु, पृथिवी आदि पदार्थ भेद से उनके नाना भेद होजाते हैं । और एक २ जाति की वनस्पति के भी भिन्न २ भेद, गुणभेद अभाव भेद होने से वे सर्व रोग हरण करने वाली होजाती हैं ।

अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि ।

तत्रामृतस्य चक्षुणं ततः कुष्ठं अजायत० । ० ॥ ६ ॥

कथर्व० ५ । ४ । ३ ॥

भा०—(देवसदनः) दिव्य गुणों का आश्रय (अश्वत्थः) अग्नि का महान् आश्रय सूर्य (इतः) इस लोक से (तृतीयस्याम् दिवि) तीसरे चौ-लोक में विद्यमान है (तत्र) वहां ही (अमृतस्य) अमृत, परम जीवनप्रद रस का (चक्षुणम्) स्रोत है । (ततः) उससे ही (कुष्ठः) कुष्ठ नाम

श्रोपधि, या समस्त पृथिवीस्य वनस्पति (अजायत) उत्पन्न होते हैं । (सः कुष्टः०) इत्यादि पूर्ववत् ।

द्विरृग्ययी नौरंचरद्विरृग्यवन्धना द्विवि ।

तत्रामृतस्य चक्षुं ततः कुष्टो अजायत० । ० । ॥७॥

अथर्व० ५।४।४॥

भा०—आख्या देखो का० २।४।४॥ (स कुष्टः) इत्यादि पूर्ववत् ।

यत्र नात्रप्रभ्रंशनं यत्र हिमवतः शिरः ।

तत्रामृतस्य चक्षुं ततः कुष्टो अजायत ।

स कुष्टो विश्वभेषजः साकं सोमंन तिष्ठति ।

तन्मानुं सर्वं नाशयु सर्वाश्च यातुधान्यः ॥८॥

भा०—(यत्र) जहां (अत्रप्रभ्रंशनम्) नीचे फिसलना अर्थात् हिमका पिबलना (न) नहीं होता, अथवा (यत्र नावः प्रभ्रंशनम्) जहां नौ अर्थात् सूर्य का 'प्रभ्रंशन' तेज अति न्यून होजाता है (यत्र) जहां (हिमवतः) हिमवाले पर्वत का (शिरः) शिरं या शिखर भाग है । (तत्र अमृतस्य चक्षुं) वहां अमृत का स्तोत्र है । (ततः) वहां (कुष्टः) कुष्ट (अजायत) उत्पन्न होता है । (सः कुष्टः० इत्यादि) पूर्ववत् ।

यं त्वा वेद पूर्वं इष्वाको यं वां त्वां कुष्ट काम्यः ।

यं वायसो यं मात्स्यस्तेनासि विश्वभेषजः ॥९॥

८—(प्र०) 'भावः प्र-' इति क्वचित् ।

९—(प्र०) 'इष्वाको' इति सायणाभिमतः । 'इष्वाक' इत्येव प्रायः । 'इष्वा-
कः । यं' इति प्रायः पठ्याठः । कुष्टकाम्यः' इति द्विनिकामितः ।
(द्वि०) 'यं वायसो यमात्स्यस्ते' इति प्रायः । 'यं वायसो यंमात्स्यस्ते'
इति त्रिफियकामितो द्विनिकामितश्च (प्र-वृ०) यं त्वा वेद पूर्वं इष्वाको
यं वा त्वा कुष्टिकाश्च अहिश्वापसो अनुसारिच्छ स्तेना, इति पैष्य० सं० ।

भा०—हे (कुष्ट) कुष्ट ! (यं) जिस (त्वा) तुम्हको (पूर्वः) पूर्व का या पूर्ण (इष्वाकः) 'इष्वाक' नामक पत्नी वाण के समान वेग से जाने वाला (वेद) प्राप्त करता है और (वा) या (यं त्वा) जिस तुम्हको (काम्यः) कामना या आवश्यकता वाला पुरुष या 'काम्य' नाम पत्नी (वेद) प्राप्त करता है । (वा) और या (यं) जिस तुम्हको (वायसः) वायस नाम पत्नी और (यं मात्स्यः) जिसको 'मात्स्य' नामक पत्नी (वेद) जानता है । (तेन) उससे तू (विश्वभेपजः असि) सब रोगों को दूर करने वाला औषध है ।

ग्रीफिथ के मत से—पूर्व, इक्ष्वाकु, काम्य, वायस और मात्स्य ये राजाओं के नाम हैं । शंकर या पाण्डुरंग सम्मत पाठ इस प्रकार है—'यं त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको यं वा त्वा कुष्ट काम्यः । यं वावसो यं मात्स्यस्तेनासि विश्वभेपजः' ।

सायण के मत से—इक्ष्वाकु नाम राजा, काम्य, कामनायुक्त (यमात्स्य वसः) यममुख 'वस' नामक देव । हमारे विचार में यह पाठ विकृत है । पूर्व इक्ष्वाकु, काम्य, वायस और मात्स्य ये पत्नियों के नाम प्रतीत होते हैं । वाचस्पत्य और शब्द कल्पद्रुम महाकोशों के अनुसार मात्स्यरंग 'मच्छरंग' नाम जल पत्नी है । काम्य या कामान्ध नाम श्येन का है । कामी नाम चक्रवा, चक्रवृत्तर, चटक और सारस का वाचक है । वायस काक या कौआ है । इक्ष्वाकु—इष्वाकु भी किसी तीव्रगति पत्नी का नाम प्रतीत होता है ।

शीर्षलोकं तृतीयकं सद्रन्दिश्यच्चं हायनः ।

तृन्मानं विश्वधावीर्याधराञ्च परां सुव ॥१०॥

१०—(प्र०) 'शीर्षालोकं, 'सद्रन्ति (वृ०) 'विश्वधावीर्यमधरा' इति

पैप्प० सं० ।

भा०—(शीर्षलोकं=शीर्षरोगम्) सिरके रोग को (तृतीयकम्) तीसरे दिने खाने वाले ज्वर को, (सदन्दिः) और निरन्तर चढ़े रहने वाला जो ज्वर है उस (तदमानं) कठिन ज्वर को भी हे (विश्वधाधीर्यम्) सब प्रकार के धीर्यवाले शोषधे ! तू (अधरान्चम्) नीचे गति वाला करके (परा सुचं) सर्वथा दूर कर ।

गले सड़े मांस खाने वाले गीध आदि, मलिन पदार्थ के खाने वाले काक, मत्स्य खाने वाला मछरंगा और इसी जाति के जल-जन्तु और विराह कीटों को खाने वाला पक्षी पारावत आदि उस कुष्ठ नाशक कुष्ठ शोषधि का ज्ञान रखते हैं वे उसी के बलपर सब रोगकारी पदार्थ खाकर भी स्वस्थ रहते हैं । उनके द्वारा मनुष्य को कुष्ठ शोषधि का ज्ञान करना चाहिये ।

[४०] निर्दोष, मेधावी, ज्ञानी, होने की प्रार्थना ।

महा ऋषिः । बृहस्पतिर्विश्वेदेवाश्च देवताः । १ परानुष्टुप् । २ त्रिष्टुप् पुरः ककुम्मती उपरिष्टुप् बृहती । ३ बृहतीगर्भा अनुष्टुप् । ४ त्रिपदा आर्षी गायत्री । चतुर्गुणं सक्तम् ॥

यन्मे छिद्रं मनसो यच्च वाचः सरस्वती मन्युमन्तं जगाम ।

विश्वैस्तद् देवैः सह संचिदानः सं दधातु बृहस्पतिः ॥१॥

यजु० । ३६ । २॥

१—एत्वं ऋषे च छान्दसम् ।

[४०] (द्वि०) 'सरस्वती मन्युमन्त' इति बहुव्र । 'हरस्वन्तं मायुमन्तं' इति द्विद्वन्द्व-
नमितः । 'सरस्वतीमन्युमतीन्' इति द्विवनिसम्मतः । 'सरस्वती-
मन्ववित्तं जगाम' इति पैप्प० सं० । (च०) 'सं दधातु' इति पैप्प०
सं० । यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृणं बृहस्पतिर्मे
तदधातु । इति यजुः ।

भा०—(मे) मेरे (मनसः) मनका (यत्) जो (छिद्रम्) छिद्र
 दोष या त्रुटि और (यत्) जो (वाचः) वाणी का (छिद्रं) छिद्र, दोष हो जब
 कि (सरस्वती) सरस्वती वाणी (नन्युमन्तम्) क्रोधवाले पुरुष को
 (जगाम) प्राप्त हो (तद्) तब उस दोष को (विश्वैः देवैः सह) समस्त
 विद्वान् पुरुषों के साथ (संविदानः) विचार करके (बृहस्पतिः) वेदवाणी
 का पालक विद्वान् पुरुष (संदधातु) उस छिद्र को या त्रुटि को पूर्ण करे ।
 मानसिक त्रुटि की और वाणी की त्रुटि को और यदि कोई व्यक्ति क्रोध में
 कुछ कहता हो तो उसके दोष को विद्वान् पुरुष मिलकर विचारें और उस
 त्रुटि को दूर करें ।

मा न आपो मेधां मा ब्रह्म प्र मथिष्टन ।

सुष्यदा यूयं स्यन्दध्वमुपहृतोहं सुमेधां वर्चस्वी ॥२॥

भा०—(नः मेघान्) हमारी मेघा, तंत्रि बुद्धि को है (आपः)
 आप-पुरुषो ! आप लोग (मा प्र मथिष्टन) विनष्ट मत होने दो । (नः)
 हमारा (ब्रह्म) ब्रह्मज्ञान, वेदाभ्यास भी (मा) मत नष्ट करो । (यूयम्)
 तुम (सुष्यदाः) तुम से बहते जलों के समान, सु-उत्तम ज्ञान-प्रवाह से
 युक्त होकर (स्यन्दध्वम्) प्रवाहित होवो, मेरे समीप आओ । अथवा
 पाठान्तर से (शुष्यद् । आ । यूयं । स्यन्दध्वम्) अर्थात् आप लोग मेरे
 सुखते हुए ब्रह्म वेदाभ्यास को पुनः (आस्यन्दध्वम्) प्रवाहित करो ।
 (अहम्) मैं (उपहृतः) आप लोगों द्वारा स्वीकृत या अनुगृहीत होकर
 (सुमेधाः) उत्तम बुद्धि से युक्त और (वर्चस्वी) तेजस्वी होकर रहूँ ।

मा नो मेधां मा नो दीक्षां मा नो द्विसिष्टं यत् तपः ।

शिवा नः शं सन्त्रायुपे शिवा भवन्तु मातरः ॥३॥

(द्वि०) 'मा मन्न प्रमथिष्ट नः' इति च वदुः । 'शुष्यदा' इति च प्राप्तेः ।

स्यन्दध्वं०, स्यन्दध्वं० स्यन्दध्वं, स्यन्दध्वं०, इति च गणः ।

भा०—हे माता और पिता आप लोग ! (नः मेधाम्) हमारी मेधा बुद्धि को, (नः दीक्षाम्) हमारी दीक्षा, व्रत ग्रहण की प्रतिज्ञा को और (यत् तपः) जो तप हम कर रहे हैं उसको (मा हिंसिएम्) मत नष्ट करो । (नः) हमारे (शिवाः) कल्याण चाहने वाले हितैषी जन (नः) हमारे लिये (शं सन्तु) शान्तिप्रद सिद्ध हों । और (मातरः) हमारी माताएं हमारे (आयुषे) दीर्घ जीवन के लिये (शिवा, भवन्तु) हमारी कल्याणचिन्तक हों ।

माता पिता और नाना हितू बन्धू जन ही प्रायः शिवा, दीक्षा और तपः साधन में बाधक होकर बच्चों को गुरु-गृह में शान्ति से तपस्या पूर्वक शिक्षाभ्यास नहीं करने देते । उनसे विघ्न न करने की प्रार्थना है ।

या नः पीपरदशिवन्ता ज्योतिष्मती तमस्तिरः ।

तामस्मे रासतामिपम् ॥४॥ ऋ० १ । ४६ । ६ ॥

भा०—हे (आश्विनौ) अश्विनजनो ! माता पिताओ ! (या) जो (ज्योतिष्मती) प्रकाश से युक्त उषा या प्रकाशवती प्रज्ञा (तिरः) बहुत लम्बे चौड़े, उपस्थित (तमः) अन्धकार से (नः) हमें (पीपरत्) पार करे (ताम्) उस (इपम्) प्रेरणा करने वाली प्रज्ञा या शुभ कामना को आप दोनों हमें (रासताम्) प्रदान करें ।

[४१] लोकोपकारी महापुरुषों का कर्तव्य ।

ब्रह्मा ऋषिः । आपो देवताः । त्रिष्टुप् । एकर्व सूक्तम् ॥

भद्रमिच्छन्त ऋषयः सूविदुस्तपो दीक्षामुपनिषदुरग्रे ।

ततो राण्ट् बलमोजंश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥ १ ॥

[४१] १—(च) 'अस्मे' इति द्वित्यनिकामितः । भद्रं पच्यन्त उपसेदुरग्रे तपो दीक्षां ऋषयः सुविदिः । 'ततः क्षत्रं बलमोजंश्च जातं तदस्मै देवा अभि संनमन्तु' इति तै० आ० ।

भा०—(स्वर्विदः) ज्ञान और प्रकाश को प्राप्त करने वाले (ऋषयः) ऋषि, मन्त्रद्रष्टा पुरुष (भद्रम् इच्छन्तः) संसार का कल्याण और सुख चाहते हुए (अग्ने) सब से प्रथम, (स्वयं तपः) तपस्या और (दीक्षाम्) व्रत पालन की दीक्षा लेकर (उपनिषद्दुः) परमेश्वर की उपासना करते या गुरु के समीप ज्ञान का उपदेश लेते हैं । (ततः) तब उस तप और दीक्षा से (राष्ट्रम्) राष्ट्र (बलम्) बल और (ओजः च) ओज, तेज (जातम्) उत्पन्न होता है (तत्) तब (अस्मै) उसके लिये (देवाः) सब देव विद्वान् प्रतिष्ठितं पुरुष भी (उप संनमन्तु) आदर करते हैं ।

[४२] ईश्वरोपासना ।

ब्रह्मा ऋषिः । ब्रह्म देवता । १ अनुष्टुप् ; २ त्र्यवसाना कतुम्मती पथ्या पंक्तिः ।

३ त्रिष्टुप् । ४ जगती । चतुर्कृत्वं सूक्तम् ॥

ब्रह्म होता ब्रह्मं यज्ञा ब्रह्मणा स्वरवो मिताः ।

अध्वर्युर्ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणोन्तर्हितं हविः ॥१॥

भा०—(ब्रह्म होता) ब्रह्म स्वयं होता, संसार की आहुति स्वयं अपने भीतर लेने वाला है । (ब्रह्म यज्ञाः) ये समस्त यज्ञ ब्रह्म के ही स्वरूप, ब्रह्म की नाशक्रियों के अनुकरण हैं । (स्वरवः) जितने स्वर अर्थात् तेजोमय सूर्य हैं सब (ब्रह्मणा) ब्रह्म, परमेश्वर रूप महान् शक्तिमान् ने (मिताः) रचे हैं । (अध्वर्युः) कभी पराजित न होने वाला, या समस्त यज्ञों का अनुष्ठाता अध्वर्यु भी (ब्रह्मणः) ब्रह्मवेद से ही (जातः) उत्पन्न होता है । (हविः) समस्त हवि, ज्ञान, चरु पुरोडाश और अन्न आदि पदार्थ (ब्रह्मणा अन्तर्हितम्) ब्रह्म की चेतन या जीवनप्रद शक्ति से व्याप्त हैं ।

[४२] १—(द्वि०) 'स्वस्वामिता,' 'स्वर्गामिता' इति पाठभेदौ । स्वः । अस्वामिता इति पदच्छेदः । 'स्वर्गामिता' इति सायणाभिमतः । (तृ०) अध्वर्यु-ब्रह्मणो इति क्वचित् । (च०) 'ब्रह्मण्यन्तर्हितं' इति सायणाभिमतः ।

ब्रह्म स्रुचो घृतवतीर्ब्रह्मणा वेदिरुद्धिता ।

ब्रह्म यज्ञस्य तत्त्वं च ऋत्विजो ये हविष्कृतः । शमिताय स्वाहा ॥२॥

भा०—(स्रुचः) यज्ञ में घृत सुश्राने वाले स्रुचों के समान (घृतवतीः) घृत अर्थात् अन्न से सम्पन्न, पृथिवी लोक पर जीवनशक्ति की आहुति देने वाले ये प्रकाशमय सूर्य आदि लोक सब (ब्रह्म) उस महान् ब्रह्म की शक्ति हैं । (वेदिः) यह वेदी, उसके समान सकल पदार्थों को प्राप्त कराने वाली पृथिवी (ब्रह्मणा) उस महान् ब्रह्म परमेश्वर ने (उद्दिता) थाम रक्खी है । (यज्ञस्य) समस्त यज्ञ का (तत्त्वम्) वास्तविक स्वरूप ही (ब्रह्म) ब्रह्म है । और (ये) जो (हविष्कृतः) हवि, अन्न, ज्ञान आदि के सम्पादन करने वाले (ऋत्विजः) प्रति ऋतु में यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के समान ही प्रति ऋतु में प्रवृत्त होकर भेघ वायु आदि ऋतु-अनुकूल पदार्थ जो पृथिवी पर अन्न उत्पन्न करने हारे हैं वे सब (ब्रह्म) परमेश्वर की ही शक्तियां हैं । यह उस (शमिताय) महान् सुख, शान्ति प्रदान करने वाले परमेश्वर की ही सब (सु-आहा) सुख्याति, महान् कीर्ति या महिमा है ।

श्रद्धोमुचे प्र भरे मनीषामा सुत्राण्ये सुमतिमांश्चणानः ।

इममिन्द्र प्रति हृद्यं गृभाय स्रत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥३॥

१२—(वृ०) 'ब्रह्मयज्ञस्य तन्तवः' इति तै० ब्रा० । (द्वि०) 'उद्धृता' इति सायणाभिमतः । 'उद्धृता' इति क्वचित् । (वृ०) 'ब्रह्मयज्ञश्च सत्रं च' इति हिऽन्यनुमितः । (च०) 'संमिताय' इति सायणाभिमतः ।

३—(द्वि०) 'सुमतिं मा' इति बहुत्र । (प्र०) 'प्रभरेमा मनीषाम्' इति पौप्प० सं०, तै० सं० । (द्वि०) 'ओषिष्ठ दाव्ने सुमतिं गृणानः' इति तै० सं० । 'भूयिष्ठ दाव्ने सुमतिमांश्चणानः' इति मै० सं० । 'हृद्यं-जुपस्व' इति मै० सं० । 'हृव्या' इति पौप्प० सं० । (वृ०) इममिन्द्र इति क्वचित् । (द्वि०) सुमतिं गृणानः । 'हृव्या' इति सायणाभिमतः ।

भा०— मैं (सुमतिम्) शुभ, उत्तम मति, ज्ञान, मानस प्रवृत्ति को (आसुत्राणः) चाहता हुआ, उसकी याचना करता हुआ (आसुत्राणो) सबसे उत्तम रत्नक, (अंहोमुचं) सब पापों और कष्टों से छुड़ाने वाला परमात्मा के लिये (मनीषाम्) अपनी मानस इच्छा या स्तुति को (प्रभरे) भेदरूप में रखता हूँ । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् इन्द्र ! परमेश्वर ! तू (यमं हृष्यं) इस ज्ञानमय स्तुति को (प्रति गृभाय) स्वीकार कर । (यजमानस्य) देवोपासना करने वाले मेरी (कामाः) सब काम संकल्प कामनाएं (सत्याः) सत्य रूप से सफल (सन्तु) हों ।

अंहोमुचं वृषभं यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम् ।

अपां नपातमश्विनो हुवे धियं इन्द्रियेणं तं इन्द्रियं धत्तमोजः॥४॥

भा०—(अंहोमुचम्) सब पापों और कष्टों से मुक्त करने वाले, (यज्ञियानाम्) समस्त उपासनीय, पूजा करने योग्य, पूजनीय, आदरणीय माता पिता, गुरु आचार्य इत्यादियों में से भी (वृषभम्) सबसे श्रेष्ठ (अध्वराणाम्) समस्त यज्ञों में से या कभी पराजित न होने वालों में से (प्रथमम्) सबसे प्रथम, सर्वोत्तम पद पर (विराजन्तम्) विराजमान, प्रकाशस्वरूप, (अपां नपातम्) अपः अर्थात् प्रजाओं को न नाश होने देने हारे, सर्वोत्पादक परमेश्वर की (धियः) ध्यानमय स्तुतियों को (हुवे) उच्चारण करता हूँ । हे (अश्विनो) माता पिताओ ! या हे त्री पुरुषो ! तुम दोनों (इन्द्रियेण) इन्द्र, आत्मासम्बन्धी बल के साथ २ (इन्द्रि-

४—प्र सत्राजं प्रथममध्वराणामंहोमुचं वृषभं यज्ञियानां । अपानपातमश्विनाहन्तांस्मिन्नरइन्द्रियं धत्तमोजः ।' इति तै० सं० । (तृ०) 'हुवे' इति कचित् । 'धिद्येन्द्रेण मा' इति द्विडनिकामितः । 'अश्विनौ हुवे इन्द्रियेण न इन्द्रियं धत्तमोजः ।' इति पैप्प० सं० ।

यम्) इन्द्रिय अर्थात् इन्द्र, राजा ईश्वर के दिये बलको और (श्रोजः) तेज को भी (दत्त) धारण करो या प्रदान करो ।

[४३] ईश्वर से परमपद की प्रार्थना ।

ब्रह्मा ऋषिः । ब्रह्म, बहवो वा देवता । त्र्यवसानाः । ककुम्भत्यः पथ्यापक्तयः ।
अष्टर्चं सूक्तम् ॥

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ।

श्रग्निर्मा तत्र नयत्वग्निर्मैधां दधातु मे । अग्नये स्वाहा ॥१॥

भा०—(यत्र) जिस पद पर (दीक्षया) दीक्षा, दृढ़ व्रत पालन की प्रतिज्ञा और (तपसा) तपस्या के (सह) साथ (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यान्ति) जाते हैं (तत्र) उसी पदपर (अग्निः) ज्ञानवान् आचार्य, सर्वप्रकाशक परमेश्वर (मा नयतु) मुझे लेजाय, वही (अग्निः) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर (मे) मुझे (मेधाम्) नाना उत्तम वाक्शक्ति और बुद्धि (दधातु) धारण करावे, प्रदान करे । (अग्नये स्वाहा) उस ज्ञानवान् परमेश्वर से मैं यह उत्तम प्रार्थना करता हूँ, या उस परमेश्वर की यह उन्नत महिमा और स्तुति है ।

यत्र० । वायुर्मा तत्र नयतु वायुः प्राणान् दधातु मे । वायवे स्वाहा ॥२॥ यत्र० । सूर्यो मा तत्र नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु मे । सूर्याय स्वाहा ॥३॥ यत्र० । चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु मे । चन्द्राय स्वाहा ॥ ४ ॥ यत्र० । सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे । सोमाय स्वाहा ॥५॥ यत्र० । इन्द्रो मा तत्र नयतु वज्रमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय स्वाहा ॥६॥ यत्र० । आपो

मा तत्र नयत्वमृतं मोषं तिष्ठतु । अद्भ्यः स्वाहा ॥ ७ ॥ यत्र
ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा
ब्रह्मं दधातु मे । ब्रह्मणे स्वाहा ॥ ८ ॥

भा०—(यत्र) जहां (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (दीक्षया तपसा सह) दीक्षा और तप के सहित (यान्ति) जाते हैं (तत्र) वहां (सूर्यः) सूर्य और सूर्य के समान प्रकाशमान परमेश्वर और आचार्य (मा नयतु) मुझे लेजाय । और वह (सूर्यः) सर्व प्रकाशक सूर्य के समान ही (मे चक्षुः) मुझे चक्षु (दधातु) प्रदान करे । (३) (चन्द्रः मा तत्र नयतु) चन्द्र के समान आह्लादकारी परमेश्वर मुझे वहां ले जाय (चन्द्रः मे मनः दधातु) चन्द्र, वह आह्लादकारी प्रभु मुझे मन, मननशक्ति प्रदान करे । (चन्द्राय स्वाहा) उस चन्द्र परम आह्लादकारी की मैं स्तुति करता हूं । उसके प्रति अपने को अर्पण करता हूं । (४) (सोमः मा तत्र नयतु) सोमलता के समान सब लोकों का प्रेरक प्रभु मुझे उस पद पर लेजावे (सोमः मे पयः दधातु, सोमाय स्वाहा) सोम, सर्वप्रेरक, सर्वोत्पादक प्रभु मुझे पय, पुष्टिकारक अन्न, वीर्य, तेज प्रदान करे । उस सोम की मैं उत्तम स्तुति करता हूं । (५) (इन्द्रः मा तत्र नयतु) इन्द्र ऐश्वर्यवान् वायु या विद्युत् के समान बलशाली ईश्वर मुझे उस पद पर लेजावे । (इन्द्रः मे बलं दधातु) वह इन्द्र ही मुझे बल प्रदान करे । (इन्द्राय स्वाहा) उस इन्द्र की मैं उत्तम गुणस्तुति करता हूं । (६) (आपः मा तत्र नयतु) जलों के समान स्वच्छ या सबसे आसुतम परमेश्वर मुझे उस पद पर लेजाय और (मा अमृतम्=उपतिष्ठतु) मुझे अमृत प्राप्त हो । (अद्भ्यः स्वाहा) उन आसों और परमेश्वर की व्यापक शक्तियों की मैं स्तुति करता हूं । (७) (ब्रह्मा मा तत्र नयतु) मुझे उस पद पर (ब्रह्मा)

वेद का परम विद्वान् लेजाय और ब्रह्मा (ब्रह्म मे दधातु) ब्रह्मा, चतुर्वेदज्ञ परमेश्वर और वेदज्ञ ब्रह्म का प्रदान करे, ब्रह्मज्ञान उपदेश करे । (ब्रह्मणे स्वाहा) उस महान् ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्म की मैं स्तुति करता हूँ ।

इस सूक्त में अग्नि, सूर्य, चन्द्र, सोम, इन्द्र, आपः और ब्रह्मा ये भौतिक रूप से जब अपनी २ शक्ति के प्रतिनिधि हैं और उन २ शक्तियों के देने में समर्थ हैं वे सब भी हमें उस ब्रह्मवेत्ता के पद पर लेजाय अर्थात् वे सब भौतिक शक्तियां हमें उस ब्रह्म के महान् अनन्त शक्ति का बोध करावें । इसके अतिरिक्त ये सब नाना लक्षणों से ईश्वर के नाम हैं । वह हमें सब शक्ति दें और मोक्षपद प्राप्त करावें । परमात्मा के उन सभी अनन्त मात्रा में विद्यमान गुणों को ये भौतिक पदार्थ तो नमूने के रूप में दर्शाते हैं । इसलिये ये परमेश्वर के नाम होकर भी सूर्यादि भौतिक पदार्थों के नाम हैं । इसी प्रकार उन २ गुणों वाले पुरुषों के भी वाचक हैं । अग्नि, सूर्य, चन्द्र, सोम आदि नाम आचार्य, राजा, विद्वान्, उपदेशक आदि के लिये आते हैं ।

[४४] तारक 'आञ्जन' का वर्णन

भृगुर्ऋषिः । मन्त्रोक्तमाञ्जनं देवता । ९ वरुणो देवता । ४ चतुष्पदा शाङ्कुमती उष्णिक् । ५ त्रिपदा निचृद्विपमा । गायत्री १-३, ६-१० अनुष्टुभः ।
दशचं सक्तम् ॥

आयुंपोसि प्रतरं विप्रं भेषजमुच्यसे ।

तदाञ्जनु त्वं शीताले शमापो अभयं कृतम् ॥१॥

भा०—हे (आञ्जन) ज्ञान के प्रकाशक ! नयनों में आजने के योग्य अञ्जन के बने औषध के समान चतुर्दोष के नाशक ! तू (आयुषः)

१- 'विप्रे' इति पैप० सं० । (च०) 'कृत०' इति कचित् सिद्धिसम्मतश्च

(द्वि०) 'उच्यते' इति कचित् ।

जविन को (प्रतरणः) दीर्घ करने वाला या जीवन को उत्कृष्ट पथपर तरा देने वाला (श्रुति) है । तू (विप्रम्) विविधरूप से कामनाओं को पूर्ण करने वाला, (भेषजम्) सब रोगों को दूर करने में समर्थ (उच्यसे) कहा जाता है । हे (आञ्जन) ज्ञानप्रकाशक (त्वम्) तू (शताते) हे कल्याण कारिन् शान्तिदायक, हे (आपः) आप स्वरूप ! तू (शम्) शान्तिदायक और (अभयम् कृतम्) भय रहित शरण, रूप बनाया गया है ।

यो हरिमा जायान्योङ्गभेदो विसल्पकः ।

सर्वे ते यक्ष्ममङ्गभ्यो वहिर्निर्हन्त्वाञ्जनम् ॥२॥

भा०—हे पुरुष ! तेरे शरीर में (यः हरिमा) जो पीलिया का रोग है और (जायान्यः) स्त्रियों से प्राप्त होने वाला तपेदिक और (विसल्पकः) विशेष रूप से फैलने वाला, (अङ्गभेदः) अंगों के फूटन की तीव्र वेदना आदि रोग है (सर्वम्) उन सब (यक्ष्मम्) रोगों को (ते अङ्गेभ्यः) तेरे शरीर से वह (आञ्जनम्) अञ्जन की चनी ओपधि (वहिः) बाहर (निर्हन्तु) निकाल दे । अध्यात्म में—हे पुरुष तेरे अध्यात्म शरीर में जो हरिमा, अर्थात् पीलिया का रोग है अर्थात् पित्त के रोगों के समान सब पदार्थों को तत्त्व रूप में न देखकर मोहवश ममता रूप में देखने का भ्रम है । और जो (जायान्यः) स्त्री आदि से उत्पन्न काम दोष है । विविध रूप से फैला अङ्गभेद=अर्थात् मेरे तेरे का भेद या नाना शरीर के दुःख हैं वह सब यक्ष्म यह विद्वान् तेरे अङ्गों, जविन के भागों से बाहर कर दे ।

आञ्जनं पृथिव्यां जातं भुद्रं पुरुषजीवनम् ।

कृणोत्वप्रमायुकं रथजूतिमनांगसम् ॥३॥

२-(चः) 'वहिर्नि-' इति कचित् । (प्र०) 'ज्यायान् योङ्गभेदो विसल्पकः' इति सायणाभिमतः । 'जायान्यो', 'विसल्पकः' इति पैप्प० सं० ।

३-(च०) 'रथजूतम्' । इति पैप्प० सं० ।

भा०—(पृथिव्याम्) इस पृथिवी में (जातम्) उत्पन्न हुआ (आ-
ञ्जनम्) यह अंजन (भद्रम्) सुखकारक है, वह मुझे (अप्रमायुकम्)
मरण से रहित, (रथजूतिम्) रमण साधन रूप इस देह में जीवन ज्योति
से युक्त (अनागसम्) पापों, कष्टों से रहित और (पुरुषजीवनम्) पुरुष
के पूर्ण जीवन प्राप्त करने वाला (कृणोतु) करे । अध्यात्म में—वह कान्ति-
मान् आत्मा पृथिवी, हृदय भूमि में उत्पन्न होकर सुखकारी और पुरुष का
जीवन रूप है । वह मुझे मृत्यु से रहित (रथजूतिम्) रसरूप ज्योतिर्मय,
आनन्दमय (अनागसम्) निष्पाप (कृणोतु) करे ।

प्राणं प्राणं त्रायस्वासो असवे मृड ।

निर्ऋते निर्ऋत्या नः पाशेभ्यो मुञ्च ॥४॥

भा०—हे (प्राण) समस्त जगत् के प्राण धारण कराने हारे चित्स्व-
रूप ! हमारे (प्राणं त्रायस्व) प्राण की रक्षा कर । हे (असो) सब दुःखों
को दूर फेंकने हारे ! सबके भीतर विद्यमान प्राणरूप ! तू (असवे) हमारे
असु, प्राण शक्ति को (मृड) सुखी कर अथवा (असवे) प्राणधारि पर
(मृड) कृपां कर । हे (निर्ऋते) विशेष रूप से रमण करने योग्य
प्रभो ! तू (नः) हमें (निर्ऋत्याः) अति दुःखदायिनी पापमयी प्रकृति
के (पाशेभ्यः) पाशों से (मुञ्च) छुड़ा ।

सिन्धोर्गर्भेऽसि त्रिदुतां पुण्यम् ।

वातः प्राणः सूर्यश्चक्षुर्विचस्पयः ॥५॥

भा०—हे प्रभो ! तू (सिन्धोः गर्भः) सिन्धु अर्थात् प्रवण करने
वाले भीतरी आत्मा में और समस्त संसार में बड़े वेग से बहने वाले रस
सागर का (गर्भः) गर्भ अर्थात् प्रदूषण करने वाला उसका वशयिता है । तू

५—(च०) ' मां पाशेभ्यो ' इति सायणाभिमतः । (प्र०) ' प्राणः '

इति बहुप्र ।

(विद्युत्ताम्) विजुलियों का (पुष्पम्) पुष्प या सुन्दर पुञ्ज है, या 'पुष्प' पृष्टि करने वाला उनमें बल प्रदान करने वाला है । तू स्वयं (वातः) महान् वायु (प्राणः) सबका प्राण, (सूर्यः) साक्षात् प्रकाशमय सूर्य, (चक्षुः) साक्षात् सबको तत्व दर्शन कराने वाला, सबकी आंख और (दिवः पयः) समस्त प्रकाश-शक्ति का वीर्य या धौलोक के समस्त नक्षत्र सूर्यो का प्रकाशक तेज है ।

देवाञ्जनं त्रैककुटुम् परिं मा पाहि विश्वतः ।

न त्वां तरन्त्योपधयो वाह्याः पर्वतीयां उत ॥६॥

भा०—हे (देव आञ्जन) आञ्जन सर्व कान्तिमय, ज्ञानप्रकाशक देव, परमेश्वर ! आप (त्रैककुटुम्) तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं । (मा) तुम्हें को (विश्वतः) सब प्रकार से (परि पाहि) पालन करो, वचाओ (वाह्याः) बाह्य शरीर पर लगाई जाने वाली या खाई जाने वाली या भूमि के बाहर के पृष्ठ भागपर उत्पन्न होने वाली और (पर्वतीयाः) पर्वत के गर्भ से खोदकर प्राप्त की जाने वाली, या पर्वत प्रदेशों में उत्पन्न (ओप-धयः) नाना रोगनाशक समस्त ओपधियां भी (त्वां न तरन्ति) तुम्हेंसे बढ़कर नहीं हैं । अञ्जन के पत्र में—हे त्रिककुटु नामक पर्वत से उत्पन्न अञ्जन ! तेरे से बढ़कर अन्य सब ओपधियां नहीं हैं ।

वीर्यं मध्यमवांसृगट् रक्षोहामीञ्चार्तनः ।

अमीञ्चाः सर्वाश्चातयन् नाशयद्भिभा इतः ॥७॥

६—(प्र०) 'देवाञ्जन' इति सर्वत्र, 'देवाञ्जनि त्रैककुटु' इति पैप्प० सं० ।

(च०) 'वाह्यां पार्वत्या' इति पैप्प० सं० ।

७—'वीर्यमध्यमवांसृगत'; 'वातान्' (च०) 'नाशयत्भिवाह्या' इति पैप्प० सं० ।

भा०—(इदम्) इस प्रकार यह (रक्षोहा) समस्त राक्षस दुष्ट, भावों का नाश करने वाला, (अमीव-चातनः) समस्त रोगों का नाशक होकर (नध्यम्) अन्तःकरण के बीच में (वि असृपत्) विशेष रूप से घुस गया है। वह (सर्वाः अमीत्राः चातयन्) सब रोगों का नाश करता हुआ (इतः) यहां से, इस हृदय से (अभिभाः) मुझे सब तरफ से दबाने वाले विषय विकारों को (नाशयत्) दूर करे।

वह्वीर्दं राजन् वरुणानृतमाह पूरुपः ।

तस्मात् सहस्रवीर्यं मुञ्च नः पर्यहंसः ॥८॥

भा०—हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ, सर्वपापनिवारक (राजन्) हे राजन् ! परमेश्वर ! (पूरुपः) यह पुरुष (इदम्) इस प्रकार का तुच्छ २ (बहु-अनृतम्) बहुतसा असत्य (आह) बोला करता है, हे (सहस्रवीर्यं) सहस्रों अनन्तवीर्यों वालों से युक्त सर्वशक्तिमन् ! (नः) हमें (तस्मात् अहंसः) उस पाप से (परि मुञ्च) छुड़ा।

यदापों अघ्न्या इति वरुणोति यदृच्छिम ।

तस्मात् सहस्रवीर्यं मुञ्च नः पर्यहंसः ॥९॥

भा०—(आपः) आपस पुरुष जलों के समान स्वच्छ अन्तःकरण वाले हैं, ये (अघ्न्याः इति) कभी भी न मारने योग्य सदा आदरणीय लोग हमारे साक्षी हैं और (वरुण इति) हे वरुण सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! तू ही हमारे समस्त कार्यों का साक्षी है (इति) इस प्रकार (यद्) जब हम (यत्) जो कुछ (ऊचिम) अंपना अपराध स्वीकार करें तो (तस्मात्) उस (अहंसः) अपराध से, हे (सहस्रवीर्यं) सहस्रों शक्तियों वाले

तू (नः) हमें (मुञ्च) मुक्त कर । इसका स्पर्शिकरण देखो अथर्व० ७ ।
८३ । २ ॥

मित्रञ्च त्वा वरुणश्चानुप्रेयतुराञ्जन ।

तौ त्वानुगत्य दूरं भोगाय पुनरोहतुः ॥१०॥

भा०—हे (आज्ञन) ज्ञानप्रकाशक ब्रह्मन् ! (मित्रः च) सबका मित्र
न्यायाधीश ! और (वरुणः च) सबको पापों से वारण करने वाला दण्ड-
कर्ता दोनों (त्वा अनुप्रेयतुः) तेरे ही पीछे २ गमन करते हैं । (तैः)
वे दोनों (त्वा) तेरे (अनुगत्य) पीछे २ चलकर (दूरम्) बहुत दूरतक
(भोगाय) सुखभोग के लिये या राष्ट्र के परिपालन के लिये (पुनः)
वार २ तुझे (आ उहतुः) अपने ऊपर अधिष्ठाता रूप से बहन करते या
धारण करते हैं ।

[४५] रक्षक और विद्वान् 'आञ्जन' ।

भृगुर्ऋषिः । आज्ञनं देवता । १, २ अनुष्टुभौ । ३, ५ त्रिष्टुभः । ६-१० पञ्चा-
वसानाः महावृहत्यो (६ विराह् । ७-१० निवृत्तश्च) । दशर्चं सूक्तम् ।

ऋणाद्ऋणमिव संनयन् कृत्यां कृत्याकृतौ गृहम् ।

चर्तुर्मन्त्रस्य दुर्हादः पृष्टीरपि ऋणाञ्जन ॥२॥

भा०—हे (आज्ञन) ज्ञानप्रकाशक ! विद्वान् ! जिस प्रकार
(ऋणात्) अपने पर किये ऋण में से (ऋणम्) पूरे ऋण को

१०—(च) 'पुनरोहतु' इति षेष्प० सं०, 'पुनः । रोहतु' इति पदपाठः ।

पुनः आ ऊहतु इति शं० पा० । 'पुनर्-आ-हतम्' इति द्विद्विनिकामितः ।

'ओहताम्' इति क्तत्रिविध । 'पुनराहतुः' इति सायणाभिमतः ।

[४५] १—'रिगाद्रिगमिव सन्नयं-' 'ऋणाद्ऋणमिव सन्नयं', संनयं, संन्नयं इति नाना
पाठः । 'संनय' इति द्विद्विनिकामितः पाठः ।

उत्तमर्ण के पास ही पुनः लौटा दिया जाता है । उसी प्रकार (कृत्याकृतः) घातक गुप्त प्रयोग के करने वाले श्रायी (कृत्याम्) गुप्त हिंसा के प्रयोग को भी उसी के (गृहम्) घर (सं नयन्) पुनः लौटाता हुआ तू (चक्षुर्भन्त्रस्य) आंख के इशारों से गुप्त मन्त्रणा करने वाले (दुर्हार्दः) दुष्ट हृदय के पुरुष के (पृष्ठीः अपि) पीठ की पसुलियों को भी (शृणु) तोड़ डाल ।

यद् अस्मासु दुस्वप्न्यं यद् गोपु यच्च नो गृहे ।

अनामगस्तं च दुर्हार्दः प्रियः प्रति मुञ्चताम् ॥२॥

भा०—(यत्) जो (अस्मासु) हम में और (यत्) जो (गोपु) गौश्रों में और (यत् च) जो (नः) हमारे (गृहे) घर में (दुःस्वप्न्यम्) दुःस्वप्नपूर्वक सोने आदि का कष्ट है उसको (अनामगः) बिना नाम का या अदृश्य वृत्ति से जाने वाला (दुर्हार्दः) दुष्ट हृदय वाला (अप्रियः) हमारा अप्रिय पुरुष वर्तमान हो वह (तम्) उस दुस्वप्न आदि के कारण रूप भय को (प्रति मुञ्चताम्) धारण करे ।

'अनामगस्तं च दुर्हार्दः प्रियः' यह मन्त्र भाग कुछ विकृत प्रतीत होता है नाना पाठभेद पाठटिप्पणी में लिखे हैं । परन्तु हमारे विचार में यह पाठ होना चाहिये ।

• 'अनास्माकस्तद् दुर्हार्दो प्रियः प्रति मुञ्चताम् । ' १

२—(प्र०) 'अनामगस्त्वं च', 'अनामगस्तं तव', 'अनामगस्त्वं च', 'अनामगस्त्वां च' 'अनामगस्त्वं च' 'अनामगस्त्वच्च' 'अनामगस्त च' 'अनामगस्तच्च' इति पाठाः । 'दुर्हार्दो प्रियः', इति क्वचित् । 'अनामगस्तच्च दुर्हार्दो प्रियः' इति सायणाभिमतः ।

१.—अयमेव पाठो लैंगानाम्भिप्रेतः ।

अर्थात् कष्ट से शयन करने आदि की तकलीफ़ को जो (अनात्माकः)
हमारा सम्बन्धी न होता हुआ (दुर्हार्दः) हमारे प्रति दुष्ट हृदय वाला
और (अप्रियः) शत्रु है, वही (प्रतिमुञ्चताम्) प्राप्त करे ।

इस मन्त्र के शुद्ध पाठ के लिये इसको इसी काण्ड के २७ सू० मन्त्र
४, ५ से तुलना करनी चाहिये ।

अपामूर्ज ओजसो वावृधानमग्नेर्जातमग्निं जातवेदसः ।

चतुर्वीरं पर्वतीयं यदाञ्जनं दिशः प्रदिशः करद्दिच्छिवास्ते ॥३॥

भा०—(अपाम्) प्रजाओं या आस पुरुषों के या कर्मों, या ज्ञानों के
(अर्जः) बल और (ओजसः) तेज को (वावृधानम्) निरन्तर वृद्धि
करने वाले (अग्नेः) अग्नी (जातवेदसः) एवं धनसम्पन्न पुरुष से भी
अधिक वीर्यवान् (जातम्) उत्पन्न, अथवा (जातवेदसः) वेद के ज्ञानै-
श्वर्य से सम्पन्न (अग्नेः) अग्नि-आचार्य से (जातम्) उत्पन्न (चतुर्वीरम्)
चारों प्रकार के वीर्यों से युक्त (पर्वतीयं) पूर्ण करने वाले या पूर्ण ज्ञान
देने वाले गुरु से प्राप्त, (यद्) जो (आञ्जनम्) ज्ञान प्रकाशक ब्रह्म ज्ञान
है वह (दिशः प्रदिशः) दिशा और उपदिशाओं को (ते)-तेरे लिये
(शिवाः) शिव कल्याणकारी (करत्) करे । वीर के पक्ष में प्रजाओं के
बल वीर्य को बढ़ाने वाले और विद्वान् गुरु से सुशिक्षित होकर चार वीरों
के बराबर बलवान् या चारों दिशाओं में वीर्यवान् (पर्वतीयम्) पालन
करने वाले राजा के पद पर अधिष्ठित, जो (आञ्जनं) कान्तिमान् राजा,
प्रभु है, वह तेरी समस्त दिशा उपदिशाओं को कल्याणकारी, निर्भय करे ।

चतुर्वीरं वध्यत आञ्जनं ते सर्वा दिशो अभयास्ते भवन्तु ।
ध्रुवस्तिष्ठति सविते चार्यं इमा विशो अभि हरन्तु ते बलिम् ॥४॥

भा०—(चतुर्वीरं) चारों दिशाओं में वीरवान् या चारों प्रकार के वीरों, वीर पुरुषों से युक्त (आञ्जनं) कान्तिमान्, दीप्तिमान्, तेजस्वी पुरुष को हे राजन् ! (ते) तेरे हित के लिये (वध्यते) तेरे साथ नियुक्त किया जाता है, जिससे (ते) तेरे लिये (सर्वाः दिशः) समस्त दिशाएँ (अभयाः) भयरहित (भवन्तु) होजावें । तू (सविता इव) सूर्य के समान तेजस्वी और (आर्यः च) सर्वश्रेष्ठ स्वामी (ध्रुवः) स्थिर होकर (तिष्ठति) राज्यासन पर विराजमान हो और (इमाः विशः) ये समस्त प्रजाएँ (ते) तेरे लिये (बलिम्) बलि अर्थात् कर (अभि हरन्तु) प्रदान करें ।

‘चतुर्वीरं’-चार प्रकार के वीर या वीर्य, चतुरंग सेना अर्थात् पदाति शस्त्र, रथ और राज ।

आर्चवैकं मणिमेकं कृणुष्व स्नाह्येकेना विवैकमेपाम् ।

चतुर्वीरं नैर्ऋतेभ्यश्चतुर्भ्यां ब्राह्मण्येभ्यः परि पात्वस्मान् ॥५॥

भा०—(एकम्) एक वीर को (आ अर्चव) सर्वत्र विचरने की आज्ञा दे । और (एकम्) एकको (मणिम्) सत्रका शिरोमणि (कृणुष्व) धना

४—(प्र०) ‘वध्यताञ्जनं’, ‘दिशोभवा-’ (वृ०) ‘सवितेवारि इमाः’

‘दिशो भिनन्ते’ इति पौप्प० सं० ।

५—(प्र०) ‘आर्चव’ इति सायणाभिमतः । ‘आर्चकं म-’ इति पौप्प०

सं० । (द्वि०) ‘स्नाह्येकेनापि वैकमेपाम्’ इति च पाठः । तत्र

स्नाहि । एकेन । अपि । वा । एकेयान् । ति प्रायः पदपाठः । आर्चिवेन

पविकमेपाम्’ इति पौप्प० सं० । ‘एकेनादिवैकमेपाम्’ (च०) ‘परिपान्तु’

इति सायणाभिमतः ।

(एकेन) एकके बलपर (स्नाहि) अथवा राज्याभिषेक कर और (एषान्) इनमें से (एकम्) एक का (पिव) पान कर अर्थात् प्रजाह्वय से उपयोग कर । ये (चतुर्वीरन्) चार वीरों से युक्त वीर (अस्मान्) हमको (चतुर्न्यः) चार प्रकार के (नैर्ऋतेभ्यः) पाप, अनाचार सम्बन्धी (ब्राह्माः) ब्राह्मी षकड़ लेने वाली कैंद आदि बन्धनों से (परिपातु) सुरक्षित रखे । अथवा पाठान्तर है—(स्नाहि एकेना पिवैकमेषां चतुर्वीरन्० इत्यादि) (अपि वा) और (एषान्) उनमें से (एकं चतुर्वीरः) एक चार सामर्थ्यों से युक्त होकर हमें कैंद के चार प्रकार के बन्धनों से सुरक्षित रखे ।

अध्यात्म में—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार सामर्थ्यों से युक्त प्रभु 'आंजन' है, चारों में से धर्म से प्रसिद्धि प्राप्त करे, अर्थ से लक्ष्मी संग्रह करे, मोक्ष से स्नान करे, पवित्र हो और कामका भोग करे । और चारों सामर्थ्य प्राप्त करके ब्राह्मी, अविद्या के चतुर्विध बन्धनों से मुक्त रहे ।

अग्निर्माग्निनां वतु प्राणायानां पातायां युपे वर्चसु
ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ॥६॥

भा०—(अग्निः) अग्नि, आचार्य या अग्रणी नेता या शत्रुसंतापक पेंनापति या ज्ञाननय प्रभु (अग्निना) अपने अग्निस्वरूप या सामर्थ्य द्वारा (प्राणाय) प्राण, (अणनाय) अणन, (आयुपे) दीर्घ जीवन, (वर्चः) ब्रह्मवर्धन, (ओजसे) ओज, (तेजसे) तेजस् (स्वस्तये) सुखपूर्वक जीवन और (सुभूतये) उत्तम विभूति सन्निधि के प्राप्त करने के लिये (मा अवनु) भेरी रत्न करे । (स्वाहा) यह हमारी उत्तम प्रार्थना सफल हो ।

इन्द्रो मेन्द्रियेषां वतु प्राणायानां ॥७॥ सोमो मा सौन्येनावतु ॥८॥

६-(२०) 'ना अग्निनां इति ईप्स० सं० ।

७-(२०) 'ना इन्द्रियेण इति ईप्स० सं० ।

भगो मा भगेनावतु० ॥६॥ मरुतो मा गणैरवन्तु प्राणायाना
यायुषे वर्चसु ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ॥१०॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष (इन्द्रियेण) अपने ऐश्वर्य से
(सोमः सौम्येन) सोम अपने सौम्यगुण से (भगः) भग, ऐश्वर्यवान्
अपने (भगेन) अपने ऐश्वर्य प्राप्त करने के गुण से (मरुतः) मरुत् गण
अपने (गणैः) गणों से (प्राणाय, अपानाय, आयुषे, वर्चसे, ओजसे,
तेजसे, स्वस्तये सुभूतये) प्राण, अपान, आयु, वर्चस्, ओज, तेज, सुख-
पूर्वक जीवन और उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये (मा अवतु) मेरी रक्षा
करे, (स्वाहा) यह हमारी उत्तम प्रार्थना है ।

राष्ट्र में अग्नि=अग्रणी सेनापति । सोम=न्यायाधीश । भग=करसंग्राहक ।
मरुतः=सेना के सैनिक या प्रजागण ये सब मेरे प्राण आयु वीर्य स्वास्थ्य
ऐश्वर्य के लिये रक्षा करें । ईश्वर मैं ये सब गुण घटित हूँ । अतः वह अपने
ज्ञान, शान्ति, ऐश्वर्य और नाना शक्तियों से मेरी रक्षा करे ।

इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

[तत्र द्वादश सूक्तानि । पञ्चतप्तश्च अचः]

[४६] अस्तुन नाम वीर पुरुष की नियुक्ति ।

प्रजापतिर्हविः । अस्तुतमणिर्वक्ता । १ पञ्चपदा मध्येज्योतिष्मती त्रिष्टुप् । २ पट्-
पदा मुरिक् शक्वी । ३, ७ पञ्चपदे पथ्यापत्ती । १ । ४ चतुष्पदा । ५ पञ्चपदा च
अतिजगदयो । ६ पञ्चपदा उष्णिगपर्भा विराड् जगती । सप्तर्चं सूक्तम् ॥

प्रजापतिंश्चा वधात् प्रथममस्तृतं वीर्यायि कम् ।

तत् ते वक्षान्यायुषे वर्चस् अजसे च वलाय चास्तृतस्त्वामि-
रञ्जतु ॥ १ ॥

भा०—हे वीर पुरुष ! (प्रजापतिः) प्रजा का पालक स्वामी
(वीर्याय) वीर्य, वीर कर्म के लिये (प्रथमम्) सबसे प्रथम, सर्वश्रेष्ठ
(अस्तृतम्) शत्रु से कभी न मारे जाने वाले (त्वा) तुम्हको (कम्) ही
(वधात्) बांधता है । हे राजन् ! उस वीर पुरुष को मैं (ते) तेरी
(आयुषे) आयु (वर्चसे) वर्चस् (अजसे) अज और (वलाय)
बल के लिये (वक्षामि) तेरे अधीन नियुक्त करता हूँ । वह (अस्तृतः)
कभी न मरने वाला, अक्षरण्ड पुरुष (त्वा अमि रञ्जतु) तेरी रक्षा करे ।

ऊर्ध्वस्तिष्ठतु रजन्नप्रमादन्नस्तृतेमं मात्वा दमन् पृथ्वीं यानुधानाः ।
इन्द्र इव दस्यून् व वृनुष्व पृतन्यतः सर्वाङ्घ्र्यन् वि पट्टस्वास्तु-
तस्त्वामि रञ्जतु ॥ २ ॥

भा०—हे (अस्तृत) कभी न मरने वाले, अक्षरण्ड पुरुष ! तू
(ऊर्ध्वः) सबसे ऊपर रह कर (रञ्जतु) इस राजा और राष्ट्र की रक्षा
करता हुआ (अप्रमादम्) बिना प्रमाद के (तिष्ठतु) रहे । (इमं त्वा)
इस तुम्हको (यानुधानाः) पीड़ादायी, (पृथ्वीः) व्यवहार-कुशल असुर
लोक (ना दमन्) विनाश न करे । और (पृतन्यतः) सेना द्वारा आक्रमण
करने वाले (दस्यून्) नाशकारी बाहु लोगों को (इन्द्र इव) विद्युत्

[४६] १—(प्र०) 'वक्षान्यात्' इति वचिद । (वृ०) 'तं ते' इति वचिद ।

(प्र० द्वि०) 'वधात् प्रथममस्तृतं' (च० पं०) 'वर्चसोर्चसे'
इति पैप्प० सं० ।

२—'तिष्ठन्त', 'तिष्ठित', 'तिष्ठन्त' । इति नाना पाठः । 'तिष्ठन्' इति
द्विभक्तान्वितः । 'स्तृतान्' इति पैप्प० सं० ।

के समान या प्रबल वायु के समान, या प्रबल राजा के समान (अथ धूनुष्व) धुन डाल, मार भगा । और तू (अस्तृतः) अस्वारिडत रह कर ही (सर्वान् शत्रून्) समस्त शत्रुओं को (वि पहस्व) खूब परास्त कर । हे राजन् (त्वा अस्तृतः अभि रक्षतु) तेरी वह अस्तृत नाम का चीर योद्धा रक्षा करे ।

शतं च न प्रहरन्तो निघ्नन्तो यं न तस्तिरे ।

तस्मिन्निन्द्रः पर्यदत्त चक्षुः प्राणमथो बलमस्तृतं स्त्र्याभि रक्षतु ॥३॥

भा०—(शतं चन) सैकड़ों आदमी भी एक ही समय में (प्रहरन्तः) प्रहार करते हुए और (निघ्नन्तः च) मारते हुए भी उसके मुकाबले में (न तस्तिरे=तस्थिरे) सर्वथा भी न ठहर सकें । (तस्मिन्) ऐसे वीर्यवान् पुरुष में (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजा अपना (चक्षुः) चक्षु अर्थात् निरीक्षण और (प्राणम्) अपनी प्राणरक्षा का कार्य और (बलम्) समस्त बल, सेना समूह (परि अदत्त) सौंप देता है । हे राजन् ! वह (अस्तृतः) अहिंसनीय, पुरुष (त्वा अभि रक्षतु) तेरी रक्षा करे ।

इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परि धापयामो यो देवानामधिराजो बभूव ।
पुनस्तथा देवाः प्र रायन्तु सर्वेस्तृतं स्त्र्याभि रक्षतु ॥४॥

भा०—हे वीर पुरुष ! (इन्द्रस्य) उस इन्द्र ऐश्वर्यवान् राजा के (वर्मणा) रक्षाकारी कवच से (त्वा) तुम्हको (परि धापयामः) ढांपते हैं,

३—(प्र० द्वि०) 'चन' इत्येकं पदम् । 'विघ्नन्तः' इति प्रायः । विघ्नन्तो यं न' इति द्विदन्विकामितः । 'तस्थिरे' 'निरस्तिरे' । इति क्वचित् । 'तस्तिरे' इति द्विदन्विकामितः । 'तस्तिरि' इति सायणाभिमतः । (रु०) 'पर्यदन्त', 'पर्यदन्तश्च-' इति क्वचित् । 'परि यद् अन्तश्चक्षुः' इति सायणाभिमतः ।

४—(प्र०) 'परिधामे' इति पैप० सं० ।

{ यः) जो (देवानान्) देव, समस्त ज्ञानवान् विद्वानों, वीर विजयी राजाओं का भी (अधिराजः) अधिराजं अर्थात् राजाधिराज (बभूव) है ।
{ देवाः) वे समस्त विजिगीषु राजा लोग (सर्वे) (त्वा) तुम्हको (पुनः) फिर एक बार (प्रणयन्तु) अपना प्रमुख बनावें । हे राजन् ! (अस्तृतः त्वा अभि रक्षतु) अखण्डनीय वीर पुरुष तेरी रक्षा करे ।

अस्मिन् मणावेकशतं वीर्याणि सहस्रं प्राणा अस्मिन्नस्तृते ।
व्याघ्रः शत्रून्भि तिष्ठ सर्वान् यस्त्वा पृतन्यादधरः सो अस्त्व-
स्तृत स्त्राभि रक्षतु ॥५॥

भा०—(अस्मिन् मणौ) इस मणि अर्थात् शिरोमणि एवं शत्रुओं को स्तम्भन करने में समर्थ पुरुष में (एकशतं वीर्याणि) एकसौ एक या सैकड़ों वीर्य, वीर कर्म करने के सामर्थ्य हैं । और (अस्मिन् अस्तृते) इस अखण्ड, वीर पुरुष में (सहस्रं प्राणाः) सहस्र प्राण हैं अर्थात् हज़ारों प्राणियों के जीवित रखने की सामर्थ्य है या हज़ारों प्राणियों के बराबर कार्य करने का बल है ।

हे राजन् या वीर पुरुष ! तू (व्याघ्रः) व्याघ्र के समान शूरवीर होकर (सर्वान् शत्रून्) समस्त शत्रुओं पर (अभितिष्ठ) आक्रमण कर और (यः) जो (त्वा) तुम्हपर (पृतन्यात्) सेना द्वारा आक्रमण करे (सः) वह ही (अधरः अस्तु) तेरे नीचे आ पड़े । ऐसे अवसर में (अस्तृतः त्वा अभि रक्षतु) ' अस्तृत ' अखण्डनीय, वीर पुरुष तेरी रक्षा करे ।

घृतादुल्लुप्तो मधुमान् पयस्वान्स्त्रिंशत्प्राणः शतयोनिर्वयोधाः ।
शंभूश्च मयोभूश्चोर्जस्वाश्च पयस्वाश्चास्तृत स्त्राभि रक्षतु ॥६॥

६- (प्र०) 'उल्लुप्तः' इति पृष्प० सं० । 'घृतादुल्लुप्तो', 'घृतादुल्लुप्तः' इति क्वचित् । 'सहस्रं प्राणः' इति क्वचित् । 'सहस्रं प्राणः' इति पृष्प० सं० ।

भा०—(धृतात्) तेज से (उल्लुप्तः) मधु, ज्ञान, अन्न और शत्रुनाशक बल से सम्पन्न, (पयस्वान्) वीर्यवान्, यशस्वी, (सहस्रप्राणः) सहस्र गुण जीवन शक्ति से युक्त, (शतयोनिः) सैकड़ों अपने आश्रय-स्थानों का स्वामी, (वयोधाः) अन्न को अपने भण्डार में सन्चित करके रखने वाला, (शं भूः च) शान्ति और कल्याण का उत्पादक, (मयो भूः च) सुख का उत्पादक, (ऊर्जस्वान् च) परम धन्नादि से सम्पन्न या बलयुक्त, (पयस्वान् च) और वीर्यवान्, पुष्टिमान् होकर (अस्तृतः) अखण्ड वीर पुरुष 'अस्तृत' (त्वा अभि रक्षतु) तेरी रक्षा करे।

यथा त्वमुत्तरोमी असपत्नः संपत्नहा ।

सजातानामसत् वशी तथा त्वा सविता करदस्तृतस्तत्राभि रक्षतु ॥७

भा०—(यथा) जिस प्रकार से हे राजन्! (त्वम्) तू (उत्तरः) सबसे उत्कृष्ट, (असपत्नः) शत्रुरहित, (सपत्नहा) और शत्रुओं को नाश करने वाला होकर (असत्) रहे और (सजातानाम्) समान बल वाले वाले समस्त राजाओं को (वशी) अपने वश में करने वाला (असत्) हो (तथा) उस प्रकार से (सविता) सर्वप्रेरक परमेश्वर (त्वा) तुम्हें (करत्) वनावे और (अस्तृतः) वह अखण्ड वीर पुरुष (त्वा अभि रक्षतु) तेरी रक्षा करे।

'अस्तृत' अन्नरहित, आर्क्षित, अनाच्छादित, जिसको कोई घेर न सके इत्यादि विशेषण अध्यात्म में परब्रह्म पर लगते हैं। सामान्यतः कवच पर भी ये विशेषण किसी २ मन्त्र में जाते हैं। परन्तु किसी मणि या तावीज आदि जड़ पदार्थ में शत्रु नाश करने आदि के गुण होने असम्भव हैं अतः सायण, प्रिक्रिय, हिरानि आदि का तत्परक अर्थ करना असंगत है या ऐसे वीर पुरुष को जो स्वयं 'अस्तृत' कहाने योग्य है जो विशेष मान सूचक पदक आदि दिया जाय वह उपचार से या लक्षण से 'अस्तृत' कहा

जा सकता है। 'अस्तृत' का स्वरूप देखो (अथर्व० १ । २० । ४) 'शास
इत्या महान् अस्ति मित्रसाहो अस्तृतः । न यस्य हन्यते सखा । न जीयते
क्रदाचन ।' परमात्मा पद में—'अस्तृत' जैसे (अथर्व १ । २० । ७) 'सूर्यो मे
चतुर्वातः प्राणो अन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् । अस्तृतो नामाहमय-
नस्ति स आत्मानं निदधे द्वावापृथिवीन्व्यां गोपीयाय ॥

[४७] रात्रिरूप ब्रह्मशक्ति और राष्ट्रशक्ति ।

गोध श्रमिः । नन्वोला रात्रिर्वेता । १ पथावृहती । २ पञ्चपदा वतुष्टुर्भा
प्रातिष्ठाती । ६ पुरस्ताद् बृहती । ७ अन्नज्ञाना इन्द्रा जार्ता । वेष्टा वतुष्टुनः ।
नन्व इन्द्रम् ॥

आ रात्रिं पार्थिवं रजः पितुरंप्रायि धामभिः ।

दिवः सदांसि वृहती वि तिष्ठसु आ त्वेषं वर्तते नमः ॥१॥

वजु० ३४ । ३२ । ॥ इ० १० । १२७ । स्ति ॥

भा०—हे (रात्रि) रात्रि ! समस्त प्राणियों को रक्षण करने वाली
(पार्थिवः) पृथिवी का (रजः) लोक (पितुः) सर्वपालक, पिता परमात्मा
के बनाये (धामभिः) तेजों से (अप्रायि) पूरे हैं । और वृ (बृहती)
बड़ीभारी शक्ति वाली होकर समस्त (दिवः) दैतलोक या आकाश में वर्त-
मान (सदांसि) समस्त लोकों में (वितिष्ठसे) विविध प्रकार से विरा-
जमान है (त्वेषं) दीप्तिमान चन्द्र, तारागणों से सुशोभित (तमः) अन्ध-
कार (आ वर्तते) सर्वत्र व्याप रहा है ।

समस्त प्राणियों को जीवन देने वाला समष्टि प्रकृति रात्रि है । उस
पालक प्रजापति की शक्ति संसार के समस्त पृथिवी लोकों में फैली है और
वह जीवात्पादक शक्ति दैतलोक अर्थात् तेजोमय सूर्य आदि में भी व्याप्त

[४७] १—(दि०) 'पितरः प्राण्यन्-' (द०) 'सुप्तंति' ।

है। जहां २ तम या जड़ पदार्थ है वहां साय २ 'तेज' का अंश भी उसी प्रकार फैला है जैसे रात्रि के अन्धकार में तोरे अर्थात् जड़ता की चादर में चेतन जीवों को छिटक रक्खा है। या महान् ब्रह्माण्ड जड़ संसार में ब्रह्म की तीव्र गति, चेतना उसके भीतर व्याप्त है।

सोमो रात्रिः । श० ३ । ४ । ४ । १५ ॥ रात्रिर्वरुणः । ऐ० ४ । १० ॥ वारुणी रात्रिः । ऐ० ४ । १० । यो राजसूयः स वरुणसवः । तै० २ । ७ । ६ । १ । राज्ञः पृव राजसूयम् । श० ५ । १ । १ । १२ । स राजसूयेनेष्ट्वा राजा इति नाम अधत्त । गो० ५ । ५ । ८ । ब्रह्मणो वै रूपमहः । अत्रस्य रात्रिः । तै० ३ । ६ । १४ । ३ । इत्यादि प्रमाणों से प्रजा की पालक राज्यव्यवस्था का नाम भी 'रात्रि' है। उस पक्ष में हे-रात्रि ! राजशक्ते ! पालक राजा के तेजों से यह पृथ्वी लोक व्याप्त है। तु महान् होकर (दिवः सदांसि) उच्च ज्ञान प्रकाश के गृहों, भवनों और विद्वानों पर शासन करती है, तेरा चमकीला प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है।

न यस्याः पारं ददंशे न योयुंश्चद् विश्वमस्यां नि विशते यदंजाति ।
अरिंशस्त उर्वि तमस्वति रात्रिं पारमशीमहि भद्रं पारम-
शीमहि ॥२॥ अ० १० । १०७ । खिल ४ ॥

भा०—रात्रि का स्वरूप ! (यस्याः) जिस अनन्त प्रकृति का (पारं न ददंशे) पार दिखाई नहीं देता (अस्याम्) इसमें (यत्) जो भी लोक (पृजति) गति कर रहा है वह (विश्वम्) समस्त लोक (अस्यां) इसमें ही (न यो युंश्चद्) उससे पृथक् न रहता हुआ (नि विशते) आश्रय ले रहा है। हे उर्वि ! पृथ्वी के समान आश्रय देने वाली ! हे (तमस्वति) तमोगुण से युक्त, हे (रात्रि) जीवों को अपने में रमण कराने वाली भोग-

दात्रि ! इम (अरिष्टसः) विना दुःख कष्ट प्राप्त किये (ते) तेरे (पारम्)
 पार अर्थात् पालन करने वाले सामर्थ्य का (अशीमहि) भोग करें । हे
 (भद्रे) कल्याणकारिणि ! सुखदायिनि ! (ते पारम् अशीमहि) तेरे
 पालन सामर्थ्य को प्राप्त करें ।

ये तं रात्रि नृचक्षंसो दृष्टारो नवतिर्नव ।

अशीतिः सन्त्युग्रा उतो तं सप्त सप्ततिः ॥३॥

भा०—हे (रात्रि) समस्त प्रजा को रमण कराने एवं सुख प्रदान
 करने वाली राजशक्ते ! (ते ये) तेरे जो (नृचक्षसः) मनुष्यों को देखने
 वाले और (दृष्टारः) राज्यव्यवहारों को देखने वाले (नवतिः नव) १६
 (निन्यानेव) या (अष्टा अशीतिः) अठ्ठासी [८८] (उतो) या (ते) तेरे
 कार्यदृष्टा (सप्त सप्ततिः) सतहत्तर [७७] (सन्ति) हैं ।

पृष्टिश्च पट् च रेवति पञ्चाशत् पञ्च सुम्नयि ।

चत्वारंश्चत्वारिंशच्च त्रयांस्त्रिंशच्च वाजिनि ॥४॥

द्वौ च ते विंशतिश्च ते राज्येकांशशात्रुमाः ।

तेभिर्नो अथ पायुभिर्नु पांडि दुहितर्दिवः ॥५॥

भा०—हे (रेवति) धनवति ! ऐश्वर्यवती राजशक्ते ! हे (सुम्नयि)
 प्रजा को सुख देनेहारी ! हे (वाजिनि) अन्न और बल से सम्पन्न ! हे
 रात्रि ! प्रजा सुखदात्रि ! हे (दिवः दुहितः) द्यौ-आदित्य की पुत्री, उषा
 के समान प्रकाश करने वाली (दिवः दुहितः) प्रकाश को दोहन, पूर्ण
 करने या प्रदान करने वाली राजसमे ! राजशक्ते ! (ते) तेरे जो प्रजा

३-(वृ०) 'सन्त्युग्रा' इति ऋ० १०। १२७। खिले २ ॥

५-(दि०) 'रात्री एका-' इति पैप्प० सं० । (चः) 'नि पाहि' इति
 द्विदिकामितः ।

राज्य के व्यतहारों के देखने वाले संख्या में (षट् च षष्टिः च) द्वियासठ ६६ या (पञ्च पञ्चाशत्) पचपन, ५५, (चत्वारः चत्वारिंशत् च) चवालीस ४४ और या (त्रयः त्रिंशत् च) तैंतीस या (द्वौ च विंशतिः च) चाईस २२ या (अथवाः) सबसे कम (एकादश) ग्यारह विद्वान् पुरुष हैं (नः) हमें (अथ) निरन्तर (तेभिः पायुभिः) उन पालन करने वाले देश पालक पुरुषों से (पाहि नु) हमें अवश्य पालन कर ।

अर्थात् राजसभा में ६६, ८८, ७७, ६६, ५५, ४४, ३३, २२, या कमसे कम ११ विद्वान् हों उनके ऊपर राज्यकार्यों का देखने का भार हो । उन सभासदों का नाम 'नृचक्षा' है । इन्द्र की राजसभा में १००० ऋषि थे । इसीसे वह सहस्राक्ष कहाता था । अर्थशा० कौ० ।

'योनिरेव वरुणः' । श० १२ । ६ । १ । १७ ॥ इस प्रमाण से गत सूक्त में शतयोनि का तात्पर्य 'शतवरुण' समझना चाहिये अर्थात् जिसके अधीन सौ प्रजा के स्वयंवृत नेता हों । वे प्रजा को संभालें इसीसे वे 'शत-धाम' कहाते हैं ।

रक्षा माकिनी अघशंस ईशत् मा नो दुःशंस ईशत् ।

मा नो अथ गवां स्तेनो मार्वानां वृकं ईशत् ॥६॥

माश्वानां भद्रे तम्करो मा नृणां यातुध्रान्यः/ ।

परमेभिः पृथिभिस्तेनो ध्रावतु तम्करः ।

परैण द्रत्वती रज्जुः परैणाघायुरपैतु ॥७॥

(प्र०) अ० ६ । ७१ । ३ ॥ च० । यजु० ३३ । ६९ ॥

भा०—हे राजशक्ते ! तू हमारा ऐसा (रक्ष) पालन कर कि (नः) हम पर (अघशंसः) हत्या और पाप कार्यों की चर्चा करने वाला दुष्ट

अधो यानि च यस्माद् [चयामहे] यानि चान्तः परीणहि ।
तानि ते परि दध्मसि ॥ १ ॥

भा०—(अधो) और (यानि) जिन पदार्थों को हम [चयामहे] संग्रह करते हैं (यानि) जिन वस्तुओं को (अन्तः) भीतर (परि नहि) सब ओर से बन्द लन्दूक आदि में रखते हैं (तानि) उन सब धन, वस्त्र आदि को (ते) तेरे ही अधीन (परि दध्मसि) हम धारण करते हैं या (परि दध्मसि) तेरे अधीन, तेरी रक्षा में रखते हैं ।

रात्रि मातरूपसै नः परि देहि ।

उषा नो अह्ने परि ददात्वहस्तुभ्यं विभावरि ॥ २ ॥

वर्ष० १९ । ५० । ६ ॥

भा०—हे (मातः) माता के समान राष्ट्र का पालन करने वाली, (रात्रि) प्रजा को सुख देने वाली ! तू (नः) हमको (उषसे) उषा को (परिदेहि) सौंप दे । अर्थात् हम सुख से रात में सोकर स्वस्थ रूप में प्रातःकाल उठें । राजा के पक्ष में हे रात्रि राजशक्ते ! तू (नः उषसे) हमें उषा अर्थात् दुर्घों का दहन करने वाली दमनकारिणी (पोलिस) के अधीन कर दे या ! उषसे) ज्ञानमयी, प्रकाशमयी विद्वत्-सभा के अधीन कर दे । और जिस प्रकार उषा समस्त जीवों को दिन के अधीन कर देता

४८] १- (प्र०) 'यानि च यस्माद् आह', 'यानि च यस्माद् अह', 'यानि च यानि नहे', 'यानि यानि नहे' इति पठभेदः । 'यानि चयामहे' इति हिर्मनिसंशोभितः पाठः । यानि । च । यस्माद् अह- यानि । च । यस्माद् आह । इति पठभेदः । (दि०) 'यानि च तः परीणहि' इति वृत्त । 'दा न इह । वन्तः', 'यानि । वा । वन्तः'-इति वा पठभेदः । वन्ति इति वन्ति । 'अधो यानि चान्तः परीणहि' इति पठभेदः सं० ।

है उसी प्रकार (उपा) वह पूर्वोक्त उपा (नः) हमें (अह्ने) न दण्ड देने योग्य, आदरणीय ब्राह्मणगण के अधीन (परिददातु) सौंप दे । और हे (विभावरि) विभावरि ! विशेष रूप से तेजस्विनि ! हे पूर्वोक्त रात्रि ! (अहः) दिन जिस प्रकार जीवों को रात्रि के अधीन रर देता है उसी प्रकार वह ब्राह्मणगण फिर (तुभ्यम्) तुझ पूर्वोक्त रात्रि अर्थात् राजशक्तियों व द्रुष्टों को दमन करने वाली शक्ति के अधीन सौंप दे ।

यत् किं चेदं पतयति यत् किं चेदं संरीसृपम् ।

यत् किं च पर्वतायासत्वं [पद्भदा सुन्वत्] तस्मात् त्वं रात्रि पाहि नः ॥३॥

भा०—(यत् किं च) जो कुछ प्राणिवर्ग (इदं) यह या इस प्रकार (पतयति) धूमा करते हैं या ऊपर से हम पर टूटते हैं और (यत् किं च इदम्) ये जो कुछ (संरीसृपम्) सरकने वाले, सांप आदि प्राणि हैं । और (यत् किञ्च) जो कुछ प्राणी (पर्वते) पर्वतों में (आः, असत्) विद्यमान हैं अथवा (पद्भत् आ सुन्वत्) पैरों वाले प्राणिवर्ग हमारे समीप विचाराता है, हे (रात्रि) राजशक्ते ! (तस्मात्) उन सब प्राणियों से (त्वं) तू (नः पाहि) हमारी रक्षा कर ।

तृतीय चरण में नाना पाठ उपलब्ध हैं—'पर्वतायासत्वं', 'पर्वतासत्वं' 'पर्वण्यासत्वं' । इत्यादि । पैपलाद में—'पद्भदासुन्वत्' है हमारी सम्मति में पाठकारूप होना चाहिये ।

३—(वृ०) 'पर्वतायासत्वं' इति प्रायिकः पाठः । 'पर्वताय । सः । त्वम्' इति पदपाठो बहुत्र । 'पर्वताय । असत्त्वन्' इति सायणाभिमतः । 'च पर्वतासत्वं' इति शं० पा० नुमितः पाठः । 'पर्वण्यासत्वं' इति हिट्ठन्वन्नुमितः । पद्भदासुन्वत् इति पैप० सं० । (प्र०) पतयति इति क्वचित् ।

‘यत् किंच पद्मदासुन्वन् तस्मात् त्वं रात्रि पाहि नः ।’

अर्थात् एक ‘त्वं’ पद अधिक है । पैपलाद का पाठ अधिक स्पष्टार्थ है । सायणसम्मत पाठ है—‘यत् किंच पर्वतायासत्वं’ अर्थात् (यत् किंच) जो कोई (पर्वताय) पर्वत का (असत्त्वम्) असत्त्व अर्थात् दुष्ट सत्व, व्याघ्र सिंह आदि हैं ।

सा पश्चात् पांढि सा पुरः सोत्तरादधरादुत् ।

गोपाय नो विभावरि स्तोतारस्त इह स्मसि ॥४॥

भा०—(सा) वह तू (पश्चात् पाहि) पीछे से या पश्चिम दिशा से हमारी रक्षा कर । (सा) वह तू (पुरः) आगे से या पूर्व दिशा से हमारी रक्षा कर । (सा उत्तरात्) वह तू उत्तर दिशा से या वायों ओर से या ऊपर से हमारी रक्षा कर । (उत अधरात्) और नीचे से या दायों ओर से भी रक्षा कर । हे (विभावरि) विशेष तेज से सम्पन्न पूर्वोक्त रात्रि ! तू (नः) हमें (गोपाय) रक्षा कर (ते) तेरे हम (इह) यहां (स्तोतारः स्मसि) स्तुति करने वाले यथार्थ गुण कहने वाले हैं ।

ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च भूतेषु जाग्रति ।

पशन् ये सर्वान् रक्षन्ति ते न आत्मसुं जाग्रति

ते नः पशुषु जाग्रति ॥ ५॥

भा०—(ये) जो (रात्रिम्) रात्रि, उस सुखप्रद और दुष्टों को दण्ड देने वाली व्यवस्था को या सर्वोपरि राजमान् राष्ट्री शक्ति को (अनुतिष्ठन्ति) ठीक प्रकार से चलाते हैं और (ये) जो (भूतेषु) समस्त भूतों और प्राणियों में (जाग्रति) जागते हैं, सदा सावधान रहते हैं । और (ये) जो (सर्वान्)

५—‘जाग्रतु’ इति द्विनिर्दिशितः । (द्वि०) ‘येषु भूतेषु’ (च० पं०) तेन रक्षन्ति जाग्रतु ते नः पशुभिर्जाग्रतु’ । इति पैप० सं० ।

समस्त (पशून्) पशुओं की (रक्षन्ति) रक्षा करते हैं (ते) वे सब व्यवस्थापक राज्य कार्यों को चलाने हारे पुरुष (नः आत्मसु) हमारे शरीरों पर भी उनकी रक्षा के निमित्त सावधान (जाग्रति) जागते हैं । और (ते) वे (नः) हमारे (पशुषु) पशुओं के रक्षा-कार्य में भी (जाग्रति) सावधान होकर रहते हैं । व्यापक ईश्वरीय शक्ति के पक्ष में भी स्पष्ट है ।

वेद वै रात्रि ते नाम घृताची नाम वा असि ।

तां त्वां भरद्वाजो वेद सा नां वित्तेवि जाग्रति ॥६॥

भा०—हे (रात्रि) रात्रि ! समस्त जगत् को अपने भीतर लेने वाली सर्वोपरि विद्यमान शक्ति ! (ते नाम अहं वेद) तेरा नाम मैं जानता हूँ कि तू (घृताची नाम) 'घृताची' नामक (असि) है । (भरद्वाजः) भरद्वाज, अन्न और बलों को धारण करने वाला (तां त्वाम्) उस तुझको (वेद) जानता या प्राप्त करता है । (सः) वह (नः) हमारे (वित्ते) समस्त प्राप्त करने योग्य पदार्थों पर (जाग्रति) जागती है, सावधान होकर रहती है । सब की रक्षा करती और यथासमय प्राप्त कराती है ।

'घृताची'—घृ क्षरणदीप्योः (क्षुरादिः) गृ घृ सेचने (भ्वादिः) घृताभ्यामौणादिकः कः । जिघर्त्ति सञ्चलति दीप्यते वा तद् घृतम् । उदकं सर्पिः प्रदीप्तं वा । इति द्या० । सेचयत्यनेन भूमिं पर्जन्यः । क्षरति मेघात् । दीप्तं वा स्वेन तेजसा देवतात्वाद् घृतमन्नावश्यायलक्षणं जलं तदञ्चति । अञ्चतेर्गत्यर्थात् किनि टीप्ति, घृताची । इति देवराजः । घृत जल है । इससे मेघ पृथ्वी को सींचता है । या घृत तेज है अर्थात् वह परमात्मा की जलदात्री, जीवनदात्री, तेजोदात्री, मेघ, सूर्य, वायु रूप से प्राणप्रद शक्ति घृताची,

६—(दि०) 'वसि', (नृ०) 'ता त्वा', (च०) 'जागृहि' इति पँप० सं० ।

१.—जागर्त्तेरि अडागयो गुणाभावश्चेति सायणः ।

रात्रि है । उसके तत्व को 'भरद्वाज' अक्षोत्पादक विद्वान् जानते हैं । अघ्यात्म में-मनो वै भरद्वाजऋषिः । अन्नं वाजः । यो वै मनो विभर्त्ति सो अन्नं वाजं विभर्त्ति । तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः । मन भरद्वाज है । अन्न वाज है । वही शरीर में रहकर समस्त प्राणों को धारण करता है । यह आत्मा के घृताची शक्ति को जानता है ।

[४६] 'रात्रि' परम शक्ति का वर्णन ।

गोरथो भरद्वाजश्च ऋषी । रात्रिर्वेदना । १-५, ८ त्रिष्टुभः । ६ आत्मारंजिः ।
७ पथ्यापंक्तिः । १० अश्वस्ताना पृथ्वा जगती । दशर्वं सृजन् ॥

इषिरा योषां युवतिर्दमूना रात्रीं देवस्यं सविर्भुर्भगस्य ।

श्रृश्वज्जभा सुहवा संमृतश्रीरा पथौ चायांपृथिवी माहित्वा ॥१॥

भा०- जिस प्रकार (युवतिः) युवती स्त्री (सविनुः) पुत्रोत्पादन करने में समर्थ पुरुष की (इषिरा) इच्छा का विषय या अनुकूल रूप करने वाली होती है और (दमूनाः) उसी के अधीन अपने चित्त को बरा करके रहती है उसी प्रकार (रात्रिः) समस्त-जगत् को व्यक्त रूप प्रदान करने वाली, महती प्रकृति शक्ति (भगस्यं) उसके भजन करने योग्य, सर्वेश्वरवान्, (सविनुः) सर्वोत्पादक, सर्व जगत् के सञ्चालक, (देवस्य) सर्व प्रकाशमान, सर्वज्ञानप्रद परमेश्वर के लिये सूर्य के लिये रात्रि के समान ही (इषिरा) अपनी इच्छा शक्ति द्वारा प्रेरित करने योग्य होती है । अर्थात् ईश्वर अपनी कामना या इच्छा से प्रकृति को जगत्-सृष्टि के लिये प्रेरित करता है । प्रकृति की आविष्कृत वह अवस्था अर्थात् जब जगत् अव्यक्त रूप में प्रकृति में लीन रहता है वेदीकृत 'रात्रि' है । उस दशा में विद्यमान प्रकृति में ईश्वर की प्रेरणा से सृष्टि का उत्पादक जोन उत्पन्न होता है । वह स्वयं उस परमात्मा की (योषा)

[४९] १-संज्ञः श्रोत संतं चिद्व । (ट०) 'विश्वना' इति सिद्धिन्निवृत्तिः ।

स्त्री के समान नित्य निरन्तर संग करने वाली अर्थात् ईश्वर के सम्पर्क से उसकी शक्ति तेज या वीर्य से गर्भित होकर समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाली (युवतिः) सदा जवान, सदा स्थिर रूप से संगत' और निरन्तर सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ, (दमूनाः) और स्वयं दान्तमना अर्थात् मनन या चेतना से रहित केवल परमात्मा के ही संकल्प से चलने वाली अथवा दान्त-मनाः' अर्थात् दमनकारी ईश्वर के द्वारा स्तम्भित, उसके वशी-भूत है। वही प्रकृति (अश्वत्थमा=अशु-अश्व-भा) अति शीघ्र व्यापक शक्ति से सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ हुई। (सुहवा) उत्तम रीति से पति की आज्ञा में रहने वाली स्त्री के समान वह भी 'सुहवा' उत्तम रीति से उसके वशी-भूत, (संभृत-श्रीः) समस्त शोभाओं को स्वयं धारण करने वाली, अथवा (सं हन श्रीः) एकत्र प्राप्त हुए समस्त विकृत पदार्थों पद्मभूतों का आश्रय स्थान, वह प्रकृति रूप ब्रह्मशक्ति अपने महित्वा) महान् सामर्थ्य से (द्यावा-पृथिवी आ पत्रा) द्यौ और पृथिवी, समस्त ब्रह्माण्ड को व्याप रही है।

राजशक्ति के पक्ष में—वह (दमूनाः) दमनकारिणी, (देवस्य सविनुः भगस्थं) सबके सञ्चालक ऐश्वर्यवान् राजा की निरन्तर बलवती इच्छा के अनुकूल प्रेरित (अशु-अश्व-भा) शीघ्रकारी चतुर इन्द्रियों के समान उसके साथ जुड़े अश्वत्थ पुरुषों से शोभामान, (सुहवा) उत्तम ज्ञान से पूर्ण या (संभृतश्रीः) राष्ट्र लक्ष्मी को धारण करने वाले अपने महिमा, सामर्थ्य से (द्यावापृथिवी आपत्रौ) द्यौ और पृथिवी, राजा और प्रजा दोनों को पूर्ण करता है। अर्थात् दोनों को सम्पन्न समृद्ध करता है।

अति विश्वान्वरुहद् गम्भीरो वधिष्ठमरुहन्तु अविष्टाः ।

उशती रात्र्यनु सा भद्राभि तिष्ठते मित्र इव स्वधाभिः ॥२॥

२-अभिविधान्वरुहद् गम्भीरो वधिष्ठमरुहन्तु अविष्टा ।

'उशती रात्र्यनु सा भद्राभि तिष्ठते मित्र इव स्वधाभिः ॥ इति ह्यिन्द्रोपिः पाठः ।

अथवा—(गम्भीरः) गम्भीर, सर्वव्यापक, निगूढ परम मेघ, सबका परम गन्तव्य, महान् पुरुष ही (विश्वानि. [विश्वा]) समस्त पदार्थों और लोकों के भी ऊपर (अति [अभि, अधि] असहत्) अधिष्ठातृ रूप से विराजता है । और (अविष्ठाः) श्रुति, ब्रह्मज्ञान या ऐश्वर्यवान्, विभूति-सम्पन्न, युक्त योगी पुरुष उस (वर्षिष्ठम्) सबसे महान्, सबके प्रति आनन्दवर्षण करने हारे परमेश्वर तक (असहन्त) पहुंचते हैं । (उशती) उसी की कामना करने वाली (सा) वह (भद्रा) अति सुखकारिणी (अनु) उसके पीछे २, उसके अनुकूल ही, उसकी वशवर्तिनी होकर, अपनी (स्वधाभिः) स्वधा, विश्व को धारण करने की शक्तियों सहित, कामनायुक्त स्त्री जिस प्रकार प्रियतम के पास आजाती है उसी प्रकार (मित्र इव) उसके मित्र के समान होकर (अभि तिष्ठते) उसके प्रति, उसके सन्मुख आ उपास्थित होती है ।

गम्भीर राजा सबके ऊपर शासक हो, विद्वान् लोग उसके आश्रय पर रहें । वशकारिणी राजशक्ति अपने धारण सामर्थ्यों से राजा प्रजा के मित्र के समान प्रकट होती है ।

अतिविधान्यर्हद् गम्भीरो वर्षिष्ठमर्हति अविष्ठा ।

उशती रात्र्यनु सा भद्रा वितिष्ठते मित्र इव स्वधाभिः ॥ इति सावधाभिमतः ।

अतिविधान्यरुड् गम्भीरो वर्षिष्ठमरहन्त अविष्ठाः ।

उशती रात्र्यनु सा भद्राभि तिष्ठते मित्र इव स्वधाभिः ॥ शं० पा० ।

‘अवि’, ‘अर्वि’, ‘अभि’, ‘अधि’ । ‘अरहत्’, ‘अर्हत्’, ‘अरहत्’, ‘अरहत्’ । ‘गम्भीरा’, ‘गम्भीरो’ । ‘अरहन्तः’, ‘अरहत्’, ‘अरहन्त’, ‘अर्हति’ या ‘मरहत्’ । ‘अभ्रनिष्ठाः’, ‘अभिष्ठा’, ‘शविष्ठा’ । ‘उशतीरात्र्यनुसामद्राहिं’—‘नुसाम-द्राहिं’ ‘अनुसाम-’ ‘द्राहि’, ‘प्रावि’, ‘प्राहिं’ इति नाना पाठाः, इवर्षिष्ठ मरहद् अविष्ठा । उशतीरात्र्यनुसामद्राद्, इति—पैप्प० सं० ।

अथवा—सायण, द्विटीनी आदि के सम्मत पाठों के अनुसार (अधि विश्वा न्यरुहत् गम्भीरा) गम्भीर रूप रात्रि, सबके अभिगमनीय या अति गम्भीर राजशक्ति, राष्ट्र के समस्त पदार्थों पर गम्भीर रात्रि के समान अपना अधिकार करती है । और वह श्रविष्ठा [शविष्ठा] अति अधिक बल, धैर्य और यश और अन्न से समृद्ध होकर (चर्षिष्टं घाम् अरुहत्) सबसे उत्तम प्रकाशमय सूर्य पर जैसे रात्रि आरूढ़ होती है और जिस प्रकार स्त्री अपने उज्ज्वल पति का आश्रय लेती है उसी प्रकार यह भी तेजस्वी बलवान राजा पर आश्रित रहती है । (उशती रात्रिः अनु या स्वधाभिः भद्राभिः वि तिष्ठते) कामनायुक्त स्त्री जिस प्रकार सुखदायी कल्याण प्रवृत्तियों सहित पति के समीप आती है उसी प्रकार वह राजशक्ति मुक्त राजा के पास अपनी भद्र, सुखदायी अन्न और परम शक्तियों सहित (मित्र इव) मित्र के समान प्राप्त होती है ।

वयं वन्दे सुभगे सुजात आजगन् रात्रि सुमना इह स्याम् ।

अस्मांस्त्र्यांश्च नर्याणि जाता अथो यानि गव्यानि पुष्ट्या ॥३॥

भा०—हे (वयं) वरण करने योग्य ! हे (वन्दे) वन्दना या स्तुति करने योग्य प्रशंसनीय ! हे (सुभगे) उत्तम पेश्वर्य से सम्पन्न हे सौभाग्यवति ! हे (सुजाते) शुभरूपे, शुभकुल में उत्पन्न महिला के समान उत्तम रूप से बनाई गई ! हे (रात्रि) राजशक्ति ! और ईश्वरीय शक्ति ! तू (आजगन्) आ, तू निरन्तर आती है । मैं (इह) यहां, इस लोक में (सुमनाः) उत्तम चित्तवाला, सुप्रसन्न होकर (स्याम्) रहूँ । तू (अस्मान्) हमको या हमारे लिये (जाता) उत्पन्न हुए (नर्याणि) मनुष्यों के उपयोगी (अथो) और (यानि) जो (गव्यानि) पशु आदि के उपयोग के अथवा मनुष्यों से उत्पादित शिल्प द्वारा उत्पन्न और पशुओं

से प्राप्त दुग्ध घृत आदि पदार्थ हैं उन सबको (पुण्ड्या) हमारी पुष्टि समृद्धि के लिये (त्रायस्व) पालन कर ।

सिंहस्य रात्र्युशती पीपस्य व्याघ्रस्य द्वीपिनो वर्च आ ददे ।

अश्वस्य ब्रध्नं पुरुषस्य मायुं पुरु रूपारिं कृणुपे विभाती ॥ ४ ॥

भा०—(उशती रात्री) सबको वश करने वाली रात्री अर्थात् राज-शक्ति, उत्तम पुरुषों को सुख और दुष्ट पुरुषों को दराड देने वाली रात्रि (सिंहस्य) सिंह के (पीपस्य [पिशस्य, पिपस्य, पीपस्य]) सबको चूर्ण कर देने वाले हाथी और (व्याघ्रस्य) व्याघ्र और (द्वीपिनः) चीते के भी (वर्चः) तेज को (आददे) ग्रहण कर लेती है ; और वही (विभाती) नाना प्रकार से प्रकाशित होने वाली, व्यापक, आशुगति करने वाले पदार्थों को (ब्रध्नं [ब्रध्नं]) बांधने या सूर्य के मूल स्थान या केन्द्र में स्थापन और (पुरुषस्य) देहपुरी में निवास करने वाले आत्मा के (मायुम्) वाक्-शक्ति का निर्माण (कृणुपे) करती है । अथवा—(अश्वस्य ब्रध्नं) सूर्य की शक्ति से मेघको और (पुरुषस्य मायुम्) पुरुष की शक्ति से वाणी को उत्पन्न करती है । अथवा (अश्वस्य ब्रध्नं) सूर्य के लिये महान् आकाश को और पुरुष के ज्ञान के लिये 'मायु' अर्थात् वाणी और वेदवाणी को उत्पन्न करती है ।

४—(प्र०) 'पीपस्य', 'पीपस्य', पीपस्य, इति नाना पाठाः । पिशस्य इति हिटनिसम्मतः । पिपस्य, (वृ०) 'ब्रध्नं', इति सायणाभिमतः । 'निपस्य' इति पैप्प० सं० । (द्वि०) 'वर्चादधे' (च०) 'कृणुयी' 'विभातीः' इति प्रायः ।

१. 'दन्वेर्बध्नुधी च' इत्युग्रादिर्नक् प्रत्ययः । ब्रध्नः ब्रध्नः । ब्रध्नो महान् सूर्यो वा, ब्रध्नो मेघोमूलमन्तरिक्षं वा । इत्युपादि द० ।

और उनके भी (पुरु रूपाणि कृणुपे) नाना रूप (कृणुपे) बनाती है रचती है । अर्थात् राजशक्ति शिक्षा का प्रबन्ध करती है और नाना प्रकार के (रूपाणि) शिल्पसाध्य पदार्थों को उत्पन्न करती है ।

शिवां रात्रिमनुसूर्यं च हिमस्य माता सुहवा नो अस्तु ।
अस्य स्तोमस्य सुभगे नि वोध येन त्वा वन्दे विश्वासु द्विजु ॥५॥

भा०—हे (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्यवति ! तू (हिमस्य) शत्रुओं को, हनन करने वाले राजा की (माता) उत्पन्न करने वाली माता के समान राजा को बनाने वाली, उसको प्रभुत्व देने वाली है । तू (नः) हमें (सुहवा) उत्तम हव=ज्ञान-उपदेश देने में समर्थ (अस्तु) हो । तू (अस्य स्तोमस्य) इस 'स्तोम', वीर पुरुषों के उत्पन्न करने के कार्य को (नि वोध) भली प्रकार जान । अर्थात् राज्यतन्त्र को चाहिये कि वह वीरों का बराबर सेना में भर्ती करने और नये २ सैनिकों को तैयार करने के कार्य को खूब आवश्यक समझे । (येन) जिसके कारण हम (विश्वासु) समस्त (दिशु) दिशाओं में (त्वा) तुम्हें (शिवाम्) कल्याणकारिणी (रात्रिम्) सर्वेश्वर्यप्रद—राष्ट्री, राज्यशक्ति को और (अनुसूर्यम्) उसके अनुकूल उसके पोषक या उसके अनुरूप रात्रि के पीछे अनुगमन करने वाले सूर्य के समान उद्यशील तेजस्वी राजा के भी (वन्दे) हम गुण और यशोगान करें ।

- ५-(प्र०) 'शिवामे रात्र्यनुसूर्यं च' इति द्वितिकामितः । 'शिवां रात्रि महिन सूर्यं च' इति पैप्प० सं० । 'शिवां रात्रि महिसूर्यं च' इति बहुव्र । 'रात्रिमहि' इति सायणाभिमतः । 'शिवा रात्री मही सूर्यश्च' इति शं० पा० कामितः । (द्वि०) 'वमस्य माता० इति पैप्प० सं० । (वृ०) 'यद्वस्तोम०' इति बहुव्र । (च०) 'वन्दे', 'वन्दे' इति क्वचित् ।

१- 'हिमस्य'-हन्तेर्हि च । औणादिर्भक् प्रत्ययः । हन्ति उष्णं दुर्गन्धिं वा तद्विमम् । हेमन्त ऋतुस्तुषारश्चन्दनं वा इति दया० । हेमन्तो हि इमाः प्रजाः स्ववशमुपनयते । श० १।५।४।५ ॥ सहस्र सहस्यश्च एतो एव हैमन्तिकौ मासौ । यद् हेमन्त इमाः प्रजाः सहसा इव स्वं वशमुपनयते इमौ हैतौ सहस्र सहस्यश्च । श० ४।३।१।१८ ॥ तस्य (पर्जन्यस्य) सेनजित् च सुपेणश्च सेनानाग्रामण्यौ इति हेमन्तिकौ तावृत् । श० ६।१।२० । हेम का अर्थ है मारने वाला, दण्ड देने वाला । हेमन्त के जिस प्रकार सहः सहस्य दो मास हैं उसी प्रकार प्रजाके वासयिता राजा के सहः=शत्रु के पराजेता और सहस्य=बलशाली दो अधिकारी हैं जिनके बल से समस्त प्रजाओं को वह वश करता है । पर्जन्य=अर्थात् मेघ के समान प्रजापति के सेनजित् और सुपेण दोनों हेमन्त ऋतु के दो मासों के समान ही सेनापति और ग्रामणी या ग्रामपति दो अधिकारी होते हैं ।

२- 'स्तोमस्य'-वीर्यं वै स्तोमाः । तां श०।५।४। वीरजननं वै स्तोमः । ता० २१।६।३ ॥ राजा का बल या सेनावल स्तोम कहाता है ।

स्तोमस्य नो विभावरि रात्रि राजेव जोपसे ।

अस्तां सव्वीरा भवां सव्वेदसो व्युच्छन्तीरनूपसः ॥६॥

भा०—हे (विभावरि) तेजास्विनि ! हे (रात्रि) रात्रि ! सुखदात्रि ! एवं सबसे ऊपर विराजमान राजशक्ते ! तू (राजा इव) राजा के समान ही (नः) हमारे (स्तोमस्य) सामूहिक वीर्य अर्थात् बल और वीरसमूहों को (जोपसे) अपने प्रयोग में लाता है । इसलिये (व्युच्छन्तीः उपसः शत्रु) नित्य निरन्तर प्रकट होने वाली उपाओं अर्थात् शत्रुदाहक सेनाओं

के रूप में हम लोग सदा (सर्ववीराः) सर्वत्र वीर (असाम्) होकर रहें
और (सर्ववेदसः) समस्त पेश्वों से युक्त (भवाम्) हों ।

शम्यां ह नाम दधिपे मम दिप्सन्ति ये श्रनां ।

रात्री हि तानसुतपा य [त्] स्तेनो न विद्यते यत् पुनर्न विद्यते ॥७

भा०—हे रात्रि ! राजशक्ते ! तू (शम्या ह नाम) अर्थात् 'शत्रुओं' को शमन करने से 'शम्या' इस प्रकार का नाम (दधिपे) धारण करती है । इसलिये (ये) जो पुरुष (मम) मेरे (धना) धनों को (दिप्सन्ति) बलात् मुझ से छीन लेना चाहते हैं, हे (रात्रि !) सबों पर विराजमान ! एवं दुष्टों को दण्ड देनेहारी ! तू (असुतपा) शत्रुओं के प्राणों को संतप्त करने वाली होकर (इंहि) प्राप्त हो (यत्) जिससे जो (स्तेनः) चोर या लुटेरा पुरुष है वह (न विद्यते) राष्ट्र में न रह जाय और (यत्) जिससे (पुनः) फिर दुबारा चोर (न विद्यते) न पैदा हों, या फिर सदा के लिये राष्ट्र में चोर न रहें ।

भद्रासिं रात्रि चमसो न विष्टो विश्वं गोरूपं युवतिर्विभर्षि ।
चक्षुष्मती मे उशती चर्षुषि प्रति त्वं दिव्या न क्षामंसुकथाः ॥८॥

७—(दि०) 'धनाः' इति बहुव्र । (तृ०) रात्रि हिनानः, रात्रिहितानं, 'रात्रीहितानः' इत्यादि नाना पाठाः । (प्र०) 'शम्याह' इति द्विचिन्-कामितः । 'शम्याह नाम तस्ये विमृच्छन्ति योजनाव् ।' इति पैप्प० सं० । रात्रि । हिता । [अथवा—हि । ता ।] नः । सुता । इति द्विचिन्कामितः पठ्याठः । 'अनुतपा' इति द्विचिन्कामितः । (च० ५०) 'यथा स्ते-'; 'यथा पु -' इति द्विचिन्कामितः ।

८—(प्र०) 'नपिष्टो' इति बहुव्र । 'न दिष्टो' इति क्वचिन् । 'दिव्यं' इति सं० पा० । सायणाभिमतश्च । (च०) 'प्रतिष्ठां दिव्यातवमः'

भा०—हे (रात्रि) रात्रि ! राजशक्ते ! तू (भद्रा असि) कल्याण और सुख के देने वाली है । तू (विष्टः) परसे हुए (चमसः न) धातु के समान अन्न से भरपूर है । तू (युवतिः) सदा शक्तिशालिनी होकर (विश्वम्) समस्त (गोरूपम्) पृथ्वी का स्वरूप (विभर्षि) धारण करती है । अथवा (विश्वं) समस्त (गोरूपम्) पृथ्वी पर विद्यमान प्राणियों को (विभर्षि) धारण पोषण करती है । (उशती) कामना करने हारी, अथवा सबको वश करने हारी और (चक्षुन्मती) सब पर अपनी शक्ति रखने वाली होकर (मे) मेरे (वपुषि) सम्बन्धी समस्त प्रजाओं के शरीरों को (दिव्या) दिव्य गुणवाली तेजस्विनी होकर (त्वं) तू और (ज्ञान्) सबकी निवासभूत इस पृथिवी को भी (न प्रति अनुकथाः) कभी त्याग मत कर ।

यो अत्र स्तेन आयत्यत्रायुर्मर्त्या रिपुः ।

रात्रौ तस्य प्रतीत्य प्र श्रीत्राः प्र शिरो वनत् ॥६॥

भा०—(यः) जो (अत्र) अत्र (स्तेनः) स्तेन=चोर और डाकू (अवायुः) पाप, हत्या करने वाला, (रिपुः) शत्रु, (मर्त्यः) पुरुष

अनुकथाः 'अनुकथाः' प्रति त्वंदिषा कश्चा अनुकथा इति च क्वचित् । 'विश्वं गोरूपं युवतिर्विश्विर्षि' इति पैम्प० सं० । भद्रासि राक्षिन्तन-स्तेनसोनुविष्टो इति पैम्प० सं० । 'न उशती' इति क्वचित् । (दि० वृ०) चक्षुन्मती युवतीवरूप । (च०) प्रत्यां दिक्षानत्क्षुद्रुग्धः इति पैम्प० सं० । 'प्रति त्वं दिव्या नक्षत्राग्वनुकथाः' इति द्विदन्ति-कामिनः ।

९—(दि० वृ०) यो नमरात्रिरुत्प वाधति न संदिष्टो सनापति इति लायणाभिमतः । (च०) 'हरत्' इति लायणाभिमतः । युवस्तेनायुत्वं कथमुक्तौ रिपुः (च०) 'प्रगीधत्प्र-' इति पैम्प० सं० ।

(आयाति) आता है (तस्य) उसके (प्रति इत्य) प्रति आकर चा उसे पहचान कर (रात्री) दुष्टों को दण्ड देने वाला राजशक्ति उन चोर, पापी, हत्यारों और जन्तुओं की (ग्रीवाः) गर्दनों को और (शिरः) शिरों को (प्रहनत्) तोड़ दे ।

प्र पादौ न यथायति प्र हस्तौ न यथा शिपत् ।

यो मलिम्लुरुपायति स संपिष्टो अपायति ।

अपायति स्वपायति शुष्के स्थानावपायति ॥१०॥

भा०—वह राजशक्ति उस शत्रु के (पादौ प्रहनत्) दोनों पैर तोड़ डाले, (यथा) जिससे वह (न आयाति) चल न सके । (हस्तौ प्रहनत्) उसके दोनों हाथ तोड़ डाले (यथा) जिससे वह फिर (न अशिपत्) हिंसा या हत्या का कार्य न कर सके । (यः) जो (मलिम्लुः) प्रजा में मारामारी करने वाला, हत्यारा, चोर, डाकू हमारे (उप आयाति) समाप भी आवे (सः) वह (संपिष्टः) खूब पीसा जाकर, खूब दण्डित होकर नाश कर दिया जाय । (अपायति) ऐसा नष्ट किया जाय कि (सु अपायति) अच्छी प्रकार से नष्ट होजावे और वह (शुष्के-स्थानौ) सूखे स्थान, छूट पर या बहे पर टांग कर या उससे बांधकर (अपायति) मारा जाय ।

‘अपायति’-अन्य परिदृष्टों ने ‘भाग जावे’ आदि अर्थ किया है । सो हमारी सम्मति में यह अर्थ यहां उचित नहीं है । क्योंकि ‘अपाय’ शब्द नाश होने अर्थ में रुढ़ है ।

१०—(दि०) ‘यथायतिः’ इति ऋक् । (वृ०) ‘मलिम्लुः’ इति कान्विन् । ‘यथाशिपत्’ इति सायणाभिमतः । (प्र० दि०) प्रपादौ न यत् आहतः प्रहस्तौ न वनाजिपत् । (वृ० ३०) यो मूल्लुरुपायति स संपिष्टो अपायति । इति पैप्प० सं० ।

('शुष्के स्थाणु') 'सूखे स्थान में भाग जावे' । यह अर्थ हितनि और सायणाभिमत है । पर हमारे विचार में—उस सूखे वृक्ष या बड़े से बांध कर उसको मारा जाय, यह अर्थ संगत है जैसे अगले सूक्त के १ न मन्त्र में—'स्तेनं तं वृषदे जहि । उस चोर को खूंट से बांध कर मार । 'शुष्क स्थाणु' और 'वृषद' दोनों एक ही पदार्थ हैं ।

[५०] 'रात्रि' रूप राजशक्ति से दुष्ट दमन करने की प्रार्थना ।

गोपथभरद्वाजावृषी । रात्रिर्देवता । अनुष्टुभः । तसर्वं चक्षम् ।

अत्र रात्रि तृष्टधूममशीर्षाणमहिं कणु ।

अच्यौ वृकस्य निर्जह्यास्तेन तं वृषदे जहि ॥१॥

भा०—(अध) और हे (रात्रि) राजशक्ते ! दण्डदात्रि ! तू अहिम् कुटिलगामी अथवा सर्वत्र हत्यारे खूनी पुरुष को (तृष्टधूमम्) प्यास लगाने वाले धूम से दण्डित कर और उसका (अशीर्षाणम्) शिर से रहित कर । उसके शिर को धड़ से अलग करदे । (वृकस्य) जंगल में घेर कर मारने वाले या दूसरों का माल चोरने वाले, या रास्ता रोकने वाले, डाकू, चोर लोगों के (अच्यौ) दोनों आंखों को (निर्जह्याः) सर्वथा निकलवा डाल, उपाद दे । (तेन) और उसी अपराध के कारण (तं) उसका (वृषदे) वृक्ष के बने खूंट के साथ बांधकर (जहि) दण्ड दे ।

ये ते राज्यनृवाहस्तीक्ष्णशृङ्गाः स्वाशवंः ।

तेभिर्नो अद्य पार्याति दुर्गाणं विश्वहां ॥२॥

[५०] १- (वृ०) 'अक्ष्यौ' अक्षौ, अक्षू, आक्षौ इति नाना पाठाः । (प्र०)

'अन्थ' इति बहुत्र । (प्र०) 'तिष्ठधूम' (वृ० च०)—हनो वृक्षस्य 'निर्जह्या त्वैनं नृपते जहि' । इति पं० सं० ।

२- (वृ०) 'पार्यत्पाति' इति बहुत्र । (दि०) 'शृंग्याश्वासवः' इति पं० सं० ।

भा०—हे (रात्रि) रात्रि ! दृष्टदृष्टि ! राजशक्ते ! (ते) तेरे (ये) जो (अनङ्वाहः) शकट या राजतन्त्र के भार उठाने वाले धुरन्धर (तीक्ष्ण-शङ्गाः) तीखे हिंसासाधन वाले, तीक्ष्ण दृष्ट देने हारे, (स्वाशयः) खूब तीव्रगति वाले, अति तीव्र, बुद्धिमान हैं (तेभिः) उनसे (नः) हमें (विश्वहा) सब प्रकार के (दुर्गाणि) दुर्ग स्थानों, कठिन संकटों को भी (अद्य) सदा (अति पारय) पार करा ।

रात्रिरात्रिमरिप्यन्तस्तरंम तन्व/ चयम् ।

गम्भीरमक्ष्वा इव न तरेयुररांतयः ॥३॥

भा०—(रात्रिम्-रात्रिम्) प्रत्येक राजशक्ति या दृष्ट देने वाली राजव्यवस्था को या उत्तम व्यवस्था को (अरिप्यन्तः) प्रयोग करते हुए हमें लोग (तन्वा) अपने विस्तृत बलसे या (तन्वा) अपने शरीर से (गम्भीरम्) अति गम्भीर कार्यों के भी (तरेम्) पार पहुंच जायं । और (अप्लवाः इव) वे जहाज़ के लोग जिस प्रकार (गम्भीरम्) गहरे जल को नहीं तैर पाते उसी प्रकार (अरांतयः) हमारे शत्रु लोग (न तरेयुः) गम्भीर संकटों को न पार कर सकें ।

यथा श्याम्याकः प्रपतन्नपवान् नानुञ्चिद्यते ।

एवा रात्रि प्र पातय्य यो अस्माँ अभ्ययायति ॥४॥

३—(वृ० च०) अप्र/त्युपा न तरेहुररा०—इति पैप्प० सं० ।

(च०)—‘घायन्ति’ इति क्वचित् ।

४—१ वर्णविपर्ययः । (प्र०) ‘प्रपतन्नपवान्नानु’, ‘प्रपवान्नानु—’, ‘प्रपतन्नपवान्नानु’ इति नाना पाठाः । ‘श्याम्याकः’, ‘श्यामाकः’ इति च क्वचित् । ‘प्रपतन्नपरान्’ इति द्विचनिकामितः । (वृ०) ‘एता वा’ इति इति क्वचित् । (प्र० द्वि०) ‘सान्याकाः प्रपतन्तेरि व नानु—’ इति पैप्प० सं० ।

भा०—(यथा) जिस प्रकार (शान्याकः—श्यामाकः)^१ श्यामाक या सांवा नामक धान (प्रपतन्) गिरकर (अपदान्) उड़ता २ (न अनु-विद्यते) फिर उसका कुछ पता नहीं चलता कि कहां है (एवा) उसी प्रकार, हे (रात्रि) दण्डदात्रि राजशक्ते ! (यः) जो (अस्मान् अभि) हम पर पापाचार, अत्याचार, घात या बलात्कार करना चाहता है उसको भी तू (प्र पातय) ऐसा गिराकर नष्ट करदे कि पता न चले ।

अपं स्तेनं वासो गोअजमुत तस्करम् ।

अथो यो अर्वतः शिरोभिधाय निर्नीपति ॥५॥

भा०—हैं राजशक्ते ! (यः) जो हनारे (वासः) वस्त्रों (उत) और (गो-अजन्) गायों, बकरियों को (निर्नीपति) चुरा ले जाना चाहता है उसके उत (स्तेनम्) चोर को तू (अप) हमसे दूर रख । (अथो) और (यः) जो हनारे (अर्वतः) घोड़ों के (शिरः अभिधाय) शिर बांधकर उनको (निर्नीपति) हर लेजाना चाहता है उस (तस्करम्) चोर को भी (अप) हमसे दूर कर । या पूरी तरह से नाश कर ।

यद्व्या रात्रिं लुभगे विभजन्त्ययो वसुं ।

य [त] देतदस्मान् भोजय्य यथेदन्त्यान्नुपायति ॥६॥

५—(प्र०) 'अपस्तेनं वासो गोरजमुत'—गोरज उत इति नाना पाठः ।

(प्र०) 'वासः' स्तं—इति पठ्याठः क्वचित् । 'अपस्तेनमवालयो गो—'

इति द्विद्विनिवामितः । (च०) 'निनेपति' इति क्वचित् । (द्वि०)

'वस दो' इति द्विद्विनिवामितः ।

६—'यथेदन्त्यानुपायति', 'यथेदन्त्यानुपायति', 'यथेदन्त्यानु-

पायति' इति नाना पाठः । (वृ०) 'तदे—' इति द्विद्विनिवामितः ।

'यदे—' इति सायणान्वितः । (वृ० च०) 'यथेद् दस्मानिनात्तं

यथेदन्त्यान् उपायति' इति पंच० सं० ।

भा०—(यद्) हे (रात्रि) ऐश्वर्यवती ! राजशक्ते ! हे (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्यवति ! तू (वसु) सुवर्णं आदि धनको (विभजन्ती) विनाश करती हुई (आ अयः) हमें प्राप्त हो । (तत्) तत्र (अस्मान्) हमें (एतत्) उस धन को इस प्रकार (भोजय) उपभोग करा कि (यथा) जिस प्रकार वह (इत्) किसी प्रकार (अन्यान्) हमसे अतिरिक्त, हमारे शत्रुओं को (न उपायति) प्राप्त न हो । हम अपने ऐश्वर्य को ऐसे भोग करें कि उससे हमारे शत्रुगण लाभ न उठा सकें । हमारे भोग्य पदार्थों का नज़्मा शत्रुओं को न मिले ।

उपस्ये नः परि देहि सर्वान् रात्र्यनागसः ।

उपा नो अहे आ भञ्जाद्दन्तुभ्यं विभावरि ॥७॥

भा०—हे (रात्रि) ऐश्वर्यवति, राजशक्ते ! रात्रि ! तू (अनागसः) पाप और अपराधों से रहित (सर्वान् नः) हम, सबको (उपसे) तेजसस्वी शत्रु को भस्म करने वाली के अधीन (परिदेहि) कर । और वह (उपा) शत्रुनाशक समिति (नः) हमें (अहे) दिन के समान उज्ज्वल, विज्ञानवान् ब्राह्मणों के अधीन (आभजात्) रखेदे । और (अहः) वह दिन जिस प्रकार जगत् को रात्रि को सौंप देता है उसी प्रकार (अहः) वह अहन्तव्य ब्राह्मणवर्ग हमें पुनः, हे (विभावरि) विशेष दीति ऐश्वर्यवाली (तुभ्यम्) तुम्हें सौंपदे ।

[५१] आत्मसाधना ।

इति श्रुतिः । १ आत्मा । २ शक्ति च देवते । १ मन्त्रान् अनुष्ठुप् । २ त्रिपदा चक्रमध्योष्णिकम् । (१, २ मन्त्रावसाने) द्रव्यं सक्तम् ।

प्रयुतोहमयुतो म अत्मायुतं मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्रमयुतो

। प्राणायुतो मेगानां युतो मे व्यानयुतोऽहं सर्वः ॥१॥

भा०—(अहम्) मैं (अयुतः) तुझसे जुदा न होऊं । (मे आत्मा अयुतः) मेरी आत्मा तुझसे पृथक् न हो । (मे चक्षुः अयुतम्) मेरी आंख पृथक् न हों । (मे श्रोत्रम् अयुतम्) मेरा कान पृथक् नहीं हो । (मे प्राणः अयुतः) मेरा प्राण पृथक् न हो । (मे अपानः अयुतः) मेरा अपान भी पृथक् न हो । (मे ध्यानः अयुतः) मेरा ध्यान वायु भी पृथक् न हो । (अ हं सर्वः) मैं सारा (अयुतः) पृथक् न होकर पूर्ण होकर रहूँ ।

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां

पूज्यां हस्ताभ्यां प्रसूत आ रभे ॥२॥

भा०—(सवितुः) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक परमेश्वर (देवस्य) देव के (प्रसवे) शासन में और (अश्विनोः) दोनों अश्विन स्त्री पुरुषों प्राण और अपान के (बाहुभ्याम्) बाहुओं से और (पूज्याः) सर्व पुष्टिकारक पालक पुरुष के हाथों से (प्रसूतः) मैं प्रेरित होकर (आरभे) तुझ ग्रहण करता हूँ । या (आरभे) अपना कार्य प्रारम्भ करूँ ।

[५२] 'काम' परमेश्वर ।

प्रजाश्रयिः । मन्त्रोक्तः कामो देवता । व्यनक्षत्तन् । १, २, ४ त्रिष्टुभः चतुष्पदा जग्गिक् । ५ उपरिष्ठाद् बृहती । पञ्चर्च सक्तन् ।

कामस्तदग्रे समंवर्तत मनसा रेतः प्रथमं यदासति ।

स कामं कामेन बृहता सयोनी रायस्पोपं यजमानाय धेहि ॥२॥

प्र० द्वि० १०।१२९।४ प्र० द्वि० ॥

भा०—(अग्रे) समस्त सृष्टि के उत्पन्न होने के भी पूर्व में (तत्) वह परमेश्वर ब्रह्म ही (कामः) काम, अर्थात् सृष्टि को उत्पन्न करने की

[५२] १—'सयोनि' इति क्वचित् । (प्र०) 'समवर्तताधि—' इति श्र० ।

इच्छा या कामना करने हारा, स्वयं काम, समष्टि संकल्प रूप (सम्-
 श्रवर्तत) विद्यमान था । (यत्) जिस (मनसः) ज्ञानमय उस ब्रह्म का
 (प्रथमम्) सबसे प्रथम, या सबसे श्रेष्ठ (रेतः) रेतस्, वीर्य, जगत्-
 उत्पादन-सामर्थ्य, तेजस् (आसीत्) विद्यमान था । (सः) वह (कामः)
 काम, कामनामय परमेश्वर अपने (बृहता) बृहत्, बड़े भारी (कामेन)
 काम, सृष्टि उत्पत्ति करने के संकल्प के साथ (सयोनिः) एक ही स्थान पर
 विराजमान रहता है । अर्थात् वह महान् संकल्प, और संकल्प करने वाला
 भिन्न २ न रहकर दोनों एक रूप से ही विद्यमान थे । हे परमेश्वर ! वह तू सृष्टि
 का उत्पादक परमेश्वर (यजमानाय) यजमान, यज्ञशील, दानशील या उपा-
 सक आत्मा, पुत्र्य को (रायः पोषं) ऐश्वर्य की सन्तुष्टि (धेहि) प्रदान कर ।
 त्वं कामु सहस्रासि प्रतिष्ठितो विभुर्भिर्भावा सख आ सखीयते ।
 त्वमुग्रः पृतनासु सासहिः सह औजो यजमानाय धेहि ॥२॥

भा०—हे (काम) काम ! महान् कामनामय कान्तिमय ! प्रभो !
 (त्वं) तू इस संसार में (सहसा) अपने सर्व दमनकारी बल से (प्रति-
 स्थितः) सबसे ऊपर शासकरूप से विराजमान है । तू (विभुः) सर्व
 व्यापक वा विविध रूपों में सृष्टिकर्ता (विभावा) विविध पदार्थों को
 प्रकाशित करने वाला या विशेष कान्ति से प्रकाशमान, (सखीयते) मित्र
 के अभिलाषी आत्मा के लिये (त्वम्) तू (आ) सर्वत्र (सखः) मित्र और
 (पृतनासु) समस्त जीवों में (उग्रः) अति बलवान् होकर (सासहिः) निरन्तर
 उनको वश में व्यवस्थित करने वाला (सहः) बलस्वरूप होकर विद्य-
 मान है । तू (यजमानाय) यजमान, दानशील अपने को तेरे प्रति समर्पण

२—(द्वि०) 'स्रग्वासुपीयते', 'सखासखीयते' इति पाठौ कचित् । 'सुस-
 खासखीयते' इति अ० ५ । ३७ । ३ ॥ पैप्प० सं० । (त्र०)
 सहो नो धन० इति पैप्प० ।

करने वाले, अथवा तुम्हे देव मानकर पूजा करने वाले उपासक आत्मा को (ओजं: धेहि) ओज, पराक्रम प्रदान कर ।

दूराच्चकमानायं प्रतिपाणायार्क्षये ।

आस्मां अशृण्वन्नाशाः कामेनाजनयन्त्स्वः ॥३॥

भा०—(दूरात्) दूर २ तक (चकमानाय) प्रबल कामना या संकल्प करते हुए (प्रतिपाणाय [परिपाणाय]) प्रत्येक पदार्थ पर अपना व्यापार करने में समर्थ (अक्षये) व्यापक, सर्वाधिष्ठातृरूप, या सर्वद्रष्टारूप (अस्मै) इस महान् परमेश्वर की आज्ञाओं को (कामेन) उस महान् कामनोमय संकल्प के बल से (आशाः) समस्त आशा अर्थात् दिशाएं (आशृण्वन्) सर्वत्र श्रवण करती हैं, उसकी आज्ञा को मानती हैं । और उसी (कामेन) कमनीय, कान्तिमय प्रभु के सामर्थ्य से वे (स्वः) सर्वत्र सुखमय लोकों (अजनयन्) बनाती हैं या (कामेन) उसके महान् संकल्प से (स्वः) दूरस्थ तेजोमय लोकों को वे दिशाएं अपने भीतर (अजनयन्) रचना करती हैं ।

कामेन मा काम आगन् हृदयान्दृश्यं परि ।

यदमीषाम्दो मनस्तदैत्प मामिह ॥४॥

भा०—(कामेन) उस कामनामय, संकल्पमय परमेश्वर के द्वारा ही (मा) मुझको भी (कामः) वह काम अर्थात् परस्पर की चाह (आगन्)

३—(द्वि०) 'प्रतिपाणायः' 'प्रतिपाणायं' इति पाठौ क्वचित् । 'प्रतिपाणाय' इति द्विनिः । 'प्रतिपाणायै', (वृ०) आत्मा 'शृण्वन्' (च०) 'जनयन् सङ्' इति षष्प० सं० । सचक्ष्वमानाय अवेपनाय मृत्यवे प्राप्ता आशा अशृण्वन् कामेनाजनयन् पुनः । इति तै० ब्रा० ॥

४—कामेन मे काम आगान्दयो हृदयाद् हृदयं मृत्योः । यदमीषाम्दोः प्रियं तदैत्प मामभिः ॥

प्राप्त होती है जो (हृदयात्) एकहृदय से (हृदयं परि) दूसरे हृदय के प्रति हुआ करती है । इसी प्रकार (अर्मापाम्) मेरे प्रेमी जनों से अतिरिक्त अन्योजनों का (अद्रः मनः) मेरे से परे गया हुआ भी मन या अभिलाषा (तत्) वह (माम्) मुझे (इह) यहां (उप आप्तु) प्राप्त हो ।
यत्कामं कामयमाना इदं कृणुमसि ते हविः ।

तन्नः सर्वं समृध्यतामथैतस्य हविषो वीहि स्वाहा । ॥५॥

भा०—हे (काम) कामनामय प्रभो ! हम (यत्) जिस पदार्थ की कामना करते हुए (तं) तेरी (इदं हविः) यह स्तुति (कृणुमसि) करते हैं । (नः) हमारा (तत्सर्वम्) वह सब (समृध्यताम्) खूब सफल हो । (अथ) और (एतस्य) इस (हविषः) स्तुति को तू (वीहि) स्वीकार कर (स्वाहा) यह हमारी प्रार्थना स्वोक्त हो ।

[५३] 'काल' परमेश्वर ।

भृशुर्दधिः सर्वात्मकः कालो देवता । १-४ त्रिष्टुभः । ५ निचृत्पुरस्ताद् बृहती ।

कालो अश्वो वहति सतरांशिमः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः ।

तमा रोहन्ति कवयो विपश्चित्तस्तस्य चक्रा भुवन्तानि विश्वा ॥१॥

भा०—(अश्वः) जिस प्रकार घोड़ा रथ को खेंच लेजाता है और मनुष्य उस रथ पर चढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार (कालः) काल, वह सर्वज्ञ और सर्वव्यापक, सर्वप्रेरक, महान् परमेश्वर (सतरांशिमः) घोड़े के लगामों के समान सात अन्धनों वाला (सहस्राक्षः) हजारों धुराओं से युक्त (भूरिरेताः) बहुतसे अनन्त लोकोत्पादक वीर्य, साधव्यों से युक्त, हैं । (तम्) उस पर (कवयः) क्रान्तदर्शी प्रज्ञावान् (विपश्चितः) नाना

५-यत् । कानः । इति पदपाठः प्रायः ।

[५३] १-(च०) 'चक्राणि' इति लैन्मनकामितः ।

कर्मों और ज्ञान का संचय करने हारे या उनके जानने वाले विद्वान् (आरोहन्ति) चढ़ते हैं, उस पर आश्रय लेते हैं। (तत्त्व) उसके ही ये (विश्वा भुवना) समस्त भुवन, समस्त लोक, समस्त उत्पन्न प्राणी (चक्रा) उसके महान् रथ में लगे चक्रों के समान गति करते हैं। इससे समस्त लोकों की चक्र या वृत्ताकार गति और सबका चक्र या गोलाकार आकृति का भी वर्णन होगया।

‘सप्तारश्मिः’—सात रश्मियां। प्राणिसंसार में शरीर की घटक सात धातुएं, सप्त रश्मियाँ हैं। संवत्सर में सात ऋतु हैं। शिरोभाग में सात प्राण हैं। सूर्य में रश्मियां किरणें हैं। ज्ञानमय परमेश्वर के सात छन्द हैं इनसे उसने सबको बांधकर बश किया है।

‘सहस्राक्षः’—हज़ार अक्ष, जब समस्त भुवन चक्र हैं तो उस में लगे हजारों धुरे भी संगत हैं। कालात्मक शक्ति में सहस्राँ अक्ष, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, वर्ष आदि अक्ष है। उस काल पर विद्वान् ही बश करते हैं।

अथवा—ईश्वरीय शक्ति की महत्ता दर्शाने के लिये उसको एक बड़े भारी कलाभवन में लगे पुञ्जिन से उपमा देते हैं। वह (कालः) कला रूप (ध्रुवः) पुञ्जिन के समान परमेश्वर (बहति) समस्त विद्व को चलाता है। (सप्तारश्मिः) उसमें सात रासों या पट्टे लगे हैं जिनसे और समस्त चक्र घुमा घूमते हैं। और वह (सहस्राक्षः) हजारों धुरों से युक्त है। अर्थात् सब धुराओं को सात पट्टों के जोरों पर ही चलाता है। भौतिक जगत् के सञ्चालन में पञ्चभूत, महत् और अहंकार ये सात तत्व सप्तारश्मि हैं। वह (अजरः) नित्य कभी भी जीर्ण नहीं होता। वह (भूरिरेताः) बहुत भारी बल वीर्य से संपन्न है। (तन्म कवयः विषश्चितः आरोहन्ति) उस पर क्रान्तदर्शी विद्वान् बश करते हैं, उस पर सदा चढ़ते हैं उस तक पहुंचते हैं। उसके तत्व को यथार्थ

रूप में जानते हैं कि (तस्य विश्वा भुवनानि चक्रा) ये समस्त भुवन, लोक और प्राणि ही चक्र अर्थात् गतिशील चक्र के समान हैं जिनको वह चला रहा है ।

सप्त चक्रान् वहति काल एष सप्तास्य नाभिरमृतं न्वक्षः ।

स इमा विश्वा भुवनान्यञ्जन् कालः स ईयते प्रथमो नु देवः॥२॥

भा०—(एषः कालः) वह काल (सप्त) सात या सर्पणशील (चक्रान्) चक्रों को या निरन्तर गतिशील, कर्तारूप जीवों को (वहति) प्रेरित करता है । इसी प्रकार सप्तसररूप काल निरन्तर गतिशील, चक्र के समान पुनः २ लौट कर आने वाली सात अणुओं को धारण करता है । (यस्य) उसके (सप्त नाभिः) सात नाभियां हैं । उसका (अक्षः) अक्षधुरा या व्यापन सामर्थ्य (अमृतम्) अमृत, कभी नष्ट न होने वाला है । (सः) वह सर्व संहारकारी (इमा) इन (विश्वा) समस्त (भुवनानि) भुवनों-लोकों और चराचर के सत् पदार्थों को (अञ्जत्) चलाता हुआ उनमें व्याप्त रहता हुआ और उनको प्रकाशित करता हुआ (कालः) कलामय एंजिन के समान साक्षात् कालरूप परमेश्वर (सः) वह (ईयते) जाना जाता है ।

अध्यात्म में—वह आत्मा ज्ञानकर्ता होने से काल है । उसके सात नाभि हैं । स्वयं अक्ष अर्थात् सबका अध्यक्ष अमृत, चैतन्य रूप है । वह समस्त 'भुवन' प्राणों को प्रेरित करता है, ऐसा जाना जाता है ।

पूर्वः कुम्भोद्वि काल आहितस्तं वै पश्यामो बहुधा नु सन्तः ।

स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यङ्ककालं तमाहुः परमे व्योमन् ॥३॥

२—(वृ० च०) 'न्यञ्जन् कालः०' इति क्वचित्, पंप्प० सं० । (प्र०)

'चक्रान्' इति (द्वि०) 'अमृतेतन्वक्षः' सायणाभिगतः ।

३—(द्वि०) 'निञ्जन्' इति पंप्प० सं० हिन्दन्यभिमतश्च ।

भा०—(काले अधि) उस सर्वत्र, सर्वप्ररेक, महान् परमेश्वर के आधार पर (पूर्णः) वह संपूर्ण (कुम्भः) सबको आवरण करने वाला आकाशमय ब्रह्माण्ड (आहितः) रक्खा है यह उसी काल की शक्ति पर आश्रित है । (तं) उस सर्वाश्रय प्रभुको हम (सन्तः) सज्जन पुरुष (तु) ही (बहुधा) बहुत रूपों में (पश्यामः) देखते हैं । (सः) वह (इमा) इन (विश्वा भुवनानि) समस्त भुवनों, लोकों और परस्पर पदार्थों में (प्रत्यङ्) व्यापक है । वह (परमे) सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च (व्योमन्) व्योम, आकाश में भी विद्यमान है (तम्) उसको (कालम् आहुः) 'काल' नाम से विद्वान् लोग कहते हैं ।

स एव सं भुवनान्यान्यभरत् स एव सं भुवनानि पयैत् ।

पिता सन्नभवत् पुत्र एषां तस्माद् वै नान्यत् परमस्ति तेजः॥४॥

भा०—(सः एव) वह कालस्वरूप परमेश्वर ही (भुवनानि) समस्त लोकों को (सम् आभरत्) भली प्रकार पालन पोषण करता या उत्पन्न करता है । और (सः एव) वह ही (भुवनानि) समस्त उत्पन्न लोकों में (परि एतु) व्यापक है । वह (एषां) इन लोकों का (पिता सन्) पिता, पालक होकर (पुत्रः) पुत्र भी (अभवत्) है । अर्थात् काल सबका पालक होने से पिता कहाता है, सर्वत्र पुत्र अर्थात् जीवों का भी त्राण करने में समर्थ होने से 'पुत्र' कहाता है । अथवा इन सूर्य चन्द्र आदि की गति से दिन, मास, ऋतु, पक्ष संवत्सर आदि उत्पन्न होते हैं इस नाते वह काल ही इन लोकों का पुत्र भी है (तस्मात् वै) निश्चय ही उससे (अन्यत्) दूसरा (परम्) उत्कृष्ट (तेजः) वीर्य सामर्थ्य और तेज (न अस्ति) नहीं है ।

४-(प्र० द्वि०) 'स एव सन्' इति हिटनिकामितः । (द्वि०) 'स एव परीयैः इति पौष० सं० ।

कालोऽसू दिवमजनयत् काल इमाः पृथिवीरुत ।

काले हं भूतं भव्यं चेपितं हृ वि तिष्ठते ॥५॥

भा०—(कालः) काल ही (असू) उस (दिवम्) द्यौलोक, आकाश और उसमें विद्यमान समस्त लोकों को (अजनयत्) उत्पन्न करता है । (इमाः पृथिवीः) इन समस्त पृथिवियों, विशाल सूर्य आदि लोकों को (उत) भी (कालः) काल (अजनयत्) उत्पन्न करता है । (भूतं) भूत, उत्पन्न जगत् या अतीत, और (भव्यम् च) भव्य, आगे भविष्यत् में उत्पन्न होने वाला जगत् दोनों (काले) काल में ही विद्यमान रहते हैं । (इपितम्) और समस्त गतिमान् पदार्थ उसी काल द्वारा प्रेरित होकर (वि तिष्ठते) विविध दशाओं में स्थित हैं ।

कालो भूतिमसृजत काले तपति सूर्यः ।

काले हृ विश्वा भूतानि काले चक्षुर्वि पश्यति ॥६॥

भा०—(कालः) काल (भूतिम्) इस समस्त जगत् की सत्ता, उस की सृष्टि, स्थिति को या समस्त जगत् की विभूति नश्वर विध ऐश्वर्यों को (असृजत्) बनाता है । (सूर्यः) सूर्य भी (काले) काल में अर्थात् कालके अधीन होकर (तपति) तपता है (विश्वा भूतानि) समस्त प्राणीगण (काले हृ) निश्चय से 'काल' के ही अधीन हैं और (चक्षुः) देखने वाला इन्द्रिय चक्षु भी उस (कालः) काल के अधीन होकर (वि पश्यति) विविध पदार्थों को देखता है ।

काले मनः काले प्राणः काले नामं सुमाहितम् ।

कालेन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥७॥

५—'हविस्तिष्ठते' इति बहुव्र । (द्वि०) 'कार्त्तनां पृथिवीरुत' इति पैप्प०

सं० । (तृ०) 'कालेन' इति द्विअनिकामितः ।

६—(प्र०) 'भूमिमसृजत' इति द्विअन्यभिमतः । 'भूतम्' इति पैप्प० सं० ।

भा०—(काले) काल रूप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् सर्वप्रेरक परमेश्वर में (ननः) मन, सब मनन करने वाले घन्तःकरण सीमित हैं। (काले) उसी काल, परमेश्वर में (प्राणः) समष्टि प्राण विद्यमान हैं। (नाम) समस्त पदार्थों के समस्त नाम भी (काले) उस सर्वज्ञ परमेश्वर में ही (सम् अहितम्) भली प्रकार विद्यमान हैं। (आगतेन) अनुकूल रूपसे घाये हुए (कालेन) उस काल से ही (सर्वाः इनाः) ये समस्त (प्रजाः) प्रजाएं (नन्दिन्ति) समृद्ध सम्पन्न और आनन्द प्रसन्न होती हैं।

काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्मं समाहितम्।

कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत् प्रजापतेः ॥८॥

भा०—(काले) कालरूप, सर्वज्ञ परमेश्वर में ही (तपः) समस्त तप, वीर्य, सत्यबल विद्यमान है। (ज्येष्ठं) सबसे बड़े, सर्वोपरि बल (काले) उस काल में आश्रित है। (ब्रह्म) ब्रह्म, वेदज्ञान (काले) उस काल में ही (समाहितम्) विद्यमान है। (कालः) वह काल (ह) ही (सर्वस्य ईश्वरः) सबका ईश्वर, मालिक है (यः) जो (प्रजापतेः) प्रजा के पालक राजा और (प्रजापतेः) सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि तारागणों के के प्रतिपालक हिरण्यगर्भ नाम प्रजापति का भी (पिता आसीत्) पिता रहा।

तेनंपितं तेनं जातं तद् तस्मिन् प्रतिष्ठितम्।

कालो ह ब्रह्मं भूत्वा विभर्ति परमेष्ठिनम् ॥९॥

भा०—वह जगत् (तेन) उस परमेश्वर ने (इष्टितम्) चला रखा है। (तेन) उसके द्वारा ही (जातम्) उत्पन्न हुआ है। (तद्) और वह (तस्मिन्) उस कालरूप परमेश्वर के आश्रय पर ही (प्रतिष्ठितम्) प्रतिष्ठित है। (कालः ह) वह काल ही निश्चय से (ब्रह्म) ब्रह्म

स्वरूप होकर (परमेष्ठिनम्) परम सत्य पर आश्रित समस्त ब्रह्माण्ड को (त्रिमूर्ति) धारण कर रहा है ।

कालः प्रजा असृजत कालो अग्नें प्रजापतिम् ।

स्वयम्भूः कश्यपः कालात् तपः कालाद्जायत ॥१०॥

भा०—(कालः) कालरूप परमेश्वर ही (प्रजाः असृजत) समस्त प्रजाओं का सर्जन करता है । (कालः) वही काल परमेश्वर (प्रजापतिम्) प्रजा के पालक हिरण्यगर्भ कां (असृजत्) उत्पन्न करता है (स्वयम्भूः) स्वयं अपनी शक्ति से विद्यमान (कश्यपः) स्वयंप्रकाश, स्वयं सबका दृष्टा सूर्य (कालात्) काल से उत्पन्न हुआ और (तपः) तप, तपनशक्ति भी (कालात् अजायत) काल से ही उत्पन्न होती है ।

[५४] कालरूप परमशक्ति

शुक्रार्चिः । कालो देवता । २ त्रिपदा गायत्री । ५ त्र्यवसाना पृष्ठा विराड् अष्टिः ।
शेषा अनुष्टुभः । पञ्चच सूक्तम् ।

कालादापः समभवन् कालाद् ब्रह्म तपो दिशः ।

कालेनेदिति सूर्यः काले नि दिशते पुनः ॥११॥

भा०—(कालात्) काल, परमेश्वर से ही (आपः) आप, जल (सम् अभवन्) उत्पन्न होते हैं । (कालात् ब्रह्म) उसी काल से ब्रह्म, वेद अथवा यह बृहन् ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है उसीसे (तपः दिशः) तपः, तापकारी अग्नि, तपस्या और सत्यपालन आदि धर्माचरण और दिशाएं भी उत्पन्न हुईं । (कालेन सूर्यः उदेति) परमेश्वर के बल से सूर्य उदय होता है और वह (पुनः) फिर (काले) काल रूप परमेश्वर पर ही (निदिशते) आश्रित रहता या उसी में अस्त होता है ।

[५४] १—(प्र०) 'समभवन्' इति वचिन् । (द्वि०) 'व्रततपो' इति सायणाभिमतः ।

कालेन वातः पवते कालेन पृथिवी मही ।

द्यौर्मही काल आहिता ॥२॥

भा०—(कालेन) उस काल परमेश्वर के बल से (वातः पवते) वायु बहता है (कालेन) काल के बल से (मही पृथिवी) यह बड़ी पृथ्वी (पवते) गति कर रही है । और (काले) उसी काल रूप परमेश्वर के आश्रय में (मही द्यौः आहिता) बड़ी विशाल द्यौः, नक्षत्र चक्र भी आश्रित है ।

कालो ह भूतं भव्यं च पुत्रो अजनयत् पुरा ।

कालादृचः समभवन् यजुः कालादजायत ॥३॥

भा०—(पुत्रः कालः) पूर्व सूक्त के ४थे मन्त्र में कहा पुत्र रूप काल (ह) निश्चय से (पुरः) सबसे प्रथम (भूतं भव्यं च अजनयत्) भूत, अतीत और भविष्यत् काल को उत्पन्न करता है । अर्थात् लोकों की गति द्वारा निर्धारित काल में से भूत और भविष्यत् दो कालों का ज्ञान उत्पन्न होता है । (कालात्) काल रूप ज्ञाननय परमेश्वर से (अचः) ऋग्वेद के मन्त्र (सम् भभवन्) प्रादुर्भूत हुए और (यजुः) यजुर्वेद के मन्त्र भी (कालाद्) उस काल परमेश्वर से ही (अजायत) उत्पन्न हुए ।

कालो यज्ञं समैरयदेवेभ्यं भागमहितम् ।

कालं गन्धर्वाणिरसः काले लोका प्रतिष्ठिताः ॥४॥

३—'कालेह', 'कालेह' इति च वदुत्र । (द्वि०) अजनयत्पुरः, (वृ०)

'भवत् यजुः' इति वद्विन् । (प्र०) काले, (द्वि०) 'मन्त्रो जज्ञः'

इति लैन्तनः । 'अनयत् पुनः' इति द्विवचनान्वितः ।

४—(प्र०) 'स समैरयदेवे-' इति वदुत्र । 'कालो वदः समीरयत्' इति पं० सं० ।

भा०—(कालः) काल ही (यज्ञम्) यज्ञ, आत्मा को, संवत्सर को, ब्रह्माण्ड के उस व्यवस्थित स्वरूप को (सम् प्रेरयत्) प्रेरित कर रहा है जो (देवेभ्यः) देव, दिव्य शक्तियों का (अक्षितम्) अक्षय रूप से (भागम्) भाग-आश्रय है । अर्थात् जिस यज्ञ के ऊपर ही देवगण जीते हैं । (गन्धर्वा-प्सरसः काले प्रतिष्ठिताः) गन्धर्व और अप्सराएं, स्त्री और पुरुष, नर, मादा सभी काल के आश्रय पर विराजते हैं और (लोकाः काले प्रतिष्ठिताः) लोक भी काल में प्रतिष्ठित हैं । समस्त लोक, प्राणि कालवश जी रहे हैं ।


कालेयमङ्गिरा देवोर्थर्था चात्र तिष्ठतः ।

इमं च लोकं परमं च लोकं पुण्यांश्च लोकान् विधृतीश्च पुण्याः ।
सर्वान् लोकान् अभिजित्य ब्रह्मणा कालः स ईयते परमो नु देवः ॥५॥

भा०—(काले) उस कालरूप परमेश्वर पर (अयम्) यह (अंगिराः) प्रकाशमान (देवः) देव, सूर्य और (अथर्वा च) अथर्वा वायु (आधिष्ठितः) आश्रित हैं । (कालः) वह सर्वज्ञ, सबका प्रेरक, परमेश्वर (ब्रह्मणा) अपने महान् सामर्थ्य से (इमं लोकं च) इस लोक को (परमं च लोकं च) और उस दूर स्थित उच्च लोक को और (पुण्यान् लोकान् च) समस्त पुण्य लोकों को, समस्त (पुण्याः विधृतीः) पुण्य मर्यादाओं को और (सर्वान् लोकान् अभिजित्य) समस्त लोकों का विजय करके वह (परमः) परम सर्वोच्च (देवः नु) देव (सः) वही (ईयते) जाना जाता है ।

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥

[तत्र नव सूक्तानि, त्रिपष्टिर्नवः]



[५५] परमेश्वर की प्रातः सायं उपासना ।

मृगुक्तेपिः । अग्निदेवता । २ वास्तारपंक्तिः । ५, ६ (प्र० द्वि०) ज्यवसाना पञ्च-
एवा पुरस्ताज्ज्योतिष्मती । ६ (च० च०) ७ (प्र० द्वि०) (?) केषांः स्तिष्ठुमः ।
पट्टचं सूक्तम् ॥

रात्रिरात्रिमप्रयातं भरन्तोश्चायैव तिष्ठते यासमस्मै ।

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिपाम ॥१॥

यजु० ११ । ७५ । अथर्व० ३ । १५ । ८ ॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवान् विद्वान् ! गृहपते ! राजन् ! (तिष्ठते
अश्वाय इव) घुड़साल में निरन्तर खड़े रहने वाले घोड़े के लिये जिस
प्रकार (घासम्) बराबर, बिना प्रमाद के, नित्य घास दिया ही जाता है
उसी प्रकार (रात्रिम् रात्रिम्) प्रतिदिन (अत्रयात्तम्) ताजा, अनीरस
(घासम्) भोज्य जल आदि पदार्थ (अस्मै) साक्षात् तेरे लिये (भरन्तः)
लाते हुए हम (ते प्रतिवेशाः) तेरे पड़ोसी लोग (इषा) अन्न और
ज्ञान से और (रायः पोषेण) धनैश्वर्य की पुष्टि द्वारा (मदन्तः) आनन्द
प्रसन्न रहते हुए (मा रिपाम) कभी द्वेषित न हों । जहाँ 'रात्रिरात्रिम-
प्रयात्रम् भरन्तः' पाठ है वहाँ (अत्रयात्रम्) निरन्तर, बिना चूक ।

[५५] १—'अप्रयात्रम्', इति यजुः । सायणाभिमतश्च । 'अप्रयात्रम्' इति, पँप्प०
सं० । 'विश्वाहातंसदमिद् भंरमाश्वाद्येव तिष्ठते जातवेदः । इति अथर्व०
३ । १५ । ८ ॥ (प्र०) 'भरन्तो' इति क्वचित् । (च०) 'मृषां' इति
क्वचित् । (प्र०) 'अहरहरप्रयात्रं' । (च०) 'अग्नेमाते' इति
यजु० । विश्वाहाते सदमिद् भंरमाश्वाद्येव तिष्ठते जातवेदः मा० गृ० सू०
(प्र०) 'अप्रयात्रं', (द्वि०) 'वासमग्ने' इति पँप्प० सं० ।

या ते वृषोर्वात इपुः सा ते एषा तया नो मृड ।

रायस्पोपेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥२॥

भा०—हे विद्वन् ! अग्ने ! (या) जो (ते) तेरी (वसोः) वसु, धन के (वाते) प्राप्त करने में (इपुः) इच्छा है । (सा ते एषा, वह तेरी यह पूर्ण है । (तया) उससे (नः) हमें (मृड) सुखी कर । अथवा पाठान्तर में (या ते वसोः वाचः इपुः सा ते एषा, तया नः मृड) हे विद्वन् ! तुम्ह वसु-विद्वान् की जो वाच्=वाणी की इपु=प्रेरणा है, वह यह है उससे हमें सुखी कर । अथवा—(या) हे ईश्वर ! जो (वसोः) सबको वास देने हारे (ते) तेरी (वातः) वायु रूप (इपुः) सब प्राणियों को चलाने हारी शक्ति है (सा) वह (ते) तेरी (एषा) यह प्रयत्न दक्षिणी है । (तया) उस शक्ति से (नः) हमें सुखी कर । और हे (अग्ने) ज्ञानवान् ! प्रकाशस्वरूप ! (ते प्रतिवेशाः) तेरे पड़ोसी या तेरे आश्रय में रहने वाले हम उपासक (इषा रायः पोपेण) अन्न और धनैश्वर्य की पुष्टि से (सम्मदन्तः) आनन्द प्रसन्न होते हुए (मा रिषान्) कभी बलेशित न हों ।

सायंसायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातःप्रातः सौमनसस्य दाता ।

वसार्थसोर्वक्षुदानं एषि वृथं त्वेन्ध्यानास्तुन्वं/ पुषेम ॥३॥

भा०—हे परमेश्वर ! हे गृहपते ! (नः) हमारे गृह का पालक होकर (अग्निः) ज्ञानवान् प्रकाशवान् परमेश्वर (सायम् सायम्) प्रत्येक सायंकाल और (प्रातः प्रातः) प्रत्येक प्रातःकाल, अर्थात् शाम सेबरे,

२—'यातेवस्नेर्मीऽश्पसात', 'वाच इपुः सात', 'यात इपुः सात', 'वातेर्वतो वातैश्पसात' श्लादि नाना पाठाः ।

३—(मृ०) 'वसुदानान एषि' इति द्वित्वनुमितः पाठः । वसुनाः । नः इति च द्वित्वनिकामितः पठपाठः ।

(सौमनसस्य) उत्तम चित्त, उत्तम संकल्पवान् मन, स्थिति अर्थात् सुख, स्वस्थता का (दाता) देने वाला है । (वसोः वसोः) प्रत्येक प्रकार के ऐश्वर्य का तू (वसुदानः) प्रदाता (एधि) हो (वयम्) हम (त्वा इन्धानः) तुम्हे प्रज्वलित करते हुए, तेरे गुणों का प्रकाश करते हुए (तन्वं पुपेम) अपने शरीर को पुष्ट करें ।

प्रातःप्रातर्गृहपतिर्नो अग्निः सायंसायं सौमनसस्यं दाता ।

वसोर्वसोर्वसुदानं एधीन्धानास्त्वा शतं हिमा ऋधेम ॥४॥

भा०—(नः गृहपतिः अग्निः) हमारे गृहों का पालक अग्नि, ज्ञानवान् विद्वान् और ईश्वर (प्रातः प्रातः सायं सायम्) प्रति प्रातः सायम् (सौमनसस्य दाता) शुभ चित्त, विचार और सुख का प्रदाता है । वह (वसोः वसोः वसुदानः) प्रत्येक ऐश्वर्य का उत्तम रूप से दान करने वाला (एधि) रहे । हे अग्ने ! ईश्वर ! हम (त्वा) तुम्हें (इन्धानाः) प्रज्वलित करते हुए (शतं हिमाः^१) सौ वर्षों तक (ऋधेम) समृद्ध हों, बढ़ें ।

अपश्ना दग्धानस्य भूयासम् ।

अन्नादायान्नपतये रुद्राय नमो अग्नये ।

सुभ्यः सुभां मे पाहि ये च उभ्याः संभासदः ॥५॥

भा०—हे परमेश्वर ! मैं (दग्धानस्य) दग्ध, जीर्ण अन्न के (अपश्ना) पीछे न (भूयासम्) रहूँ । अर्थात् मैं मंदाग्नि न रहूँ प्रत्युत

४—(च०) 'खेम' इति क्वचित् ।

१. शं तं । हिमाः इति सायणाभिमतः पदपाठः ।

५—(वृ०) 'अन्नादयो' इति प्रायः । (प्र०) दग्धान्तरकेति क्वचित् ।
'अपश्नादग्धानस्या । इति सिट्न्त्यनुमतः ।

मेरा अन्न सदा उत्तम रीति से जीर्ण हो । (अन्नादाय) अन्न को स्वीकार करने वाले, (अन्नपतये) अन्न के परिपालक (रुद्राय) दुष्टों को रूलाने वाले (अग्नये) ज्ञानवान् दुष्ट संतापक राजा के लिये (नमः) नमस्कार है ।

हे राजन् ! तू (सम्यः) स्वयं सभा में सबसे उत्तम है । तू (मे सभां पाहि) मेरी सभा का पालन कर और जो (सभासदः) सभा में विराजने वाले (सम्याः) सभा में साधु तिव्रान् पुरुष विद्यमान हैं उनकी भी तू (पाहि) रक्षा कर ।

त्वमिन्द्रा पुरुहूत विश्वभायुर्व्यश्नवत् ।

अहंरहर्वलिभिर्त्तु हरन्तोश्चायेव तिष्ठते घासमग्ने ॥६॥

भा०—हे (पुरुहूत) बहुत से राजाओं से आदर पूर्वक निमन्त्रण करने योग्य या प्रजाओं द्वारा अपनी आपत्तियों के अवसर पर बुलाये या पुकारे जाने वाले राजन् ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् राजन् ! तू अपने (विश्वम् आयुः) सम्पूर्ण जीवन का (वि अन्नवत्) भोग कर । और (अहः अहः) प्रतिदिन (अश्वाय इव) अश्व के निमित्त चारे के समान, (घासम्) नाना खाद्य और उपभोग्य पदार्थ को हे (अग्ने) अग्रणी नेतः ! राजन् ! तुम्हें (तिष्ठते) सदा जागृत होकर रक्षार्थ खड़े रहते हुए (ते) तेरे लिये (वलिम् इत्) बलि या राष्ट्र करक रूप में (हरन्तः) लाते हुए तुम्हें सदा पुष्ट करते रहें ।

६—(प्र०) 'त्वाभिन्द्र' इति क्वचित् । 'पुरुहूत्या' (तु०) 'वणिमित्ये' 'नित्ये' वल्न् इतते इत्यादि पा० । (प्र० द्वि०) 'पुरुहूय' व्यश्रुयन् इति द्विदिनि कामितः ।

सूक्तमन्य प्रथम द्वितीय या रेचार्द्धः द्वयस्यपुनः पाठेन अत्रमेकां सप्तमी मन्थन्ते केचित् । तदसत् । तेषां वाजुक्ण्या महर्चं सक्त यक्ष्युपेयते ।

इस सूक्त में राजा को अरव से उपमा दी है। अरव भी राष्ट्र की गज शक्ति का प्रतिनिधि है। जैसे उत्तम अरव सदा खड़ा रहता है उसी प्रकार राजा भी सदा खड़ा ही रहता है वही कभी सोते या प्रमादी नहीं हो सती राष्ट्रवासी उसको बराबर कर के रूप में अन्न आदि नान्य पदार्थ प्रदान करें। यह सूक्त विद्वान्, राजा, परमेश्वर और अत्यात्म में आत्मा पर भी है।

[५६] विद्वान् को अप्रमाद का उद्देश

यन्मृच्छिः । दुःखतारुणो देवः । विन्दुनः । इदं सुतम् ॥

यन्मस्य लोकादध्या चन्वित्थ प्रमंदा मत्यान् प्र गुनञ्चि धीरः ।

एकाकिनां सरथं दासि विद्वान्स्वप्नं निमानो अतुरस्य योनौ ॥१

भा०—हे सुहृ ! तू (यन्मस्य लोकात्) यन्, सब इन्द्रियों को अपने वश करने वाले (लोकात्) लोक, स्थान से (अथि आवन्वित्थ) सब अपने प्राणों पर अधिष्ठाना रूप से उनको वश करने में समर्थ है । तू स्वयं (धीरः) धीर, ध्यानवान् और वारण पोषण में समर्थ होकर (प्रमदा) ब्रह्म हर्ष से (मत्यान्) सब मनुष्यों को (प्र गुनञ्चि) उत्तम मार्ग में लगा । तू (एकाकिना) अकेला ही (विद्वान्) विद्वान् होकर (अतुरस्य) केवल प्राणों में रमण करने वाले विषय विहासी सुहृ के (योनौ) आश्रय में (स्वप्न) स्वप्न आलस्य प्रमाद को जानता हुआ स्वयं (सरथम्) अपने वेग से अपने अन्तरात्मा के आनन्द रस सहित (दासि) जीव न्यायन करता है ।

[५६] १—मत्यान् 'मत्यान्' इति वृत्तिः । 'प्रमदा' इति लान्प्रसङ्गः । प्रमदाः

लिङ् इति लानः ॥

अर्थात् यम नियम का पालक पुरुष अन्वों को सुप्रसन्न चित्त होकर भी सन्मार्ग में प्रेरित करे और प्रमाद को केवल प्राणपोषकों का ही जान कर स्वयं अफेला, ज्ञानवान होकर जीवन बितावे ।

वन्धुस्त्वान्ने विश्वचया अपश्यत् पुरा रात्र्या जनितोरेके अहिं ।
ततः स्वप्नेदमध्या बभूविथ भिपरभ्यो रूपमपगूडमानः ॥२॥

भा०—हे स्वप्न ! आलस्य ! (विश्वचयाः) समस्त प्रकार के रोगों को संचय करने वाला (वन्धुः) और शरीर की क्रियाशक्ति को बांधने वाला कारण (अग्ने) प्रथम (त्वा) तुझको यदि (रात्र्याः जनितोः पुरा) रात्रि के होजाने के पूर्व ही (अपश्यत्) दिखाई दे जाता है और या (एके अहिं) किसी एक दिन के अवसर पर दीख जाता है, (ततः) तबसे हे (स्वप्न) स्वप्न ! (भिपरभ्यः) चिकित्सकों से भी अपने (रूपम्) स्वरूप को (अपगूडमानः) छिपाता हुआ, तू (इदम्) ऐसा (अधि आ बभूविथ) प्रबल होजाता है कि तेरी चिकित्सा करनी कठिन हो जाती है ।

शरीर में रोग सञ्चय हो जाने पर आलस्य की वृद्धि हो जाती है ।
इससे दिन में या सायंकाल में ही निद्रा और स्वप्न होने लगते हैं ।
उससे वह रोग ऐसा हो जाता है कि वैद्य भी उसका स्वरूप नहीं जान पाते ।

- २—(च०) 'भिपरभ्यरूप-' इति बहुव्र । (प्र०) 'वन्धुस्त्वा' 'वधस्त्वा'
इति क्वचित् । 'तमः स्व-', 'तव=स्व' इति क्वचित् । (द्वि०)
'विश्वचयाः' इति द्वित्रिन्नामितः पाठः । 'विश्वचयापश्यत्' (वृ०)
'ततः । स्वप्नेनमध्याचभायथ' इति पैप्प० सं० ।

बृहद्वावासुरेभ्योधि देवानुपावर्तत महिमानमिच्छन् ।

तस्मै स्वप्नाय दधुराधिपत्यं त्रयस्त्रिंशसः स्वप्नानशानाः ॥३॥

भा०—(बृहद्गावा) वह विशाल गति वाला या वहाँ २ को भी प्राप्त होने वाला, स्वप्न, आलस्य, प्रमाद (असुरेभ्यः अधि) केवल प्राणों में रमण करने वाले विलासी पुरुषों से चलकर (देवान्) ज्ञानवान्, इन्द्रियों पर विजयशील, जितेन्द्रिय पुरुषों को भी मानो (महिमानम् इच्छन्) उनपर भी महत्व, अपना या प्रभुत्व चाहता हुआ (उप अवर्तत) प्राप्त होता है । वे (त्रयस्त्रिंशसः) तैंतीसों देवता जो (स्वः ज्ञानशानाः) सुखका या प्रकाश का भी भोग करते होते हैं वे भी (तस्मै) उस (स्वप्नाय) 'स्वप्न' वृत्ति को ही (आधिपत्यं) आधिपत्य प्रभुत्व (आदधुः) प्रदान करते हैं ।

अर्थात् अध्यात्म में वह निदा कर्मेन्द्रियों की थकावट से उत्पन्न होकर देव अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों पर भी आ जाता है । शरीर के तैंतीसों तत्व सुख को भोग करते हुए स्वप्न के वश हीजाते हैं ।

नेतां विदुः पितरो नोत देवा येषां जल्पिश्चरत्यन्तरेदम् ।

त्रिते स्वप्नमदधुरापत्ये नर आदित्यासो बरुणानुशिष्टाः ॥४॥

३—(प्र०) 'बृहद्गावा' इति क्वचित् । 'बृहद् गवा'—इति शं० पा० अनु-
नितः । 'बृहद्गावानु'—इति पैप्प० सं० । (दि०) ज्यावसेत्न इति
क्वचित् । 'मिच्छन्' इति पैप्प० सं० । 'त्रयस्त्रिंशसः । सः । स्व—' इति
क्वचित् पदपाठः ।

४—(प्र०) 'नेतां', (च०) 'अल्पेन' (दि०) 'अवान्तरेदं' इति
क्वचित् । अल्पेन पैप्प० सं० । (दि०) 'जल्प्याश्च', (वृ०)
'त्रिते स्वप्नमदधुरापत्ये प्रतेनरा आदि—' इति पैप्प० सं० । 'देषां' इति
द्विन्द्वननुनितः ।

भा०—(पितरः) पितृगण (उत) और (देवा) देवगण भी (एतां न विदुः) इस निद्रावृत्ति को नहीं जानने (येषां) जिनकी (जल्पिः) परस्पर चर्चालाप (इदम्) यह, इस आत्मा के (अन्तरा) भीतर (चरति) चला करती है । (आदित्यासः नरः) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष (वरुणेन अनुशिष्टाः) सर्वश्रेष्ठ परमात्मा से उपदेश प्राप्त करके (स्वप्नम्) आलस्य प्रमादयुक्त स्वप्न को (आप्ये त्रिते) आप्तों के हितकारी त्रित, तीनों वेदों के ज्ञाता पुरुष पर, या आप्त=आत्मा के हितकारी (त्रित) ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और मन सब पर वश करने वाले प्राण में (आदधुः) धारण करते हैं ।

यस्य क्रूरमभजन्त दुष्कृतोस्वप्नेन सुकृतः पुण्यमायुः ।

स्वर्गमदति परमेण बन्धुना तप्यमानस्य मनसोवि जज्ञिये ॥५॥

भा०—(दुष्कृतः) दुष्ट काम करने वाले पापभागी लोग (यस्य) जिस प्रमाद के (क्रूरम्) क्रूर फल को (अभजन्त) भोगते हैं और (सुकृतः) उत्तम काम करने वाले पुण्यात्मा लोग (अस्वप्नेन) अस्वप्न अर्थात् निद्रा में न सोते रहने के कारण ही (पुण्यम् आयुः अभजन्त) पुण्य आयु, दीर्घ जीवन प्राप्त करते हैं । हे स्वप्न ! तू जब (तप्यमानस्य मनसः) तपस्या करने वाले के मन पर भी (अधि जज्ञिये) अपना वश कर लेता है तब (परमेण) अपने उच्च कोटि के (बन्धुना) बन्धनकारी स्वरूप से तू (स्वः) समस्त ज्ञान या प्रकाश को भी (मदसि) धुन्वला या मलिन कर देता है ।

५—(प्र०) 'क्रूरमपचन्त' 'अभचन्त,' 'असन', इति च क्वचित् । 'व्यस्य क्रूरमभिजन्त दुष्कृते स्त्र' इति पैप्प० सं० ।

१. 'मदसि' । मदी हर्षलेपनयोः (स्वादिः) । वत्र ग्लेपनार्थः ।

विद्म ते सर्वाः परिजाः पुरस्ताद् विद्म स्वम्न यो अधिपा इहा तै।
यशस्विनो नो यशसेह पांह्याराद् द्विषेभिरप याहि दूरम् ॥६॥

भा०—हे (स्वप्न) स्वप्न, निद्रालस्य ! (ते) तेरे (सर्वाः) सब (परिजाः) साथ २ उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों और दुष्परिणामों को हम (पुरस्तात्) पहले ही से (विद्म) जानें (यः) जो (ते) तेरा (अधिपाः) अधिष्ठाता तुझे अपने वश में रखने वाला है, उसको भी (विद्म) हम जानते हैं । (इह) इस लोक में, यहां (नः) हम (यशस्विनः) यशस्वी पुरुषों को (यशसा) यश या भोग्य, उपादेय या वित्तोदकारी अंश से (पाहि) पालन कर । और (द्विषेभिः) अपने अप्रीति कर, बुरे अथवा (विषेभिः) अपने बन्धनकारी अंशों सहित तू (दूरम् याहि) दूर चला जा ।

[५७] आलस्य प्रमाद को दूर करने का उपाय ।

यमं अग्निः । दुस्वप्ननाशनो देवता । १. अनुष्टुप् । ३. अथर्वाना चतुष्पदा विष्टुम् ।
४. उष्णिग् बृहतीगभां विराड् शकतीन । ५. अथर्वाना पन्चपदा परशाह्वरातिज्गती ।
पन्चनं सुक्तम् ।

यथा कलां यथा शफं यथरीं संनयन्ति ।

एवा दुस्वप्न्यं सर्वमग्निं सं नयामसि ॥१॥ अथर्व० ६ । ४६ । ३ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (कलान्) एक २ कला करके और (यथा शफं) जिस प्रकार एक २ चरण करके और (यथा ऋणम्) जिस प्रकार थोड़ा २ करके पूरा ऋण (संनयन्ति) चुका देते हैं (एवा) उसी प्रकार

६—(च०) द्वेषिभिः, 'द्विषेभिः', 'द्वेषेभिः', इति पाठः । 'द्विषेभिः' ।
इति सायणः । 'परिजाः' उदत्तिन्धानमिति पीठ० ल० ३० । 'काराद् वि-
षेभिः' इति ऐंष्य० सं० ।

[५७] १—'सर्वमाग्ने' इति सायणान्वितः पाठः ।

(सर्व) सब (दुःस्वप्न्यम्) दुःखकारी स्वप्न या कष्ट पूर्वक शयन की पीड़ा को हम (अप्रिये) अपने अप्रिय द्वेषयुक्त पुरुष पर (सं नयामसि) उसी के निमित्त त्याग दें ।

अथवा जिस प्रकार एक २ कला करके चन्द्र नामशेष हो जाता है और जिस प्रकार एक २ पैर रखते २ मार्ग तय हो जाता है और जिस प्रकार थोड़ा २ करके ऋण चुक जाता है उसी प्रकार हम आलस्य त्याग दें । दुःखकारी आलस्य को हम थोड़ा २ करके ऋण के समान सब त्याग दें और उसे अपने शत्रुओं के लिये रहने दें । वे आलस्य में फँस कर कष्ट उठावें ।

सं राजानो अगुः समृणान्यगुः सं कुष्ठा अगुः सं कला अगुः ।

समस्मासु यद्दुःस्वप्न्यं निर्दिपते दुःस्वप्न्यं सुवाम ॥२॥

भा०—जैसे (राजानः) राजा लोग (सम् अगुः) युद्धकाल में एक एक करके बहुतसे एकत्र हो जाते हैं । और जैसे (ऋणानि) ऋण भी जुड़ते २ (सम् अगुः) बहुतसे एकत्र हो जाते हैं । और (कुष्ठाः) कुत्सित त्वचा के रोग भी जमा होते २ (सं अगुः) एकत्र हो जाते हैं । और जिस प्रकार चन्द्र में (कलाः) कलाएं जुड़ती २ (सम् अगुः) एकत्र हो जाती हैं । उसी प्रकार (यद्) जो (दुःस्वप्न्यम्) दुःखदायी स्वप्न निद्रा या आलस्य की मात्रा है वह भी क्रमसे (अस्मासु) हममें (सम्) एकत्र होती जाती है । हम उस (दुःस्वप्न्यम्) दुःखदायी स्वप्न या आलस्य को (द्विपते) द्वेष करने वाले पुरुष के निमित्त (निः सुवाम) त्याग दें ।

२-(द्वि०) 'स कलां' इति बहुत्र । (तृ०) 'यद् दुःस्वप्न्यं' इति

केचिद् । 'सः ऋणानि', 'सः । कला', इति परमाठः ।

देवानां पत्नीनां गर्भे [तो] यमस्य करयो [णो] भद्रः स्वप्न ।

स मम यः पापस्तद्विद्वपते प्र हिंमः ।

मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेमुखम् ॥३॥

भा०—हे स्वप्न ! निद्रा प्रमाद ! तू (देवनाम्) देव, विषयों में खेलने वाले इन्द्रियों की (पत्नीनाम्) पालन करने वाली शक्तियों या वृत्तियों को (गर्भे [गर्भः]) ग्रहण करने वाला, उनको बांधने वाला है । और तू (यमस्य) बन्धनकारी प्रभाव का (कर [णः]) उत्पन्न करने वाला है । हे स्वप्न ! (यः) जो तेरा स्वरूप (भद्रः) कल्याण और सुखकारी है (सः) वह तू (मम) मुझे प्राप्त हो और (यः पापः) जो पापजनक रूप है (तत्) उसको (विद्वपते) शत्रु के निमित्त (प्राहिमः) परे कर दे । हे स्वप्न ! तू (तृष्टानाम्) विषय तृष्णालुओं के लिये (कृष्ण-शकुनेः) काले शक्तिशाली घोर पापका (मुखम्) मुख अर्थात् प्रवर्तक (मा असि) मत हो ।

तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्म स त्वं स्वप्नाश्वं इव कायमश्वं इव नीनाहम् । अनास्माकं देवपीयुं पिपासं वप ॥४॥

भा०—हे (स्वप्न) स्वप्न ! आलस्य, प्रमाद ! (तं) उस (त्वा) तुम्हको हम (तथा) वैसे, अर्थात् भली प्रकार (सं विद्म) जान गये हैं । इसलिये हे (स्वप्न) स्वप्न ! सुलाने वाले, प्रमादजनक (अश्वः इव) जिस प्रकार घोड़ा (कायम्) अपने शरीर को कंपाकर धूल म्हाड़ देता है और

३—‘करयो’, ‘भद्रस्वप्नः’, ‘समन् जयः’ इति क्वचित् । (पं० सू०)

‘मावृष्टा’, ‘शकुनेमुख’, ‘मुखम् इति क्वचित् । ‘करणः, गर्भो’ इति

ह्रितनिकामितः ।

४—‘पिपासं वपुर्म—’ इति बहुय ।

(अश्वः इव) जिस प्रकार घोड़ा (नीनाहम्) अपने पर बंधे काठी आदि को गिरा देता है उसी प्रकार (अनास्माकम्) हमारे से भिन्न (देवपीयुम्) विद्वानों के हिंसक, उनको कष्ट देने वाले (पियारुम्) दुष्ट, हिंसक पुरुष को (वप) धुन डाल, काट डाल ।

यदस्मासुं दुष्वप्यं यद् गोषु यच्च नो गृहे ।

अनास्माकस्तद् देवपीयुः पियारुर्निष्कमित्र प्रति मुञ्चताम् ।

नवारत्नीनपमया अस्माकं ततः परि ।

दुष्वप्यं सर्वं द्विपते निर्दयामसि ॥५॥

भा०—(यद्) जो (अस्मासु) हम में और (यत्) जो हमारे (गोषु) गौ आदि पशुओं या इन्द्रियों में और (यत् च नः गृहे) जो हमारे घर में या देह में (दुष्वप्यम्) दुःखपूर्वक शयन आदि का कष्ट है (तत्) उसको (अनास्माकः) हमारे से दूसरा, हमारा शत्रु (देवपीयुः) देवों-विद्वानों का पीड़क (पियारुः) दुष्ट हिंसक पुरुष (निष्कम् इव) स्वर्ण के आभूषण के समान (प्रति मुञ्चताम्) धारण करे । हे स्वप्न ! आलस्य ! तू (अस्माकम्) हमारे (ततः परि) गृह आदि उन पदार्थों से (नवारत्नीन्) नौ हाथों परे (अपमयाः) दूर हट जा । इस प्रकार बलपूर्वक हम अपने (दुष्वप्यम्) दुःखदायी आलस्य, प्रमाद और दुःख-पूर्वक निद्रा आदि को (द्विपते) अपने से द्वेष करने वाले पुरुष के लिये (निर्दयामसि) अपने से परे कर दें ।

५-केचित् 'गृहे' श्यन्तं चतुर्थ्या ऋचोऽवसानमिच्छन्ति । (व०) 'वं

पियारुर्नि' इति द्विजनिकामितः ।

[५=] दीर्घ और सुखी जीवन का उपाय

ब्रह्मा ऋषिः । मन्त्रोक्ता बहवो देवताः । उत यज्ञो देवता । १, ४, ६ त्रिष्टुभः । २

पुरोऽनुष्टुप् । ३ चतुष्पदा अतिशक्वरी । ५ भुरिक् । षडृचं सूक्तम् ।

धृतस्य जूतिः समना सदेवा संवत्सरं हविषां वर्धयन्ती ।

श्रोत्रं चक्षुः प्राणोच्छिन्नो नो अस्त्वच्छिन्ना वयमायुषो वर्चसः ॥१॥

भा०—(धृतस्य) तेजस्वरूप परमेश्वर का (जूतिः) परम ज्ञानमय ज्योतिः (समनाः) ज्ञान से युक्त है । अथवा वह सबके मन, मननशालि साधनों का आश्रय है । और वह (सदेवा) समस्त देवों, दिव्य पदार्थ सूर्य, अग्नि, वायु आदि के सहित उनको अपने में धारण करने वाला है और (संवत्सरम्) संवत्सर अर्थात् समस्त प्राणियों के निवास के एकमात्र आश्रय परमेश्वर को (हविषा) समस्त ज्ञानमय प्रपञ्च से (वर्धयन्ती) बढ़ाती हुई, उसकी ही महिमा को बढ़ाती हुई सर्वत्र व्याप्त है । (नः) हमारे (श्रोत्रम्) कान, (चक्षुः) आँखें और (प्राणः) प्राण, जीवन (अच्छिन्नः अस्तु) कभी विनष्ट न हों । और हम (आयुषः) दीर्घ आयु और (वर्चसः) तेज से भी (अच्छिन्नाः) रहित न हों ।

(१) जूतिः—सर्वेषां गत्यर्थानां ज्ञानार्थत्वात् जूतिशब्देन सर्वत्र प्रसृतं ज्ञानमुच्यते अतएव ऐतरेयकाः मतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्यैवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति । ऐ०आ० २ । ६ । १ ॥ धृतस्य जूतिरिति परमात्मनः स्वरूपविषयं ज्ञानम् । इति सायणः ।

(२) 'धृतस्य' दीप्तस्य परमतेजसः, इति सायणः ।

उपास्मान् प्राणो ह्वयतामुपं वयं प्राणं ह्वयामहे ।

[५८] १—(प्र०) 'समना सदेवा' इति हिटनिकामितः । 'समनाः' इति बहुव्रीहिः ।

'समानाः' इति च । 'जूति, समनासदेवाः' इति श० पा० ।

भा०—(प्राणः) प्राण (अस्मान्) हमें (उपह्वयताम्) धारण करे । और (वयम्) हम (प्राणम्) उस प्राण को (हवामहे) धारण करें ।
 यच्चो जग्राह पृथिव्यान्तरिक्षं वर्चः सोमो बृहस्पतिर्विद्युर्त्ता ॥२॥
 वचंसो द्यावापृथिवी संग्रहणी वभूवयुर्वचो गृहीत्वा पृथिवीमनु
 सं चरेम । यशसुं गावो गोपतिमुप तिष्ठन्त्यायतीर्यशो गृहीत्वा
 पृथिवीमनु सं चरेम ॥३॥

भा०—(पृथिवी) पृथिवी (वर्चः) तेज, अग्नि को (जग्राह) धारण करती है । (अन्तरिक्षम् वर्चः) अन्तरिक्ष तेज को धारण करता है । (सोमः) सोम, सूर्य और (बृहस्पतिः) बृहस्पति, वेदवाणी का पालक आचार्य या परमेश्वर अथवा (सोमः बृहस्पतिः) शिष्य और आचार्य दोनों भी (वर्चः विद्युर्त्ता) तेज को विशेष रूप से धारण करते हैं । (द्यावा-पृथिवी) द्यौ, आकाश या सूर्य और (पृथिवी) पृथिवी, भूमि या माता और पिता दोनों (वचंसः) तेज को (संग्रहणी) उत्तम रीति से धारण किये (वभूवयुः) रहते हैं उसी प्रकार हम लोग (वर्चः गृहीत्वा) तेज धारण करके (पृथिवीम् अनु संचरेम) पृथिवी पर विचरें । (गावः) गौण जिस प्रकार (यशसम्) यशस्वी (गोपतिम्) गो पालन करने वाले पुरुष,

२—(वृ०) 'पृथिव्यान्तरिक्षं' इति क्वचित् । (च०)—स्पतिर्धत्ता, स्पतिधत्ता । 'स्पतिर्धत्तात्' । 'स्पतिर्धत्तां', 'स्पतिर्विधत्तां' इत्यादि पाठाः । (द्वि०) उपह्वयं इति क्वचित् । (च०) 'विधत्ता' इति शं० पा० । विधत्ता विशेषणधत्ता इति सायणाभिमतः । 'विधत्तु' इति पंप्प० सं० ।

३—(वृ०) 'यशसां' इति क्वचित् । 'यशसा' इति द्विटनिकामितः । 'वभूवयुर्व' इति द्विटनिकामितः ।

को (उपतिष्ठन्ति) प्राप्त होती हैं, उसके पास रहती हैं और जिस प्रकार (गावः) गौ, किरणों और इन्द्रियों (यशसम्) तेजस्वी, यशस्वी (गो-पतिम्) किरणों के पालक सूर्य और इन्द्रियों के पालक जितेन्द्रिय पुरुष के पास उसके वश होकर रहती हैं उसी प्रकार (आयतीः) आती हुई गौओं, किरणों और इन्द्रियों को और (यशः) यश, तेज, वीर्य और बल, अन्न आदि को (गृहीत्वा) ग्रहण करके हम (पृथिवीम् अनुसंचरेम) पृथिवी पर विचरें ।

ब्रजं कृणुध्वं स हि वीं नृपाणो वर्मा सीन्वध्वं बहुला पृथूनि ।
पुरः कृणुध्वमायसीरघृष्टा मा वः सुतोच्चमसो दृंहता तम् ॥४॥
ऋ० १०।१०९।८ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! (ब्रजं कृणुध्वम्) गौओं के रहने के लिये बड़ी गोशाला बनाओ । (सः हि) वह ही निश्चय से (वः) तुम्हारे (नृपाणः) सब मनुष्यों का पालन करने में समर्थ है । और (बहुला) बहुतसे (पृथूनि) बड़े २ विस्तृत (वर्मा) शरीररक्षक कवच (सीन्वध्वम्) सीयो । बड़े २ कवच बनाओ । (आयसीः) लोहे की (पुरः) दृढ़ नगरियां (अघृष्टाः) जिन पर शत्रु अपना बल न जमा सकें ऐसी (कृणुध्वम्) बनाओ । (वः) तुम्हारा (चमसः) चमस पात्र, अन्न आदि का साधन (मा सुतोच्) मत बहे मत चूर । (तम् दृंहता) उसको सूत्र दृढ़ करो ।

अध्यात्म नै— हे मनुष्यो (ब्रजं कृणुध्वम्) शरीर आदि संवात को दृढ़ करो । (सः हि वः नृपाणः) वह ही तुम्हारे नृ= अर्थात् विषयों तक पहुंचाने वाले नेता, इन्द्रियों का पालक है । उनके लिये (बहुला पृथूनि वर्मा

४-(द्वि०) 'वर्म' इति ऋ० । (त्र०) 'सुतोच्चमसो' 'दृंहता' इति पत्रचिन् ।

सौव्यध्वम्) बहुतसे बड़े २ रवासाधन तैयार करो । उनको (अधृष्टा
 आयसीः पुरः कृणुध्वम्) पराजित न होने वाली लोहे से बनी पुरियों के
 समान अपने विषयों के ग्रहण में समर्थ बनाओ । (वः चमसः मा
 सुनोत्) तुम्हारा चमस अर्थात् पूर्णपात्र के समान ब्रह्मचर्य से पूर्ण देह
 स्रवित न हो, ब्रह्मचर्य खण्डित न हो ।

यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।

इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥५॥

अथर्व० २ । ३५ । ५ ॥

भा०—व्याख्या देखो [अथर्व० २ । ३५ । ५ ॥] (यज्ञस्य चक्षुः
 मुखं च प्रभृतिः) यज्ञस्वरूप आत्मा का मुख और चक्षु दोनों भरण
 पोषण करते हैं । (वाचा श्रोत्रेण मनसा च जुहोमि) वाणी कान और मन
 से भी मैं इस यज्ञ में आहुति करता हूँ । (विश्वकर्मणा विततं इमं
 यज्ञम्) जगत् क्षण द्वारा सम्पादित इस यज्ञ में (सुमनस्यमानाः)
 शुभ संकल्पों से युक्त (देवाः) देवगण, इन्द्रिये, दिव्य सामर्थ्य विद्वानों के
 समान ही (आयन्तु) प्राप्त हों ।

ये देवानामृत्विजो ये च यज्ञिया येभ्यो हव्यं क्रियते भागधेयम् ।

इमं यज्ञं सह पत्नीभिरेत्य यावन्तो देवास्तंविषा मादयन्ताम् ॥६॥

भा०—(देवानाम्) देव, विद्वानों में से (ये) जो विद्वान् (ऋत्विजः)
 ऋत्विग्, यज्ञसम्पादक पुरुष हैं और (ये च यज्ञियाः) जो यज्ञ में पूजा
 के योग्य हैं और (येभ्यः) जिनके लिये (भागधेयम्) विशेष अंश
 (हव्यम्) हव्य, हवि रूप से (क्रियते) तैयार किया जाता है वे (यावन्तः)
 जितने भी (तंविषाः) महान् (देवाः) देवगण या विद्वान् पुरुष हैं वे

६—(द्वि०) 'कृणते' । 'कृणुते' इति क्वचित् । (च०) 'इदिषा',

'सनिग' इति द्विनिकान्तितः ।

अपनी (पत्नीभिः सह) गृहमालिका पत्नियों सहित (इन्द्र यज्ञे पुत्र)
इन्द्र यज्ञ में आकर (नःदयन्तान्) वृत्त हों, प्रसन्न हों ।

[५२] विद्वानों की सेवा और अनुसरण करने की आज्ञा ।

ब्रह्मा ऋषिः । कश्चिदेका । १ गायत्री । २, ३ त्रिदुर्गाः । वृत्तं इन्द्रः ।

त्वमंग्ने व्रतपा असि देव आ मत्स्येष्व ।

त्वं वृद्धेष्वीडयः ॥२॥ इ० ३ : ११ । १ ॥ मू० ४ । १३ ॥

भा०—हे अग्ने ! परमेश्वर और ज्ञानस्वरूप आचार्य ! (त्वं) तू
(व्रतपाः) व्रतों को पालन करने वाला (असि) है और (मत्स्येषु) मत्स्य-
घर्मा मत्स्यों में भी तू (देवः सा) प्रकृतस्वरूप देव उपास्यरूप में
विव्याप्त है । (त्वं) तू ही (यज्ञेषु ईडयः) यज्ञों में भी स्तुति किया
जाता है ।

यद् शं वयं प्रमिनामं व्रतानि विद्वयां देवा अविद्वुरासः ।

अग्निष्टद् विश्वादा पृणानु विद्वान्त्सोमंस्य यो ब्राह्मणाँ आश्रिवेशं २

(२० वृ०) इ० १० । २ । ४ ॥

भा०—हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! ज्ञानदर्शी गुरुजनो ! हम लोग
(विद्वयां) विद्वान् लोगों के (व्रतानि) व्रतों और शुभकर्मों को (अवि-
द्वुरासः) सर्वथा न जानने वाले, उनसे बहुत ही अनभिज्ञ हैं । (ययम्)
हम लोग (वः) आर लोगों की सेवा में (यद्) जो कुछ भी (प्रमि-
नाम) झुटे काटें उसके वह (ऋषिः) सर्वज्ञानी, परमेश्वर (विश्वाद्)

[५२ । १—(२०) 'देवा' का' इति क्वचित् । 'देव' का' इति क्वचित्
पञ्चाशः ।

२—(२०) 'विद्वान्' इति इति इ० । 'विद्व' इति पञ्चाशः । 'विद्व'
कर्म' इति पञ्चाशः ।

सब प्रकार से (आ पृषोतु) पूर्ण करे, हमारी समस्त शक्तियों को दूर करे । (यः) जो (सोमस्य) सोम सर्वभूतक ज्ञानमय परमेश्वर का (विद्वान्) जानने द्वारा होकर (ब्राह्मण्यान्) ब्राह्मणों में (आविवेश) आदर पूर्वक विराजमान है ।

आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छुक्त्वांसि तदनुप्रवोढुम् । अग्नि-
विद्वान्त्स यजात् स इद्वोता सोऽध्वरान्त्स ऋतून् कल्पयति ॥३॥

श्रु० १० । २ । ३ ॥

भा०—हम लोग (देवानान्) देव, विद्वान् पुरुषों के (पन्थाम् आ अगन्म) मार्ग का अनुसरण करें । और (यत्) जितना भी (अनु प्रवोढुम्) उसका अनुसरण करने में (शुक्त्वांसि) समर्थ हो सकें (तत्) उतना ही अनुसरण करें । (अग्निः) ज्ञानवान् परमेश्वर ही (विद्वान्) सब कुछ जानता है । (सः यजात्) वह सब कुछ प्रदान करता है (सः इत् हांता) वह सबको देने वाला और सबकी भक्ति को स्वीकार करने वाला है । (सः) वह (अध्वरान्) समस्त हिंसा रहित यज्ञों को और (सः) वही (ऋतून् कल्पयति) ऋतुओं को उत्पन्न करता है । अथवा (सः) वही (अध्वरान्) अहिंसित नित्य आत्माओं को और (ऋतून्) प्राणों को (कल्पयति) देहधारी रूप में उत्पन्न करता और उनको कार्य करने में समर्थ करता है ।

[६०] शरीर के अंगों में शक्तियों की याचना ।

ब्रह्म ऋषिः । मन्त्रोक्ता वागादयो देवताः । १ पथ्या वृद्धी । २ ककुम्भती परोष्णिक् ।

इष्टुवं शक्तम् ॥

वाङ् मं श्रासन्नताः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः ।

अपलिताः केशा अशोणा दन्ता बहु बाहोवलम् ॥३॥

भा०—(ने श्रासन्) मेरे मुख में (वाङ्) वाली शक्ति रहे । (नसोः प्राणः) दोनों नासिकाओं में प्राण बराबर चले । (अक्ष्णोः) दोनों आंखों में (चक्षुः) दर्शन शक्ति विद्यमान रहे । (कर्णयोः) दोनों कानों में (श्रोत्रम्) श्रवण शक्ति विद्यमान रहे । (केशाः अपलिताः) केश मेरे कनी पलित अर्थात् श्रेत न हों । (दन्ताः अशोणाः) दाँत मेरे न रुद्धें । (बाहोः) बाहुओं में मेरे (बहु बलम्) बहुत सा बल प्राप्त हो ।

ऊर्वोरोजो जङ्घयोर्जवः पादयोः प्रतिष्ठा ।

अरिष्टानि मे सर्वा [ज्ञान्या] न्मानिभृष्टः ॥३॥

भा०—(ऊर्वोः) गोढ़ों में (श्रोजः) बल प्राप्त हो । (जङ्घयोः जवः) जङ्घाओं में वेग हो और (पादयोः) पैरों में (प्रतिष्ठा) खड़े होने की शक्ति प्राप्त हो । (ने सर्वा [अज्ञानि]) मेरे समस्त अंग (अरिष्टानि) दुःखरहित पीढ़ा रहित हों । और (आत्मा) मेरा समस्त देह और आत्मा (अनिष्टः) नीचे न गिरने वाला, एवं संताप से रहित हो ।

[६१] सुख, शक्ति की प्रार्थना ।

ब्रह्मा ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिर्देवता । विराट् पथ्या बृहती, एकर्चं सूक्तम् ।

तनूस्तन्वा/मे सहेदतः सर्वमायुरशीय ।

स्योनं मे सीद पुरः पृणस्व पवमानः स्वर्गे ॥१॥

भा०—हे परमेश्वर ! (तनूः) शरीर (मे) मेरे (तन्वा) शरीर व्यापी बल के (सह इत्) साथ ही रहे । (अतः) इस शरीर से ही मैं (सर्वम् आयुः अशीय) सम्पूर्ण आयु का भोग करूं । हे ईश्वर ! तू (मे) मेरे शरीर को (स्योनम्) सुखपूर्वक (सीद) रख । (पुरः) हे परमेश्वर सबको पूर्ण करने वाले तू (पवमानः) पवित्र करता हुआ (स्वर्गे) स्वर्ग, सुखमय लोक में मुझे (पृणस्व) पूर्ण कर ।

[६२] सर्वप्रिय होने की प्रार्थना ।

ब्रह्मा ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिर्देवता । अनुष्टुप । एकर्चं सूक्तम् ।

प्रियं मां कृणु देवेषु प्रियं राजंसु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतायं ॥१॥ ऋ० २० । १२८ । खि०॥

भा०—हे परमेश्वर ! (मा) मुझको (देवेषु^१ प्रियं कृणु) विद्वान्, ज्ञानप्रद पुरुषों के बीच में प्रिय बना । (राजंसु मा प्रियं कृणु) राजाओं के बीच में मुझे प्रिय बना । (सर्वस्य पश्यतः) सबके देखते हुए (उत शूद्रे उत आयं) चाहे वे शूद्र हों चाहे वे आर्य हों, सबके बीच में

[६१] १—'सहेदताः', 'सहे दन्ता', इति कचिन् ।

[६२] २—(व०) 'पश्यतोत', (च०) 'शूद्रमुता', (व०) 'प्रियं विश्वेषु गोत्रेषु' इति अ० । (द्वि०) 'प्रियं मा ब्रह्मणि' (व० च०) 'प्रियं विश्वेषु शूद्रेषु प्रियं मा कुरु 'राजंसु' इति हि० गृ० च० । 'एवं विश्वेषु शूद्रेषु' इति यजुः । १. देवेषु ब्राह्मणेषु इति जिम्मरः ।

मुझे (प्रियं कृणु) सबका प्रिय बनादे । अर्थात् जो मुझे देखे उसी का मैं प्रिय होजाऊं ।

[६३] ज्ञान और आयु आदि सम्पदाओं की वृद्धि की याचना ।

ब्रह्मा ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिर्देवता । विराड् उपरिधाद् बृहती । एकचं सूक्तम् ।

उत् तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय ।

आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं यजमानं च वर्धय ॥१॥

भा०—हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्मन् ! समस्त वेद और वेदों के विद्वानों और ब्रह्माण्ड और समस्त अर्त्तों के पालक प्रभो ! और हे वेद के पालक विद्वान् ! तू (उत् तिष्ठ) उठ, उदय हो । (देवान्) समस्त देवों, विद्वानों को (यज्ञेन) यज्ञ, देव की उपासना से (बोधय) परिचित कर, सबको उपासना का उपदेश कर । अथवा हे विद्वन् (यज्ञेन) यज्ञ द्वारा, परस्पर सत्संग द्वारा (बोधय) सबको ज्ञानवान् कर । अथवा (यज्ञेन बोधय) अध्यात्म यज्ञ से प्राणों और इन्द्रियों को, ज्ञान यज्ञ से शिष्यों को, सत्संग से राजाओं को ज्ञानवान् कर उनको कर्त्तव्यों का ज्ञान करा । और (आयुः प्राणं प्रजाम् पशून् कीर्तिम् यजमानम् च) आयु, प्राण, प्रजा, पशुगण, कीर्ति और यजमान को भी (वर्धय) बढ़ा ।

[६४] आचार्य और परमेश्वर से ज्ञान और दीर्घायु की प्राप्ति ।

ब्रह्मा ऋषिः । अग्निर्देवता । अनुष्टुभः । चतुर्वचं सूक्तम् ।

अग्नें समिध्रमाहार्पं बृहते जातवेदसे ।

स मे श्रद्धां च मेधां च जातवेदाः प्र वञ्छतु ॥१॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवान् आचार्य ! (बृहते) बड़े भारी (जातवेदसे) ज्ञान से सम्पन्न, अग्नि विद्वान् पुरुष के लिये, मैं अग्नि के लिये

[६३] १-(वृ०) 'पशु'निति क्वचित् ।

[६४] १-(प्र०) 'अग्नेये समिधमा-' इति प्रायो गृह्यसूत्रेण ।

काष्ठ के समान (सम् इधम्) भली प्रकार तेरी संगति से ज्ञान द्वारा प्रज्वलित होने वाले अपने आत्मा को तेरे पास (अहार्यम्) लाया हूं । (सः) वह तू (मे) मुझे (अत्-धाम्) श्रद्धा अर्थात् सत्य ज्ञान धारण करने के सामर्थ्य को और (मेधाम्) पवित्र ज्ञान समझने और प्रकट करने वाली प्रतिभा शक्ति को (जातवेदाः) समस्त वेदों के जानने हारे विद्वान् पुरुष आप (प्रयच्छतु) प्रदान करें ।

इध्मेनं त्वा जातवेदः समिधां वर्धयामसि ।

तथा त्वमस्मान् वर्धय प्रजयां च धनेन च ॥२॥

भा०—हे (जातवेदः) ज्ञानवन् गुरो ! (इध्मेन समिधा) जिस प्रकार अच्छी प्रकार प्रदीप्त होने वाले काष्ठ से अग्नि की दीप्ति को बढ़ा दिया जाता है उसी प्रकार हम (इध्मेन) प्रदीप्त होने वाले (सम्-इधा) संगति लाभ करके ज्ञान द्वारा प्रदीप्त आत्मा से (त्वा वर्धयामसि) तुझे बढ़ाते हैं, तेरे ही गौरव की वृद्धि करते हैं । (तथा) उसी प्रकार (त्वम्) तू (अस्मान्) हमको (प्रजया) उत्तम सन्तान और (धनेन) धन से (वर्धय) बढ़ा ।

यदग्ने यानि कानि चिदां ते दास्येणि दध्मासि ।

सर्वं तदस्तु मे शिवं तज्जुंपस्व यविष्ठ्य ॥३॥

(प्र० द्वि० च०) ऋ० । १०२ । २० ॥ यजु० ९ । ७३ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! ज्ञानवन् परमेश्वर या आचार्य ! (ते) तेरे हम (यानि कानि चिदां) जो कुछ भी (दास्येणि) अग्नि में काष्ठों के

२—(च०) 'दीर्घायु', 'कृणोतु मे' इति लादणामिमदः क्वचिच्च ।

३—कानिकानि० (च०) 'ता' इति ऋ० । (वृ०) 'त्वदस्तु तद् घृत्तम्' इति प्रायः । ऋग्वेदादिषु 'यविष्ठ' इति क्वचिन् ।

समान अपने आदर सत्कार करने योग्य पदार्थ या आदरपूर्वक स्तुतियाँ
(आ दध्मसि) उपस्थित करते हैं (तव्) उस सब कुछ को हे
(यविष्व) शक्तिशालिन् ! पूज्यतम ! (जुषस्व) प्रेम से स्वीकार कर ।
(तव सर्वम्) वह सब (मे) मुझे (शिवम् अस्तु) शिव, कल्याणकारी हो ।
एतास्तं अग्ने समिध्रस्त्वभिद्धः समिद्धं भव ।

आयुरत्मासु धेहानृतत्वमांशार्याय ॥५॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! परमेश्वर ! (ते) तेरे (एताः) ये सब
(सन्-इषः) महान् तेज, दीप्तियाँ हैं । (त्वन्) तू ही (इद्धः) प्रदीप्त,
देदीप्यमान होकर (समिद्धं भव) समिद्ध, तूव प्रज्वलित, हृदय में प्रकाशित
हो । (अत्मासु आयुः धेहि) हममें दीर्घ आयु प्रदान कर और
(आचार्याय अनृतम्) आचार्य को अनृतता प्रदान कर । अर्थात् आचार्य
विरकाल तक हमें विद्या प्रदान करे । हम दीर्घायु होकर उसके ज्ञान को
निरन्तर जीवित रखें ।

[६५] उच्चपद प्राप्ति के साधन का उपदेश ।

ब्रह्म ऋषिः । जातवेदाः स्येद्य देवते । जगदी । एतन्मृच्छन् ॥

हरिः सुपुणो दिव्यमांशोर्चिषा ये त्वा दिप्सन्ति दिव्यमुत्पतन्तम् ।

अत्र तां जंहि हरंसा जातवेदोर्धिभ्यदृगोर्चिषा दिव्यमा रौह सूर्या ॥

४-(दि०) 'त्वानिद्धं सतेमिद्धः', 'त्वानिद्धो-', 'त्वानिद्धो'
'त्वानिद्धो', 'त्वानिद्धो-' 'त्वानिद्धो समिद्ध' इति नामा पाठः ।
त्वान् । इद् । हंसः । समिद्धः । भव इति परमाठः क्वचित् । 'त्वानिद्धः'
इति क्वचित् । (च०) 'धेहानृतत्वमांश-', 'धेहानृतं त्वमां-', इति
पाठः । 'त्वानिद्धः' इति द्विदिन्यासितः । 'त्वानिद्धो समिद्ध' इति
द्विदिन्यासितः । 'अनृतत्वमांश' इति द्विदिन्यासितः ।

[६५] १-'दिव्यदृगो' इति क्वचित् ।

भा०—हे (जातवेदः) प्रजावान् ! ऐश्वर्यवान् ! हे (सूर्य) सूर्य ! सूर्य के समान तेजस्विन् ! तू (हरिः) अन्धकार को नाश करके (सुपर्णः) उत्तम ज्ञानवान् होकर (अर्चिपा) अपनी ज्ञानमय दीप्ति से (दिवम् आरूढः) चौलोक, तेजोमय पद, मोक्ष या ईश्वर को प्राप्त हो । उस समय (ये) जो भी (दिवम्) उस तेजोमय ब्रह्मपद को (उत्पतन्तम्) प्राप्त करते हुए (त्वा) तुरूफो (दिक्षन्ति) बिनाश करते हों, तुझे अपने उत्तम मार्ग से भ्रष्ट करना चाहते हैं तू (तान्) उनको (हरसा) अपने संहारकारी क्रोध या तेज पे (अब जाहि) विनष्ट कर डाल । और (अत्रिभ्यत्) निर्भय होकर (उग्रः) प्रचण्ड, उग्र, सदा बलवान् रहकर (अर्चिपा) अपने तेजोबल से (दिवम् आरोह) सूर्य जिस प्रकार अपने प्रचण्ड ताप सहित मध्य आकाश में चढ़ जाता है उसी प्रकार तू भी उस महान्, उच्च, परम तेजोमय ब्रह्मपद को प्राप्त हो ।

इसी प्रकार राजा को भी यही उपदेश है—तू शत्रुओं का संहारक होने से 'हरि' उत्तम पालन शक्ति से युक्त होम से 'सुपर्ण' है । वह तू अपने तेज से (दिवम् आरोह) सूर्य के समान उच्च पद को प्राप्त हो । जो तेरा नाश करना चाहते हैं, उनको अपने (हरसा) क्रोध से विनष्ट कर । और तू स्वयं निर्भय, बलवान् होकर, अपने तेजसे चौलोक, उच्च पद पर आरूढ हो ।

[६६] दुष्टदमन और प्रजा पालन ।

त्रया ऋषिः । जातवेदः सूर्यः वज्रश्च देवताः । अतिजगती । एकैच सत्तम् ।

अयोञ्जाला असुरा मायिनोऽस्मैः पाशैरङ्गिनो ये चरन्ति ।

तांस्तं रन्धयामि हरंसा जातवेदः सहस्रं ऋषिः सपत्नान् प्रमृणन्

पाहि वज्रः ॥१॥

[६६] १—(च०) 'सहस्रं ऋषिः', हुषिः, हृषिः, दृषिः, रिषिः, सृषिः, इति
नामा पाठाः । 'वाहि' इति बह्व ।

भा०—(अयोजालाः) लोहे के जाल धारण करने वाले (मायिनः) माया, विद्या के जानने वाले (असुराः) असुर. शक्तिशाली लोग- (अङ्गिनः) अङ्गों से युक्त होकर (अयस्मयैः) लोहे के बने (पार्शः) पार्शों सहित (चरन्ति) विचरते हैं । हे (जातवेदः) जातवेदः, अग्ने ! राजन् ! (ते) तेरे (हरसा) तेजोमय बल से (तान् रन्धयामि) उन को वश करूं, उनको भून डालूं । और तू । सहस्र-अष्टिः) हजारों भालों वाले या 'अष्टि' नामक घातक शस्त्रों से सुसज्जित होकर स्वयं (वज्रः) शत्रुओं के वर्जन करने में समर्थ, विद्युत् के समान बलशाली होकर (स-पत्नात्) शत्रुओं को (प्रमृणन्) विध्वंस करता हुआ (पाहिं) हमारी रक्षा कर ।

[६७] दीर्घ जीवन की प्रार्थना ।

ब्रह्मा अग्निः । सूर्यो देवता । प्राजापत्या गावध्व्यः । ऋध्वं सृजन् ॥

पश्येम शरदः शतम् ॥१॥ जीवेम शरदः शतम् ॥२॥ वुष्येम शरदः शतम् ॥३॥ रोहेम शरदः शतम् ॥ ४ ॥ पृष्येम शरदः शतम् ॥५॥ भवेम शरदः शतम् ॥६॥ भूयेम शरदः शतम् ॥७॥ भूयंस्तीः शरदः शतात् ॥८॥

श्र० ८ । ६६ ॥ यजु० ३४ । २४ ॥

[६७] ३- 'वुष्येम', दुष्येम, सुष्येम । शति नामा पाठाः ।

४- 'पृष्येम' इति द्विटनिकान्तः । 'प्रव्रवाम श्र०' 'शृणुयाम०', 'करीन स्याम' 'भूयश्च०' इति यजुषि विशेषः । पृष्येम, जीवेम 'नन्दा 'नोडाम', 'भवेम', 'शृणवान्' 'प्रव्रवाम' इति तै० सं० ।

८- 'भूयपीश-', भूयापी, श- इति नामा० ।

भा०—हम (शरदः शतम्) सौ बरसों तक (पश्येम) देखें ॥१॥
 सौ बरसों तक (जीवेम) जीवें ॥२॥ सौ बरसों तक (बुध्येम) ज्ञान
 प्राप्त करें ॥३॥ सौ बरसों तक (रोहेम) वृद्धि को प्राप्त हों, उन्नत हों ॥४॥
 सौ बरसों तक (पूषेम) पुष्टि प्राप्त करें ॥५॥ सौ बरसों तक (भवेम)
 समर्थ होकर रहें ॥६॥ सौ बरसों तक (भूयेम) सत्तावान् होकर रहें ॥७॥
 (शरदः शतात्) सौ बरसों से (भूयसीः) बहुत अधिक वर्षों तक
 भी हम देखें, जीवें, समर्थ, बढ़ें, पुष्ट हों, समर्थ रहें और सत्तावान्
 चने रहें ॥८॥

[६८] वेदज्ञान-प्राप्ति का उपदेश ।

प्रश्ना ऋषिः । कर्म देवता । अनुष्टुप् । एकच सक्तम् ।

अव्य[च]सश्च व्यचंसश्च विल्लं वि प्यामि मायया ।

ताभ्यामुद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कुरमहे ॥१॥

भा०—(अव्यसः^१ च) अव्यापक, अर्थात् एकदेशी और (व्यचसः
 च) व्यापक अर्थात् सान्त और अनन्त, परिमित और अपरिमित स्वल्प
 और महान् इनके (विल्लम्) मर्म या सूक्ष्म भेद को मैं (मायया) बुद्धि
 द्वारा (विप्यामि) विवेचन करूं । और (ताभ्याम्) उन व्यापक और
 अव्यापक दोनों प्रकार के पदार्थों से (वेदम्^२) वेद ज्ञान को (उद्धृत्य)
 दृष्टान्त प्रतिदृष्टान्त से प्राप्त करके (अथ) उसके बाद हम लोग (कर्मा-
 णि) यज्ञ कर्मों और लौकिक कर्मों का (कुरमहे) सम्पादन करें ।

[६८.] १—१. 'अव्यचसः' इति सायणः वर्णलोपश्छान्दसः । इति द्विटनिः ।

१. कुशमुष्टिरिति श्रीफियः । सतम्मते वेदो स्तोदात्तः । प्रामादिक ।

व्यापक शक्तियों और अव्यापक जड़ पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध को हम विवेचन करके उनका ज्ञान प्राप्त करें और उनसे बड़े २ कार्य करें ।

अथवा—(अव्यक्तः) अव्यापक अल्पशक्ति जीव और (व्यक्तः) व्यापक परमेश्वर के (बिलम्) भेद या गूढरूप को मैं माया अर्थात् बुद्धि से विवेक करूं । और उन दोनों से (वेदम्) शध्यात्म और व्यापक ब्रह्म की महान शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करके हम नित्य नैमित्त कर्मों का आचरण करें ।

[६२] पूर्णायु प्राप्ति का उपदेश ।

ऋषा ऋषिः । आपो देवताः । १ आहुरी अनुष्टुप् । २ सान्नी अनुष्टुप् । ३ आहुरी गायत्री । ४ सान्नी उष्णिक् । १-४ एकावसानाः ।

चतुर्ऋचं सूक्तम् ॥

जीवा स्थं जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥ १ ॥ उपजीवा स्थोप जीव्यासं सर्वम् ॥ २ ॥ संजीवा स्थ सं जीव्यासं सर्वम् ॥ ३ ॥ जीविला स्थं जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥ ४ ॥

भा०—हे (आपः) जनो ! और जलों के समान आपजनो ! आप (जीवाः स्थ) जीवन अर्थात् प्राण धारण कराने में समर्थ हो । (उपजीवाः स्थ) जीवन को और भी अधिक बढ़ाने में समर्थ हो । मैं (उपजीव्यासम्) और भी अधिक जीवन धारण करूं । आप (सम-जीवाः स्थ) भली प्रकार जीवनप्रद हो । मैं (सं जीव्यासम्) उत्तम रीति से जीवन धारण करूं । (जीविलाः स्थ) तुम जीवन तत्व को प्राप्त करा देने वाले हो । मैं (जीव्यासम्) जीता रहूँ और (सर्वम् आयुः जीव्यासम्) सम्पूर्ण आयु जीवित रहूँ ।

[७०] पूर्णायु प्राप्ति ।

मया ऋषिः । इन्द्राद्यो देवताः । गायत्री । एकैव सत्तम् ॥

इन्द्र जीव सूर्य जीव देवा जीवां जीव्यासमहम् ।

सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥१॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! या वायो ! तू (जीव) हमें जीवन धारण करा । हे (सूर्य) सूर्य सबके प्रेरक आदित्य ! और हे (देवाः) देवगण ! पृथिवी, अग्नि, विद्युत् आदि पदार्थों ! आप सब भी (जीव) मुझे जीवन प्रदान करो । (अहम्) मैं (जीव्यासम्) जीता रहूँ । (सर्वम् आयुः जीव्यासम्) और सम्पूर्ण आयु भर जीवम धारण करूँ ।

[७१] वेदमाता की स्तुति, आयु आदि की प्राप्ति ।

मया ऋषिः । गायत्री देवता । अत्रज्ञाना पञ्चपदी ऋति जगती । एकैव सत्तम् ।

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् ।

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् ।

महां दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॥१॥

भा०—(द्विजानां पावमानी) द्विजों-ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इनको जन्म और विद्याध्ययन से पवित्र विद्वानों को पवित्र करने वाली (वरदा)

[७०] १—'जीवादेवा' इति प्रायः ।

[७१] १—तै० आ० परिशिष्टे—स्तुतो भयावरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती भवने द्विजाती । वायुः पुथिव्यां द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मद्यन्दत्त्वा प्रजातुं ब्रह्मलोकं । (दि०) 'पावमानी' इति द्विदिकामितः । (वृ०) पशू इति द्रुम ।

उत्तम वरण करने वाली, माता या वेदमय ज्ञानों को भी उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी शक्ति की (मया स्तुता) मैं गुणानुवाद करता हूँ । समस्त विद्वान्गण भी उसीका (प्रचोदयन्ताम्) उपदेश करें । हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (मह्यम्) मुझे (ः प्रायुः.) दीर्घ जिविन, (प्राणम्) प्राण शक्ति, (प्रजाम्) उत्तम सन्तान, (पशुम्) उत्तम पशु (कीर्तिम्) कीर्ति और (द्रविणम्) धन ऐश्वर्य (ब्रह्मवर्चसम्) और ब्रह्मवर्चस, ब्रह्मतेज इन सब का (दत्त्वा) उपदेश करके आप भी (ब्रह्मलोकम्) उस ब्रह्म, महान् परमेश्वर पद को (व्रजत) प्राप्त होओ ।

[७२] परमात्मा का वर्णन

ऋग्विंशो ब्रह्मा ऋषिः । परमात्मा देवता । त्रिष्टुप् । एकवच सूक्तम् ।

यस्मात् कौशादुद्भराम वेदं तस्मिन्नन्तरं दध्म एनम् ।
कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तपसावतेह ॥१॥

भा०—(यस्मात्) जिस (कौशात्) महान् अज्ञय कोश या ज्ञान के भण्डार से हम लोग (वेदम्) वेद को पेट्टी से ग्रन्थ के समान (उद्भराम) उठाते हैं, निकालते हैं (तस्मिन् अन्तः) पुनः उस ही के भीतर (एनम्) उसको फिर (अवदध्मः) धर देते हैं । जिस प्रकार एक पेट्टी से वेद का ग्रन्थ उठाते हैं फिर पद चुकने पर उसको उसी में रख देते हैं उसी प्रकार हम जिस महान् परमेश्वर से वेदमय ज्ञान प्राप्त करते हैं पुनः उस वेद को उसी से संगत करते हैं, उसी के भीतर उस ज्ञान को समाया पाते हैं (ब्रह्मणः) ब्रह्म-वेद और परमेश्वर के जिस (वीर्येण) वीर्य से (कृतम्) समस्त कर्म किये जाते और (इष्टम्) यज्ञ योग

[७२] १—(वृ०) 'कृतमिष्टं' इति क्वचित् । 'अधीतमिष्टं' इति कौशिकसूत्रे

उद्भरामि वेदं तस्मिन्नन्त वेदभयेनम् । इति पं० सं० ।

श्रौर उपासना किया जाता है (तेन तपसा) उस तप से ही हे (देवाः)
देवो ! विद्वान् पुरुषो ! (इह) इस लोक में (मा) मेरी भी (अवत)
रक्षा करो ।


॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

[तत्र अष्टादश सूक्तानि पञ्चपञ्चाशदृचः]

एकोनविंशं काण्डं समाप्तम् ॥

सप्तानुवाकाः एकोनविंशे सूक्तानि संख्यया ।

द्वयाधिक्रा सप्ततिः प्रोक्ता ब्रह्मवेदविचक्षुरैः ॥



वाणवस्वंकचन्द्राब्द फाल्गुनासितपक्षके ।

रवौ प्रतिपदायां चैकोनविंशं समाप्यते ॥

इति प्रतिपित्रवियालंकार मीमांसातीर्थविस्तोपशोभितश्रीमज्जयदेवशर्मणा विरचिते-

ऽथर्वणो ब्रह्मवेदस्यालोकभाष्य एकोनविंशं काण्डं समाप्तम् ।



* ओ३म् *

अथ विंशं काण्डम् ॥

[१] राजा और परमेश्वर का वर्णन

कमशो विधामित्र गौतमविल्पा अपयः । इन्द्रमरुदन्नयो देवताः । गायत्र्यः ।
तृचं सूक्तम् ॥

इन्द्रं त्वा वृषभं वयं सुते सोमं हवामहे ।

स पाहि मध्वो अन्धसः ॥१॥

अथर्व० २० । ६११ ॥ ऋ० ३ । ४० । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् परमेश्वर ! (सुते सोमे) यज्ञ में सोम के निष्पादित होने पर सोमयाग में जिस प्रकार राजा को सोमपान करने के लिये आदरपूर्वक बुलाया जाता है उसी प्रकार योगाभ्यास के अवसर पर (सोमे) परम ब्रह्मानन्द रसके (सुते) उत्पन्न होने पर (वृषभम्) सर्वश्रेष्ठ, समस्त आध्यात्म सुखों के वर्षण करने वाले, धर्ममेघ समाधि में प्रकट होने वाले आनन्दघन (त्वा) तुम्हको ही हम अभ्यासी जन (हवामहे) स्तुति करते हैं । (सः) वह तू (अन्धसः) प्राण के पालक और धारण करने वाले (मधु) परमानन्द रस का (पाहि) पान कराता है । अथवा—(सोमे सुते) उत्पन्न इस समस्त संसार में हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् परमेश्वर ! हम (त्वा हवामहे) तुम्हें पुकारते हैं । वह तू (अन्धसः मध्वः पाहि) प्राणधारी समस्त मधु अर्थात् चेतन संसार की रक्षा कर ।

राजा के पक्ष में—(सुते सोमे) राष्ट्र के वन जाने पर हे इन्द्र ! राजन् ! (वृषभं त्वा हवामहे) तुम्हें महाबलवान् को हम आदर से बुलाते

हैं । वह तू (अन्धसः मध्वः) मधुर अन्न आदि योग्य पदार्थों को पालन कर ।

सर्वं वा इदं मधु यदिदं किञ्च । श० २।७।१।११ ॥ प्राणो वै मधु ।
श० १४।१।३।२० ॥ रसो वै मधु । श० ६।४।३।२ ॥

मरुतो यस्य हि क्षयं पृथा द्विवो विमहसः ।

स सुगोपातमो जनः ॥२॥ अ० १।८।४३ ॥

भा०—(सः जनः) वह पुरुष (सुगोपातमः) सबसे उत्तम रक्षक है (दिवः) तेजोमय, प्रकाशमान (विमहसः) विशेष तेजः—सम्पन्न, महान् सामर्थ्य वाले (यस्य) जिसके (क्षये) निवास गृह में या जिसका शरण में रहकर, हे (मरुतः) समस्त शत्रुओं को मारने में समर्थ, वायुओं के समान तीव्र गति वाले सैनिक लोगों तुम (पाथ) राष्ट्र की रक्षा करते हो ।

परमेश्वर के पक्ष में—हे (मरुतः) प्राणगण, हे वायुगण ! जिस परमेश्वर के आश्रय रहते हुए आप समस्त प्राणियों और लोकों की रक्षा करते हो वह (जनः) सर्वोपादक परमेश्वर (सुगोपातमः) सब से उत्तम पालक है ।

उक्षान्नाय वृशान्नाय सोमपृष्टाय वेधसे । स्तोमैर्विधेमाग्नेये ॥

अ० ८।४३।१२ ॥

भा०—(उक्षान्नाय) जिसका अन्न सबको सेवन या वृत्त करने में समर्थ है और (वृशान्नाय) जिसका अन्न सबको अपने वश करने में लगभग है और (सोमपृष्टाय) सोम, शान्ति आदि गुण वाले विद्वान् जिसके पृष्ठ रूप हैं या जिसकी पीठपर उसके प्रेरक रूप से हैं, ऐसे (वेधसे) विद्वान् मेधावी, राज्य के विधाता (अग्नेये) अग्नि के समान ज्ञानवान् और शत्रु तापक राजा का हम (स्तोमैः) स्तोम अर्थात् वीर्य, सामर्थ्यों द्वारा (विधेन)

सेवा करें। अथवा—(उद्धा) वीर्य संचन में समर्थ युवा पुरुष और (वशा) वशाकारिणी शक्ति या यह पृथ्वी ही अन्न अर्थात् भोग्य पदार्थ जिसके हैं उस (सोमपृष्टाय) ज्ञान को धारण करने वाले मेधावी अग्नि अर्थात् राजा की हम बलों द्वारा सेवा करें।

इंश्वर पत्र में—उद्धा सूर्य और वशा पृथिवी दोनों जिसके अन्न हैं सोम ज्ञान ही जिसका स्वरूप है उस तेजोमय परमेश्वर की हम स्तुतियों द्वारा परिचर्या करें।

[२] परमेश्वर की उपासना

प्लुनद्रो मेधात्प्रिथिवा अग्निः । मरुदिन्द्रान्निद्रिक्विगोदाः देवताः । १, २ विराड् ।
गायत्र्यौ । वायुष्मिक् । ४ सान्नी विष्णुप् । चतुर्नवं इन्द्रम् ॥

मरुतः पोत्रात् सुष्टुभः स्वर्कादितुना सोमं पिवतु ॥१॥

ऋ० १।१५।२ ॥ २।३६।२ ॥

भा०—(मरुतः) मरुद्गण, समस्त प्राणगण देवजन, विद्वान् पुरुष (पोत्रात्) पोता, सोम को पवित्र करने वाले (सुष्टुभः) उत्तम रूप से स्तुति करने योग्य (स्वर्कात्) उत्तम अर्चनीय, परमेश्वर से प्राप्त करके (अनुना) अपने प्राण के बलसे (सोमम्) उस ब्रह्मानन्दरस या प्रेरक जीवन या वीर्य, सोम को (पिवतु=पिबन्तु) पान करें, प्राप्त करें।

अग्निराग्नीध्रात् सुष्टुभः स्वर्कादितुना सोमं पिवतु ॥२॥

३. [२] १—वातश्वा बर्हिर्भरतस्य सज्जवाः पोत्रादा सोमं पिवतुदिवो नरः । ऋ० २।
३६।२ ॥ मरुतः पिवतुदितुना पोत्र्यद् यज्ञं पुनीतन । ऋ० १।
१५।१ ॥

२—पतिर्वाहि प्रस्थिने सोम्यं न्यु पिवामीध्रात् त्व भागस्य तृप्सुहि । ऋ०
२।३६।४ ॥

भा०—(अग्निः) अग्नि के समान तेजोमय विद्वान् पुरुष (अग्नीध्रात्) समस्त अग्नि विद्युत् सूर्य आदि को धारण करने वाले या समस्त अग्नियों को प्रदीप्त करने वाले या । सुस्तुभः) उत्तम स्तुति योग्य (स्वर्कात्) परम पूजनीय परमेश्वर से (ऋतुना) अपने सामर्थ्य से । सोमं पिवतु) सोम का पान करे ।

इन्द्रो ब्रह्मा ब्राह्मणात् सुष्टुभः स्वर्कादतुना सोमं पिवतु ॥३॥

ऋ० २।१५।५

भा०—(इन्द्रः) इन्द्र ऐश्वर्यवान्, विभूतिमान् (ब्रह्मा) ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मके महान् सर्वदेवमय, ज्ञानमय, वेदमय या वेद प्रतिपादित या ब्रह्माण्डमय, शक्तिस्वरूप, (सुस्तुभः) उत्तम स्तुति करने योग्य (स्वर्कात्) परम अर्चनीय (ब्राह्मणात्) परमेश्वर से (ऋतुना) अपने प्राणबल से (सोमं पिवतु) सोम रस का पान करे ।

देवो द्रविणोदाः पोत्रात् [होत्रात्] सुष्टुभः ।

स्वर्कादतुना सोमं पिवतु ॥४॥ ऋ० २।१५।१० ॥

भा०—(द्रविणोदाः) द्रविण, ज्ञान और धनका प्रदाता (देवः) विद्वान् पुरुष (सुस्तुभः स्वर्कात्) उत्तम स्तुति योग्य परम पूजनीय, अर्चनीय (पोत्रात्) सत्रके परम पावन परमेश्वर से (ऋतुना) अपने ज्ञान और प्राण सामर्थ्य से (सोमं पिवतु) सोमरस का पान करे ।

(१) द्यावा पृथिव्यौ वा एष यदाग्नीध्रः । श० १।८।१।४१।
अन्तरिक्षन् अग्नीध्रम् । तै० २।१।५।१।वाहु वा अस्य यज्ञस्य
आग्नीधीयश्च मार्जालीयश्च । श० ३।५।३।४ ॥

३-पिबेन्द्र स्वाहा प्रहुतं वपदकृतं हीवादा सोमं प्रथमोय ईशिपे ऋ० २।३६

१ ॥ ब्राह्मणादिन्द्राधसः पिवासोमं ऋतुंसु । इति ऋ० २।१५।१॥

४-होत्रानसोमं द्रविणोद पिव ऋतुभिः । ऋ० २।३७।१ ॥

(२) 'ब्रह्मणात्'-ब्राह्मणो वै सर्वाः देवताः । तै० १।४।४।२, ४
 ब्रह्मणो वा एतत् रूपं यद् ब्राह्मणः । श० । १३। १।५।२। ब्राह्मणो वै
 प्रजानानुपदद्या । श० । २।२।७।३ ॥

(३) 'द्रविणोदाः—प्राणवै देवो द्रविणोदाः । श० ६। ७। २। ३ ॥
 द्रविणोदाः इति द्रविणं ह्येभ्यो ददाति । श० ६। ३। ३। ३। १३ ।

अर्थात्-(१) जिस प्रकार वायुगण सूर्य से केवल ऋतु के अनुसार
 सोम-जल को ग्रहण करते हैं उसी प्रकार प्राणगण अपने आत्मा से अपने
 सामर्थ्यानुसार बल प्राप्त करें । उसी प्रकार विद्वान् गण स्तुत्य परमेश्वर से
 अपने ज्ञान सामर्थ्य के अनुसार सोम, ज्ञान और बल प्राप्त करें ।

(२) अग्नि जिस प्रकार सूर्य से अपना तेज ग्रहण करता है उसी
 प्रकार ज्ञानी पुरुष उस परमस्तुत्य समस्त अग्निओं के आश्रय परमेश्वर से
 अपने बल के अनुसार सोम, ज्ञानमय प्रकाश प्राप्त करे ।

(३) महान् शक्तिमान् इन्द्र विद्युत् जिस प्रकार महान् शक्तिमय
 सूर्य से जैसे अपने ऋतु के अनुसार बल धीर्य प्राप्त करता है उसी प्रकार
 ऐश्वर्यवान् वेदज्ञ पुरुष समस्त देवतामय, सर्व शक्तिमान् परमेश्वर से अपने
 बल सामर्थ्यानुसार बल और ज्ञान प्राप्त करे ।

(४) अग्नि या मेघ जिस प्रकार सूर्य से अपने ऋतु के अनुसार
 जल धारण करता है उसी प्रकार ज्ञान और सम्पत्ति का देने वाला दांती
 पुरुष भी सबके देने वाले (होत्रात्) सर्वप्रद परमेश्वर से (सोमं) ज्ञानी
 ऐश्वर्य को प्राप्त करे ।

३३ : [३] परमेश्वर और राजा का वर्णन

इरिम्बिठिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । रुचं सृजन् ॥

आ यांहि सुपुमा हि लु इन्द्र सोमं पिवां इमम् ॥

एदं वृद्धिः संदो मम ॥१॥ ऋ० ८। १७। १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र परम ऐश्वर्यवान् ! राजन् ! (ते) तेरे लिये ही (सोमम्) सोम. राष्ट्र का हम (सुपुम) सेवन करते हैं । तू (आयाहि) हमें प्राप्त हो । तू (इमम्) इसको (पिव) पान कर । (इदम्) यह (मम) मेरा (बर्हिः) दिया आसन है । इस पर (आसदः) आ विराज । अथवा—(इदं मम सदः) यह मेरा विराजने योग्य (बर्हिः) आसन है इस पर विराजो । अथवा राजन् ! (आयाहि) आ । तेरे लिये (सोमं सुपुम) सोम रूप राष्ट्र का सम्पादन, अभिषेक द्वारा प्रदान करते हैं, विजय करते हैं । इसका (पिव) पालन कर या उपयोग कर । यह (बर्हिः सदः) बड़ा भारी सभा-भवन है ।

आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वहंतामिन्द्र केशिना ।

उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥२॥ अ० ८।१७।२॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर (त्वा) तुझको (ब्रह्मयुजौ हरी) ब्रह्म अर्थात् ज्ञान के साथ योग करने वाले राजा को जिस प्रकार वे घोड़े घहन करते हैं उसी प्रकार (केशिनौ) किरणों से युक्त (हरी) हरणशील नित्य गतिमान् (वहताम्) धारण करते हैं । हे परमेश्वर ! आप (नः) हमारे समस्त (ब्रह्माणि) वेदमन्त्र, अथवा ब्रह्म विषयक स्तुतियों को अथवा ब्रह्म विषयक उपासना अनुष्ठानादिकों को (शृणु) श्रवण कर । और स्वीकार कर । राजापक्ष में—गौण वृत्ति से मन्त्र अर्थात् विचारपूर्वक युक्त दो घोड़े तेरे रथ को खेंच । तू हमारे मन्त्रों का श्रवण कर ।

अध्यात्म में—ब्रह्म परमेश्वर या मन के साथ युक्त दो हरणशील गतिशील प्राण और अपान, हे आत्मन् ! तुझे धारण करें ।

ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोमयामिन्द्र सोमिनः ।

सुतावन्तो हवामहे ॥३॥ अ० ८।१७।३॥

भा०—(वयम्) हम (सोमिनः) सोम, ज्ञान से सम्पन्न (ब्रह्माणः) ब्रह्म के ज्ञानी पुरुष (युजा) योग समाधि द्वारा (त्वा) तुम्हें (सोमपाम्) सोमरूप ब्रह्मानन्द रस के पान करने हारे को (सुतावन्तः) सम्पादित ब्रह्म रस से सम्पन्न होकर (हवामहे) बुलाते हैं ।

राजा के पक्षमें—(सोमिनः) राष्ट्र वाले हम (ब्रह्माणः) बड़े ऐश्वर्य वाले, (युजा) योग देने वाले, सहयोगी समस्त सहायक गण के सहित (त्वा सोमपाम्) तुम्हें राष्ट्र के पालक राजा को (सुतावन्तः) निष्पन्न समस्त उत्तम, ऐश्वर्यमय पदार्थों से सम्पन्न होकर तुम्हें बुलाते हैं ।

[४] ईश्वर की उपासना ।

हरिन्विष्टि ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । रुचं सूक्तम् ॥

आ नो याहि सुतावतोस्माकं सुष्टुतीरुपं ।

पिवा सु शिश्रिन्नन्धंसः ॥१॥ अ० ८।१७।४ ॥

भा०—हे इन्द्र ! परमेश्वर (सुतावतः) योग समाधि द्वारा अद्यात्मज्ञान का प्रसव करने वाले (नः) हमें तू (आयाहि) प्राप्त हो । (अस्माकम्) हमारी (सुष्टुतीः) उत्तम स्तुतियों को (उप) अति समीप होकर श्रवण कर, एवं स्वीकार कर । हे (सुश्रिन्) उत्तम ज्ञानवान् ! आप ही (अन्धसः) उस परम अमृत रस का (पिवा) पान करें, हमें भी पान करावें ।

आ ते सिञ्चामि कुच्योरनु गात्रा वि धावतु ।

गृभ्राय जिह्वया मधु ॥२॥ अ० ८।१७।५ ॥

भा०—हे पुरुष ! (ते कुच्योः) तेरी महान् कोखों में इस सोम को (अस्मिञ्चामि) सेवन करता हूँ । वह (ते गात्रा) तेरे गात्रों

में (अनु विधावतु) व्याप्त हो जाय (जिह्वया) जिह्वा द्वारा तू उस (मधु) मधुर अमृत को (गृभाय) ग्रहण कर।

स्वादुषुं अस्तु संसुदं मधुमान् तन्वेः तव ।

सोमः शमंस्तु ते हृदे ॥३॥ ऋ० ८।१७।६ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (संसुदे) उत्तम दानशील (ते) तेरे लिये (मधुमान्) मधुर गुणयुक्त यह (सोमः) सोम (स्वादुः) उत्तम स्वादिष्ट हो और (तव तन्वे शम्) तेरे शरीर के लिये शान्तिदायक हो। और (ते हृदे) तेरे हृदय के लिये भी (शम् अस्तु) शान्तिदायक हो।

[५] ईश्वर और राजा का वर्णन ।

धरिन्विष्टिर्भूमिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । सप्तचै सूक्तम् ॥

अयमुं त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः ।

प्र सोमं इन्द्र सर्पतु ॥१॥ ऋवेद ८।१७।७-॥

भा०—हे (विचर्षणे) प्रजाओं को नाना प्रकार से देखने वाले ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (जनीभिः अभि संवृतः इव) जिस प्रकार स्त्रियों से विरह दुःख नवयुवक वर वढ़ी शान से आता है उसी प्रकार (अयम्) यह (सोमः) सर्वप्रेरक, सर्वोत्पादक शक्ति भी (त्वा ३) तेरे पास ही (प्र सर्पतु) आती है अर्थात् वह सर्वोत्पादक शक्ति तुझे ही प्राप्त है। वह सोम कैसा है ? मानो (जनीभिः अभि संवृतः) नाना सृष्टियों को उत्पन्न करने वाली शक्तियों से व्याप्त है।

तुविश्रीवो वृपोदरः सुवाहुरन्ध्रसो मदं ।

इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नते ॥ २ ॥ ऋ० ८।१७।८ ॥

[५] आगामिभूक्तस्थादिमन्त्रमुपादाय बृहत्सर्वात्मकमण्यामिदं सूक्तं गण्डर्चमुच्यते ।
आगामिचाण्डर्चमेव । सर्वत्र इदं सप्तचमेवोपलभ्यते आगामि च नवर्च ।

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर (अश्वत्तः) सबको प्राण धारण करने वाले सर्वोत्पादक सान्ध्यं रूप सोन के (नदे) अत्यन्त हृष या उद्वेग में स्वयं (तुविप्रीवः) अनेक ग्रीवा वाला, अनेक सुख सहस्रमुख होकर (वषा-उत्-अरः) 'वषा' समस्त संसार में क्षीज वपन करनेहारी महान् शक्ति को उदीर्ण या जागृत करके (वृत्राहुः) वीर पुत्र के समान उत्तम बाहु अर्थात् क्षत्रियों के प्रतिवातक पदार्थों की बाधना करने वाला होकर वह (वृत्राणि) नाना वृत्रों, जीवन के नाशक कारणों को (जिन्तते) विनाश करता है ।

राजा के पक्ष में—उत्तम बाहुशाली, दृढ़ गर्दन और विस्तीर्ण छाती वाला राजा सोन अर्थात् राष्ट्र के बल में आकर घेरने वाले शत्रुओं का नाश करता है ।

इन्द्र प्रोहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान् ओजसा ।

वृत्राणि वृत्रहं जहि ॥ ३ ॥ ऋ० ८।१७।९ ॥

भा०—हे (वृत्रहन्) वारण करने वाले विरह विन्नों को नाश करने हारे इन्द्र ! ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! तू (ओजसा) ओज से, पराक्रम से (विश्वस्य ईशानः) समस्त विश्व को अपने वश करने और उसको संचालन करने में समर्थ होकर (त्वं दुरः प्रोहि) तू ही सबसे आगे चल । और (वृत्राणि) समस्त विन्नों का (जहि) नाश कर ।

राजा या सेनापति—शत्रु नाशक होने से या राष्ट्र के वित्तचारी लोगों को नाश करने द्वारा होने से 'वृत्रह' है । वह अपने पराक्रम से समस्त राष्ट्र का स्वामी होकर सबसे आगे २ चले और शत्रु बलों का नाश करे ।

दीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छंसि ।

यजमानाय सुन्वते ॥ ४ ॥ ऋ० ८।१७।१० ॥

भा०—हे परमेश्वर (ते अंकुशः^१) तेरा यश या विशेष लक्षण, (दीर्घः अस्तु) सब से अधिक है । (येन) क्योंकि तू (सुन्वते) ज्ञान सम्पादन करने वाले (यजमानाय) यज्ञशील, देवोपासक को (वसु प्रयच्छ) नाना प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान कर ।

'अंकुशः'—अंकते लक्ष्यति येन सः अंकुशः, इति दया० । उ० व्या० ।

अयं तं इन्द्र सोमो निपूतो अग्निं वहिषि ।

एहीमस्य द्रवा पिव ॥ ५ ॥ ऋ० ८ । १७ । ११ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् ! (ते) तेरा (अयम्) यह (निपूतः) अत्यन्त पवित्र (सोमः) सोम, सर्वोत्पादक वीर्य और तेज (वहिषि अग्नि) इस महान् आकाश में, यज्ञमें सोम के समान विद्यमान है । (ईम् एहि) इसको तू ही प्राप्त कर (अस्य द्रव) इसमें व्याप्त हो (पिव) तू ही इसका पान कर अर्थात् तू ही इसको अपने में ग्रहण कर ।

राजपत्न में—राजा का सोम, राष्ट्र अति पवित्र, जो विशाल आधार पर स्थित है । वह उसको प्राप्त करे और उसका सार भाग स्वयं ग्रहण करे ।

शाचिगो शाचिपूजनाय रणाय ते सुतः ।

आखण्डल प्र हूयसे ॥६॥ ऋ० ८ । १७ । १२ ॥

भा०—हे (शाचिपूजन) शक्तिशाली पुरुषों से भी पूजने योग्य अथवा शक्तिशाली पूजन वाले परमेश्वर ! हे. (शाचिगो) शक्तिशाली किरणों से युक्त ! अथवा शक्तिशाली गति देने के साधनों वाले ! अथवा शक्तिशाली गौ, सूर्यादि लोकों के स्वामिन् ! (अयं सुतः) यह उत्पादित समस्त संसार (ते रणाय) तेरे ही रमण करने के लिये है । इसलिये हे (आखण्डल) सर्वत्र खण्ड २ में भी व्यापक ! सर्वशक्तिमन् ! तू ही (प्र हूयसे) सबसे अधिक स्तुति किया जाता है ।

राजा के पक्ष में—हे (शाचिगो) शक्ति से गमन करने वाले ! हे (शाचिपूजन) शक्ति द्वारा पूजने के योग्य, प्रतिष्ठित यह तेरा निष्पन्न राष्ट्र भी तेरे रण, रमण करने के लिये है। हे (आखण्डल) शत्रुनाशक तू (ग्रहयसे) भली प्रकार आदरपूर्वक स्तुति किया जाता है।

यस्ते शृङ्गवृषो नपात् प्रणपात् कुरडपाथ्यः ।

न्य/स्मिन् दध्ना आ मनः ॥ ७ ॥ अ० २ । १७ । १३ ॥

भा०—(यः) जो (ते) तेरा (शृङ्गवृषः) लोकसंहारक और साथ ही सकल सुखों का वर्षक (नपात्) अगम्य या अनाश्रय सर्वजगत् का आश्रय (प्रणपात्) अति अधिक अगम्य या शक्तिशाली, कुरडपाथ्यः^१ दाहकारी, प्रलयाग्नि द्वारा पान करने वाले कर्म या सामर्थ्य अथवा रक्षण सामर्थ्य से सबको ग्रहण करने वाला है। तू (मनः) अपना समस्त मानस व्यापार (अस्मिन्) इसमें ही (आ नि दध्ने) लगा रहा है। ईश्वर के संकल्प मात्र से जगत् का प्रलय और सर्ग का कार्य हो रहा है।

[६] राजा और परमेश्वर का वर्णन ।

विधामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । नवर्च इत्तन् । गायत्र्यः ।

इन्द्रं त्वा वृषभं वृथं सुते सोमं हवामहे ।

स पांहि मध्वे अन्वसः ॥१॥ अ० ३ । ३० । १ ॥

भा०—व्याख्या देखो अथर्व० २० । १ । १ ॥

इन्द्रं ऋतुविद्ं सुतं सोमं हर्यं पुरुषुत ।

पिवा वृषस्य तातृपिम् ॥२॥ अ० ३ । ४० । २ ॥

[७] १. 'इडिं दाहे' (भ्वादिः) पचाध्व् । इडि रूपा (सुरादिः) इणतेवां ।

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! तू (ऋतुविदम्) क्रिया, ज्ञान के प्राप्त कराने वाले अपने (सुतम्) उत्पादित, (सोमम्) उत्पादक, सामर्थ्य, सोम को स्वयं (हर्य) चाह, स्वयं अपने वश कर । और (तातृपिम्) सब को तृप्त करने हारे उस सामर्थ्य को तू (पिव) पानकर और (वृषस्व) सर्वत्र सेवन कर । राजा के और मनुष्य के पक्ष में—हे ऐश्वर्यवान् ! (ऋतुविदम्) ज्ञान और क्रिया से म्यामर्थ्य को देने वाले, निष्पन्न (सोमम्) सोम रूप अन्न को (हर्य) प्राप्त करने की इच्छा कर । (तातृपिम्) तृप्तिकारी अन्न का (पिव) पान कर, खा और (वृषस्व) वीर्य शक्ति को प्राप्त कर ।

इन्द्र प्र णां धितावानं यज्ञं विश्वेभिर्देवेभिः ।

तिर स्तवान विश्पते ॥३॥ अ० ३ । ४० । ३ ॥

भा०—हे (स्तवान) सब के द्वारा स्तुति किये गये, प्रशंसा के भाजन ! हे (विश्पते) प्रजा के पालक प्रभो ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् इन्द्र ! (नः) हमारे (धितावानम्) धन धान्य से समृद्ध अथवा हितकारी (यज्ञम्) यज्ञ, राष्ट्र को (विश्वेभिः देवेभिः) समस्त देव विजेतों पुरुषों द्वारा (प्र तिर) बढ़ा ।

इंधर पक्ष में—हे इंधर तू समस्त दिव्य पदार्थों से हमारे जीवन-यज्ञ को दीव कर ।

इन्द्र सोमाः सुता इमे तव प्र यन्ति सत्पते ।

क्षयं चन्द्रास इन्द्रवः ॥४॥ अ० ३ । ४० । ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र परमेश्वर ! हे (सत्पते) सज्जनों के प्रतिपालक ! (इमे) ये (इन्द्रवः) परम ऐश्वर्यवान् ! (चन्द्रासः) चन्द्र के समान परम आह्लादजनक (सुताः) समाधि के अंगों द्वारा निष्पन्न

(सोमाः) ज्ञाननिष्ठ विद्वान् पुरुष (तव ह्यम्) तेरे ही आश्रय या तेरी ही शरण में (प्र यन्ति) आते हैं ।

राजा के पक्ष में—चन्द्र के समान आल्हादकारी ऐश्वर्यवान् (सोमाः) समस्त प्रेरक, शासक राजा लोग भी तेरी शरण, तेरे राजभवन, सभा-भवन में आते हैं । इन्द्र=आचार्य पक्ष में सोमगण, शिष्य आचार्य के गृह पर आते हैं ।

दृधिष्वा जठरं सुतं सोममिन्द्र वरेण्यम् ।

तव द्युक्षासु इन्द्रवः ॥५॥ ऋ० ३।४०।५॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यवान् प्रभो ! तू (सुतम्) उत्पादित इस (वरेण्यम्) वरणीय, परमपद में प्राप्त कराने वाले या परम वरणीय (सोमम्) सोम रूप सूर्य को (जठरे) अपने चृष्टि-को उत्पन्न करने के महान् कार्य में (दधिष्वा) स्थापित करता है । (द्युक्षासः) दीक्षिमान् (इन्द्रवः) ऐश्वर्यवान् समस्त लोक, हे परमेश्वर ! (तव) तेरे ही अधीन हैं । आचार्य पक्ष में—इस (सुतम्) विनीत आज्ञा-पालक शिष्य को अपने गर्भ में रख । ये तैजस्वी कान्तिमान् शिष्य तेरे ही हैं ।

राजा के पक्ष में इस निष्पन्न सोमरूप राष्ट्र को अपने जठर में अर्थात् अपने अधीन रख । ऐश्वर्यवान् कान्तिमान् रत्नादि धन सब तेरे ही हैं । 'जठरं'—जनेराष्ट च । उणा० । जनयतीति जठरम् । मध्यं वै जठरम् । श०॥

गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरल्यसे ।

इन्द्र त्वादात्तमिदं यशः ॥६॥ ऋ० ३।४०।६॥

भा०—हे (गिर्वणः) हे वाणियों द्वारा एकमात्र भजन, स्तुति करने योग्य ! (नः) हमारे प्रदान किये (सुतम्) समस्त साधनों से निष्पन्न इस आत्मा को (पाहि) पान कर, स्वीकार कर । तू (मधोः) मधु-अमृतमय परमानन्द की (धाराभिः) धाराओं से (अल्यसे) सर्वत्र प्रकाश-

मान है। हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यशः) यह समस्त तेजोमय विभूति,
(त्वादातम् इत्) तेरी ही प्रदान की हुई है।

राजा के पक्ष में—हे स्तुत्य राजन् ! हमारे उत्पादित इस अक्षादि
पदार्थ को स्वीकार कर या पालन कर। तू (मधोः धाराभिः अज्यसे) वीर्य
या शत्रु को तपाने हारे बल की धारा=धारणा शक्तियों से प्रकाशित है।
यह समस्त ऐश्वर्य तेरा ही दिया हुआ है।

श्रीभि शुम्नानि वृन्ति इन्द्रं सचन्ते अक्षिता ।

पीन्वी सोमस्य वावृधे ॥७॥ ऋ० ३। ४०। ७ ॥

भा०—(वनिनः) ईश्वर के भजन करने वाले पुरुष के (अक्षिता
शुम्नानि) समस्त अक्षय धन, ऐश्वर्य और यश आदि (इन्द्रम् श्रीभि
सचन्ते) उस इन्द्र को ही प्राप्त होते हैं उसके ही भेंट जाते हैं। और वह
(सोमस्य) इस सोम, समस्त संसार को (पीन्वी) पान करके (वावृधे)
स्वयं बढ़ा हुआ है, स्वयं सबसे महान् होकर रहता है।

राजा के पक्ष में—(वनिनः) धनाढ्यों के समस्त ऐश्वर्य उस राजा
को ही प्राप्त हैं, वह राष्ट्र रूप सोम को स्वयं स्वीकार करके सबसे बड़ा
चढ़ा है।

अर्वावतो न आ गंहि परावतश्च वृत्रहन् ।

इमा जुपस्व नो गिरः ॥८॥

भा०—हे (वृत्रहन्) आवरणकारी अन्धकार और समस्त विघ्नों
के नाशक प्रभो ! तू (नः) हमें (अर्वावतः) समीप के देश से और (परा-
वतः च) दूर देश से भी (आगहि) प्राप्त हो। और (इमाः नः गिरः)
हमारी इन वाणियों को (जुपस्व) स्वीकार कर।

राजा के पक्ष में—तू हम प्रजाजनों की प्रार्थनाओं को सुन। दूर और
समीप जहां भी हो वहां से हमारी रक्षार्थ हमें प्राप्त हो।

यदन्तरा परावतमवृवितं च ह्यसे ।

इन्द्रेह तत् आ गंहि ॥ ६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! तू (परावतम्) दूर देश और (अर्वा-
वतं च) समीप के देश और (यत्) जब (अन्तरा च) उन दोनों के
बीच के देशों में भी (ह्यसे) पुकारा जाता है । तुझे जब, जहां भी, पास
या दूर कहीं भी याद किया जाता है, हे प्रभो ! तू (ततः) वहां से
(इतः) यहां (आगंहि) हमें प्राप्त हो । ईश्वर सर्वत्र है, सर्वत्र उसका
स्मरण करे और वह सर्वत्र ही प्राप्त होता है ।

राजा के पत्र में—दूर पास और बीच के देशों में भी तुझे पुकारें तो
वहां ही प्रजा के दुःख-शमनार्थ प्राप्त हो ।

[७] परमेश्वर और राजा ।

१-३ सुकक्षः । ४ विश्वामित्रः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । चतुर्भुवं सृजन् ॥

उद् घेदमि श्रुतामघे वृषभं नर्यापसम् ।

अस्तारमेपि सूर्य ॥१॥ ऋ० ८। ९३ १ ॥

भा०—हे (सूर्य) सूर्य ! सूर्य के समान तेजस्वी ज्ञानवान् योगिन् !
तू (श्रुतामघम्) प्रसिद्ध ऐश्वर्यवान् (वृषभम्) सब सुखों के वर्षक, सब
को अपनी व्यवस्था में बांधने वाले, बड़े ब्रह्म के समान शक्तिमान् होकर
समस्त ब्रह्माण्ड को वहन करने वाले (नर्यापसम्) समस्त मनुष्यों और
जीवात्मा के हितकारी कर्म या व्यापार करने वाले (अस्तारम्) सबके
प्रेरक उस परमेश्वर को (आभि) लक्ष्य करके तू (उद् एपि घ) निश्चय
से उदित होता है ।

राजा के पत्र में—हे (सूर्य) विद्वन् ! ऐश्वर्यवान् ! नरश्रेष्ठ, सर्व-
हितकारी, तू (अस्तारम्) शत्रु पर शस्त्रास्त्र फेंकने में शूरवीर पुरुष को

प्राप्त होकर उदय को प्राप्त हो ! शिष्यपक्ष में—हे शिष्य सूर्य के व्रत को अनुसरण करने हारे ! तू श्रुत, वेदस्वरूप ज्ञान के धनी, ज्ञानवर्षक, हितकारी, ज्ञानसम्पन्न, ज्ञानान्धकार के नाशक आचार्य को प्राप्त होकर उन्नति को प्राप्त हो ।

नव नवतिं पुरं विभेदं बाहो/जसा ।

अहिं च वृत्रधावधीन् ॥२॥ ऋ० ८ । ९३ । २ ॥

स न इन्द्रं शिवः सखाश्वावृट् गोमृट् यवमत् ।

उरुधारेव दाहते ॥३॥ ऋ० ९ । ६३ । ३ ॥

भा०—(यः) जो ज्ञान का आवरण करने हारे वृत्र, अज्ञानान्धकार का नाश करने वाला, (बाहोजसा) अज्ञान बाधक वीर्य से, ज्ञानस्वरूप परमेश्वर सूर्य के समान (अहिम्) हृदय या आकाश पर आवरण करने वाले मेघ के समान अज्ञानावरण को (अवधीत्) विनष्ट करता है और (यः) जो (बाहोजसा) अपने बाहु, बाधन करने वाले वीर्य से, पराक्रम से (नव नवतिम्) ६६ (पुरः) देहों को भी (विभेद) तोड़ डालता है, अर्थात् जो ६६ देह-बन्धनों से मुक्त करता है (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र ऐश्वर्यवान् (शिवः) कल्याणकारी, (सखा) परम मित्र, (अश्वावृत्) समस्त व्यापक गुणों से युक्त, (गोमृत्) सूर्यादि लोकों या ज्ञान से युक्त, (यवमत्) प्रकृति के परमाणुओं को संयोग विभाग करने वाली शक्ति से युक्त परमेश्वर (नः) हमें (उरुधारा इव) बहुतसी दुग्ध धारा बहाने वाली दुग्धार कामधेनु के समान ही आनन्द रस एवं सुखों को (दाहते) प्रदान करता है । [२.३]

राजा के पक्ष में—जो राजा आवरणकारी, नगर को घेरने वाले शत्रु का नाशक (अहिम्) चारों तरफ फैले या सर्प के समान कुटिल शत्रु का नाश करता है और जो शत्रु के ६६ दुर्गों को तोड़ चुकता है वह 'इन्द्र'

कहाने योग्य राजा हमारे लिये कल्याणकारी मित्र, अश्वों, गौश्रों की सम्पत्ति से समृद्ध अन्नादि योग्य पदार्थों से युक्त होकर कामधेनु के समान हमें सब प्रकार के सुख प्रदान करता है ।

इसी प्रकार वह जीवात्मा जो अज्ञान का नाश करता, ६६ पुर अर्थात् ६६ वर्षों या हिता नाम नादियों को पार करके, सुखी सर्वमित्र, कर्म-इन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों से युक्त होकर नाना धारण सान्धर्ववान् होकर अर्न्वों को सुख देता है, वह 'इन्द्र' है ।

इन्द्रं ऋतुविदं सुतं सोमं हर्यं पुरुषदुत ।

यिया वृषस्व तातृविम् ॥४॥ अ० ३। ४०। २ ॥

भा०—व्याख्या देखो अथर्व० २०। ६। २ ॥

[=] परमेश्वर और राजा ।

क्रमशो भद्राजः दुस्सोः विश्वामित्रश्च अश्वयः । इन्द्रो देवता । विष्टुमः ।
तृत्वं सुतम् ।

एवा पांडि प्रत्नया मन्दतु त्वा शुधि ब्रह्म वावृषस्त्वो न गीर्भिः ।

आविः सूर्यं कृणुहि पीपिहीपो जहि शत्रूरंभि गा इन्द्र तन्त्रि ॥१॥

अ० ६। १७। ३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! (प्रत्नया) पूर्व के समान (एव) ही (पाहि) आप सोम का पान करें अर्थात् विश्व को धारण करते हैं । वह सोम (त्वा मन्दतु) तुम्हें नित्य आनन्दित करता है । तू (ब्रह्म शुधि) ब्रह्म अर्थात् वेदमन्त्रों का श्रवण करता है । (उत) और (गीर्भिः) स्तुति वाणियों से (वावृषस्त्व) वृद्धि कीर्ति को प्राप्त होता है । तू (सूर्यं आविः कृणुहि) सूर्य को प्रकट करता है । तू (इपः) शत्रुओं को और समस्त प्रेरक शक्तियों को भी या समस्त कामनाओं को समृद्ध या

सफल करता है। तू (शत्रून् जहि) शत्रु हमारे मनोरथों का नाश करने वालों को विनाश कर। (आ अभि तृन्धि) सूर्य जिस प्रकार किरणों को फँकता है विद्वान् जैसे वाणियों को स्फुरित करता है, हे परमेश्वर ! इसी प्रकार आप ज्ञानरश्मियों को प्रकट करें। अथवा (शत्रून् जहि, गा अभि तृन्धि) शत्रुओं का नाश कर और उसकी गो, इन्द्रियों का नाश कर।

राजा के पक्ष में—राजा पूर्व के समान राष्ट्र का (पाहि) पालन करे, वह उसको हर्षित करे। वह विज्ञानवान् पुरुषों की वाणियों को सुने। और उन की वाणियों से वृद्धि को प्राप्त हो। सूर्य अर्थात् विद्वान् को प्रकट करे। और शत्रुओं की इन्द्रियों का नाश करे अथवा उनकी (गाः) भूमियों को छीन ले।

अर्वाङ्गिहो सोमकामं त्वाहुर्यं सुतस्तस्य पित्रा मदाय ।

उरुव्यचां जठर आ वृषस्व पितेवं नः शृणुहि ह्यमानः ॥ २ ॥

ऋ० १ । १०४ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! (अर्वाङ्गि एहि) तू साक्षात् प्राप्त हो (त्वा) तुम्हको (सोमकामम् आहुः) विद्वान् पुरुष 'सोम-काम' कहते हैं। तू सोम अर्थात् समस्त संसार में 'काम' कामना, या संकल्प रूप से प्रेरक होकर सर्वत्र विद्यमान है। (अयं सुतः) यह तैयार किया हुआ सोम, समस्त संसार तेरे ही लिये है। (तस्य) उसका तू (मदाय) हर्ष के लिये (पित्र) पान कर। (उरुव्यचाः) तू महान् आकाश के समान सर्वव्यापक है। तू अपने ही (जठरे) उत्पादक सामर्थ्य में (आ वृषस्व) इसको समस्त रसों से पूर्ण कर, सिंचन कर। और (ह्यमानः) जब भी तुम्हें पुकारा जाय तभी (पिता इव) पिता के समान (नः) हमारी पुकार (शृणुहि) श्रवण कर।

राजा के पक्ष में—हे राजन् ! तुम हमारे पास आओ। तुम्हें राष्ट्र की कामना वाला, कहते हैं। तू इसका भोग कर। तू महान् सामर्थ्यवान्

होकर अपने ही अधिकार में इसको पुष्ट कर । और हम प्रजाओं की पुकार पिता के समान सुन ।

आपूर्णा अस्य कलशः स्वाहा सेकेषु कोशं सिसिचे पिवंध्यै ।
समु प्रिया आववृत्रन् मदाय प्रदक्षिणाम्भि सोमासु इन्द्रम् ॥३॥

ऋ० ३ । ३२ । १५ ॥

भा० —(अस्य) इस इन्द्र के लिये (कलशः) यह कलश (स्वाहा) उत्तम रीति से (आ पूर्णः) पूर्ण है । अर्थात् परमेश्वर को शक्ति से यह समस्त ब्रह्माण्ड पूर्ण है । उसमें कोई न्यूनता नहीं है । (सेका) प्यालों को भरने वाला जिस प्रकार उंडेज २ कर प्याले भरा करता है उसी प्रकार वह भी (पिवंध्यै) आनन्दरस पान करने के लिये (कोशं सिसिचे) इस समस्त भुवन कोष को और अध्यात्म में हृदय को ही रस अपने आनन्द से और सामर्थ्य से (सिसिचे) सिंचता है । (प्रियाः) उसके सभी प्यारे (सोमासः) सोम, उपासकजन (मदाय) हर्ष आनन्द प्राप्त करने के लिये (इन्द्रम्) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु के (अभि प्रदक्षिणाम्) चारों तरफ उसको घेरते हुए (समु आववृत्रन्) एक साथ ही घेर कर बैठे हैं ।

राजा के पक्ष में—इसका राष्ट्र रूप कलश सदा पूर्ण रहे । वह प्याले भरने वाले के समान सदा उपभाग के लिये ही अपने कोश-खजाने को भरा करे । और प्रिय सोम, विद्वान् पुरुष या राजा लोग उसके दाहिनी तरफ से उस इन्द्र महान् सम्राट् को घेरकर बैठें ।

[६] परमेश्वर और राजा ।

१, २ नोधाः, ३, ४ मेधातिथिक्रंषिः । १. २ निष्टुभौ, ३, ४ प्रगाथे ।

चतुर्भुवं चक्रम् ।

तं वां दस्ममृतीपहं वसामेन्दानमन्धसः ।

अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीभिर्नवामहे ॥१॥

श्ल० ८।७८।२॥

भा०—(स्वसरेषु) दिनों के समाप्ति के अवसर पर (वत्सम् अभि) यज्ञों को लक्ष्य करके (धेनवः च) जिस प्रकार गौँ हंभारती हैं उसी प्रकार हम प्रेम से बद्ध होकर (धेनवः) उसका रस पान करने हारे उपासक लोग उस (वत्सम् अभि) सबके भीतर वास करने वाले अथवा सब को उपदेश करने हारे (दस्मम्) दर्शनीय, (ऋतीपहम्) समस्त दुःखों के नाशक (वसोः अन्धसः) सबके भीतर बसने वाले व्यापक (अन्धसः) प्राण धारण करने वाले अपने उत्साह वा सामर्थ्य सोम से ही (मन्दानम्) परम आनन्द प्राप्त कराने हारे (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् प्रभु को (गीभिः नवामहे) हम स्तुति वाणियों से स्तुति करें ।

राजा के पक्ष में—हम दर्शनीय राष्ट्र के दुःखनाशक (अन्धसः वसोः मन्दानम्) अन्न और ऐश्वर्य से सुख को प्राप्त करते हुए इन्द्र की हम प्रशंसा करें ।

द्युत्तं सुदानं तविपीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम् ।

क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहस्रिणं मज्जू गोमन्तमीमहे ॥२॥

श्ल० ८।८८।२॥

भा०—(द्युत्तम्) दीक्षिमान् तेजस्वी (सुदानम्) उत्तम २ पदार्थों के दाता (गिरिं न) पर्वत के समान (पुरुभोजसम्) बहुतसे भोग्य पदार्थ, कन्दमूल आदि, हिरण्य रत्नादि नाना भोग्य पदार्थों को देने हारा अथवा बहुत से प्राणियों का पालन करने हारे (तविपीभिः) महान् शक्तियों से (आवृतम्) घिरे हुए परमेश्वर से (क्षुमन्तम्) अन्न सम्पत्ति से युक्त, (वाजम्) बलवान्, (शतिनं, सहस्रिणम्) सैकड़ों और सहस्रों

ऐश्वर्य से युक्त, (गोमन्तम्) गो आदि पशुओं से समृद्ध (वाजन्) ऐश्वर्य की (मधु) शीघ्र या निरन्तर प्रतिक्षण (ईमहे) याचना करते हैं ।

राजा के पक्ष में—तेजस्वी, उत्तम दानशील, उदार, प्रजाओं के पालक राजा से हम अन्नादि समृद्धि से युक्त ऐश्वर्य की याचना करते हैं ।

तत् त्वां यामि सुवीर्यं तद् ब्रह्म पूर्वचित्तये ।

येना यतिभ्यो भृगव धनं हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥३॥

ऋ० ८।३।९॥

भा०—हे परमेश्वर ! (पूर्वचित्तये) अपने पूर्व या पूर्ण प्रज्ञान प्राप्त करने के लिये (त्वा) तुझ से (तत् सुवीर्यम् ब्रह्म) उस उत्तम वीर्य, बलशाली (ब्रह्म) महान् स्वरूप को (यामि) उपासना करूं । (येन) जिससे (यतिभ्यः) यम नियम के पालक, तपस्वी पुरुषों और (भृगवे) पापों के भूतनेहारे, तेजस्वी ज्ञानी पुरुष को तू (हिते) हितकर (धने) परम ऐश्वर्य में स्थापित करता है और (येन) जिससे (प्रस्कण्वन्) परम मेधावी पुरुष को (आविथ) रक्षा करता है ।

राजा के पक्ष में—(पूर्वचित्तये) पूर्व निर्धारित 'चित्ति' अर्थात् परस्पर के समझौते के अनुसार हे राजन् ! मैं तुझसे उत्तम वीर्यजनक (ब्रह्म) बड़े भारी ऐश्वर्य की प्रार्थना करता हूँ जिससे तू नियमों में बद्ध प्रजाओं और (भृगवे) ज्ञानवान् विद्वान् के निमित्त (हिते धने) वेतन रूप से बंधे धन में उनको सन्तुष्ट करता है और जिससे (प्रस्कण्वन्) उत्तम २ ज्ञानी पुरुषों को भी (आविथ) अपने राष्ट्र में पालन करता है ।

येनां समुद्रमखोजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शवः ।

सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं जोषीरिनुचरुदे ॥४॥

ऋ० ८।३।१०॥

भा०—हे परमेश्वर ! (येन) जिस महान् सामर्थ्य से तू (सगुदन् अमृतः) समुद्र को उत्पन्न करता है और (महीः अपः) उसमें मद्दान् अनन्त जलों को पैदा करता है । हे (इन्द्र) पृथ्वर्यवान् प्रभो (ते) तेरा तो (तत्) वह (वृष्णि) सकल सुखों का वर्षक, सबसे अधिक (शवः) बल है । हे पुरुषो ! (अत्य) उस प्रभु की (सः महिमा) वह महिमा जो (न संनशे) कभी पार नहीं की जा सकती । (यं) जिसको (क्षोणीः) जगत् के समस्त प्राणी (अनु चक्रदे) बराबर कहा करते हैं ।

[१०] परमेश्वर की उपासना ।

मेध्यातिथि ऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथे । द्वयुचं सूक्तम् ।

उदु त्ये मधुमत्तमा गिरु स्तोमांस ईरते ।

सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥१॥

ऋ० ८ । ३ । १५ ।

भा०—हे इन्द्र परमेश्वर ! (सत्राजितः) एक ही बार की चढ़ाई में शत्रुओं को जीत लेने वाले, (धनसाः) नाना ऐश्वर्यों के देने वाले, (अक्षितोतयः) अक्षय, रक्षा करने में समर्थ, दृढ़ रक्षक, दृढ़ रक्षा साधनों से युक्त, (वाजयन्तः) बल वीर्यशाली, परस्पर संग्राम करते हुए (रथाः इव) रथ या रथ वाले महारथी लोग जिस प्रकार (उद् ईरते) उदते हैं, और बढ़े चले जाते हैं उसी प्रकार (त्ये) वे (मधुमत्तमाः) अत्यन्त मधुर (स्तोमांसः) स्तुतिमय (गिरः) वाणियों (उद् ईरते) हृदय से उदती हैं ।

कण्वा इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद् धीतमानशुः ।

इन्द्रं स्तोमिभिर्मह्यन्तः श्राययः प्रियमैधासो अस्वरन् ॥२॥

ऋ० ८ । ३ । १६ ॥

भा०—(कण्वा इव) जिस प्रकार मेधावी पुरुष, (भृगवः) और तेजस्वी, मलों को भून डालने वाले शुद्ध निष्पाप और जिस प्रकार (सूर्याः)

इव) सूर्य के समान ज्ञान-प्रकाश से युक्त विद्वान् पुरुष (धीतम्) ध्यान द्वारा उपासित (विधम्) विध के समस्त पदार्थों को (ज्ञानशुः) यथार्थ रूप से जान लेते हैं और वे ही (स्तोत्रेभिः) उत्तम स्तुतियों द्वारा (इन्द्रम्) परमेश्वर की (महयन्तः) पूजा करते हुए उसका गुणगान करते हैं, (प्रियमेघानः) मेघा बुद्धि को प्रिय मानने वाले या मनोहर बुद्धि सम्पन्न होकर (आयवः) पुरुष भी उस परमेश्वर की (अत्रवन्) स्तुति करते एवं उसका उपादेश करते हैं ।

अथवा—। प्रियमेघानः आयवः) बुद्धि, ज्ञान को प्रेम करने वाले ज्ञानी पुरुष उस परमात्मा की स्तुतियों द्वारा पूजा करते हुए स्तुति करते हैं और वे (विश्वम् इदं ध्यातम् आनशुः) ध्यान द्वारा उसके पूर्ण तत्व को (कएवाः इव ऋगवः सूर्याः इव) कएव, ऋगु और सूर्यों के समान जान लेते हैं ।

‘कएवा’ कएनिमीलने, अस्मात् कन् प्रत्ययः । बाह्येन्द्रियों को निमीलित करके ध्यान करने वाले ध्यानी ‘कएव’ हैं ।

‘ऋगवः’—‘अस्त्रपाके’ इत्यतः उः सम्प्रसारणं सलोपश्च । अति परिपक्व ज्ञानवान्, अर्थात् अपने सुदीर्घ अनुभव से ज्ञान को परिपक्व करने वाले ज्ञानी ‘ऋगु’ कहाते हैं ।

‘सूर्याः’—आदित्य के समान तेजस्वी, ज्ञान के भण्डार आदित्य योगी सूर्य कहाते हैं ।

[११] परमेश्वर और राजा ।

विश्वानिभ्र अग्निः । इन्द्रो देवता । विन्दुमः । एकादशर्वं चक्षन् ।

इन्द्रः पृथिव्यातिरुद् दासमकैर्विदद्वंसुर्दयमानो वि शत्रून् ।

ब्रह्मजूतस्तन्वा/ वावृथानो भूरिदात्र आवृणुद् रोदसी उभे ॥१॥

भा०—(इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् इन्द्र, परमेश्वर (पूर्भिद्) इस देह पुरी को तोड़नेद्वारा, मुक्तिप्रद, (अर्कैः) अपने अर्क, अर्थात् पूजनीय ज्ञानों से (दासम्) इस शरीर में रहने वाले जीव को (आ अतिरत्) अधिक शक्तिमान् कर देता है । और वही समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करनेद्वारा (शत्रून्) शत्रुओं अर्थात् आत्मा की शक्तियों का शासन, नाश करने वाले बाधक कारणों को (दयमानः) मारता हुआ (ब्रह्मजुतः) ब्रह्म, महान् शक्ति से सम्पन्न (तन्वा) अपनी विस्तृत शक्ति से (वावृधानः) अत्यन्त महान् (भूरिदात्रः) बहुत बड़ा दानी, परमेश्वर (उभे रोदसी आपृणाद्) दोनों लोक, आकाश और पृथ्वी को व्याप रहा है ।

राजा के पक्ष में—(पूर्भिद्) शत्रुओं के गढ़ तोड़ने वाला (अर्कैः) अर्चनीय धनों से अपने सेवक को बढ़ाता है । शत्रुओं को नाश करता है । ब्रह्म, विद्वानों से अपने विस्तृत राष्ट्र को बढ़ाता हुआ (उभे रोदसी आपृणाद्) अपने और पराये दोनों राष्ट्रों पर वश कर लेता है । अथवा राज-सम्बन्धी शासक और प्रजा दोनों पर वश करता है ।

मुखस्य ते तविषस्य प्र जुतिमियर्षिं वात्रममृताय भूपन् ।

इन्द्रं क्षितीनामखि मानुषीणां त्रियां दैवीनामुत पूर्व्यावा ॥२॥

सू० ३।३४।२।

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! तू (मानुषीणाम्) समस्त साधारण मनुष्यों (क्षितीनाम्) प्रजाओं और (दैवीनाम्) देवी, सूर्य चन्द्रादि (विशाम्) तेरे में प्रविष्ट समस्त लोकरूप प्रजाओं में (उत) भी (पूर्व्यावा) सब से प्रथम मत् रूप में प्राप्त होने योग्य (अखि) रहा है और होगा । (अमृताय ; अमृत, मोक्षपद के प्राप्त होने के लिये स्वयं (भूपन्) योग्य होने इच्छा करता हुआ । (मुखस्य) सर्व-व्यापक, सर्वज्ञ, एकमात्र वेद्य, सर्वोपगम्य पूजनाय (तविषस्य) सर्व

शक्तिमान् एवं महान् (ते) तेरी (प्रजूतिन्) महती वेगवती शक्ति और व्यापक, (वाचम्) वेदज्ञानमयी वाणी को (इयमि) प्राप्त होता हूँ । उसका ज्ञान करता हूँ ।

राजा के पक्ष में—वृ समस्त साधारण और विशेष विद्वान्, दानशील प्रजाओं का (पूर्वयावा) अप्रणी है । तुम्हें पूजनीय, महान् बलशाली वेगवती शक्तिशाली (वाचम्) आज्ञाओं में (अमृताय भूषन्) दीर्घ जीवन के प्राप्त करने के लिये या अमृत अन्न आदि पदार्थों की प्राप्ति के लिये मैं पालन करूँ ।

'मखः'—'मख मखि तल्पथौ (भवादी) । 'तविपत्य'—तवः बलं तद्वतः ।

इन्द्रो वृद्धमंत्रलोच्छर्षणीतिः प्र मायिनाममिनाद् वर्षणीतिः ।

अहन् व्य/समुशभृग् वनेवाविधेना अकृणोद् राम्याणाम् ॥३॥

श्र० ३ । ३४ । ३ ॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर (शर्षणीतिः) बल को प्राप्त करके ही (वृद्धम्) आन्तरणकारी अज्ञान को (अकृणोत्) दूर करता है । और वहीं (वर्षणीतिः) अपने रूप को प्राप्त कराने वाला होकर ही (मायिनाम्) नावा वाले प्राणों के बन्धन को (प्र आमिनात्) भली प्रकार नाश करता है । (वनेषु) जंगलों में (उशभृग्) अग्नि जिस प्रकार जला कर सब कुछ भस्म कर देता है, वह परमेश्वर भी (वनेषु, वनन अर्थात् भजन करने वाले परम भक्तों में (उशभृग्) उनकी समस्त कामनाओं को भस्म करने वाला होकर, उनकी कर्म वासनाओं को समूल नष्ट करके (वि-अंसम् अहन्) उनके समस्त अंस अर्थात् पीड़ाजनक कष्टों को दूर करके उनकी (अहन्) प्राप्त होजाता है । और तत्र (राम्याणाम्) इस पर ब्रह्म में रमण करने हारे उन तत्त्व ज्ञानियों की (घेनाः) स्तुतिमयी वाणियों को (आविः अकृणोत्) प्रकट करता है ।

राजा के पक्ष में—(शर्धनीतिः) बल को प्रयोग करने वाला, राजा (वृत्रम्) राष्ट्र को धेरने वाले को छिन्न भिन्न करे । (वर्षनीतिः) नाना रूपों के शत्रुादि संचालन में चतुर होकर अथवा स्वयं अपने आप नेता होकर (मायिनाम् प्र अमिनात्) मायावी दुष्ट पुरुषों को नाश करे । जंगलों को जिस प्रकार अग्नि भस्म कर देती है उस प्रकार वह शत्रुओं को (व्यंसम्) उनके कन्धे आदि या सेना के अंग काट २ कर उनको (अहन्) मारे और तब (राम्याणाम्) अपने में रमण करने वाली या, रमण करने योग्य प्रज्ञाओं की हर्ष भरी बाणियों को प्रकट करे ।

इन्द्रः स्वर्पा जनयन्नहानि जिगाथोशिग्भिः पृतना अभिष्टिः ।

प्रारोचयन्मनवे केतुमहामविन्दज्ज्योतिर्दृहते रणाय ॥ ४ ॥

ऋ० ३ । ३ । ४ । ४ ॥

भा०—(स्वर्पाः) स्वः-परम सुख का प्रदान करने वाला (इन्द्रः) पेश्वर्यवान् परमेश्वर (अहानि जनयन्) सन्बकारों को दूर करने वाले ज्योतिर्मय पदार्थों वा दिनों को उत्पन्न करता हुआ (अभिष्टिः) साक्षात् कामनामय होकर या सर्वतोमुख प्रेरणा शक्ति से युक्त होकर (उशिग्भिः) सर्व वशकारी सान्ध्यों या प्रार्थों से या काम्य पदार्थों या दीक्षिमान पदार्थों से (पृतनाः) समस्त प्रजाओं को (जिगाथ) नीतता है, अपने वश करता है । और (मनवे) मननशक्ति पुरुष के लिये (अहाम् केतुम्) तमो नाशक तेजों के ज्ञापक सूर्य को (प्रारोचयन्) अति दीप्त करता है । और (दृहते रणाय) उस वदे भारी, अति रमणीय सुख, मोक्ष की प्राप्ति के लिये वह स्वयं (ज्योतिः) परम ज्योति को (अविन्दत्) प्राप्त करता है, धारण करता है ।

राजा के पक्ष में—वह राजा (स्वर्पाः) उत्तम सुखों का दाता, (अभिष्टिः) सर्वत्र गतिशील होकर (अहानि जनयत्) अत्याज्य, अहन्तव्य सेनावलों

को प्राप्त करके (उशिशिभिः) वशकारी सेनापतियों द्वारा सेनाओं को विजय करे। समस्त मनुष्यों को और समस्त सेनाओं के आजापक सेनापति को सब से उन्नत करे। बड़े रमणीय राष्ट्र के लिये और महान् युद्ध के लिये (ज्योतिः) धनको प्राप्त करे।

इन्द्रस्तुजो वर्धणा आ विवेश नृवद् दधानो नर्यां पुलहिं ।

अचंतयद् धियं इमा जरित्रे प्रेमं वरुणमतिरच्छुक्रमांसाम् ॥५॥

सू० ३।३४।५ ॥

भा०—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् परमात्मा (नृवत्) जिस प्रकार नेता सेनापति (पुलहिं नर्यां दधानः) बहुतसे अपने सैनिक पुरुषों के योग्य हितकारी पदार्थों को धारण करता है। अथवा—(नृवत्) मनुष्य, जीव जिस प्रकार (नर्यां) जीव के अपने उपयोगी (पुलहिं) इन्द्रियों को धारण करता है उसी प्रकार वह परमेश्वर (नृवत्) महान् नेता के समान या महान् पुरुष के समान (नर्यां) नृ-जीवों के बसने और कर्मफल भोगने योग्य उनके हितकारी (पुलहिं) पालन सामर्थ्यों या लोकों को स्वयं (दधानः) धारण करता हुआ स्वयं (तुजः) वेगवती, प्रेरक या छेदक, भेदक (वर्धणाः) बढ़ती शक्तियों में (आ विवेश) आविष्ट है। और वह (जरित्रे) स्तुति करने वाले पुरुष की या रात्रि के जरण करने वाले सूर्य की (इमा धियः) इन नाना धारण शक्तियों को (अचेतयत्) चेतन करता है, उनको प्रयुक्त करता है। और (आंसाम्) इनके (शुक्रम् वरुणम्) कान्तिमय शुद्ध स्वरूप को (प्र अतिरत्) बढ़ाता है।

राजा के पक्ष में—वह (तुजः) बलवान् शत्रु नाशक राजा के समान सब प्रजा के (नर्यां) मानव संघों या ऐश्वर्यों को धारण करता हुआ वृद्धिशाल प्रजाओं में प्रविष्ट होता है। (जरित्रे) विद्वान् पुरुषों को उनके

(धियः) समस्त कर्म बतलाता है । (आसाम्) इन प्रजाओं के (शुक्रम् वर्धम्) शुद्ध निष्पाप स्वरूप को बढ़ाता है ।

महो महानिं पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरुणि ।

वृजनेन वृजिनान्तसं पिपेप मायाभिर्दस्यूरभिभून्त्योजाः ॥६॥

श्र० ३।३८।६॥

भा०—(अस्य महः इन्द्रस्य) इस महान् परमेश्वर के (पुरुणि) बहुतेसे (सुकृता) उत्तम रीति से रचे हुए (कर्म) कर्मों की विद्वान् लोग (पनयन्ति) स्तुति करते हैं । (वृजनेन) वर्जन करने वाले, पाप से निवृत्त करने वाले श्रेयो मार्ग से या ज्ञान से (वृजिनान्) वर्जन करने योग्य पापाचारी को (सं पिपेप) विनाश कर देता है और (अभिभून्त्यो-जाः) सर्वत्र सृष्टि उत्पन्न करने वाले या शत्रुनाशक वीर्य सामर्थ्य से युक्त वह (मायाभिः) अपनी मायाओं से, ज्ञानशक्तियों से (दस्यून्) दुष्ट पुरुषों को भी (सं पिपेप) चूर्ण कर डालता है ।

राजा के पक्ष में—लोग इस समृद्ध राजा के बहुतेसे पुण्य कर्मों की स्तुति करते हैं । वह पाप निवारक बल से पापाचारी पुरुषों को और (मायाभिः) ज्ञान कौशल से युक्त अद्भुत शक्तियों से दस्युओं को (संपिपेप) नाश करता है ।

युधेन्द्रां महा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चर्षणिप्राः ।

त्रिवस्वतः सद्ने अस्य तानि विप्रा उक्थेमिः क्वगो गृणन्ति ॥७॥

श्र० ३।३।४।७॥

भा०—(सत्पतिः) सत्पुरुषों का पालक, (चर्षणिप्राः) समस्त मनुष्यों की कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ, (इन्द्रः) इन्द्र, परमेश्वर (युधा) युद्ध द्वारा जिस प्रकार राजा धन उत्पन्न करता उसी प्रकार (युधा) अपने समस्त विश्व के प्रेरक अथवा दुष्टों को प्रहार करने वाले (महा)

महान् सामर्थ्यं से (देवेभ्यः) समस्त दिव्य पदार्थों, विद्वानों, सत्पुरुषों के लिये (वरिवः चकार) सर्वोत्तम ऐश्वर्य उत्पन्न करता और उनको प्रदान करता है । (विद्वत्त्वतः अस्य) विविध ऐश्वर्यों से सम्पन्न सूर्य के समान तेजस्वी, इसके (सद्ने) शरण में, सुखरूप आश्रय में आये हुए (विशाः) विद्वान् ज्ञानी (कवयः) क्रान्तदर्शी पुरुष (उक्थेभिः) नाना वेदमन्त्ररूप स्तुति वचनों से (तानि) उसके उन २ नाना कर्मों का (गृणन्ति) उपदेश करते हैं ।

राजा के पक्ष में—सज्जनों का पालक, प्रजा के ऐश्वर्यवर्धक राजा युद्ध द्वारा भी देवों, विजिगीषु विद्वानों के लिये बहुत धनैश्वर्य उत्पन्न करता है । उस सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को विद्वान्जन वेद-वचनों द्वारा नाना उपदेश करते हैं ।

सत्रासाहिं वरेण्यं सहोदां ससत्रांसं स्वः/रपश्च देवीः ।

सत्सान यः पृथिवीं घामुतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु धीरणासः ॥८॥

ऋ० ३।३४।८ ॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (पृथिवीम्) पृथिवी (उत घाम्) और द्यौ, आकाश दोनों को (ससान) ठचित रीति से सम्भोग करता और धारण करता है उस (सत्रासाहम्) एक ही अपने परम सामर्थ्य से सबको सहन करने वाले (वरेण्यम्) सर्वश्रेष्ठ, सबके वरण करने योग्य, (सहोदाम्) सबको बल देने वाले, अथवा अपने बल से सब की रक्षा करने वाले (स्वः) परम तेजोमय सूर्य आदि लोक और (देवीः च अपः) दिव्य गुण वाली या तेजोमय, क्रियाश्रों और प्रज्ञाश्रों को (ससत्रांसम्) धारण करने वाले (इन्द्रम्) इन्द्र-परमेश्वर को साक्षात् करके (धीरणासः) धीर, बुद्धिमान, ध्यानशील योगी पुरुष (अनु मदन्ति) उसके आनन्द रस के साथ स्वयं भी आनन्द अनुभव करते हैं ।

राजा के पक्षमें—पृथिवी और आकाशस्थ दोनों लोकों को जो अपने वश करने में समर्थ हो ऐसे (सत्रासाहं) सेना के द्वारा शत्रु सेना के विजंता, सर्वश्रेष्ठ, बलशाली, पालक अपने बल से (देवीः अपः) युद्ध-विजयी प्रजाओं और अपने (स्वः) शत्रुपापक तेज को भोगने वाले राजा के अनुकूल होकर धीरे पुरुष स्वयं सुख का भोग करते हैं ।

ससानात्स्योऽन सूर्यं ससानेन्द्रंः ससान पुरुभोजसं गाम् ।

हिरण्ययंमुतभोगं ससान हृत्वी दस्यून् प्रार्थं वरुणमावत् ॥६॥

ऋ० ३।३४।९ ॥

भा०—(इन्द्रः) इन्द्र परमेश्वर हम जीवों को प्रथम (अत्यान्) गतिशील शक्तों के समान इन्द्रियों को (ससान) प्रदान करता है । (उत) और (सूर्यम् ससान) सूर्य, सूर्य के समान ज्ञानी पुरुष को या आत्मा को या प्रकाश को भी प्रदान करता है । वह (पुरुभोजसम् गाम्) नाना भोग्य पदार्थों से सम्पन्न गौ-गाव और पृथ्वी का भी (ससान) हमें प्रदान करता है । वह हमें (हिरण्यम्) हित और रमणीय, सुवर्ण आदि ऐश्वर्य और (भोगम्) भोग-भोग करने की शक्ति और भोग्य पदार्थ भी (ससान) प्रदान करता है और (दस्यून् हत्वा) नाशक दुष्ट पुरुषों को नाश करके (प्रार्थं वरुणं) श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि उत्तम कार्य करने वाले सचरित्र पुरुषों की (प्र अवत्) अच्छी प्रकार रक्षा करता है ।

राजा भी—अपने प्रजा को उत्तम घोड़े, उत्तम विद्वान्, भूमि, गौ, हिरण्य, नाना भोग प्रजा को देता और उत्तम श्रेष्ठ वर्ण के आर्य पुरुषों की रक्षा करता है ।

इन्द्र आपधीरसनोदहान्ति वनुस्पतरिसनोदन्तरिक्षम् ।

धिभेदं बलं नुनुदे विवाचोथाभवद् दमिताभिकंतूनाम् ॥१०॥

भा०—(इन्द्रः) इन्द्र ऐश्वर्यवान् परमात्मा (ओषधीः असनात्) धान, जौ, और नाना रोगहारी ओषधियों को हमें प्रदान करता है। और वह (अहानि असनात्) हमें प्रकाश वाले दिन कार्य करने के लिये प्रदान करता है। और वह (वनस्पतीन् असनात्) वड़े २ वृत्तों, वनस्पतियों को प्रदान करता है। और वह हमें (अन्तरिक्षम् असनात्) विहार करने के लिये अन्तरिक्ष और उसमें स्थित समस्त ऐश्वर्य प्रदान करता है वह परमेश्वर (बलम्) आत्मा को घेर लेने वाले अन्धकार को, मेघ को सूर्य के समान (विभेद) छिन्न भिन्न कर देता है और वह परमेश्वर (विवाचः) विविध वेदवाणियों को हमारे प्रति (जुजुदे) प्रोत्ति करता है। और वह (अभि क्रवृताम्) कर्मों और ज्ञानों को साक्षात् करने वाले पुरुषों का (दमिता अभवत्) दमनकारी, शान्ति करने वाला है।

राजा के पक्ष में—वह प्रजाको ओषधि दे (अहानि) अत्याज्य कर्मों को उपदेश करे। वनस्पति और आकाश के भोग दे। घेरने वाले शत्रु का नाश करे। विपरीत वाणी के बोलने वाले को दूर करे और (अभि-क्रवृताम्) अपने विपरीत, अभिचार कर्म करने वाले आक्रामकों का दमन करे।

शुनं हुवेम मधवान्मिन्द्रमस्मिन् भरे नृतमं वाजंसातौ ।

शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घनन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम् ॥११॥

भा०—(वाजंसातौ) ज्ञान, वीर्य के प्राप्त कराने वाले (अस्मिन् भरे) इस महान् यज्ञ, ब्रह्मोपासना के अवसर में हम लोग (शुनम्) सर्वोत्कृष्ट गुणवाले, सुखप्रद (मधवानम्) सर्वैश्वर्यवान्, (नृतमम्) सब पुरुषों में उत्तम, सर्वोत्तम नायक को (ऊतये) समस्त प्रजाओं की रक्षा के लिये उनकी प्रार्थनाओं को (शृण्वन्तम्) श्रवण करने वाले अथवा सर्वत्र श्रवण किये जाने हारे, स्तुति योग्य (उग्रम्) अति बलवान्, भयंकर, (समत्सु) योग

समाधि से उत्पन्न आनन्द-लाभ के अवसरों में (धृत्राणि) आत्मा के आवरण करने वाले अज्ञानों का (घ्नन्तं) विनाश करने वाले (धनानाम्) समस्त विभूति ऐश्वर्यों को (संजितम्) विजय करने वाले (इन्द्रम्) परमेश्वर की (हुवेम) हम स्तुति करें।

राजा के पक्ष में—(नृतमं) सब पुरुषों में श्रेष्ठ, ऐश्वर्यशील, (शुनम्) अति शीघ्रकारी सेनापति को हम इस वीर्य लाभ कराने वाले (भरे) संग्राम में अपनी रक्षा के निमित्त (हुवेम) बुलावें। वह (समत्सु) संग्रामों में शत्रुओं के नाशक और धनों के विजेता को प्राप्त करें।

[१२] परमेश्वर का वर्णन

१-६ वसिष्ठः । ७ अत्रिर्ऋषिः । त्रिष्टुभः । सप्तर्षं सूक्तम् ॥

उद् ब्रह्माण्यैरत भवस्येन्द्रं समर्थं महया वसिष्ठ ।

आ यो विश्वानि शर्वसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि ॥१॥

ऋ० ७ । २३ । १ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (शक्त्या) श्रुति, वेद ज्ञान से युक्त (ब्रह्माणि) वेद मन्त्रों का (उद् ऐरत ३) नित्य उच्चारण करो और हे (वसिष्ठ) व्रत में उत्तम रीति से स्थित सर्वैश्वर्यवान् पुरुष ! तू (समर्थ) एकत्र सर्व पुरुषों के बीच में (महया) उसकी ही उपासना कर। (यः) जो (विश्वानि) समस्त बलों और पदार्थों को (शक्त्या) अपने बल से (आ ततान) व्यापता और रच कर विस्तृत करता है और (मे) मुझ (ईवतः) उपासक के समस्त (वचांसि) स्तुति वचनों को (उपश्रोता) श्रवण करता है।

अयामि घोषं इन्द्रं देवजामिरिदुज्यन्त यच्छुक्रुथो विवाचि ।

नहि स्वमायुश्चिकित्ते जनंपु तानीदंहांस्यति पर्युस्मान् ॥ २ ॥

ऋ० ७ । २३ । २ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! परमेश्वर ! (देवजाभिः) समस्त विद्वान् देवों, दानशीलों और दिव्य शक्ति, वायु, जल, अग्नि आदि पदार्थों का (घोषः) घोष, निवास स्थान के समान ही तू (अग्र्यामि) सबको बांध रहा है। (विवाचि) विविध वाणियों से स्तुति करने योग्य (यत्) जिस तुम्ह में (शुरुधः) शीघ्र गतिशील प्राणों को रोकने हारे यही तपस्वी जितेन्द्रिय लोग (इरज्यन्त) बड़ी स्पृहों से सेवा में लग्न हो जाते हैं। (जनेषु) इन उत्पन्न पुरुषों में से कोई भी पुरुष (स्वम् आयुः) अपने आयु को (नहि चिकिते) नहीं जानता कि कब वह मौत के मुंह में चला जाय, तो भी हे परमेश्वर ! तू (अस्मान्) हमें (तानि अंहांसि इत्) उन नाना प्रकार के पापों से भी (अति पापं) पार कर देता है।

युजे रथं गवेपरां हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुजुपाणमस्थुः ।

वि वाधिष्टस्य रोदसी महित्वेन्द्रो वृत्राण्यप्रती जघन्वान् ॥३॥

अ० ७।२३।३ ॥

भा०—मैं, साधक पुरुष (हरिभ्याम्) हरणशील, गतिमान्, लक्ष्य तक पहुंचाने वाले अश्वों के समान दोनों प्राण और अपान द्वारा अपने (गवेपण रथम्) गौ, इन्द्रियों को प्रेरण करने में समर्थ रमण करने वाले रसरूप आत्मा को (युजे) योग समाधि द्वारा समाहित करता हूं। उसी (ब्रह्माणि जुजुपाणम्) समस्त वेदमन्त्रों को स्वयं मुख्य तात्पर्य रूप-से एवं समस्त महान् बलों को स्वयं ग्रहण करते हुए परमेश्वर को सभी विद्वान् पुरुष (उप अस्थुः) उपासना करते हैं। (स्वः) वही (इन्द्रः) परमेश्वर (वृत्राणि) आवरणकारी अज्ञानों को (अप्रति) सदा के लिये (जघन्वान्) विनाश कर देने हारा है और वही (महित्वा) अपने महान सामर्थ्य से (रोदसी) आकाश और पृथिवी दोनों को (विवाधिष्ट) विविध रूपों से थामे हुए है।

आपश्चित् पिप्युस्तुर्योश्न गावो नक्षत्रं जरितारस्त इन्द्र ।

याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छा त्वं हि धीभिर्दयसे वि वाजान् ॥४॥

अ० ७ । २३ । ४ ॥

भा०—(चित् न) जिस प्रकार (रत्यः) विस्तृत पृथिवियें या गौवें (आपः) जलों को प्राप्त होकर (पिप्युः) वृद्धि को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार हे (इन्द्र) इन्द्र ! परमेश्वर ! (गावः) वेद वाणियों (आपःचित्) प्राप्तव्य तुभको प्राप्त होती हैं । और (जरितारः) स्तुति करने वाले उपासक जन (ते) तेरे (ऋतम्) सत्य ज्ञान और स्वरूप को (नक्षत्रं) प्राप्त होते हैं । (वायुः न) वायु जिस प्रकार (नियुतः) समस्त वेगों को प्राप्त है उसी प्रकार तू भी (नियुतः) समस्त बलों को (याहि) प्राप्त है । (त्वे हि) तू ही निश्चय से (धीभिः) अपने धारण बलों, कर्मों और ज्ञानों से (नः) हमें (वाजान्) अश्वों और बलों को (अच्छा वि दयसे) भली प्रकार विविध रूपों में प्रदान करता है अथवा (धीभिः) ध्यान स्तुतियों से संतुष्ट होकर (नः दयसे) हमारी रक्षा करता है ।

ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधंसं जरित्रे ।

एको देवत्रा दयसे हि मर्तान् अस्मिन्सूँरु सवने मादयस्व ॥५॥

अ० ७ । २३ । ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (ते मदाः) वे नाना तृप्तिकारी, हर्ष, सुखकारक आनन्दरस (शुष्मिणम्) सर्वशक्तिमान् (तुविराधसम्) बहुत ऐश्वर्यवान् (त्वा) तुभको (जरित्रे) स्तुतिकर्ता उपासक के संतोष के लिये (मादयन्तु) पूर्ण कर रहे हैं कि तू (देवत्रा) समस्त देवों के बीच (एकः) अकेला ही (मर्तान्) समस्त मरणधर्मा प्राणियों को (दयसे) रक्षा करता है । हे (शूर) सर्वशक्तिमन् ! तू ही (अस्मिन् सवने) इस संसार में (मादयस्व) सदा तृप्त रहने वाला है ।

एवेदिन्द्रं वृषणं वज्रवाहुं वसिष्ठासो ऋभ्य/चिन्त्युक्तैः ।

स नं स्तुतो वीरवद् धातु गोमद् यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥६॥

ऋ० ७।२३।६ ॥

भा०—(वसिष्ठासः) समस्त उपासक, ज्ञानी पुरुष (वज्रवाहुम्) ज्ञान वज्र को अपने हाथ में लिये (वृषणं) सब सुखों के वर्षक, (इन्द्रम्) परमेश्वर को हाथ में खाएटा लिये वीर्यवान् राजा के समान जानकर (एव इद्) इस प्रकार ही (अकैः) नाना स्तुतियों से (अर्चन्ति) अर्चना करते हैं । (सः) वह (स्तुतिः) स्तुति करने योग्य परमेश्वर (नः) हमें (वीरवत्) वीर पुत्रों से युक्त और (गोमत्) गौवों से युक्त धन और ऐश्वर्य को (धातु) प्रदान करे । हे पुरुषो ! (यूयम्) आप लोग (नः) हमें (सदा) सदा (स्वस्तिभिः) कल्याणकारी साधनों और उपायों द्वारा (पात) पालन करो ।

ऋजीषी वज्री वृषमस्तुरापाट् शुष्मी राजा वृत्रहा सोमपावा ।

युक्त्वा हरिभ्यामुप यासद्वाङ् मध्यन्दिने सवने मत्सुदिन्द्रः ॥७॥

ऋ० ५।५०।४ ॥

भा०—(ऋजीषी) समस्त अर्जन करने योग्य धन ऐश्वर्यों से सम्पन्न (वज्री) वज्रवान्, पाप और अज्ञान का वर्जन करने वाले, ज्ञान से युक्त (वृषभः) सुखों का वर्षक, (तुरापाट्) अति शीघ्रगामी, या हिंसक शत्रुओं का भी विजेता, (शुष्मी) बलवान्, (राजा) राजा के समान सबका महाराज, (वृत्रहा) आवरणकारी विघ्नों का नाशक, (सोमपावा) सोमरस के समान समस्त उत्पादक और प्रेरक बल का स्वयं धारक, (हरिभ्यान्) अपने धारण और आर्कषण बलों से (युक्त्वा) भीतर समाधि द्वारा युक्त होकर (वाङ्) साक्षात् (उप यासत्) हमें प्राप्त हो और (इन्द्रः) वह इन्द्र, ऐश्वर्यवान् प्रभु (मध्यन्दिने सवने) दिन के मध्य भाग दोपहर के

(सत्रने) काल में सूर्य के समान प्रखर कान्तिमान् होकर (मत्सत्) हमारे हृदयाकाश में भी पूर्ण प्रबल तेज से प्रकाशित हो ।

[१३] राजा के राज्य की व्यवस्था ।

क्रमशः वामदेवगोनमकुलसविधानिवा अथयः । इन्द्रावृहस्पती, मरुतः अग्निश्च देवताः ।

१, ३ इत्यः । ४ त्रिष्टुप । चतुष्टुचं सक्तम् ॥

इन्द्रश्च सोमं पियतं बृहस्पतेस्मिन् यज्ञे मन्दसाना वृषणवसू ।

आ वां विशन्तिवन्दवः स्वाभुवोस्मे रयिं सर्ववीरं नियच्छतम् ॥१॥

श्र० ४ । ५० । १० ॥

भा०—हे (बृहस्पते) बृहती-वेदवाणी के पालक, एवं वहे भारी राष्ट्र के पालक विद्वान् और राजन् ! हे इन्द्र ! सेनापते ! आप दोनों (वृषणवसू) धनों पेश्वर्यों का वर्षण करने द्वारे, एवं बलवानों को वास देने वाले हो ; आप दोनों (अस्मिन् यज्ञे) इस महान् यज्ञ, राष्ट्र के व्यवस्था के कार्य में (मन्दसानौ) अति व्यग्र रहते हुए, या उसी में अपने को परम प्रसन्न रखते हुए (सोमं पियतम्) सोम, शासन या राज्य पद का उपभोग करो । (सु-आभुवः) उत्तम रीति से, धर्मानुकूल, सब प्रकार से होने वाले, उत्तम (इन्दवः) पेश्वर्य (वां) तुम दोनों को (आविशन्तु) प्राप्त हों । आप दोनों (अस्मे) हम राष्ट्रवासियों को (सर्ववीरं) समस्त वीर पुरुषों सहित या सर्व सामर्थ्यों से युक्त (रयिम्) पेश्वर्य का (नियच्छतम्) प्रदान करो ।

अध्यात्म में—इन्द्रः बृहस्पतिः=परमेश्वर और विद्वान् आचार्य, इन्दवः=ज्ञानरस ।

आ वां ब्रह्मन्तु समयो रघुपत्यदौ रघुपत्वान्तः प्र जिगात ब्राह्मिः ।

संहिता ब्रह्मिणः सदैस्कृतं मादयंध्यं मरुतो मध्यो अन्वसः ॥२

श्र० १ । ८५ । ६ ॥

भा०—हे (मरुतः) वायु के समान तीव्र गति वाले या शत्रुओं को मारने में समर्थ या विद्वान् वीर पुरुषो ! (वः) तुम लोगों को (रघुष्यदः) क्षति वेग वाले (सप्तयः) सर्पणशील अश्व (वहन्तु) सर्वत्र सवारी दें । और आप लोग (रघुपत्नानः) वेग से दौड़ते हुए (बाहुभिः) अपनी बाहुओं से और शत्रुओं को पीड़ा देने वाले अस्त्रों से (प्र जिगात) अच्छी प्रकार विजय करो या आगे बढ़ो । आप लोग (बर्हिः) आसनों पर, सिंहासन पर (सीदत) विराजें । (वः) आप लोगों के लिये (उरु सदः कृतम्) विशाल भवन बनाया जाय । आप लोग (मध्वःअन्धसः) मधुर अन्न आदि उपभोग्य पदार्थों से (मादयध्वम्) सदा तृप्ति लाभ करें ।

इमं स्तोममर्हते जातवेदेषु रथमिव तं महेमा मनीपया ।

भद्रा द्वि नः प्रमतिरस्य संसद्यज्ञे सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥३॥

ऋ० १ । ९४ । १ ॥

भा०—(अर्हते) पूजनीय (जातवेदसे) परमैश्वर्यवान्, वेदों के आदि उत्पत्ति स्थान परमेश्वर और विद्वान् पुरुष के लिये (रथम् इव) जिस प्रकार रथ को सजाया जाता है उसी प्रकार इन लोग (मनीपया) बुद्धि पूर्वक (इमम् स्तोमम्) इस स्तुति समूह को भी (सं महेन) भक्ति आदर पूर्वक सुसज्जित करें । (अस्य संसदि) इस विद्वान् और अग्रणी पुरुष की संसत्-राजसभा या सल्लेग में (नः) हमारी (भद्रा) कल्याण मयी (प्रमतिः) उत्तम मति, मनन शक्ति हो । और हे (अग्ने) अग्ने ! ज्ञान-वान् अग्रणी ! पुरुष या परमेश्वर ! या राजन् ! (तव सख्ये) तेरे मित्रभाव में रहते हुए (वयम्) हम लोग (मा रिषाम) कभी पीड़ित न हों ।

येभिरग्ने सूरथं याह्यर्षाङ् नानारथं वां विभवो ह्यश्वानः ।

पत्नीवतस्त्रिशतं त्रींश्च देवाननुग्रधमा वह मादयस्व ॥४॥

ऋ० ३ । ६ । ९ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! अग्रणी, ज्ञानवन् ! विद्वन् ! राजन् ! (एभिः) इन वीर पुरुषों सहित आप (सखम्) अपने रथ से (वा) और (नाना रथं) नाना अन्य वीरों के नाना रथों से युक्त होकर (अर्वाङ् चाहि) आगे प्रयाण कर । तेरे (अश्वः) अश्व, अश्वारोही गण ही (विभवः) विशेष शक्तिशाली हों । तू (त्रिंशतं त्रीन् च) ३३ (देवान्) देव, विजिगीषु राजाओं को उनकी (पत्नीवतः) पालन करने हारी सेना या शक्तियों सहित या उनकी स्त्रियों सहित (अनुस्वधम्) उनके अपने भरण पोषणोचित धन अन्न आदि के अनुकूल उनको (वह) अपने साथ रख और उनको (मादयस्व) संतृप्त कर, सुखी प्रसन्न रख ।

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

[१४] राजा का वर्णन

सौमनीर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः । चतुर्ऋचं सक्तम् ॥

वयन्नु त्वामंपूर्व्यं स्थूरं न कञ्चिद् भरन्तोऽस्यवः ।

वाजे चित्रं हवामहे ॥१॥ अ० ८।२१।१ ॥

भा०—हे (अपूर्व्यं) अपूर्व्य, सदा नवीन, कभी पुराना न होने वाले नवागत अतिथि के समान सदा पूजनीय ! (वयम्) हम लोग (अवस्यवः) रक्षा चाहने वाले प्रजाजन (त्वाम् भरन्तः) तुम्हें अन्न आदि पदार्थों से भरण पोषण करते हुए ही (चित्रं) अति पूजनीय तुम्हें को (कञ्चिद् स्थूरं न) किसी स्थिर, बलवान् पुरुष के समान (वाजे) संग्राम में (हवामहे) तुम्हें पुकारते हैं ।

उप त्वा कर्मद्यूतये स नो युगोऽग्रथंक्राम यो ध्रुपत् ।

त्वामिद्धर्थवितारं वन्महे सखाय इन्द्र सान्निभिम ॥२॥

अ० ८।२१।२ ॥

भा०—हे राजन् ! प्रभो ! (नः) हम में से (यः) जो (घृष्व्) शत्रुओं को धरणा करने में समर्थ और (उग्रः) अति बलवान् (युवा) सदा जवान, वीर्यवान् है (सः) वह तू है । हम लोग (त्वा) तुम्हको ही (कर्मन्) प्रत्येक कर्म में (ऊतये) अपनी रक्षा के लिये (त्वा उप) तेरे ही शरण जाते हैं । हम सब (सखायः) मित्र, परस्पर समान आख्यान या नाम रूप वाले, परस्पर के जेही पुत्र्य है (इन्द्र) राजन् ! सेनापते ! (सानमिन्) सबको सब प्रकार के ऐश्वर्य, पदाधिकार और भूमि आदि का विभाग करने वाले (त्वाम् इव) तुम्हको ही अपना (अविताम्) रक्षक (ववृमहे) स्वीकार करते हैं ।

यो नं इदमिदं पुरा प्र वस्यं आनिनाय तमु व स्तुपे ।

सखाय इन्द्रमुतये ॥३॥ ऋ० ८ । २१ । ९ ।

भा०—हे (सखायः) समान नाम, यश, कीर्ति वाले परस्पर जेही मित्रजनो ! (यः) जो (नः) हमें (इदम् इदम्) यह, यह नाना प्रकार के गौ, अश्व, सुवर्ण आदि नाना (वल्यः) अति उत्तम जीवनोपयोगी ऐश्वर्य (पुरा) सबसे पहले (प्र आनिनाय) अच्छी प्रकार प्राप्त कराता है, प्रदान करता है, (वः ऊतये) आप लोगों की रक्षा के लिये उसही (इन्द्रम्) इन्द्र राजा की मैं (स्तुपे) स्तुति करता हूँ ।

हर्यश्वं सत्पतिं चर्षणीसहं स हि प्सा यो अमन्दत ।

आ तु नः स वयति गन्धमश्वयं स्तोत्रभ्यो मधवा शतम् ॥४॥

ऋ० ८ । २१ । १० ॥

भा०—(हर्यश्वं) तेज अश्वों वाले (सत् पतिम्) सज्जनों के पालक (चर्षणीसहम्) सब मनुष्यों के वशकारी पुरुष के मैं गुण बतलाता हूँ । (स हि त्वा) वह वह है (यः अमन्दत) जो सदा हृष्ट, प्रसन्न और

सदा वृष रहता है, किसी के धन, ज़मी, जन पर लोभ नहीं करता और किसी पर रोष नहीं करता। (सः) वह (गन्धम् अश्वम्) गौ और अश्व आदि (शतम्) सैकड़ों धन (नः) हमें (स्तोत्रभ्यः) स्तुति कर्त्ता लोगों को (या वयति) प्राप्त कराता है, प्राप्त करने में सहायक होता है।

[१५] विद्युत् राजा और परमेश्वर

गोतमः ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिण्डुभः । षट्चं सक्तम् ।

प्र मंहिष्ठाय वृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तवसे मति भरे ।

अपामित्र प्रवृत्ते यस्य दुर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपावृतम् ॥१॥

भा०—मैं (मंहिष्ठाय) सबसे महान्, सबसे अधिक पूजनीय, (वृहते) सबसे बड़े, (सत्य-शुष्माय) सत्य के बल से युक्त, (तवसे) बलस्वरूप इन्द्र के (वृहद् रये) बड़े भारी वेग के सम्बन्ध में (मतिम्) ज्ञान का (प्रभरे) उपदेश करता हूँ। (प्रणवे) नीचे की तरफ आते हुए (अपाम्) जलों के भारी बल के समान (यस्य) जिस इन्द्र का (दुर्धरम् राधः) दुर्धर, घदम्य, बल, तीव्र वेग, कार्य करने की शक्ति (विश्वायु) सब ओर को (शवसे) बल कार्य करने के लिये (अपावृतम्) प्रकट होती है।

इन्द्र, विद्युत् का वेग ऊंची पोटेंशेलिटी से नीची पोटेंशेलिटी को आते हुए इसी प्रकार बहुत अधिक होता है, जैसे ऊंचे स्थानों से नीचे स्थान को बहते हुए जलों का वेग प्रबल होता है उस विद्युत् के उस भारी वेग को वेद 'दुर्धर राधस्' कहता है। उसका प्रयोग सब प्रकार के बल कार्यों में प्रकट किया जा सकता है।

[१५] ऋग्वेदे सन्ध आङ्गिरस ऋषिः ।

राजा के पक्ष में—उस महान्, सत्य पराक्रमी, बलशाली के बड़े वेग के कार्य के ज्ञानका उपदेश करता हूँ। उसका (राधः) साधन बल भी जलप्रपात के समान अदम्य है। वह सबके बल के लिये प्रकट होता है। परमात्मा के पक्ष में भी स्पष्ट है।

अथं ते विश्वमनुं हासद्विष्ट्य आपो निम्नेषु सवना हविष्मतः ।
यत् पर्वते न समरीत ह्येत इन्द्रस्य वज्रः श्रथिता हिरण्ययः॥२॥

भा०—पूर्वोक्त वेग को और भी स्पष्ट करते हैं। (हविष्मतः) ज्ञानवान् उपायज्ञ पुरुष के (सवना) सब कर्मों को जिस प्रकार (निम्ना आपः इव) नीचे की ओर बहने वाले जल सम्पादित करते हैं उसी प्रकार हैं इन्द्र, विद्युत् ! (विश्वं) समस्त (इष्ट्ये) इष्ट कार्य या प्रेरणा या गति प्राप्त करने के लिये (ते अनु ह असत्) तेरे ही अधीन तुम्ह पर निर्भर रहता है। अर्थात् वह तुम्ह पर निर्भर है। (यत्) क्योंकि (इन्द्रस्य) वेग से द्रवण अर्थात् तीव्रगति वाले विद्युत् का (ह्येतः वज्रः) अति कान्तिमान्, दीक्षिमय वज्र (पर्वते न) पर्वत भेद पर तक भी (न सम् अशीचीत) रहता, प्रत्युत वह (हिरण्ययः) प्रबल वेग और कान्ति से युक्त होकर (श्रथिता) सब पदार्थों को चूर्ण करने में समर्थ होता है। (हविष्मतः) उपायज्ञ पुरुष के सब गति, कर्म जिस प्रकार बहते जलों पर निर्भर हैं उसी प्रकार (इष्ट्ये) प्रेरणा, या गति के लिये समस्त कार्य विजुली पर भी निर्भर होते हैं। उसका वेग पर्वत पर भी रुक नहीं सकता, वह इतना अधिक होता है कि पदार्थों को तोड़ फोड़ देता है।

राजा के पक्ष में—ज्ञानी पुरुष के जैसे सब सवन, यज्ञ आदि कर्म-आप्त पुरुषों के आश्रय पर होते हैं इसी प्रकार हे राजन् ! समस्त राष्ट्र-अपने इष्ट प्रयोजन के लिये तुम्ह पर निर्भर है। इन्द्र का सर्व-चूर्णकारी

वज्र—बल पर्वत आदि की रक्षा पर भी नहीं रुकता, उसको भी तोड़ डालता है।

अस्मै भीमाय नमस्ता समध्वर उपो न शुभ्र आ भरा पनीयसेः।
यस्य धाम श्रवसे नामिन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे ॥३॥

भा०—हे ज्ञानी पुरुष (पनीयसे) व्यवहार में जाने योग्य (अस्मै भीमाय) इस अति भयंकर विद्युत् को (नमस्ता) वश करने के उपाय से (उपः न) दाहक अग्नि या तेज के समान (अध्वरे शुभ्रे सम् आभर) अहिंसाजनक, सौम्य, अति दृप्त, प्रकाश के कार्य में प्रयोग कर। (यस्य धाम) जिसका धारण सामर्थ्य या तेज (श्रवसे) शब्द श्रवण के कार्य के लिये और जिसका (नाम) उपाय से वश कर लेना (इन्द्रियम्) अति बलजनक है, (न) और (हरितः अयसे) दिशाओं में फैलने के लिये (ज्योतिः अकारि) प्रकाश भी उत्पन्न किया जाता है। अर्थात् विद्युत् के प्रचण्ड शक्ति को उपाय से अग्नि के समान सौम्य प्रकाश में दूर शब्द श्रवण के कार्य में लाओ और उससे दूर तक पहुंचने वाले प्रकाश को भी उत्पन्न करो।

ईश्वर और राजा के पक्ष में—हे पुरुष ! (उपो न शुभ्रे अध्वरे) उपाकाल के समान कान्तिमान्, तेजोमय अध्वर,=राष्ट्रपालन रूप कार्य में (पनीयसे भीमाय अस्मै) स्तुतियोग्य, भीम, पराक्रमी इस राजा को (नमस्ता आभर) अनादि सत्कार से पूर्ण कर। (यस्य धाम नाम इन्द्रियं श्रवसे) जिसका तेज, नमनकारी बल और राजोचित तेज सभी कीर्ति के लिये है। और (यस्य ज्योतिः हरितः न अयसे अकारि) जिसका प्रकाश मानो दिशाओं तक फैलने के लिये उत्पन्न होता है।

(३) 'उपो न शुभ्र' इत्य 'न' शब्दावधिः अनर्थतोवेति सायणः ।

१. नश्वर्यः ।

इमे तं इन्द्र ते वयं पुरुषुषुतु ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो ।
 नहि त्वदन्यो निर्बन्धो गिरः सधत् ज्ञोणीरिव प्रति नो ह्ये तद् वचः४

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! परम ऐश्वर्यवान् ! हे (पुरुषुषुतु) बहुतां से स्तुति किये गये या बहुत प्रकारों से वर्णित ! हे (प्रभूवसो) अति सामर्थ्यवान् वसो ! अति ऐश्वर्यवान् ! या अति सामर्थ्य रूप धन वाले ! (ये) जो लोग (त्वा आरभ्य चरामसि) जो तुम्हको आरम्भ करके, तुम्हको प्राप्त करके, तुम्हको मुक्तिया बनाकर विचरते हैं (ते) वे (इमे) ये (वयम्) हम (ते) तेरे ही उपासक तेरे सेवक हैं । हे (निर्बन्धः) समस्त वाणियों के सेवन करने वाले ! (त्वत् अन्यः) तुम्हसे दूसरा कोई और (गिरः नहि सधत्) हमारी वाणियों को नहीं सहन करता, कोई नहीं प्राप्त करता । त् (ज्ञोणीः इव) पृथिवी निवासी प्रजाओं के समान या (ज्ञोणीः इव) पृथिवी के समान साहिष्णु होकर ही (नः) हमारे (तद्) उन २ नाना मधुर और कटु (वचः) वचनों को (प्रति ह्ये) श्रवण कर । प्रजापुं राजा का आश्रय लेकर सब कार्य करें वह प्रजा के सब बुरी भली आलोचनाओं को सहे । ईश्वर को आश्रय लेकर हम सब कार्य करें । वह सबकी सुनने में समर्थ है । वह आश्रय रूप भूमि माता के समान हमारे वचन सुने ।

भूरिं त इन्द्र वीर्यं तव त्मन्वस्य रहोतुमंघञ् कान्मा पृण ।
 अमुं ते द्यौर्ब्रह्मती वीर्यमिम इयं च ते पृथिवी नैम् ओजंसे ॥५॥

इ० १।५०।५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! राजन् ! परमेश्वर ! (तव वीर्यम्) तेरा वीर्य, सामर्थ्य (भूरि) विद्युत् के समान ही महान् है । (तव त्मसि) हम तेरे ही हैं । तू हे (नववन्) ऐश्वर्यवान् ! (अस्य स्तोनुः) इस स्तुतिशील विद्वान् पुरुष के (कानम्) अभिलाषा को (आ पृण) पूरे कर । (ते वीर्यम्

शत्रु) तेरे ही बलपर (बृहती द्यौः) यह बड़ी भारी द्यौ, आकाश में स्थित तेजोमय सृष्टि (ममे) बनी है । और (इयं च पृथिवी) यह पृथिवी भी (ते श्रोत्रसे) तेरे ही पराक्रम के आगे (नेमे) झुकती है ।

राजा, विद्युत्, ईश्वर सबके पक्ष में समान है ।

त्वं तमिन्द्र पर्वतं महामूरुं वज्रेण वज्रिन् पर्वशञ्चकतिथ ।

अवासृजो निवृताः सर्त्त्वा अयः सत्रा विश्वं दधिपे केवलं सहः ६

शू० १।५७।६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् विद्युत् जिस प्रकार (तम् उरुम् पर्वतम्) उस महान् पर्वत या मेघ को खण्ड २ करती है उसी प्रकार तू (तम्) उस (महाम् उरुम् पर्वतम्) महान् विशाल नाना पर्वों खण्डों २ से बने शत्रु सैन्य को (वज्रेण) आयुध से (पर्वशः चकतिथ) खण्ड करके काट डालता है । और जिस प्रकार विद्युत् के प्रभाव से (निवृताः अपः) निकले या उत्पन्न हुए जल मेघ से नीचे आ गिरते हैं उसी प्रकार (निवृताः) सुसज्ज, (अपः) कर्मशील प्रजाओं को, सेना के पुरुषों को (सर्त्त्वा) व्यवस्था में चलाने के लिये (अवासृजा) अपने अधीन रखता है । (सत्रा) सत्य है, कि (केवलं) केवल तू ही (विश्वं सहः) समस्त बल, समस्त शत्रु विजयशालि बल को (दधिपे) धारण करता है ।

यान्त्रिक विद्युत् पक्षमें—(निवृताः अपः) नियम में व्यवस्थित समस्त क्रियाओं को अपने (सर्त्त्वे अवासृजः) अधीन चलाने के लिये प्रेरित करता है । और वह (सत्रा) एक ही साथ सब बल को स्वयं धारण करता है ।

ईश्वर पक्ष में—वह ईश्वर अपने ज्ञानवज्र से (पर्वतम्) पर्वत के समान या मेघ के समान आच्छादक अज्ञान को नाश करता है । समस्त

ज्ञानों को आत्मा में प्रेरित करता है। वही सब (सहः) बल को एकमात्र धारण करता है।

[१६] परमेश्वर की उपासना और वेदवाणियों का प्रकाशित होना

लगाव्य ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । त्रिष्टुभः । द्वास्वर्चं स्तुन् ॥

उद्द्रुप्तो न वयो रक्षमाणो वावदतो अभ्रियस्येव घोषाः ।

गिरिभ्रजो नोर्मयो मदन्तो बृहस्पतिमभ्यर्चन् अनावन् ॥१॥

ऋ० १०।६८।२ ॥

भा०—(उद्द्रुप्तः) जलसे ऊपर उठकर एक साथ उड़ने वाले (रक्ष-
माणाः) अपनी जान बचाकर दौड़ते हुए (वयो न) पत्नी जिस प्रकार एक
दम फड़ फड़ फड़ फड़ शब्द करते हुए उड़ते हैं और (वावदतः अभ्रियस्य
घोषाः इव) निरन्तर गर्जना करते हुए मेघ समूह के घोष या गर्जना
रव जिस प्रकार ध्वनि करते हैं और (गिरिभ्रजः उर्मयः न) पर्वत से
या मेघ से झरने वाले जलधारा, नद, नाले जिस प्रकार ध्वनि करते हैं
उसी प्रकार (अर्चाः) अर्चना, स्तुति करने वाले वेद मन्त्र या अर्चनशील
विद्वान् पुरुष. समस्त मिलकर वेद ध्वनि करते हुए (मदन्तः) अति हृष्ट
होकर (बृहस्पतिम्) बृहती, वेद वाणी और महती शक्ति के पालक पर-
मेश्वर को (अभि अनावन्) साक्षात् स्तुति करते हैं ।

राजा के पद में—(अर्चाः) राजा के स्तुतिकर्ता लोग उसी प्रकार
(बृहस्पतिम्) बृहत् राष्ट्र के पालक की स्तुति करते हैं ।

सं गोमिराङ्गिरसो नक्षमाणो भगं इवेदंर्यमणं निनाय ।

जते मित्रो न दर्शयती अनक्ति बृहस्पते वाजयशूरिग्राजौ ॥२॥

ऋ० २०।६८।२ ॥

भा०—(आङ्गिरसः) ज्ञानी विद्वान् पुरुष, अथर्ववेद का विद्वान्-
 (गोभिः) वाणियों द्वारा अथवा (गोभिः) पृथिवी निवासी जनों के
 सहित (नक्षत्राणः) फैलता हुआ, राष्ट्र का विस्तार करता हुआ (भगः
 इव इत्) ऐश्वर्यवान् पुरुष के समान ही (अर्यमणम्) न्यायकारी राजा
 को (निनाय) सन्मार्ग पर चलाता है । (जने) जन-समूह या लोगों में
 (मित्रः न) वह विद्वान् पुरुष स्नेही मित्र के समान (दम्पती) स्त्री पुरुषों
 को (अनक्ति) ज्ञानोपदेश से प्रकाशित करता है । हे (बृहस्पते) वेद के
 विद्वान् ! तू (आजौ) संग्राम में (आशुन् इव) शीघ्रगामी रथों और
 अश्वों और वेगवान् सैनिकों के समान समस्त राष्ट्र वासियों को (वाजय)
 सन्मार्ग में प्रेरित कर ।

विद्वान् पुरुष धनाढ्य के समान ही राजा को लक्ष्य तक पहुंचाता है।
 वह स्त्री पुरुषों को ज्ञानवान् करता है । वह सबको सेनापति या सारथी
 समान के सबको सन्मार्ग पर लेजाता है ।

अध्यात्म में—(अंगिरसः) अंग=शरीर में रहने वाला प्राण (गोभिः)
 अपने में व्याप्त होकर (भग इव) अन्न के समान ही (अर्यमणम्) स्वामी
 आत्मा को चलाता है । मित्र के समान (दम्पती) पति पत्नी रूप प्राण
 अपान दो, आंस दो, नाक दो, कान दो, जिह्वा और रसना दो, गुदा और
 लिङ्ग दो इन सब युगलोंको जीवित रखता है और सबको सारथी बनाकर
 घोड़ों के समान चलाता है ।

साध्वर्या अतिथिनीरिपिरा स्पार्हाः सुवर्णा अनव्यरूपाः ।

बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊरे यवामिव स्थिविभ्यः ॥३॥

अ० १०। ६८। ३ ॥

भा०—(बृहस्पतिः) बृहस्पति, वायु, जिस प्रकार (पर्वतेभ्यः) पर्वत
 अर्थात् मेघों से (गाः वितूर्य) गमन करने वाली जलधाराओं को नि-

काल कर उनमें (यवन् निः ऊपे) यव=जव अर्थात् वेग को स्थापित करता है । और (बृहस्पतिः) जिस प्रकार बृहस्पति मन या मुख्य प्राण (पर्वतेभ्यः) पर्व वाले शरीर के अंगों से (गाः) इन्द्रियों को (विवृत्यं) वेग से बाहर करके उनमें (स्थिविभ्यः) स्थिर पदार्थों के ग्रहण के लिये (यवन्) ज्ञान ग्रहण करने वाले सामर्थ्य को स्थापित करता है, उसी प्रकार (बृहस्पतिः) बृहती, वेदवाणी का पालक पुरुष (गाः) गमन करने योग्य, भोगयोग्य (साधु-अर्थाः) उत्तम स्वामिनी होने वाली (अतिथिनीः) अतिथि के समान पूज्यवर्तों को प्राप्त होने वाली (स्याहाः) स्पृहा या कामना के योग्य, सुन्दर, मनोहर, (सुवर्णाः) उत्तम रूपवती कन्याओं को (पर्वतेभ्यः) पालन पोषण करने वाले माता पिताओं या गृहस्थों से (विवृत्यं) पृथक् करके (स्थिविभ्यः) स्थिर, स्थायी, जितेन्द्रिय पुरुषों को प्रदान कर उन द्वारा (यवन् निः ऊपे) उनमें बीज आधान कराता और उसी प्रकार सन्तान उत्पन्न कराता है । जिस प्रकार (गाः यवन् इव) पृथिवियों पर जौ आदि अन्न उत्पन्न किया जाता है ।

अर्थात् अगली सन्तति के लिये युवती कन्याओं को योग्य वर्तों के द्वारा गृहस्थ कार्य में युक्त करना भी बृहस्पति, वेद के विद्वान् पुरुष का कर्त्तव्य है ।

विद्वान् आचार्य के पत्र में—बृहस्पति वेद का विद्वान (साध्वर्थाः) साधु रीति से ज्ञान करने योग्य, (अतिथिनीः) ज्ञाना या परमेश्वर तक पहुंचाने वाली, सुन्दर शुभ वर्णों वाली, अनिन्द्य, पवित्र (गाः) वेदवा-
णियों के (पर्वतेभ्यः) पर्व वाले, ज्ञान का पालन करने में समर्थ प्रत्न्यों या विद्वानों से (विवृत्यं) प्राप्त करके (स्थिविभ्यः) स्थिर, व्रतपालक शिष्यों के लिये उनको (निः ऊपे) यथावत् बीज वसन के समान उपदेश करता है ।

राजा के पत्र में—वेद का विद्वान् पुरोहित पर्वत के समान ऊंचे राजा-
ओं के हाथों से (गाः) प्रजाओं को निकालका (स्थिविम्यः) स्थिर नि-
वासियों के लिये उनमें (यवन् निः ऊपे) यव अर्थात् राष्ट्र शक्ति का
आधान करता है । राष्ट्रं वै वयः । तै० ३ । ६ । ३ । ७ ॥

आप्रुपायन् मधुन ऋतस्य योनिमवलिपन्नर्क उल्कामिव्र द्योः ।
बृहस्पतिरुद्धरन्मनो गा भूम्यां उदनेत्र वि त्वचं विभेद् ॥४॥

श्र० १० । ६८ । ४ ॥

भा०—(बृहस्पतिः) बृहस्पति=वायु जिस प्रकार (मधुना) जल
से (आप्रुपायन्) भूमि को सींचता हुआ (ऋतस्य योनिम्) ऋत=जल के
आश्रय मेव को नीचे (अवलिपन्) फेंकता हुआ और (गाः) जलों को
(अश्मनः) व्यापक मेव से पृथिवी पर गिराता हुआ (भूम्याः त्वचं
विभेद्) भूमि की त्वचा को भेद देता है । उसी प्रकार विद्वान् (अर्कः)
अर्क, सूर्य के समान प्रकाशमान, पूजनीय पुरुष (मधुना) सत्य ज्ञान
से पूर्ण करता हुआ और (द्योः) आकाश से (उल्काम् इव) गिरती हुई
उल्का के समान (ऋतस्य योनिम्) ऋत=यज्ञ के मूल कारण वेद को
(अवलिपन्) शिष्य को प्रदान करता हुआ और (अश्मनः) व्यापक
परमेश्वर के पास से (गाः उद्धरन्) वेद-वाणियों को प्राप्त करता हुआ
(उदना भूम्याः त्वचम् इव) जिस प्रकार जल से भूमि की त्वचा को फोड़
कर उसको सींचा जाता है उसी प्रकार (मधुना) ज्ञान से अपने शिष्य
की हृदय-भूमि के (त्वचम्) आवरण, अज्ञान को (विभेद्) नाश
करता है ।

अथ ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षाद्बृहः शीवालमिव्र वात आजत् ।

बृहस्पतिरनुमृश्यां वलस्याभ्रमिव्र वात आ चक्र आ गाः ॥५॥

श्र० १० । ६८ । ५ ॥

भा०—और जिस प्रकार (वातः) प्रचण्ड वायु (उद्गः) जल के पृष्ठ से (शीपालन् इव घाजन्) सैबाल को फाड़कर दूर कर देता है । उसी प्रकार (बृहस्पतिः) महान् सूर्य आदि लोकों का पालक, बृहती वेद वाणी का स्वामी परमेश्वर (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष में से (ज्योतिषा) ज्योतिःस्वरूप सूर्य के प्रकाश से (तनः घाजन्) अन्धकार को दूर करता है । और जिस प्रकार (वातः) वायु ही (बलस्य) आवरणकारी मेघ को (अनुसृत्य) छिन्न भिन्न करके (गाः आ चक्रे) सूर्य की किरणों को सर्वत्र फैलाने देता है उसी प्रकार (बृहस्पतिः) महती शक्ति और वेद वाणी का पालक विद्वान् (बलस्य) आवरणकारी तामस आवरण को (अनुसृत्य) अपने ज्ञानबल से विचैक द्वारा छिन्न भिन्न करके (गाः) वेद वाणियों को (आ चक्रे) प्रकट करता है उनको फैलाता है, उनको सर्वत्र उपदेश करता है ।

यद्वा बलस्य पीयंतो जसुं भेद बृहस्पतिरग्नितापोभिरकैः ।

दृद्धिनं जिह्वा परिर्विष्टमादंष्ट्राविनिर्धोरकृणोदुक्षियाणाम् ॥६॥

भा०—(भद्रः) जब (पीयतः) विनाशकारी (बलस्य) आवरणकारी तमस के (जसुं) नाशकारी प्रभाव को (अग्नि-तापोभिः) अग्नि के समाप्त तापकारी तपश्चर्या और (अकैः) ज्ञानमय किरणों से (बृहस्पतिः) महती शक्ति और वेद का विद्वान् (भेद) तोड़ डालता है तब (न) जिस प्रकार (जिह्वा) जीभ (दृद्धिः) दांतों द्वारा (परिर्विष्टम्) परासे या लूब चिये, चबाये घस को (आदद्) अस लेती है उसी प्रकार वह विद्वान् ज्ञानी पुत्र भी अपने तेजो युक्त तपश्चर्या युक्त ज्ञानों से तामस बल को नाश करके (उक्षियाणाम्) स्वयं ऊपर प्रकट होने वाली, हृदय में उठने वाली वेद वाणियों के (निधीन्) छुपे ज्ञान भण्डारों को (आदिः अकृणोद्) सहाय्य कर लेता है ।

सूर्य पक्ष में—(बृहस्पतिः) सूर्य (अग्निपेषाभिः अकैः) अग्नि के द्वारा तापक किरणों से (पीयतः बलस्य जसुं भेद) नाशकारी मेघ के बल को तोड़ता है और अपनी (उक्षियाणां निधीन् आविः अकृशोत्) शक्तियों के ख़ुज़ाने को प्रकट करता है । इसी प्रकार परमेश्वर (अकैः) वेद मन्त्रों द्वारा अज्ञान का नाश करता और वेदवाणियों के ज्ञान ख़ुज़ानों को प्रकट करता है ।

बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदनं गुहा यत् ।
आग्नेव भित्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्त्रियाः पर्वतस्य तमनाजत् ॥७॥

अ० १० । ६८ । ७ ॥

भा०—(यत्) जब (बृहस्पतिः) वेदज्ञ विद्वान् (गुहासदनं) गुप्त हृदय, गुफा रूप आश्रयस्थान में (आसां स्वरीणां) ज्ञानमय शब्द, रूप इन वेद-वाणियों के (तत्) उस परम (नाम) स्वरूप को (अमत) जान लेता है तब (शकुनस्य आग्ने इव) पक्षी के अण्डों को (भित्वा) फोड़कर जिस प्रकार (गर्भम्) भीतर के गर्भ में स्थित कच्चे बच्चे को पक्षिणी माता बाहर निकाल लेती है उसी प्रकार वह विद्वान् भी (पर्वतस्य) उस पूर्ण सामर्थ्य वाले परमेश्वर के भीतर (तमना) अपने आत्मसामर्थ्य से प्रवेश करके उसके प्रकाशमय ज्ञान से पूर्ण वेदवाणियों को (उद्-आजत्) प्राप्त कर लेता है ।

कुरान में कुरान को आर्यों को पर्वत की गुफा (तामहफूज़) में से प्राप्त करने का जो वर्णन है वह इसी की छाया है ।

अग्नापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न द्वीन उदनिं क्षियन्तम् ।
निष्टुज्जभार चमसं न वृक्षाद् बृहस्पतिर्विरवेणां विकृत्य ॥८॥

अ० १० । ६८ । ८ ॥

भा०—(दीने उदनि) थोड़े से जल में (वियन्तम् मत्स्यं न) नि-
चास करने वाली मछली को जिस प्रकार लोग देख लेते हैं उसी प्रकार
(बृहस्पतिः) महान् वेदज्ञ, वेदवाणी का पालक विद्वान् पुरुष भी (अन्ना)
व्यापक परमात्मा से (अपिनद्धम्) ढके हुए (मधु) ज्ञानरूप मधु को
(परि अपश्यत्) सब प्रकार से साक्षात् करता है । और जिस प्रकार
(वृक्षात्) वृक्ष के लकड़ से (विकृत्य) औजारों से काट कर (चमसं
न) कारीगर पात्र को (निः जभार) निकाल लेता है उसी प्रकार
(बृहस्पतिः) वेदज्ञ विद्वान् (विरवेण) विशेष शब्द विज्ञान द्वारा (वि-
कृत्य) वेदमन्त्रों की विविध व्याख्या करके (तत् मधु) उस परम ज्ञान
को (निजभार) निकाल लेता है ।

विद्वान् पुरुष वेदों से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है उसका प्रकार
इस मन्त्र में दर्शाया है ।

सोपामविन्दुत् स स्वः सो अग्निं सो अक्रेण वि ववाधे तमांसि ।
बृहस्पतिर्गोवपुषो वलस्य निर्मज्जानं न पर्वणो जभार ॥६॥

भा०—(सः) वह (उपाम्) अज्ञान के दाह कर देने वाली प्रातः
प्रभा के समान दीप्ति को प्राप्त करता है । (सः स्वः) वह प्रकाशस्वरूप
सुखस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करता है । (सः) वह (अग्निम्) ज्ञान-
स्वरूप परमेश्वर का साक्षात् करता है । वह (अक्रेण) सूर्य से (तमांसि)
अन्धकारों का (वि) विविध प्रकार (ववाधे) विनष्ट करता है । वह
(बृहस्पतिः) वाणी का पालक विद्वान् ब्रह्मज्ञानी (गोवपुषः) वाणियों
के आच्छादन करने वाले या वाणीस्वरूप (वलस्य) शब्दमय, आवरण-
कारी अज्ञान को नाश करके (पर्वणः मज्जानं न) हड्डी के जोड़ से जिस
प्रकार मज्जा धातु को मांसाहारी निकालता है उसी प्रकार वह उसके

(पर्वणः) एक २ पर्व, खण्ड से (मत्-जानं=मत् ज्ञानम्) आत्मज्ञान को (निः जभार) प्राप्त करता है ।

हिमेवं पर्णां मुपिता वनानि बृहस्पतिना कृपयद् ब्रह्मो गाः ।

अनानुकृत्यमंपुनश्चकार यात् सूर्यामासा मिथ उच्चरातः ॥१०॥

भा०—(हिमा इव) हिम से या पाले से जिस प्रकार (वनानि पर्णां) वनों के पत्र (मुपिता) नष्ट होजाते हैं, उसी प्रकार (बृहस्पतिना) बृहस्पति, वाणी के तत्वज्ञ विद्वान् द्वारा (वनानि) प्राप्त करने योग्य (गाः) गौ वेदवाणियों से (पर्णां) ज्ञान (मुपिता) हर लिये जाते हैं और उस द्वारा (ब्रह्मो) उन ज्ञानों का आवरणकारी 'ब्रह्म' या उसका शब्द मय स्थूल रूप (कृपयत्) उन ज्ञानों को प्राप्त करने में समर्थ होता है, उन ज्ञानों को प्रदान करता है । इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी विद्वान् ज्ञान ग्रहण करके (अनानुकृत्यम्) अन्यों से न किये जाने योग्य ऐसे दुष्कर कर्म को (अपुनः चकार) वार २ नहीं करता, प्रत्युत एक ही वार करता है । और उसके आगे (यात्) जिसके आधार पर (सूर्यामासा) सूर्य और चन्द्रमा के समान गुरु और शिष्य (मिथः) परस्पर एकत्र होकर (उच्चरातः) ज्ञान का उपदेश करते और अभ्यास किया करते हैं । सृष्टि के आदि में एक वार वेदवाणियों का ब्रह्मज्ञानी के हृदय में प्रकाश होकर फिर गुरु परम्परा से वेदज्ञान फैलता है, इस सिद्धान्त को वेद स्वयं बतलाता है ।

अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामर्षिणम् ।

रात्र्यां तमो अर्धुज्योतिरहन् बृहस्पतिभिर्नदद्रिं विद्द्गाः ॥११॥

भा०—लोग (श्यावं अश्वं न) जिस प्रकार श्याम अश्व को (कृशनेः) आभूषणों, कौड़ी मोती आदियों की मालाओं से सजाते हैं, उसी प्रकार (पितरः) संसार की पालक शक्तियां (द्याम्) आकाश को

(नक्षत्रेभिः) नक्षत्रों से (अर्षिशन्) स्थान २ पर सुसज्जित करती हैं ।
 वे (रात्र्यां तमः अद्भ्युः) रात्रि के अवसर पर अन्धकार को स्थापित करते
 हैं और (अहन् ज्योतिः) दिन के समय सूर्य को रखते हैं । (वृहस्पतिः)
 ब्रह्मज्ञानी पुरुष (अद्रिम्) अभेद्य आवरण, अन्धकार को तोड़ता है और
 (गाः) ज्ञानवाणियों को (विद्द्) प्राप्त करता है ।

प्रजापतिः असुरान् सृष्ट्वा पितेवामन्यत । तदनुपितृनसृजत तपितृणां
 पितृत्वम् ॥ तै० २।३।२।२ ॥

अथवा—(पितरः) राष्ट्र के पालक लोग (न) जिस प्रकार श्यावं
 अश्वं कृशनेभिः अर्षिशत्) श्याम अश्व को नाना सीप, शंख, मुक्ताओं द्वारा
 भिन्न २ अंगों में सजाते हैं । उसी प्रकार ज्ञान के पालक लोग (नक्षत्रेभिः)
 नक्षत्रों से (चाम्) विशाल आकाश को (अर्षिशन्) खण्ड २ करके वि-
 भक्त कर लेते हैं । और वे (तमः) अन्धकार को (रात्र्यां अद्भ्युः) रात्रि-
 काल में उसके लक्षण रूप से नियत करते हैं (ज्योतिः अहन्) प्रकाश
 के दिन का लक्षण बतलाते हैं । उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी पुरुष (अद्रिम्)
 अखण्ड तामस आवरण को भेद कर (गाः विद्द्) ज्ञानवाणियों को प्राप्त
 करता है ।

इदमर्कम् नमो अग्निषाय यः पूर्वोरन्वानो नवीति ।

वृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स श्वीरेभिः स नृभिर्नो

वयो धात् ॥ १२ ॥

भा०—(यः) जो (पूर्वाः) सबसे पूर्व प्राप्त अथवा ज्ञान से पूर्ण
 वेदवाणियों को (अनु) यथाक्रम (आनो नवीति) साक्षात् करके उपदेश
 करने में समर्थ है उस (अग्निषाय) मेघ के समान सबको ज्ञानरूप जल
 वितरण करने में समर्थ ज्ञानी पुरुष को (इदं नमः) यह इस प्रकार से हम

आदर सत्कार (अकर्म) करें, (सः हि) वही निश्चय से (बृहस्पतिः) वेदवाणियों का पालक होकर हमें (गोभिः) गौओं, (अश्वैः) घोड़ों, (वीरेभिः) वीर पुरुषों या वीर्यवान् पुत्रों और (नृभिः) अन्य सेवक पुरुषों या नेता पुरुषों सहित राष्ट्र में (वयः) अन्न, वीर्य, ज्ञान और कर्म (धात्) धारण करता है ।

[१७] परमेश्वरोपासना ।

१-१० कृष्ण ऋषिः । १२ वसिष्ठः । इन्द्रो देवता । १-१० जगत्यः । ११, १२ त्रिष्टुभौ । द्वादशर्च सूक्तम् ।

अच्छां म इन्द्रं मतयः स्वर्विदः सध्रीचीर्विश्वां उशतीरनूपत ।
परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिं वर्धे न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥१॥

ऋ० १० । ४३ । १ ॥

भा०—(उशतीः) कामनायुक्त (जनयः) स्त्रियें (यथा) जिस प्रकार (शुन्ध्युम्) शुद्ध, सुन्दर (मयं) मनुष्य को (पतिम्) पतिरूप से प्राप्त करके (उतये) अपनी रक्षा के लिये (परिष्वजन्ते) आलिङ्गन करती हैं, उसका आश्रय लेती हैं उसी प्रकार (सध्रीचीः) एक ही साथ समान अर्थ को कहने वाली, (उशतीः) कामनाओं, अभिलाषाओं वाली (स्वर्विदः) सुखमय परमात्मा को प्राप्त करने वाली (विश्वाः) समस्त (मेः मतयः) मेरी ज्ञानमय वाणियें (मघवानम्) ऐश्वर्यवान् उस (इन्द्रम्) परमेश्वर की (अनूपत) स्तुति करती हैं ।

न घां त्वद्विगपं वेति मे मनस्त्वे इत् कामं पुरुहूत शिथय ।
राजैत्र दस्म नि पदोत्रिं वृद्धिप्यास्मिन्त्सु सोमैत्रपानमस्तु ते ॥२॥

भा०—हे इन्द्र ! हे (पुरुहूत) समस्त प्रजाओं द्वारा पुकारे गये सबके स्तुत्य परमेश्वर ! (ने मनः) मेरा मन (त्वादिग्) तेरी तरफ

जाकर फिर (न घ अप वेति) तुम्हसे दूर नहीं जाता । (त्वे इत्) तुम्हमें ही (कामम्) समस्त इच्छा मनोरथ कामनाओं और आशाओं को (शिश्रय) रख देता है । हे (इत्म) दर्शनीय ! अनुपम सुन्दर ! (अधि वहिषि) आसन या प्रजाके पर जिस प्रकार (राजा इव) राजा विराजता है उस प्रकार (अस्मिन् वहिषि) इस महान् ब्रह्माण्ड में तु (अधि निषद्) अधिष्ठाता रूप से विराजता है । (अस्मिन् सोमे) इस महान् संसार में ही या इस सोमस्वरूप आत्मा में ही (ते) तेरा (अवपानम् अस्तु) अवपान वृत्तिकारक ज्ञानरस प्राप्त हो ।

विष्वृदिन्द्रो अमतेरुत जुधः स इद्रायो मघवा वस्व ईशते ।
तस्येहिमे प्रवणे सप्त सिन्धवो वयो वर्धन्ति वृषभस्य शुष्मिणः ॥३॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर मेघ के समान (अमतेः) दारिद्र्य और (जुधः) मूल का भी (विष्वृत्) सब प्रकार से नाश करने वाला है । (स इत्) वह ही (नघवा) धनैश्वर्य सम्पन्न (वस्वः) प्रजा को बसाने वाले (रायः) धनैश्वर्य का (ईशते) स्वामी है । (इमे सह) ये सात (सिन्धवः) गतिशाल महान् शक्तियें, ५ भूत, महान् और अहंकार-ब्रह्माण्ड में सात वायुपुं, शिर में ७ प्राण (प्रवणे) निम्न स्थान में (तस्य) उस (शुष्मिणः) बलशाली (वृषभस्य) सब सुन्नों के वर्धक परमेश्वर की (इत्) ही (वयः) शक्ति को (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं ।

वयो न वृजं सुपलाशमासंठन्त्सोमांसु इन्द्रं मन्दिनश्चमूपदः ।
प्रेषामनीकं शवसा दविद्युत्तद् विदत् स्वर्मेनवे ज्योतिरायैम् ॥३॥

द० १०।४३।४॥

भा०—(न) जिस प्रकार (सुपलाशम्) सुन्दर हरे भरे पत्तों वाले (वृजम्) वृक्ष पर (वयः) पक्षीगण (आसद्गन्) आकर बैठते हैं उसी

प्रकार (सुपलाशम्) उत्तम पालन सामर्थ्य से युक्त (इन्द्रम्) इन्द्र का (चमूपदः) सेनाओं में अच्छे २ पदों पर विराजमान (मन्दिनः) सुप्रसन्न (सोमासः) सैनिकों को प्रेरणा करने वाले नेता पुरुष (आस-दन्) आश्रय लेते हैं । (एषाम्) इनका (अनीकम्) बना हुआ सेनादल (शवसा) बल वीर्य से (प्र दविद्युतत्) खूब प्रकाशित होता है । और (मनवे) मननशील पुरुष को (स्वः) सुखकारक (आर्यम् ज्योतिः) श्रेष्ठ ज्योति, प्रकाश, द्रव्य, ऐश्वर्य (विदत्) प्राप्त कराता है ।

जीव ब्रह्म पत्र में—वृत्त पर जिस प्रकार पच्ची विराजते हैं उसी प्रकार (इन्द्रं) परमेश्वर का आश्रय लेकर (चमूपदः) ब्रह्मास्वाद में निरत (मन्दिनः) आनन्दरस से तृप्त (सोमासः) सोम्य स्वभाव वाले मुक्तजीव आ विराजते हैं । (एषाम् अनीकं शवसा दविद्युतत्) उनका मुख या स्वरूप शव=ज्ञान से प्रकाशित होता है । वह (मनवे) मननशील पुरुष को (आर्यम् ज्योतिः) सर्वश्रेष्ठ ज्योति का (विदत्) लाभ कराता है ।

कृतं न श्वघ्नी वि चिनोति देवने संवगं यन्मघवां सूर्यं जयत् ।
न तत् ते अन्वो अनु वीर्यं शकन् पुराणो मघवन् नोत नूतनः॥५॥

अ० ४३।१०।५॥

भा०—(देवने) जूए के खेल में (श्वघ्नी) अपना धन नाश करने वाला जुआखोर पुरुष (कृतं न) जिस प्रकार 'कृत' नाम के पासे को (वि चिनोति) विशेष रूप से प्राप्त करता है उसी प्रकार (यत्) जब (मघवा) ऐश्वर्यवान् प्रभु (संवगम्) सबको अपने साथ मिलाये रखने वाले (सूर्यम्) सूर्य को (जयत्) अपने वश करता है (तत्) तब (ते) तेरे उस (वीर्यम्) वीर्य को, हे (मघवन्) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! (न पुराणः) न कोई पुरातन (न उत नूतनः) और न कोई नवीन पुरुष ही (अन्यः) दूसरा, तेरा विपरीतगामी (अनु शकन्) जीत सकता है ।

राजा के पक्ष में—जुआरी जिस प्रकार सर्वविजयी कृत नाम के पासे को प्राप्त करता है। हे इन्द्र! राजन्! जब तू भी (संवर्गं सूर्यम्) सबको एकत्र मिलाये रखने में समर्थ, सूर्य के समान तेजस्वी सेनापति या विद्वान् पुरुष को (जयत्) प्राप्त कर लेता है तब न कोई पुराना और न कोई नया ही (ते अन्यः) तेरा शत्रु (ते तत् वीर्यं अनु शक्त) तेरे उस वीर्य पराक्रम का मुकाबला कर सकता है।

विंशंविंशं मघवा पर्यंशायत् जनानां धेनां अवचाकशाद् वृषां।

यस्याहं शक्रः सवनेषु रणयति स तीम्रैः सोमैः सहते पृतन्यतः॥६॥

ऋ० १०।४३।६॥

भा०—(मघवा) वह परमैश्वर्यवान् राजा के समान (विंशं विंशं परि अशायत्) प्रत्येक प्रजा को प्राप्त होता है। वह (वृषा) सब सुखों का सब रसों का वर्षक, भेघ के समान (जनानां) सब मनुष्यों की (धेनाः) स्तुतियों को (अवचाकशात्) सुनता, प्राप्त करता और उनपर दृष्टि रखता है। (यस्य सवनेषु) जिसके युद्ध के अवसरों में (शक्रः) वह शक्तिशाली परमेश्वर, सेनापति के समान (रणयति) रमण करता है (सः) वह (तीम्रैः सोमैः) तीव्रगामी, सहायक विद्वान् के समान तीव्रज्ञान रसों से (पृतन्यतः) सेना द्वारा आक्रमण करने वाले शत्रुओं के समान भीतरी शत्रुओं को (सहते) बश कर लेता है, उनपर विजय पाता है।

आपो न सिन्धुमभि यत् समत्तरन्त्सोमांस इन्द्रं कुल्या इव हृदम्
वर्धन्ति विप्रा यदो अस्य सादने यवं न वृष्टिर्देव्येन दानुना ॥७॥

ऋ० १०।४३।७॥

भा०—(सिन्धुम् अभि) समुद्र के प्रति (आपः न) जिस प्रकार जलसे भरी नदियां (समत्तरन्) बहती हैं और जिस प्रकार (हृदम् इव) बड़े भारी ताल में (कुल्याः इव) छोटी २ जलधाराएं घाकर पड़ती हैं।

उसी प्रकार (यत्) जब (सोमासः) सौम्य स्वभाव वाले विद्वान् सुमुच्य जीव (इन्द्रम् अभि सम् अक्षरन्) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु परमेश्वर की शरण आते हैं तब वे (विप्राः) विद्वान् जन आनन्द से विशेष रूप से पूर्ण होकर (अस्य) इसके (सादने) शरण में जाकर उसकी ही (महः) कीर्ति को (वर्धन्ति) ऐसे बढ़ाते हैं जैसे (वृष्टिः) वर्षा (दिव्येन दानुना) आकाश से आये जल से (यत्र न) जो को बढ़ाया करती है ।

राजा के पक्ष में—(सोमासः) विद्वान् लोग (यत् इन्द्रम् समक्षरन्) जब ऐश्वर्यवान् राजा के पास आते हैं तो वे (अस्य सादने महः वर्धन्ति) उसके शरण में आकर यश और महान् सामर्थ्य की वृद्धि करते हैं ।

वृषा न क्रुद्धः पंतयद् रजःस्वा यो अर्थपत्नीरकृणोदिमा अपः ।

स सुन्वते मयवां जीरदानवे विन्दज्ज्योतिर्मनवे हविष्मते ॥८॥

श्र० १०।४३।८॥

भा०—(यः) जो इन्द्र परमेश्वर (क्रुद्धः वृषा न) गुस्से में आये हुए महा वृषभ के समान अति वेगवान् होकर (रजःसु) समस्त लोकों में (आपतयत्) व्याप्त हो रहा है और उनको तीव्रगति से चला रहा है और (यः) जो (इमाः अपः) इन समस्त लोकों को या इन समस्त (अपः) प्रकृति की व्यापक शक्तियों को (अर्थपत्नीः अकृणोत्) स्वामी की पत्नियों के समान परमेश्वर स्वयं स्वामीरूप होकर उनको अपनी पालक शक्तियां बना लेता है । (सः) वह (मघवा) परमैश्वर्यवान् (सुन्वते) स्तुति करने हारे (जीरदानवे मनवे) मननशील (हविष्मते) ज्ञानवान् (जीरदानवे) जीव को (ज्योतिः) परम ज्ञानमय ज्योतिः अर्थात् अपने प्रकाशमय स्वरूप का (अविन्दत्) लाभ कराता है ।

राजा के पक्ष में—(यः रजःसु क्रुद्धः वृषा न आपतयत्) जो देश देशान्तरों पर क्रुद्ध हुए बैल के समान भीषण होकर चढ़ाई करता है और (अपः अर्थपत्नीः अकृणोत्) आस प्रजाओं को एक स्वामी की ब्रियों के समान

भोग्य प्रजापुं, अथवा एक ही स्वामी या प्रभु को पालने वाली विशाल राष्ट्र शक्ति में संगठित कर देता है (सः) वह (सुन्वते) अपना अभिप्रेक करने वाले (हविष्मते) अन्न आदि को कर रूप से देने वाले (जीरदानत्रे) चेतनाशील (मनत्रे) मानव समाज को (ज्योतिः अविन्दत्) परम ऐश्वर्य प्रदान करता है ।

उज्जायतां परशुज्योतिपा सह भूया ऋतस्य सुदुघा पुराणवत् ।
वि रोचतामरूपो भानुना शुचिः स्वर्णं शुक्रं शुशुचीत् सत्पतिः ॥६॥
ऋ० १०।४३।९ ॥

भा०—(परशुः) आत्मा से पर, दूसरे, अन्य अनात्म पदार्थों को काटने में समर्थ ज्ञानरूप वज्र (ज्योतिपा सह) अपने वास्तविक आत्म-प्रकाश के साथ (उज् जायताम्) उदित हो । अर्थात् आत्मा के प्रकाश के साथ २ ज्ञान का उदय हो । और (ऋतस्य) सत्य ज्ञान की (सुदुघा) अच्छे प्रकार देने वाली ऋतम्भरा नाम की प्रजा (पुराणवत्) अति प्राचीन, सबसे पुराण पुरुष परमेश्वर के समान शुद्ध होकर (सह) उसके साथ (भूयाः=भूयात्) तन्मय होकर रहे । और (अरूपः) द्वीक्षिमान् (शुचिः) शुद्ध आत्मा (भानुना) दीप्ति से या भासमान ज्ञान के प्रकाश से (विरोचताम्) विशेष रूप से चमके । (सत्पतिः) सत्, स्वरूप ब्रह्म-ज्ञान का पालक होकर (स्वः न) आदित्य के समान (शुक्रन्) अपने शुद्ध, द्वीक्षिमय स्वरूप को (शुशुचीत्) और भी उज्ज्वल करे ।

राजा के पक्ष में—(परशुः^१) शत्रुओं को काटने वाला बल (ज्योति-पा सह उज् जायताम्) पराक्रम या तेज के साथ उदय हो, उठे, बड़े । (ऋतस्य सुदुघा) सत्य व्यवहार को, यज्ञमय राष्ट्र को अच्छी प्रकार द्रोहने

१. परान् शृणाति इति परशुः, इति दण्डनाथ वृत्तिः । परात् स्वर्तीति परशुः इति द्वीस्वामी । काह्परयोस्त्रिगृन्मोदिचे, दृग्वादिवाद्वाङ् ।

वाली नीति (पुराणवत्) पूर्ववत् (भूयाः) स्थापित रहे । (अरूपः) कान्तिमान या रोष रहित राजा (शुचिः) शुद्ध निष्कपट होकर (भानुना) तेजसे प्रकाशित हो । और वह (सत्पतिः) सज्जनों का परिपालक होकर (स्वः न) आदित्य के समान (शुक्रम् शुशुचीत) अपने बल को और भी प्रज्वलित करे ।

गोभिष्टरमामर्ति दुरेवां यवेन जुधं पुरुहूत विश्वांम् ।

वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥१०॥

अथर्व० ७।५०।७ ॥ ऋ० १०।४३।१०॥

भा०—हे (पुरुहूत) समस्त प्रजाओं से आदृत ! सत्कारपूर्वक बुलाये जाने योग्य ! (वयम्) हम लोग (गोभिः) गौ आदि पशुओं और उत्तम भूमियों से (अमतिम्) दरिद्रता को (तरेम) दूर करें । और (गोभिः) वेद वाणियों द्वारा (अमतिं) अज्ञान को (तरेम) पार करें । और (वयम्) हम (प्रथमाः) अति श्रेष्ठ होकर (अस्माकेन वृजनेन) अपने निज शत्रुवारक बल से पुष्ट होकर अपने (राजभिः) राजाओं सहित (धनानि जयेम) ऐश्वर्यों को विजय करें ।

वृहस्पतर्नः परिं पातु पश्चाद्भुतोत्तरस्मद्भ्रंरादघायोः ।

इन्द्रः पुरस्ताद्भुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिचः कृणोतु ॥११॥

अथर्व० ७।५१।१ ॥ ऋ० १०।४३।११ ॥

भा०—(वृहस्पतिः) महान् संसार का पालक, एवं बड़े राष्ट्र का पालक, वेदज्ञ विद्वान् (नः) हमें (पश्चात्) पीछे से (उत् उत्तरस्मात्) उत्तर से या दायें से या ऊपर से और (अधरात्) नीचे से (अघायोः) हम पर आक्रमण एवं आघात करने की इच्छा करने वाले दुष्ट पुरुष से और हे (इन्द्र) राजन् ! (पुरस्तात् उत्त मध्यतः) आगे और हमारे बीच में से भी हम पर आक्रमण करने वाले दुष्ट पुरुष से (नः परिपातु)

हमारी रक्षा करे । और वह (नः) हमारा (सत्त्वा) मित्र होकर हमारे (सखिभ्यः) समस्त जेही मित्रों या हम मित्रों को (वरिवः) धन ऐश्वर्य (कृणोतु) प्रदान करे ।

बृहस्पते युवामिन्द्रश्च वस्वां दिव्यस्येंशाथे उत पार्थिवस्य ।

धत्तं रयिं स्तुवते कीरये चिद्व्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१२॥

अ० ७ । ९७ । १० ॥

भा०—हे (बृहस्पते) वेदज्ञ, बृहती वेदवाणी के पालक ! और हे इन्द्र ! (युवम्) तुम दोनों (दिव्यस्य उत पार्थिवस्य) दिव्य आकाश में विद्यमान और पृथिवी में विद्यमान (वत्त्वः) समस्त ऐश्वर्यों को (ईशाथे) वश कर रहे हो । आप दोनों (स्तुवते) स्तुतिशील, (कीरये) ज्ञानवान् पुरुष को (रयिं धत्तं) ऐश्वर्य प्रदान करो । और हे विद्वान् पुरुषो ! आप सब (स्वस्तिभिः) कल्याणकारी उपायों से (नः सदा पात) हमारी सदा रक्षा करें ।

इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

[१८] परमेश्वर की स्तुति

१-३ काण्वो मेधातिथिः रांगिरसः प्रियमेधश्च अषी । ४-६ वसिष्ठः । इन्द्रो देवता
गायत्री । षड्वचं वृत्तम् ॥

व्यमुं त्वा तदिदंर्या इन्द्रं त्वायन्तः सखायः ।

कर्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥१॥ अ० ८ । २ । १६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (व्यम्) हम सब लोग (तदिदंर्या) 'तत्' = उस लोक और 'इद्' इस लोक अर्थात् ऐहिक और पार-लौकिक प्रयाजनों की इच्छा करने वाले अथवा (तद् इत् अर्थाः) उस परम मोक्ष एवं त्रिविध ताप निवृत्ति की ही एकमात्र आकांक्षा करते हुए (त्वाः

यवः) तुझे प्राप्त होने की इच्छा करते हुए तेरे (सखायः) मित्र हम (कखाः) ज्ञानी पुरुष (त्वा) तेरी (उक्थोभिः) स्तुतिवचनों और वेद के सूक्तों द्वारा (जरन्ते) स्तुति करते हैं ।

न धैमन्यदा पपन्न वज्रिन्नपसो नविष्टौ ।

तवेदु स्तोमं चिकेत ॥२॥ ऋ० ८।२।१७ ॥

भा०—हे (वज्रिन्) वज्रधारिन् ! पापों से निवृत्त करने वाले ज्ञान वज्र के धारक प्रभो ! (अपसः) कर्म के (नविष्टौ) प्रारम्भ में (अन्यत्) और कुछ भी मैं (न व इम् (आ पपन) स्तुति नहीं करता प्रत्युत (तव इव) तेरी ही (स्तोमम्) स्तुति करना (चिकेत) जानता हूँ ।

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।

यन्ति प्रमादमत्तन्द्राः ॥३॥ ऋ० ८।२।१८ ॥

भा०—(देवाः) देव, दिव्यगुण और विद्वान् पुरुष (सुन्वन्तम्) काम करने हारे यत्नशील पुरुष को (इच्छन्ति) चाहते हैं वे (स्वप्नाय) सोने वाले प्रमादी पुरुष से (न स्पृहयन्ति) प्रेम नहीं करते । प्रायः (अतन्द्राः) आलस्य रहित पुरुष भी (प्रमादम् यन्ति) प्रमाद कर दिया करते हैं । इसलिये हे पुरुषो ! सात्विक गुणों को प्राप्त करने के लिये सदा क्रियाशील और यत्नवान् बने रहो ।

व्यमिन्द्र त्वायत्रोभि प्र नोनुमो वृपन् ।

विद्धी त्वस्य नो वसो ॥४॥ ऋ० ७।३१।४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! परमेश्वर ! हे (वृपन्) समस्त सुखों के वर्षक ! हम (त्वायवः) तेरी ही प्राप्ति की अभिलाषा करते हुए तेरी (प्र नोनुमः) निरन्तर स्तुति करते हैं । हे (वसो) समस्त संसार के वसाने वाले वसो ! (अस्य तु) हमारे इस स्तुति को भी तू (विद्धि) जानता है ।

मा नो निदे च वक्तव्यो रंश्रीररांशो ।

त्वे अणि क्रतुममं ॥१॥ ३० ७।३१।५ ॥

भा०—हे इन्द्र! परमेश्वर एवं राजन्! (नः) हमें (निदे) निन्दक पुरुष के (मा रन्धीः) अधीन मतकर, उसके वश में उसके अधिकार में मत रख । (अणि) तू हमारा स्वामी ईश्वर होकर भी (अराण्ये) अदानशील कंजूस और (वक्तवेः) कठोर एवं अपशब्द भाषी पुरुष के भी (मा रन्धीः) वश में हमें मत रख । (अणि) और (ने) नेरा (क्रतुः) सब संकल्प और ज्ञान, विचार सब कुछ (त्वे) तेरे ही लिये है ।

मर्तो का द्रह्यार्पण इत्त मन्त्र से स्पष्ट है ।

यद् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुतश्च नदर्पणम् ॥

त्वं वर्मासि सप्रथः पुरोयोधश्च वृत्रहन् ।

त्वया प्रति द्रुवे युजा ॥ ६ ॥ ३० ७।३१।६ ॥

भा०—हे (वृत्रहन्) आवरक तानस अन्धकार और शत्रुओं के नाशक परमेश्वर एवं राजन्! (त्वं) तू (सप्रथः) सब ओरों से और सब प्रकार से विशाल और (पुरोयोधः च) और आगे बढ़कर प्रहार करने वाले योद्धा के समान हमारा (वर्म अस्ति) कवच है । (त्वयायुजा) तुम्हें साथी के बल से ही मैं अपने प्रतिद्वन्दी लोगों के (प्रति द्रुवे) उत्तर देने, उनका जैसे का तैसा जवाब देने या प्रतिकार करने में समर्थ होऊँ ।

[१६] परमेश्वर और राजा की शरणाप्राप्ति ।

विश्वानित्र अग्निः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । सतर्व हूयन् ॥

वात्रेहत्याय शवसे पृतनायाहाय च ।

इन्द्र त्वा वर्तयामसि ॥१॥ ३० ३।३७।११ ॥

भा०—हे राजन् ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (चार्त्रहत्याय) वृत्र, नगरों को घेरने वाला शत्रुओं को हनन कर देने वाले और (पृतनासाह्या यच) संग्रामों और शत्रु सेनाओं को पराजय कर देने वाले (शवसे) बल के कारण ही हम प्रजाजन (त्वा) तेरी शरण (आवर्तयामः) आते हैं ।

समस्त विद्वानों के नाश और समस्त पुरुषों को वश करने वाले बल के कारण हे परमात्मन् ! हम तेरे शरण में आते हैं ।

आर्वाचीनं सु ते मन उत चक्षुः शतक्रतो ।

इन्द्रं कृण्वन्तु वाघतः ॥१॥ ऋ० ३।३७।२ ॥

भा०—हे (शतक्रतो) सैकड़ों कर्मों और प्रजाओं वाले ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (वाघतः) स्तुति करने हारे भक्त जन (ते मनः उत चक्षुः) तेरी शुभ चित्त और कृपामय दुष्टि के (सु आर्वाचीनं कृण्वन्तु) उत्तम रीति से अपने अभिसुख करें ।

नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीर्भिरीमहे ।

इन्द्राभिमातिपाह्ये ॥३॥ ऋ० ३।३७।३ ॥

भा०—हे (शतक्रतो इन्द्र) शतक्रतो ! सैकड़ों वीर्य और प्रज्ञाबलों से युक्त और हे ऐश्वर्यवान् ! (अभिमातिपाह्ये) अभिमान करने वाले शत्रुओं के विजय करने के निमित्त ही हम (विश्वाभिः गीर्भिः) समस्त वाणियों से (नामानि) तेरे अनेक नामों को (ईमहे) मनन करते हैं ।

पुरुष्टुतस्य धामभिः शतेन महयामसि ।

इन्द्रस्य चर्पणीधृतः ॥४॥ ऋ० ३।३७।४ ॥

भा०—(पुरुष्टुतस्य) प्रजाओं द्वारा स्तुति किये जाने वाले (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् का (शतेन धामभिः) धारण सामर्थ्यों से (चर्पणीधृतः) समस्त मनुष्यों को धारण पोषण करने हारे प्रभु को हम (महयामः) हम पूजा करें और ऐसे राजा का हम आदर सत्कार करें ।

इन्द्रं वृत्राय हन्तवे पुरुहूतमुपं ब्रुवे ।

भरेषु वाजसातये ॥१॥ ऋ० ३ । ३७ । ५ ॥

भा०—(वृत्राय हन्तवे) शत्रु के नाश करने के लिये और (भरेषु) युद्धों में (वाजसातये) धनैश्वर्य के प्राप्त करने के लिये (पुरुहूतन्) सनत्त प्रजाओं से स्तुति करने योग्य, उत्तम, गुणवान् पुरुष की (उपब्रुवे) हम प्रार्थना करें कि वह ऐसा करे । विद्वानों के नाश यज्ञों में वीर्य और अन्न-स्नातन के लिये या पुष्टिकारी कार्यों में अन्न प्राप्त करने के लिये उस सर्व-स्तुत्य ईश्वर की मैं प्रार्थना कहं ।

वाजेषु सासृदिभैत्र त्वामीमहे शतक्रतो ।

इन्द्रं वृत्राय हन्तवे ॥६॥ ऋ० ३ । ३७ । ६ ॥

भा०—हे पूर्वोक्त शतक्रतो ! हे इन्द्र ! (वृत्राय हन्तवे) शत्रु के नाश के लिये (त्वाम्) तुझसे हम (ईमहे) प्रार्थना करते हैं । तू (वाजेषु) संग्रामों में (सासृदिः भव) शत्रुओं का सदा पराजय करने में समर्थ हो ।

द्युम्नेषु पृतनाज्ये पृत्सु तूर्पु श्रवःसु च ।

इन्द्रं सासृत्राभिमातिषु ॥७॥ ऋ० ३ । ३७ । ७ ॥

भा०—(द्युम्नेषु) धनों के प्राप्त करने में (पृतनाज्ये) संग्रामों में और शत्रु सेनाओं के विजय करने के कार्य में (पृत्सु तूर्पु) संग्राम में खड़ी शत्रु सेनाओं के वध करने के उपायों में (श्रवःसु) यश के कार्यों या अन्न प्राप्त करने के कार्यों में और हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् राजन् ! तू (अभिमातिषु) शत्रुओं पर (सासृत्र) विजय करने में समर्थ हो ।

[२०] परमेश्वर से प्रार्थना और सेनापति और राजा के कर्त्तव्य ।

१-४ विधानित्रः । ५-७ गृत्सुतः । इन्द्रो देवता । गातव्यः । सत्तव द्युम्नम् ॥

शुष्मिन्तमं न ऊतये द्युम्निर्न पाहि जाशुविम् ।

इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥१॥ ऋ० ३ । ३७ । ८ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! या हे सेनापते ! हे (शतक्रतो) सैकड़ों बलों से युक्त ! तू (नः ऊतये) हमारी रक्षा के लिये (शुष्मिन्तमं) सब से अधिक बलशाली (जागृविम्) रक्षा के कार्य में सदा सावधान (सोमं) सब के प्रेरक शासक राजा की (पाहि) रक्षा कर ।

इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु ।

इन्द्र तानि तु आ वृणे ॥२॥ ऋ० ३ । ३७ । ९ ॥

भा०—हे (शतक्रतो) सैकड़ों बल सामर्थ्यों वाले ! हे (इन्द्र) इन्द्र ऐश्वर्यवन् ! (ते) तेरे (पञ्चसु जनेषु) पाँचों प्रकार के जनों में, प्रजाओं में (या इन्द्रियाणि) जितने इन्द्रिय, दूत आदि रूप से चक्षु हैं या तेरे जितने कार्यकर्ता रूप बल, ऐश्वर्य या अधिकार हैं (तानि) उन सब (ते) तेरे अधिकारों को (आवृणे) मैं स्वीकार करता हूँ आदर भाव से देखता हूँ ।

अगन्निन्द्र श्रवो बृहद् द्युम्नं दधिष्व दुष्टरम् ।

उत् ते शुष्मं तिरामसि ॥३॥ ऋ० ३ । ३७ । १० ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! तू (बृहत्-श्रवः) बड़े भारी ऐश्वर्य को (अगन्) प्राप्त है । तू (दुस्तरं द्युम्नं) दुःस्तर, अपार धन का धारण कर, रख । (ते शुष्मम्) तेरे बल को हम (उत् तिरामसि) खूब बढ़ावें ।

अर्वावतो न आ गृह्यथा शक्र परावतः ।

उ लोको यस्तं अद्रिव इन्द्रेह तत् आ गहि ॥४॥ ऋ० ३ । ३७ । ११ ॥

भा०—हे (अद्रिवः) अभेद्य शक्ति वाले ! हे (इन्द्र) इन्द्र राजन् ! तू (नः) हमारे पास (अर्वावतः) समीप के (अयो) और (परावतः) दूर के देश से भी (आगहि) आ । हे (शक्र) शक्तिमन् ! (यः ते लोकः) तेरा जो भी स्थान हो तू (ततः उ) वहाँ से ही (आ गहि) आ, हमें प्राप्त हो ।

इन्द्रो अङ्ग महच्चयमभी पदपं चुच्यवत् ।

स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥५॥ ऋ० २ । ४१ । १० ॥

भा०—हे (अङ्ग) विद्वान् पुरुषो ! (इन्द्रः) इन्द्र राजा (नहद् नयम्) बड़े नारी नय को (अभि-त्तव्) मुझबला करता है और टमको (अव चुच्यवत्) दूर करता है । (हि) क्योंकि (सः) वह (स्थिरः) स्थिर (विचर्षणिः) विश्व का या समस्त प्रजा का माहाद् द्रष्टा अधिष्ठता है ।

इन्द्रश्च मूलयाति नो न नः पश्चाद्दयं नशत् ।

भद्रं भवाति नः पुरः ॥ ६ ॥ ऋ० २ । ४१ । ११ ॥

भा०—(इन्द्रः च) इन्द्र राजा और परमेश्वर ही (नः) हमें (मु-लयाति) लुप्त करे, हम पर कृपा करे । (नः पश्चात्) हमारे पीछे (अयं) पाप या दुःख (न नशत्) न लगे । (नः पुरः) हमारे आगे सदा (भद्रं भवाति) कल्याण और सुख सदा हो ।

इन्द्र आशाभ्यत्परि सर्वाभ्यो अमयं करत् ।

जेता शत्रून् विचर्षणिः ॥७॥ ऋ० २ । ४१ । १२ ॥

भा०—(विचर्षणिः) प्रजाओं को विविध प्रकार से देखने हारा ! और (शत्रून्) शत्रुओं का विजेता (इन्द्रः) इन्द्र राजा (सर्वाभ्यः आशाभ्यः परि) समस्त दिशाओं से हमें (अमयं करत्) अमय करे ।

[२१] परमेश्वर और राजा ।

सर्व नांगिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । १-९ अक्षरः । १०, ११ त्रिष्टुप् ।
स्वादेशव इत्यन् ॥

न्युत्पु वाचं प्र मूडे मंरामडे गिर इन्द्राय सदाने विवस्वतः ।

नू विद्धि रत्नं सप्तताम्रिवाविन्दुश्च दुःखुतिर्द्विष्टुं देषु शस्यते ॥१॥

ऋ० २ । ४२ । १ ॥

भा०—हम लोग (महे) उस महान् परमेश्वर के लिये (वाचं) सुन्दर वाणी का (नि सु प्र भरा महे) नित्य पूजा के लिये प्रयोग करें। (विवस्वतः) ईश्वर की उपासना करने वाले (सदने) गृह में (इन्द्राय गिरः) परम ऐश्वर्यवान् परमेश्वर के लिये वाणियां कही जाती हैं। (ससताम्) सोने तालों के (रत्नं) उत्तम सुन्दर धनको (इव) जिस प्रकार चोर चुरालेता है उस प्रकार वह परमेश्वर सोते हुए आलसी लोगों के (रत्नं) रसण योग्य धन को भी (नू चित् हि) बहुत शीघ्र (आविदत्) हर लेता है। और उत्तम परोपकारी पुरुषों को देता है और (द्विणोदेषु) धनैश्वर्य के दाता पुरुषों के लिये (दुष्टुतिः) निन्दा वचन (न शस्यते) नहीं कहा जाता। राजा भी आलसी प्रमादियों का ही धन हरे, उत्तम कर्मण्य पुरुषों को प्रदान करे।

दुरो अश्वंस्य दुर इन्द्र गोरसि दुरो यवस्य वसुन इन्द्रपतिः ।

शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखिभ्यस्तमिन्द्रं गृणीमसि २
ऋ० १।५३।२॥

भा०—हे (इन्द्रः) इन्द्र परमेश्वर ! तू (अश्वस्य दुरः) अश्वों के देने वाला (गोः दुरः) गौश्रों का दाता, (यवस्य) जौ आदि अन्नों का (दुरः) दाता और (वसुनः) धनऐश्वर्य का (इन्द्रः पतिः) स्वामी और शासक है। तू (शिक्षा नरः) समस्त मनुष्यों को उनका अभिमत पदार्थ देनेहारा (प्रदिवः) उत्कृष्ट व्यवहार वाला या उत्कृष्ट विजेता होकर भी (अकामकर्शनः) कभी कामना या आशा का विद्यातेन करने वाला और (सखिभ्यः) मित्रों के लिये (सखा) सखा है। (तम्) उस तुझको हम (इदम्) इस प्रकार (गृणीमसि) स्तुति करते हैं।

शचीव इन्द्र पुरुकृद् द्युमत्तम् तवेदिदमभितं श्चेकिते वसु ।

अतः संगृभ्याभिभूत आ भरं मा त्वायतो जंरितुः काममूनर्याः ॥३
ऋ० १।५३।३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! हे (शचीवः) प्रज्ञावान् या हे शक्ति-
मन् ! हे (पुरूकृत्) बहुतसे धनों जनों और लोकों के कर्ता ! हे (द्युम-
त्तम) सबसे अधिक धनशालिन् ! हमें तो (इदम्) यह सब (अभितः)
सब ओर पसरा हुआ (वसु) ऐश्वर्य या वसा हुआ जगत् (तव इद्)
तेरा ही (चिकेते) प्रतीत होता है । हे (अभिभूते) चारों ओर की भूति
के स्वामिन् ! (अतः) इसलिये तू हमें (संगृभ्य) ऐश्वर्य संग्रह करके
(आ भर) प्रदान कर । (त्वायतः) तुझको ही चाहने वाले (जरितुः)
अपने स्तुति करने वाले विद्वान् पुरुष की (कामम्) आशा को (मा
ऊनयीः) कम न होने दे । उसे निराश मत कर ।

एभिर्द्युभिः सुमनां एभिरिन्द्रुभिर्निरुन्धानो अमर्ति गोभिरश्विनां ।
इन्द्रेण दस्युं दरयन्त इन्दुभिर्द्युतद्वेषसः समिपा रभेमहि ॥४॥

श्र० १।५३।४।।

भा०—(सुमनाः) उत्तम ज्ञानवान् और उत्तम चित्त वाला राजा
(एभिः) इन (द्युभिः) तेजों से और (एभिः) इन (इन्दुभिः) धना-
दि ऐश्वर्यों से (गोभिः) गौ आदि पशुओं से और (अधिना) अश्व वाले
सैन्य से (अमतिम्) दारिद्र्य को और अदम्य शत्रु को और अज्ञान को
(निरुन्धानः) रोकता हुआ रह । और हम लोग (इन्द्रेण) इस ऐश्वर्य
वाला राजा और (इन्दुभिः) युद्ध में द्रुतगति से जाने वाले वीर पुरुषों
के द्वारा (दस्युं दरयन्तः) दस्यु को भयभीत करते हुए परस्पर (युतद्वेषा
सः) सब द्वेषों से रहित होकर (इषा) अन्न, बल और ज्ञान से (सम्
रभेमहि) एकत्र होकर रहें ।

समिन्द्र राया समिपा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुश्चन्द्रैरभिद्युभिः ।
सं द्वेष्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअग्रयाश्वान्त्या रभेमहि ॥५॥

श्र० १।५३।५।।

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! परमेश्वर ! हम (राया) धन से (सम् रभेमहि) युक्त हों । (इषा) अन्न और बल से (सं रभेमहि) युक्त हों । (पुरुचन्द्रैः) बहुत आल्हादक पदार्थों से युक्त, (अभिद्युभिः) सर्वत्र कान्तियुक्त, (वाजैः) बलों और पेश्वरों से (सं रभेमहि) युक्त हों । (वीरशुष्मया) वीर सैनिकों के बलवाली (गो-अग्रया) गौ आदि पशुओं को मुख्य धन रूप से या उद्देश्य रूप से रखने वाली, (अश्वावत्या) घोड़ों से युक्त, (देव्या) विजयशील (प्रमत्या) शत्रुओं का अच्छी प्रकार स्तम्भन करने में समर्थ सेना से (सं रभेमहि) युक्त हों । अथवा—(देव्या प्रमत्या) उत्कृष्ट मतिरूप देवी, सात्त्विक व्यवहार बुद्धि से युक्त हो जो (वीरशुष्मया) प्राणों के बल से बलवती, (गो-अग्रया) वाणी या ज्ञानेन्द्रियों को मुख्य रखने वाली और (अश्वावत्या) कर्मेन्द्रियों के बल से भी युक्त हों । अथवा—(प्रमत्या देव्या) उत्कृष्ट ज्ञानवाली देवी, विद्वानों की परिपत् या राजशक्ति या त्त्री से युक्त हों ।

ते त्वा मदां अमदन् तानि वृण्व्या ते सोमांसो वृत्रहृत्येषु सत्पते ।
यत् कारवे दश वृत्राण्यप्रति बर्हिष्मते नि सहस्राणि बर्हयः ॥६॥

अ० १ । ५३ । ६ ॥

भा०— हे (सत्-पते) सज्जनों के पालक ! हे इन्द्र ! (ते मदाः) वे नाना हर्षकारी, उत्साही वीर, और (तानि वृण्व्या) वे नाना बल और (ते सोमांसः) वे नाना पेश्वर्य, या वे नाना विद्वानगण (त्वा) तुम्हें (अमदन्) हर्षित उत्साहित करें । (यत्) जिससे तू (बर्हिष्मते) वृद्धिशील, राष्ट्र के स्वामी (कारवे) क्रियाशील विद्वान् राजकर्ता के आगे आने वाले (दश सहस्राणि वृत्राणि) दस हजार, हजारों, विघ्नों और विघ्नकारियों के सैन्यों को भी (अप्रति) बिना रुकावट के (नि बर्हयः) विनाश करने में समर्थ हों ।

युधा युधमुष घेदेषि घृष्ट्युया पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा ।

नम्या यदिन्द्र सख्यां परावति निवर्हयो नमुचि नाम मायिनम् ॥७॥

३० १ ५३ । ७ ॥

शा०—हे (इन्द्र) इन्द्र राजन् ! तू (घृष्ट्युया) शत्रु को धर्षण या पराजय करने में समर्थ (युधा) अपने प्रहार शक्ति से (युधन्) शत्रु के प्रहार साधन को (घ) ही (षप एषि) प्राप्त होता है । उसको सहता और वश करता है । और (घृष्ट्युया) शत्रु को विजय करने में समर्थ (पुरा) अपने गढ़ से और (ओजसा) बड़े बल, पराक्रम द्वारा (इद्रम्) सामने स्थित इन्द्र (पुरं) शत्रु के गढ़ को (सं हंसि) अच्छी प्रकार नाश करता है । अर्थात् नगरकोट में स्थित वीर सैनिकों द्वारा शत्रु के गढ़ में स्थित सैनिकों को मार देता है । और (परावति) दूर देश में भी (यद्) और जो हे (इन्द्र) सेनापते ! (नम्या सख्या) शत्रु को दबा देने में समर्थ और अपने समस्त विनीत, मित्रभूत राजा द्वारा (नमुचि नाम मायिनम्) नमुचि, कभी जीता न छोड़ने योग्य मायावी शत्रु को (निवर्हय) तू सर्वथा नाश कर देता है ।

ईश्वर पक्ष में—(युधा) अपने योग करने हारे गुण से, (युधन्) योग द्वारा प्राप्त पुरुष को तू प्राप्त होता है । अपने (पुरां) पूरण पालन करने वाले सामर्थ्य से (पुरम्) देह रूप पुर को और समस्त ब्रह्माण्ड को (ओजसा) महान् शक्ति से (संहंसि) व्यापते हो, (परावति) परम रक्षा स्थान में (नम्या सख्या) अपने विनीत मित्र जीव के साथ रहकर (मायिनम् नमुचिम्) जगत् प्रपञ्च के निर्माण करने वाली तामस प्रकृति से बद्ध (नमुचि) कभी मुक्त न होने वाले जीव को (निवर्हय) मुक्त करते हो । त्वं करञ्जमुत पर्णयं वथीस्तेजिप्रयातिशिग्वस्यं वर्तनी ।

त्वं श्रुता बङ्गुदस्याभिनुत् पुरांनानुदः परिपृता ऋजिष्वन्ता ॥८॥

३० १ । ५३ । ८ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (त्वम्) तू (आतिथिग्वस्य) अतिथि, पूज्य पुरुषों के प्रति गौ, भूमि आदि प्रदान करने वाले उत्तम सज्जन पुरुष के (वर्तनी) मार्ग में बाधक होने वाले (करञ्जम्) कुत्सित स्वभाव वाले अथवा हिंसा व्यसनी, (उत) और (पर्णम्) पर्ण अर्थात् गतिशील रथों से, प्रयाण करने वाले शत्रु को भी (तेजिष्ठया) अपनी अति तेजस्विनी शक्ति से (वधीः) विनाश कर । (त्वम्) तू (वंगृदस्य) जाने के मार्गों या सर्वादाश्रों के विनाशक शत्रु के (शता पुरः) सैकड़ों गदों को (अभिनत्) तोड़ । (ऋजिश्वना) ऋजु, सरल मार्ग से जाने वाले धर्मात्मा पुरुष द्वारा (परिपूताः) बेरे हुए (अनानुदः) कर प्रदान न करने वाले शत्रु के (शता) सैकड़ों (पुरः) गदों को (अभिनत्) तोड़ ।

त्वमेतां जनराज्ञो द्विर्दशान्धुना सुश्रवसोपजग्मुपः ।

पष्टिं सहस्रां नवतिं नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदावृणक् ॥६॥

भा०—हे सेनापते ! इन्द्र ! त्वम् (अबन्धुना) बन्धु और सहायक से रहित, (सुश्रवसा) उत्तम कीर्तिमान्, धर्मात्मा राजा के साथ (उपजग्मुपः) युद्ध में लड़ने वाले (द्विः दश) २० (जनराजः) जनों या सैनिकों के राजाओं एवं (पष्टिं सहस्रां नवतिं नव) ६००६६ सैनिकों को भी (दुष्पदा) दुर्गम, असह्य (रथ्या चक्रेण) रथ योग्य चक्र से अथवा रथ के चक्र के समान बने चक्रव्यूह से (अवृणक्) वर्जन करने में समर्थ हो ।

२० सेना नायकों के अधीन ६००६६ सैनिक चक्र व्यूह बनाते हैं ।

त्वमांविथ सुश्रवसं तत्रोतिभिस्तत्र त्रामंभिरिन्द्र तूर्वयाणम् ।

त्वमस्मै कुत्संमतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूनें अरन्ध्रनायः ॥२०॥

ऋ० १।५३।१०॥

भा०—हे इन्द्र ! (त्वम्) तू (तव ऊतिभिः) अपने रक्षा साधनों से (सुश्रवसम्) उत्तम कीर्ति और अन्न और ज्ञान से सम्पन्न पुरुष को

सदा (आविथ) रक्षा कर । और (तव त्रामभिः) तू अपने त्राण करने वाले सामर्थ्यों से (तूर्वयाणम्) शीघ्रकारी यानों के स्वामी अथवा शीघ्र शत्रु पर चढ़ाई करने वाले जन की भी रक्षा कर । (त्वम्) तू (अस्मै) इस (महे) बड़े भारी (यूने) युवा (राज्ञे) राजा के लिये उसके अधीन (कुत्सम्) निन्दनीय, बुरे और (अतिथिगवम्) पूज्य पुरुषों के आदर करने हारे दोनों प्रकार के (आयुम्) पुरुषों को (अरन्धनायः) वश कर ।

य उदृचान्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम ।

त्वां स्तोपाम त्वया सुवीरा द्राधीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥११॥

ऋ० १ । १२ । ११ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! (ये) जो हम (देवगोपाः) देव, तुम्हारे राजा द्वारा परिपालित अथवा देवों, विद्वानों के समान वाणियों, इन्द्रियों और भूमियों के पालक स्वामी होकर (उदृचि) इस उत्तम भूलोक के विजय कर लेने पर (ते) तेरे (सखायः) मित्र होकर (शिवतमाः असाम) सबसे अधिक कल्याणकारी हों । हम (त्वां स्तोपाम) तेरी स्तुति करें और (त्वया) तेरे साथ हम भी (सुवीराः) उत्तम वीर लेकर (द्राधीयः) अति दीर्घ और (प्रतरम्) अति उत्कृष्ट सकल (आयुः) जीवन को (दधानाः) धारण करने वाले हों ।

‘उदृचि’—अयं लोक ऋग्वेदः ।

॥ इति तृतीयेऽनुवाके प्रथमः पर्वायः ॥

[२२] राजा के कर्तव्य ।

१-२ क्रिशोकः काण्वः । ४-६ प्रियमेषः काण्वः । गायत्र्यः । षट्त्वं सुक्लम् ॥

अभि त्वां वृषभा सुते सुतं संजामि पीतये ।

तृम्पा व्यंशुही मदम् ॥ १ ॥ अ० ८ । ४५ । २२ ॥

भा०—हे (वृषभ) बलवन् ! मेघ के समान निष्पत्त होकर प्रजा पर सुखों के वर्षक ! (अभि सुते) अभिपिक्त हुए तुम्हको (सुतम्) निष्पादित सोम-रस के समान यह राष्ट्र का आनन्दप्रद ऐश्वर्य मैं (संजामि) प्रदान करता हूँ । तू (तृम्प) इसका उपभोग करके तृप्त हो । और (मदम्) हर्षकारी अन्न के समान इसका (वि अशुहि) विविध प्रकारों से भोग कर ।

मा त्वां मूरा अविष्यवो मोषहस्वान्त आ दभन् ।

माकीं ब्रह्मद्विषो वनः ॥ २ ॥ अ० ८ । ४५ । २३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र राजन् ! (त्वा) तुम्हको (मूराः) मूँढ लोग (अविष्यवः) अपनी रक्षा चाहने वाले, या तेरे अधीन स्वयं रक्षा चाहने का बहाना बनाने वाले (मा दभन्) विनाश न करें । और इसी प्रकार (उपहस्वानः) तेरे उपहास करने वाले भी तुम्हें (मा दभन्) विनाश न करें । और (ब्रह्मद्विषः) ब्रह्म, वेद के और वेदज्ञ विद्वान् ब्राह्मणों के द्वेषी लोग भी तुम्हें तेरे ऐश्वर्य का (मा वनः) भोग न करें ।

इह त्वा गोपरीणसा महे मन्दन्तु रात्रसे ।

सरों गौरो यथा पिव ॥ ३ ॥ अ० ८ । ४५ । २४ ॥

भा०—हे इन्द्र ! राजन् ! (इह) इस राष्ट्र में (गोपरीणसा) गो (दुग्ध से मिश्रित, सोम के समान पृथिवी के ऐश्वर्यों सहित, अन्य ऐश्वर्य से (महे रात्रसे) बड़े भारी धनैश्वर्य की प्राप्ति के लिये (त्वा) तुम्हको प्रजा-जन (मन्दन्तु) प्रसन्न और तृप्त करें । (यथा) जिस प्रकार (गौरः) गौर नामक प्यासा मृग (सरः पिवति) तालाब पर पानी पीता है उसी प्रकार तू इस राष्ट्र के ऐश्वर्य रस का (पिव) पान कर, भोग कर ।

अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रंमर्चं यथा विदे ।

सुनुं सत्यस्य सत्पतिम् ॥ ४ ॥ ऋ० ८।१८।४ ॥

भा०—हे पुरुष ! तू (गिरा) अपनी वाणी से (गोपतिम् इन्द्रम्) पृथ्वी के पालक, (सत्यस्य सुनुम्) सत्य व्यवहार के उत्पन्न और (सत्पतिम्) सज्जनों के पालक, (इन्द्रम्) पृथ्वीवान् राजा की ऐसी (अभि मर्चं) स्तुति कर (यथा) जिस प्रकार (विदे) वह सर्वत्र जाना जाय अथवा जिस प्रकार वह स्वयं दिग्मान है ।

आ हरयः ससृजिरेरंपीरधि वहिषि ।

यत्राभि संनवानहे ॥ ५ ॥ ऋ० ८।१८।५ ॥

भा०—यत्र, जिस (वहिषि) महान्, वृद्धिगति राष्ट्र के उच्च राज-पद पर हम तेरी (अभि सं नवानहे) सब प्रकार से स्तुति करते हैं उसी पद पर (अरुषीः) लालचरण, तेजोमय (हरयः) किरणें जिस प्रकार सूर्य के साथ मंगल हैं उसी प्रकार (अधि ससृजिरे) वेगवान् ऊरुदारोहीगण तुम्हसे सुसंगत हों । अथवा—(अरुषीः) विद्या से रोचमान (हरयः) विद्वान् ज्ञानी पुरुष तुम्हें (संसृजिरे) धारण करते और सज्जन करते या सुखिया बनाते हैं ।

इन्द्राय गाव्यं आशिरं दृदुहे वज्रिणे मधु ।

यत् सीमुपहरे विद्वन् ॥ ६ ॥ ऋ० ८।१८।६ ॥

भा०—(गावः आशिरम्) गौवें जिस प्रकार स्वामी के लिये दूध उत्पन्न करती हैं उसी प्रकार (वज्रिणे) वज्रधारी, बलवान् (इन्द्राय) पृथ्वीवान् इन्द्र राजा के लिये (गावः) भूमिमें (मधु) अन्न (दृदुहे) उत्पन्न करती हैं । और (इन्द्राय) विभूतिमान् ज्ञानी जीव के लिये (गावः) वेदवाणियों (आशिरम्) आत्मा के अन्नय देने वाले (मधु) ज्ञानरस का दोहन करती हैं । (यत्) जिसके (सीम्) वह (उपहरे) समीप ही (विद्वन्) प्राप्त होता है ।

[२३] राजा के कर्त्तव्य ।

विधामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । नवर्न सूक्तम् ॥

आ तू नं इन्द्र मद्रथंघुवानः सोमपीतये ।

हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥ १ ॥ ऋ० ३ । १ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! हे (अद्रिवः) वज्रवन् ! (हुवानः) स्मरण किया हुआ, प्रजा द्वारा बुलाया गया (मद्रथक्) मेरे सम्मुख होकर (नः) हमारे (सोमपीतये) राष्ट्र ऐश्वर्य के भोग के लिये (हरिभ्याम्) वेगवान् घोड़ों से, हरणशील उत्साह और पराक्रम से (आयाहि) हमें प्राप्त हों ।

सुत्तो होता न ऋत्वियंस्तिस्तिरे वृद्धिरानुपक् ।

अयुञ्जन् प्रातरद्रयः ॥ २ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! (ऋत्वियः) ऋतु, विशेष काल में यज्ञ करने वाला (होता न) होता, आहुति देने वाला विद्वान् पुरुष जिस प्रकार आसन पर बैठता है उसी प्रकार तू भी (सत्तः) अपने राज्यासन पर यथावसर विराजमान हो । (वृद्धिः) वेदि पर, आसन पर (आनुपक्) जिस राज्यासन या राज्य की प्रजा (तिस्तिरे) विस्तृत हो । (प्रातः) प्रातःकाल सोम-सवन के लिये जिस प्रकार (अद्रयः) पापाण रक्खे हों उसी प्रकार (अद्रयः) न दीर्ण होने वाले वीर क्षत्रिय (अयुञ्जन्) तेरे ही सदा साथ रहें ।

इमा ब्रह्मं ब्रह्मवाहः क्रियन्तु आ वृद्धिः सीद ।

वीहि शूर पुरोलाशम् ॥ ३ ॥

भा०—हे (ब्रह्मवाहः) ब्रह्म-वेद के विद्वान् ब्राह्मणों के ज्ञान-बल से बहन, धारण करने योग्य क्षत्रिय ! तेरे लिये (इमा ब्रह्म) ये वेदानुकूल नाना कर्म (क्रियन्ते) किये जाते हैं । तू (वृद्धिः आ सीद) उच्च आसन

पर विराजमान हो । हे (शूर) शूरवीर ! तू (पुरोलासम्) समस्त स्थित
राष्ट्र रूप 'पुरोडाश' आदरपूर्वक पुरस्कृत ऐश्वर्य को (वीहि) उपभोग कर ।

रारन्धि सवनेषु या एषु स्तोमेषु वृत्रहन् ।

उद्ध्येष्विन्द्र गिर्वणः ॥ ४ ॥

भा०—हे (गिर्वणः) समस्त वेदवाणियों द्वारा स्तुति योग्य प्रभो !
अथवा उनके सेवन करने हारे विद्वन् ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (वृत्रहन्)
शत्रु और विघ्नो के विनाशक ! तू परमपूजनीय (नः) हमारे (एषु) इन (सव-
नेषु) कर्मों में और (स्तोमेषु) ज्ञानों और स्तुतियों में (रारन्धि) रमण कर ।

मत्तयः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पतिम् ।

इन्द्रं वत्सं न मातरः ॥ ५ ॥

भा०—(मातरः) गोमाताएं (वत्सं न) जिस प्रकार अपने बछड़े को
(रिहन्ति) चाटती हैं, (मत्तयः) मननशील पुरुष और उनकी मतिथें
उनकी की हुई स्तुतियें और ज्ञान-धाराएं उसी प्रकार (उरुम्) उस महान्
(शवसस्पतिम्) समस्त बल के पालक स्वामी, सर्वशक्तिमान् (सोमपाम्)
समस्त ऐश्वर्यमय जगत्, या परम आनन्द के पालक एक भोक्ता को
(रिहन्ति) स्पर्श करती हैं, उसी को अपना लक्ष्य करती हैं, उसी का वर्णन
करती हैं, उसी तक पहुंचती हैं ।

राजा के पक्ष में—समस्त (मत्तयः) मतिशील पुरुष भी गाएँ बछड़ों
के समान बलशाली राष्ट्रपति बलवान् राजा को ही छूते, उसी के ऐश्वर्य
का भोग करते हैं ।

स मन्दस्त्रा ह्यन्धसो राधसे तन्वां महे ।

न स्तोतारं निदे करः ॥ ६ ॥

भा०—(सः) वह तू (हि) निश्चय से (महे) बड़े भारी (अन्ध-
सः) अज्ञ के और जीवनोपयोगी भोग्य पदार्थों को (तन्वा) शरीर द्वारा

(राधसे) लाभ करने के लिये (मन्दस्व) सदा तृप्त रह । तू (स्तोता-
रम्) यथार्थ गुणों के उपदेशा ज्ञान प्रवक्ता विद्वान् को (निदे) लोक-निन्दा
का पात्र (न करः) कभी न बनने दे । राजा विद्वानों पर होने वाले
भूल आदि पीड़ा और जन-समाज के रुढीकृत अनादर का पात्र न
होने दे ।

इंश्वरपत्त में—परमात्मा हम पर प्रसन्न हो, हमें शरीर से अन्नादि लाभ
करावे । अपने स्तुतिकर्ता को निन्दा से बचावे ।

व्यमिन्द्र व्वायवो हविष्मन्तो जरामहे ।

उत त्वमस्मयुर्वसो ॥ ७ ॥

भा०—हे इन्द्र ! परमेश्वर ! एवं राजन् ! (वयं व्वायवः) हम तुम्हें
चाहते हुए (हविष्मन्तः) ज्ञान एवं अन्नों से समृद्ध होकर तेरी (जरा-
महे) स्तुति करते हैं । प्रार्थना करते हैं (उत) और हे (वसो) सत्य
में व्यापक और सबको बसानेवाले ! (त्वम्) तू (अस्मयुः) हमें चाहने
वाला है, तू हमें प्रेम कर । तू भङ्गन का भङ्ग तिहारे ।

मारे अस्मद् वि मुमुचो हरिप्रियार्वाङ् याहि ।

इन्द्रं स्वधावो मत्स्वेह ॥ ८ ॥

भा०—हे (हरिप्रिय) हरणशील, ज्ञानशील पुरुषों के प्रिय ! तू (अ-
र्वाङ् याहि) साक्षात् दर्शन दे, हमारे समुच्च हमें प्राप्त हो । (अरे) हे
परमेश्वर प्रभो ! (अस्मद्) हमसे तू (मा विमुमुचः) कभी न छूट, कभी
अपने को दूर न कर । हे (स्वधावः) स्वधा=शरीरों को धारण करने वाले
समष्टिचैतन्य के स्वामिन् ! प्रभो एवं अन्न और बलके स्वामिन् ! अथवा
स्वयं निरपेक्ष होकर समस्त संसार के धारण पोषण करने की शक्ति वाले
अद्वितीय ! तू (इह) हमारे इस हृदय-मन्दिर में एवं राष्ट्र में राजा के
समान (मन्दस्व) आनन्द युक्त हो ।

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! राजन् ! तू (वर्हिष्ठाम्) बहुत राष्ट्र में या प्रजाओं में स्थित (तम्) उस अपूर्व, (मदम्) तृप्तिकारक, सब इच्छाओं के पूर्ण करने वाले, (प्रावभिः) ज्ञानोपदेशक विद्वानों अथवा वजू या शस्त्रों के धारण करने वाले वीर सैनिकों या प्रजाओं द्वारा (सुतम्) उत्पादित, प्राप्त किये राष्ट्र को (आगहि) प्राप्त कर । (अस्य) इस द्वारा तू (कुवित् नु) बहुत अधिक (तृष्णवः) तृप्त होने में समर्थ है । अथवा (अस्य कुवित् नु तृष्णवः) इससे बहुत अधिक लोग तृप्त होते हैं ।

इन्द्रमिथा गिरो ममाच्छांगुरिपिता इतः ।

आवृते सोमपीतये ॥ ३ ॥

भा०—(इथाः) सत्यस्वरूप (मम गिरः) मेरी वाणियों (इतः) इधर प्रजा की ओर से (इपिताः) प्रेरित होकर (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् राजा को (सोमपीतये) ऐश्वर्य का प्राप्त करने और उपभोग करने के लिये (आवृते) उसको सब प्रकार से प्राप्त करने और रक्षा करने के निमित्त अर्थात् प्रजाएं स्वयं राजा को राष्ट्र की रक्षा और उपभोग के लिये (अच्छ अगुः) भली प्रकार प्राप्त होती हैं, निगन्त्रित करती हैं ।

इन्द्रं सोमस्य पीतये स्तोमैरिह इवामहे ।

उक्थेभिः कुविदागमत् ॥ ४ ॥

भा०—(सोमस्य पीतये) सोम-राष्ट्र या अन्न आदि ऐश्वर्य के पान या पालन और उपभोग के लिये (स्तोमेभिः) स्तुति योग्य आदर-वचनों से हम (इह) यहां अपने घरों पर (इवामहे) बुलाते हैं, (उक्थेभिः) उत्तम उपदेशों से ही वह हमें (कुवित्) बहुत धार (आग-मत्) प्राप्त हो ।

इन्द्रसोमाः सुता इमे तान् दधिष्व शतक्रतो ।

जठरं वाजिनीवसो ॥ ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! राजन् ! (इमे) ये नाना प्रकार के (सोमाः) ऐश्वर्य तेरे लिये (सुनाः) उत्पन्न किये हैं । हे (शतक्रतो) सैकड़ों शक्तियों और प्रजाओं से युक्त ! हे (वाजिनीवसो) संग्रामकीरणी सेना को बलवाने वाले ! तू उसके (जठरे) पेट में अन्न के समान उपभोग पूर्वक अपने बश में (दधिपत्र) धारण कर ।

विद्मः हि त्वां धनंजयं वाजेषु दधृषं कवे ।

अथां ते सुम्नर्मांमहे ॥ ६ ॥

भा०—हे इन्द्र राजन् ! हम (त्वा) तुम्हको (वाजेषु) संग्रामों में (धनं-जयम्) शत्रु के धन को जीतने हारा और (दधृषं) शत्रु को परास्त करने हारा (हि) ही (विद्म) जानते हैं । हे (कवे) क्रान्त प्रज्ञ ! दीर्घदर्शिन् ! (अथा) और (ते) तेरे लिये (सुम्नन्) सुख शान्ति की (ईमहे) प्रार्थना करते हैं । अथवा (अथा) और (ते) तेरे (सुम्नन्) सुखकारी ऐश्वर्य को हम भी (ईमहे) चाहते हैं ।

इममिन्द्र गवांशिरं यवांशिरं च नः पिव ।

आगत्या वृषाभिः सुतम् ॥ ७ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् राजन् ! तू (नः) हमारे (गवांशिरम्) गो, पृथ्वी और गौ आदि पशुओं के आश्रय पर प्राप्त होने वाले और (यवांशिरम्) यवादि अन्न और शत्रुओं के नाशक सेना बलों के आश्रय पर विद्यमान (सुतम्) ऐश्वर्यमय राष्ट्र को (वृषाभिः) बलवान् पुरुषों सहित (आगत्य) आकर (पिव) उपभोग कर ।

तुभ्यदिन्द्र स्व श्लोक्येऽसोमं चोदामि पीतये ।

एष रारन्तु ते वृदि ॥ ८ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! (त्वे श्लोक्ये) तेरे अपने ही निवास स्थान में (तुभ्य इत्) तेरे ही लिये हम (पीतये) पान करने, या उप-

भोग करने या स्वीकार करने के लिये (सोमं चोदामि) समस्त राष्ट्र को तुम्हे अर्पण करता हूँ । (एषः) वह (ते) तेरे (हृदि) हृदय में पिय शीतल जल के समान (रारन्तु) तुम्हे वृत्त करे ।

त्वां सुतस्य पीतये प्रत्नमिन्द्र हवामहे ।

कुशिकासो अवस्यवः ॥ ६ ॥

भा०—(सुतस्य पीतये) ऐश्वर्यों के प्राप्त करने के लिये (त्वां प्रत्नम्) पुरातन, पूजनीय तुम्हको हम (अवस्यवः) अपनी रक्षा के इच्छुक (कुशिकासः) धनों के स्वामी, सर्दार लोग (हवामहे) बुलाते हैं ।

‘कुशिकासः’—कुशिको राजा वभूवा क्रोपतेः शब्दकर्मणः क्रशतेर्वास्यात् प्रकाशयति कर्मणः । साधु विकोशयिताऽर्थानाम् इति वा । निरु ० २ । २५ ॥ वाग्मी, ऐश्वर्यवान् धनी, और तेजस्वी ज्ञानी पुरुष ‘कुशिक’ कहाते हैं ।

[२५] राजा का कर्तव्य ।

१-६ गोतमो राहूगण ऋषिः । ७ अष्टको वैश्वामित्रः । १-६ जगत्यः । ७ त्रिष्टुप् षड्वं सूक्तम् ॥

अश्वावति प्रथमो गोपुं गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभिः ।
तमित् पृणंति विसुना भवीयसा सिन्धुमाणे यथाभितो विचेतसः १

अ० १ । ८३ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! (तव ऊतिभिः) तेरी रक्षाओं से, तेरे प्रस्तुत किये रक्षा साधनों से (सु-प्रावीः) स्वयं भी उत्तम रीति से समस्त उत्कृष्ट पदार्थों की रक्षा करने में समर्थ होकर (मर्त्यः) मनुष्य (अश्वा-वंति) घोड़ों से युक्त संग्राम में (प्रथमः) सबसे प्रथम अग्रगण्य होजाता है, और (गोपु) गौ आदि पशुओं पर भी वह (प्रथमः) उत्कृष्ट स्वामी हो जाता है । (विचेतसः) विविध ज्ञानों से युक्त पुरुष (त्वा अभितः)

तुम्हें ही इस प्रकार प्राप्त होते हैं (यथा) जैसे (आपः) जलधाराएं (सिन्धुम्) समुद्र को प्राप्त होती हैं । तू (तन् इव) उस पुरुष को ही (भवीयसा वसुना) प्रभूत धनैश्वर्यसे (पृणच्छि) संशुद्ध करता है जो तेरी शरण आता है ।

आपो न देवीरूपं यन्ति होत्रियंभवः पश्यन्ति वितंतं यथा रजः ।

प्राचैर्देवासः प्र ण्यन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वरा इव ॥२॥

ऋ० १। ८३। १ ॥

भा०—(देवीः आपः) देव अर्थात् मेघ से उत्पन्न जल जिस प्रकार नीचे प्रदेश की ओर आपसे आप बह आते हैं इसी प्रकार (होत्रियम्) सबको अपने अधीन लेने में समर्थ, एवं सबको रक्षा देने में समर्थ तुम्हें (देवीः आपः) दानशील, दर्शनशील आपस प्रजाएं (उपयन्ति) प्राप्त होते हैं । और (यथा रजः) जैसे आकाश में फैली धूलि को या जिस प्रकार आकाश में सूर्य के फैले प्रकाश को लोग देखते हैं उसी प्रकार लोग तेरी (वितंतं भवः) विस्तृत रक्षण सामर्थ्य को भी (पश्यन्ति) देखते हैं । (देवासः) विद्वान् वीर पुरुष (देवयुम्) विद्वानों के प्यारे तुम्हें (प्राचैः) उत्कृष्ट पदपर (प्रण्यन्ति) प्राप्त कराते हैं । (वरा इव) वर के सम्बन्धी जिस प्रकार अपने प्रिय वर को प्रीति से देखते हैं इसी प्रकार (ब्रह्मप्रियम्) वेद और वेदज्ञ विद्वानों के प्यारे तुम्हें (वराः) समस्त श्रेष्ठ पुण्य (जोषयन्ते) प्रेम से चाहते हैं ।

अग्निं द्वयोरदथा उक्थ्यं च चो वृतस्तुंचा मिथुना या संपर्यतः ।

असंयत्तो वृते तं ज्ञेति पुष्याति भद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वृते ॥३॥

भा०—हे इन्द्र ! राजन् ! परमेश्वर ! (यतस्तुंचा) वीर्य की रक्षा करने वाले अथवा अपने प्राणों की रक्षा करने वाले, (या) जो (मिथुना) स्त्री पुरुष तेरी (संपर्यतः) पूजा सकार करते हैं तू (द्वयोः अग्नि) उन दोनों

को (उक्थ्यम्) उपदेश करने योग्य ज्ञानमय (वचः) आज्ञा-वचन (अदधाः) प्रदान करता है । (ते व्रते) तेरे नियम व्यवस्था में (असं-
-यत्तः) नियम से न रहने वाला, अजितेन्द्रिय पुरुष (चेति) विनाश को
प्राप्त होता है । (सुन्वते यजमानाय) तेरी आज्ञा पालन करने वाले, तेरे
प्रति कर-प्रदान या मनोयोग देने वाले या तेरी उपासना, पूजा करने वाले
पुरुष की (भद्रा) सुखदायिनी कल्याणी (शक्तिः) शक्ति (पुष्यति)
पुष्ट होती है ।

आदङ्गिराः प्रथमं दधिरे वयं इद्धाग्रयः शम्या ये सुकृत्यया ।

सर्वे पण्येः समन्विन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशुं नरः ॥५॥

भा०—मनुष्य जिस प्रकार (शम्या) शमी वृक्ष की लकड़ी से (इद्धा-
-ग्रयः) अग्नि प्रदीप्त करते हैं उसी प्रकार (ये) जो (सुकृत्यया) अपनी
उत्तम धर्मानुकूल क्रिया या आचरण द्वारा (इद्धाग्रयः) अपने अग्निहोत्रादि
की अग्नियों और नेताओं को प्रज्वलित करते हैं वे (अंगिराः) ज्ञानवान् पुरुष
(प्रथमम्) सबसे उत्कृष्ट (वयः) अन्न ज्ञान और बल को (दधिरे)
धारण करते हैं । वेही लोग (पण्येः) व्यवहारशील लोगों के लिये (सर्व
भोजनम्) समस्त भोगों को (सम् अविन्दन्त) प्राप्त करते हैं वे (नरः)
पुरुष ही (अश्वावन्तं गोमन्तं पशुम्) घोड़ों और गौओं से समृद्ध पशु
धन को भी (सम् अविन्दन्त) प्राप्त करते हैं ।

यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यां व्रतपा येन आजनि ।

आ गा आजद्गुशना काव्यः सैचां यमस्य जातमसृतं यजामहे ॥५॥

भा०—(अथर्वा) प्रजाओं का अहिंसक, पालक, प्रजापति, राजा
(प्रथमः) सबसे श्रेष्ठ होकर (यज्ञैः) परस्पर संगतिकारक, श्रेष्ठ उपायों
से (पथः) नाना उत्तम मार्गों को (तते) विस्तृत करता है । (तंतं)
तब वह (सूर्यः) सूर्य के समान तेजस्वी (व्रतपाः) समस्त उत्तम

नियमों का पालक (वेतः) कान्तिमान् (ज्ञा. सजनि) होजाता है।
 (उशनाः) वही कान्तिमान् (काव्यः) अन्तर्दर्शी ज्ञानी (गाः) गौश्रों
 के समान गोपाल के नाई रश्मियों को सूर्य के समान, बाणियों को कवि
 के समान, स्त्रियों को अमिलपित युवा के समान वह (गाः) गन्तव्य
 या प्राप्त होने वाली प्रजाओं को (ज्ञा. सजत्) उत्तम मार्ग पर चलाता
 है। और तमी (यनस्य) उस नियन्ता राजा के (जातन्) उत्पन्न हुए
 (अमृतन्) अमृत स्वरूप राष्ट्र सुख को (सत्वा) हम सब एक साथ ही
 या अन्न को (यजामहे) प्राप्त करें।

वृहिर्वा यत् स्वंप्रत्याय वृज्यतेर्को वा श्लोकमाधोपते द्विवि ।

प्राचा यत्र वदति कारुण्यस्तस्येदिन्द्रा अभिषिष्वेषु रर्यति॥दि

भा०—(यत्) जिस राज्य में, जिस देश में (वृहिः वा) धान्य
 (स्वंप्रत्याय) उत्तम सन्तानों की पुष्टि के लिये (वृज्यते) प्रदान किया
 जाता है (वा) और जहां (अर्कः) अर्चना करने वाला या पूज्य विद्वान्
 (द्विवि) प्रतिदिन, या ज्ञानप्रकाश के लिये (श्लोक) वेदवाणी को
 (आधोपते) पाठ या प्रचार करता है, (यत्र) और जिस स्थान पर
 (कारुः) क्रियावान् (उच्यः) वेदों के सूक्त जानने हारा (प्राचा) ज्ञानो-
 पदेशक विद्वेकी पुरूप (वदति) धर्म का निर्णय करता है (तस इत्)
 उसके ही (अभिषिष्वेषु) प्राप्त करने के प्रयत्नों में (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्
 पुरूप भी (रर्यति) सुखी होता है, या रर्य आदि करता है।

गोप्रां पीति वृष्णं इयमिं सत्यां प्रयै सुतस्यं हयंश्च तुभ्यम् ।

इन्द्र धेनांभिरिह मांद्र्यस्व धीभिर्विभ्वाभिः शच्या गृणानः ॥७॥

भा०—(वृष्णः) समस्त सुखों के वर्षक और दलवान् इन्द्र की
 (उग्रान्) उग्र, मयद्राघिनी (पीतिन्) आदानशक्ति और पालन शक्ति
 से, हे (हयंश्च) वेगवान् घोड़े से पुरु राजन्! तुम्हें (सुतस्य प्रयै)

सुसम्पन्न राष्ट्र के प्राप्त करने के लिये (प्र इयमि) भली प्रकार प्रेरणा करता हूँ । हे (इन्द्र) इन्द्र ! राजन् ! तू (इह) यहां, इस राष्ट्र में (धेनाभिः) परम सुखपूर्वक पान करने योग्य या सबको रस देने वाली गौश्रों से, वेदवाणियों से और (विश्वाभिः धीभिः) समस्त कार्य और बुद्धियों से और (शच्या) महती शक्ति के द्वारा (गृणानः) सबको सत्वोपदेश देने द्वारा होकर तू (मादयस्व) सबको तृप्त एवं प्रसन्न कर ।

॥ इति तृतीयोऽनुवाके द्वितीयः पर्यायः ॥

[२६] राजा और ईश्वर का वार्णन

१-३ शुनःशेषः ४-६ मधुच्छन्दाः ऋषिः । इन्द्रो देवता । १६ गायत्र्यः ।

पठ्यं सूक्तम् ॥

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे ।

संखाय इन्द्रंभूतये ॥ १ ॥

भा०—(योगे योगे) प्रत्येक संग्राम में (तवस्तरम्) अति बलवान् और (वाजे वाजे) प्रत्येक बल के कार्यों में हम (संखायः) मित्र राजा-गण (ऊतये) रक्षा के लिये (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् महान् राजा को (हवामहे) पुकारते हैं ।

परमेश्वर के पक्ष में—(योगे योगे) प्रत्येक योग समाधि में और (वाजे वाजे) प्रत्येक ज्ञानकर्म में हम अपनी रक्षा के लिये परमात्मा की प्रार्थना करें ।

आ घां गमद् यदि श्रवत्सहस्रिणाभिरुतिभिः ।

वाजेभिरुपं नो हवाम् ॥ २ ॥

भा०—वह इन्द्र, राजा (यदि श्रवत्) यदि हमारी प्रार्थना सुनले तो (य) वह निश्चय से अत्रशय (सहस्रिणाभिः) सहस्रों पुरुषों को

अपने साथ लाने वाली (ऊतिभिः) रक्षाकारी सेनाओं के साथ (आगमत्) आ जाय । और (चोजेभिः) अपने समस्त वीर्यों और अज्ञों सहित (नः) हमारे (हवद्) यज्ञ या संग्राम के स्थल में (उप आगमत्) प्राप्त हो ।

अनुं प्रत्नस्यौकंसो हुवे तुविप्रति नरम् ।

यं ते पूर्व पिता हुवे ॥ ३ ॥

भा०—(प्रत्नस्य औकंसः) परम पुरातन, सदातन के स्थान भूप्रदेश पद के (नरम्) सेनानायक (तुविप्रतिम्) बहुतसे शत्रुओं के सुकाबला करने में समर्थ (यं) जिस (त्वा) तुम्हको (पिता) मेरा पालक पिता, आदि पूर्व पुरुष भी (हुवे) बुलाता रहा है उनी सेनापति को मैं भी (अनुहुवे) अपनी सहायता के लिये याद करता हूँ ।

युञ्जन्ति ब्रध्नमरूपं चरन्तं परि तस्थुपः ।

रोचन्ते रोचना द्विवि ॥ ४ ॥

भा०—विद्वान् पुरुष (ब्रध्नम्) समस्त राष्ट्र को उत्तम व्यवस्था में बांधने वाला, (अरुपम्) अग्नि के समान देदीप्यमान्, (तस्थुपः) वृक्ष पर्वतादि स्थित पदार्थों के ऊपर (चरन्तम्) वायु के समान बलपूर्वक विचरण करने वाले पुरुष को राजपद पर (युञ्जन्ति) नियुक्त करते हैं । (द्विवि) उसके विजयोद्योग एवं विजय कार्य या स्वर्ग के समान उत्तम राज्य में (रोचना) नक्षत्रों के समान तेजस्वी का प्रजागण (रोचन्ते) आनन्द प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं ।

युञ्जन्त्यम्य काम्या हरी विपक्षला रथे ।

शोणां धूपू नृवाहसा ॥ ५ ॥

भा०—विद्वान् लोग (अत्य) इसके (रथे) रमण करने योग्य राष्ट्र में रथ के समान (विपक्षला) विविध पक्षों या मन्तव्यों को स्वी-

कार करने वाले (काम्या) कान्तिमान् तेजस्वी (हरी) उभयपक्ष के दो ऐसे प्रमुख नेता विद्वानों को (युञ्जन्ति) नियुक्त करें जो (शोणा) वेगवान्, तीव्र बुद्धिमान् (घृणू) पर-पक्ष को धर्षण करने में समर्थ और (नृवाहसा) अन्य विद्वान् पुरुषों को अपने पीछे चलाने में समर्थ हों । वे दोनों विवादों, विचारणीय विषयों का निर्णय करके राष्ट्र का संचालन करें । इसके अतिरिक्त युद्ध में दोनों वाजू पर दो प्रधान सेनानायकों को रथ में अश्वों के समान नियुक्त किया जाय जो दोनों वाजू के पंखों (Wings) को संभालें ।

केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे ।

समुपद्भिरजायथाः ॥ ६ ॥

भा०—हे (मर्याः) मनुष्यो ! (अकेतवे) अज्ञानी पुरुष को (केतुम् कृण्वन्) ज्ञान देता है और (अपेशसे) धनरहित पुरुष को (पेशः कृण्वन्) धन प्रदान करता है । हे इन्द्र ! (उपद्भिः) उपाकालों से प्रकाशित सूर्य के समान (उपद्भिः) दाह करने वाले शत्रुसंतापक वीर पुरुषों के साथ (समुपजायथाः) परम शत्रु संतापक होकर प्रकट होता है ।

[२७] धनाढ्यों के प्रति राजा का कर्तव्य ।

गोपूत्तयश्वसकिना वृषी । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । षडृचं सूक्तम् ॥

यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत् ।

स्तोता मे गोपस्वा स्यात् ॥ १ ॥ अ० ८ । १४ । १ ॥

भा०—हे इन्द्र ! राजन् ! (यथा त्वम्) तेरे समान (यत् इत्) जब जब भी (अहम्) मैं (वस्वः) ऐश्वर्य का (एक इत्) एक मात्र (ईशीय) स्वामी होऊँ तब २ (गोपस्वा) समस्त पृथ्वी का मित्र अथवा ज्ञानवाणी का विद्वान् पुरुष ही (मे स्तोता स्यात्) मुझे उपदेश करने एवं अर्थ प्रवचन करने वाला होवे ।

शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणे-।

यद्दहं गोपतिः स्याम् ॥ २ ॥

भा०—(यद्) जब मैं (गोपतिः स्याम्) भूमियों और गौवों का स्वामी होजाऊं तो (अस्मै) मैं इस प्रत्यय में मेरे पास आये (मनीषिणे) बुद्धिमान् विद्वान् पुरुष को (शिक्षेयम्) इसकी इच्छानुसार धन दूँ। और हे (शचीपते) शक्ति के स्वामिन् ! (अस्मै दित्सेयम्) और इसको मैं भी धन देने की इच्छा करूँ। और स्वयं धनाढ्य सम्पन्न होकर मनुष्य विद्वानों को दान करे और स्वयं भी दान देने की इच्छा करे।

धेनुयं इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते ।

गामश्वं पिप्युषीं दुहे ॥३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (सुन्वते यजमानाय) यज्ञ करने वाले दानशील एवं ईश्वरोपासना करने वाले पुरुष के लिये अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले पुरुष के लिये (ते) तेरी (सूनृता) उत्तम, सत्यमयी वारी ही (धेनुः) कानधेनु के समान (पिप्युषी) पुष्ट करनेहारी होकर (गाम् अश्वम्) नाना गौ, भूमि और अश्व आदि धन को भी (दुहे) प्रदान करती है।

न ते वर्तास्ति राधस इन्द्रं देवो न मर्त्यः ।

यद् दित्ससि स्तुतो मधम् ॥ ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यत्) जो तू (स्तुतः) स्तुति किया जाकर (मधम्) ऐश्वर्य (दित्ससि) प्रदान करने चाहता है, अतः (ते) तेरे (राधसः) ऐश्वर्य का या कार्य साधन के उपाय का कोई (देवः) विद्वान् पुरुष या राजा योद्धा भी (वर्ता) बाधक (न) नहीं है और (न मर्त्यः) न कोई मनुष्य ही तेरा दाधक है।

यज्ञ इन्द्रमवर्धयद् यद् भूमिं व्यवर्तयत् ।

चक्राण ओपशं दिवि ॥५॥

भा०—(यज्ञः) यज्ञ, परस्पर का संग या व्यवस्थित राष्ट्र (इन्द्रम्) इन्द्र को (अवर्धयत्) बढ़ाता है, (यद्) जब वह और (दिवि) ज्ञानपूर्वक व्यवहार या राजसभा में (ओपशं) सब प्रकार से स्थिति (चक्राणः) करता हुआ (भूमिम्) भूमि को (वि-अवर्तयत्) विविध उपायों से काम में लाता है ।

आविभौतिक में—(यत्) जब (यज्ञः इन्द्रम् अवर्धयत्) यज्ञ इन्द्र की जलप्रद शक्ति की वृद्धि करता है (दिवि ओपशं) आकाश में विद्यमान मेघ को (चक्राणः) उत्पन्न करता हुआ उसको (भूमिं व्यवर्तयत्) भूमि पर ढालता है ।

वावृधानस्य ते वृथं विश्वा धनानि जिग्युषः ।

ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥६॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र पेश्वर्यवन् ! (विश्वा) समस्त (धनानि) धनों को (जिग्युषः) विजय करनेहारे और (वावृधानस्य) नित्य वृद्धिशालि तेरी (ऊतिम्) रक्षा की हम (वृणीमहे) प्रार्थना, याचना करते हैं ।

[२८] राजा का कर्त्तव्य ।

गोसूक्तवद्वक्त्रिणा वृषी । १, २ गायत्र्यौ । ३, ४ त्रिष्टुभौ । चतुर्ध्वं सक्तम् ॥

अन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना ।

इन्द्रो यदभिनद् वलम् ॥ १ ॥

भा०—(इन्द्रः) तीव्र वायु (यत्) जब (वलम्) आकाश को धरने वाले मेघ को (अभिनत्) छिन्न भिन्न करता है उस समय वह (रोचनम्) प्रकाशित (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष भाग को (सोमस्य मदे)

सोम, सूर्य के बल से (वि अतिरत्) वितृत करता, बढ़ा देता है । उसी प्रकार (इन्द्रः) राजा (यद्) जब (बलम्) राष्ट्र को घेरने वाले शत्रु को (अभिनत्) तोड़ डालता है तब (सोमस्य) राष्ट्र के पेशव्य के (नदं) बल से (रोचना अन्तरिक्षम्) खचकर, बीच में विद्यमान देश को भी (वि अतिरत्) विशेष रूप से वितृत कर देता है ।

उद्गा आग्निदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन् गुहां सतीः ।

अर्वाञ्चं नुमुदे बलम् ॥ २ ॥

भा०—राजा इन्द्र (वलम्) राष्ट्र के घेरने वाले को (अर्वाञ्चं नुमुदे) नीचे गिरा देता है । (गुहाः सतीः) गुप्त स्थान में छुपी हुई (गाः आविः कृण्वन्) गौ और भूमियों को प्रकट करता हुआ (अंगिरोभ्यः) विद्वान्, तेजस्वी पुरुषों को (उव आजत्) प्रदान करता है । परमेश्वर (वलम्) अन्तःकरण के आवरक तमस् को दूर करके (गुहा) हृदय गुहा में छुपी (गाः) ज्ञानरश्मियों या वेदवाणियों को (अंगिरोभ्यः) ज्ञानी पुरुषों के लिये (आविः कृण्वन्) प्रकट करता हुआ उनको प्रदान करता है । वायु मेघ को दूर करता है आकाश में फैली रश्मियों को प्रकट करके मनुष्यों के लिये प्रदान करता है ।

इन्द्रेण रोचना दिवो दृहानि दृहितानि च ।

स्थिराणि न पराणुदे ॥ ३ ॥

भा०—(इन्द्रेण) इन्द्र परमेश्वर ने ही (दिवः) आकाश के (रोचना) कान्तिमान्, उज्वल पिण्ड, ग्रह, नक्षत्र आदि (दृहानि) दृढ़ रूप से (दृहितानि) स्थिर कर दिये हैं । वे सब मानो (न परानुदे) फिर कभी नष्ट अथ न होने के लिये ही (स्थिराणि) स्थिर किये हुए हैं ।

राजा के पक्ष में—(दिवः रोचना) आनन्दप्रद, सुन्नकारी समृद्ध राष्ट्र के सभी दीक्षि युक्त नग्य स्थान राजा द्वारा (दृहानि दृहितानि) दृढ़,

पक्के रूप से बनवाये जाते हैं । मानो उनको (न पराणुदे) न टूटने, फूटने के लिये स्थिर किया जाता है ।

अपामूर्मिर्मदञ्चिच्च स्तोमं इन्द्राजिरायते ।

त्रि ते मदा अराजिपुः ॥४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! (स्तोमः) तेरी स्तुतियों का समूह (अपाम् ऊर्मिः इव) समुद्र के तरङ्ग के समान (मदन् इव) मानों हर्ष से तरङ्गित सा होकर (अजिरायते) बड़े वेग से उमड़ा सा पड़ता है । (ते मदाः) तेरे आनन्द, प्रमोद और उत्साह के कार्य (वि अराजिपुः) विविधरूपों में विराजते दीख रहे हैं ।

[२२]

अध्यादयः पूर्ववत् । गायत्र्यः । पञ्चच सक्तम् ॥

त्वं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्तुक्थवर्धनः ।

स्तोतृणामुत भद्रकृत् ॥१॥ अ० ८ । १४ । ११

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! प्रभो ! (त्वं हि) तू निश्चय से (स्तोमवर्धनः) प्रजा समूहों को बढ़ाने वाला, अथवा स्तुति समूहों से हृदय में वृद्धि को प्राप्त होने वाला है । और तू (उक्थवर्धनः असि) प्रशंसनीय गुणों को बढ़ाने वाला एवं उक्थ=वेद सूक्तों से जानने योग्य है । (उत) और (स्तोतृणाम्) स्तुतिकर्त्ता एवं यथार्थ प्रवक्ता विद्वानों का (भद्रकृत्) कल्याणकारी भी है ।

इन्द्रमित् केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः ।

उप यक्षं सुराग्रसम् ॥२॥

भा०—(केशिना हरी) केशों वाले घोड़े (सुराग्रसम्) उत्तम ऐश्वर्य से युक्त (यज्ञं उप) सुख्यवस्थित राष्ट्र को (सोमपेयाय) ऐश्वर्य के भोग प्राप्त कराने के लिये (इन्द्रम् इत्) इन्द्र को ही (उपवक्षतः) प्राप्त कराते हैं ।

केशिना हरी—अध्यात्म में—प्राण और उदान । परमेश्वर पक्ष में सबीज, निर्बीज योग मार्ग । सोम-अध्यात्म में ब्रह्मानन्दरस । इन्द्र=जीव ।

अपां फेनेन नमुचेः शिरं इन्द्रोऽवर्तयः ।

त्रिश्वा यद्रजय स्पृधः ॥३॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! ऐश्वर्यवन् ! (यत्) जब (विश्वाः स्पृधः) समस्त शत्रु सेनाओं को (अजयः) विजय करो तब (नमुचेः शिरः) जीता न छोड़ने लायक या पीछा न छोड़ने वाले शत्रु के (शिरः) शिर या मुख्य या आश्रयस्थान को (अपाम् फेनेन) जलों के घनाभूत, एवं बलवान् शोधसे जैसे नमुचि अर्थात् जलों को मुक्त न होने देने वाले बांध का (शिरः) सिरा टूट जाता है उसी प्रकार उस शत्रु के (शिरः) मुख्य बल को (अपां फेनेन) प्रजाओं के समूहित संघ बल से या बड़े हुए सेनाबल से (उद् अवर्तयः) उखाड़ दे । अध्यात्म में—नमुचिः पाप्मा । श० २ । ७ । ३ । ४ । अपां फेनः धियां कर्मणां च प्रवृद्धम् बलम् ।

फेनः—फेनमीनाविति उणादि निपातनम् । स्फ्यायते वर्धते स फेनः ।

उणा० ३ । ३ ॥

मायाभिरुत्सिसृप्सत इन्द्र द्यामरुरुक्षतः ।

अत्र दस्यूरधूनुथाः ॥४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् राजन् ! (मायाभिः) नाना निर्माण कौशलों से (उत्सिसृप्सतः) ऊपर आ चढ़ने की इच्छा करने वाले और (द्याम् आरुरुक्षतः) आकाश में चढ़ने वाले (दस्यून्) नाशकारी शत्रुओं को भी तू (मायाभिः) नाना विज्ञान कौशलों से (अत्र अधूनुथाः) नीचे गिरा डाल ।

असुन्वामिन्द्र सुसदं विपूर्त्वा व्य/नाशयः ।

सोमपा उत्तरो भवन् ॥५॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! राजन् ! त् (सोमपाः) राष्ट्र का पालक (उत्तरः) शत्रु के बल से अधिक बलवान् (भवन्) होकर (अनुत्ताम्) कर प्रदान न करने वाली (संसदम्) संस्था को (विपूची) छिन्न भिन्न करके (वि अनाशयः) विनष्ट कर ।

[३०] राजा के कर्तव्य ।

प्र ते महे विद्वथं शंसिपं हरी प्र ते वन्वे वनुषो हर्यतं मदम् ।
घृतं न यो हरिभिश्चारु सेचंत आ त्वा विशन्तु हरिर्वपसं गिरः ॥१॥

अ० २० । ७६ । १ H

भा०—(महे) बड़े भारी (विद्वथे) संग्राम के अवसर पर हे राजन् ! (ते हरी) तेरे हरणशील वेगवान् अश्वों की और उत्साह और पराक्रम की (प्रशंसिपम्) मैं प्रशंसा करूँ । और (वनुषः) शत्रु के नाशकारी (ते) तेरे (हर्यतं) कमनीय, सुन्दर (मदम्) आनन्द उत्सव का (प्रवन्वे) अच्छी प्रकार आनन्द ल्हाभ करूँ । (पः) जो (हरिभिः) ज्ञानवान् पुरुषों के साथ आकर (घृतं न) मेघ जिस प्रकार तीव्र वायुओं सहित आकर जल बरसाता है उसी प्रकार जल के समान शान्तिप्रद एवं घृत के समान पुष्टिप्रद अन्न आदि (चारु) नाना सुन्दर भोग्य पदार्थ (आ सेचते) प्रदान करता है । (हरिर्वपसम्) हरिस्वरूप, सुन्दर कमनीय रूप शोभा से युक्त (त्वा) तुम्हें (गिरः) समस्त स्तुतियाँ (आ विशन्तु) प्राप्त हों ।

हरिं हि योनिमभि ये समस्वरन् हिन्वन्तो हरीं दिव्यं यथा सदः ।
आ यं पृणन्ति हरिभिर्न ध्रेनव इन्द्राय शूपं हरिवन्तमर्चत ॥२॥

भा०—(ये) जो विद्वान् (योनिम्) सबके आश्रयभूत (हरिम्) सबके दुःखों को हरण करने वाले या शत्रु को मार भगाने वाले, शूरवीर

को (दिव्यं सदः यथा) दिव्य आश्रय गृह के समान (हरी हिन्वन्तः)
 उसके अश्रवों के समान उत्साह और बल को बढ़ाते हुए (सम् अस्वरन्)
 उसकी स्तुति करते हैं और (धेनवः) गौएं जिस प्रकार दुग्धों से अपने
 स्वामी को तृप्त करती हैं उसी प्रकार (यं) जिस इन्द्र को वे विद्वान् पुरुष
 (हरिभिः) मनोहर पदार्थों और वेगवान् सैनिकों से (आपृणन्ति) सब तरह
 पुष्ट और पालन करते हैं (इन्द्राय) इन्द्र राजा के उस (हरिवन्तम्) सैनिकों
 से युद्ध (शूषम्) बलवान् शत्रुओं के शोषक बल को आप लोग भी
 (अर्चत) बढ़ाओ ।

सो अस्य वज्रो हरितो य आयसो हरिर्निकामो हरिरा गमस्त्योः ।
 घृन्ती सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे निरूपा हरिता मिमिक्षिरे ॥३॥

भा०—(अस्य) इस इन्द्र, राजा का (यः) जो (आयसः) लोहे
 का बना हुआ (हरितः) नीला (वज्रः) खड्ग है (सः) वही (निकामः)
 सर्वथा मनोहर (हरिः) वह शत्रुओं के प्राणहर होने से 'हरि' कहे जाने योग्य
 है । तू भी हे इन्द्र (हरिः) शूरवीर, वेगवान् तू (गमस्त्योः) अपने हाथों
 में (आ) उसको लेता है । और इस राजा का (हरिमन्युसायकः) शत्रु
 के मद हरण करने वाला 'मन्यु' रूप वाण भी (घृन्ती) अति तेजस्वी
 और (सुशिप्रः) उत्तम वेग वाला है । (इन्द्रे) इन्द्र के आश्रय ही
 (हरिता रूपा) शत्रु नाशक नाना पदार्थ भी (वि मिमिक्षिरे) सर्व प्रकार
 से बनाते हैं ।

दिवि न केतुरधि धायि हर्यतो विव्यच्छद् वज्रो हरितो न रंक्षां ।
 तुददहि हरिशिप्रो य आयसः सुदक्षशोका अभवद्धारिभ्रः ॥४॥

भा०—(दिवि) आकाश में (केतुः न) ज्ञापक चिह्न, ध्वजा के
 समान वह (हर्यतः) सुन्दर, कान्तिमान राजा (अधि धायि) सबके
 ऊपर अधिष्ठाता रूप में स्थिर किया जाता है । (वज्रः) वज्र, खड्ग

(रंहा) बड़े वेग से (हरितः न) सूर्य के समान (विव्यचत्) विविध दिशाओं में फैलाता है । (यः) जो (आयसः) लोहे का घना हुआ (हरि शिप्रः) इन्द्र का बल स्वरूप (अहिम्) सर्प के समान कुटिल पुरुष को (तुद्द्) व्यथित करता हुआ (हरिम्भरः) हरणशील वीरपुरुष को पुष्ट करने वाला (सहस्रशोकाः) सहस्रों को संतापकारी एवं सहस्रों दीक्षियों से युक्त (अभवत्) होजाता है ।

त्वंत्वंमहर्षया उपस्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्वभिः ।

त्वं हर्षसि तत्र विश्वमुक्थ्यमसामि रात्रौ हरिजात हर्षतम् ॥५

भा०—हे (हरिकेश) रश्मि, रूप केशों से युक्त, सूर्य के समान तेजस्विन् ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! राजन् ! (पूर्वेभिः) पूर्व के (यज्वभिः) युद्ध यज्ञ के करने वाले शूरवीर एवं देवोपासक विद्वान् पुरुषों से (उपस्तुतः) स्तुति किया जाकर (त्वं त्वम्) तू ही तू (अहर्षथाः) सर्वत्र दिखाई देता है । (त्वं हर्षसि) तू सबको प्रीतिकर है । हे (हरिजात) वेगवान् वीर पुरुषों में भी सर्व प्रसिद्ध (विश्वम् उक्थ्यम्) समस्त प्रशंसनीय (हर्षतम्) कान्तिमान् रुचिकर (असामि) सम्पूर्ण (राघः) ऐश्वर्य (तत्र) तेरा ही है ।

ईश्वर पक्ष में—हे (हरिकेश) सूर्य के समान तेजस्विन् ! पूर्व के विद्वानों से स्तुति किया जाकर तू ही तू सर्वत्र दिखाई देता है । यह समस्त ऐश्वर्य भी तेरा ही है ।

[३१] राजा के कर्तव्य

बलः सर्वहरिर्वापेन्द्र अपिः । हरिस्तुतिर्देवता । जगत्पुत्रः । पञ्चर्च सूक्तम् ॥

ता वृज्जिणं मन्दिनं स्तोम्यं मट इन्द्रं रथं वहतो हर्षता हरी ।

पुरूरयस्मै सर्वनाति हर्षत इन्द्राय सोमा हरयो दधन्विरे ॥१॥

भा०—(ता) वे दोनों (हर्यता) कमनीय, कान्तियुक्त, उत्तम गुणवान् (हरी) हरणशील, अश्वों के समान नियुक्त, उत्साह और पराक्रम एवं दो प्रधान पुरुष (वज्रिणं) वज्र को धारण करने वाले (मन्दिनं) अति प्रसन्न एवं अन्वियों को सन्तुष्ट रखने वाले (स्तोम्यं) स्तुतियोग्य (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् राजा को (रथे) रथ के समान रमण साधन इस राष्ट्र में (मदे) आनन्द लाभ के लिये (वहतः) धारण करते हैं । (असैम) इस (हर्यते) कमनीय गुणों से युक्त (इन्द्राय) परमऐश्वर्य युक्त राजा को (सोमाः हरयः) सौम्य गुण वाले, उत्तम पुरुष, या अधीनस्थ माण्डलिक जन (पुरुषिण) बहुत से (सवनानि) ऐश्वर्य (दधन्विरे) प्रदान करते हैं ।

अध्यात्म में—हरयः प्राणाः । रथे देहे । सवनानि बलानि । हरी प्राणापानौ ।

अरं कामाय हरयो दधन्विरे स्थिरायं द्विन्वन् हरयो हरीं तुरा ।
अर्वद्विः हरिभिर्जोपमीयते सो अस्य कामं हरिवन्तमानशे ॥२॥

श्र० १० । ७६ । ७॥

भा०—(हरयः) वीर राजगण (कामाय) कमनीय राजा के लिये (अरं) अति अधिक, पराप्त (सवनानि दधन्विरे) ऐश्वर्यों को लाकर देते हैं । और (हरयः) वे वीर जन ही (स्थिराय) उस स्थिरता से विद्यमान सुदृढ़ सत्राट् के (तुरा हरी) वेगवान् अश्वों और उत्साह पराक्रम को भी (द्विन्वन्) युद्ध में और भी उत्तेजित करते हैं । (यः) जो (अर्वद्विः) अश्वों, घुड़ सवारों और (हरिभिः) वीर योद्धाओं से (जोपम्) तुष्टि को (ईयते) प्राप्त होता है । (सः) वह इन्द्र ही (अस्य) इस राष्ट्र के (हरिवन्तम्) वीर योद्धाओं से सुसज्जित, (कामम्) सुन्दर, अभिलाषा करने योग्य राजपद को (आनशे) भोग करता है ।

अध्यात्म में—कामाय—जीवाय । जोषम्—परमानन्दः । हरिवन्तं कामम्
प्राणयुक्तम् जीवात्मानम् । अर्बुद्विः—हरिभिः, ज्ञानवद्विः विद्वद्विः ।

हरिश्मशारुर्हरिकेश आयसस्तुरूपेये यो हरिपा अर्बुधत ।

अर्बुद्विर्यो हरिभिर्वाजिनीवसुरति विश्वां दुरिता पारिपुद्धरी ॥३॥

अ० १० । ७६ । ६ ॥

भा०—(हरि श्मशारुः) पीत वर्ण की श्मश्रुओं और (हरिकेशः)
दीप्तिमान केश या किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी (आयसः) लोह
या सुवर्ण का मानो बना हुआ, गौर कान्ठनदेह अथवा परमपेश्वर्यवान्,
(यः) जो (हरिपाः) वीर सैनिकों का पति होकर (तुरःपेये, वाजेपेये)
वेगवान साधनों से या हिंसाकारी प्रयोग, युद्ध द्वारा राष्ट्र के पालन कार्य
में (अर्बुधत) बड़ा शक्तिशाली होजाता है और वह (वाजिनीवसुः)
बलवती सेनाओं को बसाने हारा, उनमें स्वयं बसने वाला, या सेनाओं
को ही सर्वस्व मानने वाला (अर्बुद्विः) वेगवान् (हरिभिः) अश्वारोहियों
या योद्धाओं द्वारा (हरी) अपने उत्साह और पराक्रम से (विरवा दुरिता)
समस्त दुर्गम विपत्तियों को (पारिपत्) पार कर जाता है ।

सुवेच्य यस्य हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजाय हरिणी दविध्वतः ।

प्र यत् कृते चमसे ममृजद्धरी पीत्वा मदस्य हर्यतस्यान्धसः ॥४॥

अ० १० । ९६ । ९ ॥

भा०—(यस्य) जिसके (शिप्रे) शीघ्र गतिशालि (हरिणी) दोनों
बाजू की सेनाएं (वाजाय) संग्राम कार्य के लिये (सुवा इव) स्रवणशालि
दो धाराओं के समान या दो हाथों के समान या यज्ञ से सुवों के समान
(विपेततुः) विशेष रूपसे या विविध प्रकारों से गति करती हैं और (हरिणी)
वे दोनों सेनाएं (वाजाय दविध्वतः) संग्राम के लिये ही आगे बढ़ती हैं ।
(यत्) जब (कृते चमसे) अन्नादि से सेजाय हुए पात्र या थाली में

(मद्स्य) वृत्तिकारी (हर्यतः) मनोहर (अन्धसः) अन्न रस को पीत्वा) पान करके जिस प्रकार पुरुष अपने (हरी मर्मजत्) अपनी आंखों को स्वच्छ करता था आगे बढने वाले बाहुओं पर हाथ फेरता है और उसी प्रकार वह इन्द्र, सेनापति (मद्स्य) वृत्तिकारी (हर्यतः) कान्तिमान् तेजोमय (अन्धसः) राष्ट्र को भोग कर (हरी मर्मजत्) अपने उत्साह और पराक्रम को बलवान् करता है ।

उंत स्म सन्नं हर्यतस्य पस्त्योऽरत्यो न वाजं हरिवीं अचिक्रदत् ।
मही चिद्धि धिपणाहर्यदोजसा वृहद् वयो दधिपे हर्यतश्चिदा ॥५

भा०—(अत्यः वाजं न) जिस प्रकार अश्व संग्राम को जाता है उसी प्रकार (हरिवान्) वीर योद्धाओं से युद्ध सेनापति (हर्यतस्य) कान्तिमान् राजा के और (पस्त्योः) स्त्री पुरुषों के (सन्न) आश्रय और शरण भूत राष्ट्र को (अचिक्रदत्) प्राप्त होता है । (दोजसा) पराक्रम से ही (मही धिपणा) बड़ी भारी सेना या भूमि (चित् हि) भी उसको (अहर्यत्) अपना स्वामी बनाना चाहती है । और हे पृथिवि ! तू (हर्यतः चित्) उस कमनीय राजा के ही निमित्त (वृहद् वयः) बड़ी भारी अन्नदि भोग्य सामग्री (दधिपे) प्रदान करती है ।

[३२] परमेश्वर की स्तुति

वरः सर्वहरिवेन्द्रः । हरिस्तुतिः । १ जाती । २, ३ त्रिष्टुभौ । एवं चक्रन् ॥
आ रोदसी हर्यमाणो महित्वा नव्यंनव्यं हर्यसि मन्म नु प्रियम् ।
प्र पस्त्यमिसुर हर्यतं गोराविष्कंयि हरये सूर्याय ॥ १ ॥

सू० १० । ७६ । ११ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! परमेश्वर (महित्वा) अपने महान् सामर्थ्य से (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (आ हर्यमाणः) व्यापता हुआ तू, (नव्यं नव्यम्) सदा नये से नये (प्रियम्) अतिप्रियं (मन्म) मनन

करने योग्य गुण को (हर्यसि) प्रकट करता है। हे (असुर) शक्तिमान् बलवान् ! (सूर्याय) सूर्य के समान तेजस्वी (हरये) ज्ञानी पुरुष के लिये (गोः) वेदवाणी के (हर्यतं) कमनीय (पस्यम्) एकमात्र आश्रय ज्ञान के निधि को (आविः कृधि) प्रकट कर ।

आ त्वा ह्यर्हन्तं प्रयुजो जनानां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र ।

पिवा यथा प्रतिभूतस्य मध्वो हर्यन् यज्ञं सध्मादे दशोणिम् ॥२॥

भा०—हे इन्द्र ! परमेश्वर ! (जनानां) जनों के बीच में से (प्रयुजः) उत्कृष्ट योग समाधि करने हारे योगीजन (हरिशिप्रम्) दुःखों के विनाशक ज्ञान से पूर्ण (हर्यन्तं) अति कमनीय (त्वा) तुम्हको (आवहन्तु) साक्षात् प्राप्त करें । हे प्रभो ! तू (प्रतिभूतस्य) साक्षात् भेट किये (मध्वः) मधु अमृत (यथा) के समान (हर्यन्) कामना करता हुआ (सध्मादे) एक संग आनन्द लाभ करने के अवसर में (दशोणिम्) दशों इन्द्रिय या प्राणों से युक्त (यज्ञं) यज्ञ रूप आत्मा को (पिब) पानकर, स्वीकार कर अपना । अर्थात् जिस प्रकार पूज्य अतिथि प्रेम पूर्वक भेट किये मधुपर्क को खाता है उसी प्रकार वह परमेश्वर हमारे दश प्राणों से युक्त उसके समर्पित आत्मा को अपने आश्रय में लीन करे ।

अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथो इदं सवनं केवलं ते ।

ममद्भि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा वृषं जठर आ वृषस्व ॥३॥

भा०—हे (हरिवः) हरणशील प्रलयकारिणी शक्तियों से सम्पन्न ! तू (पूर्वेषां सुतानाम्) पूर्व उत्पन्न किये समस्त जगत्को और पूर्व काल में ज्ञान सम्पन्न जीवात्माओं को भी (अपाः) अपनी शरण ले चुका है । अपने में प्रलीन कर चुका है । (इदं सवनं) यह इस प्रकार का (सवन) स्वीकार करना (ते केवलम्) केवल तुम्हें ही शोभा देता है । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (मधुमन्तं सोमम्) मधु, अमृत रस से युक्त (सोम) सोम

जीव को अमृत ब्रह्मानन्द रस वाले ब्रह्मविद् जीव को (ममद्धि) तू स्वीकार कर । (सत्रा) एक साथ ही (वृध) उस सुख के वर्धक, धर्म-मेघ रूप योगी आत्मा को (जठरे) अपने भीतर (आवृषस्व) जल के समान डाल ले ।

[३३] राजा और परमेश्वर का वर्णन

वष्टको वैश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुभः । तृचं सक्तम् ॥

अप्सु धूतस्यं हरिचः पिबेह नृभिः सुतस्यं जठरं पृणस्व ।
भिभिलुर्मद्रय इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मदमुक्थवाहः ॥१॥

ऋ० १०।१०४।२ ॥

भा०—हे (हरिचः) हरणशील दुःखहारी साधनों या वीर पुरुषों से सम्पन्न ! (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! (अप्सु) प्रजाओं में (धूतस्य) प्राप्त और (नृभिः) मनुष्यों नेता पुरुषों द्वारा (सुतस्य) उत्पादित अन्न एवं राष्ट्रैश्वर्य को (इह) यहां रहकर (पिब) पानकर, भोगकर । (जठरं पृणस्व) अपने उदर को, कोष को भरले (यम्) जिस भोग्य ऐश्वर्य को (अद्रयः) मेघ के समान उदार जन (तुभ्यम् भिभिलुः) तुम्हे प्रदान करते हैं हे (उक्थवाहः) वेदाज्ञा के अनुसार ऐश्वर्यों को प्राप्त करने हेतु धार्मिक राजन् ! (तेभिः) उन ऐश्वर्यों से (मदम्) अपने आनन्द वृत्ति को (वर्धस्व) बढ़ा, उनसे संतुष्ट हो ।

परमात्मा पत्र में—हे हरिवन् ! शक्तिमन् ! (नृभिः) योगिजनों से शुद्ध रूप से निष्पादित, (अप्सु धूतस्य) प्राणों के द्वारा योग साधनों से परिशोधित आत्मा को स्वीकार कर । (यम् अद्रयः भिभिलुः) जिसको धर्म मेघ सिद्ध साधक आनन्द रसों से सेचन करते हैं उनसे हे (उक्थवाहः) ज्ञानवन् ! तू वृद्धि को प्राप्त हो ।

प्रोग्रां पीतिं वृष्णं इयमि सत्यां प्रयै सुतस्य हयंश्च तुभ्यम् ।

इन्द्र धेनाभिरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्या गृणानः ॥२॥

भा०—हे (हयंश्च) वेगवान् अश्वों से युक्त, राजन् ! मैं (प्रयै) उत्कृष्ट मार्ग से मनन करने के लिये (तुभ्यं वृष्णे) बलवान तेरे लिये (सुतस्य) उत्पादित सत्य ज्ञान की (उग्राम्) बलवती, (सत्याम्) सत्य पूर्ण, (पीतिम्) पान योग्य ज्ञान धारा को (प्र इयमि) प्राप्त कराता हूँ । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् राजन् ! तू (शच्या) अपनी शक्ति के कारण (विश्वाभिः) समस्त प्रकार की (धीभिः) स्तुतियों से (गृणानः) स्तुति किया जाकर (इह) यहां (धेनाभिः) तुष्टिकारी रस धाराओं या चाणियों से (मादयस्व) स्वयं तृप्त हो, अन्यो को भी तृप्त कर ।

परमेश्वर पक्ष में—हे (हयंश्च) व्याप्त शक्तियों से युक्त ! (तुभ्यं वृष्णे) सब सुखों के वर्षक तेरे लिये (प्रयै) अपनी ही उत्कृष्ट गति की प्राप्ति के लिये मैं (उग्राम् पीतिं प्र इयमि) बलवती पीति अर्थात् स्नेहपूर्ण स्वीकृति को जगाता हूँ । (शच्या) महती शक्ति के कारण ही (धीभिः) समस्त धारणावती बुद्धियों द्वारा (गृणानः) स्तुति किया जाकर (विश्वाभिः धेनाभिः मादयस्व) समस्त रस धाराओं से जीवों को तृप्त कर ।

ऊती शचीवस्तव वीर्येण वयो दधाना उशिज ऋतज्ञाः ।

प्रजावदिन्द्र मनुषो दुरोणे तस्थुर्गृणन्तः सध्रमाद्यासः ॥३॥


भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! हे (शचीवः) शक्तिशालिन् ! (तव उत्या) तेरे रक्षककारी शक्ति से और (तव वीर्येण) तेरे सर्वोत्पादक वीर्य से ही (ऋतज्ञाः) सत्य ज्ञान के ज्ञाता (उशिजः) वशी, तेरे प्रिय भक्तजन (प्रजावत्) प्रजा, पुत्र पौत्रादि से युक्त (वयः) दीर्घ जीवन को (दधानाः) धारण करते हुए (सध्रमाद्यासः) एक स्थान पर आनन्द लाभ करने हारे विद्वान् पुरुष (गृणन्तः) ज्ञानोपदेश करते हुए (मनुषः

दुरोणे) मनुष्य के गृह के समान इस मनुष्य देह में (तस्थुः) रहते हैं । जीवन यापन करते हैं ।

अध्यात्म में—(ऋतज्ञाः) आत्मा को जानने वाले (उशिनः) प्राण गण, हे आत्मन् तेरे वीर्य से ही (वयः) जीवन को धारण करते हुए इस देह में रहते हैं ।

॥ इति तृतीयेऽनुवाके तृतीयः पर्यायः ॥

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥



[३४] इन्द्र परमेश्वर और राजा और आत्मा का वर्णन ।

शुक्लस्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुभः । सामञ्जस्य । पञ्चदशं ब्रह्मन् ॥

यो ज्ञात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् ऋतुना पर्यभूषत् ।
यस्य शुष्माद् रोदसी अभ्यसेतां नृण्यस्यं मृहा स जनासु इन्द्रः

श्र० २ । १२ । १ ॥

मा०—(यः) जो (प्रथमः) सबसे श्रेष्ठ और सबसे आदि में विद्यमान, (मनस्वान्) ज्ञान, मनन शक्ति से युक्त, (देवः) प्रकाश स्वरूप, सब को सब शक्तियों का दाता और सबका द्रष्टा, (जात एव) प्रकट होकर ही (ऋतुना) अपनी शक्ति से (देवान्) समस्त दिव्य शक्तियों को, सूर्यादि लोकों और विद्वान् पुरुषों को (परि अभूषत्) अपने वश कर रहा है, उनको सुशोभित और कान्तिमान कर रहा है । (नृण्यस्य) नेतृ शक्तियों से युक्त, समस्त प्राणियों में व्याप्त (मृहा) बड़े भारी सामर्थ्य के कारण (यस्य शुष्माद्) जिसके बल से (रोदसी) आकाश और पृथिवी दोनों (अभ्यसेताम्) मानो भय से कांपती हैं । हे (जनासुः) मनुष्यो ! (सः) वह ही (इन्द्रः) 'इन्द्र' कहाता है ।

राजा के पक्ष में—(यः मनस्वान्) जो मनस्वी पुरुष उत्पन्न होते ही (ऋतुना) अपने बल से (देवान् परि अभूवत्) समस्त राजाओं को अपने वश करता है। जिस (नृमूणस्य) मनुष्यों के स्तम्भक पुरुष के (महा) महान् सामर्थ्य और (शुष्मात्) शोषणकारी भयजनक बल से (रोदसी) मित्र और शत्रु दोनों अथवा राज-पुरुषवर्ग और प्रजावर्ग दोनों (अभ्यसेताम्) भय करते हैं वह 'इन्द्र' है। आत्मा के पक्ष में—मनः शक्ति से युक्त जो (ऋतुना) प्राण-बल से (देवान्) इन्द्रियों पर वश करता है। जिसके बल से (रोदसी) प्राण और अपान दोनों (अभ्यसेताम्) भय से मानो चलते हैं वह (इन्द्रः) आत्मा इन्द्र है।

यः पृथिवीं व्यथमानामदृहद् यः पर्वतान् प्रकुपितान् अरन्धात् ।

यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो धामस्तम्भान् स जनासु इन्द्रः॥२॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (व्यथमानाम्) आकाश में वेग से गति करती हुई (पृथिवीम्) पृथिवी को भी (अदृहत्) दृढ़ करता है। और (यः) जो (प्रकुपितान्) अग्निओं से धधके हुए (पर्वतान्) ज्वालामुखी पर्वतों को (अरन्धात्) शान्त करता है। और (यः) जो (वरीयः) विशाल (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष को (विममे) बनाता या मापता है और (यः) जो (धाम्) सूर्य और उसके समान प्रकाशमान नक्षत्रादि से मण्डित आकाश-भाग को भी (अस्तम्भान्) धामता है। हे (जनासः) मनुष्यो ! (सः इन्द्रः) वह 'इन्द्र' ऐश्वर्यवान् परमेश्वर है।

राजा के पक्ष में—(यः) जो (व्यथमानां) शत्रुओं के भय से पीड़ित पृथिवी को (अदृहत्) दृढ़, आघात सहने में समर्थ करता है और (प्रकुपितान् पर्वतान्) आग से धधकते ज्वालामुखियों के समान प्रजाओं पर आग्नेय अस्त्रों का वर्षण करने वाले शत्रुओं को भी ठण्डा कर देता है। (यः वरीयः अन्तरिक्षं विममे) जो विशाल अन्तरिक्ष को भी विमावों

द्वारा पार कर लेता है । (यः याम् अस्तभ्नात्) जो अम्काश को भी अपने वश करता है, उसमें भी शत्रु के विमानों को नहीं आने देता, वह ऐश्वर्यवान् पुरुष सच्चा 'इन्द्र' पद योग्य राजा है ।

यो हत्वाहिमरिणात् सप्त सिन्धून् यो गा उदाजत् प्रधा वलस्य ।
यो अश्मनोरन्तरग्निं ज्ञानं संवृक् समत्सु स जनासु इन्द्रः ॥३॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (आहिम्) अविनाशी प्रकृति तत्व को (हत्वा) व्याप्त करके (सप्त सिन्धून्) सात समष्टि महाप्राणों को अथवा महत्, अहंकार एवं ५ सूक्ष्म तन्मात्रा इनको (अरिणात्) प्रकट करता है । और (यः) जो परमेश्वर (वलस्य) आवरणकारी अज्ञान और अन्धकार को या जड़ता को (अपधाः) दूर करके (गाः उदाजत्) ऋषियों के हृदय में ज्ञान वाणियों को और संसार में सूर्य की किरणों या लोकों को (उदाजत्) चलाता है । (यः) जो (अश्मनोः) बौं और पृथिवी के (अन्तः) बीच में रगड़ते दो पत्थरों के बीच में चमकने वाली अग्नि के समान या अरिणियों के बीच में निकलने वाली अग्नि के समान (अग्निम्) सूर्य रूप अग्नि को (ज्ञान) उत्पन्न करता है वह (समत्सु) समस्त व्यवहारों में (संवृक्) दिनों को दूर करने द्वारा है, हे (जनासु) मनुष्यों ! (सः इन्द्रः) वही 'इन्द्र' परमेश्वर है ।

राजा के पद में—(आहिम्) जो सपं के समान झुटिजाचारी पुरुष का नाश करके (सप्त सिन्धून् अरिणात्) सातों सदृशशक्ति समुद्रों का वश करता है । जो (वलस्य अपधाः) आवरणकारी, घेरने वाले शत्रु को दूर करके (गाः) प्रजाओं को उन्नत करता है । (अश्मनोः अन्तः) जो परस्पर में व्याप्त स्त्री पुरुषों के बीच (अग्निम्) ज्ञानवान् पुरुष को निर्दोषरूप से स्थापित करता है । वह (समत्सु संवृक्) युद्धों में शत्रुओं का वारक है वही 'इन्द्र' है ।

येनेमा विश्वाः च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहा कः ।

श्वघ्नीव यो जिगीवां लक्ष्मीमाददर्यः पुष्टानि स जनास इन्द्रः ॥४॥

भा०—(येन) जिस परमेश्वर ने (इमा) ये (विश्वा) समस्त (च्यवना) गतिशील लोक (कृतानि) बनाये हैं । (यः) जो (दासं वर्णम्) उपन्यशील, विनाशी स्वभाव के (अधरम्) स्थिर न रहने वाले जगत् को (गुहा कः) आकाश में स्थापित करता है । और (जिगीवान् श्वघ्नी इव लक्ष्म आददः) विजयी जूआखोर जिस प्रकार लाखों की सम्पत्ति को प्राप्त करता है, अथवा श्वघ्नी कुत्तों से शिकार करने वाला व्याध जिस प्रकार (लक्ष्म) लक्ष्य को वेधता है उसी प्रकार जो (लक्ष्म आददः) समस्त दृश्यमान जगत् को अपने वश कर रहा है । और (यः) जो (पुष्टानि) समस्त पुष्टि युक्त पदार्थों को (आददः) सबको देता है । हे (जनासः) मनुष्यो ! (सः इन्द्रः) वह 'इन्द्र' परमेश्वर है ।

राजा के पक्ष में—जो इन सब (च्यवना) नियमों को बनाता है । (दासं वर्णं) जो विनाशकारी हत्यारे पेशे करने वाले वर्ग को (गुहाकः) कैद में डालता है । (यः जिगीवान्) जो विजेता हांकर जुएखोर के समान लाखों को प्राप्त करता और (पुष्टानि) समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है वह महान् 'राजा' है ।

यं स्मां पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुर्नैपो अस्तित्येनम् ।

सो अर्थः पुष्टीर्विजं इवा मिनाति अदंमै धत्त स जनास इन्द्रः ॥५॥

भा०—(यं) जिस (घोरम्) अद्भुत, भयानक, आश्चर्यजनक कर्म करने वाले के विषय में (पृच्छन्ति स्म) लोग प्रश्न किया करते हैं कि (कुह सः इति) वह कहां है ? (उत ईम् एनम्) और उसके विषय में (आहुः) बहुत से कहा करते हैं कि (न एपः अस्ति) वह है ही नहीं । (सः) वह (अर्थः) अज्ञानी पुरुष के (पुष्टीः) हृष्ट पुष्ट शरीरों को भी

(विजः इवः) उद्वेगजनक सिंह के समान (आ मिनाति) विनष्ट करता है । हे (जनासः) लोगो ! (अस्मै) उस ईश्वर पर (अद् धत्त) सत्य विश्वास करो कि वह सत् पदार्थ है । और (सः इन्द्रः) वही इन्द्र परम-ऐश्वर्यवान् परमेश्वर है ।

राजा के पक्ष में—(वं घोरम्) जिस भयानक घोर संग्रामकारी के विषय में लोग भय से पृथक्ते हैं (कुह सः ?) वह कहां है ? (उत ईम् एनम् आहुः) और बहुतसे निर्भय होकर गर्व से कह देते हैं (न एषः अस्ति) वह कुछ नहीं है । (सः विजः इव) वह भयसंचारी सिंह के समान (अर्थः) शत्रु के (पुष्टीः) समृद्धियों और पुष्ट प्रजाओं को नष्ट करता है, उसको (अद् धत्त) सत्य जानो, वह ही बड़ा राजा है ।

यो रुधस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नार्थमानस्य कीरेः ।

युक्तग्राण्यो यांश्चिता सुशिप्रः सुतसोमस्य स जनासु इन्द्रः ॥६॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (रुधस्य कृशस्य च चोदिता) धनाह्य और निर्धन दोनों को ऐश्वर्य का देने वाला है । (यः) जो (नार्थमानस्य) प्रार्थना करने वाले (ब्रह्मणः) ब्रह्मज्ञानी और (कीरेः) विचित्र चित्त या प्रार्थी का भी दाता है । (यः) जो (सुशिप्रः) उत्तम सामर्थ्यवान् (युक्तग्राण्यः) प्राणों को योग द्वारा लगाने और (सुतसोमस्य) ब्रह्मानन्द को प्राप्त हुए पुरुष का (अचिता) रक्षक है । हे (जनासु) मनुष्यो ! (सः इन्द्रः) वह परमैश्वर्यवान् प्रभु है ।

राजा के पक्ष में—जो अमीर गरीब सब पर (चोदिता) धाजा चलाता है जो विद्वान् और धनी और (कीरेः) क्रियाकुशल शिल्पी सबको (चोदिता) यथावत् चलाने हारा है (युक्तग्राण्यः) शत्रुवान् क्षत्रिय (सुतसोमस्य) ऐश्वर्यों के प्राप्त करने वाले वैश्यों का भी जो (अचिता) रक्षक है, हे मनुष्यो ! वह इन्द्र राजा है ।

यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः।
यः सूर्यं य उपसं जजान यो अपां नेता स जनासु इन्द्रः ॥ ७ ॥

भा०—(यस्य) जिस परमेश्वर के शासन में (अश्वासः) व्यापक शक्ति वाले सूर्य और (यस्य प्रदिशि) जिसके शासन में (गावः) समस्त पृथिवी गण हैं । (यस्य) जिसके शासन में (ग्रामाः) समस्त इन्द्रियगण, जीवगण या लोक हैं (यस्य विश्वे रथासः) जिसके वश में समस्त रमण साधन देह और आत्मा हैं । (यः) जो परमेश्वर (सूर्य) सूर्य को टपन्न करता है (यः उपसं जजान) जो उपा को प्रकट करता है (यः अपां नेता) जो जलों का समुद्रों का, और आस पुरुषों के समस्त कर्मों, बुद्धियों का भी प्रवर्तक है, हे (जनासः) लोगो ! (सः इन्द्रः) वह परम ऐश्वर्यवान् परमेश्वर है ।

राजा के पक्ष में—जिसके अधिकार में घोड़े, गौवें (ग्रामः) सैनिक संघ और रथ हैं । जो (सूर्य) विद्वान् पुरुष और (उपसम्) विदुषी स्त्री को भी प्रकट करता है (यः अपां नेता) जो आस पुरुषों और प्रजाओं का नायक है वह 'इन्द्र' कहाने योग्य है ।

यं क्रन्दती संयती विह्वयंते परेवर उभया अमित्राः ।

समानं चिद्रथमातस्थिवासा नाना हवेते स जनासु इन्द्रः ॥ ८ ॥

भा०—(यम्) जिस परमेश्वर को (संयती) समान रूप से सु-व्य-वस्थित, नियम में बद्ध (क्रन्दती) चौ और पृथिवी उनके निवासी जन, पति पत्नी और गुरु शिष्य भी (विह्वयंते) विविध स्तुतियों से याद करते हैं । (परे) परमपद में प्राप्त और (अवेरे) इस लोक के जन और (उभयाः अमित्राः) दोनों परस्पर स्नेह न करने वाले शत्रु लोग (यं) जिसको (विह्वयंते) विविध प्रकार से स्मरण करते हैं । और जिस परमेश्वर को (समानं चिद्रथम्) एक जैसे रथ अर्थात् देह में विराजमान प्राणी

भी (नाना हवते) नाना प्रकार से स्मरण करते हैं, हे (जनासः) मनुष्यो !
(सः इन्द्रः) इन्द्र परमेश्वर वही है ।

राजा के पक्ष में—(क्रन्दसी) परस्पर का आह्वान करने या ललकारने वाले (संयती) युद्ध में सज्ज हो सेनाएं (यं) जिस वीर राजा को (विह्वयेते) विविध उपायों से बुलाती हैं (परे अवेरे) पास के और दूर के सम्बन्धी और (उभयाः) दोनों पक्षों के परस्पर के शत्रु लोग जिसको विविध प्रकार से बुलाते हैं, (समानं चित् रथम् आ तस्थिवांसा) एक समान रथों पर सवार योद्धा लोग (नाना हवते) नाना प्रकार से सहायता के लिये बुलाते हैं । हे मनुष्यो ! (स इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् राजा 'इन्द्र' पदसे कहाने योग्य ही है ।

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनांसो यं युच्यमाना अवंसे हवन्ते ।

यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत् स जनासु इन्द्रः ॥६॥

भा०—(यस्मात् ऋते) जिसके बिना (जनासः) लोग (न विजयन्ते) कभी किसी बातपर भी विजय नहीं पाते, सफल नहीं होते (युच्यमानाः) युद्ध करते हुए लोग भी (यं अवंसे हवन्ते) जिसको अपनी रक्षा के लिये बुलाते हैं (यः) जो (विश्वस्य) समस्त विश्व का (प्रतिमानम्) प्रतिमान, उसके प्रत्येक पदार्थ का निर्माण करने वाला एवं समस्त विश्व को अपने में धारण कर तद्रूप (बभूव) हो गया है (यः) जो (अच्युतच्युत्) समस्त पदार्थों को भी कालवेग से विनाश कर देने वाला है, हे (जनासः) लोगो (सः इन्द्रः) वह इन्द्र, परमेश्वर है ।

राजा के पक्ष में—जिसके बिना लोग विजय नहीं पाते । युद्ध करने वाले जिसको अपनी रक्षा के लिये बुलाते हैं (यः विश्वस्य) जो सब राजाओं को (प्रतिमानम्) प्रतिपक्ष होकर बराबरी करने और उनके बलों को तोल लेने में समर्थ (बभूव) हो, (यः अच्युतच्युत्) जो दृढ़तम राज्यों को दस्ताड़ देने में समर्थ हो, वह राजा 'इन्द्र' कहाने योग्य है ।

यः शर्वतो मह्येनो दधानान्मन्यमानान्छुवां ज्ञयान् ।

यः शर्वते नानुददाति शृध्यां यो दस्योहन्ता स जनासु इन्द्रः ॥१०॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (महि एनः) बड़े २ पापों, अपराधों को (शश्वतः) निरन्तर, लगातार (दधानान्) करने और (अमन्यमानान्) तिसपर भी अपने अपराधों को त्यागने के लिये स्वीकार न करने वालों को (शर्वा) अपने क्लेशदायी उपाय से (जवान) दरिद्रत करता है । और (शर्वते) निन्दा करने वाले पुरुष को (शृध्याम्) सहनशक्ति (न अनुददाति) उसके अनुकूल उसकी शक्ति वृद्धि के लिये, नहीं प्रदान करता । अर्थात् निन्दक, ईर्ष्यालु तुच्छ पुरुष में दूसरे को वश करने का बल नहीं देता । (यः दस्योहन्ता) दूसरे का नाश करने वाले पुरुष का स्वयं नाशकारी, दण्डकर्ता है । हे (जनासुः) मनुष्यो ! (स इन्द्रः) वह इन्द्र परमेश्वर है ।

राजा के पक्ष में—(महि एनो दधानान्) बड़े २ अपराधों को करने वाले दुष्ट पुरुषों को (अमन्यमानान्) और जो उसका मान न करें, उन गर्विले लोगों का (शर्वा) अपने शस्त्र से (जवान) मारता या दण्ड देता है जो अपने निन्दाकारी को (शृध्याम् न अनुददाति) सहायता नहीं देता । (यः दस्योः हन्ता) जो दस्यु का घातक है, हे लोगो ! वह 'इन्द्र' कहाने योग्य है ।

यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरयन्वविन्दत् ।

आजायमानं यो अहिं ज्ञयान् दानुं शयानं स जनासु इन्द्रः ॥११॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (पर्वतेषु) पर्वतों अर्थात् पर्व वाले मासों में या (क्षियन्तम्) विद्यमान (शम्बरम्) चन्द्र को (चत्वारिंश्याम्) ४० वें (शरदि) वर्ष में (पुनः अन्वविन्दत्) उसी स्थान पर कर देता है । अथवा (पर्वतेषु क्षियन्तं शम्बरं) मेघों में विद्यमान जल

को जिस प्रकार विद्युत् या वायु प्राप्त करता है और जिस प्रकार (चत्वारिंश्यां शरदि) ४०वें वर्ष के पश्चात् (पर्वतेषु) पालन शक्ति एवं पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वानों में विद्यमान या पुरुषों में विद्यमान (शम्बरम् = संवरम्) अच्छी प्रकार से गोपनीय ज्ञान-राशि वेद या ब्रह्म ज्ञानमय शब्द ब्रह्म या ब्रह्मचर्य के पूर्ण बल को पूर्ण आजन्म ब्रह्मचारी (अनु अविन्दत्) प्राप्त करता है उसी प्रकार (यः) जो (अनु अविन्दत्) सदा पूर्ण बल पराक्रम को प्राप्त किये रहता है और (यः) जो परमेश्वर (ओजायमानं) बल पकड़ने वाले (अहिम्) सर्प के समान कुटिल (दानुम्) मर्म के काटने वाले (शयानम्) हृदय में होने वाले काम विकार को (जघान) नष्ट करता है । हे (जनासः स इन्द्रः) मनुष्यो ! वह इन्द्र है ।

राजा के पक्ष में—(पर्वतेषु) पालन करने हारे शासकों में विद्यमान (शम्बरम्) शासन योग्य बल को युवा पुरुष अपने ४०वें वर्ष में प्राप्त करता है और जो (दानुं शयानं) बल के काटने वाले गुप्त सांप के समान छुपे (ओजायमानं अहिम्) पराक्रमशील कुटिल शत्रु और काम को नाश करता है वह वीर पुंगव पुरुष 'इन्द्र' है ।

यः शम्बरं पर्यतरत् कसीभिर्योचान्कृत्स्नापिवत् सुतस्य ।

अन्तर्गिरौ यजमानं बभुं जनं यस्मिन्नामूर्च्छत् स जनासु इन्द्रः ॥१२

भा०—(यः) जो परमेश्वर (कसीभिः) अपनी ज्ञान दीप्तियों से (शम्बरम्) ज्ञान को आवरण करने वाले अज्ञान को (परि अतरत्) पर

१२—अग्नेनास्ति । यः शम्बरं पर्य तरक्षसीभिर्योवा कृत्स्नापिवत्सुतस्य ।

अन्तर्गिरौ यजमानं वभुं जनं यस्मिन्नामूर्च्छत्स जनास इन्द्रः
इति क्वचित् ।

(प्र०) 'परीयत' इति क्वचित् (दि०) कृत्स्ना, कृत्स्ना इति क्वचित् ।

(वृ०) 'वभुं जनं' इति च क्वचित् । अस्याः पदपाठोऽपि नोपलभ्यते ।

कर जाता है । और (यः) जो (अचारुक-आस्ना) अरमणीय, कष्टदायी, कालरूप मुख से (सुतस्य) उत्पादित जगत् का (अपिबत्) पान करता है, ग्रस लेता है । (अन्तः गिरौ) पर्वत के बीच में जिस प्रकार वायु मूर्द्धित होजाता है उसी प्रकार पर्वत के समान अति गुरुतम (यस्मिन्) जिस परम ऐश्वर्यवान् अपने स्वरूप में वह परमेश्वर (यजमानं) ईश्वरोपासक (वहुं जनम्) बहुतसे जनों को (अमूर्च्छत्) मोहित कर लेता है । अथवा (गिरौ अक्षः) पर्वत पर विचरण करता हुआ पुरुष जिस प्रकार स्वयं ऊंचा होजाता है उसी प्रकार जिसके स्वरूप में मग्न बहुतसे उपासकों को जो (आ अमूर्च्छत्) उन्नत पद, मोक्ष तक प्राप्त कराता है । हे (जनासः) लोगो ! (सः) वह (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् प्रभु है ।

राजा के पक्ष में—(यः) जो (कसीभिः) अपनी शासन व्यवस्थाओं से (शम्बरम्) शान्तिदायक शासन-बल को (परि अतरत्) सर्वत्र फैलाता है और (यः) जो (अचारुक-आस्ना) अमनोहर, कष्टकारी मुख सेना आदि दमन द्वारा राष्ट्र का (अपिबत्) भोग करता है । (गिरौ अन्तः) पर्वत के समान (यस्मिन्) जिसके अपने आश्रय पर वह (वहुं यजमानं जनं अमूर्च्छत्) बहुतसे दानशील करप्रद जनों को उन्नत करता है । हे (जनासः) लोगो ! (सः इन्द्रः) वह इन्द्र कहाने योग्य है ।

कसीभिः— कसि गतिशासनयोः, कस इत्येके कश इत्यन्ये । इत्यत 'ई' प्रत्यय औगादिकः । मूर्च्छामोहसमुच्छ्राययोः । भ्वादिः । अत्र समुच्छ्रायोऽर्थः ।

१२, १६, १७ ये तीन मन्त्र ऋग्वेद में नहीं हैं । उनका पदपाठ भी कहीं उपलब्ध नहीं हुआ है । बृहत्सर्वानुक्रमणी में भी इस सूक्त को पञ्चदश ऋचा वाला ही माना है । कदाचित् ये तीन ऋचाएँ किसी शौनक शाखा से क्षतिरिक्त अन्य शाखा में उपलब्ध हों ।

यः सत्तरांश्मिर्बृषभस्तुविंशान्वासृजत् सतवे सप्त सिन्धून् ।

यो रौहिणमस्फुरद् वज्रवाहुर्धामारोहन्तं स जनासु इन्द्रः ॥१३॥

भा०—(यः) जो परमात्मा (सत्तरांश्मिः) सूर्य के समान सात रश्मियों अर्थात् सात बड़े २ नियामक बलों से सम्पन्न है । वह (तुवि-
प्मान्) वायु के समान बड़ा बलवान्, (बृषभः) मेघ के समान समस्त
सुखों का वर्षण करने वाला है । वह (सप्त सिन्धून्) सात सिन्धुओं, बड़े
बड़े तत्वों, सात प्राणों के समान (सतवे) सर्वत्र गति करने के लिये ही
(अषासृजत्) बनाता है । (यः) जो (वज्रवाहुः) हाथ में वज्र लिये,
संहारकारी, लकड़हारे के समान (धाम्) आकाश की तरफ (आरोहन्तम्)
पुनः चीज से अंकुरित होकर फैलने वाले वट के समान विकट रूप से
फैलने वाले (रौहिणम्) संसाररूप रौहिण या बट को (अस्फुरत्) काट
देता है । हे (जनासः) मनुष्यो ! (सः इन्द्रः) वह इन्द्र, प्रभु है ।

राजा के पक्ष में—राज्य के सप्त अंग, रूप सात रश्मियों से युक्त होकर
वह सूर्य के समान तेजस्वी, वायु के समान बलवान्, राज्य का कर उठाने में
बृषभ के समान अथवा प्रजाओं पर ऐश्वर्य वृद्धि करने वाला होने से मेघ के
समान होकर अपने सातों (सिन्धून्) स्रोतों को फैलने के लिये ही उत्पन्न
करता है । और जो (वज्रवाहुः) खड्ग हाथ में लेकर (धाम् आरोहन्तम्)
आकाश में फैलते हुए (रौहिणम्) वट के समान क्रम से अपनी जड़ें फै-
लाने वाले (रौहिणम्) वट स्वभाव के शत्रु को (अस्फुरत्) विनाश करता
है । (सः इन्द्रः) हे मनुष्यो ! वह राजा इन्द्र वायु या विद्युत् के समान है ।

बड़े प्रबल राजा का वायु और कुटिल गर्वी शत्रु राजा का शाल्मलि के
दृष्टान्त से वर्णन देखो शान्तिपर्व अ० १२३ । १२४ ।

घावां चिदस्मै पृथिवी नमैते शुष्माञ्चिदस्य पर्वता भयन्ते ।

यः सोमपा निञ्चितो वज्रवाहुर्यो वज्रहस्तः स जनासु इन्द्रः ॥१४॥

भा०—(द्यावापृथिवी) आकाश और पृथिवी दोनों लोक (चित्) भी (अस्मै नमेते) इसके आगे भुक्तते हैं । और (अस्य शुष्मात् चित्) इसके बल से ही (पर्वताः भयन्ते) पर्वत, मेघ भी भय से कांपते हैं । (यः) जो (सोमपाः) समस्त जगत् का पालक या समस्त ऐश्वर्यों का पालक होकर (निचितः) सर्वत्र व्यापक (वज्रबाहुः) वज्र के समान सब को पापों से वर्जन करने में समर्थ बलशाली और (वज्रहस्तः) चारक बल से ही सबको दण्ड देने वाला है । हे (जनासः) मनुष्यो ! (सः इन्द्रः) वह इन्द्र, परमेश्वर है ।

राजा के पक्ष में—(द्यावापृथिवी) राजा प्रजा या नरनारी जिसके आगे सुकें, (पर्वताः) पालन शक्ति से युक्त ऊंचे पर्वत के समान बड़े भूमिपाल भी जिसके बल से कांपते हैं, वह (सोमपाः) राष्ट्र का भोक्ता (वज्रहस्तः वज्रबाहुः) वज्र के समान बलवान् बाहु वाला और खड्गहस्त होकर (निचितः) सुदृढ़ शरीर, संचित ऐश्वर्यवान् और बलवान् हो वह राजा 'इन्द्र' है ।

यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूर्ति ।

यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राघः स जनासु इन्द्रः ॥१॥

भा०—जो परमेश्वर प्रभु ! (सुन्वन्तम्) यज्ञ करने वाले की, (अवति) रक्षा करता है । (यः पचन्तम्) जो पालन करनेहारे को, अर्थात् वीर्य, विद्या और बल को परिपक्व करने वाले की रक्षा करता है (यः) जो (ऊत्या) अपने रक्षाकारिणी शक्ति से (शंसन्तं) स्तुति करने वाले, और (यः शशमानम्) जो ऊंचे गति करने वाले की रक्षा करता है । (यस्य) जिस को (ब्रह्म) ब्रह्म, वेद, ब्राह्मबल (वर्धनम्) बढ़ाता है (यस्य सोमः वर्धनम्) जिसको सोम, वीर्य, क्षात्रबल और राष्ट्र बल बढ़ाता है । (यस्य इदं राघः) जिसका यह समस्त ऐश्वर्य है । (जनासः) हे मनुष्यो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर और राजा है ।

जातो व्य/व्यत् पित्रोरुपस्थे भुवो न वेद जनितुः परस्य ।

स्तुविष्यमाणो नो यो अस्मद् व्रता देवानां स जनासु इन्द्रः ॥१६॥

भा०—(जातः) उत्पन्न बालक जिस प्रकार (पित्रोः उपस्थे) माता पिता दोनों के गोद में (व्यव्यत्) नाना प्रकार से अपने भाव प्रकट करता है और (भुवः) अपने उत्पन्न करनेहारी माता और (परस्य जनितुः) दूसरे उत्पादक पिता को भी नहीं जानता इसी प्रकार परमेश्वर भी (जातः) प्रादुर्भूत होकर (पित्रोः) पालन करने वाली पृथिवी और आकाश इन दो रूपों में (वि अव्यत्) विविध रूपों में दिखाई देता है । वह (भुवः) समस्त संसार के उत्पत्ति स्थान और (जनितुः) उत्पादक रूप से (परस्य) अपने से अन्य किसी दूसरे को (न वेद) नहीं जानता अर्थात् वही पृथ्वी के समान सर्वाश्रय पिता के समान सर्वोत्पादक है । और (यः) जो (स्तुविष्यमाणः) स्तुति किया जाकर (नः) हमें (अस्मद्) हमारे और (देवानां व्रता) देव, दिव्य पदार्थ, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, आकाशादि पदार्थों और विद्वानों और शरीरस्थ इन्द्रियों के (व्रताः) नियत, निश्चित धर्मों, कर्तव्यों और शक्तियों को (आ) प्रकट करता है । हे (जनासः) मनुष्यों ! (सः इन्द्रः) वह 'इन्द्र' है ।

यः सोमं कामो हर्यश्वः सूरिर्यस्माद् रेजन्ते भुवनानि विश्वा ।

यो जुघान शम्बरं यश्च शुष्णं य एंकडीरः स जनासु इन्द्रः ॥१७॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (सोमकामः) सोम, ब्रह्मानन्द रस की कामना करने वाले योगिजनों को अतिप्रिय, (हर्यश्वः) वेगवान्, कान्ति-

१६—(प्र०) 'जातो व्यक्तः पित्रोरुपस्थे', 'व्यव्यत्', 'व्यव्यत्', 'व्यव्यत्', 'जातो व्यक्तः' । (द्वि०) 'भुवन वेदजनितुः', । (तृ०) 'स्तुविष्यमाणोऽन्नोऽन्नो अस्मद्', 'स्तुविष्यमाणोऽन्नो यो अस्मद्' (च०) 'व्रता-देवानां' इति नाना पाठाः ॥

मान्, व्यापक शक्तियों से सम्पन्न तेजोमय रश्मियों से युक्त सूर्य के समान (सूरिः) सबका प्रेरक है । (यस्मात्) जिससे (विश्वा भुवनानि) शक्तियें प्राप्त करके समस्त लोक चलायमान हैं । (यः शम्बरं जघान) जो आवरणकारी अज्ञान को नाश करता है और (यः च शुष्णम् जघान) जो प्राणों के शोषण करने वाले क्षुत् पिपासादि कष्टों को अन्न प्रदान करके नाश करता है और (यः) जो (एकवीरः) एकमात्र वीर्यवान्, सर्वशक्तिमान् है । हे (जनासः) मनुष्यो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है ।

राजा के पक्ष में—(सोमकामः) जो राष्ट्र का अभिलाषी (हर्यश्चः) वेगवान् अश्वों से युक्त है, जिसके भय से सब लोक कांपते हों, जो अधीनस्थ प्रजाश्रौं के घेरने वाले (शम्बरं) उनकी शान्ति, सुख को नाश करने वाले और (शुष्णं) प्रजा का अत्याचारों से रक्त शोषण करने वाले का (जघान) नाश करता है (सः एकवीरः) वह एकमात्र वीर पुरुष 'इन्द्र' है । यः सुन्वते पचते दुध आ चिद् वाजं दर्दपि स किलांसि सत्यः । वयं त इन्द्र विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥१८॥

भा०—(यः) जो (दुधः चित्) बड़ा दुग्ध अजेय होकर ही (सुन्वते पचते) दानशील और पाकशील पुरुष को (वाजम्) वीर्य और अन्न (आददर्पि) प्रदान करता है (स किल) वह तू अवश्य (सत्यः असि) सत्य ही है । तेरे होने में कोई सन्देह नहीं है । (विश्वह) नित्यप्रति हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! (वयं) हम लोग (ते प्रियासः) तेरे प्रिय और (सुवीरासः) उत्तम वीर्यवान् होकर (विदथम्) ज्ञान स्तुति का (आवदेम) वर्णन करें ।

[३५] परमेश्वर का वर्णन ।

नोधा गौतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, २, ७, ९, १४, १६ त्रिष्टुभः । शेषाः पंक्तयः । षोडशच सक्तम् ॥

अत्मा इदु प्र त्वत्सें तुराय प्रयो न हंमिं स्तोमं माहिनाय ।

ऋचीपमायाधिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा ॥ १ ॥

ॐ १ । ६१ । १ ॥

भा०—(त्वत्से) बड़े बलवान् (तुराय) शत्रुनाशक, (माहिनाय)
गुरों से नहान, (ऋचीपमाय) वेदनन्त्रों में कहे स्वरूप के समान,
(अधिगवे) देवोंक गति वाले, सर्वन्यापक, (इन्द्राय) परमेश्वरवर्षवान् इन्द्र
प्रभु के लिये मैं (प्रयः न) मूले को जिस प्रकार अन्न देते हैं वसी प्रकार
(ओहन्) अति विचारणीय (स्तोमं) स्तुति प्रदान करता हूँ । और
(राततमा) अति प्रेम से देने योग्य (ब्रह्माणि) वेद नन्त्रोंक स्तुति बचन
नी (प्रहमिं) निवेदन करता हूँ । अथवा (इन्द्राय) वत् परमेश्वर के
(ओहन्-आ-उ-अहन्) मैं (राततमा ब्रह्माणि आ-हरामि उ) अति प्रेम से
देने योग्य ब्रह्म-ज्ञानों को प्रस्तुत करता हूँ ।

राजा के पद में—(ब्रह्माणि) ब्रह्मादि पदार्थ या बड़े अधिकार ।

अत्मा इदु प्रयं इव प्र यंसि भरांन्याङ्गुपं वायं सुवृक्ति ।

इन्द्राय इदा मनस्ता ननीया प्रताय पत्ये धियां नर्जयन्त ॥२॥

भा०—(अत्मे) इस (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (प्रयः इव)
अन्न के समान (अंगुपं) स्तुति को (प्र यंसि) प्रदान करता हूँ । और
(वाये) अपने अन्न प्रीड़ाओं को दूर करने के लिये (सुवृक्ति) सब विद्वानों
के निदरक बलकी स्तुति को (प्रमतामि) प्रस्तुत करता हूँ । इस (प्रताय
पत्ये) अति पुरातन अनाउष रवानी के लिये ही (इद उ) विद्वान् लोग
(इदा) इन्द्र से, (ननस्ता) मन से और (ननीया) मन शक्ति के द्वारा
(धिरः) अपनी इन्द्रियों को (नर्जयन्त) बरानर पवित्र किया
करें हैं ।

अस्मा इदु ल्यमुपमं स्वर्पां भराभ्याङ्गुपमास्ये/नं ।

मंहिष्ठमच्छोक्तिभिर्मतीनां सुवृक्तिभिः सूरिं वावृधधै ॥३॥

भा०—(अस्मा इत् उ) इस इन्द्र के लिये ही (ल्यम्) उस, चिर-काल से स्मरणीय (उपमम् स्वर्पाम्) सुखप्रद, आनन्ददायी, (आंगुपम्) स्तुति वचन को (आस्येन) अपने मुख से (भराभि) प्रस्तुत कहं । और (मतीनां) मनन करने हारे समस्त पुरुषों में सबसे बड़े (महिपम्) महान्, पूजनीय परमेश्वर (सूरिम्) परम मेधावी, सूर्य के समान सर्व प्रेरक परमेश्वर को (सुवृक्तिभिः) दुःखों के निवारण करने हारी (अच्छो क्तिभिः वावृधधै) उसकी महिमा की वृद्धि के लिये स्तुति करता हूं ।

अस्मा इदु स्तोमं सं हिनीमि रथं न तथैव तत्सिनाय ।

गिरश्च गिर्वाहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय ॥ ४ ॥

भा०—(तद्य इव रथं न) जिस प्रकार शिल्पी गढ़ कर रथ को तैयार करता है उसी प्रकार (तत्सिनाय) उस परम हृदय के प्रेमी, आनन्दमय, रसमय (गिर्वाहसे) समस्त स्तुतियों के पात्र (मेधिराय) परम मेधावी या परम पवित्र (अस्म इद् उ इन्द्राय) इसही परम लक्ष्य मूल परमैश्वर्यवान् प्रभु के लिये (सुवृक्ति) उत्तम रीति से संसार दुःखों के वर्जक, (विश्वमिन्वम्) सब पदार्थों के प्राप्त कराने वाले, (स्तोमम्) स्तुति समूह और (गिरः) उत्तम वेदवाणियों को (सं हिनीमि) अच्छी प्रकार प्रस्तुत करता हूं ।

अस्मा इदु सतिमिव अचस्येन्द्रायार्कं जुह्वा३ समञ्जे ।

दीरं दंतौकंसं वृन्दधै पुरां रूर्तश्रवसं दर्माणम् ॥५॥

भा०—(अस्मै इव इन्द्राय) इस परम पेश्वर्य वाले के लिये ही (अचस्या) अन्न, यश, कीर्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिये जिस प्रकार

(सप्तिम्) वेगवान् अरुच को रथ में जोड़ा जाता है उसी प्रकार (इन्द्राय अरुं) इन्द्र के लिये अर्चनाकारी मन्त्र को नै (जुहा) स्तुतिशील वाणी से (सन् अग्ने) प्रकट करता हूं । और (वीरम्) वीर शूर (दानौ-कसन्) दान के पुकनात्र साश्रय (गूर्वशवसन्) प्रयत्न कीर्त्तिनाम् (पुरां दनोपान्) शत्रु के गद्दों के समान नीतरी बन्धन रूप आत्मा के केशों के तोड़ने वाले उपकी (बन्दस्यै) स्तुति करने के लिये मैं भी उसी (इन्द्राय अरुं सन् अग्ने) मन्त्र की स्तुति को प्रकट करता हूं ।

अस्मा इदु त्वष्टां तज्जुद् वज्रं स्वपस्तमं स्वयं रणांय ।

वृत्रस्यं चिद् विद्व येन मनं तुजनीशानस्तुजता किंघाः ॥६॥

भा०—(अस्मा इद् उ) इनको प्राप्त करने के लिये ही (त्वष्टा) शिल्पी के समान रचयिता योगी (स्वपस्तमन्) उच्च शुभ कर्मों से युक्त (स्वयं) गुरु द्वारा उपदेश करने योग्य या सुख प्राप्त करने वाले (वज्रम्) लोहार या शिल्पी जिस प्रकार (रणांय) रथ के लिये उत्तम को गड़वा है उसी प्रकार वह योगी ज्ञान वज्र को (रणांय) मोड़ लुह में रमल करने के लिये (तज्जु) गड़वा है, तय्यार करता है । (किंघाः) ताका योग मुनियों को क्रमण करते हुए उनको अपने वश करने में समर्थ पुरुष (येन) जिस (तुजता) अज्ञान नाशक (वज्रेण) ज्ञानवज्र से (वृत्रस्य) आकारशील अज्ञान का (चिद्) भी (मनं) मन, रहस्य (तुजन्) उसका नाश करते ही (विद्व) प्राप्त करता है ।

अस्येदुं नातुः सवनेपु सद्यो नहः पितुं पण्डिवां चर्दन्ना ।

सुपायद् विष्णुं पत्रतं सदीयान् विव्यद् वराहं तिरौ अद्रिनस्तां ।

भा०—(अस्य नातुः इद् उ) इस समस्त दृष्टि के कर्ता का ही (नहः) यह महान् कर्म है, कि वह (सवनेपु) अपने महान् सवनों में, ईश्वरीय दृष्टि उत्पत्ति ज्ञादि कार्यों में (पितुं) पालन करने योग्य समस्त

संसार-रूप सोम को (चारु अन्ना) उत्तम भोज्य अन्नों के समान वह (सद्यः) निरन्तर (पपिवान्) खाता या लीलता ही रहता है। वह (विष्णुः) व्यापक (सर्हीयान्) सबका वशकर्ता (पचतं) परिपक्व कर्म वाले, या पाक करने वाले, अपने आत्मा को साधना द्वारा पकाने वाले मुमुक्षु को (मुपायत्) अचानक ले जाता है। और (अद्रिम् अस्ता) अद्रि, शासन रूप वज्र का (अस्ता) प्रज्ञेता वह परमेश्वर ही (तिरः) अपने पास आये (वराहं) श्रेष्ठ ज्ञान से पूर्ण, स्तुतिशील आत्मा को (विध्यत्) विद्ध करता है, उसको अपने प्रेम में वश करता है।

अस्मा इदु ग्नाश्चिद् देवपत्नीरिन्द्रायार्कमहिहत्य ऊबुः ।

परि द्यावापृथिवी जभ्र उर्वी नास्य ते महिमानं परि पृः ॥६॥

भा०—(ग्नाः चित्) गमन योग्य युवति स्त्रियां जिस प्रकार अपने पति के लिये (अर्कम् ऊबुः) सूर्य के समान तेजोमय वीर्य को प्रजारूप से धारण करती हैं उसी प्रकार (अहिहत्ये) अज्ञान के नाश के लिये (देवपत्नीः) संसार की दिव्य पालक शक्तियां, या देव-परमेश्वर की पालक शक्तियां और (ग्नाः) गमनयोग्य स्तुतिवाणियों (अस्मै इन्द्राय इत् उ) इस इन्द्र परमेश्वर के ही (अर्कम्) अर्चनीय स्वरूप को (ऊबुः) अपने भीतर धारण करती हैं। (उर्वी) विशाल (द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी दोनों को वह (परि जभ्रे) सब प्रकार से व्याप्त है। और (ते) वे दोनों (अस्य महिमानं) इसके महान् सामर्थ्य को (न परि स्तः) सीमित नहीं कर सकतीं।

अस्येद्व प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिज्ञात् ।

खुरालिन्द्रो दम् आ विश्वगूर्तः स्वरिरमत्रो ववन्ते रणाय ॥६॥

भा०—(अस्य इत् इव) इस परमेश्वर का ही (महित्वम्) महान् सामर्थ्य (दिवः प्ररिरिचे) महान् आकाश से भी बढ़ गया है। और (पृथि-

व्याः) पृथिवी से और (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष से भी (परि) परे (प्ररिचि) गया हुआ है। (स्वराट्) स्वयं प्रकाशमान (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् (स्वरिः) उत्तम प्रबल शत्रुमान् और (अमत्रः) उत्तम योद्धा के समान बढ़ाई करने में कुशल, (विश्वगृत्तः) सबसे वन्दनीय होकर (दमे) दमन करने योग्य शत्रु पर भी (रथाय) संग्राम के लिये (आववहे) सब पदार्थों को धारण करता है।

अस्येद्वेव शवसा श्यन्तं वि वृश्चद् वज्रेण वृत्रमिन्द्रः।

गा न ज्ञाणा अवनोरमुञ्चदभि श्रवो दावने सचेताः ॥१०॥

भा०—(अस्य इव एव) उसके ही (शवसा) बल पराक्रम से (श्यन्तं) चुनते हुए, भयभीत (वृत्रन्) अज्ञान रूप वृत्र को, वायुके बल से भिन्न भिन्न होते मेघ को जिस प्रकार बिजुली नाश करती है अथवा पराक्रमी राजा के पराक्रम से जिस प्रकार भयभीत विघ्नकारी शत्रु को वीर राजा नाश करता है उसी प्रकार (वज्रेण) ज्ञान-वज्र से (इन्द्रः) वह स्वयं ऐश्वर्यवान् (विश्वत्) नाना प्रकार से नाश करता है। और जिस प्रकार इन्द्र, वायु मेघ से (अवनीः) जन्तुओं की रक्षा करने वाले (द्राणाः) रुके हुए जलों को नीचे बरसाता है और फिर (श्रवः) अन्न उत्पन्न होता है उसी प्रकार वह इन्द्र भी (गोः न) सूर्य की गौओं, रश्मियों के समान (अवनीः) अपने पालन करने वाली भूमियों को (अमुञ्चत्) त्यागता या प्रदान करता है और वह (सचेताः) प्रेम युक्त होकर (दावने) दानशील पुरुष को (श्रवः) अन्न और ख्याति और ज्ञान (अभि अमुञ्चत्) सब प्रकार से देता है।

अस्येद्वे त्वेषसां रन्तु सिन्धवः परि यद् वज्रेण समिपच्छत्।

ईशानस्य द्वाशुपे दशस्वन् तुर्वीतये शार्धं तुर्वीणिः कः ॥११॥

भा०—(अस्य इत्) इस परमेश्वर के ही (त्वेपसा) दीप्तियुक्त प्रखर तेज से (सिन्धवः) वहने वाले जल (रन्त) नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं । (यत्) क्योंकि वह ही उनको (वज्रेण) अपने बल से (समि) सब प्रकार से (परि अयच्छत्) नियम में बांधता है । वह ही (ईशानकृत्) समस्त सामर्थ्यवान्, ऐश्वर्ययुक्त सूर्य, वायु, विद्युत् आदि पदार्थों का रचयिता होकर (दाशुषे) दानशील पुरुष स्वयं (दशस्यन्) बहुत ऐश्वर्य प्रदान करता है और वह (तुर्वणिः) अति वेग से सर्वत्र व्याप्तिशील विद्युत् जिस प्रकार (तुर्वीतये) अति वेग से जाने वाले पुरुष को (गाधं कः) अपना पूर्ण वैद्युतिक ऐश्वर्य सामर्थ्य प्रदान करती है उसी प्रकार वह परमेश्वर भी (तुर्वणिः) अति शीघ्र सबको प्राप्त होने हारा होकर (तुर्वीतये) शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होने वाले साधक पुरुष को (गाधं कः) अपना ज्ञानैश्वर्य प्रदान करता है ।

सामर्थ्यवान् राजा या इंजिनियर पुरुष के पक्ष में—उसके प्रताप से नदियों नहर के रूपों में क्रीड़ा करती हैं । वह वज्र से, शक्ति से उनको बांधों द्वारा बंध करता है । समस्त (ईशानकृत्) विद्युत्, वायु आदि शक्तियों को उत्पन्न करता है । शीघ्रगामी के लिये (गाधं कः) उसी प्रकार के उत्तम साधन, ऐश्वर्य उत्पन्न करता है ।

अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वज्रमीशानः कियेधाः ।

गोर्न पर्व वि रंदा तिरुश्वेप्युन्नर्णीस्यपां चरुध्वै ॥१२॥

भा०—हे परमेश्वर ! तू (ईशानः) सबका स्वामी (तूतुजानः) शक्ति वेग से सर्वत्र व्याप्त सबको तीव्रगति देनेहारा और (कियेधाः) न मालूम तू कितने बल पराक्रम और ऐश्वर्य को धारण करनेहारा है । अथवा (कियेधाः) तू सर्वत्र व्याप्त होकर समस्त संसार को धारण कर रहा है । तू ही (अस्मै वृत्राय) इस सर्व आदरणीयकारी जगत् के मूल कारण रूप

तमोमय मेघ पर, शत्रु पर खड्ग के समान और मेघ पर बिजली के समान (वज्रन्) उसके निवारक वज्र या दीर्य या बल का (प्र भर) प्रयोग करता है । और (अर्णांसि इष्यन्) मेघ के जल बरसाने की इच्छा करता हुआ वायु जिस प्रकार (अपां चरधै) जलों के प्रवाह करने के लिये (तिरश्चा) तिरछे बिलुली रूप वज्र से प्रहार करता है और जिस प्रकार त्रिजिगीषु राजा (अर्णांसि इष्यन्) धन ऐश्वर्यों की कामना करता हुआ (अपां चरधै) प्रजाओं के या सेनाओं के आगे बढ़ाने के लिये (तिरश्चा वज्रेण) तिरछे चलने वाले तलवार से शत्रुओं के शरीरों का (गोः पर्व न) डोम कसाई जिस प्रकार मरी गाय के पोरु २ को काटता है उसी प्रकार वोटी २ काटता है, उसी प्रकार हे परमात्मन् ! तू भी (अपां चरधै) आस जनों के ज्ञान प्राप्त कराने के लिये (अर्णांसि इष्यन्) नाना ज्ञान सुखों को प्राप्त कराना चाहता हुआ अपने (तिरश्चा) समस्त तीर्थ तम, परमपद तक पहुँचने वाले ज्ञान वज्र से ही (गोः पर्व न) मानो वेदवाणी के एक २ पोरु को (वि रद) विविध रूप से खोल देता है । वृष्टान्तों से ही राजा के पक्ष में स्पष्ट है ।

अस्येदु प्र वृद्धि पृथ्यांसि तुरस्य कर्मांसि नव्यं उक्तैः ।

- युधे यदिष्टान् आयुधान्यृष्टायमाणो निरिशाति शत्रून् ॥१३॥

भा०—हे विद्वान् पुत्र्य ! (यद्) जब (युधे) संग्राम के लिये (आयुधानि) शस्त्र अस्त्रों को (इष्टानः) मारता हुआ और (शत्रून्) शत्रुओं को (अष्टायमाणः) मारता हुआ (निरिशाति) आगे बढ़ता है तभी (अस्य इत् तुरस्य) उस शीघ्रकारी अतिवेगवान् बलवान् विजेता के (पृथ्यांसि कर्मांसि) पूर्व वीर कर्मों को (प्र वृद्धि) कहकर इससे वह और भी उत्तेजित होकर वीरता दिखावे क्योंकि वह ही (उक्तैः नव्यः) उत्तम वचनों द्वारा स्तुति के योग्य है ।

परमेश्वर के पक्ष में—(युधे) अपने भीतरी शत्रुओं से संग्राम करने के लिये (आयुधानि इष्णानः) उपायों को करता हुआ (शत्रून् ऋषाय-माणाः निरिच्छति) आत्मा के बल को काटने वाले काम, क्रोध आदि को विनाश करता हुआ आगे बढ़ता है । तब इस परमेश्वर के ही पूर्व के सृष्टि रचना आदि कर्मों की स्तुति करे, क्योंकि वह ही (नव्यः उन्नयैः) स्तुति-वचनों से स्तुति के योग्य है ।

अस्यैद् भिया गिर्यश्च दृष्ट्वा द्यावां च भूमां जनुपमनुजेते ।
उपो वेनस्य जोगुवान श्रोणिं सद्यो भुवद् वीर्यायि नोधाः ॥१४॥

भा०—(अस्य इत् भिया) इसके ही भय से (गिर्यः च दृष्ट्वाः) समस्त पर्वत दृढ़ होकर बैठे हैं । (अस्य जनुपः च भिया) इस सर्वोत्पादक परमेश्वर के ही बल से (द्यावा च भूमा) आकाश और भूमि दोनों लोक (तुजेते) चल रहे हैं, कांपते हैं । (वेनस्य) इसी प्रज्ञावान् मेधावी, कान्तिमान् परमेश्वर के (श्रोणिं) रक्षा की (उपो जोगुवानः) नाना प्रकार से प्रार्थना करता हुआ (नोधाः) स्तुतिशील पुरुष (सद्यः वीर्याय भुवत्) शीघ्र ही वीर कर्म करने के लिये समर्थ होजाता है ।

अस्मा इद्दु त्यदनु दान्यपामेको यद् वनेभूरेरीशानः ।

प्रैतंशं सूर्यं पस्पृथानं सौवश्ये सुष्विमात्रदिन्द्रः ॥१५॥

भा०—(एषाम्) इन समस्त लौकिक पदार्थों में से (त्यत्) वही अलौकिक, सर्वोत्तम पदार्थ (अस्मै इत्) इस परमेश्वर को (अनुदायि) समर्पित किया जाता है (यत्) जिसको वह (एकः) एकमात्र (भूरेः) बहुत भारी ऐश्वर्य का (ईशानः) स्वामी होकर (वने) स्वीकार करता है, मांगता है । (इन्द्रः) वह परमेश्वर ही (सौवश्ये सूर्ये) उत्तम अश्वों, इन्द्रियों से युक्त (सूर्ये) सूर्य के समान तेजस्वी पद के निमित्त (पस्पृथानं) स्पर्धा करते हुए उस पद को प्राप्त करने में यत्नशील (सुष्विम्) उत्तम

चलशील (एतशं) आवागमनकारी जीव आत्मा को (प्र आवत्) अच्छी प्रकार रक्षा करता है ।

सूर्य के पङ्क में—(इन्द्रः) वायु, सौवर्ण्ये सूर्ये परश्वानं सुष्विन् एतशं आवत्) उत्तम रश्मियों से युक्त सूर्य के प्रकाश में स्पर्शा करने वाले 'एतशं' उत्तम जल वर्षा नेघ की रक्षा करता है ।

एवा तं द्वारियोजना सुवृज्जिन्द् ब्रह्माणि गोतमासो अक्रन् ।

एषुं विश्वपेशसं धियं धाः प्रातर्मजू धियावसुर्जगन्यात् ॥३६॥

भा०—हे (द्वारियोजन) ज्ञानी पुरुषों को योग द्वारा साक्षात् करने योग्य समस्त सूर्यों को प्रेरणा करने हारे ! हे (इन्द्र) परमेश्वर ! वेगवान् पद्धार्यों और प्राणों को युक्त करने वाले ! आत्मन् ! (ते एव) तेरे ही लिये (गोतमासः) उत्तम वेदवाणी में निष्ठ विद्वान् पुरुष (सुवृज्जि) उत्तम हृदय हारि (ब्रह्माणि) वेद मंत्रों और ब्रह्मज्ञान के वचनों का (अक्रन्) साक्षात् करते हैं (एषु) उनमें ही वृ (विश्वपेशसं धियं) माना मनोहर स्वरूप वाली धारणावती बुद्धि को (धाः) प्रदान करता है । वेह इन्द्र, (प्रातः) प्रातःकाल ही (धियावसुः) समस्त कर्मवर्षवान्, परमेश्वर (मजू) यथा शीघ्र (आजगन्यात्) ज्ञान करने योग्य, प्राक्तव्य एवं उपालना करने योग्य है । अथवा वही हमें नित्य प्रातः प्राप्त हो ।

[३६] ईश्वर स्तुति

मद्भान् अग्निः । इन्द्रो देवज । विश्वसः । स्वामर्षं स्वन् ॥

य एक इन्द्रव्यश्चपेलीनामिन्दं तं गीर्भिरन्यर्चि आभिः ।

यः पत्यंते वृषभो वृष्यावान्त्वत्यः सत्वां पुरुमायः सईस्वान् ॥

भा०—जो परमेश्वर (एक इव) एकनात्र (चपेलीनाम्) मनुष्यों के लिये (ह्यः) स्तुति करने योग्य है, (तद् इन्द्रम्) उस पुरुषवर्षवान्

परमात्मा को (आभिः गीर्भिः) इन वाणियों से (अभि अर्च) साक्षात् स्तुति करता हूँ । (यः) जो (वृषभः) सब सुखों की वर्षा करने द्वारा और वृषभ के समान (वृष्यावान्) समस्त बल वीर्यों से युक्त, (सत्यः) सत्यस्वरूप, (सत्वा) सत् पदार्थों का स्वामी, (सहस्वान्) परमशक्तिमान्, (पुरुमायः) पूर्ण ज्ञानवान्, एवं (पुरुमायः) अनेक निर्माणकारिणी शक्तियों से युक्त, एवं अनेक विध अद्भुत आश्चर्यजनक शक्तियों से युक्त (पत्यते) जाना जाता है ।

तमुं नः पूर्वं पितरो नवग्वाः सप्त विप्रांश्चो अभि वाजयन्तः ।

नक्षद्दामं ततुरिं पर्वतेषामद्रोघवाचं मतिभिः शविष्टम् ॥२॥

भा०—(नः पूर्वं पितरः) हमारे पूर्व पालक, (नवग्वाः) नव स्तुति-वाणियों को उच्चारण करने वाले, (सप्त) सप्त, सातों प्राण जिस प्रकार आत्मा की उपासना करते हैं उसी प्रकार उनके समान परमात्मा की उपासना करने और उसके प्रति ज्ञानमार्ग से सपर्यशील, (विप्रासः) परम मेधावी, (तम उ अभि वाजयन्तः) उसी का ही साक्षात् ज्ञान लाभ करते हुए स्तुति किया करते हैं । वे (नक्षद्-दामम्) व्यास दोषों और शत्रुओं के नाशक, दुःखों से तारक (पर्वतेषाम्) पर्वत पर स्थिर सर्वोच्च (अद्रोघवाचम्) दोह रहित वाणी के या आज्ञा के देने वाले, अनुलंघनीय आज्ञा के दाता (शविष्टम्) अतिबलशाली, शक्तिमान् उस इन्द्र को (मतिभिः) मनन योग्य स्तुतियों द्वारा मनन करते हैं ।

तमीमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षोः ।

यो अस्कृद्योयुञ्जरः स्वर्वान् तमा भ्रर हरिवो मादयध्यै ॥३॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (अस्कृद्योयुः) सदा अविनाशी, अखण्ड, महान्, (अजरः) अजर, (स्वर्वान्) सुखमय लोकों का स्वामी है । हे (हरिवः) वेगवान् शक्तियों के स्वामिन् ! तू (मादयध्यै) समस्त जीवों

को वृत्त करने के लिये (तन्) वह अपूर्व ऐश्वर्य (आ नर) होने प्राप्त करा। हम लोग (अत्य) इस (पुरु वीरस्य) बहुतसे वीर पुरुषों से युद्ध, (नृदतः) मनुष्य सेवकों से युद्ध, (पुरुहोः) बहुतसी भद्र सन्तुष्टि से युद्ध (रायः) ऐश्वर्य, राज्यादि की (तन इन्द्रन्) उस ऐश्वर्यवान् परमेश्वर से (ईमहे) याचना करते हैं।

तत्रो वि व्रोत्रो यदि ते पुरा चिञ्जरितारं आनुशुः सुम्नमिन्द्र ।
कस्तं भागः किं वयो दुध्र विद्वः पुरुहूत पुरुवसोत्सुरध्नः ॥४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! हे (पुरुहूत) बहुतसी प्रजाधों से रक्षक रूप में बुलाये जाने, नित्य स्मरण करने योग्य ! हे (पुरुवसो) बहुत ऐश्वर्यों से युद्ध ! एवं बहुत से लोकों में दसने और बहुतों को दसाने में समर्थ ! हे (विद्वः) शत्रुओं के खेदजनक या समस्त दुःखों के विनाशक या सबको दीन विनीत करनेहार ! हे (दुध्र) दुर्धर ! धजेय ! (यदि) जिस प्रकार से (पुराचिञ्) पहले भी (जरितारः) तेरे स्तुतिकर्ता विद्वान् पुरुष (ते सुम्नन्) तेरे सुत्तकारी ऐश्वर्य को (आनुशुः) प्राप्त करते थे (नः) हमें (इत् वि व्रोत्रः) उसका विशेष रूप से उपदेश कर। (असुरध्नः) असुरों के विनाश करने वाले (ते) तेरा (कः भागः) कौनसा भाग है ? और (किं वयः) तेरा उपादेय भद्र या बल क्या है ?

तं पृच्छन्ती वज्रहस्तं रथेष्टामिन्द्रं वेपी वक्ररी यस्य नू गीः ।
तुविश्राभं तुविकूर्मि रभोदां गानुमिषे नज्ञते तुस्रमच्छं ॥५॥

भा०—(यस्य) जिस विद्वान् की (वेपी) क्रिया शक्ति से युद्ध, बलवती, (वक्ररी) ज्ञानोपदेश करने वाली (गीः) वाणी (तन्) उस (वज्रहस्तं) वज्र हाथ में लिये (रथेष्टान् इन्द्रन्) रथ पर स्थित सेनापति के समान ज्ञानवज्र हाथ में लिये, रत्नमें, परमानन्द में स्थित इस ऐश्वर्यवान् आत्मा के विषय में (पृच्छन्ती) प्रश्न करती हुई, जिज्ञासा करती हुई, (तुविश्राभन्) (तुविश्राभन्)

बहुतसे लोकों काग्रहण करने वाले, उनके वशीकर्ता, (तुविद्धर्मिम्) बहुत से कर्मों के करनेदारे, विश्वकर्मा (रभोदान्) बलप्रद, ज्ञानप्रद इन्द्र की (गानुम्) स्तुति करना (इपे) चाहती है वही पुरुष (तुभ्रम्) उस सर्वव्यापक को (अरुद्ध) भली प्रकार (नक्षते) प्राप्त करता है ।

अथा हु त्यं मायया वावृधानं मनोजुवां स्वतवः पर्वतेन ।

अच्युता विद् वीलिता स्वोजो रुजो विद्धता धृपता विरप्तिन् ॥७॥

भा०—हे (स्वतवः) स्वयं बलस्वरूप ! इन्द्र ! परमेश्वर ! (अमा) इस प्रत्यञ्च (मामया) माया, प्रकृति की शक्ति से (वावृधानं) बढ़ने वाले (त्यं) उस शत्रु के समान अज्ञान आवरणको (मनोजुवा) मन से प्राप्तव्य (पर्वतेन) पर्वतवत् या पालनकारी ज्ञानवज्र से (विरुजः) विविध प्रकार से नाश कर । और हे विरप्तिन् ! हे महान् ! (अच्युता) न च्युत होने वाली, (वीलिता) हृष्ट पुष्ट अङ्ग वाली (दृढा) दृढ़ सेनाओं को हे (स्वोजः) उत्तम बलशालिन् ! तू (धृपता) शत्रु को धर्षण करने वाले बल से (वि रुजः) विनाश कर ।

राजा के पक्ष में—(अथा मायया वावृधानं त्यं) इस प्रकार की माया से बढ़ते हुए शत्रु को तू (मनोजुवा पर्वतेन) मनोवेग से चलने वाले वज्र से नाश कर । हे विरप्तिन् ! महान् ! धर्षणशील सामर्थ्य या वज्र से (अच्युता वीलिता विरुजः) दृढ़ सेनाबलों का भी विनाश कर ।

तं चो ध्रिया नव्यस्या शविष्टं प्रत्नं प्रत्नवत् परितंस्रयध्वै ।

स नो वक्षदनिमानः सुवह्वेन्द्रे विश्वान्यति दुर्गहाणि ॥७॥

भा०—(वः) आप लोग (तं) उस (शविष्टं) अति शक्तिशाली (प्रत्नं) अति पुराण पुरुष को (प्रत्नवत्) पुरातन विद्वानों के समान ही हे मनुष्यो ! (परि तंस्रयध्वै) स्तुतियों से अलंकृत करने का यत्न करो । (सः) वह (सुवह्वा) उत्तम पदतक पहुंचाने में समर्थ, एवं समस्त उत्तम

पद और पदार्थों को धारण करने वाला, (इन्द्रः) महाराजा के समान महान् ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर (अनिमानः) अनन्त बलशाली होकर (विधानि) समस्त (दुर्गहाणि) कठिनता से पार किये जाने योग्य, दुर्गम संकटों से (अति वचत्) पार कर देता है ।

आ जनाय हुह्ये पार्थिवानि दिव्यानि दीपयान्तरिक्षा ।

तपां वृषन् विश्वतः शोचिषा तान् ब्रह्मद्विषे शोचय चामपश्च ॥८॥

भा०—हे (वृषन्) समस्त सुखों के वर्षण करने हारे ! तू (हुह्ये जनाय) द्रोहशील पुरुष के संताप के लिये (पार्थिवानि दिव्यानि अन्तरिक्षा) पृथिवी, आकाश और अन्तरिक्ष के पदार्थों को भी (आदीपय) खूब अच्छी प्रकार प्रश्वलित कर, (तान्) उन द्रोही पुरुषों को (शोचिषा) बालामय तेज से (विश्वतः तप) सब और से संतप्त कर । (ब्रह्मद्विषे) विद्वान् ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के शत्रु के लिये (चाम् अपः च) पृथिवी और जलों को भी (शोचय) शाप्त कर । वे उसको सुखकारी न होकर कष्टदायी हों ।

भुवो जगत्स्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगत्स्त्वेपसंदृक् ।

दिव्य वज्रं दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा अजुर्य दयसे वि मायाः ॥९॥

भा०—हे (अजुर्य) अविनाशिन् ! नित्य ! परमेश्वर ! तू (दिव्यस्य जनस्य) ज्ञानयुक्त जन्तुओं या मनुष्यों को और (पार्थिवस्य) पृथिवी पर उःपन्न (जगत्) जंगम प्राणी संसार का भी (राजा भुवः) राजा है । हे (त्वेपसंदृक्) उज्ज्वल तेजस्वी चहुं वाले या स्वतः तीक्ष्ण तेजस्विन् ! हे (इन्द्र) इन्द्र ! राजन् ! प्रभो ! तू (दक्षिणे हस्ते) दायें हाथ, क्रियामय गतिप्रद साधन में (वज्रं धिष्व) वज्र, वीर्य को धारण कर । (विश्वाः मायाः) तू समस्त नायाओं, प्रज्ञाओं को (विदयसे) विविध प्रकार से धारण करता है । अथवा (विश्वाः मायाः) समस्त दुर्लों को (विदयसे) विविध प्रकार से नाश करता है ।

आ संयतमिन्द्र एः स्वस्ति शत्रुतूर्याय वृहतीममृधाम् ।

यथा दासान्यांयाणि वृत्रा करो वज्रिन्सुतुका नाहुपाणि ॥१०॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (नः) हमें (शत्रुतूर्याय) शत्रु के नाश के लिये (अमृधाम्) अविनाशी (वृहताम्) बड़ी भारी (संयतम्) सुसंयत, एक साथ मिलकर गमन करने वाली (सु=स्वस्ति) उत्तम कल्याणकास्त्रिणी सम्पत्ति को (आ करः) रच, बना (यथा) जिससे, हे (वज्रिन्) शक्तिधर ! तू (दासानि) दूसरों के विनाशकारी, दुष्ट (वृत्रा) विघ्नकारी शत्रु पुरुषों को (आयाणि करः) आर्य, श्रेष्ठ स्वामिवत् बनाता है और जिससे (सुतुका नाहुपाणि करः) मनुष्य प्रजाओं को उत्तम पुत्र पौत्र सहित, फला फूला बनाता है ।

स नो नियुद्धिः पुरुहूत वेधो विश्ववाराभिरा गंहि प्रयज्यो ।

न या अदेवो वरते न देव आभिर्याहि तूयमा मद्युद्रिक् ॥११॥

भा०—हे (पुरुहूत) बहुतां से कष्ट दशा में पुकारे जाने योग्य ! सर्वरक्षक ! हे (वेधः) सर्वविधातः ! हे (प्रयज्यो) उत्कृष्ट सर्वोच्च प्रभो ! तू (विश्ववाराभिः) सबसे वरण करने योग्य, सब कष्टों को दारण करने वाली, उन (नियुद्धिः) युद्धकारिणी शत्रु सेनाओं, शक्तियों से (आगहि) हमें प्राप्त हो । (याः) जिनको (अदेवः) अदानशालि पुरुष कभी (न वरते) नहीं रख सकता । और (देवो न वरते) केवल इन्द्रियक्रीड़ा का व्यसनी पुरुष भी (न वरते) नहीं रखता । (आभिः) उन सहित तू (तूयम्) शीघ्र ही (मद्युद्रिक्) मेरी ओर कृपादृष्टि करता हुआ (आ याहि) आजा ।

[३७] राजा के कर्तव्य और परमात्मा के गुण ।

वसिष्ठ ऋषिः । त्रिष्टुभः । एकदशर्चं सृजन् । इन्द्रो देवता ॥

यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीम एकः कृष्टीश्चयावयन्ति प्र विश्वाः ।

यः शश्वतो अदांशुपो गयंस्य प्रयन्तासि सुध्वितराय वेदः ॥१॥

भा०—(यः) जो तू हे इन्द्र ! राजन् ! प्रभो ! (तिग्मशृङ्गः वृषभः) न) तीक्ष्ण सींगों वाले बैल के समान (भीमः) अति भयंकर (एकः) अकेला ही तू (विश्वाः कृष्टीः) समस्त मनुष्यों को, (प्रच्यावयति) मार गिराता है । (यः) और जो (शश्वतः अदाशुषः) कभी भी न देने वाले कंजूम पुरुष के (गयस्य वेदः) धर का धन (सुष्वितराय) उत्तमदाता को (प्रयन्तासि) प्रदान करता है ।

त्वं ह॒ त्यदिन्द्र॑ कुत्स॑मात्रः शुश्रू॑वमाणस्तन्वा/समये॑ ।

दासं॑ यच्छुष्णां॒ कुयंत्रं॑ न्य/स्मा॒ अरन्धय॑ अर्जुने॒याय॑ शिक्त॑न् ॥२॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (त्वं) तू (तन्वा) अपने विस्तृत बल से या स्वयं (शुश्रूवमाणः) सेवा करता हुआ (समये) संग्राम में और यज्ञ में (त्यत्) समय २ पर (कुत्सम्) शत्रु नाशकारी पुरुष को (आश्रवः) सब प्रकार से रक्षा करता है । (यत्) जब (अस्मै) इस (दासं) प्रजा के नाशक, (शुष्णं) प्रजा के शोषक और (कुयंत्रं) कुत्सित संगति वाले पुरुष को (अस्मै) इस (अर्जुनेयाय) अर्जुनी अर्थात् पृथ्वी के हितकारी पुत्र के समान प्रजा के लिये (शिक्तन्) दण्डित करता हुआ (अरन्धयः) वश करता है ।

त्वं धृ॑ष्णो धृ॒वता॑ वी॒तह॑व्यं प्रा॒त्रो विश्वा॑भिरू॒तिभिः॑ सु॒दास॑म् ।

प्र॒ पौरु॑कुत्सि॒ त्रसद॑न्युमात्रः॒ क्षेत्र॑साता वृ॒त्रह॑त्येषु॒ पूरु॑म् ॥३॥

भा०—हे (धृष्णो) शत्रुओं के धर्षण करने में समर्थ ! इन्द्र ! ऐश्वर्यवन् प्रभो ! तू (धृवता) अपने धर्षण सामर्थ्य या शत्रुनाशक बल से (विश्वाभिः ऊतिभिः) अपने समस्त रक्षाकारी सेनाओं से (सुदासं) शोभन, कल्याण दानशील, (वीतहव्यं) पवित्र अन्न के प्राप्त करने वाले पुरुष को (प्र अत्रः) उत्तम रीति से रक्षा करता है । और (क्षेत्रसाता) क्षेत्र के प्राप्ति के लिये ये (वृत्रहत्येषु) विघ्नकारी पुरुषों के विनाश करने के

कार्यों में (पूरुम्) प्रजा के पालक (पौरुकुत्सिम्) बहुत से शत्रु नाश करने वाले (त्रसदस्युम्) चोर डाकुओं में त्रासभय उत्पन्न करने वाले वीर पुरुषों की भी (प्र श्रवः) अच्छे प्रकार रक्षा करता है ।

त्यं नृभिर्नृमणो देववीतौ भूरीणि वृत्रा हर्यश्व हंसि ।

त्वं नि दस्युं चुमुरिं धुनिं चास्वापयो द्भतिये सुहन्तुं ॥४॥

भा०—हे (नृमणः) नेता पुरुषों द्वारा मनन, चिन्तन करने योग्य परम प्रभो ! हे (हर्यश्व) वेगवती महान् शक्तियों में व्यापक (देववीतौ) विजयशालि पुरुषों के एकत्र संग्राम में जिस प्रकार राजा (भूरीणि) बहुत से शत्रुओं का नाश करता है उसी प्रकार तू (देववीतौ) देवों, प्राणों के एकत्र भोग के अवसर में (भूरीणि) बहुत से (वृत्राणि) विघ्नों को (हंसि) विनाश करता है । तू ही (दस्युं) प्रजा के नाशक चोर डाकू को (चुमुरिम्) प्रजा के धनको हड़प जाने वाले, (धुनिम्) प्रजा को त्रास देने वाले पुरुषों को और (द्भतिये) शत्रु नाशक पुरुष के लिये उनको (सुहन्तु) अच्छे आयुध सम्पन्न होकर (नि अस्वापयः) सर्वथा सुलादे ।

तत्र च्यौत्नानि वज्रहस्त तानि नव यत् पुरो नवति च सद्यः ।

निवेशने शततमाविवेपीरिदं च वृत्रं नमुचिमुताहन् ॥५॥

भा०—हे (वज्रहस्त) ज्ञानरूप वज्र को हाथ में धारण करने हारे ! (तव) तेरे (तानि) वे (च्यौत्नानि) शत्रुओं को पद दलित करनेवाले बल हैं (यत्) जिनसे (नव नवति च पुरः) ६६ पुरों को नाश करने में (सद्यः) शीघ्र ही सफल होता है और (शततमा) सौवें (निवेशने) आश्रयस्थान में (अविवेपीः) प्राप्त हो जाता है और (वृत्रम्) ज्ञानके आवरण कारी (नमुचिम्) अमोच्य, अनादि वासनावन्धों को (अहन्) विनाश करता है ।

सना ता तं इन्द्र भोजनानि रातहव्याय द्राशुपे सुदासे ।

वृष्ये ते हरी वृषणा युनजिम व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाजम् ॥६॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (रातहव्याय) अन्नादि भोग्य पदार्थों के त्यागी (द्राशुपे) दानशील, (सुदासे) कल्याणमय दातव्य पदार्थों के स्वामी पुरुष के लिये (ते) तेरे (सना) अन्नादि सिद्ध (ता) वे २ अनेक (भोजनानि) भोग योग्य ऐश्वर्य पदार्थ हैं । हे (पुरुशाक) बहुत शक्तिमन् ! (ते वृष्ये) तुरू बलवान् परम पुरुष के प्राप्त करने के लिये (वृषणा) बलवान् (हरी) अश्वों के समान हरणशील वेगवान् प्राण और अपान दोनों को (युनजिम) योग द्वारा वश करता हूँ । और (ब्रह्माणि) ब्रह्म विषयक समस्त ज्ञान और कर्म (वाजम्) वीर्य को (व्यन्तु) प्राप्त करें ।

मा ते अस्यां सहसावन् पारष्टीवघाय भूम हरिवः परादै ।

त्रायस्व नोवृक्रेभिर्वह्यैस्तव प्रियासः सूरिपुं स्याम ॥७॥

भा०—हे (सहसावन्) शक्तिशालिन् ! हे (हरिवः) ज्ञानवन् ! शक्तिशाली पदार्थों के स्वामिन् ! (ते परिष्टौ) तेरी सेवा या आज्ञा पालन के कार्य में (परादै) उचित कर्त्तव्य का परित्याग करके (अघाय) अपराध के दोषी हम (मा भूम) न हों । हे इन्द्र ! तू (नः) हमारी (अवृक्रेभिः) भेड़ियों के समान, एवं चोर-स्वभाव से रहित, सौम्य और ईमानदार (ब्रह्मैः) सेना बलों से (त्रायस्व) रक्षा कर और हे राजन् ! हम (सूरिपु) विद्वानों के बीच में रहते हुए (तव) तेरे (प्रियासः) प्रिय होकर (स्याम) रहें ।

प्रियास इत् ते मयवृभिष्टौ नरो मदेन शरयो सखायः ।

नि तूर्वशं नि चाद्वं शिशीह्यतिश्चिन्वायुं शंस्यं करिष्यन् ॥८॥

भा०—हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! (ते अभिष्टौ) तेरी ही इच्छा की अनुकूलता में हम (ते प्रियासः सखायः) तेरे प्रिय मित्र (नरः) जन तेरे (शरणे) शरण में रहकर (मदेम) आनन्द प्रसन्न होकर रहें । तू (तुवंशं) हिंसकों के वश करने में समर्थ, (याद्वं) प्रयत्नशील, उत्साही पुरुष को (अतिधिग्वाय) पूजनीय पुरुषों के लिये (शंस्यं) प्रशंसनीय कार्य (करिष्यत्) करने की इच्छा करता हुआ (नि नि शिशीहि) खूब तीव्रण कर, उनको शत्रुओं के वध के लिये उत्तेजित कर ।

सद्यश्चिन्तु तं मघवन्नभिष्टौ नरः शंसन्त्युक्कयशासं उक्था ।

ये ते हवैभिर्वि पृणी रदाशन्नस्मान् वृणीष्व युज्याव तस्मै ॥६॥

भा०—हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! (ते अभिष्टौ) तेरी इच्छा और शासन में रहते हुए (उक्कयशासः) ज्ञान वाणियों का उपदेश करने वाले (नरः) नेता लोग (सद्यः चित्) सदा ही (उक्था) ज्ञानों का (शंसन्ति) उपदेश करते हैं । (ते हवैभिः) तेरे युद्धों, संग्रामों द्वारा (ये) जो विद्वान् पुरुष (पृणीन्) असुरों को (अदाशन्) वध करते हैं । हे वीर पुरुष (युज्याय) योग द्वारा प्राप्तव्य, (तस्मै) उसकी प्राप्ति के लिये (अस्मान् वृणीष्व) हमें वरण करो ।

एते स्तोमां नरां नृतम तुभ्यमस्मद्रथञ्चो ददतो मघानि ।

तेषामिन्द्र वृत्रहृत्ये शिवा भूः सखा च शूरोविता च नृणाम् ॥१०॥

भा०—हे (नृतम) नरोत्तम ! (तुभ्यम्) तेरे निमित्त (एते नरां स्तोमाः) ये स्तुति समूह या ये प्रजाओं के समूह (अस्मद्रथः) हमारे सन्मुख (मघानि ददतः) नाना ऐश्वर्यों का प्रदान करते हैं । हे इन्द्र ! (वृत्रहृत्ये) शत्रु के नाश करने में तू (तेषाम् शिवः) उनका कल्याणकारी (सखा) मित्र (भूः) हो और तू (शूरः) शूरवीर होकर (नृणाम्) प्रजाओं का (अविता च भूः) रक्षक हो ।

नू इन्द्र शूर स्तवमान ऊंती ब्रह्मजुतस्तन्वा वावृधस्व ।

उपं नो वाजान् मिमीह्युः स्तीन् यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ११

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यवान् ! हे (शूर) शूरवीर ! (ऊंती) रक्षा के लिये (स्तवमानः) हमसे स्तुति किया गया तू (ब्रह्मजुतः) ब्रह्म अर्थात् अन्नो द्वारा समृद्ध होकर (तन्वा) अपने शरीर अथवा विस्तृत शक्ति से (वावृधस्व) वृद्धि को प्राप्त कर । (नः) हमें (वाजान्) ऐश्वर्य और अन्न (उपमिमीहि) प्रदान कर, और हमें (स्तीन्) पुत्र पौत्र आदि प्रदान कर । हे देवगण ! राजपुरुषो ! (यूयं) आप लोग (सदा) सदा काल (स्वस्तिभिः) उत्तम साधनों से (नः पात) हमारी रक्षा करें ।

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

[३८] ईश्वर स्तुति प्रार्थना

१-३ न्युच्छन्वा ऋषिः । ४-६ इरिन्विदिः कान्वः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः ।
पठन्ते सूक्तम् ॥

आ यांदि सुपुमा हि त इन्द्र सोमं पिवा इमम् ।

एदं वर्हिः सदा मम ॥ १ ॥ ३० ८ । १७ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्रः) इन्द्र ऐश्वर्यवान् ! (आयाहि) तू आ । (ते हि सुपुम) तेरे लिये ही हन सोमरस, ऐश्वर्यवान् राष्ट्र ऐश्वर्य को और अर्घ्यात्म में सनाधिरस को तैयार करते हैं (इमन् सोमन् पिवा) इस सोमरस, 'सोम' अर्थात् राज्यपद का पानकर, भोग कर । (इदं मन वर्हिः) यह आसन के समान मेरा प्रजानय वृहत् राष्ट्र है । इस पर (आसद्ः) आकर विराजमान हो ।

आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वर्हितामिन्द्र केशिनां ।

उय ब्रह्माणि नः शृणु ॥ २ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! इन्द्र ! (त्वा) तुभ्यो (ब्रह्मयुजा) परब्रह्म महान् शक्ति के साथ योग द्वारा युक्त होने वाले (केशिना हरी) केशों वाले बौद्धों के समान रश्मियों वाले प्राण और अपान (त्वा वहताम्) तुम्हे प्राप्त करें । वृ (नः) हमारे (ब्रह्माणि) ब्रह्मज्ञान विषयक वेदमन्त्रों का (शृणु) श्रवण कर ।

ब्रह्माणिस्त्वा त्रयं युजासोमपामिन्द्र सोमिनः ।

सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ अ० ८ । १७ । १ ॥

भा०—(वयम् ब्रह्माणिः) हम ब्रह्म-वेद और ब्रह्मत्व के जाननेहारों विद्वान् लोग (युजा) योग अभ्यास द्वारा हे (इन्द्र) इन्द्र ! आत्मन् ! (सोमिनः) ब्रह्मरस रूप सोम को प्राप्त करने वाले और (सुतावन्तः) प्राप्त समाधि-रस से सम्पन्न होकर (सोमपाम्) समस्त सोमरस का पान या पालन करने वाले (त्वा) तेरी हम (हवामहे) स्तुति करते हैं ।

राष्ट्रपत्न्यं—हम (सोमिनः) सोम, राष्ट्र को धारण करने में समर्थ (सुतावन्तः) प्राप्त ऐश्वर्य या ज्ञान से युक्त (ब्रह्माणिः) विद्वान् ब्रह्मज्ञानी पुरुष अपने (युजा) सहयोग से (सोमपाम् त्वाम्) राष्ट्र के पालक तुभ्यो (हवामहे) स्तुति करते या तुम्हे आज्ञा करते हैं ।

इन्द्रमिदं गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिर्किणः ।

इन्द्रं वार्षारिणूपत ॥ ४ ॥ अ० १ । ७ । १ ॥

भा०—हे (गाथिनः) ब्रह्म-स्तुतियों का गान करनेहारों और (अर्केणः) अर्चनाशील विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (इन्द्रम् इत्) इन्द्र, ऐश्वर्यवान् आत्मा को ही (अर्केभिः) स्तुति वचनों से (बृहत्) महान् बतलाते हो । उसी (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् आत्मा को (वार्षाः) समस्त वेदवाणियों (अनूपत) स्तुति करती हैं ।

इन्द्र इन्द्रयोः सत्रा संमिश्रत् आ वचोयुजा ।

इन्द्रो वृजी हिरण्ययः ॥ ५ ॥ ऋ० १।७।२ ॥

भा०—(इन्द्रः इत्) ऐश्वर्यवान् ज्ञाता ही (वचोयुजा) वारो या
 वाक् शक्ति से बन्धे हुए (हयोः) हरणशील प्राण और अपान के (सत्रा)
 साथ २ (आ संमिश्रत्) सूत्र रचानिचा रहकर व्याप्त है । (इन्द्रः)
 ऐश्वर्यवान् ज्ञाता ही (वृजी) ज्ञान, वैराग्य द्वारा सतत बन्धनों को वर्जन
 करने के सामर्थ्य रूप वज्र से युक्त, खड्गहस्त, शत्रुदनचकारी राजा के
 समान (हिरण्ययः) अति अधिक रमणीय स्वरूप वाला, कान्तिमान्
 तेजस्वी है ।

इन्द्रो दीर्घाय चरुं च आ सूर्यं रोहयद् द्विवि ।

वि गोभिरद्रिमैरयत् ॥ ६ ॥ ऋ० १।७।३ ॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, परमेश्वर (दीर्घाय) सुदीर्घ,
 सुदूर देश तक (चरुं) देखने के लिये ही (सूर्यम्) सूर्य को (द्विवि
 आरोहयत्) दौ, आकाश में बहुत ऊंचे स्थापित करता है । और वही
 (गोभिः) अपनी किरणों से (अद्रिम्) नैष को (वि पुरयत्) विविध
 प्रकार से चलाता है ।

अध्यात्म में—(इन्द्रः) ज्ञानी ज्ञाता, पुरुष दीर्घ दृष्टि को प्राप्त
 करने के लिये (सूर्यम्) सर्वनेत्रक सूर्य के समान तेजस्वी प्राण को (द्विवि)
 नृर्घा स्थान में चढ़ा लेता है । और वही (गोभिः) प्राणों के बल से
 (अद्रिम्) न विदीर्ण होने वाले अविनाशी ज्ञाता को ही (वि पुरयत्)
 विविध रूपों से चलाता है ।

राजा के पद में—इन्द्र राजा (दीर्घाय चरुं) दीर्घ दर्शन, दूरदर्शन
 के लिये (सूर्यं द्विवि आरोहयत्) सूर्य के समान ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष के
 पद पर स्थापित करता है । और (गोभिः) अपनी आज्ञाओं के

(आ दिम्) अखण्ड राष्ट्र का या सेनाबल का (वि पेरयत्) विविध रीति से संचालन करता है ।

[३६] ईश्वर और राजा ।

१ मधुच्छन्दाः २-५ इरिम्बिठिश्च ऋषी । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः पञ्चर्च सूक्तम् ॥

इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनैभ्यः ।

अस्माकमस्तु केवलः ॥१॥ ऋ० १ । ७ । १० ॥

भा०—(वः जनैभ्यः) तुम प्रजाजनों के लिये (विश्वतः परि) सब से ऊपर विद्यमान राजा के समान सर्वहितकारी (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर की हम (परि हवामहे) स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वही (केवलः) केवल एकमात्र सुख स्वरूप (अस्माकम् अस्तु) हमारा आश्रय हो ।

व्यन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना ।

इन्द्रो यदाभिनद् बलम् ॥२॥ ऋ० ८ । १४ । ७ ॥

भा०—(इन्द्रः) इन्द्र वायु (यत्) जब (बलम्) आवरणकारी मेघ को (अभिनत्) भेदता है, छिन्न भिन्न करता है और जब (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजा (बलम्) नगर रोंधने वाले शत्रु को छिन्न भिन्न करता है तब वह मानो (सोमस्य मदे) सोम, सर्वप्रेरक सूर्य के हर्ष में वायु (अन्तरिक्षम् वि अतिरित्) अन्तर्गत् को व्याप लेता है । और इसी प्रकार वह राजा (सोमस्य मदे रोचना) राष्ट्र के समृद्धि के हर्ष में तृप्त होकर, अति कान्तिमान होकर (अन्तरिक्षम्) शत्रु और अपने बीच के समस्त राजानुष को (वि अतिरित्) विविध उपायों से पराजित करता है ।

अध्यात्म में—(इन्द्रः यत् बलम् अभिनत्) इन्द्र, ज्ञानी आत्मा जब आवरणकारी अज्ञान रूप तम का नाश करता है तब (सोमस्य मदे रोचना)

सोम, सर्वभरक ब्रह्मरस के हर्ष से अति उज्ज्वल होकर (अन्तरिक्षम्) अपने अन्तःकरण को (वि अनिरत्) विविध रूप से चशो करता है ।

उद् गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन् गुहा सतीः ।

॥ अर्वाञ्चिनुनुदे वलम् ॥३॥ अ० ८।१४।८ ॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्य सम्पन्न, परमेश्वर (अङ्गिरोभ्यः) ज्ञानवान् पुरुषों के लिये (गुहा सतीः) गुहा, अन्तःकरण में विद्यमान (गाः) वेद-वाणियों को (उद् आविः कृण्वन्) ऊपर प्रकट करता हुआ ही (वलम्) अन्तःकरण को घेरने वाले अज्ञान को (अर्वाञ्चिनुनुदे) नीचे गिरा देता है । दूर कर देता है ।

अध्यात्म योगी—(अङ्गिरोभ्यः गा आविः कृण्वन्) अङ्ग में, देह में रसरूप से प्रवाहित होने वाले प्राणों से (गुहा सतीः) अन्तःकरण में विद्यमान (गाः) वाणियों को या ज्ञान वृत्तियों को प्रकट करता हुआ आवरणकारी अज्ञान को नाश कर देता है । राजा (अङ्गिरोभ्यः) अंगारों के समान तीव्र दाहक वीर भटों को अपने भीतर विद्यमान अज्ञान देकर (वलम्) नगर रोधी शत्रु को मार गिराता है ।

इन्द्रेण रोचना दिवो इल्हानि दृंहितानि च ।

स्थिराणि न पराणुदे ॥४॥ अ० ८।१४।९ ॥

भा०—(इन्द्रेण) परमेश्वर ने (दिवः) आकाश के (रोचना) प्रकाशमान सूर्य (इल्हानि) दृढ़, अभेद्य वनाय और (दृंहितानि च) उन को दृढ़ता से स्थापित किया है । वे अपने स्थान और मार्ग से नहीं विचलित होते । वे (न पराणुदे) फिर न परे हटने के लिये ही (स्थिराणि) स्थिर किये गये हैं । इसी प्रकार अध्यात्म में—(दिवः) ज्ञानमार्ग में (रोचना) प्रकाशित सिद्धान्त ज्ञानी आत्मा स्थिर सत्त्वों को स्थापित करता है । और वे (न पराणुदे स्थिराणि) न त्यागने के लिये स्थिर किये जाते-

हैं । राज-पक्ष में—(इन्द्रेणःदिवः रोजना)—राजा अपने उत्तम राज्य के उच्च कोटि पर विराजमान पदाधिकारियों को दृढ़ मजबूत बनाता और स्थिर नियत करता है । (न पराशुदं)—शत्रुओं से पराजित न होने के लिये ही उनको स्थिर नियत करता है ।

अपामूर्मिर्मदंनिवृ स्तोमं इन्द्राजिरायते ।

वि ते मदां अराजिपुः ॥५॥ ऋ० ८ । १४ । १० ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! प्रभो ! (स्तोमः) तेरा स्तुति समूह अथवा तेरा वीर्य, सामर्थ्य अथवा तेरा बड़ा स्वरूप (मदन्)—अति हर्षित मानो (अपामूर्जमिः इव) जलों के तरङ्ग के समान (अनिरायते) वेग से बराबर बढ़ा करता है । (ते मदाः) तेरे हर्ष या आनन्द तरङ्ग (वि अराजिपुः) विविध रूपों में प्रकट होते हैं ।

वीर्यं वै स्तोमाः । तां० २ । १ । ४ ॥ यज्ञो वै स्तोमः ॥ श० ८ । १ । १० ॥

सदः—यो वा अचिः सदो यः सामन् रसो वै सः श० ४ । २ । ३५ ॥

[४०] आत्मा और राजा ।

मधुच्छन्दा ऋषिः । मरुतो देवता । गायत्र्यः । वृचं सूक्तम् ॥

इन्द्रं सं हि दृक्षसे संजग्मानो अविभ्युषां ।

मन्दू संमानवर्चसा ॥१॥ ऋ० १ । ६ । ७ ॥

भा०—हे वीर पुत्र ! (अविभ्युषा) न डरने वाले, निर्भीक (इन्द्रेण) राजा या सेनापति इन्द्र के साथ (संजग्मानः) संगत होकर तू (सं हि दृक्षसे) बड़ा अच्छा दिखाई देता है । तुम दोनों (समान वर्चसा) एक समान तेजस्वी होकर (मन्दू) अति आनन्द देने वाले हो ।

अध्यात्म में—हे जीव तू (अविभ्युषा) अभय परमेश्वर के साथ (संजग्मानः सं हि दृक्षसे) संगत होकर बड़ा अच्छा प्रतीत होता है तुम

दोनों जीव परमेश्वर समान तेजस्वी होकर (मन्दू) अन्तःकरण को वृष करने वाले हैं ।

अनवद्यैरभिद्युभिर्मखः सहंस्वदर्चति ।

गणौरिन्द्रस्य काम्यैः ॥२॥ ऋ० १ । ६ । ८ ॥

भा०—ऐश्वर्यमय राष्ट्र रूप, (सहस्वत्) अति बलशाली (मखः) यज्ञ (इन्द्रस्य काम्यैः) इन्द्र को अति प्रिय लगने वाले (अनवद्यैः) दोष रहित, अनिन्द्य, (अभिद्युभिः) तेजस्वी (गणैः) गणों सहित विराजमान (इन्द्रस्य) इन्द्र की (अर्चति) स्तुति करता है । अथवा यज्ञ इन्द्र को प्रिय लगने वाले (गणैः) ऋचा समूहों से ठसकी स्तुति करता है ।

एष वै मखो य-एष तपति । श० १४ । १ । ३ । ५ ॥

(सहस्वत् मखः) शत्रु को पराजय करने वाले बल से युक्त सूर्य के समान तापकारी सेनापति (अनवद्यैः अभिद्युभिः काम्यैः गणैः सह) निष्ठाप, तेजस्वी, कान्तिमान् भटगणों के साथ (इन्द्रस्य अर्चति) इन्द्र का ही आदर सत्कार करता है ।

आद्रह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे ।

दधाना नाम यज्ञियम् ॥३॥ ऋ० १ । ६ । ४ ॥

भा०—(आत्) देह से मुक्त होजाने के-पश्चात् (अह) भी (स्व-धाम् अनु) अपने शरीर धारण सामर्थ्य, (स्व-धाम्) अपनी धारित प्रवृत्ति या इच्छा के (अनु) अनुसार वे (यज्ञियं) अपने आत्मानुरूप (नाम) स्वरूप को (दधाना) धारण करते हुए (पुनः) फिर भी (गर्भत्वम्) गर्भ को (ऐरिरे) प्राप्त होते हैं । पुनः जन्म लेते हैं ।

[४१] आत्मा ।

गोत्रम ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । वृत्तं यजुः ॥

इन्द्रो दधीचो अस्थमिर्वृत्राण्यप्रतिष्कृतः ।

ज्वानं नवतीर्नवं ॥१॥ ऋ० १ । ८४ । १३ ॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् आत्मा (दधीचः अस्थमिः) ध्यान-
शील मन या वीर्य धारण में समर्थ शरीर की (अस्थमिः) रोगादि विघ्नों
को दूर फेंकने वाली शक्तियों से (अप्रतिष्कृतः) किसी से भी पराजित न
होकर (नव नवतीः) ६६ (वृत्राणि) परिवर्तनशील वर्षों को (ज्वान-
गच्छति) व्यतीत करता है । अर्थात् यह जीव ध्यान योग से और उत्तम
शरीर के बल वीर्य की रक्षा से ६६ वर्ष व्यतीत कर १०० वर्ष का आयु
व्यतीत करता है ।

अथवा—योग पक्ष में—(इन्द्रः) इन्द्र, आत्मा (दधीचः) ध्यान द्वारा
ग्राह्य प्रभु की (अस्थमिः) तमोनाशक शक्तियों द्वारा (अप्रतिष्कृतः)
किसी से पराजित न होकर (नव नवतीः=६ × ६०=१८०) १८० (वृ-
त्राणि) ज्ञान के आवरणकारी विघ्नों का (ज्वान) नाश करता है ।

आत्मा की शक्ति प्राकृतिक तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार की
त्रिकाल भेद से ६ प्रकार की । प्रभाव, मन्त्र, उत्साह इन तीन शक्ति भेद
से २७ प्रकार की । पुनः सत्व, रजस्, तमस् इन तीनों के सम विपक्ष भेद
से ८१ प्रकार की, दश दिशा भेद से ६८० प्रकार की होजाती है । इतनी
शक्तियों से आत्मा इतनी ही व्युत्थान वृत्तियों का नाश करता है ।

इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्रितम् ।

तद् विदच्छर्याणावति ॥२॥ ऋ० १ । ८४ । १४ ॥

भा०—(अश्वस्य) व्यापक आत्मा का (यत्) जो (शिरः) शिर
के समान मुख्य अंश (पर्वतेषु) पर्व वाले, या पोरु वाले शरीर या भेद
दण्ड में (अपश्रितम्) अज्ञानियों की दृष्टि से बहुत दूर अज्ञात रूप में
स्थित है उसको (इच्छन्) प्राप्त करना चाहता हुआ ध्यान योगी पुरुष

(तत्) उसको (शर्पणावतिः) शर्याणा अर्थात्, चेतना; से सम्पन्न अपने हृदय मस्तक भाग में ही ध्यान, योग, से: (विद्म्) उसका प्राप्त करता है ।

दधीचि की कथा का रहस्योद्घेद देखो साम० अ० । प्र० ३।२।८ ।
अवि० सं० ७४१:। १ ॥

अत्राह गोरमन्वतु नाम त्वष्टुरपच्यम् ।

इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ ऋ० १।८४।१५ ॥

भा०—जिस प्रकार (अत्र) इस (चन्द्रमसः गृहे) चन्द्रमा के गृह, लोक में (त्वष्टुः) उत्पादक सूर्य के (गोः) प्रकाश किरण का (अपीच्यम्) दूर गया हुआ अंश ही (नाम) विद्यमान है उसी प्रकार (चन्द्रमसः गृहे) चन्द्रमा के स्थान में अर्थात् आल्हादजनक सोम चक्र में भी (त्वष्टुः) त्वष्टा अज्ञान के नाशक आत्मारूप सूर्य के (गोः) प्रकाशक (अपीच्यं नाम) सुगुप्त, स्वरूप प्राप्त है (इत्था) इस प्रकार (अत्र) इस विषय में विद्वान्गण (अमन्वत) जानते हैं ।

गृहस्थ पक्ष में—(अत्र ह चन्द्रमसः गृहे) इस शरीर में चन्द्रमा अर्थात् आल्हादजनक के मार्ग में (त्वष्टुः गोः) संगमकारी वीर्यवान्, त्वष्टा, विधाता पुरुष का ही (अपीच्यम् नाम) वीर्य रूप से प्राप्त अंश है जो पुत्ररूप से उत्पन्न होता है । (इत्था अमन्वत) ऐसा ही विद्वान् मानते हैं । इसका औपनिषादिक विवरण देखो साम० सं० १४७ ॥

अथवा योगियों के पक्ष में—(अत्र ह चन्द्रमसः गृहे) इस सोम चक्र में (गोः त्वष्टुः) न्यापक सर्वज्ञात् के कर्त्ता परमेश्वर के (अपीच्यं नाम) भीतर छुपे या अति सुन्दर स्वरूप को (इत्था) साक्षात् वह इस प्रकार का है ऐसा निश्चय पूर्वक (अमन्वत) ज्ञान करते हैं, साक्षात् करते हैं ।

[४२] ईश्वर राजा और आत्मा ।

कुन्नुनिः काण्व ऋःपि । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । वृत् नृत्तम् ॥

वाचंस्रष्टापदीस्रहं नवस्रक्तिमृतस्पृशम् ।

इन्द्रात् परि तन्वम्/ ममे ॥२॥ ऋ० ८ । ७६ । १२ ॥

भा०—(अष्टापदीम्) आठ पदों, ज्ञानस्थानों वाली और (नवस्रक्तिम्) नव प्रकार की रचना वाली, (अतस्पृशम्) सत्य का ज्ञान कराने वाली, (तन्वम्) विस्तृत (वाचन्) वाणी को मैं (इन्द्रात्) ज्ञानेश्वर्यवान्, इन्द्र परमगुरु और परमेश्वर से (परिममे) पूर्णतया ज्ञान करता हूँ।

अष्टौ पदानि ज्ञान स्थानानि यस्या सा अष्टापदी । वेदा उपवेदाश्चेत्यष्टौ नवस्रक्तयो रचनाः यस्याः सा । शिक्षा कल्प व्याकरण निषण्डु निरुक्तं इन्द्रो ज्योतिषं धर्मशास्त्रं मीमांसा चेति नवस्रक्तयः ।

अनुं त्वा रोदसी उभे ऋत्तमाणमकृपताम् ।

इन्द्र यद् दस्युहाभवः ॥२॥ ऋ० ८ । ७६ । ११ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! प्रभो ! (यद्) जब तू (दस्युहा) दस्यु, दुष्ट पुरुषों का नाश कर रहा (अभवः) होता है तो (उभे रोदसी) दोनों लोक (ऋत्तमाणम् त्वा अनु) शत्रु का कर्षण, विनाश या उन्मूलन करते हुए तेरे अनुकूल होकर (अकृपताम्) सदा सामर्थ्यवान् बने रहते हैं।

उत्तिष्ठन्नो जसा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः ।

सोममिन्द्र चमू सुतम् ॥३॥ ऋ० ८ । ७६ । १० ॥

भा०—जिस प्रकार (सुतम्) तैयार किये हुए रसको (पीत्वी) पान करके कोई वीर पुरुष (उत्तिष्ठन्) उठता हुआ (शिप्रे अवेपयः) अपने

दोनों दों वृत्त होकर हिलाता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! राजन् ! तू (चमू) अपनी और शत्रु की दो सेनाओं के बीच संग्राम द्वारा (सुतम्) प्राप्त किये हुए (सोम) ऐश्वर्यप्रद राष्ट्र या राजपद को (पीत्वी) प्राप्त करके (शिप्रे) अपने बलशाली सेनाओं को (श्रोजसा) अपने बल पराक्रम से उठता हुआ (अवेपयः) कंपा ।

परमेश्वर या आत्मा के पक्ष में—(चमू) प्राण और अपान दोनों के बीच में (सुतम्) ध्यान योग से प्राप्त (सोमम्) ब्रह्मरस को पांन करके हे इन्द्र आत्मन् (श्रोजसा उत् तिष्ठन्) अपने ज्ञानबल से ऊपर मुक्ति भार्ग में उठता हुआ (शिप्रे अवेपयः) बाह्य और आभ्यन्तर कर्म बन्धनों को कंपाकर भाड़ देता है ।

[४३] परमेश्वर से अभिलाषा योग्य ऐश्वर्य की याचना ।

त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । वृत्तं सक्तम् ॥

भिन्धि विष्टा अप द्विपः परि वाधो जुही मृधः ।

वसुं स्पृहं तदा भर ॥१॥ ऋ० ८ । ४५ । ४० ॥

भा०—हे राजन् ! तू (विश्वाद्विपः) समस्त अप्रीतिकर, द्वेष युक्त शत्रुओं को (अप भिन्धि) दूर ही से भेद डाल । उनमें भेद नीति का प्रयोग कर । उनको फोड़ डाल । और (वाधः) बाधा या पीड़ा पहुंचाने वाले (मृधः) संग्रामकारी सेनाओं को (परि जहि) सब प्रकार से विनाश कर और (स्पृहं) अभिलाषा करने योग्य (तत् वसु) उन नाना ऐश्वर्य को (आ भर) प्राप्त करा ।

यद् वीलावर्चन्द्रं यत् स्थिरे यत् पशानि पराभृतम् ।

वसुं स्पृहं तदा भर ॥२॥ ऋ० ८ । ४५ । ४१ ॥

भा०—(यत्) जो ऐश्वर्य, बल, धैर्य और ज्ञान (वीला) वीर्यवान् बलवान् पुरुष में (यत् स्थिरे) और जो बल या ऐश्वर्य स्थिरता रहने वाले और

(यद्) जो ज्ञान ऐश्वर्य (पर्शाने) विवेकशील विद्वान् में (परामृतम्) दूर २ देशों से ला ला कर संचित होता है (तन्) वह नाना प्रकार का (स्प्राहं वसु) अभिलाषा योग्य ऐश्वर्य हमें (आभर) प्राप्त करा ।

यस्य ते विश्वमानुषो भूरर्द्धत्तस्य वेदति ।

वसुं स्प्राहं तदा भर ॥३॥ अ० ८ । ४५ । ४२ ॥

भा०—हे प्रभो ! (यस्य) जिस (ते दत्तस्य) तेरे दिये दान (विश्व-मानुषः) समस्त संसार का मननशील जीव (वेदति) ज्ञानता और प्राप्त करता है (तत्) उस (स्प्राहं वसु) अभिलाषा योग्य ऐश्वर्य को (आभर) हमें प्राप्त करा ।

[४४] सम्रट् ।

इरिन्विठिः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । तृचं सूक्तम् ॥

प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं रतोत्ता नव्यं गीर्भिः ।

नरं नृपाहं मंहिष्ठम् ॥१॥ अ० ८ । १६ । १ ॥

भा०—हे विद्वानों ! (चर्षणीनाम् सम्राजम्) समस्त मनुष्यों के सम्राट् (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान्, (नव्यं) स्तुति योग्य, (नरं) सबके नेता, (नृपाहं) सब मनुष्योंको अपनं बल से विजय करने वाले, (मंहिष्ठं) सबसे महान् (गीर्भिः) वाणियों द्वारा (प्र स्तोत) उच्चम रीति से स्तुति करो या उसको (नृपाहं मं हिष्ठं नव्यं इन्द्र) सब मनुष्यों को पराजय करने में समर्थ, स्तुत्य, महान् नेता को (चर्षणीनां सम्राजं प्रस्तोत) सब मनुष्यों के ऊपर सम्राट् रूप से प्रस्तुत करो उसको सम्राट् बनाओ)

यस्मिन्नुक्थान्ति रणयन्ति विश्वानि च श्रवस्या ।

अपामत्रो न समुद्रे ॥२॥ अ० ८ । १६ । २ ॥

भा०—(समुदे) समुद्र में (अपाम्) जलों का (अत्रः न) जिस प्रकार प्रवाह आता है उसी प्रकार (यस्मिन्) जिस परमेश्वर या प्रभु में

ही (त्रिधा नि) : समस्त (श्रवत्या) : कीर्तिजनक (उक्त्यानि) वचन (रयत्यन्ति) लगाते हैं, ठीक उपयुक्त होते हैं ।

तं सुस्तुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे कृत्नुम् ।

महो वाजिनं सनिभ्यः ॥३॥ अ० ८ । १६ । ३॥

भा०—(तं) उस (ज्येष्ठराजम्) सबसे बड़े महाराज (भरे कृत्नुम्) संग्राम में शत्रुओं के नाशकारी (महः वाजिनम्) बड़े भारी बलवान्, ऐश्वर्यवान् पुरुष को (सनिभ्यः) बड़े-दोनों के लिये (सुस्तुत्या) उत्तम स्तुति द्वारा (आ विवासे) उसकी सेवा करता हूँ । उसका गुण गान करता हूँ ।

[४५] आत्मा परमात्मा

देवरातः शुनः शेष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गावन्धः । त्वं दत्तम् ॥

अयमुं ते समंतसि कपोतं इव गर्भधिम् ।

वचस्ताच्चिन्न ओहसे ॥१॥ अ० १ । ३० । ४॥

भा०—(अयमुं ते) यह साधक आत्मा तेरी ही है । (कपोतः इव) जित प्रकार (कपोत) कपोत, क्यूतर (गर्भधिम्) गर्भ धारण करने में समर्थ कपोती को (सम अतसि) समान रूप होकर प्रेम से उस तक पहुंचता और उससे संग करता है उसी प्रकार तू हे इन्द्र ! तेरी शक्तिको अपने भीतर धारण करने वाले को (सम अतसि) भली प्रकार प्राप्त हो । और तन्मय हो । (त्वं चित्) उसी प्रकार (नः वचः) हमारे वचन को भी (ओहसे) तू प्राप्त हो, उसको उसी प्रकार से प्रेम पूर्वक श्रवण कर ।

स्तोत्रं रात्रानां पते गित्राहो वीरु यस्य ते ।

विभूतिरस्तु सुनृतां ॥२॥ अ० १ । ३० । ५॥

भा०—हे (राधांनां पते) ऐश्वर्यो के स्वामिन् ! हे (वीरः) वीर ! वीर्यवान् ! (यस्य) जिस (ते) तेरा (स्तोत्रं) स्वरूप ही स्तुति करने योग्य है उस तेरी (विभूतिः) विविध प्रकार की ऐश्वर्य सम्पदा ही (सूनुता) शुभ सत्य चाणी स्वरूप (अस्तु) हो । अर्थात् परमेश्वर सर्वशक्तिमान् सर्वेश्वर्यवान् और सत्य ज्ञानमय है इसी प्रकार आत्मा भी विभूतिमय वीर्यवान् सत्य ज्ञानमय हो ।

ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेस्मिन् वाजे शतक्रतो ।

समन्येषु ब्रवावहै ॥३॥ऋ० १ । ३० । ६ ॥

भा०—हे (शतक्रतो) सैकड़ों प्रजाओं और कर्मों से युक्त शतक्रतो ! तू (अस्मिन् वाजे) इस संग्राम, या बलयुक्त कार्य में (नः ऊतये) हमारा रक्षा के लिये (ऊर्ध्वः) सर्वोपरि विराजमान होकर (तिष्ठ) रहें । हम दोनों गुरु शिष्य और स्त्री पुरुष और प्रजा राजा दोनों (अन्येषु) सब प्रजाजन अन्य शत्रुओं के निवारणार्थ (सं ब्रवावहै) परस्पर मिलकर एक दूसरे को उपदेश करें, कथोपकथन करें ।

[४६] आत्मा और राजा

प्रयोतारं वस्यो अच्युता कर्तारं ज्योतिः समर्त्सु ।

सासहवासं युधामित्रान् ॥१॥ऋ० ८ । १६ । १० ॥

भा०—(वस्यः) ऐश्वर्य को (अच्युत) प्राप्त करने के लिये (प्रयोतारम्) उत्तम नायक, (समर्त्सु) संग्रामों और एक आनन्दोत्सवों में (ज्योतिः कर्तारम्) ज्ञान प्रकाश और तेज के दिखाने वाले, (युधा) युद्ध द्वारा (अभित्रान्) शत्रुओं को (सासहवासम्) पराजय करने हारे पुरुष को हम (अच्युत) प्राप्त करें ।

अध्यात्म में—(वस्यः) देह में बसने वाले प्राप्त रूप वस्तुओं में सब से श्रेष्ठ 'वसीयस्' मुख्य प्राण के प्रयोता आत्मा है, जो अति समाधिरस के

अवसरों पर परम आन्यन्तर ज्योति को उत्पन्न करता है, (युधा) विषय भावना द्वारा राग-द्वेषादि शत्रुओं को पराजित करता है उसको (अच्छ.) साक्षात् करो। परमेश्वर-समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाला, समस्त ज्योतियों का उत्पादक, वायक शत्रुओं का दहन करता है उसको प्राप्त करो।

स नु परिः पारयाति स्वस्ति त्वा पुंरुद्रुतः ।

इन्द्रो विश्वा आते द्विपः ॥२॥ ४० ८। १३। ११ ॥

भा०—(सः) वह (परिः) समस्त मनोरथों को और समस्त जगत् को पूरे करने वाला एवं स्वयं पूर्ण, सर्वव्यापक परमेश्वर, (पुरुद्रुतः) प्रजाओं द्वारा याद किये जाने योग्य (नः) हमें (त्वा) जैसे केवट नाव-से नदी के पार कर देता है उसी प्रकार (स्वस्ति) सुखपूर्वक (विश्व आते द्विपः) समस्त शत्रुओं से (अति पारयाति) पार करे।

स त्वं न इन्द्र वाजेभिर्दशस्या च गानुया च ।

अच्छं च नः सुन्नं नेपि ॥३॥ ४० ८। १३। १२ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्! (त्वं) तू (नः) हमें (वाजेभिः) अपने पराक्रमों, वीर्यों और ऐश्वर्यों से (दशस्य) रक्षा कर। और (नः) हमें (गानुया च) उत्तम नागों से (सुन्नं) उत्तम धन, सुन्वः (अच्छं नेपि च) प्राप्त करने के लिये ले चक, नागों दर्शा।

[४७] ईश्वर

१-३ वृक्षः । ४-६, १०-१२ नहुच्छेन्द्रः । ७-९ इरिन्द्रिः । १३-२१

प्रकन्दः । इन्द्रो देवता । गानुयः । स्वस्तिस्त्वं सुन्नं ॥

तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे ।

स वृषां वृषभो भुवत् ॥३॥ ४० ८। १३। ९ ॥

भा०—हम लोग (वृत्राय) बड़े भारी आवरणकारी अज्ञान रूप शत्रु के (हन्तवे) नाश करने के लिये (तम् इन्द्रम्) उस ऐश्वर्यवान् इस समस्त जगत् के दृष्टा, अथवा उस साक्षात् दर्शन देने वाले के (वाक् यामसि) बल को बढ़ावें । (सः) वह (वृषा) समस्त सुखों का वर्षण करने वाला, बलवान् (वृषभः) वृषभ के समान सबका भार उठाने वाला बड़ा बलशाली (भुवत्) सर्वत्र विद्यमान है ।

इन्द्रः स दामने कृत औजिष्ठः स मदे हितः ।

द्युम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥२॥ ऋ० ८ । ९३ । ८ ॥

भा०—(इन्द्रः सः) ऐश्वर्यवान्, वह साक्षात् दर्शनीय परमेश्वर ही (दामने) समस्त पदार्थों के दान देने के लिये (कृतः) बना है । (सः) वह (मदे) परमानन्द रस में (हितः) विद्यमान ही (औजिष्ठः) सब से बड़ा शक्तिशाली, पराजिती है । (सः) वह (द्युम्नी) बड़ा ऐश्वर्य वाला और (सोम्यः) सोम, राष्ट्र के प्राप्त करने योग्य राजा के समान् (सोम्यः) सर्वानन्द, रसमय, सबका प्रेरक और उत्पादक है ।

गिरा वज्रो न संभृतः सवलो अनपच्युतः ।

वृवृक्ष ऋत्रो अस्तृतः ॥ ३ ॥ ऋ० ८ । ९३ । ९ ॥

भा०—जो (गिरा) वाणी से मानो (वज्रः न) वज्र, विजुली की कड़क के समान अति भयंकर, (संभृतः) समस्त ऐश्वर्यों और शक्तियों से सम्पन्न, (सवलः) बलवान् (अनपच्युतः) कभी पराजित न होने वाला (अस्तृतः) कभी न मारा जाने वाला नित्य अविनाशी (ऋत्रः) सब शत्रुओं का नाशक होकर (ववृक्षे) जगत् और राष्ट्र के भार को धारण करता है ।

इन्द्रमिदं गाथिनां बृहदिन्द्रं मर्कैर्भिरर्किणः । इन्द्रं वाणीर नूपत ॥२॥ इन्द्र इन्द्रयोः सत्त्वा संमिश्र आ वक्ष्येयुजां । इन्द्रा

वृज्जां हिरण्ययः ॥ १५ ॥ इन्द्रो दीर्घाय चक्षुष आ सूर्य रोह्यद्
दिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत् ॥ १६ ॥ ऋ० १ । ७ । १-३ ॥

भा०—(४-७) तीनों मन्त्रों की व्याख्या देखो का० २० । ३२ ।
४-६ ॥

आ यांदि सुपुमा हि त इन्द्र सोमे पित्रा इमम् । एदं इहिः
सदो मम् ॥ ७ ॥ आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वहनमिन्द्र केशिनां ।
उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥ ८ ॥ ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोमपामि-
न्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे ॥ ९ ॥ ऋ० ८ । १७ । १-३ ॥

भा०—(७-९) तीनों मन्त्रों की व्याख्या देखो का० २० । ३ । ३-३
तथा २० । ३२ । १-३ ॥

युञ्जन्ति ब्रह्मस्यैष चरन्तं परि तम्भुषः । रोचन्ते रोचनां
दिवि ॥ १० ॥ युञ्जन्त्यस्य काम्यां हरी विपक्षसा रथं । शोणां धृष्ण
नृवाहता ॥ ११ ॥ कृतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुप
ङ्गिरजायथाः ॥ १२ ॥ ऋ० १ । ६ । १-३ ॥

भा०—(१०—१२) तीनों मन्त्रों की व्याख्या देखो का० २० ।
२६ । ४-४ ॥

उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वायं सूर्यम्
॥ १३ ॥ अपत्ये तायवां यथा नक्षत्रा यन्त्यक्षुभिः । सुराय विश्व
चक्षुसे ॥ १४ ॥ अदृशन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनां अनु । आ
जन्तो अग्नयो यथा ॥ १५ ॥ ऋ० १ । ५० । १-९ ॥

भा०—(१३—१५) तीनों मन्त्रों की व्याख्या देखो का० १३ ।
२ । १६ -२४ ॥

तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य ।

विश्वमा भांसि रोचन ॥१६॥ अ० १ । ५० । ६ ॥

भा०—हे (सूर्य) सबके प्रेरक और उत्पादक प्रभो ! तू (तरणिः) सबको पार तराने वाला, (विश्वदर्शतः) विश्व का दृष्टा, सबको दर्शनीय और (ज्योतिष्कृत् असि) सूर्य के समान ही भीतर भी प्रकाश करने हारा और समस्त सूर्यादि ज्योतियों का उत्पादक (असि) है । हे (रोचन) समस्त संसार के प्रकाशक ! प्रकाशस्वरूप ! तू (विश्वम् आभासि) समस्त विश्व को प्रकाशित करता है और सर्वत्र प्रकाशमान है ।

प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ्हुदेषि मानुषीः ।

प्रत्यङ् विश्वं स्वर्दिशे ॥ १७ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! तू (देवानां विशः) देवों, विद्वानों और दिव्य सूर्यादि नक्षत्र लोकों में विद्यमान एवं उत्तम गुणों वाली (विशः) प्रजाओं के (प्रत्यङ्) प्रति और (मानुषीः विशः प्रत्यङ्) मननशील मानुष प्रजाओं के प्रति और (विश्वं प्रत्यङ्) समस्त संसार के प्रति साक्षात् (दृशे) दर्शन देने के लिये (स्वः) सुख स्वरूप ही हो । अर्थात् विद्वान्, मननशील सर्व साधारण प्रजाओं को भी साक्षात् दीप्ति जाते हो । (स्वः) तुम सदा सुखमय मोक्षस्वरूप ही हो ।

येनां पावक चक्षसा भुरग्यन्तं जनां अनु ।

त्वं वरुण पश्यसि ॥१८॥ अ० १ । ३० । ६ ॥

भा०—हे (पावक) परम पावन अग्नि के समान सबके शोधक (येन) जिस (चक्षसा) दयामय चक्षु से (त्वं) तू हे (वरुण) सर्वदुःखकारक ! सदा (पश्यसि) देखा करता है उसी दयादृष्टि से (जनान् भुरग्यन्तम् अनु) समस्त प्राणियों के पालक पुरुष को भी (पश्यसि) देखता है ।

वि द्यामंषि रजस्पृध्वहर्मिमानो अहृभिः ।

पश्यं जन्मानि सूर्य ॥१६॥ अ० १ । ५० । ७ ॥

भा०—हे (सूर्य) सूर्य ! सबके प्रेरक, उत्पादक, सूर्य के समान तेज-
स्विन् ! सूर्य जिस प्रकार (अहः) दिनको (अहृभिः) रात्रियों के साथ
(मिमानः) बनाता हुआ (धाम) आकाश और (पृथु) विशाल (रजः)
अन्तरिक्ष को (वि एषि) विविध प्रकार में व्यापता है और (जन्मानि पश्यन्)
समस्त उत्पन्न होने वाले प्राणियों को देखता है या अपने ही प्रतिदिन के
जन्मों को देखता है उसी प्रकार हे परमेश्वर महान् आत्मन् ! तू भी (अ-
हृभिः) प्रलयकाल रूप रात्रियों से (अहः) ब्राह्म दिन, सर्ग काल को
(मिमानः) मापता या परिमित करता हुआ (द्याम्) इस विशाल
आकाश को और (पृथु रजः) विशाल अन्तरिक्ष को भी (वि एषि) विविध
सृष्टियों से व्यापता है और (जन्मानि) उत्पन्न लोकों को और अपने ही
बनाये नाना सगों को भी (पश्यन्) देखता है ।

सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य ।

शोचिष्केशं विचक्षणम् ॥२०॥ अ० १ । ५० ८ ॥

भा०—हे (देव सूर्य) सर्वदष्ट ! सर्वदाता ! सर्वोपाय देव ! हे (सूर्य)
सर्वप्रेरक, सर्वनियन्तः ! सर्वोत्पादक परमेश्वर ! (रथे) रथ में जैसे सात
घोड़े जुड़कर उसको ढो लेजाते हैं और देह में आत्मा को जिम प्रकार सात
प्राण जुड़कर उसको उठाते हैं उसी प्रकार तुम्हें भी (सप्त हरितः) सात
हरणशील व्यापक महान् तेजस्विनी शक्तियां (शोचिष्केशं) देदीप्य-
मान फिरणों वाले (विचक्षणम्) विशेषरूप से जगत् के प्राण (त्वा)
तुम्हें (रथे) परम आनन्दमय रथमें या रमण योग्य विश्व में (वहन्ति)
चढ़ान करते हैं, धारण करते हैं ।

अध्यात्म में—हे तेजस्विन् ! सूर्य के समान योगिन् ! (सप्त) सातों

प्राण तुम्हको उस (ज्योतिष्केशं विचक्षणं) परम ज्योतिर्मय साक्षात् दृष्टा तक (रथे) परमब्रह्म रस में ले जाते हैं ।

अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरौ रथस्य नृप्यः ।

ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥२१॥ ऋ० १ । ५० । ९ ॥

भा०—(सूरः) सबका प्रेरक शूरवीर सेनापति के समान परमेश्वर (रथस्य नृप्यः) इस रथ स्वरूप, परम रमणीय, भूतों के रमण कराने वाले (नृप्यः) ब्रह्माण्ड को कभी नष्ट न होने देने वाली, उसको बांधने वाली (शुन्ध्युवः) उसकी प्रवर्तक उसमें गति देने वाली, चलाने वाली (सप्त) सात शक्तियों को (अयुक्त) विश्व में प्रयुक्त करता है । और (स्वयुक्तिभिः) अपनी ही योजना रूप (ताभिः) उन शक्तियों से (याति) स्वयं सर्वत्र गति करता है, विश्व को चलाता और विश्व में व्यापता है ।

[४८] ईश्वरोपासना

१-३ इन्द्रः । ७-६ सांपराजी सूर्यो वा देवता । गायत्र्यः । पट्टचं सूक्तम् ॥

अभि त्वा वर्चसा गिरः सिञ्चन्तीराचरुरयवः ।

श्रुभि वृत्सं न धेनवः ॥१॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर (धेनवः) गौएं (वत्सम् अभि न) जिस प्रकार अपने प्रिय बछ्छे के प्रति वेग से दौड़ती हुई आती हैं उसी प्रकार (आ चरुरयवः) सब ओर से आने वाली और समस्त दिशाओं में जाने वाली अर्थात् सब पक्षों में लगने वाली (गिरः) वेदवाणियां (सिञ्चन्तीः) ज्ञान-रस का प्रवाह बहाती हुई भी (वर्चसा) तेज से, कान्ति से मुग्ध होकर (त्वा अभि) तुम्हको ही प्राप्त होती हैं । अर्थात् परमेश्वर में इतना बल, पराक्रम, चमत्ता है कि सब पक्षों में लगने वाली वाणियां भी परमेश्वर पर ही चरितार्थ होती हैं ।

'अभित्वा' इति द्वाभ्यां सूक्ताभ्यां किलौ इति वृद्धत् सर्वा० ।

ता अर्पन्ति शुभ्रियः पृञ्चन्तीर्वचसा प्रियः ।

जातं जात्रीर्यथां हृदा ॥२॥

भा०—(ताः) वे वेदवाणियों (वचसा) अपने ज्ञानरूप तेज से (प्रियः) पूर्ण अर्थ का प्रकाश करनेहारी (शुभ्रियः) पदार्थ का भासन कराने वाली, उज्ज्वल स्वरूप होकर (अर्पन्ति) उस परमेश्वर को (हृदा) अपने मर्मार्थ से ऐसे पकड़ती हैं जैसे (जात्रीः) जनने वाली माताएं (जातं) अपने पुत्र को (हृदा) अपने हृदय से (अर्पन्ति) चिपटा लेती हैं ।

वज्रापवसाध्यः कीर्तिस्त्रियमाणमावहन् ।

मह्यमायुर्घृतं पयः ॥३॥

कृष्णलाल-शोधित-संहितानुसारं ग्रीफियसम्मत्तश्च संहितापाठस्तु—

उत्राय यशसो ध्रियः कीर्तिमिन्द्रियमावहान् ।

मह्यमायुर्घृतं पयः ॥३॥

भा०—प्रथम पाठ के अनुसार (वज्रापवसाध्यः ?) (कीर्तिः) और कीर्ति (त्रियमाण) मरते हुए पुरुष को भी (आवहन्) प्राप्त कराती है । और (मह्यम्) मुझे (आयुः घृतम् पयः) दीर्घ जीवन, घृत, तेज और पुष्टिकारक अन्न (आवहन्) प्राप्त करावें ।

द्वितीय पाठ के अनुसार—(यशसः) यश, वीर्यजनक (ध्रियः) बुद्धियां और कर्म (उत्राय) बलवान् पुरुष को (कीर्तिम्) कीर्ति और (इन्द्रियम्) इन्द्र का परमैश्वर्य युक्त पद (आवहान्) प्राप्त कराते हैं और (मह्यम्) मुझ राष्ट्र के प्रजाजन को (आयुः घृतं पयः) दीर्घ जीवन, तेज और अन्न प्रदान करते हैं । अर्थात् वीर कर्मों से बलवान् पुरुष को कीर्ति और साम्राज्य प्राप्त होता है, और प्रजा को जीवन रक्षा, बल और अन्न प्राप्त होता है ।

[४८] ३—(प्र०) 'वज्रापवसाध्यः' 'वज्रायवसाध्यः' इति पाठभेदौ (द्वि० 'मावहान्-', 'कीर्तिप्रि-' इति च पाठभेदौ ।

आयं गौः पृश्निरक्रीदसंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्स्वर्गं ॥४॥
 अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । व्यख्यन्महिषः स्वः ॥५॥
 त्रिंशद् धाम विराजति वाक् पंतङ्गो अंशिथियत् ।
 प्रति वस्तोरह्युभिः ॥ ६ ॥ अ० १० । १८९ । १-३ ॥

भा०—(४-६) तीनों मन्त्रों की व्याख्या देखो अथर्ववेद कारडः
 ६ । ३१ । १-३ ।

[४६] ईश्वरोपासना ।

यच्छक्रा वाचमारुहन्तर्निक्षिप्तं सिपासथः ।

सं देवा अभद्रन् वृषा ॥१॥

सेवकत्वात्सम्मतः ग्रीफिथादिसम्मतश्च पाठस्तु—

यच्छक्रं वाच आरुहन्तर्निक्षिप्तं सिपासतीः ।

सं देवो अभद्रद्वृषा ॥१॥

भा०—प्रथम पाठ के अनुसार—(शक्राः) शक्तिशाली राजागण के
 समान शक्तिशाली योगीजन (यत्) जब भी (वाचम्) वेदवाणी का
 (आरुहन्) आश्रय लेते हैं हे ज्ञानी पुरुषो ! तब २ आप लोग (अन्त-
 रिक्षिम्) अपने भीतरी आत्मा को ही (सिपासथः) प्राप्त होते हो ।
 तब (देवाः) प्राणगण और (वृषा) सुखों का वर्पक भीतरी बलवान्
 आत्मा दोनों (सम् अभद्रन्) एक साथ आनन्द, प्रसन्न एवं वृस होते हैं ।

भा०—द्वितीय पाठ के अनुसार—(अन्तरिक्षं=अन्तर्यक्षं) भीतरी
 उपास्य देव, हृदय में व्यापक आत्मा और हृदयस्थ परमेश्वर को हे (वाचः)

[४९] १-‘यच्छक्राः’, ‘वाचमारुहन्तर्निक्षिप्तं’, ‘सिपासथः’, ‘सिपासतीः’ इति
 पाठभेदाः ।

वाणियो ! जब तुम (सिपासतीः) प्राप्त करती हुई, उस पर लगती हुई, उसको लक्ष्य करती हुई (शक्रन्) उस शक्तिमान् को (आरुहन्) पहुँचती हो, उसके पद का वर्णन करती हो तब (देवः) वह सत्त्वाद् दृष्टा भीतरी आत्मा या परमेश्वर (वृषा) अति बलवान्, आनन्दरस का वर्षक धर्ममेघ होकर (सन् अमदद्) खूब आनन्द, प्रसन्न एवं संतुष्ट होता है ।
शक्रो वाचमधृष्ट्यायोस्वाचो अभृष्ट्युहि । मंहिष्टु आ मंहिष्टिवि ॥२॥

सेदकलालग्रीफिधसन्मतः पाठस्तु—

शक्रं वाचा भिष्टुहि घोरं वाचाऽभिष्टुहि ।

मंहिष्टु आमंदद् द्विवि ॥२॥

भा०—प्रथम पाठ के अनुसार—हे योगिन् आत्मसाधक ! तू (शक्रः) शक्तिशाली आत्मा होकर (अष्टष्टाय) 'अष्टष्ट', कभी भी धर्मण न किये जाने वाले अच्युत पद के प्राप्त करने के लिये (उरुवाचः) विशाल वेदवाणी के प्रवर्तक गुरु की या परमगुरु परमेश्वर की ही (वाचम्) वाणी को (अभिष्टुहि) धारण कर । तू (मंहिष्टः) पूज्यतम, महान् होकर ही (दिवि) तेजोमय मोक्ष में (आ नदः) आनन्दनय होकर विराज ।

भा०—द्वितीय पाठ के अनुसार—हे साधक ! तू (वाचा) वेदवाणी से (शक्रम्) उस शक्तिमान् परमेश्वर की (अभिष्टुहि) स्तुति कर । (वाचा) वेदवाणी से (घोरं) उस महान् भयंकर उग्र या दयालु परमेश्वर की (अभि स्तुहि) स्तुति कर । (मंहिष्टः) सबसे अधिक पूजनीय और महान् वह परमेश्वर ही (दिवि) तेजोमय मोक्ष लोके में (आ नदद्) आनन्दनय होकर विराजता है ।

शक्रो वाचमधृष्ट्यायोस्वाचो अभृष्ट्युहि धामंयर्मिन् वि राजति ।

विमदन् ग्रहैरात्तरन् ॥ ३ ॥

सेवकलालग्रीफियादिसम्मतः पाठस्तु—

शक्रं वाचाभिष्टुहि धामन् धामन् विराजति ।

विमदन् बर्हिःसदत् ॥३॥

भा०—प्रथम पाठ के अनुसार- हे योगिन् ! तू (शक्रः) शक्तिमान् होकर (वाचम् अष्टष्णुहि) वेदवाणी को धारण कर । क्योंकि बलवान् पुत्र ही (धामधर्मन्) प्रत्येक तेजोमय पद पर और प्रत्येक धर्म या कर्त्तव्य में (विराजति) विविध प्रकार से शोभा पाता है । वही (विमदन्) विविध प्रकार से आनन्द प्रसन्न होकर (बर्हिः) विस्तृत ब्रह्ममय मोक्ष-धाम को (आ सरन्) प्राप्त होता है ।

भा०—द्वितीय पाठ के अनुसार-(वाचा शक्रम् अभिस्तुहि) वाणी से शक्तिमान् परमेश्वर की स्तुति कर । वही परमेश्वर (धामन् धामन् विराजति) स्थान २ पर विराजता है । वही (विमदन्) विविध प्रकार से आनन्द नृप्त होकर (बर्हिः) ब्रह्माण्ड में (आ सदत्) व्याप्त है ।

तं वो ऽस्ममृतीप्रहं वसोर्मन्दानमन्थंसः । अभि वृत्सं न स्व-
सरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भेनवामहे ॥ ४ ॥ वृत्तं सुदानुं तविपीभिरा-
वृत्तं गिरिं न पुरुभोजसम् । क्षमन्तं वाजं शतिनं सहस्रिणं मञ्जू-
गोमन्तमीमहे ॥ ५ ॥ ऋ० ङ । ७७ । १, २ ॥

तत् त्वां यामि सुवीर्यं तद् ब्रह्मं पूर्वचित्तये । येना यतिभ्यो
भृगोवै धनं हिते येन प्रस्करवृमाविथ ॥ ६ ॥ येना समुद्रमसृजो
महीरपस्तादिन्द्र वृष्णि ते शवः । सुद्यः सो अस्य महिमा न
खनशे यं क्षीरानुचक्रदे ॥ ७ ॥ ऋ० ङ । ३ । ९, १० ॥

भा०—(४-७) इन चार मन्त्रों की व्याख्या देखो अथर्ववेद काण्ड
२० । ६ । १-४ ॥

[५०] ईश्वरोपासना ।

कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत मर्त्यः ।

नही न्वस्य महिमानंमिन्द्रियं स्वर्गुणन्तं आनशुः ॥१॥

अ० ८।३।१३ ॥

भा०—(अतसीनां) वेग से गति करने वाली सभी शक्तियों को (तुरः) गति देने वाले सर्वशक्तिमान् उस परमेश्वर का (नव्यः मर्त्यः) उसके बाद अभी का पैदा हुआ, नया मनुष्य (क्व गृणीत) क्या वर्णन करे ? (नु) क्या (अस्य महिमानम्) इसके बड़े भारी सामर्थ्य (इन्द्रियम्) और ऐश्वर्य का (गृणन्तः) स्तुति करते हुए ज्ञानी लोग (स्वः न हि आनशुः) क्या सुखमय मोक्ष का लाभ नहीं करते हैं ? करते ही हैं ।

कडुं स्तुवन्तं ऋतयन्तं देवतु ऋषिः को विप्रं आहते ।

कदा हवं मघवन्मिन्द्र सुन्वतः कडुं स्तुवत आगमः ॥२॥

अ० ८।३।१४ ॥

भा०—(अतयन्तः) सत्य ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले जिज्ञासु पुरुष (क्व उ स्तुवन्तः) तेरी कब स्तुति करते हैं ? और (देवेषु) देव-विद्वानों के बीच में (कः) कोई ही (विप्रः) मेधावी (ऋषिः) मन्त्र दद्या पुरुष (आहते) उसकी तर्कना करता है ? हे (मघवन् इन्द्र) ऐश्वर्य-वन् इन्द्र परमेश्वर ! (सुन्वतः) तेरा स्मरण करनेहारे पुरुष के (हवम्) पुकार को नृ (कदा) कब सुनता और (स्तुवतः) स्तुति करते हुए पुरुष के पास तू (क्व उ) कभी (आगमः) प्राप्त होजाता है ? यह सब रहस्य हम नहीं कह सकते । विद्वान् ज्ञानी लोग तुम्हें कब स्तुति करते हैं विद्वान् तुम्हें क्या कल्पना करता है ? और योगी तुम्हें कब स्मरण करता है और तू उसे कब प्राप्त होता है ? ये सब रहस्य गुप्त हैं ।

[५१] ईश्वरोपासना आत्मदर्शन

प्रागाथः प्रस्कलव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । चतुर्भुवं सूक्तम् ॥

अभि प्र वः सुराग्रंसुमिन्द्रमर्चं यथा विदे ।

यो जरितृभ्यो मघवां पुरुवसुः सहस्रेणैव शिञ्जति ॥१॥

ऋ० ८।४१।१ ॥

भा०—हे पुरुव ! (सुराग्रसम्) उत्तम ऐश्वर्य सम्पन्न उस (इन्द्रम्)

ऐश्वर्यवान् आत्मा को तू (अभि प्रवः) सब प्रकार से वरण कर । उसी की

इच्छा कर । और (यथा विदे) जिस प्रकार तू उसे जान पावे उसी प्रकार

से उसकी (अभि प्र अर्चं) भली प्रकार उपासना कर । (यः) जो (मघवा)

ऐश्वर्यवान् (पुरुवसुः) समस्त लोकों, देहों और इन्द्रियों में वास

करने वाला (जरितृभ्यः) स्तोता, विद्वान् पुरुषों को (सहस्रेण इव) मानो

हज़ारों प्रकारों से (शिञ्जति) दान करता है ।

शतानीकैव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुपे ।

गिरेरिरेव प्र रसां अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥२॥

ऋ० ८।४१।२ ॥

भा०—वह इन्द्र (शतानीक इव) सैंकड़ों सेनाओं के स्वामी, सेना

पति के समान (प्र जिगाति) सबको विजय करता, अपने वश करता है ।

और (धृष्णुया) अपनी धर्मणकारिणी शक्ति से (दाशुपे) दानशील

पुरुव के (वृत्राणि) विघ्नों को (हन्ति) विनाश करता है । (गिरेः रसाः

इव) पर्वत से जिस प्रकार जलों के स्रोत बहते हैं उसी प्रकार (पुरु-

भोजसः) बहुत से भोग्य ऐश्वर्यों से समृद्ध (अस्य) इसके (दत्राणि) नाना

दान प्रदत्त पदार्थ ही (पिन्विरे) प्रजाओं को नृप करते हैं ।

प्र सु श्रुतं सुराग्रंसुमर्चां शक्तप्रभिष्टये ।

यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसुं सहस्रेणैव मंडते ॥३॥

ऋ० ८।५०।१ ॥

भा०—(श्रुतम्) वेद आदि ग्रन्थों द्वारा गुरुपदेश से श्रवण करने योग्य (सुराधमम्) उत्तम रीति से योगादि द्वारा आराधना करने योग्य 'अथवा (श्रुतम्) जगत्प्रसिद्ध एवं (सुराधमम्) उत्तम ऐश्वर्यवान् (शक्तम्) उस शक्तिमान परमेश्वर को (अभिष्टये) अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिये (प्र सु अर्च) खूब अच्छी प्रकार अर्चना कर । (यः) जो (सुन्वते) योगादि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले (स्तुवते) वेदवाणी द्वारा गुणानुवाद करने वाले को (काम्यं) अभिलाषा योग्य (वसु) ऐश्वर्य (सह स्वैण इव) हजारों प्रकार से (मंहते) प्रदान करता है ।

शतानीका हेतयों अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिपों महीः ।

गिरिनं भुज्मा मघवत्सुं पिन्वते यदी सुता अमन्दिपुः ॥४॥

ऋ० ८ । ५० । २ ॥

भा०—(अस्य इन्द्रस्य) इस परमेश्वर के (शतानीकाः हेतयः) सैकड़ों मुख वाले, सैकड़ों ओर को जाने वाले शास्त्रात्र (दुष्टराः) दुस्तर शत्रु हैं, और 'इन्द्रस्य' उस महान् ऐश्वर्यवान की महीः) बही (समिपः) इच्छापुं, प्रेरक शक्तियों भी हैं (यद् ईम्) जब भी (सुताः) नाना ऐश्वर्यमय पदार्थ (अमन्दिपुः) उसको तृप्त करते हैं उसका आनन्दरस प्रवाहित करते हैं तब वह (भुज्मा गिरिः नः) नाना भोग्य पदार्थों से सम्पन्न पर्वत या मेघ के समान (मघवत्सु) ऐश्वर्यवानों को (पिन्वते) वे समस्त ऐश्वर्य पदार्थ तृप्त करते हैं ।

[५२] ईश्वर स्तुति

नेध्या तिथि ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहत्यः । वृचं वृक्तम् ॥

वयं धं त्वा सुतावन्तु आणो न वृक्तवर्हिपः ।

पवित्रस्य प्रच्रवणेषु वृत्रहन् परिं स्तोतारं आस्तते ॥१॥

ऋ० ८ । ३३ । १ ॥

भा०—हे (वृत्रहन्) आवरणकारी अन्धकार के नाशक ! (पवित्रस्य) पवित्र, पावन जल और ज्ञान के (प्रचवणेपु) भरनों के तटों पर (स्तोतारः) तेरे स्तुति कर्ता लोग (परि श्रासते) विराजते हैं । और (वयं ध) हम भी (सुतावन्तः) गुरु शिष्य के वादों द्वारा निर्णीत ज्ञान से सम्पन्न (आपः नः) जल जिस प्रकार (वृक्रवर्हिपः) वृद्धिशील धान्यों को अपने वेग से गिरा देते हैं उसी प्रकार (वृक्रवर्हिपः) वृद्धिशील काम राग का उच्छेद करने वाले असंग पुरुष भी (त्वा परि आस्महे) तेरे आश्रय होकर बैठते हैं ।

स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेके उक्थिनः ।

कदा सुतं तृपाण ओक आ गम इन्द्र स्वर्दीव वंसंगः ॥२॥

अ० ८।३३।२॥

भा०—हे (वसो) सर्वव्यापक ! सब संसार के बसाने वाले ! (एके उक्थिनः) कुट्ट एक ज्ञानवान् (नरः) पुरुष (सुते) उत्पन्न इस संसार के आधार पर इसके सर्ग स्थिति और प्रलय के निमित्त से ही (त्वा निः स्वरन्ति) तेरी उपासना स्तुति करते हैं । (तृपाणः) पिपासा-कुल पुरुष जिस प्रकार जल के निमित्त (ओकः आगमः) जल के स्थान पर आ जाता है उसी प्रकार तू भी (वंसंगः स्वर्दीव) उत्तम जल देने वाले मेघ के समान तू भी (कदा) हमें (आगमः) प्राप्त होगा ।

करवेभि धृष्यावा धृपद् वाजं दपि सहस्त्रिणम् ।

पिशङ्गरूपं मधवन् विचर्पणे मत्तू गोमन्तमीमहे ॥३॥

भा०—हे (मधवन्) ऐश्वर्यवान् ! हे (विचर्पणे) समस्त जगत् के द्रष्टः ! हे (धृष्यावा) सबको वश करनेवाले ! समस्त संसार के भार सहने वाले ! आप (करवेभिः) मेघावी पुरुषों द्वारा (धृपद्) क्षर्पण करने, शत्रुओं का पराजय करने वाले (सहस्त्रिणम्) सहस्रों प्रकार के (वाजम्)

ऐश्वर्य या बल का (आर्द्रि) प्रदान करते हैं । हम भी (मन्) निरन्तर उसी (पिशङ्गरूपम्) पीत वर्ण के (गोमन्तम्) गौ आदि पशुओं से युक्त ऐश्वर्य की (ईमहे) याचना करते हैं ।

अध्यात्म में—हम (गोमन्तं पिशङ्गरूपम् ईमहे) वाणी से युक्त अथवा गौ प्राणों से युक्त तेजोमय आत्मा को साक्षात् करना चाहते हैं ।

[५३] ईश्वर दर्शन ।

भेदातिथिः काम्य ऋषिः । इन्दो देवता । बृहत्यः । त्वं वक्तुम् ॥

कई वेद सुते सखा पिवन्तं कद् वयं दधे ।

अयं यः पुरो विभिन्नत्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्वसः ॥३॥

इ० न० ३३।७ ॥

भा०—(सुते) समस्त उत्पन्न जगत् में (सखा) एक ही साथ वा अन्य देव, दिव्य पदार्थों के साथ (ईं) इस समस्त विश्व को (पिवन्तम्) पान ग्रहण, अपने में आदान करते हुए को (कः वेद) कौन जानता है ? और कौन जानता है कि (कद् वयः दधे) वह कितना प्रायु या कितना जीवन सामर्थ्य धारण करता है । (अयं) यह (शिप्री) ज्ञानवान् और बलवान् होकर ही (अन्धमः) अज्ञ से या अमृत से (मन्दानः) सदा तृप्त और अन्यों को भी तृप्त करने में समर्थ होकर (ओजसा) अपने बल पराक्रम से सेनापति जिस प्रकार (पुरः विभिन्निति) शत्रु दुर्गों को तोड़ डालता है उसी प्रकार अपने ज्ञान बल से (पुरः) भक्तों के देह पुरियों को नाश करता है, उनको सुक्र करता है ।

अध्यात्म में—यह नित्य आत्मा अपने ही ज्ञानबल से (पुरः विभिन्निति) सत्व, रजस्, तमस् तीनों से बने देह बन्धनों को तोड़ता है ।

दाना मृगो न वारुणः पुरुत्रा चरथं दधे ।

नकिंष्ट्वा नियंमदा सुने गमो महोश्चरुस्योजसा ॥२॥

इ० न० ३३।८ ॥

भा०—(मृगः वारणः न) वनैला हाथी (दाना) मद जलों के कारण (पुरुत्र) बहुतसे स्थलों पर (चरथं दधे) विचरण करता है । उसी प्रकार यह इन्द्र जीव (दाना) अपने शुभाशुभ कर्मों द्वारा (पुरुत्रं चरथं दधे) बहुत से शरीरों में विचरण करता है अथवा (चरथं दधे) नाना फल भोग प्राप्त करता है । हे इन्द्र ! आत्मन् (त्वा) तुभको (नकिः) कोई भी नहीं (नियमत्) बांध सकता । (सुते आगमः) सवन किये सोम के समान योगादि साधनों से सम्पादित इस सोम रूप ब्रह्म रस के निमित्त (आगमः) तू प्राप्त हो और (भोजसा महान्) बलवीर्य से महान् होकर (चरसि) विचरण कर ।

य उग्रः सन्ननिष्ठृत स्थिरो रणाय संस्कृतः ।

यदि स्तोतुर्भगवां शृण्वच्चन्द्रं नेन्द्रो योषत्या गमत् ॥३॥

ऋ० ८।३३।९ ॥

भा०—(यदि) जब भी (भगवा) ऐश्वर्यवान् परमात्मा (स्तोतुः हवं) स्तुति करनेद्वारे उपासक की पुकार को (शृण्वत्) सुन लेता है तब (इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् (न योषति) उससे जुदा नहीं रहता, प्रत्युत (आगमत्) उसे प्राप्त ही होजाता है । उसे मिल ही जाता है । (उग्रः) वीर सेनापति जिस प्रकार उग्र अति बलवान् (सन्) होकर (अनिस्तृतः) किसी से भी मारा न जाकर नित्य अविनाशी (स्थिरः) सदा स्थिर रहने वाला (रणाय संस्कृतः) रण के लिये सज्ज होता है उसी प्रकार जो परमेश्वर (उग्रः) सदा बलवान् (सन्) रहकर (अनिस्तृतः) नित्य अविनाशी, (स्थिरः) सदा ध्रुव, (रणाय संस्कृतः) योगिजनों के रमण के लिये सदा तत्पर रहता है । अथवा—अध्यात्म में—यह आत्मा अविनाशी, बलवान् होकर (रणाय) रमण योग्य देह के लिये, या सदा ब्रह्मरस में रमण करने के लिये (संस्कृतः) सदा संस्कारयुक्त, सदा तत्पर रहता है ।

[५४] ईश्वर गुणगान ।

रेभं ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ अति जगती, २, ३ उपरिष्ठाद् बृहत्स्यौ । तृचं सक्तम् ॥

विश्वो पृतना अभिभूतरं नरं सज्जुस्तंतक्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे ।
कृत्वा वरिष्ठं वरं आमुरिमुतोप्रमोजिष्ठं तवसं तरस्विनम् ॥१॥

ऋ० ८ । १७ । १० ॥

भा०—(विश्वाः पृतनाः) समस्त जन (अभि-भूतरं) शत्रुओं के पराजय करने में, शत्रु से अधिक बलवान् (कृत्वा) कर्म और ज्ञान से (वरे) वरण योग्य कार्य में (वरिष्ठम्) सबसे अधिक श्रेष्ठ, (आमुरिम्) शत्रुओं के नाशक, (उग्रम्) बलवान्. (ओजिष्ठं) सबसे अधिक पराक्रमी (तवसं) महान्, (तरस्विनम्) अति वेगवान्, (नरम्) नेता पुरुष को ही (सज्जुः) समान प्रेम से मिलकर (राजसे) राज्य करने के लिये (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् राजा या स्वामी (ततक्षुः) बनाते हैं ।

अंध्यात्म में—(विश्वाः पृतनाः) समस्त व्यापारशील इन्द्रियगण (कृत्वा वरिष्ठं) बल से सबसे श्रेष्ठ (नरं) नेता को (इन्द्रम्) आत्मारूप से अपना स्वामी (जजनुः) प्रकट करते हैं ।

परमात्मा पक्ष में—(नरं) समस्त जगत् के प्रवर्तक, सबसे महान् शक्तिशाली को (इन्द्रम् : जजनुः) इन्द्र ईश्वर करके जानते और कहते हैं ।

सर्मा रेभासो अस्वराग्निन्द्रं सोमस्य पीतयं ।

स्वर्पतिं यदौ वृधे धृतव्रतो होजसा समृतिभिः ॥२॥

ऋ० ८ । १७ । ११ ॥

भा०—(यद्) जब भी (वृधे) वृद्धि के लिये (धृतव्रतः) समस्त व्रतों को धारण करने वाला (ओजसा) अग्ने पराक्रम से, (जतिभिः) अपने रत्न सधनों से (सम्) संगत होता है तभी (रेभासः) स्तुतिकर्ता

विद्वान् लोग (सोमस्य पीतये) अमृत रस का पान करने के लिये (स्वः पतिम्) समस्त सुखों के स्वामी (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर को (सन् अस्वरम्) पुकत्रः होकर स्तुतिगान करते हैं ।

राष्ट्र पत्र में—(यद्यं) जब भी व्रत को धारण कर अपने पराक्रम और रक्षा साधनों से युक्त होकर (वृधे) अपने राष्ट्र वृद्धि के लिये राजा तैयार होता है तभी (रेभासः) विद्वान् लोग (सोमस्य पीतये) राष्ट्र ऐश्वर्य को स्वीकार करने के लिये इससे पुकत्र मिलकर प्रार्थना करते हैं ।

नेमिं नमन्ति चक्षसा मेपं विप्रां अभिस्वरां ।

सुदीतयो वो अद्भुदो पि कर्णे तरस्विनः समृद्धभिः ॥३॥

सू० न० १७ । १२ ।

भा०—(विप्राः) मेधावी विद्वान् लोग (अभिस्वरा=अभिस्वरम्) उपताप और ज्ञानोपदेश के साथ विद्यमान (नेमिन्) सबको अपने आगे सुझाने वाले, (मेपन्) सूर्य के समान स्वयं चेतना के दाता, उस परमेश्वर को (चक्षसा) अपने ज्ञानदर्शन से ही (नमन्ति) सुकते, उसे नमस्कार करते हैं । हे मनुष्यो ! (वः) आप लोग भी (कर्णे अद्भुदः अपि) कार्य में परस्पर द्रोह न करते हुए भी (सुदीतयः) उत्तम दीप्तिमान् (तरस्विनः) वेगवान्, शीघ्रकारी, अप्रमादी होकर (समृद्धभिः) वेदमन्त्रों से (सन् नमन्ति) अच्छी प्रकार उसकी स्तुति करो ।

[५५] ईश्वर से ऐश्वर्य की याचना

रेम क्षमिः । इन्द्रो देवता । इहल्यः । तृचं सूक्तम् ॥

तमिन्द्रं ओह्वामि मयवान्मुग्रं सुवा दधान्मप्रतिष्कृतं शवांसि ।
महिन्द्रो शीभिरा च यज्ञियां वृधतंद् रायं नो विश्वा सुपथां कृणोतु
वृद्धी ॥३॥ सू० न० २६ । १३ ॥

भा०—मैं (तम्) उस (मघवानम्) समस्त सम्पत्तियों से समृद्ध (सत्रा) एक ही साथ (शवांसि) समस्त बलों को (दधानम्) धारण करने हारें : (अप्रतिष्कृतं) किसी से भी न पराजित, अद्वितीय शक्तिशाली, (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर को (जोहवीमि) स्मरण करता हूँ । वह (गीर्भिः) वेदवाणियों द्वारा (मंहिष्ठः) अति पूजनीय (यज्ञियः च) यज्ञ में सदा पूजनीय (आ ववर्त्तत्) ही सदा सर्वत्र व्याप्त है । वह (नः) हमारे (राये) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये (वज्री) वज्रवान् समस्त कष्टों का वर्जन या चारण करने में समर्थ (विश्वा सुपथा) समस्त उत्तम मार्ग हमारे लिये (कृणोतु) बनावे ।

या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वा असुरेभ्यः ।

स्तोतारामिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तवर्हिपः ॥२॥

ऋ० ८ । ८६ । १२ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् (स्वर्वान्) स्वः=आनन्दप्रद भोग्य सम्पदाओं से अथवा सुखमय आनन्द से युक्त तू (याः भुजः) जिन भोग्य सम्पदाओं को (असुरेभ्यः आभरः=आहरः) असुरों से छीन कर लाता है । अथवा—(असुरेभ्यः) प्राणवान् जन्तुओं को (आहरः) प्रदान करता है हे (मघवन्) ऐश्वर्यवान् ! उन समस्त ऐश्वर्य सम्पदाओं से (अस्य) इस अपने साक्षात् स्वरूप के (स्तोतारम् इत्) अपने स्तुतिकर्ता साधक को (वर्धय) बढ़ा और (ये च) जो भी (त्वे) तेरे निमित्त (वृक्त वर्हिपः) धान्य के समान काट देने योग्य देहबन्धनों को काट चुके हों उनको भी बढ़ा ।

यमिन्द्र दक्षिणे त्वमश्वं गां भागमव्ययम् ।

यजमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन् तं धेहि मा प्रणौ ॥३॥

श्र० ८ । ८६ । २ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (यजमाने सुन्वति) यजमान, यज्ञ करनेहारे पुरुष के सवन करते हुए और (तस्मिन्) उसके (दक्षिणावति) दक्षिणा प्रदान करते समय (तं) उसको (अल्प्यम्) अक्षय (भागम्) सेवन करने योग्य (गाम् अश्वम्) गौ और अश्व आदि ऐश्वर्य (धेहि) प्रदान कर (यम्) जिसको (त्वम्) तू (दधिपे) धारण करता है । उस ऐश्वर्य को (परौ) कुव्यसनी पुरुष के हाथ (मा धेहि) प्रदान मत कर ।

[५६] दानशील ईश्वर

गौतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । विष्णुभः । षड्वचं सक्तम् ॥

इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः ।

तमिन्महत्स्वाजिपूतमभं हवामहे स वाजेपु प्र नोविपत् ॥१॥

ऋ० १ । ८१ । १ ॥

भा०—(वृत्रहा) शत्रुओं और काम क्रोधादि विह्वकारी अन्तः शत्रुओं का नाश करने वाला (इन्द्रः) इन्द्र, ऐश्वर्यवान् राजा और परमेश्वर अपने (शवसे मदाय) बल और वृत्तिकारी आनन्दरस के कारण (वावृधे) सबसे बढ़ा है । (महत्सु आजिपु) बड़े २ संग्रामों में (उत ईम् अभं) और छोटे २ कार्य में भी (तम्) हम उस इन्द्र, परमेश्वर और सेनापति को ही (हवामहे) याद करते हैं । (सः) वह (वाजेपु) वीर्य और बल के संग्रामादि कार्यों में (नः) हमारी (प्र अविपत्) रक्षा करता है ।

असि द्वि वीरु सेन्योसि भूरि परादृदिः । असि द्वाभस्यं चिद्वुंत्रो यजमानाय शिद्धसि सुन्वते भूरि ते वलुं ॥ २ ॥

ऋ० १ । ८१ । २ ॥

भा०—हे (वीर) वीर ! वीर्यवान् ! तू (सेन्यः असि) सेना, स्वामी सदित वीरगणों का हितकारी है । तू (भूरि परादृदिः) बहुत बार श-

शुभ्रों को पराजय देने वाला है । तू (दक्षत्य) अति स्वरूप को (चित्) भी (वृषः अस्ति) बढ़ाने हारा है । तू (सुन्वते यजमानाय) सबन, ब्रह्मोपासना करने वाले आत्मसमर्पक यजमान को (ते) तू अपना (भूरि वसु) बहुतसा धन (शिञ्जसि) प्रदान करता है ।

यदुदीरत आजयो धृष्यावं धीयते धना । युद्धा मंदच्युता हरी कं
हनः कं वसौ दधोस्माँ इन्द्र वसौ दधः ॥३॥ ऋ० १ । २१ । ३ ॥

भा०—(यद्) जब (आजयः) संग्राम या ब्रह्मकथाप्रसङ्ग (उदीरते) उठ खड़े होते हैं तब (धृष्यावे) सब शत्रुओं को पराजय करने हारे को ही (धना) नाना ऐश्वर्य (धीयते) प्रदान किये जाते हैं । उसके सम्मुख समस्त ऐश्वर्य धरे जाते हैं । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (मंदच्युता) आनन्द, वृष्टि के साथ गति करने वाले (हरी) अश्वों को जिस प्रकार रथों में लगाता है, हे योगिन् ! तू भी (मंदच्युतौ) आनन्द, हर्षवर्षण करने वाले (हरी) हरणशील, वेगवान्, बलवान् प्राण और क्षपण दोनों को (युद्ध) योग विधि से बसा कर । हे इन्द्र ! तू (कं हनः) किस शत्रु का घात करता है ? अथवा हे आत्मन् ! (कं हनः) तू 'क' अर्थात् सुखस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो । (वसौ) अपने वसुस्वरूप ऐश्वर्य में (कं दधः) किस को धारण करता है अर्थात् ऐश्वर्य स किञ्चा पालन करता है ? अभद्र-हे योगिन् ! (वसौ) वसु रूप आत्मा में (कं) सुखस्वरूप परमेश्वर को धारण कर और हे (इन्द्र) आत्मन् ! (वसौ) वासशील आत्म शक्ति में अथवा अपने ऐश्वर्य में तू (अस्मान् दधः) हम समस्त प्राणों या प्राणियों को धारण कर, ऐश्वर्य के आधार पर हमें पालन कर ।

मदंमदे हि ना वृद्धिर्घृथा गवांमृजुक्तुः । सं गृभाय पुरु
हृतोभयाहृस्त्या बहु शिनीदि राघ आ भर ॥ ४ ॥

भा०—हे इन्द्र ! तू (ऋजुकनुः) अति सरल, सत्य, उत्तम, अर्जन योग्य ज्ञान, बल और क्रिया से सम्पन्न होकर (नः) हमें (गवाम्) इन्द्रियों और गौ आदि पशुओं के (यूया) समूहों को (ददिः) प्रदान करता है । तू (पुरुशता) बहुत से सैकड़ों पालक ऐश्वर्यों को (सं गृभाय) संग्रह कर । (उभया हस्त्या) दोनों हाथों से भर भर कर (वसु शिशीहि) ऐश्वर्य प्रदान कर । (रायः आ भर) हमें नाना धन सम्पदाएं प्राप्त करा ।

मादयस्व सुते सचा शवसे शूर राधसे । विद्या हि त्वां पुरुव-
सुमुप कामान्तसमृज्महेथा नोविता भव ॥५॥ ऋ० १ । ८१ । ८ ॥

भा०—हे (शूर) शूरवीर ! इन्द्र सर्वशक्तिमान् शत्रुनाशक ! तू (सुते) अपने इस उत्पन्न जगत् में (शवसे) अपने महान् बल और (राधसे) अपने महान् ऐश्वर्य के कारण तू (सचा) सबको एक काल में या निश्च ही (मादयस्व) आनन्द से तृप्त और हर्षित करने में समर्थ हो । (त्वा) तुझ (पुरुवसुम्) बड़े ऐश्वर्यों के स्वामी को ही हम (विद्महि) भली प्रकार जानें, प्राप्त करें । (कामान्) समस्त कामनाओं को (त्वा उपसृज्महे) तेरे ही पर छोड़ते हैं । (अथ नः) और अब हमारा तू ही (अविता भव) रक्षक हो ।

एते तं इन्द्र जन्तवो विश्वं पुज्यन्ति वार्यम् । अन्तर्हि ख्यो
जनानामर्यो वेदो अदांशुपां तेषां नो वेद आ भर ॥६॥

ऋ० १ । ८१ । ९ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! (ते) तेरे उत्पन्न किये हुए (एते) ये (जन्तवः) जन्तु या उत्पन्न पदार्थ (विश्वं वार्यम्) समस्त अभिलाषा योग्य ऐश्वर्य को पुष्ट करते हैं । हे इन्द्र ! परमेश्वर ! हे राजन् ! तू (अर्यः) सबका स्वामी होकर (जनानाम् अन्तः ख्यः हि) समस्त मनुष्यों के भीतर का भी देखता ही है । और (अदांशुपां) अदान

शील कृपणों के भी (वेदः) धनको तू (स्वः) देखता है तू (नः तेषां वेदः आभर) उनके समस्त धनैश्वर्य हमें प्राप्त करा ।

[५७] ईश्वरस्तुति ।

मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १-३ गायत्र्यः । शेषाः पूर्वोक्ताः ।

षोडशर्चं चत्तम् ॥

सुरूपकृतुमुत्तये सुदुधामिव गोदुहे ।

जुहुमसि चविचवि ॥ १ ॥ ऋ० १ । ४ । १ ॥

भा०—(चविचवि) प्रतिदिन, नित्य (गोदुहे) गौ को दोहनवाले के लिये जिस प्रकार (सुदुधाम्) उत्तम रीति से दुग्धादि रस प्रदान करने वाली गौ की (जुहुमसि) स्तुति करते हैं उसी प्रकार (ऊतये) रक्षा के लिये हम उस (सुरूपकृतुम्) उत्तम २ पदार्थों को रचने या रूपवान् करने वाले परमेश्वर की (जुहुमसि) स्तुति करते हैं ।

उप नः सवना गंहि सोमस्य सोमपाः पिव ।

गोदा इद रेवतो मदः ॥ २ ॥ ऋ० १ । ४ । २ ॥

भा०—हे इन्द्र ! तू (नः) हमारे (सवना) उपासनाओं में (उप आगहि) प्राप्त हो और हमें (सवना उपागहि) ऐश्वर्य युक्त पदार्थ प्रदान करने के लिये प्राप्त हो । तू (सोमस्य) राटू एवं जगत् के बीच में (सोमपाः समस्त ऐश्वर्य का पालक होकर उसका (पिव) पानकर, भोग कर । (रेवतः) ऐश्वर्यवान् आत्मा को (मदः) परम आनन्द प्रद होकर भी उसको (गोदाः) इन्द्रिय सामर्थ्य और उत्तम भूमि तथा पशु आदि का प्रदान करने हारा है ।

अथवा—(रेवतः) तुम्हें ऐश्वर्यवान् का (मदः) परमानन्द भी (गोदाः) वेद वाणी का ज्ञान कराता है ।

अथां ते अन्तमानां विद्यामं सुमतीनाम् ।

मा नो अतिं ख्यु आ गंहि ॥ ३ ॥ अ० १ । ४ । ३ ॥

भा०—(अथा) और (ते) तेरे (अन्तमानां) अति समीप प्राप्त तुम्ह तक पहुँचे हुए (सुमतीनाम्) उत्तम मननशील विद्वानों के संग से (ते विद्याम) हम तेरे स्वरूप का ज्ञान करें । तू (नः) हमें (आगंहि) प्राप्त हो । तू (नः) हमें (मा अति ख्यः) कभी अति क्रमण मत कर, हमें मत भूल ।

शुष्मिन्तमं न ऊतये द्युच्चिनं पाहि जागृविम् । इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥ ४ ॥ इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । इन्द्र तानि तु आ वृणे ॥ ५ ॥ अगन्निन्द्र श्रवां बृहद् द्युम्नं दधिष्व दुष्टरम् । उत ते शुष्मं तिरामसि ॥ ६ ॥ अर्वावतो न आ गृह्यथो शक परावतः उ लोको यस्ते अद्रिः इन्द्रेह तत आ गंहि ॥ ७ ॥ इन्द्रो अङ्ग महद् भयमभीषदप चुच्यवत् । स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ८ ॥ इन्द्रश्च मूलयाति नो न नः पश्चादद्यं नशत् । भद्रं भवाति नः पुरः ॥ ९ ॥ इन्द्र आशांभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत् । जेता शत्रून् विचर्षणिः ॥ १० ॥

भा०—(४-१०) इन सात मन्त्रों की व्याख्या देखो अथर्व २० । २० । १-७ ॥

क ई वेद सुते सत्रा पिवन्तं कद् वयो दधे । अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्टानः शिष्यन्धंसः ॥ ११ ॥ दाना मृगो न वारुणः पुत्रा चरथं दधे । नकिंष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महांश्चरुस्योजसा ॥ १२ ॥ य उग्रः सन्ननिष्टृत स्थिरो रणांश्च संस्कृतः

यदि स्तोतुर्मघवां शृणुवद्ध्रुवं नेन्द्रो योपत्या गमत् ॥ १३ ॥ वृषं
 वं त्वा सुतावन्त आगो न वृक्तयैर्वेषः । एवित्रस्य प्रलवणेषु
 वृत्रहन् परि स्तोतारं आसते ॥ १४ ॥ स्वरन्ति त्वा सुते नरो
 वंसो निरेक उक्थितः । कृदा सुतं तृपाण ओक् आ गम् इन्द्रं
 स्वव्दीव वंसंगः ॥ १५ ॥ कण्ठोभिर्धृष्ट्वा धूपद् वाजं दारिं सह
 स्त्रिणम् । प्रिशंग्रहपं मघवन् विचर्षणे मद्गु गोमन्तमीमहे ॥ १६ ॥

भा०—(११-१३) इन तीन मन्त्रों की व्याख्या देखो का० २० ।
 १३ । १-३ ॥

(१४-१६) इन ३ मन्त्रों की व्याख्या देखो का० २० । १३ ।
 १-३ ॥

[५८] ईश्वरस्तुति ।

१, २ नृनेधः । ३, ४ भरद्वाजः इन्द्रः । ४ सूर्यश्च देवते । प्रगाथः । चतुर्ध्वं
 चक्षन् ॥

श्रायन्त इव सूर्ये विश्वेदिन्द्रस्य भक्तत । वसुनि जाते

जनमान् ओजसा प्रति भागं न दीधिम ॥१॥ अ० ८ । १९ । ३ ॥

भा०—(सूर्यम् इव) जिस प्रकार किरणें या ग्रह उपग्रह सूर्य का
 आश्रय लेते हैं और उसी के प्रकाश का उपभोग करते हैं उसी प्रकार इन्द्र
 परमेश्वर का (श्रायन्तः) आश्रय लेते हुए हे मनुष्यो ! आप लोग
 (इन्द्रस्य इत्) उस ऐश्वर्यवान् परमेश्वर के ही (विश्वा वसुनि इत्)
 समस्त ऐश्वर्यों का (भक्तत) भोग करो । और हम सब लोग (जाते)
 उत्पन्न हुए (जनमाने) उत्पन्न होनेहारे और भविष्य में उत्पन्न होने
 वाले इस जगत् में भी (ओजसा) अपने पराक्रम, बल वीर्य के अनुसार
 (भागं न) अपने भाग अर्थात् प्राप्त किये ऐश्वर्य के अनुसार ही (प्रति-

दीधिम) प्रत्येक वस्तु धारण कर रखें । इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश के समान हम सब राजा के ऐश्वर्यों का भोग करें । वर्तमान और भावी में अपने अम, बल, पराक्रम के अनुसार अपना भाग प्राप्त करें ।

अनर्शरतिं वसुदामुपं स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । सो अस्य कामं विद्यतो न रोपति मनो दानाय चोदयन् ॥२॥ अ० ८।१९।४ ॥

भा०—हे मनुष्य ! तू (अनर्शरतिम्) निष्पाप, साधिविद्वान वाले (वसुदाम्) ऐश्वर्य के दाता परमेश्वर की (उपस्तुहि) स्तुति कर । हे मनुष्य ! (इन्द्रस्य रातयः) इन्द्र, ईश्वर के समस्त दान (भद्राः) कल्याण और सुख के जनक हैं । (सः) वह परमेश्वर (अस्य विधतः) अपनी सेवा स्तुति करने वाले इस भक्त सेवरु के (कामम्) मनोरथ का (न रोपति) घात नहीं करता । परमेश्वर अपने भक्त के मनोरथ को पूर्ण करता है । और (दानाय) दान देने के लिये ही (मनः) अपने भक्त के चित्त को (चोदयन्) प्रेरित करता रहता है ।

गमहाँ असि सूर्य वडादित्य महाँ असि । महस्ते सुतो
हिमा पनस्यते देव महाँ असि ॥ ३ ॥ अ० ८ । १०१ । ११ ॥

भा०—हे (सूर्य) सबके उत्पादक और प्रेरक सूर्य ! परमेश्वर ! तू (गत्) सच्चमुच (महान् असि) महान्, सबसे बड़ा है । हे (आदित्य) श्रेष्ठ ! सबके अपने भीतर समा लेनेहारे, सबके वश करनेहारे ! (वत् मह् असि) तू सच्चमुच महान् है । (सतः ते) सत् स्वरूप तेरी (महः र्मा) बड़ी महिमा, बड़ा सामर्थ्य (पनस्यते) गाया जाता है । (अद्वा) निश्च, हे (देव) सर्वदृष्टः उपास्य देव ! तू (महान् असि) महान् है । अयं (पनस्यते) स्तुतिशील उपासक के लिये तू ही सबसे बड़ा है ।

वद् श्रवसा महाँ असि सुत्रा देव महाँ असि । म्हा देवानां
मसुयंपुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम् ॥४॥ अ० ८।१०१ । १२ ॥

भा०—हे (सूर्य) सबके प्रेरक परमेश्वर, सूर्य के समान सबके जी-
वनाधार ! तू (श्रवसा) तेज, कीर्ति, बल और ज्ञान से (वट्) सत्य ही
(महान् अस्ति) सबसे बड़ा है । (सत्रा) निश्चय से हे (देव) विजि-
गीषो ! राजन् ! देव, देदीप्यमान ! हे दृष्टः ! तू (महान् अस्ति) महान्,
सबसे बड़ा है । तू (महद्वा) अपने महान् सामर्थ्य से (देवानाम्) सम-
स्त देव, दिव्य शक्तियों, अग्नि, जल, पृथिवी सूर्यादि लोकों और पदार्थों में
(असुर्यः) प्राणों में रमण करने वाले जीवों का हितकारी और (पुरोहितः)
सबसे पूर्व विद्यमान रहा है । तू ही (त्रिभु) सर्वत्र व्यापक और विविध
प्रकार से विद्यमान) अदाभ्यन्) अविनाशी, नित्य, ध्रुव, (ज्योतिः)
प्रकाशस्वरूप है ।

[५६] ईश्वरार्चना ।

वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । चतुर्भुवं इन्द्रम् ॥

उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमांस ईरते ।

सञ्जाजितो धनुसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥१॥

कर्वा इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद्धीतमानशुः ।

इन्द्रं स्तोमैभिर्महयन्त आयवः प्रियमंधालो अस्वरन् ॥२॥

भा०—(१-२) इन दो मन्त्रों की ग्याख्या देखो अथर्ववेद भा०
२०।१०।१, २ ॥

उदिन्वस्य रिच्यतेशो धनं न जिग्युषः । य इन्द्रो हरिञ्चा

दमन्ति तं रिपो दक्षं दधाति सामिनि ॥३॥ सू० ७।३२१२ ॥

भा०—(जिग्युषः धनं न) विजयशक्ति राजा का धन ऐं जिस
प्रकार बराबर बढ़ा करता है उसी प्रकार (अस्त) इस परमेश्वर का भी
(अंशः) व्यापक सामर्थ्य और ऐश्वर्य भी (इव तु उद् रिचं) क्या

वढ़ता ही चला जाता है। क्या कोई सीमा नहीं ! (यः) जो (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर (हरिवान्) हरणशील इन्द्रियों पर विजय करने वाले योगी के समान समस्त शक्तियों पर, घोड़ों पर, सारथी या महारथी के समान वश करने वाला है (तं) उसको (रिपिः) पाप (न दभन्ति) नहीं, सताते। प्रत्युत वह परमेश्वर (सोमिनि) सोम, राष्ट्रैश्वर्यवान् राजा के समान सोम, आत्मा के वशयिता या प्रह्वानन्द रसपान करने वाले आत्मवान् योगी को (दक्षं दधाति) वक्ष प्रदान करता है।

मन्त्रमखर्वं सुधितं सुपेशसं दधात यज्ञियेष्व। पूर्वोश्चन

प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्मणा भुवत् ॥४॥ ऋ० ७।३२। १३४

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (यज्ञियेषु) यज्ञ, परस्पर सैगति से होने वाले राज्यव्यवस्था, सभा, समिति, सत्संगों में अथवा यज्ञ प्रजापति राजा के हितकारी कार्यों में और यज्ञ-परमेश्वर की उपासना के आह्वारों में (अखर्वं) गर्वरहित, अति विनयपूर्वक (सुधितं) उत्तम रूप से विचारित, (सुपेशसं) सुन्दर, (मन्त्रम्) परस्पर का विचार मन्त्र और वेदमन्त्र को (दधात) धारण करो, प्रयोग करो। सभा आदि में विनय से अपने विचार लहो और धर्म कार्यों में श्रद्धा भक्ति से मन्त्रों का उच्चारण करो। (पूर्वोः चन) पूर्व से ही किये गये (प्रसितयः) उत्तम राज्य व्यवस्था या धर्म मर्यादाएं भी (तं तरन्ति) उसको कष्टों से पार करती हैं (यः) जो (कर्मणा) कर्म से (इन्द्रे) इन्द्र ऐश्वर्यवान् राजा और प्रभु के शर्धीन होकर (भुवत्) रहता है।

[६०] ईश्वर और राजा का वर्णन

१-३ सुतकक्षः सुकक्षो वा ऋपिः । ४-६ मधुच्छन्ता ऋपिः । गायत्र्यः । पट्टचं सूक्तम् ॥

एवा ह्यसि वीर्युरेवा शूरं उत स्थिरः ।

एवा तु राध्यं मनः ॥ १ ॥ ऋ० ८ । ८१ । २८ ॥

भा०—(वीर्युः एव हि असि) हे इन्द्र ! राजन् ! प्रभो ! तू वीर पुरुषों को ही प्राप्त होने हारा, उनका हितैषी है । तू (शूरः उत स्थिरः इव असि) शूरवीर और स्थिर रहने वाला, धैर्यवान् है । (ते नमः) तेत नम और ज्ञान भी (राघवं एव) आराधना करने योग्य ही है ।

एवा रातिस्तुवीमथ विश्वेभिर्घायि धातृभिः ।

अथा चिदिन्द्र मे सत्त्वा ॥ २ ॥ ३० ॥ ८१ । २९ ॥

भा०—हे (तुवीमथ) बड़े ऐश्वर्य के स्वामिन् ! (विरवेभिः धातृभिः) समस्त पालन करने वाले धाता, धारक, प्रभु स्वामी, पोषक, विघाताओं, राजाओं ने तेरे (रातिः एव) दिये दान को (धायि) धारण किया है । (अथा चित्) और इन्ही प्रकार हे प्रभो ! (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (मे सत्त्वा) मेरे भी साथ वृत्त और धन प्रदान कर ।

सो पु ब्रह्मेवं तन्द्रयुर्भुवां वाजानां पते ।

मत्स्वां सुतस्य गोमतः ॥ ३ ॥ ३० ॥ ८२ । ३० ॥

भा०—हे राजन् ! हे प्रभो ! (ब्रह्मा इव) यज्ञ में ब्रह्मा के समान और निष्ठा में ब्रह्मज्ञानी के समान हे (वाजानां पते) ऐश्वर्यों के स्वामिन् ! तू (तन्द्रयुः) आलस्य युक्त (ना उ सु भुवः) कभी नत हो । (गोमतः सुतस्य) गौ आदि पशुओं से सम्पन्न ऐश्वर्य के द्वारा स्वयं (मत्स्व) कृत हो । अर्घ्यात्म में—(गोमतः सुतस्य मत्स्व) इन्द्रियों के सामर्थ्यों सहित उनसे उत्पन्न नीतरी आनन्द और ज्ञानरस से वृत्त हो । परमेश्वर पद में—सूर्यादि लोकों सहित उत्पन्न संसार के क्षेत्र तू (मत्स्व) स्वयं पूर्णानन्द रूप हो और शैतों को भी कृत कर ।

एवा ह्यस्य सुनृतां विरुप्ती गोमती मही ।

पक्वा शाला न दाशुये ॥ ४ ॥ ३० ॥ ८३ । ३० ॥

भा०—(पक्वा शाखा न) पकी हुई शाखा जिस प्रकार मनुष्य को फूल फल देती और बैठने वाले को मली प्रकार आश्रय देती है उसी प्रकार (अस्य) इस इन्द्र ज्ञानवान् आचार्य के समान साक्षात् आत्मा के द्रष्टा, एवं सर्व जगत् के द्रष्टा परमेश्वर की (सूनृता) शुभ सत्य ज्ञान पूर्ण वाणी और उसके समान ही (सूनृता) उत्तम अन्न से परिपूर्ण (गोमती) पशु आदि से समृद्ध (मही) यही पृथ्वी, (विरप्णी) विविध पदार्थों को देने वाली (एव) ही होती है । ज्ञानवाणी ही (दाशुपे) परमेश्वर को आत्म समर्पण करने वाले अभ्यासी के लिये (पक्वा शाखा न) परिपक्व, पुनः पुनः अभ्यस्त शाखा वेद शाखा के समान ज्ञानप्रद और (शाखा= खे शेते) आश्रय वृक्ष के समान अन्तराकाश में रमने वाली होती है ।

एवा हि ते विभूतय ऊतयं इन्द्र मावते ।

सद्यश्चित् सन्ति दाशुपे ॥ ५ ॥ ऋ १ । ८ । ९ ॥

भा०—(ते) तेरी (विभूतयः एव हि) विभूतियों, ऐश्वर्य ही निश्चय से हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! राजन् ! प्रभो ! (मावते) मेरे जैसे (दाशुपे) दानशील के लिये (सद्यः चित्) सदा के लिये (ऊतयः सन्ति) रक्षा रूप से होजाती हैं ।

पृवा ह्यस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शंस्यां ।

इन्द्राय सोमपीतये ॥ ६ ॥ ऋ० १ । ८ । १० ॥

भा०—(अस्य) इसके (एव) ही (स्तोमः) स्तुति समूह और (उक्थं च) वेद ज्ञान (काम्या शंस्या) मनोहर, स्तुति करने योग्य एवं उत्तम हैं । वे (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् योगी आत्मा के (सोमपीतये) सोमपान, अध्यात्म ब्रह्मरस स्वाद के लिये होते हैं । अथवा (अस्य काम्या शंस्या स्तोम उक्थं च) इस भक्त के मनोहर स्तुति-वचन और वेदमन्त्र भी निश्चय से (सोमपीतये इन्द्राय) सोम का पान करने वाले, आनन्द

रस के सागर, ऐश्वर्यवान् परमेश्वर एवं राष्ट्रपति के पद के भोजन ऐश्वर्यवान् राजा के लिये ही होते हैं ।

[६१] पूर्णानन्द परमेश्वर की स्तुति

गोक्षयश्चक्षुतिनाइषी । इन्द्रो देवता । उष्णिहः । पद्वन् चक्रन् ॥

तं ते मदं गृणीमहि वृषंयं पृत्तु सांस्रहिम् ।

इ लोककृत्तुमद्रिवो हरिश्रियम् ॥ १ ॥ २० वा १५ । ४ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवान् इन्द्र ! हम लोग (ते) तेरे (तं) उस प्रसिद्ध (वृषणम्) समस्त सुखों के वर्षक (पृत्तु) मनुष्यों और संग्रामों के (सांस्रहिम्) समस्त शत्रुओं के पराजय करने वाले, सबको वश करने के समर्थ, (हरिश्रियम्) वेगवान् महान् लोकों और वेगवती शक्तियों का आशयभूत, विद्वानों के सेवनीय (लोककृत्तुम्) लोकों की रचना कर वाले (मदम्) परम आनन्द रूप शक्ति का (गृणीमसि) वर्णन, स्तुति करते हैं ।

येन ज्योतीष्यायवे मनवे च त्रिवेदिये ।

मन्दानो अस्य बर्हिषो विराजसि ॥२॥ २० वा १५ । ५ ॥

भा०—(येन) जिस वृषिधारक सबको प्रसन्न करने वाले प्रकाश तू (आयवे) साधारण मनुष्य और (मनवे) ज्ञानशील पुरुष को (ज्योतीषि) नाना ज्योतिर्मय सूर्य, विद्युत्, अग्नि आदि (त्रिवेदिये) प्रद करता है उससे ही तू (मन्दानः) सदा वृत्त एवं पूर्ण आनन्दमय हो (अस्य बर्हिषः) इस महान् ब्रह्माण्ड के बीच में आपन पर राजा के मान (विराजसि) शोभायमान होता है ।

तद्वा चित्त उक्थिनोतुं प्लवन्ति पूर्वया ।

वृषपत्नीरुपो जया त्रिवेदिये ॥३॥ २० वा १५ । ६ ॥

भा०—(अद्यच्चित्) आज तक भी (उक्थिनः) स्तुतिकर्ता पुरुष (पूर्वथा) पूर्व के समान ही (तत्) उस तेरे स्वरूप का (अनु सुवन्ति) बराबर वर्णन करते हैं । वह ही (वृषपत्नीः) वर्षणशील मेघ की शक्तियों को पालन करने वाली (अयः) जलों को जिस प्रकार सूर्य धारण करता है उसी प्रकार वृष अर्थात् बलवान् पुरुष के पालन वाली प्रजाओं को (दिवे दिवे) प्रतिदिन (अयः) समस्त आस प्रजाओं को (जय) अपने चश कर ।

तम्बभि प्र गांयत् पुरुहूतं पुरुष्टुतम् ।

इन्द्रं गीर्भिस्तद्विपमा विवासत ॥४॥ ऋ० ८ । १५ । १ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (पुरुहूतं) सबसे स्तुति करने योग्य (पुरुष्टुतम्) बहुत विद्वानों से वर्णित (तम् उ) उस परमेश्वर की ही (प्र गायत्) अच्छी प्रकार स्तुति करो । हे विद्वान् लोग (गीर्भिः) वेदवाणियों द्वारा (तद्विपम्) महान् शक्तिशाली (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् पुरुष को (आ विवासत) स्तुति करो, उसकी अर्चना करो ।

यस्य द्विवहंसो बृहत् सहो दाधार रोदसी । गिरिरँजं अयः
स्ववृषत्पत्न्या ॥५॥ स राजन्नि पुरुष्टुतं एको वृत्राणि जिघ्रसे ।
इन्द्र जैत्रां श्रवस्यां च यन्तवे ॥६॥ ऋ० ८ । १ । १५ । २, ३ ॥

भा०—(द्विवहंसः) दो महान् शक्तियों वाले (यस्य) जिसका (बृहत् सहः) बड़ा भारी बल (वृषत्वना) अपने वर्षण सामर्थ्य से (रोदसी) दौ और पृथिवी (गिरिन् अजान्) वेगवान् मेघों और पर्वतों को (अयः स्वः) जलों समुद्र और आकाश को भी (दाधार) धारण करता है । (सः) वह तू (पुरुष्टुतः) बहुतसी प्रजाओं द्वारा स्तुति करने योग्य (एकः) अकेला ही (वृत्राणि) समस्त विघ्नों को (जिघ्रसे) विनाश करता है । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! तू ही (जैत्रा श्रवस्वा) विजयशील चश-कीर्ति जनक ऐश्वर्यों को (यन्तवे) प्रदान करने में समर्थ है ।

[६२] ईश्वर का स्तवन

ऋषेभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिहः । षड्वचं सूक्तम् ॥

वयसु त्वामंघ्र्यं स्थूरं न कञ्चिद् भरन्तोवस्यवः । वाजे चित्रं
 हवामहे ॥१॥ उपं त्वा कर्मभूतये स नो युवोप्रश्चक्राम यो धृपत् ।
 त्वामिद्धव्यवितारं वयमहे सखाय इन्द्र सान्नासिम् ॥२॥ यो न
 इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमुं व स्तुपे । सखाय इन्द्र-
 मूनये ॥३॥ हयैश्वं सत्पतिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत ।
 आ तु नः स वयति गन्धमश्व्यं स्तोतृभ्यो मघवां शतम् ॥४॥

भा०—(१-४) इन चार मन्त्रों की व्याख्या देखो अथर्ववेद का०
 २० । १४ । १-४ ॥

इन्द्राय सामं गायतु विप्रायं वृहते वृहत् ।

धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥५॥ ऋ० न ९८ । १ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! (विप्राय) मेधावी, जगत् को विशेष बल और
 विविध पदार्थों से पूर्ण करने वाले, (वृहते) महान् (धर्मकृते) जगत् के
 धारण करने वाले प्रबन्ध को करने वाले, (विपश्चिते) समस्त ज्ञानों और
 कर्मों को जानने वाले, (पनस्यवे) स्तुति के योग्य, (इन्द्राय) परमपेश्वर्य-
 वान् एवं ज्ञान दृष्टि से, समाधि द्वारा साक्षात् दर्शनीय परमेश्वर के (वृहत्
 साम) महत्त्व सूचक 'वृहत्' नामक साम, स्तुतिगान का (गायत)
 गायन करो ।

त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः ।

विश्वकर्मा विश्वदेवो मूर्धा असि ॥६॥ ऋ० ८ । ९८ २ ॥

२—(५०) 'महत्ते' इति साम० ।

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! परमेश्वर ! (त्वम् अभिभूः असि) तू सब संसार में व्यापक और उसका वश करने वाला है । (त्वं) तू (सूर्यम्) सूर्य को (अरोचयः) प्रकाशित करता है । तू (विश्वकर्मा) समस्त जगत् का रचनेहारा एवं जगत् के समस्त कार्यों का कर्ता और (विश्वदेवः) समस्त संसार का उपास्यदेव, सब का द्रष्टा समस्त देवों दिव्य शक्तियां एक स्वरूप और (महान् असि) महान्, सबसे बड़ा है ।

त्रिभ्राजं ज्योतिषा स्वःरगच्छो रोचनं दिवः ।

देवास्तं इन्द्र सख्याय येमिरे ॥७॥ इ० ८ । १८ । ३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यवान् ! तू (ज्योतिषा) सूर्य आदि समस्त प्रकाशमान लोकों की ज्योति से (त्रिभ्राजन्) विशेष रूप से चमकना हुआ (दिवः रोचनम्) समस्त कान्तिमान सूर्य और द्यौलोक को प्रकाशित करने वाले (स्वः) महान् आकाश अथवा (स्वः) महान् तेज को या परम धाम को (अगच्छः) प्राप्त है । (देवाः) समस्त देवगण, विद्वान् और दिव्य पदार्थ (ते सख्याय) तेरे समान ख्याति वाले मित्र भाव के लिये (येमिरे) यत्न करते हैं अर्थात् समस्त विद्वान् और सूर्यादि लोक भी तेरी मित्रता चाहते हैं ।

तम्भुभि प्र गांयत पुरुहूतं पुरुष्टुतम् । इन्द्रं गीर्भिस्तत्रिपमा
विंवासत ॥८॥ यस्य द्विर्दंसो बृहत् सहां द्वाधार रोदसी ।
गिरीरज्राँ श्रपः स्ववृपत्तना ॥ ९ ॥ स राजसि पुरुष्टुतं पक्रो
वृत्राणि जिघ्नसे । इन्द्र जैत्रां अयस्यां च यन्तवे ॥१०॥

भा०—(८—१०) इन तीन मन्त्रों की व्याख्या देखो अथर्व० २०
६२ । ४ । ६ ॥

[६३] राजा और ईश्वर

१-३ प्र० द्वि० भुवनः जाम्बवः साधनो वा भौवनः । ३ वृ० च० नारदाज्ञो वाईत्य
 त्वः । ४-६ गौतमः । ७-९ पवितश्च ऋषिः । इन्द्रो जेज्ज । ७ त्रिष्टुम् शिष्ट
 उग्निहः । नवर्च इच्छन् ॥

इमा तु के भुवना सीपधामेन्द्रंश्च विश्वं च देवाः ।

यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सुह र्चिकृपाति ॥१॥

ऋ० १०।१५७।१ ॥

भा०—(इन्द्रः च) इन्द्र सेनापति और (विश्वे च देवाः) समस्त
 देव विद्वान् गण और विजिगीषु वीर पुरुष हन सब मिलकर (इमा भुव
 नानि) इन समस्त लोकों को (सीपधान कन्) अपने बश करें । (इन्द्र)
 ऐश्वर्यवान् राजा (आदित्यैः सह) आदित्य १२ ही नामों या उनके समान
 नाना प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न राष्ट्र के १२ विभागों या आदित्य
 के समान तेजस्वी पुरुषों के साथ मिलकर (नः) हमारे (यज्ञम्) राष्ट्र
 को (नः तन्वे च) हमारे शरीर को और (नः प्रजां च) हमारी प्रजा को
 भी (ची कृपाति) समर्थ, शक्ति सम्पन्न करे ।

आदित्यैरिन्द्रः सगंखो मरुङ्गैरुत्माकं भून्वयिता तनूनाम् ।

इत्वायं देवा असुरान् यदायन् देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः ॥२॥

ऋ० १०।१५७।२ ॥

भा०—(यत्) जब (देवाः) विजयी वीर पुरुष अपने (देवत्वम्)
 विजयी स्वभाव की रक्षा करते हुए (देवाः) सूर्य की किरणों के समान
 (असुरान्) दुष्ट पुरुषों को (इत्वाय) नारकर (आयन्) लौट आवे
 तब (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् या शत्रुओं का नाश करने वाला सेनापति राजा
 (सगरः) अपने सहायक सैनिकगण के साथ (आदित्यैः) सूर्य के
 समान तेजस्वी और (नरुङ्गैः) वायु के समान तीव्रगति वाले शत्रु रूप वृक्षों

को अपने प्रबल वेग से उखाड़ देने में समर्थ वीर पुरुषों के साथ मिल कर (अस्माकं) हम प्रजाओं के (तनूनाम्) शरीरों को (अविता भूतु) रक्षक हो ।

प्रत्यञ्चमकमनयं छुर्चीभिरादित् स्वधामिपिरां पर्यपश्यन् ।

अथा वाजं देवहितं सनेम मदेम शतं हिमाः सुवीराः ॥३॥

ऋ० ६ । १७ । १५ ॥

भा०—विद्वान् लोग (प्रत्यञ्चम्) शत्रुओं पर चढ़ाई करने में समर्थ (अर्कम्) स्तुति योग्य, एवं आदित्य के समान तेजस्वी पुरुष को (शचीभिः) शक्तिशाली सेनाओं के साथ (अनयन्) ले जाते हैं, उसको सेनाओं से युक्त करते हैं (आत इत्) और तदनन्तर (इपिराम्) बलवती सर्व-प्रेरक (स्वधाम्) अपने राष्ट्र के ऐश्वर्य को धारण करने वाली शक्ति को (परि अपश्यन्) साक्षात् करते हैं । (अथा) इस बड़ी भारी राज्य की शक्ति से प्रेरित होकर हम लोग (देवहितम्) विजय चाहने वाले वीरों एवं राजा के हितकारी या अभिलाषा योग्य (वाजसे) संग्राम को या बल को (सनेम) प्राप्त करें और (सुवीराः) उत्तम वीरों और पुत्रों वाले होकर (शतं हिमाः) आयु के सौ वर्षों तक (मदेम) आनन्द प्रसन्न एवं तृप्त रहें ।

परमात्मा और आत्मा के पक्ष में—(अर्के) अर्चनीय उपास्य आत्मा को आत्मज्ञानी लोग (शचीभिः) यज्ञ और कर्म सहित साक्षात् करते हैं और उस सर्व प्रेरक, स्वयं शरीर और ब्रह्माण्ड को धारण करने वाली शक्ति को ही (परि अपश्यन्) सर्वत्र विद्यमान पाते हैं, उस शक्ति से ही हम (देवहितम्) विद्वानों और प्राणों के हितकारी, उनके पोषक पालक (वाजं) अन्न का हम (सनेम) भोग करें और सौ वर्षों तक पुत्रादि सहित हर्षित रहें ।

य एक इद् विद्यते वसु मतीय द्राशुपे ।

ईशानो अप्रतिष्कृत इन्द्रो अङ्ग ॥६॥ ऋ० १ । ८४ । ७ ॥

भा०—(अङ्ग) हे विद्वान् पुरुषो ! (यः) जो (एकः इत्) अकेला ही (दाशुपे मर्ताय) दानशालि आत्मत्यागी पुरुष को (वसु विदधते) ऐश्वर्य विविध रूपों में प्रदान करता है, वह ही (अप्रतिष्कृतः) विपत्तियों से कभी पराजित न होने वाला अप्रतिहत सामर्थ्यवान् अथवा कभी याचक को न नकारने वाला स्वयं (ईशानः) सर्वेश्वर, सबका स्वामी (इन्द्रः) इन्द्र, ऐश्वर्यवान् है ।

कदा मत्तैमराधसं पदा जुम्पमिव स्फुरत् ।

कदा नः शुश्रवद् गिर इन्द्रो अङ्ग ॥५॥ अ० १ । ८४ । ८ ॥

भा०—(अङ्ग) हे विद्वान् पुरुषो ! (अराधसन्) देने योग्य धनसे रहित, कृपण, अदानशील पुरुष को (इन्द्रः) वह शत्रुनाशक, ऐश्वर्यवान्, न जाने, (कदा) कब (पदा जुम्पन् इव) पैर से खुन्धी की तरह (स्फुरत्) हुकरादे । और (नः गिरः) हमारी वाणियों को वह (कदा) कब (शुश्रवद्) सुनते ।

यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतार्यां आविवांसति ।

उग्रं तत् पंत्यते शत्रु इन्द्रो अङ्ग ॥६॥ अ० १ । ८४ । ९ ॥

भा०—(अङ्ग) हे प्रजागण ! अथवा अन्तरात्मन् ! (यः चित् हि) जो भी (सुतावन्) सुत अर्थात् उत्पन्न पदार्थ या ऐश्वर्यों से लग्न होकर (बहुभ्यः) बहुतसे जनों के हित के लिये (त्वा) तेरी (आ विवांसति) सेवा करता है । (तत्) तभी वह (इन्द्रः) स्वयं शत्रुनाशक होकर (उग्रम्) भयंकर (शत्रुः) वल को (पंत्यते) प्राप्त होता है, उसका स्वामी होजाता है ।

य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति ।

येन दंसि न्युत्तिरुं तर्मांमहे ॥७॥ अ० २ । १२ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यवान् शत्रुनाशक ! हे (शविष्ठ) सब से अधिक बलशालिन् ! (येन) जिस वत से तू (अक्षिणन्) प्रजा को

खा जाने वाले दुष्ट पुरुषों को (निहंसि) निग्रह करके दण्ड देता है और (यः मदः) जो सबको प्रसन्न और हर्ष देने वाला (सोमपातमः) सोम नाम राजा के पद या राष्ट्र को अच्छी प्रकार पालन करने में समर्थ होकर, (चेतति) सब प्रजाओं को चेताता या ज्ञानवान् करता है (तम् ईमहे) हम उसी को चाहते और प्रार्थना करते हैं ।

जो संसार का पालन करता है और जिस बल से वह दुष्टों का नाश करता है भगवान् ईश्वर से हम वह बल मांगते हैं ।

येना दशग्वमधिगुं वेपथन्तं स्वर्णरम् ।

येना समुद्रमाविधा तमीमहे ॥ ८ ॥ अ० ८ । १२ । २ ॥

भा०—हे राजन् ! (येन) जिस बल से तू (दशग्वम्) दश गमन-शील प्राणों या इन्द्रियों से युक्त (अधिगुम्) अजितेन्द्रिय या ' अधि=गु ' अस्थिरगति वाले नाशवान् शरीर को (वेपथन्तम्) सञ्चालित करने वाले (स्वर्णरम्) सुख के नेता या सुखमय प्रकाशमय, नर, पुरुष, आत्मा को (आविध) रक्षा करता है और (येन) जिससे (समुद्रम्) इस महान् आकाश और समुद्र उनमें विद्यमान चराचर जगत् को (आविध) रक्षा करता है हम तो (तम् ईमहे) उसको जानें, पावें, प्राप्त करें, उसकी याचना करते हैं ।

राजा के पक्ष में—दशों दिशाओं में भाग जाने वाले अधीर शत्रुको रूपाने में समर्थ (स्वर्णरम्) सुखमय राष्ट्र के नेता पुरुष और (समुद्रम्) प्रजा और विशाल सेना समूह रूप समुद्र को जिस बलसे रक्षा करता है हे राजन् ! हम उसी बल को चाहते हैं ।

येन सिन्धुं महीरुपो रथीं इव प्रचोदयः ।

पन्थानृतस्य यातये तमीमहे ॥ ९ ॥ अ० ९ । १२ । ३ ॥

भा०—हे ईश्वर ! (येन) जिस बल से तू (सिन्धुम्) समुद्र के प्रति (महीः अपः) बहने वाली बड़ी २ जल की नदियों को और (रथान् इव) रथों को महारथी के समान अपनी आज्ञा से (ऋतस्य) सत्य नियम के या चराचर संसार के (पन्थाम् यातवे) मार्ग पर ठीक प्रकार से चलने के लिये (प्रचोदयः) प्रेरित करता है (तम् ईमहे) हम उसीको जानना चाहते हैं और याचना करते हैं ।

सेनापति के पक्ष में—(सिन्धुं प्रति महीः अपः इव रथान् प्रचोदयः) समुद्र के प्रति जाने वाली महानदियों के समान रथों अर्थात् रथारूढ घीरों को (ऋतस्य पन्थाम् यातवे) संग्राम के मार्ग पर चलने की (प्रचोदयः) आज्ञा देता है (तम् ईमहे) हम उसका ज्ञान करें ।

[६४] ईश्वर और राजा !

१-३ नृमेधाः । ४-६ गोसूक्त्यश्वसक्तिर्नो । इन्द्रो देवता । उष्णिहः ॥

एन्द्रं नो गधि प्रियः सत्राजिदगोह्यः ।

गिरिर्न विश्वतस्पृथुः पतिर्दिवः ॥१॥ ऋ० ८। ६८। ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! तू (नः) हमारा (प्रियः) प्रिय (सत्राजित्) सदा विजयशालि एवं एक ही साथ सबको विजय करने में समर्थ और (अगोह्यः) सबके गोचर, कभी छिप कर न रहने वाला होकर तू (नः) हमें (आगधि) प्राप्त हो । तू (गिरिः न) पर्वत के समान (विश्वतः) सब प्रकार से (स्पृथुः) विस्तृत महान् (दिवः पतिः) सूर्य और आकाश का भी पालक है ।

राजा के पक्ष में—राजा प्रजाओं का प्रिय, सदा विजयी, (अगोह्यः) सर्व प्रत्यक्ष, पर्वत के समान विशाल और (दिवः पतिः) ज्ञानवान् पुरुषों की राजसभा का पति है ।

अभि द्वि संत्य सोमपा उभे बभूयं रोदसी ।

इन्द्रसि सुन्वतो वृधः पतिर्दिवः ॥२॥ ऋ० ८ । १८ । ५ ॥

भा०—हे (सत्य) सत्यस्वरूप ! तू (सोमपाः) सोमरूप संसार या परमेश्वर्य का पालन करने हारा होकर (उभे रोदसी) दोनों लोकों को (अभि बभूय) वश करता है । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! तू (सुन्वतः वृधः) अपने सवन करने वाले उपासक को बढ़ाने वाला और (दिवः पतिः) ज्ञानी पुरुष और धौ और सूर्य का भी पालक है ।

राजा के पक्ष में—हे सत्य व्यवहार के रक्षक राजन् ! तू (सोमपाः) राष्ट्र का रक्षक होकर (उभे रोदसी अभि बभूय) राजा और प्रजा दोनों दलों के भी ऊपर है । अपना सवन या अभिषेक करने वाले या कर देने वाले प्रजागण का बढ़ाने वाला और ज्ञानवान् पुरुषों की सभा का पति है ।

त्वं हि शश्वतीनामिन्द्रं दर्ता पुरामसि ।

हन्ता दस्योर्मनोर्वृधः पतिर्दिवः ॥३॥ ऋ० ८ । २१ । ६ ॥

भा०—हे इन्द्र सेनापते ! (त्वं हि) तू निश्चय से (शश्वतीनाम्) शत्रुओं की सदा से चली आर्यां समस्त (पुराम्) नगरियों या गढ़ों को (दर्ता असि) तोड़ने वाला है । तू (दस्योः हन्ता) ढाकूजन का नाशक और दण्ड देने वाला और (मनोः) मननशील प्रजाजन का (वृधः) बढ़ाने वाला और (दिवः पतिः) ज्ञानी पुरुषों का या तेजस्वी राजपट्ट का पति है ।

परमेश्वर के पक्ष में—हे प्रभो ! तू (शश्वतीनाम्) अनादिकाल से चली आई इन समस्त (पुराम् दर्ता असि) देहरूप नगरियों को तोड़ने वाला देह-ग्रन्थनों का नाशक है । (दस्योः) छयकारी अज्ञान का नाशक और (मनोः) ज्ञान का वर्धक और आत्म-प्रकाश का पातक है ।

पद्म मध्वो मद्दिन्तरं सिञ्च वाध्वयो अन्वसः ।

एवा हि वीर स्तवते सुदावृथः ॥ ४ ॥ ३० ८ । २४ । १६ ॥

भा०—हे (अध्वयो) अध्वयो ! अध्वर=यज्ञ के सन्पादक, उपासक ! (मध्वः) मधुर (अन्वसः) प्राण और आत्मा का (मद्दिन्तरम्) अति अधिक आनन्दप्रद, परम तृप्तिकारक रूप सोन रस का (असिञ्च इत् उ) नित्य सेचन कर उसी आन्तर रस को प्रवाहित कर, (हि) क्योंकि (एवा) इस प्रकार ही (सुदावृथः) नित्य वृद्धिशील, नित्य इनारी वृद्धि कराने वाला (वीरः) वीर्यवान् (स्तवते) स्तुति किया जाता है ।

राजा के पद में—(मध्वः अन्वसः) मधुर भोग्य पदार्थ राष्ट्र के ऐश्वर्य का सबसे अधिक सुखकारी भाग राजा को प्रदान कर । नित्य इनारे ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले वीर की इसी प्रकार अर्चना होती है ।

इन्द्रं स्थातर्हरियां नकिण्टे पूर्व्यन्तुतिम् ।

उदानंश शवसा न भन्दनां ॥ ५ ॥ ३० ८ । २४ । १७ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! हे (हरियां स्थातः) गतिमान लोकों के बीच में स्थापक एवं संस्थापक अथवा (हरियां) आत्माओं के बीच में, या नाशवान् पदार्थों के बीच में सदा स्थिर ! (ते) तेरी (पूर्व्यन्तुतिम्) पूर्ण स्तुति, गुण कीर्ति को (शवसा) बल द्वारा (नकिः उत् आनंश) कोई भी अभी तक प्राप्त नहीं कर सका, लांब नहीं सका । और न उस तेरी कीर्ति को (भन्दना न) अपने कल्याणकारक और सुखदायक व्यवहार से ही लांब सका है ।

राजा के पद में—(हरियां मध्ये स्थातः) हे अश्वों और अश्वारोहियों के बीच में सेनापति रूप से खड़े होने वाले राजन् ! तेरी पूर्व प्राप्त कीर्ति को अभीतक भी न बल से और न उपकार से कोई लांब सकता है तू इतना वीर और उपकारी बन ।

तं त्रौ वाजांतां पतिमहमहि श्रवस्यवः ।

अप्रायुभिर्यज्ञेभिर्वावृधेन्यम् ॥६॥ अ० ८ । २४ । १८ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! (वः) आप लोगों के (वाजांतां) समस्त पेश्वों, वज्रों, सेनाओं और अन्नादि समृद्धियों के (पतिम्) पालक और (अप्रायुभिः) निरन्तर किये जाने वाले कभी न टूटने वाले (यज्ञेभिः) यज्ञों उपासना के कर्मों से (वावृधेन्यम्) नित्य बढ़ने वाले, या भइँों को चढ़ाने वाले (तम्) उस परमेश्वर को (श्रवस्यवः) यश, ज्ञान और अन्न समृद्धि के इच्छुक हम लोग (अहमहि) स्मरण करते हैं ।

राजा के पक्ष में—(अप्रायुभिः) निरन्तर किये जाने वाले (यज्ञेभिः) राजा प्रजा के परस्पर मिलकर किये कार्यों द्वारा (वावृधेन्यम्) बढ़ने वाले राजा को हम (श्रवस्यवः) यश समृद्धि के अभिलाषी सदा (अहमहि) आदर से स्वीकार करें ।

[६५] परमेश्वर और राजा ।

विश्वमपाः वैश्व अपिः । इन्द्रो देवता । उष्णिहः । तृचं सत्तम् ॥

स्तोत्रं स्तवाम् सखायः स्तोम्यं नरम् ।

कृष्टीर्यो विश्वां अभ्यस्त्येक इत् ॥१॥ अ० ८ । २४ । १९ ॥

भा०—हे (सखायः) मित्र जनो ! (आ इत् नु) आओ, (यः) जो (एक इत्) एक अद्वितीय अकेला ही (विश्वाः) समस्त (कृष्टी) आकर्षण शक्ति से बद्ध लोकों के (अभि अस्ति) ऊपर वश कर रहा है उस (स्तोम्यं) स्तुति योग्य (नरम्) सबके नेता, सबके सञ्चालक (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर की (स्तवाम्) स्तुति करें ।

राजा के पक्ष में—(यः) जो (विश्वाः कृष्टीः एक इत् अभि अस्ति) समस्त मनुष्यों को अकेला ही वश करता है उस (स्तोम्यं नरं स्तवाम्) स्तुति योग्य पुरुष के गुणकीर्तन करें ।

अगौरुधाय गविषे द्युत्ताय दत्स्यं वचः ।

घृतात् स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥२॥ ऋ० ८ । २४ । १९ ॥

भा०—हे मित्रो ! आप लोग (गविषे) गौ=स्तुति या वेदवाणियों को प्रेरणा करने वाले और (अगौरुधाय) अपने ज्ञानकिरणों को न रोक रखने वाले, उनको प्रसार करने वाले (द्युत्ताय) प्रकाशस्वरूप, उस परमेश्वर की स्तुति के लिये (घृतात् स्वादीयः) घृत, जल से भी अधिक स्वादु, अधिक स्निग्ध और (मधुनः च स्वादीयः) मधु से भी मधुर (दत्स्यं) दर्शनीय (वचः) वचन का (वोचत) उच्चारण करो ।

राजा के पक्ष में—(गविषे) गौ=आज्ञा के दाता और (अगौरुधाय) गौ भूमियों पर अपना स्वत्व न रखने वाले वा लोगों की भूमि आदि न छीनने वाले, दानशील राजा के प्रति धी से अधिक स्नेहमय और मधु से अधिक मधुर वचन का प्रयोग करो ।

यस्यामितानि वीर्या^३ न राधः पर्येतवे ।

ज्योतिर्न विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा ॥३॥ ऋ० ८ । २४ । २० ॥

भा०—हे मित्रो ! (यस्य) जिसके (वीर्या) वीर्य, पराक्रम और बल के व्यापार भी (अमितानि) अज्ञेय एवं असंख्य, मापे नहीं जा सकते और (राधः) जिसका पेश्वर्य भी (पर्येतवे न) पार नहीं किया जा सकता और जिसकी (दक्षिणा) दानशीलता भी (ज्योतिः न) सूर्य के प्रकाश के समान (विश्वम् अभि अस्ति) समस्त विश्व से भी ऊपर, सबसे बढ़कर है, तुम उसकी स्तुति मधुर और स्नेहमय वचनों से करो ।

राजा के पक्ष में—जिसको अनन्त पराक्रम, अपार धन और सर्वोपरि दानशीलता है उसकी स्तुति करो ।

[६६]

श्रुत्यादि पूर्ववत् ॥

स्तुहीन्द्रं व्यश्ववदन्मिं वाजिनं यमम् ।

अर्यो गयं महमानं विदा शुषे ॥१॥ ऋ० ८ । २४ । २२ ॥

भा०—हे पुरुष ! तू (व्यश्ववत्) विनीत अश्व वाले पुरुष के समान स्वयं अपने इन्द्रियों पर विजयशील जितेन्द्रिय पुरुष के समान होकर (अनूर्मिम्) भय, पीड़ा रहित, आविर्बुद्ध, गर्भीर (यमम्) सर्व नियन्ता (वाजिनम्) ज्ञान और ऐश्वर्यवान् और (दाशुषे) दानशील, आत्मत्यागी, पुरुष को (अर्यः गयम्) शत्रु के धन, बल, प्राणों के (महमानम्) देने वाले (इन्द्रम्) शत्रुहन्ता या तमोनाशक परमेश्वर की (स्तुहि) स्तुति कर । अथवा—(दाशुषे) आत्मत्यागी को (अर्यः) प्रजा और (गयं) धन के (महमानं) देने वाले ईश्वर की स्तुति कर ।

प्रजा वा अरिः । श० ३ । ६ । ४ । २१ ॥ अरिः स्वामी ।

राजा के पत्र में—(अनूर्मिम्) पीड़ानय, बाधा रहित, (यमम्) राष्ट्र नियन्ता, (वाजिनम्) ऐश्वर्यवान् की स्तुति कर जो (अर्यः) शत्रु के (गयं) धन को जीतकर (दाशुषे) करप्रद प्रजाको (वि) त्रिविध रूपों में (महमानं) देनेहारा है ।

एवा नूनमुपं स्तुहि वैश्व दशमं नवम् ।

सुविद्वासं चर्कृत्यं चरणानाम् ॥२॥ ऋ० ८ । २४ । २३ ॥

भा०—(नूनम्) निश्चय से, हे (वैश्व) विनीत इन्द्रियरूप अश्वों वाले ! जितेन्द्रिय पुरुष ! तू (दशमं) नवों दिशाओं से भी ऊपर दशवें और (नवम्) सदा नवीन सदा तरुण एवं स्तुति योग्य (सुविद्वासं) उत्तम ज्ञानवान् सब कुछ जानने वाले (चरणीनाम्) चरणशील, सदा-चारी साधकों के लिये (चर्कृत्यम्) सदा उपासना करने योग्य परमेश्वर और (एवं) उसी प्रकार (दशमं) दशमी अवस्था को प्राप्त ६० वर्ष से भी अधिक आयु वाले (नवम्) सदा स्तुत्य उत्तम विद्वान् (चरणीनाम्)

वनोति द्वि सुन्वन् क्षयं परीणसः सुन्वानो द्वि ष्मा यजुत्यवृ द्विर्षा
 देवानामव द्विषः । सुन्वान इत् सिंपासति सहस्रा वाज्य वृतः।
 सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवम् रयिं ददात्याभुवम् ॥१॥ ऋ० १।१३३।७॥

भा०—हे इन्द्र परमेश्वर ! (सुन्वन्) तेरा सवन या उपासना करता हुआ पुरुष ही (क्षयं) निवास योग्य उत्तम गृह और लोक को (वनोति) प्राप्त करता है । (सुन्वानः द्वि) तेरी उपासना करने वाला पुरुष ही (परीणसः) चारों तरफ नाक वाले अर्थात् अति सावधान या चारों ओर से लगे हुए (द्विषः) शत्रुओं को (अवयजति) नाश करता है और साथ ही (देवानाम् द्विषः) विद्वान् पुरुषों के शत्रुओं को भी (अव यजति) नीचे गिराता है । (सुन्वानः इत्) उपासना करने वाला पुरुष ही (वाजी) ज्ञानवान होकर (अवृतः) विघ्न बाधाओं से न धिरकर अकेला ही (सहस्रा) हजारों ऐश्वर्यों को (सिंपासति) निरन्तर प्राप्त करता है । (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् परमात्मा (सुन्वानाय) उपासक को (आभुवं रयिम्) सब प्रकार के सुखों को उत्पन्न करने वाले ऐश्वर्य को (ददाति) प्रदान करता है और (आभुवम्) पुनः २ आने वाले या अन्त तक रहने वाले, अद्वय (रयिम्) बल वीर्य को (ददाति) प्रदान करता है ।

राजा के पक्ष में—(सुन्वन्) राज्याभिषेक करने वाला प्रजाजन (क्षयं वनोति) निवास योग्य शरण प्राप्त करता है, अपने शत्रु और विद्वानों के शत्रुओं को ददाता है । (अवृतः) स्वयं शत्रुओं से न धिरकर वाजी संग्रामशील या अश्वारोही होकर सहस्रों ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है । राजा ऐसे अभिषेक करने वाले प्रजाजन को अक्षय, नाना पदार्थों के उत्पादक (रयिम्) ऐश्वर्य का भी प्रदान करता है ।

‘सुन्वन्, सुन्वानः’, पुञ् अभिषवे । स्वादिः । अभिषवः त्वपनं, पीडनं स्नानं सुरासंधानं चेति भट्टोजी दीक्षितः ।

अथवा—(सुन्वन्) दुष्टों को दण्डित करने वाला पुरुष, गृह प्राप्त करता शत्रुओं को दवाता और अकेला ही सहजों ऐश्वर्य प्राप्त करता है ।
(इन्द्रः) परमेश्वर उसको समृद्ध ऐश्वर्य प्रदान करता है ।

'परीणसः'—उपसर्गाच्च । (पा० १।५।४।६६) ति नासिका या नसादेशः । परितो नासिका येषां ते परीणसः अति सावधानाः । कुक्कुरवदिष्टानिष्टवस्त्वाम्राणपराः ।

मो पु वां अस्मद्भि तानि पौत्या सना भूवन् द्युभानि
मोत जारिपुरस्मत् पुरोत जारिपुः । एद् वञ्चिनं युगेयुगे नव्यं
घोपाद्मन्यम् । अस्मासु तन्मन्त्रो यच्च दुष्टरं दिभ्रुता यच्च
दुष्टरम् ॥२॥

ऋ० २।१३७।८ ॥

भा०—हे (मन्त्रः) मन्त्रगणों ! वीर सुभटों ! एवं वैश्य प्रजाजनो !
(अस्मत्) हमसे (तानि) वे नाना प्रकार के (सना) सदा से हमें
वंश परम्परा से प्राप्त, नित्य (वः पौत्या) आप लोगों के पौत्र्य के कर्म
और अधिकार (मो सु अभि भूवन्) नष्ट न हों । और (द्युभानि) सदा-
तन, नित्य या स्थिर (द्युभानि) यश और ऐश्वर्य (ना उत जारिपुः) कभी
नष्ट न हों । और (अस्मत्) हमारे हाथों से (पुरा) पुर और नगर
आदि और उनमें रहने वाले प्राणी (ना उत जारिपुः) नष्ट न हों ।
(वः) आप लोगों का (यत्) जो (चित्रं) अद्भुत या नाना प्रकार
का और (नव्यम्) नवीन और (अमर्त्यम्) नरणाधना, साधारण मनुष्य
को न प्राप्त होने वाला धन (घोपात्) कहाता है हे (मन्त्रः) वीर सुभटों !
(तत्) वह और (यत् च) जो कुछ भी (दुष्टरं) दुःखों से प्राप्त किया
जाय और (यत् च दुस्तरम्) जो दुस्तर, अपार हो (तत्) वह सब
(अस्मासु) हममें (दिष्ट) प्रदान करो ।

अध्यात्म में-हे (मरुतः) प्राणगण ! (वः) तुम्हारे (तानि सना पौत्या मो सु अभि भूवन्) वे नाना, सदातन, नित्य आत्मसम्बन्धी बलकर्म नष्ट न हों । अर्थात् इन्द्रियों के सामर्थ्य बने रहें । (अस्मत् घुम्नानि मोत जारिपुः) तेजोमय ज्ञान हमसे न छूट वे भी बने रहें । (उत) और चाहे (पुरा) ये देह (अस्मत्) हमसे (जारिपुः) छूट जायं पर (यत्) जो (वः) तुम लोगों के श्रीच (नव्यं) सदा स्तुत्य, सदा नवीन और (अम र्धम्) अमर (चित्रं) चित् स्वरूप में रमण करने वाला आत्मा (घोपात्) कहा जाता है (यत् च दुस्तरम्) और जिसको अज्ञान पा नहीं सकते और (यत् च दुस्तरम्) जिस नित्य, अनन्त को अनित्य प्रलोभन पार कर नहीं सकते, जीत नहीं सकते उस ईश्वरीयं बलको (अस्मानु दिक्षत) हमारे में धारण कराओ ।

अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सूनुं सहस्रो जातवेदसं
विप्रं न जातवेदसम् । य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्यां कृपा ।
घृतस्य विभ्राष्टिमानु वाष्टिं शोत्रिषा जुह्वानस्य सर्पिपः ॥३॥

श्र० १।१२७।१ ॥

भा०—मैं (अग्निम्) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर को (दास्वन्तम्) दान देने वाला, (होतारम्) सब कुछ स्वीकार करने वाला, (वसुन्) सब में बसने और सबको बसाने वाला और (सहसः) अपने बल और शक्ति के कारण (सूनुं) सबका प्रेरक, (जातवेदसं) समस्त उत्पन्न पदार्थों को जानने वाला, और (विप्रम् न) विविध विद्याओं से पूर्ण, मेवाधी विद्वान के समान (जातवेदसम्) ऐश्वर्यों और वेद विद्याओं के प्रकट करने वाला (मन्ये) मानता और जानता हूँ । और उसी प्रकार होता, ' दास्वान् ' वसु आदि विशेषणों वाले उस पर परमेश्वर की ही स्तुति करता हूँ । (यः) जो (ऊर्ध्वया) सबसे ऊपर वर्तमान (देवाच्या) 'देव' दिव्य पदार्थों को

प्राप्त सूर्य, वायु, विद्युत् आदि पदार्थों में प्रकट होने वाले (कृपा) सामर्थ्य से स्वयं (स्वध्वरः) उत्तम प्रजापालन रूप, हिंसा रहित, याग करने द्वारा (देवः) सबका द्रष्टा और सबका प्रकाशक है और जो (आजुहानस्य) आहुति किये गये (सर्पिषः) द्रवीभूत (घृतस्य) घी के कारण उत्पन्न (विभ्राष्टिम् अनु) अग्नि की विविध देदीप्यमान ज्वाला के समान (आजुहानस्य) अपने भीतर आहुति किये गये संसरणशील सूर्यादि (घृतस्य) तेजस्वी पदार्थों की (विभ्राष्टिम् वष्टि) नाना प्रकार के कान्ति की स्वयं कामना करता है । अर्थात् उन्हीं की चमक से स्वयं चमकता है ।

इसी प्रकार राजा—शत्रुतापक होने से 'अग्नि' राज्य स्वीकार करने से 'होता', दानशील होने से 'दास्वान्', प्रजा को बसाने वाला होने से 'वसु', पेश्वर्यवान् होने से 'जातवेदा' है । वह विजिगीषु विद्वानों के भीतर विद्यमान सर्वोच्च शक्ति से (स्वध्वरः) उत्तम राष्ट्रपालन रूप यज्ञ करता है । घृत के तेज से देदीप्यमान अग्नि के समान स्वयं दीप्ति से चमकता है ।

यज्ञैः संमिश्रताः पृपतीभिर्ऋष्टिमिर्यामं हृभ्रासौ अञ्जिपुं
प्रिया उत । आसर्वा वृद्धिर्भरतस्य सूनवः पोषादा सोमं पिवता
दिवो नरः ॥४॥ ऋ० २।३६।२ ॥

भा०—नास्तौ माधवश्च देवते । आपाद् की वायुओं के वर्णन के साथ वीर पुरुषों और अध्यात्म प्राणों का वर्णन है । हे (भरतस्य सूनवः) हे भरण पोषण करने वाले आत्मा के पुत्र के समान उसी के धीरे सामर्थ्य से उत्पन्न प्राणगणों अथवा (भरतस्य) भरण पोषण योग्य इस चराचर जगत् के प्रेरक प्राणों ! आप लोग (यज्ञैः संमिश्रताः) धार्मिक पुरुषों के समान यज्ञों से युक्त होकर अर्थात् 'यज्ञ' संगति कारक आत्मियों के साथ मित्तकर और (पृपतीभिः ऋष्टिभिः) पालन पूर्ण करने वाली शक्तियों सहित (यामन्) प्राप्त होने योग्य रथ रूप देह में (शुभ्रासः)

शोभा देने वाले और (अञ्जिपु) नाना विषयों के ज्ञान कराने में समर्थ हृन्दि य शक्तियों में रहकर (प्रियाः) अति प्रिय मनोहर, एवं उच्छृष्ट रूप से प्रकट होकर और (वर्हिः) आसन के समान आश्रयरूप महान शक्ति वाले या वृद्धिशील आत्मा में (ध्यासथ) बैठकर (नरः) नेता या शरीर के प्रवर्तक होकर (दिवः) तेजः स्वरूप (पोत्रात्) परम पवित्र शुद्ध आत्मा में (सोमं) प्रेरक बल रूप शक्ति को (पिबत) प्राप्त करो ।

योगियों के पक्ष में—(नरः) हे उत्तम पुरुषो ! हे (भरतस्य सूनुवः) संस्रके भरण पोषण करने वाले महान परमेश्वर के पुत्रों के समान योगि जनों ! आप लोग (यज्ञैः संमिश्रताः) उपासनीय आत्मा या उपासना के उचित कर्मानुष्ठानों से युक्त होकर (पृपतीभिः ऋष्टिभिः) आत्मा को पूर्ण करने वाली शक्तियों सहित (वामन्) उस प्राप्तव्य परम परमेश्वर के आश्रय में (शुभ्रासः) सुशोभित होकर स्वतः शुभ्र शुद्ध, निष्पाप कर्मों का आचरण करते हुए (उत्) और (अञ्जिपु) ज्ञान के प्रकाश करने वाले कार्यों में अति प्रिय मनोहर होकर आपलोग (वर्हिः) उस महान महान में स्थित होकर (दिवः) सूर्य के समान तेजस्वी (पोत्राद्) प्राज्ञक, पावनकर्ता परमेश्वर से (ध्या) प्राप्त करके (सोमम्) ब्रह्मानन्द रस का (ध्या पिबत) निरन्तर मनन करो ।

राजा के नियुक्त वीर शासक पुरुषों के पक्ष में—हे (दिवः नरः) ज्ञान-वाली सर्वोपरि विराजमान राजसभा के नेता पुरुषो ! आप लोग (यज्ञैः संमिश्रताः) आदर सत्कारों से युक्त, (वामन्) रथों पर (पृपतीभिः) हृष्ट पुष्ट घोड़ियों, अश्वों और (ऋष्टिभिः) हिंसाकारी हथियारों से (शु-भ्रासः) सुशोभित और (अञ्जिपु प्रियाः) आभूषणों द्वारा मनोहर होकर (वर्हिः आसथ) आसनों पर बैठकर (पोत्रात्) पवित्र कर्त्तव्य से (सोमं आपिबत) सोम, ऐश्वर्य या राष्ट्र का भोग करो ।

आ वंशि देवाँ इह विप्र यज्ञि चोशन हौतनि पंदा योनिषु
त्रिषु । प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिवाशीध्रात् तव भागस्य
तृष्णुहि ॥ ५ ॥ ऋ० २ । ३६ । ५ ॥

भा०—हे (विप्र) विविध विद्याओं में पूर्ण ज्ञानी, मेधावी परमेश्वर !
तू (देवान्) समस्त देवों, विद्वानों और सूर्यादि लोकों को (ज्ञावहि)
धारण करना है । और (यज्ञि च) परस्पर संगत करता और प्रदान करता
है । हे (होतः) सबके स्वीकार करने हारे ! तू (त्रिषु योनिषु) तीनों
लोकों में (निषद) व्याप्त है । तू (प्रति वीहि) प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हो
(प्रस्थितं सोम्यं मधु) अच्छी प्रकार स्थिर जीवों के हितकारी ज्ञान को
(पिब) पान करा (आशीध्रात्) अग्नि को धारण करने वाले सूर्यादि
लोक से प्राप्त (तव भागस्य) तेरे भजन करने या प्राप्त करने योग्य तेज
से तू (तृष्णुहि) समस्त संसार को तृप्त कर ।

विद्वान के पत्र में—तू (देवान् ज्ञावहि) दिव्य गुणों को धारण कर ।
(उशन च यज्ञि) कामनायुक्त होकर फल की आकांक्षा से यज्ञ कर । हे
(होतः) होता पुरुष । तू (त्रिषु योनिषु निषद) तीनों गार्हपत्य आदि अ-
श्रियों में विराज । (प्रस्थिते) प्राप्त किये या लायें गये (सोम्यं मधु)
सोमनय मधुर पदार्थ की (प्रति वीहि) अनिलापा कर । (आशीध्रात्)
आशीध्रियाग से शेष प्राप्त पदार्थ का (पिब) पान कर और (तव भागस्य
तृष्णुहि) अपने भाग से तृप्त हो ।

राजा के पत्र में—हे विविध ऐश्वर्यों से राष्ट्र को पूर्ण करने वाले
विप्र ! तू (देवान् वधि) विजयी पुरुषों को धारण कर (यज्ञि) उनको
वेतनादि दे । (त्रिषु योनिषु) सिंहासन, शासकवर्ग और प्रजावर्ग तीन
पर विराज, अधवा स्वराष्ट्र परराष्ट्र और उदासीन सब पर विराज । उप-
स्थित (सोम्यं मधु) राष्ट्रनय मधु, योग्य पदार्थ या यज्ञ को प्राप्त कर

उसका भोग कर । और अपने (आग्नीधात्) अग्नि, तेज धारण करने वाले राजपद से प्राप्त स्वराष्ट्र से तृप्त हो ।

एष स्य तं तन्वो नृमणवर्धनः सह ओजः प्रदिवि ब्राह्मोहितः ।

तुभ्यं सुतो मघवन् तुभ्यमाभृतस्त्वमस्य ब्राह्मणादा तृपत् पिव ६॥

ऋ० २। ३६। ५॥

भा०—हे राजन् ! (एषः स्यः) यह सोम रूप राष्ट्र का समस्त अधिकार (ते) तेरे (तन्वः) शरीर के समान विस्तृत राज्य का (नृमणवर्धनः) प्रजाओं के अभिलषित धन को बढ़ाने वाला होकर (सहः) बल, (ओजः) और पराक्रम स्वरूप होकर (दिवि) ज्ञानवान् पुरुषों की बनी राजसभा या ज्ञान में, आकाश में, या तेज में सूर्य के समान और (ब्राह्मोः) ब्राह्मणों में बलके समान (हितः) रक्खा गया है । यह (तुभ्यम्) तेरे लिये ही (सुतः) अभिषेक द्वारा प्रदान किया है और हे (मघवन्) ऐश्वर्यवान् ! (तुभ्यम्) तेरे लिये ही (आभृतः) सब प्रकार से सुरक्षित एवं सब प्रकार से तुझे प्राप्त कराया गया है । (त्वम्) तू (अस्य) इसमें से (ब्राह्मणात्) 'ब्रह्म' अर्थात् वेदोपदिष्ट भाग से (तृपत्) तृप्त, सन्तुष्ट और प्रसन्न होकर उसका (आ पिव) सब प्रकार भोग कर ।

यम् पूर्वमाहुवे तमिदं हुवे सेदु हव्यो ददियो नाम पत्यते ।

अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधुं पोत्रात् सोमं द्रविणोदः पिवं

ऋतुभिः ॥ ७ ॥

ऋ० २। ३७। २॥

भा०—(यम्) जिसको भी (पूर्वम्) मैं पहले, प्रथम मुख्य पद पर (आहुवे) बुलाता हूँ (तम्) उसको ही मैं (इदम् हुवे) इस बात का उपदेश करता हूँ कि (यः नाम) जो भी (पत्यते) ऐश्वर्यवान् होता है (सः, इत् उ) वह ही निश्चय से (हव्यः) स्तुतियोग्य और (ददिः) दानशील होता है । हे (द्रविणोदः) ऐश्वर्य के दाता ! (ऋतुभिः) संवत्सर

भर में व्यापक शक्तिमान् सूर्यरूप प्रजापति जिस प्रकार (अथर्व्युभिः प्रस्थितम्) आकाश में व्याप्त किरणों से प्राप्त (सोमं) सोम, जल को ग्रहण करता है उसी प्रकार तू भी (अथर्व्युभिः) राष्ट्र के पालन रूप यज्ञ के कर्ता विद्वान् शासकों द्वारा (प्रस्थितं) प्रस्तुत किये (सोम्यं मधु) राष्ट्र से प्राप्त 'सोम', राजपद के योग्य मधु अर्थात् मधुर, भोग्य अन्न और ऐश्वर्य को (पोत्रात्) अपने व्यापक सामर्थ्य से या पवित्र पालन कर्म से प्राप्त कर और (सोमं पिव) राष्ट्र का भोग कर :

[६८] परमात्मा, विद्वान्, राजा ।

मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । दादगर्चं स्तूतन् ॥

सुरूपकृत्तुमृतये सुदुधामिव गोदुहे । जुहुमसि द्यविद्यवि ॥ १ ॥

उपः नः सवना गंहि सोमस्य सोमपाः पिव ।

गोदा इद् रेवतो मदः ॥ २ ॥

अथां ते अन्तमानां विद्यामं सुमतीनाम् ।

मा नो अति ख्य आ गंहि ॥ ३ ॥ ऋ० १।४।३ ॥

भा०—व्याख्या देखो कां० २०।६७।मं० १-३ ॥

परं हि विप्रमस्तुतमिन्द्रं पृच्छा विपश्चितम् ।

यस्ते सखिभ्य आ वरम् ॥ ४ ॥ ऋ० १।४।४ ॥

भा०—हे विद्वन् ! (यः) जो (ते सखिभ्यः) तेरे स्नेही मित्रों को (वरम्) श्रेष्ठ धन, ऐश्वर्य (आ) प्रदान करता है उस (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान्, ज्ञानवान् (विप्रम्) विविध विद्याओं के उपदेश करने वाले और (विपश्चितम्) ज्ञानों और कर्मों के जाननेहारे विद्वान् को (परा इहि) प्राप्त हो और उससे (पृच्छ) प्रश्न करके ज्ञान प्राप्त कर । अथवा (परा इहि) दुष्ट पुरुषों से परे रह, और विद्वान् से ज्ञान प्राप्त कर ।

विप्राविपाश्चित् शब्दौ मेधाविनामसु पठितौ ॥ अथवा-चेर्नासिकायां प्रो
वक्रव्य इति विप्रः विनासिकः । विविधाविद्याकुशल इत्यर्थः ।

परमात्मा के पक्ष में स्पष्ट है । स सर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ।
पातं० । योगसू० ।

उत्तं ब्रुवन्तु नो निदो निरुन्यतंश्चिदारत ।

दधाना इन्द्र इद्दु दुवः ॥ ५ ॥ अ० १ । ४ । ५ ॥

भा०—(निदः) निन्दक पुरुष (निः आरत) दूर चले जायं और
(अन्यतः चित्) अन्य स्थानों से भी (निर् आरत) परे हों । (उत्त) और
(इन्द्रे इत्) इन्द्र परमेश्वर और आचार्य के अधीन (दुवः) सेवा भक्ति और
व्रत (दधानाः) धारण करते हुए विद्वान्जन (नः) हमें (ब्रुवन्तु) उपदेश करें ।

उत्त नः सुभगां अरिर्वोचेयुर्दस्म कृष्टयः ।

स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ ६ ॥ अ० १ । ४ । ६ ॥

भा०—हे (दस्म) शत्रुओं के नाशक अथवा हे दर्शनीयतम ! प्रभो !
(अरिः उत्त) शत्रुगण और (कृष्टयः) साधारण मनुष्य भी (नः) हमें
(सुभगान्) उत्तम ज्ञान, ऐश्वर्यवान् (वोचेयुः) कहें । हम (इन्द्रस्य)
ज्ञानप्रद गुरु और शत्रुनाशक राजा के (शर्मणि) गृह में, या शरण में
(स्याम इत्) सदा रहें ।

एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमादनम् ।

पतयन्मन्दयत्सखम् ॥ ७ ॥ अ० १ । ४ । ७ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! हे आचार्य ! (आशवे) ज्ञानोपदेश ग्रहण करने
में तीव्र गति वाले शिष्य को (आशुम्) व्यापक, (यज्ञश्रियम्) आत्मा
को शोभा देने वाले या यज्ञ परमात्मा विषयक (नृमादनम्) मनुष्यों के
सुखकारी (पतयत् मन्दयत्सखम्) स्वामित्व या ऐश्वर्यदायक समान मित्रों
को भी प्रसन्न करने वाले ऐश्वर्य को (आ भर) प्राप्त करा ।

अस्य पीत्वा शतक्रतो घृणो वृत्राणामभवः ।

प्राज्ञो वाजेषु वाजिनम् ॥ ८ ॥ ऋ० १।४।८ ॥

भा०—हे (शतक्रतो) सैकड़ों कर्म और प्रज्ञाओं से युक्त राजन् ! विद्वन् ! तू (अस्य) इस राष्ट्र के ऐश्वर्य को (पीत्वा) प्राप्त करके (वृत्राणाम्) विघ्नकारी, एवं नगररोधक शत्रुओं को (घनः) मारने में समर्थ (भवः) होजाता है । और (वाजेषु) संग्रामों में (वाजिनम्) अन्न और बल वीर्य वाले अपने देश एवं प्रजाजन और वेगवान् अश्वारोही दल को (प्र भवः) उत्तम रीति से रक्षा कर ।

ज्ञानार्थी के पक्ष में—हे सैकड़ों ज्ञानों को प्राप्त शिष्य ! (अस्य पीत्वा) इस ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करके तू (वृत्राणां) मन को तामस आवरणों से घेरने वाले अज्ञानों का (घनः भवः) नाशक हो । और (वाजेषु) अन्नादि भोग्य पदार्थों में भी (वाजिनम्) वीर्यसम्पन्न आत्मा को और इन्द्रियगण को (प्र भवः) पालन कर । जितेन्द्रिय हो ।

तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो ।

घनानामिन्द्र सातये ॥ ९ ॥ ऋ० १।४।९ ॥

भा०—हे (शतक्रतो) सैकड़ों कर्मों, बलों से युक्त ! इन्द्र ऐश्वर्यवन् ! (घनानां सातये) ऐश्वर्यों के प्राप्त करने के लिये (तं) उस जगत्प्रसिद्ध (त्वा) तुम्हें (वाजिनम्) बलवान् पुरुष को (वाजयामः) प्राप्त होते हैं तुम्हें से निवेदन करते हैं या तुम्हें वीर्यवान् बलवान् और अन्नादि से पुष्ट करते हैं ।

यो रायोऽवनिर्भ्रह्मन्तुं पारः सुन्वतः सखा ।

तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १० ॥ ऋ० १।४।१० ॥

भा०—(यः) जो (रायः) ऐश्वर्य का (अवनिः) पृथ्वी के समान आश्रय और रक्षा करने वाला है और (नद्वान्) चढ़ा भारी, (सुन्वतः)

उपासना करने वाले भक्त का (सुपारः) उत्तम पालक एवं (सखा) मित्र है । (तस्मै) उस (इन्द्राय गायत) ऐश्वर्यवान् प्रभु की स्तुति गान करो ।

आ त्वेता नि पीदितेन्द्रमभि प्र गायत ।

सखायु स्तोमवाहसः ॥ ६१ ॥ ऋ० १ । ५ । १ ॥

भा०—हे (स्तोमवाहसः) स्तुतिसमूहों को, वेद मन्त्रों को धारण करने वाले विद्वान् पुरुषो ! अथवा हे वीर्य या पदाधिकार को धारण करने वाले वीर पुरुषो ! (सखायः) हे समान पद के मित्र जनो ! (आ एत तु) आभो और (आ निपीदत) आसनों पर बैठो । और (इन्द्रम् अभि) ऐश्वर्यवान् प्रभु को लक्ष्य करके (प्र गायत) उत्तम स्तुति गान करो उत्तम २ वचन कहो ।

पुरुतमै पुरुशामोशाने वार्याणाम् ।

इन्द्रं सोमे सचां सुते ॥ ६२ ॥ ऋ० १ । ५ । २ ॥

भा०—(सुते सोमे) सोम के निष्पन्न हो जाने पर राष्ट्र के व्यक्ति और राजा के अभिषिक्त हो जाने पर (पुरुणाम्) ब्रह्म सी प्रजाओं में (पुरुतमम्) सबसे श्रेष्ठ पालक और (वार्याणाम्) अभिलाषा के योग्य ऐश्वर्यों के (ईशानम्) स्वामी (इन्द्र) शत्रुविनाशी, इन्द्र, परमेश्वर को (सचा) एकत्र होकर स्तुति करो । उसको चुनो या प्राप्त करो । प्रस्तुत करो ।

[६६] राजा, सेनापति, परमेश्वर ।

ऋष्यादि पूर्ववत् । गायत्र्यः । द्वादशच सूक्तम् ॥

स घां नो योग आ भुवत् स राये स पुरंध्याम् ।

गमद् वाजंभिरा स नः ॥ १ ॥ ऋ० १ । ५ । ३ ॥

भा०—(सः ष) वह इन्द्र परमेश्वर ही (नः योगे) हमारे अप्राप्त पुत्रार्थ के प्राप्त करने में (आभुवत्) सहायक हो । अथवा (सः ष नः) वह ही हमारे (योगे) चित्त के एकाग्र कर लेने पर समाधि दशा में (आभुवत्) प्रकट होता है (सः राये) ऐश्वर्यवृद्धि के लिये भी वही (आभुवत्) समर्थ है । (सः पुरन्ध्यान्) वह ही बहुतसे शत्रुओं को धारण करने वाली बुद्धि में भी प्रकट होता है । (सः) वह (नः) हमें (वाजेभिः) बल, वीर्य एवं ऐश्वर्य सहित (आगन्वत्) प्राप्त हो ।

राजा के पक्ष में—वह राजा या सेनापति हमें अलम्ब ऐश्वर्य को प्राप्त करने धन प्राप्त करने और देश की रक्षा के कार्य में समर्थ हो और वह संग्रामों द्वारा या अन्न सहित हमें प्राप्त हो ।

यस्य संस्थे न वृणवते हरीं समत्सु शत्रवः ।

तस्मा इन्द्राय गायत ॥ २ ॥ ३० १।५।४ ॥

भा०—(समत्सु) संग्रामों या आनन्द के अवसरों पर (यत्सु) जिसके (संस्थे) रथ में लगे (हरीं) घोड़ों को (शत्रवः) शत्रुगण भी (न वृणवते) सहन नहीं करते (तस्मै) उस (इन्द्राय) इन्द्र की (गायत) स्तुति को ।

परमेश्वर पक्ष में—(संस्थे) जिसके नली प्रकार से हृदय में स्थित हो जाने पर (यत्सु हरीं) जिसके दुःखहारी प्राण और अपान शक्तियों के सामने (शत्रवः) आत्मा के बल के नाशक विषयगण (समत्सु) समाधि के रस प्राप्ति के अवसरों पर (न वृणवते) आत्मा को नहीं घेरते । (तस्मै) उस (इन्द्राय) आत्मा और परमेश्वर के गुणों का (गायत) गान करो ।

सुतपात्रं सुता इमे शुचयो यन्ति वीतर्ये ।

सोमासो दध्याशिरः ॥ ३ ॥ ३० १।५।५ ॥

भा०—(सुतपात्रे) उत्पन्न किये गये पदार्थों के रक्षक और पालक के लिये (इमे) ये (शुचयः) शुद्ध, कान्तिमान् (सुताः) सोम पदार्थ (वीतये) भोग और ज्ञान के लिये (यन्ति) प्राप्त होते हैं । (सोमाः) उत्तम २ भोगों के उत्पन्न करने वाले ये समस्त ऐश्वर्यवान् पदार्थ (दध्याशिरः) शरीर आदि पोषण करने और स्वयं नाश हो जाने वाले हैं । अर्थात् अपने को खोकर दूसरों को पुष्ट करने वाले हैं । अथवा धारण पोषण वाले पदार्थों को अपने में विलीन किये हुए हैं ।

परमेश्वर-पत्न में—(इह) ये (शुचयः) निर्मल पाप रहित (सुताः) ज्ञान से अभिषिक्त योगविद्यानिष्णात परमात्मा के पुत्र के समान (सोमालः) ज्ञानी पुरुष (दध्याशिरः) ध्यानयोग से अपने जीवन और देह को शीर्ण करने में समर्थ होकर (सुत पात्रे) ज्ञान-निष्णात उपासकों को पुत्र के समान पालक परमेश्वर को (वीतये) प्राप्त करने के लिये (यन्ति) जाते हैं । मोक्षमार्ग का अनुसरण करते हैं ।

त्वं सुतस्य पीतये सुद्यो वृद्धो अजायथाः ।

इन्द्र ज्यैष्ठ्याय सुक्रतो ॥ ४ ॥ अ० १।५।६ ॥

भा०—(इन्द्र त्वं) हे जीव ! हे राजन् ! तू (सुतस्य) प्राप्त राष्ट्र के (पीतये) पालन या भोग के लिये, हे (सुक्रतो) शुभ प्रज्ञा और कर्म करने वाले ! (ज्यैष्ठ्याय) संबन्ध से महान पद प्राप्त करने के लिये (सबः) सदा (वृद्धः) शक्तियों में महान् होकर (अजायथाः) रह ।

परमेश्वर के पत्न में—हे परमेश्वर ! पुत्र के समान अपने उपासकों को (पीतये) अपने भीतर लीन, अपने आनन्द में मग्न कर लेने के लिये तू सदा ही (वृद्धः अजायथाः) महान् है क्योंकि (ज्यैष्ठ्याय) तू ही सबसे ज्येष्ठ या सबसे बड़ा है ।

आ त्वां विशन्त्याशुः सोमांस इन्द्र निर्वणः ।

शं तं सन्तु प्रचेतसे ॥ ५ ॥ अ० १।५।७ ॥

भा०—हे (गिरवणः) वाणियों द्वारा स्तुति करने योग्य ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! (आशवः) ये समस्त व्यापक पदार्थ और वेगवान् सूर्यादि लोक (सोमासः) और विद्याओं में व्याप्त ज्ञानी पुरुष भी (त्वा आविशन्तु) तुम्ह को ही प्राप्त हो जाते हैं और (ते) तुम्ह (प्रचेतसे) प्रकृष्ट उकृष्ट ज्ञानवान् के अधीन होकर ही (शं) कल्याणकारी और शक्ति-दायक (सन्तु) होते हैं । अथवा—ज्ञानी पुरुष (प्रचेतसे) सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी (ते) तुम्हें प्राप्त करने के लिये ही (शं) शांतिसम्पन्न, शमदमादि युक्त (सन्तु) हों ।

राजा और जीव के पक्ष में—हे स्तुतियोग्य ! समस्त (आशवः सोमासः) शीघ्रगामी तीव्र बुद्धिमान् विद्वान्गण (त्वा आविशन्तु) तेरे अधीन रहें । सर्वोत्कृष्ट ज्ञानवान् पुरुष तेरे लिये कल्याणकारी हों ।

त्वां स्तोमां अवीवृधन् त्वामुक्था शंतक्रतो ।

त्वां वर्धन्तु नो गिरः ॥ ६ ॥ ऋ० १।५।८ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! (स्तोमाः) वेदमन्त्रसमूह (त्वां अवीवृधन्) तुम्हें बढ़ाते हैं (उक्था) अन्य वेदमन्त्र भी हे (शंतक्रतो) सैकड़ों कर्मों और प्रज्ञानों वाले ! (त्वां) तुम्हें को ही बढ़ाते हैं । तेरी ही महिमा का गान करते हैं । (नः गिरः) हमारी वाणियों भी (त्वां वर्धन्तु) तुम्हें ही बढ़ावें ।

राजा के पक्ष में—(स्तोमाः) समस्त राजा के अधिकार और (उक्था) आज्ञाएं भी (त्वां अवीवृधन्) तुम्हें बढ़ाते हैं, पुष्ट करते हैं और (नः गिरः) हम प्रजाओं की वाणियां भी (त्वां वर्धन्तु) तुम्हें बढ़ावें, तेरे मान प्रतिष्ठा और उत्साह को बढ़ावें ।

अक्षितोतिः सनेदिमं वाज्रमिन्द्रः सहस्रिणाम् ।

यस्मिन् विश्वान्ति पौर्यां ॥ ७ ॥ ऋ० १।५।९ ॥

भा०—(यस्मिन्) जिस परमेश्वर में (विश्वानि) समस्त (पौंस्या) वीर्य, पराक्रम एवं पुरुष के उपयोगी पदार्थ एवं शक्तियें विद्यमान हैं । वह (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर (अक्षितोतिः) अक्षय, अनन्त रक्षाकारिणी शक्ति वाला होकर हमें (इमं) इस (सहस्रिणाम्स् वाजम्) हजारों सुखों के देने वाले ऐश्वर्य या अन्न को (सनेत्) प्रदान करे । इसी प्रकार वह राजा अक्षय पालन शक्ति से युक्त होकर सहस्रों ऐश्वर्य देने में समर्थ (वाजं सनेत्) संग्राम करे । जिसमें (विश्वानि पौंस्या) समस्त पौरुष बल हैं ।

मा नो मर्तां श्रिभिर्दुहन् तनूनामिन्द्र गिर्वणः ।

ईशानो यवया वधम् ॥ ८ ॥ अ० १। ५। १० ॥

भा०—हे (गिर्वणः) स्तुति योग्य हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! एवं राजन् ! (मर्ताः) मनुष्य (नः) हमारे (तनूनाम्) शरीरों के प्रति (मा श्रिभिर्दुहन्) द्रोह न करे, घात प्रतिघात न करे । तू (ईशानः) सबका स्वामी होकर (वधम्) हम पर उठने वाले शस्त्र या हत्यारे पुरुष को (यवय) दूर कर ।

युञ्जन्ति ब्रह्मरूपं चरन्तं परि तस्थुयः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ६ ॥ युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धृष्णु नृवाहस्ता ॥ १० ॥ केतुं कृण्वन्नकेतये पेशो मर्या अपेशसे । समु पद्भिरजायथाः ॥ ११ ॥ आदहं स्वधामनु पुनर्गर्भित्वमेरिरे । दधाना नामं युक्षियम् ॥ १२ ॥ अ० १। ६। १-४ ॥

भा०—(६-११) इन तीन मन्त्रों की व्याख्या देखो का० २० । २४ । ४-६ ॥ और १२वें मन्त्र की व्याख्या देखो का० २० । ४० । ३ ॥

[७०] राजा परमेश्वर

वीलु चिंदारुजन्तुभिर्गुहां चिदिन्द्र वद्विभिः ।

श्रीविन्द उक्षिया अन्तु ॥ १ ॥ अ० १। ६। ५ ॥

भा०— हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! सूर्य जिस प्रकार (गुहाचित्) आकाश में (वीलु चित्) अपने बल से ही (आरुजत्नुभिः) मेघों को भङ्ग कर देने वाले (वह्निभिः) वहन करने वाले प्रबल वायुओं से मेघों को छिन्न भिन्न करके (उस्त्रियाः) किरणों द्वारा समस्त लोकों को (अनु अविन्दः) प्राप्त करता है । उसी प्रकार वह परमेश्वर (आरुजत्नुभिः) सब प्रकार दुःखों का नाश करने वाले (वह्निभिः) ज्ञान के नेता विद्वान् पुरुषों द्वारा या शरीर का वहन करने वाले प्राणों द्वारा (वीलु चित्) बलपूर्वक (गुहा) हृदयाकाश में (उस्त्रियाः) अपने ज्ञान प्रकाशों को फैलाकर (अनु अविन्दः) सबको व्याप्त करता है । अथवा (उस्त्रियाः) ऊर्ध्वगति, मोक्ष मार्ग में सर्पण करने वाले मुमुक्षु आत्माओं को अपने (अनु) पाँछे २ उन पर अनुग्रह करके (अविन्दः) अपने पास ले लेता है ।

राजा के पक्ष में—(वीलु चित्) बल से (गुहा चित्) गुप्त दुर्गों को भी (आरुजत्नुभिः) तोड़ डालने वाले (वह्निभिः) सेना नायकों द्वारा राजा (उस्त्रियाः) उत्तम पदार्थों को देने वाली प्रजा और भूमियों को (अनु अविन्दः) स्वयं प्राप्त कर लेता है ।

देवयन्तो यथा मतिमच्छां विदद् वंसुं गिरः ।

महामनूपत श्रुतम् ॥ २ ॥ अ० १ । ६ । ६ ॥

भा०—(देवयन्तः) उपास्य देव परमेश्वर की उपासना करनेहारि (गिरः) विद्वान् पुरुष (यथा) जिस प्रकार सं (मतिम्) मनन करने योग्य, (वसुम्) सबके बसाने वाले और सबमें बसने वाले (श्रुतम्) सबसे श्रवण करने योग्य, जगत्प्रसिद्ध, (महाम्) महान् परमेश्वर को (अच्छ) साक्षात् (विदद्) जानते हैं उसी प्रकार (ते) वे उसका (अनूपत) स्तुति किया करते हैं ।

राजा के पक्ष में—(द्रव्यन्तेः) अपने प्रमुख राजा को चाहने वाले (गिरः) विद्वान् पुरुष या शत्रुओं को निगलने वाले वार पुरुष (यथा) जिस प्रकार (मतिम्) मननशील विद्वान् या शत्रु के स्तम्भन करने वाले (वसु) प्रजा के बसाने वाले, (श्रुतम्) जगत्—प्रसिद्ध (महाम्) महान् पुरुष को (अर्च्छा विदत्) साक्षात् प्राप्त करते या पाते हैं वैसे ही वे उसकी (अनूपत) स्तुति भी करते हैं, उसका आदर करते हैं ।

इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अत्रिभ्युपा ।

मन्दू समानवर्चसा ॥ ३ ॥ अ० १ । ६ । ७ ॥

भा०—मरुत् नामक वायु के समान तीव्र वेगवान् एवं शत्रु रूप वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला सैन्यगण ! (अत्रिभ्युपा) भय रहित साधन या बल से युक्त होकर ही (इन्द्रेण) ऐश्वर्यवान् राजा या सेनापति के साथ (संजग्मानः) संगति लाभ करता हुआ (सं दृक्षसे) भला प्रतीत होता है । (हि) क्योंकि दोनों (समानवर्चसा) समान तेज को धारण करने हारे होकर (मन्दू) एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करने वाले एवं परस्पर आनन्द और संतोषदायक होते हैं । ईश्वर पक्ष में—प्राणाभ्यासी योगी (अत्रिभ्युपा) अभय चित्त से संगत होकर परमेश्वर के साथ अपने को मिला पाता है । वे दोनों समान तेज के आनन्दमय होकर एक दूसरे को आनन्दित करते हैं ।

अनवद्यैरभिष्टुभिर्मखः सहस्वदर्चति ।

गुरौरिन्द्रस्य कान्त्यैः ॥ ४ ॥ अ० १ । ६ । ८ ॥

भा०—(अनवद्यैः) दोपरहित, आनन्दित, (अभिष्टुभिः) तेजों से उज्ज्वल, (कान्त्यैः) कान्तिमान् (गुरौः) समूहों से ही (मखः) संग्राम भी स्वयं (सहस्वत्) बलशाली (इन्द्रस्य) सेनापति या राजा की (अर्चति) पूजा करता, उसे मान की वृद्धि करता है ।

परमेश्वरपत्न्यं— (मखः) यज्ञ. (अभिद्युभिः) उज्ज्वल, (अन-
चयैः) अनिन्दनीय, (काम्यैः) कामना योग्य (गणैः) मख-गण, या
विद्वान् पुरुषों द्वारा (सहस्वन् इन्द्रस्य अर्चति) शक्तिमान् परमेश्वर को
पूजा करता है । अर्थात् यज्ञ में विद्वान्गण परमेश्वर की ही उपासना
करते हैं ।

अतः परिज्मन्ना गंहि द्विवो वां रोचनादाथि ।

समस्तिमन्नुज्जते गिरः ॥ ५ ॥ अ० १ । ६ । ९ ॥

भा०—हे (परिज्मन्) सर्वव्यापक, सब लोकों के प्रेरक तू (अतः)
इस अन्तरिक्ष में मेघ या वायु के समान (दिवः) आकाश से सूर्य के
समान (वा) और (रोचनाद्) रुचिकर आदित्य से प्रकाश के समान
(आगहि) हमें प्राप्त हो । (अस्तिन्) इस तुरू में ही (गिरः) समस्त
वेदवाणियों (सन् ऋज्जते) संगत होती है । अथवा—(अस्तिन्) इस
साक्षात् परमेश्वर के ही निमित्त और उसी के आधार पर (गिरः) समस्त
ज्ञान प्रकाशक विद्वान् पुरुष (सन् ऋज्जते) अपनी साधना करते हैं ।

राजा के पक्ष में—अन्तरिक्ष से वायु के या मेघ के समान द्यौलोक से
सूर्य के समान और सूर्य से प्रकाश के समान तू (परिज्मन्) हे सर्व राष्ट्र-
व्यापक अथवा सर्व शत्रुओं पर शत्रुओं के क्षेपण करने हारे वीर ! तू हमें
(अधि आगहि) अधिकारी रूप में प्राप्त हो । ऐसे वीर पुरुष पर आश्रित
होकर ही समस्त (गिरः) स्तुति-वचन और ज्ञोतागण (सन् ऋज्जते)
अपना कार्य साधते हैं ।

इतो वां सातिमीमहे द्विवो वा पार्थिवदाथि ।

इन्द्रं मुहो वा रजसः ॥ ६ ॥ अ० १ । ६ । १० ॥

भा०—हम लोग (इन्द्रम्) इन्द्र, ऐश्वर्यवान् प्रभु से (सातिम्)
समस्त धर्मेश्वरों के विभाग करने वाले से धर्तृश्वर्य के नाम से (रजसः)

याचना करते हैं। वह हमें (इतः) इस (पार्थिवात्) पृथिवी के लोक से (दिवः वा) द्यौ आकाश से या (महो वा रजसः) महान् रजस् अर्थात् अन्तरिक्ष लोक नाना ऐश्वर्य और भोग्य पदार्थों का प्रदान करे। राजा के पक्ष में स्पष्ट है।

इन्द्रमिद् गाथिनो वहदिन्द्रंमकंभिरुकिणः ।

इन्द्रं वाणीरनूपत ॥ ७ ॥ अ० १ । ७ । १ ॥

भा०—(गाथिनः) उद्गाता लोग, गाथा द्वारा स्तुति करने वाले (इन्द्रम् इत् अनूपत) उस इन्द्र ऐश्वर्यवान् परमेश्वर की ही स्तुति करते हैं। (अकिणः) अर्चना करने वाले विद्वान् पुरुष (अकंभिः) वेदमन्त्रों से (इन्द्रम् इत् अनूपत) उस इन्द्र की ही स्तुति करते हैं और (वाणीः) यजुर्वेद की गद्यमय वाणियों भी (इन्द्रम् अनूपत) इन्द्र की ही स्तुति करती हैं।

राजा के पक्ष में—(गाथिनः) श्लोकपाठकः वन्दीजन, (अकिणः) अर्चना करने वाले और (वाणीः) उत्तम वाणिपुं सभी राजा की स्तुति करते हैं या उसके गुणों का प्रतिपादन करते हैं।

इन्द्र इन्द्रयोः सत्त्वा संमिश्रत् आ वचो युजां ।

इन्द्रो वज्री हिरण्यगः ॥ ८ ॥ अ० १ । ७ । २ ॥

भा०—(इन्द्रः इत्) इन्द्र ही (हयोः) अपने में नित्य विद्यमान (हयोः) हरण और आहरण अर्थात् उत्पत्ति और विनाश नामक उन दो महान् शक्तियों के साथ आ (संमिश्रतः) सब प्रकार से रचा मिचा है वे दोनों शक्तियां (वचोयुजा) वचन के साथ योग करती हैं। अर्थात् वचन द्वारा संक्षेप से कही जा सकती हैं। अथवा (वचोयुजा) वेद के वचनों से युक्त है। स्वयं (इन्द्रः) वह परमेश्वर (हिरण्यगः) सुवर्ण के समान कान्तिमान् और मनोहर होकर भी (वज्री) कठोर वज्र रूप शासन को धारण करता है।

ईश्वर के दोही स्वरूप हैं, वह जगत् के पदार्थों को बनाता है या संहार करता है। इन दोनों कार्यों में जगत् के पदार्थ स्वतन्त्र न रह कर परतन्त्र हैं। संहारक होने से वज्रवान् खड्गधारी रुद्र के समान है। उत्पादक होने से वह तेजस्वी और वीर्यवान् है।

राजा के पक्ष में—(वचो युजा हयोः सचा संमिश्रलः) आज्ञाकारी दो वेगवान् घोड़ों से युक्त है। वह खड्ग धर और सुवर्णवान् है अर्थात् शासन-धर और कोपवान् है।

इन्द्रो दीर्घाय चक्षु आ सूर्य रोहयद् द्विवि ।

त्रि गोभिरद्रिमैरयत् ॥ ६ ॥ अ० १ । ७ । ३ ॥

भा०—(इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् परमेश्वर (दीर्घाय चक्षुसे) दूर तक देखने के लिये (द्विवि) आकाश में (सूर्यम् आरोहयत्) सूर्य को स्थापित करता है। और वह सूर्य (गोभिः) किरणों से या गमनशील वायुओं से (अद्रिम्) मेघ को भी (वि ऐरयत्) विविध दिशाओं में प्रेरित करता है।

राजा या सेनापति के पक्ष में—वह (दीर्घाय चक्षुसे) दीर्घ दृष्टि से दूरतक के भविष्य को देखने के लिये (द्विवि) विद्वानों की राजसभा के में सबसे ऊपर (सूर्यम्) आकाश में सूर्य के समान तेजस्वी ज्ञानप्रकाशक विद्वान् को प्रधान पदपर स्थापित करता है और वह (गोभिः) अपनी ज्ञान वाणियों से (अद्रिम्) अन्तर्गद शासन या अमेघ बलको (विऐरयत्) विविध प्रकार से प्रेरित करता है। और उसका विविध रूप में उपयोग करता है।

इन्द्र वाजेषु नोत्र सहस्रप्रधनेषु च ।

उग्र उत्राभिहृतिभिः ॥ १० ॥ अ० १ । ७ । ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यवान् ! परमेश्वर ! (सहस्र-प्रधनेषु) हजारों प्रकार के उत्कृष्ट धनों को प्रदान करने वाला (वाजेषु) युद्धों में

और हे (उग्रः) अतिभयकारिन् बलवान् ! तू अपनी (उग्राभिः) उग्र, भयदायिनी बलवती (ऊतिभिः) रक्षाकारी साधनों से (नः) हमें (अब) बचा ।

राजा के पक्ष में भी स्पष्ट है ।

इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमभै हवामहे ।

युजं वृत्रेषु वज्रिणाम् ॥ ११ ॥ अ० १ । ७ । ५ ॥

भा०—(महाधने) बड़े धन, ऐश्वर्य के देने या व्यय करा देने वाले महासंग्राम में (वयम्) हम लोग (वृत्रेषु) विघ्नकारी शत्रुओं पर सदा वज्र प्रहार करने वाले और (युजं) हमारे सदा सहायक (इन्द्रम् हवामहे) उस परमेश्वर को याद करते हैं । और (अभै) छोटे से युद्ध में भी (इन्द्रम् हवामहे) उस इन्द्र की ही स्तुति करते हैं ।

परमेश्वर भक्त का सदा सहायक होने से उसका 'युज्' है और बाधक तामस आवरणों पर ज्ञान वज्र का प्रहार करके उसे काटता है इससे वह 'वज्री' है ।

राजा के पक्ष में भी स्पष्ट है ।

स नो वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपा वृधि ।

अस्मभ्यमप्रतिष्कृतः ॥ १२ ॥ अ० १ । ७ । ६ ॥

भा०—हे (वृषन्) सुखों के वर्णन करने हारे ! हे (सत्रादावन्) समस्त अभिलाषा योग्य फलों को एक साथ देने में समर्थ अथवा समस्त प्राणियों के कर्म फलों को एक ही काल में देने में समर्थ ! तू (नः) हमारे (अमुं) परोक्ष में विद्यमान (चरुम्) भोग योग्य कर्म फल को (अस्मभ्यम्) हमारे हित के लिये (अपा वृधि) खोलदे, प्रकट कर । तू (अप्रतिष्कृतः) कभी याचक को उलट्टा फेरने वाला, नकारने वाला या प्रत्याख्यान करने वाला नहीं है ।

अथवा—हे (सत्रादावन्) सत्य ज्ञान के देने वाले परमेश्वर वृ (अमुं) उस परोक्ष में विद्यमान (चरं) आचरणयोग्य, सत्यमय ज्ञान या मोक्ष द्वार को (अपावृधि) दूर कर। वृ (अत्मन्यन्) हमारे लिये (अप्रतिष्कृतः) कभी विचलित या विस्मृत नहीं होता।

राजा के पक्ष में—हे (सत्रादावन्) विद्यमान समस्त शत्रुओं को एक ही समय काट देने में समर्थ ! वृ (अमुं चरं) उस प्रतिष्कृत विचरणशील शत्रु को दूरकर। वृ (अप्रतिष्कृतः) कभी युद्ध में किसी से भी विचलित या पराजित नहीं होता।

तुक्तेतुक्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वृज्रिणः ।

न विन्धे अस्य सुष्टुतिम् ॥ १३ ॥ २० १ । ७ । ७ ॥

भा०—(तुक्जेतुक्जे) प्रत्येक दान के प्राप्त होने के अवसर पर दाता के प्रति कहे जाने योग्य (यः) जो (उत्तरे) उत्कृष्ट, शास्त्रसंमत (स्तोमा) स्तुतिवचन हैं, वे सब उस (वृज्रिणः) बलवान्-वीर्यवान् (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर के ही हैं। (अस्य) इसके लिये (सुष्टुतिम्) और किसी उत्तम स्तुति को (न विन्धे) प्राप्त नहीं करता हूँ।

वृषां यूथेव वंसगः कृष्टीरियुत्योजसा ।

ईशानो अप्रतिष्कृतः ॥ १४ ॥ २० १ । ७ । ८ ॥

भा०—(वंसगः) उत्तम गति वाला दृढांग (वृषा) हृष्टपुष्ट वैलजिस प्रकार (यूथेव) गो यूथ में शोभा देता है और (ओजसा) अपने बल से (कृष्टीः) चरों को भी (इयति) बाह लेता है उसी प्रकार वह परमेश्वर (वंसगः) संभजन या सेवन योग्य समस्त पदार्थों और लोकों में व्यापक होकर (वृषा) समस्त सुखों का वर्षक इस लोक समूह में शोभा पावे हैं और (कृष्टी) और आकर्षण गुण से वह इन लोकों का (ओजसा) अपने बल से (इयति) चला रहा है। वही (अप्रतिष्कृतः) किसी से

विचलित न होकर, किसी के भी वश न होकर स्वयं (ईशानः) समस्त ब्रह्माण्ड का स्वामी है ।

राजा के पद में—गोयूथ में वृषभ के समान अपने (ओजसा) पराक्रम से (हृष्टीः) प्रजाओं को (इत्यति) अपने वश करता है और (अप्रतिष्कृतः) किसी से पराजित न होने वाला स्वयं राष्ट्र का स्वामी होता है ।

य एकंश्चर्षणीनां वसूनामिरुज्यति ।

इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम् ॥ १५ ॥

भा०—(यः) जो (एकः) अकेला (वसूनाम्) प्रजा को अपने नीतर बसाने वाले लोकों और (चर्षणीनाम्) समस्त प्रजाओं को (एकः) अकेला ही (इरुज्यति) अपने वश करता है । वह ही (पञ्च-क्षितीनाम्) पाँचों क्षिति, जीवों के निवास पृथिवी आदि पाँचों भूतों के (इन्द्रः) ऐश्वर्य का धारण करने हारा है ।

राजा के पद में जो अकेला समस्त राष्ट्र वासी प्रजाओं को वश करता है और वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र और निपाद इन पाँचों प्रजाओं का (इन्द्रः) स्वामी है ।

इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः ।

अस्माकमस्तु केवलः ॥ १६ ॥

भा०—(विश्वतः जनेभ्यः) समस्त जनों के (परि) ऊपर विद्यमान उस (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर की हम (हवामहे) स्तुति करते हैं । वह (केवलः) केवल, अद्वितीय परमेश्वर ही (अस्माकम्) हमारा और (वः) तुम्हारा सहायक है । राजा भी सबके ऊपर विद्यमान होकर अकेला ही सबका हितकारी है ।

देखो अथर्व० का० २० । ३१ । १ ॥

एन्द्रं सानसिं रुयिं सजित्वानं सदासहम् ।

वर्षिष्ठमुतये भर ॥ १७ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! हे राजन् ! तू (सजित्वानम्) सदा अपने समान के शत्रुओं को जयशील (सदासहम्) सदा शत्रुओं के परायज करने में समर्थ (सानसिम्) समस्त योग्य पदार्थों के देने वाले (वर्षिष्ठम्) बड़े भारी (रुयिम्) ऐश्वर्य को तू (उतये) हमारी रक्षा के लिये (आ भर) प्राप्त करा, संग्रह कर ।

नि येनं मुष्टिहृत्यया नि वृत्रा रुणधामहै ।

त्वोतासो म्यर्वता ॥ १८ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! (येन) जिस (त्वोतासः) तेरे द्वारा सुरक्षित होकर (मुष्टिहृत्यया) चित्त वृत्ति को विषयों में हर ले जाने वाली या आत्मा के स्वरूप को संप्रमोष या विस्मरण करा देने वाली तामस तृष्णा को मार कर (वृत्रा) अन्तःकरण को आ धरने वाले, योग-सुख के बाधक विघ्नों का का (नि रुणधामहै) सर्वथा निरोध करें और (अर्वता) ज्ञानबल से सभी उसको (नि रुणधामहै) निल्द करें ।

राजा के पद में—हम प्रजागण (त्वा उतासः) तेरे से सुरक्षित रह कर (मुष्टिहृत्यया) सुखों से या शत्रुओं से प्रहार कर २ के (अर्वता) अश्व बल से शत्रुओं को (निरुणधामहै) रोकें ।

इन्द्र त्वातासु आ वयं वज्रं वृना ददीमहि ।

जयंम स युधि र्वृधः ॥ १९ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (त्वोतासः) तेरे से सुरक्षित होकर हम (वनाः) अज्ञान आवरण के नाश करने में समर्थ होकर मेघ के समान धर्मनेत्र स्वरूप होकर अपने चित्त भूमि में आनन्द-रस वर्षाते हुए (वज्रं ददीमहि) ज्ञान रूप वज्र को ग्रहण करें और (युधि) देवासुर

संग्राम में (स्पृधः) चित्त पर स्पर्धा से बश करने वाले नाना विषयों, प्रलोभनों को (सं जयेम) भली प्रकार विजय करें ।

राजा के पक्ष में—(वज्रं घना ददीमहि) हम राजा की रक्षा में रह कर हत्याकारी वज्र, बल और खड्ग को धारण करें । और युद्ध में शत्रुओं को विजय करें ।

वृयं शूरैर्भिरस्तृभिरिन्द्र त्वया युजा वयम् ।

सासह्यामं पृतन्यतः ॥ २० ॥

भा०—(त्वया युजा) योग समाधि द्वारा तेरे सहायक प्राप्त होजाने पर हम (अस्तृभिः) अहिंस्य, सदा साथ में विद्यमान (शूरैः) गतिशील प्राणों के द्वारा (पृतन्यतः) गण बनकर आक्रमण करने वाले शत्रुपक्ष विषयों को (सासह्याम) बश करें ।

राजा के पक्ष में—हम (अस्तृभिः) शर वर्षण करने वाले एवं अस्त्रों से युक्त अथवा अहिंसनीय, अजेय शूरवीरों के साथ तुम्हें सहायक को प्राप्त करके सेनाओं द्वारा चढ़ाई करने वाले शत्रुओं को विजय करें ।

[७१] परमेश्वर

महौं इन्द्रः पुरश्च नु महित्वमंस्तु वज्रिणो ।

द्यौर्नि प्रथिना शवंः ॥ १ ॥

भा०—(प्रथिना) विस्तृत विस्तार से जिस प्रकार (द्यौः न) वह आकाश महान् है और विस्तृत प्रकाश से जिस प्रकार यह सूर्य महान् है उसी प्रकार वह (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् स्वामी भी (महान्) बड़ा और (परः च) सब से परे है । (वज्रिणो) उस वज्रधर परम शक्तिमान् की ही यह (महित्वम्) समस्त महिमा (अस्तु) है उसी का बड़ा भारी (शवः) बल है । राजा भी महान् और सर्वोत्कृष्ट हो ।

समोहे वा य आशतु नरस्तोकस्य सन्तौ ।

विप्रांसो वा धियायवः ॥ २ ॥ ऋ० १।८।६ ॥

भा०—(ये) जो पुरुष (समोहे वा) संग्राम में (आशत) लगे रहते हैं और जो (नरः) लोग (स्तोकस्य) पुत्रादि सन्तान की (सन्तौ) प्राप्ति में व्यग्र हैं और जो (विप्रासः) मेधावी, ज्ञानवान् लोग (धियायवः) सदा अपनी बड़ी धारणाशील, ज्ञानवती बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं वे तीनों प्रकार के विजयार्थी, पुत्रार्थी और ज्ञानार्थी सब, हे इन्द्र ! तेरी ही स्तुति करते हैं ।

यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते ।

उर्वीरापो न काकुदः ॥ ३ ॥ ऋ० १।८।७ ॥

भा०—जो इन्द्र, परमेश्वर (कुक्षिः) समस्त शक्तियों को अपने कोख में रखने वाला (सोमपातमः) समार के समस्त ऐश्वर्य का सबसे बड़ा पालक होकर (समुद्र इव) समुद्र के समान भ्रगाध भण्डार है (काकुदः) सब से श्रेष्ठ, समस्त दिशाओं में व्यापक (आपः उर्वीः न) जल जिस प्रकार भूमियों को सींचते हैं और उनको हराभरा करते हैं उसी प्रकार वह परमेश्वर समस्त प्राणियों और लोकों के अन्न जल और जीवन से सींचता है ।

अथवा वह समुद्र के समान महान् (पिन्वते) बढ़ता है (काकुदः आपः उर्वीः इव अस्ति) वह तालु में, मुख में होने वाले जलों के समान कभी सूखता नहीं । सामन् ॥

अथवा—(आपः) प्राण जिस प्रकार (काकुदः) चाणी को सेचन करते हैं उसी प्रकार वह (उर्वीः पिन्वते) भूमियों को सींचता है । दया० ॥

राजा के पक्ष में—(यः) जो राजा (कुक्षिः) शत्रुओं से ऐश्वर्य प्राप्त कर पदार्थ को सूर्य के समान चूस ले और जो (सोमपातमः) अपने राष्ट्र का सबसे उत्तम रक्षक होकर (काकुदः आपः उर्वीः न), मेघस्व

जल जिस प्रकार भूमियों को सींचते हैं उसी प्रकार वह (समुद्रः) समुद्र के समान गम्भीर और अपार ऐश्वर्यवान् होकर (उर्वीः) अपनी विशाल प्रजाओं को (पिन्वते) सींचता और बढ़ाता है ।

एवाह्यस्य सूनृतां विरप्शी गोमती मही ।

पक्वा शाखा न दाशुपे ॥ ४ ॥ अ० १ । ८ । ८ ॥

भा०—(अस्य) इम परमेश्वर की (विरप्शी) विविध विद्याओं का लक्ष्य करने वाली वाणी (मही) बड़ी भारी, अति पूजनीय, (गोमती) नाना वेदवाणियों से युक्त, (दाशुपे) आत्मसमर्पण करने वाले के लिये तो (एवा) ऐसी (सूनृता) शुभ, उत्तम, सत्य ज्ञान से पूर्ण है कि जिस प्रकार वह उसके लिये (पक्वा शाखा न) पकी, फलों से लदी शाखा ही हो ।

एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते ।

सद्यश्चित् सन्ति दाशुपे ॥ ५ ॥ अ० १ । ८ । ९ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! राजन् ! (ते) तेरी (एवा) ऐसी ऐश्वर्यवान् (विभूतयः) विभूतियां और विविध ऐश्वर्य और (एवा ऊतयः) ऐसी ही तेरी पालन शक्तियों (मावते) मेरे जैसे (दाशुपे) दानशील, अधीन पुरुष के लिये (सद्यः चित्) सदा ही (सन्ति) विद्यमान हैं ।

एवा ह्यस्य काम्या स्तोम उक्थं च शंस्यां ।

इन्द्राय सोमपीतये ॥ ६ ॥ अ० १ । ८ । १० ॥

भा०—(एव हि) निश्चय ही (सोम पीतये) समस्त पदार्थों को स्वीकार करने वाले या जगत् रूप सोम को अपने भीतर पालन करने, या ले लेनेहारे (इन्द्राय) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु का (स्तोमः) स्तुति और उसके गुण कहने वाले ऋग्-गण (च) भी (काम्या) कामना करने और (शंस्यां) सदा मुख से उच्चारण करने और कीर्तन करने योग्य हैं ।

इसी प्रकार राष्ट्र-पालक राजा के गुण और उत्तम स्तुतियां होनी चाहियें ।

इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः ।

महाँ अभिष्टिरोजसा ॥ ७ ॥ ऋ० १ । ९ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्रः) ऐश्वर्यवन् ! तू (इहि) आ, प्रकट हो, साक्षात् हो । तू (विश्वेभिः) समस्त (सोमपर्वभिः) जगत् के अवयवों अथवा (सोम) अपने प्रेरक बलों के पूर्ण सामर्थ्यों से (अन्धसः) समस्त पृथिवी आदि लोकों को (मत्सि) हर्ष युक्त करता है । अथवा (अन्धसः) अज्ञादि समस्त जीवन धारण कराने वाले तत्व के (विश्वेभिः सोमपर्वभिः) समस्त आनन्दरस से पूर्ण अवयवों से तू स्वयं (मत्सि) हर्षमय होता । तू (ओजसा) अपने बल पराक्रम से ही (महान्) बड़ा भारी (अभिष्टिः) सबको सब प्रकार से चलानेहारा है ।

राजा के पक्ष में— तू (अन्धसः) अन्न के कारण और समस्त (सोमपर्वभिः) राष्ट्र के अंगों द्वारा (मत्सि) हृष्ट हो । तू (ओजसा) पराक्रम से (महान् अभिष्टिः) बड़ा भारी शत्रुओं का विजेता है ।

एमेनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने ।

चक्रि विश्वानि चक्रये ॥ ८ ॥ ऋ० १ । ९ । २ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (सुते) उत्पन्न हुए इस संसार में (एनं) इस (मन्दिम्) हर्ष के आधय (चक्रिम्) क्रियाशील जीवात्मा के (मन्दिने) आनन्द के उत्पादक (विश्वानि) समस्त लोकों के (चक्रये) जगत् के बनाने वाले (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (आ सृजत) समर्पण करो

मत्स्वां सुशिप्र मन्दिभिस्तोमेभिविश्वचर्षणे ।

सञ्चैषु सवनेषुवा ॥ ९ ॥

भा०—हे (विश्वचर्षणे) समस्त संसार के द्रष्टा ! परमेश्वर ! हे (सुशिप्र) उत्तम ज्ञानस्वरूप ! तू (मन्दिभिः स्तोमेभिः) हृदय को आनन्दित करने वाली, स्तुतियों से (मत्स्व) प्रसन्न हो । और (एषु सवनेषु)

इन ऐश्वर्यों में, इन यज्ञों में (सचा) लगे हुए हम लोगों को भी (आ
मत्स्व) आनन्दित कर । अथवा-इन सवनों, पूजा के अवसरों में एक ही
साथ समस्त स्तुतियों से तू प्रसन्न हो ।

असृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रतित्वामुदंहासत ।

अजोपा वृषभं पतिम् ॥ १० ॥

भा०—हे (इन्द्रः) परमेश्वर ! (ते) तेरे निमित्त मैं (गिरः)
वेदवाणियों का (असृग्रम्) विविध प्रकार से प्रयोग और वर्णन करता हूँ ।
छियें जिस प्रकार अपने पालक के प्रति अपना अभिप्राय प्रकट करती हैं
उसी प्रकार वे वेदवाणियों (वृषभम्) समस्त सुखों के धर्षक, (पतिम्) सब
के पालक (त्वाम् प्रति) तेरे ही प्रति (उद् अहासत) जाती हैं, लगती
हैं, अपना अभिप्राय प्रकट करती हैं ।

सं चोदय चित्रमर्वाग् राध इन्द्र वरेण्यम् ।

असृदित् तं विभु प्रभु ॥ ११ ॥

भा०—हे (इन्द्रः) इन्द्र ! ऐश्वर्यवन् ! ज्ञानवन् ! तू (अर्वाग्)
साक्षात् हमारे प्रति (चित्रम्) चित्र, आश्चर्यजनक या संग्रह करने योग्य,
अद्भुत (वरेण्यम्) धरण करने योग्य, सर्वश्रेष्ठ उस (राधः) आराध्य,
अभीष्ट ज्ञान और ऐश्वर्य को (सं चोदय) प्रेरित कर । जो (ते) तेरा
(विभु) व्यापक या विविध पदार्थों का उत्पादक (प्रभु) सबसे उत्कृष्ट,
शक्तिशाली (असत्) है ।

अस्मान्तसु तन्न चोदयेन्द्र राये रभस्वतः ।

तुविद्युम्न यशस्वतः ॥ १२ ॥

भा०—हे (तुविद्युम्न) बहुत अधिक ऐश्वर्यवन् ! (इन्द्र) परमे-
श्वर ! राजन् ! तू (यशस्वतः) यशस्वी, (रभस्वतः) उद्योगशील, (अ-

त्सान्) हँ (राये) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये (तत्र) रस उत्तम; योग्य स्थान और अवसर में (सु चोदय) उत्तम रीति से प्रेरित किया कर ।

सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रवां बृहत् ।

विश्वायुर्धेहादितम् ॥ १३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! राजन् ! तू (अस्मे) हमें (गोमत्) गौ आदि पशुओं से समृद्ध, (वाजवत्) ऐश्वर्य युक्त, (बृहत्) बड़ा भारी (पृथु) अति विस्तृत, (श्रवः) अन्न और यश एवं (गोमत्) ज्ञानवाणियों से युक्त (वाजवत्) वीर्य से युक्त (श्रवः) वेद ज्ञान और अन्न (सं-धेहि) प्रदान कर और (अदितम्) अन्न, अग्निनाशी (विश्वायुः) पूर्ण आयु अथवा (विश्वायुः) पूर्णायु देने वाला (अदितम्) अन्न अन्न (धेहि) प्रदान कर ।

अस्मे धेहि श्रवां बृहद् द्युम्नं सहस्रसातमम् ।

इन्द्र ता रथिनीरिपः ॥ १४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! हे बाधक शत्रुओं के निवारक राजन् ! तू (अस्मे) हमें (बृहत् श्रवः) बड़ा यश, अन्न, ज्ञान, बल और (सहस्रसातमम्) सहस्रों भागों के देने वाले (द्युम्नम्) ऐश्वर्य की (धेहि) प्रदान कर । और (ताः) वे (रथिनीः) रथों, वाहनों से युक्त (इपः) सेनाएं और (रथिनीः=रसिनीः इपः) भीतरी ब्रह्मरस से युक्त प्रेरणाएं और उत्तम रस से युक्त अन्नादि खाद्य पदार्थ प्रदान कर ।

वसोरिन्द्रं वसुपतिं गुभिर्गृणन्तं क्रामियम् ।

होमं गन्तारमृतये ॥ १५ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! इन लोग (वसोः) पृथ्वी पर और राष्ट्र में और देह में बसने वाले जीवों के (उतये) रक्षा के लिये (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् बाधक शत्रुओं के नाशक (वसुपतिम्) समस्त लोकों की

प्राणियों के पालक (ऋग्मित्रम्) ऋचाओं, वेद मन्त्रों द्वारा जानने योग्य और ऋचाओं, वेद मन्त्रों के कर्त्ता (गन्तारम्) सर्वज्ञ और सर्व-व्यापक के (गीर्भिः) वाणियों द्वारा (गृणन्तः) गुण वर्णन करते हुए हम (होम) उसके स्मरण करते हैं ।


सुतेसुते न्योकसे वृहद् वृहत् पदरिः ।

इन्द्राय शूपमर्चति ॥ १६ ॥

भा०—(वृहत् अरिः इत्) वदे से बड़ा धन का स्वामी पुरुष भी (सुते सुते) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ से (नि ओकसे) अपने गुप्तरूप से निवास करने वाले (इन्द्राय) परमेश्वर के (शूपम् अर्चति) बल की अर्चना करता है ।

राजा के पक्ष में—(वृहत् अरिः) वदे से बड़ा शत्रु भी (सुते सुते न्योकसे) अभिषिक्त, या प्राप्त राष्ट्र राष्ट्र में, अर्थात् राष्ट्र के प्रत्येक भाग में विद्यमान (इन्द्राय) शत्रुनाशक राजा के (शूपम्) शोषणकारी बल को (अर्चति) मानता है ।

॥ इति पण्डितुवाकः ॥



[७२] परमेश्वर और राजा

परुन्धेप ऋषिः । अत्यष्टमः । वृत्तं सूक्तम् ॥

विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुञ्जते समानमेकं वृषमण्यवः पृथक् स्वः सन्धिष्यवः पृथक् । तं त्वा नावुं न पुषिणिं शूपस्य धुरि धी-महि । इन्द्रं न यज्ञैश्चितयन्त आयव स्तोमैभिरिन्द्रमायवः ॥१॥

सू० १ । २३९ । २ ॥

[७२]—१. तुजिपालने-भ्वादिः । हिंसाबलादान निकेतनेषु-भाषार्थश्च चुरादिः ।

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! हम (विश्वेषु सवनेषु) समस्त सवनों, पूजा और अर्चना के अवसरों में (हि) भी (त्वा) तुम्हें (एकम्) एक (समानं) सर्वत्र समान भाव से (वृषमन्यवः) सुखों की एकत्र वर्षा करने वाले, मानने वाले और (पृथक्) अपने लिये अलग अलग (स्वः) सुख (सन्नियवः) प्राप्त करने की इच्छा करते हुए (आ यवः) सब मनुष्य अपने (पृथक्) अलग २ ही (त्वा) तेरी (तुज्जते^१) स्तुति करते हैं । हम लोग (त्वा) तुम्हें (नावं न) नाव के समान (पर्षणिम्^२) पार लगा देने वाला या समस्त मनोरथ के पूर्ण करने वाला और (शूपस्य) उत्पन्न हुए समस्त संसार के और ऐश्वर्य के और समस्त शक्ति के (धुरिं) केन्द्र में प्रवर्तक रूप में स्थित (धीमहि) ध्यान करते हैं । और (यज्ञैः) यज्ञों, उपासना-अनुष्ठानों द्वारा (इन्द्रं न) ऐश्वर्यवान् महाराजा के समान (चितयन्तः) जानते हुए (आयवः) मनुष्य लोग तुम्हें (इन्द्रम्) महान् ऐश्वर्यवान् परमेश्वर को (स्तोमेभिः) स्तुतियों से (आयवः) प्राप्त होते हैं । अर्थात् परमेश्वर सर्वत्र समान रूप से ऐश्वर्य वरसाता है । सभी जन्तु उसके लिये अपनी २ पृथक् स्तुति करते हैं ।

‘पर्षणिम्’ पारस्य संभक्तौ पूरयित्रीं वा फलस्य । इति सायणः ।

‘तुज्जते’-तुजि भाषार्थः । सुरादिः । ‘शूपस्य’ शूप प्रसवे । भ्वादिः ॥

राजा के पद में—(विश्वेषु सवनेषु) समस्त अभिषेकों में हे राजन् ! तुम्हें (एकं समानं वृषमन्यवः) एक को सर्वत्र समान रूप से श्रेष्ठ मानते हुए लोग पृथक् २ स्थानों पर अपना २ सुख चाहते हुए पृथक् २ प्रार्थना करते हैं । तुम्हें सागर के पार लेजाने वाली नाव के समान (पर्षणिं) पालन या रक्षा और शरण प्रद जानकर (शूपस्य धुरिं) राष्ट्र रूप ऐश्वर्य

२. पार वीरकर्मसमाप्तौ, इति पारोपपदात्सनेरिन्द्रादिः । पृषोदरादि त्वाःसाधुः । पिपर्वरौगादिः सन्निप्रत्ययो वा ।

के या राष्ट्र संचालक बल के केन्द्र में स्थित हुआ (धीमहि) जानते, मानते हैं । तुम्हको (इन्द्रं न) इन्द्र प्रभु के समान जानते हुए लोग (स्तोमेभिः) स्तुतियों सहित तुम्ह (इन्द्रम् आयधः) ऐश्वर्यवान् को ही प्राप्त होते हैं ।

वि त्वां ततस्त्रे मिथुना अत्रस्यवे व्रजस्यं साता गव्यस्य निः
सृजः सत्तन्त इन्द्र निः सृजः । यद् गव्यन्ता द्वा जना स्वयन्ता
समूहंसि । आविष्कारिकृद् वृषणं सचाभुवं वज्रमिन्द्र सचा-
भुवम् ॥ २ ॥

अ० १ । १३१ । ३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! परमेश्वर ! (अवस्यवः) अपनी वृषि और रक्षा चाहने वाले (मिथुना) स्त्री पुरुष, या गुरु शिष्य, या राजा प्रजा मन और आत्मा, के नाना जोड़े (गव्यस्य व्रजस्य साता) गवादि पशुओं के लाभ के लिये और गौ,=वेद वाणियों से उत्पन्न व्रज ज्ञेय ज्ञान को प्राप्त करने के लिये समस्त भोग्य पदार्थों को तुम्हपर ही न्योछावर करके सर्वस्व त्याग और गौ=इन्द्रियों के समूह पर वश प्राप्त करने के लिये (त्वा) तुम्ह आचार्य की शरण में (वि ततस्त्रे) निवास करते हैं अर्थात् गुरुगृह में रहकर ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करते हैं । और वे (निःसृजः) और फिर (सत्तन्ते) तेरे में रमण करते हुए वे (निःसृजः) समस्त कर्म वासना और समस्त फलाशयों में त्यागी हो जाते हैं (यद्) और जब (स्वःयन्ता) सुखों को प्राप्त होते हुए और (गव्यन्ता) गो समूह या वाणि-समूह या इन्द्रियों को दमन करते हुए (द्वा जना) दोनों जनों को तू ही (समूहंसि) अपने शरण भली प्रकार ले लेता है तब ही तू हे (इन्द्र) परमेश्वर (वृषणं) सुखों के वर्षक (सचाभुवं) परस्पर साथ मिलकर उत्पन्न होने वाले, (सचाभुवम्) अन्तरात्मा के सदा साथ अनुभव होने वाले, नित्य, सुखरूप (वज्रम्) ज्ञानरूप बन्धन को काटने में समर्थ वज्र

को, बल को, या ज्ञान को, या रूपदर्श मोह को (आविःकरिद्) प्रकट करता है ।

० गृहपति-पत्नी पद में—(निधुता) स्त्री और पुरुष दोनों (श्वत्त्वः) रक्षा चाहने वाले या जीवन की सुख वृत्ति चाहने वाले ज्ञानवाणियों की शिक्षा प्राप्त करने के लिये हे इन्द्र आचार्य ! (त्वा वि ततन्ने) तेरे समीप पुस्तुह में आकर रहते हैं । (निः सृजः) उस समय सबकुछ त्यागकर तेरे पास आकर भी (निः सृजः) सर्वस्व त्यागी बने रहने हैं । और हे इन्द्र गुरो ! परमेश्वर ! (यत्) जब (राव्यन्ता) ज्ञान वाणियों को चाहने वाले (द्वा जना) दोनों जनों को तु (स्वः यन्ता) गार्हस्थ्य सुख को प्राप्त करने के इच्छुक उनको (समूहसि) विवाहित कर देना चाहता है तब (सचा सुवद्) उन दोनों के परस्पर सहयोग से उत्पन्न (वृषणं) प्रजातिपेक के योग्य (सचासुवद्) सदा साथ विद्यमान रहने वाले (वज्रन्) वीर्य को भी उनमें ब्रह्मचर्य पालन द्वारा (आविः करिद्) प्रकट कर ।

। राजा के पद में—स्त्री पुरुष अपनी रक्षा चाहने वाले होकर राजा का आश्रय लेते हैं । सुख चाहने वाले स्त्री पुरुषों को वह जब जान लेता है तब उनके ऊपर राजा प्रजा के सहयोग से उत्पन्न (वज्रं) रूपने बल को प्रकट करता है ।

उतो नां अस्या उपसो जुषत ह्यर्कित्य वोधि हविषो हवीमभिः स्वर्पात्वा हवीमभिः । यदिन्द्र हन्तव्ये नृशो वृषो वज्रि विकैतसि ।
आ में अस्य वैश्रसो नवीयसो मन्म श्रुधि नवीयसः ॥ ३ ॥

५० १ । १३१ । ६ ॥

भा०— योगी पुरुष (कस्ता उपसः) इस उपा का (जुषत) सेवन को धर्मात् योगनाथना से उत्पन्न ज्योतिष्मती प्रजा का आनन्द प्राप्त करे । और (हविषः) स्वीकार करने और स्तुति करने योग्य (शकंल)

अर्चनीय परमेश्वर का (वीमभिः) स्तुतियों द्वारा (बोधि) ज्ञान करे । वह (हवीमभिः) स्तुतियों द्वारा ही (स्वः साता) परमसुख को प्राप्त होता है हे (वाज्रिन्) ज्ञानवज्र को धारण करने हारे ! और हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् तू (यत्) जब (मृधः) शत्रु सेनाओं के समान मन को डुलाने वाली व्युत्थान वासनाओं को (हन्तवे) नाश करने के लिये (चिकेतसि) ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब (अस्य मे) इस मुझ (नवीयसः) नये २, दीक्षा प्राप्त (वेधसः) मेधावी, ज्ञानवान् प्रबुद्ध पुरुष के (मन्म) मनन या विचारगम्य स्तुति को (आ श्रुधि) श्रवण कर ।

परमेश्वर के पक्ष में—(उतो) और वह परमेश्वर (अस्था उपसः) इस प्रभातकाल में भी (अर्कस्य जुपेत) हमारी स्तुति को स्वीकार करे । हमारे (हवीमभिः) स्तुति सहित (हविपः) श्रद्धा भाव को (बोधि) जाने । वह (हवीमभिः) स्तुति द्वारा ही (स्वः साता) सुख प्रदान करने हारा है । हे परमेश्वर हमारे शत्रु काम क्रोधादि को विनाश करने के लिये तू (चिकेतसि) हमें ज्ञान प्रदान कर ।

(अस्य नवीयसः मन्म आ श्रुधि) इन नवीन स्तुतिकर्ता की स्तुति को श्रवण कर ।

[७३] परमेश्वर और राजा

तुभ्येदिमा सवना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि
त्वं नृभिर्दिव्यो विश्वधांसि ॥१॥

भा०—हे (शूर) दुष्टों के नाशकारिन् ! (तुभ्यं इत्) तेरे ही लिये (इमा सवना) ये समस्त यज्ञ अनुष्ठान हैं, (तुभ्यम्) तेरे ही लिये (वर्धना) तेरी महिमा बढ़ाने वाले (विश्वा ब्रह्माणि) समस्त वेद मन्त्रों को मैं (कृणोमि) प्रकट करता हूँ (त्वं) तू (नृभिः) मनुष्यों द्वारा

(हव्यः) स्तुति करने योग्य है । वृ ही (विश्वधाः असि) समस्त विश्व का धारण करने वाला है ।

राजा के पक्ष में—(इमा सवना तुभ्यम् इत्) ये समस्त ऐश्वर्य तेरे ही हैं । तेरे लिये (वर्धना ब्रह्माणि) तेरी वृद्धि के लिये ये वेदमन्त्र उच्चारण करता हूँ । अथवा तेरी सम्पत्ति की वृद्धि करने वाले इन (ब्रह्माणि) बड़े २ वृद्धिदायक कार्यों को करता हूँ वू (नृभिः हव्यः) नेता पुरुषों द्वारा स्तुत्य और (विश्वधाः असि) समस्त राष्ट्र को धारण पालन करने में समर्थ है ।

नू चिन्तु ते मन्यमानस्य दस्मोदंश्नुवन्ति महिमानमुग्र ।

न वीर्यमिन्द्र ते न राधः ॥ २ ॥

भा०—हे (दत्त) दर्शनीय परमेश्वर ! और हे शत्रुओं के नाशक ! हे राजन् ! (मन्यमानस्य ते) विचार आदर, और मान किये जाने योग्य तेरे (महिमानम्) महिमा को (नू चित् तु) क्या किसी प्रकार भी कोई (उत् अश्नुवन्ति) पारकर सकते हैं ? वे तो (न वीर्यम् उत् अश्नुवन्ति) न कोई तेरे बल को पार कर सकते हैं और हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (न राधः) न कोई तेरे ऐश्वर्य को पार कर सकते हैं । अर्थात् तुझ से बढ़कर न किसी की महिमा, न किसी का बल और न किसी का ऐश्वर्य है ।

प्र वो महे महिवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुं मतिं कृणुध्वम् ।

विशः पूर्वाः प्र चरा चर्पणिप्राः ॥ ३ ॥ ऋ० ७ । ३१ । १ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (वः) तुम लोग (महे) उस महान् (महिवृधे) बड़े ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले अथवा बड़े २ संकटों को काट डालने वाले (प्रचेतसे) उत्कृष्ट ज्ञानवान् परमेश्वर के लिये (प्र भरध्वन्) उत्तम विचारों का मनन करो । और (सुमतिं) शुभ बुद्धि या स्तुति (प्र कृणुध्वन्) करो । हे परमेश्वर वू (चर्पणिप्राः) ननुष्यों को समस्त ऐश्वर्यों से, पूर्व

करने हारा होकर (विशः) मनुष्यों और प्रजाओं को (पूर्वीः) ज्ञान और बल में पूर्ण (प्र चर) कर ।

राजा के पक्ष में—हे मनुष्यो ! तुम (महि वृधे महे) बड़े २ शत्रुओं को गिराने वाले बड़े राजा के लिये (प्र भरध्वम्) भेंटें लाओ । उसके प्रति (सुमतिं प्र कृणुध्वम्) उत्तम चिन्तना बनाये रखो । हे राजन् ! तू (चर्षणि-प्राः) प्रजाओं की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होकर (विशः) प्रजाओं को (पूर्वीः प्र चर) धन, बल आयुष्य में पूर्ण कर ।

यदा वज्रं हिरण्यमिदथा रथं हरी यमस्य वहतो वि सूरिभिः ।
आ तिष्ठति मघवा सनश्रुत इन्द्रो वाजस्य दीर्घश्रवसस्पतिः ॥४॥

अ० १० । २३ । ३ ॥

भा०—(अस्य) इस परमेश्वर के (यम्) जिस (रथम्) रमण के साधन, आनन्दप्रद रस को (सूरिभिः) विद्वानों द्वारा (हरी) हरण-शील ज्ञान और कर्म दोनों (वहतः) प्राप्त कराते हैं और (यदा) जब (हिरण्यम्) हितकारी और रमणीय, आनन्दकारी (वज्रम्) ज्ञानरूप वज्र प्रकट होता है (अथा) तब (सनश्रुतः) सदाकाल से विख्यात, वेद द्वारा कीर्तित, (दीर्घश्रवसः) अति अधिक कीर्ति वाले (वाजस्य) ज्ञान और ऐश्वर्य का (पतिः) स्वामी (मघवा) ऐश्वर्यवान्, परमेश्वर उस रस में (आतिष्ठति) व्याप्त रहता है ।

अध्यात्म में—(अस्य) इस जीव के (सूरिभिः) प्रेरक प्राणों सहित (यं रथं) जिस 'रथ' या रमणीय, रस स्वरूप को (हरी) हरणशील प्राण और अपान (वहतः) प्राप्त कराते हैं और (यदा) जब वह (हिरण्यम् वज्रम्) हित और रमण योग्य वीर्य को और ज्ञान को धारण कर लेता है तब (दीर्घश्रवसः) अति अधिक ज्ञान से युक्त (वाजस्य पतिः)

ऐश्वर्य का स्वामी (सनधृतः) सदा से श्रुति द्वारा कीर्तित (नघवा) परमेश्वर आत्मा में (आतिष्ठति) विराजता है ।

राजा के पक्ष में—(यं रथं) जिस रथ के समान सुन्दर राष्ट्र को (हरी) झरनों के समान दो योग्य विद्वान् राजा और मन्त्री, समापत्ति और महामात्य (सूरिमिः) विद्वान् समासदों के साथ मिल कर धारण करते हैं और जब (वज्रं) वज्र, बलशाली दण्ड विधान को भी (हिरण्यम्) सुवर्ण या रजत के बने राजदण्ड के समान प्रजा के हित और सुख के लिये धरता है तब समझो कि (दीर्घश्रवसः) अति यश या अज्ञादि समृद्धि वाले (वाजस्र) संग्राम या बलैश्वर्य का (पतिः) पालक (सनधृतः) सदा से विख्यात (नघवा) ऐश्वर्यवान राजा (आतिष्ठति) राज्य पर शासन करता है ।

सो चिन्तु वृष्टिर्वृष्ट्याऽस्वा सत्राँ इन्द्रः श्मश्रुणि हरिताभि पुंश्रुते ।
अत्र वेति सुज्ञयं सुते मधुदिह्नोति वातो यया वनम् ॥ ५ ॥

२०।२३।४ ॥

भा०—(चिन्तु) जिस प्रकार (वृष्टिः) नेत्र से आने वाली जल वृष्टि (हरिता) हरे वृष्टों को (अभि पुंश्रुते) सींचती है इसी प्रकार (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् ज्ञानी पुरुष (स्वा सत्रान्) अपने में सनवेत, अपने पर आधृत (वृष्ट्या) समूहों में बसने वाले प्राणियों को (श्मश्रुणि) अपने शरीर में स्थित नोद के डालों के समान (अभि पुंश्रुते) उनकी सहाय नाना ऐश्वर्यों और स्नेहों से संव्रता है । वह ही (सुज्ञयं अत्र वेति) उत्तम निवास या लोक को प्राप्त होता है । और (सुते) ज्ञान से उत्पन्न होजाने पर या उत्पन्न हुए इस संसार में (नधु वेति) नधुर फल मोग नधुर प्रज्ञानन्द का भोग करता है । अपने साथ लगे सांसारिक दुःख हानकों को वह ऐसे (उद् धूनोति) काढ़ फेंकता है (यया) जिस प्रकार

(वातः वनम्) प्रबल वायु वन को कंपा डालता है और पतझड़ कर डालता है ।

राजा के पद में—(चित् तु वृष्टिः हरिता) वृष्टि जिस प्रकार हरे वृक्षों को सींचती है उसी प्रकार वह इन्द्र राजा (स्वा यूय्या) अपने यूथ के संघ के लोगों को भी (अभि प्रुष्णुते) पेशवर्य और जेद से बढ़ाता है । वह (सुहृयं श्रव वेति) उत्तम गृह राजमहल में रहता है । (सुते) राज्याभिषेक होजाने पर वह (मधु) मधुर राष्ट्र का भाग करता है । (वातः यथा वनम्) वायु जिस प्रकार वन को वेग से तोड़ फोड़ डालता और कंपा डालता है उसी प्रकार वह भी प्रचण्ड होकर (वनम्) शत्रुओं के सेना समूह को (उद् धूनाति) कंपा डालता है ।

यो वाचा विवाचो मृध्रवाचः पुरु सहस्राशिवा जवानं ।

तच्चदिदस्य पौंस्यं गृणीमसि पितेव यस्तत्रिपीं वावृधे शवः ॥६॥

ऋ० १० । २३ । ५ ॥

भा०—(यः) जो ज्ञानवान् पुरुष या परमेश्वर, परम गुरु (वाचा) अपनी उपदेशमय वेदवाणी से (वि-वाचः) विरुद्ध, विपरीत वाणी बोलने वाले और (मृध्र-वाचः) हिंसा करने और दिल दुखाने वाली वाणी को बोलने वाले पुरुषों का और (पुरु) बहुतेसे (सहस्रा) हजारों (अशिवा) अमंगलजनक, दुरे कर्मों का (जवान) नाश करता है और (यः) जो (पिता इव) पिता के समान (तत्रिपीन्) बड़ी भारी शक्ति और (शवः) बल को (वावृधे) बढ़ाता है । तत् तत् इद् वह वह नाना प्रकार के अकथनीय (अस्य) इस परम गुरु परमेश्वर के (पौंस्यम्) बल वीर्य के कार्य का (गृणीमसि) हम वर्णन या स्तुति करें ।

राजा के पद में—(यः) जो (वाचा) अपने वाणी या आज्ञामात्र से (विवाचः) विपरीत बोलने वाले (मृध्रवाचः) हिंसा या युद्ध के वा-

शियों के कहने वाले शत्रु हैं उनको और (पुरु सहसा अशिवा) बहुतसे हज़ारों अमंगलजनक कष्टदायी दुःखों का (जवान) नाश करता है । और जो पिता के समान प्रजा की शक्ति बढ़ाता है, उसे पुष्ट करता है । उसके उन नाना (पौत्यम्) पराक्रम कर्म का हम वर्णन करें । अथवा (अत्य) उसको हम (तत् तत् पौत्यं) उन २ पौरुष कर्म का (गृणीमसि) उपदेश करें या उसको नाना पौरुष कर्म करने को कहें ।

[७४] राष्ट्र रत्नक राजा के कर्तव्य ।

शुनःशेष ऋषिः । इन्द्रो देवता । पंक्तिः । अथर्व चत्वन् ॥

यच्चिद्धि संत्यःसामपा अनाशस्ता इव स्मसि । आ तू नं इन्द्र
शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहजेषु तुवीमग ॥१॥ ऋ०१।२१।१॥

भा०—हे (सत्य) सत्यस्वरूप ! अविनाशिन् ! सज्जनों के प्रति सद्ब्यवहार करने हारे ! एवं सत्यवादिन् ! हे (सामपाः) समस्त उत्पन्न संसार के रत्नक परमेश्वर ! (यत् चित् हि) जिन २ अवसरों में भी और जिन २ कार्यों में भी हम (अनाशस्ताः इव स्मसि) उत्तम, गुण सामर्थ्यवान् एवं प्रशंसा के योग्य न हों, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! हे (तुवीमग) बहुत बड़े ऐश्वर्य वाले ! (नः) हमें उन २ (गोषु अश्वेषु) गो आदि पशु और अश्व आदि सेना के साधनों में और (सहजेषु) हज़ारों (शुभ्रिषु) शोभाजनक धनैश्वर्यों में भी उनका प्रदान करके (आशंसम) उच्चम प्रशंसा योग्य बना ।

राजा के पक्ष में—हे राजन् ! जिन पदार्थों में हम प्रजाजन उत्तम न हों । उन २ गौ आदि पेशुओं में हमें उत्तम बना ।

शिप्रिन् वाजानां पते शर्चाव्यस्तवं वंस्तनां । आ तू ॥२॥ ऋ०१।२१।२॥

भा०—हे (शिप्रिन्) उत्तम प्राप्य पारमार्थिक ऐहिक सुख साधनों से युक्त हे बलवान् ! हे (वाजानां पते) पेशुओं और वीरों के स्वामिन् !

हे (शचीवः) शक्तियों वाले ! (तव) तेरे (दंसना) दर्शनीय अलौकिक कर्म हैं । हे (इन्द्र तुवीमव गोषु अश्वेषु सहस्रेषु शुभ्रिषु नः आशंसय) हे ऐश्वर्यवान् बहुत धनों के स्वामिन् ! तू हज़ारों ज्ञानवाणियों, भूमियों, गौओं और अश्वों, वेगवान् साधनों और शोभाकारी ऐश्वर्यों में कीर्तिमान कर ।

राजा के पक्ष में—(शिप्रिन्) बलवान् ! (शचीवः) प्रजा और सेना के स्वामिन् ! (वाजानां पते) अर्धों, संग्रामों और ऐश्वर्यों के पालक (तव दंसना) तेरे नाना दर्शनीय कर्म हैं । आ तू न० इत्यादि पूर्ववत् ।

निष्वापया मिथूदृशां सस्तामवुंध्यमाने । आ तू०॥३॥३०१२९१३॥

भा०—हे (इन्द्र) अविद्या निद्रादि दोषनिवारक ! तू (मिथूदृशा) विषयासक्ति से एक दूसरे को देखने वाले स्त्री पुरुषों को (निःस्वापय) सर्वथा अचेत कर दे । और वे दोनों (अवुध्यमाने) ज्ञानहीन होकर (सस्ताम्) सो जायें । अर्थात् इससे विपरीत विषयासक्ति से रहित तपस्वी व्रती पुरुषों को प्रबुद्ध कर और वे ज्ञानवान् होकर जागते रहें । (आ तू न० इत्यादि) पूर्ववत् ।

राजा के पक्ष में—हे राजन् ! (मिथूदृशा) परस्पर मिथुन या स्त्री पुरुषों के जोड़े होकर देखने वाले गृहस्थ पति पत्नियों को रात्रिकाल में सुख से सोने दे । और वे (अवुध्यमाने) अचेत होकर (सस्ताम्) सुख से सोवें और तू रात्रिकाल में उनकी पहरा दे, रक्षा कर । (आ तू न० इत्यादि) पूर्ववत् ॥ अर्थात् तेरे राज्य में सब गृहस्थ सुख से जीवन बितानें ।

अथवा—(मिथूदृशौ) परस्पर हिंसा की दृष्टि से देखने वाले विरोधी लोगों को (निःस्वापय) सुलादे । वे लड़कर (अवुध्यमाने सस्तान्) अचेत होकर सोएं, मरे पड़े रहें । और परस्पर प्रेम से रहने वाले जागृत रहें और ऐश्वर्य को प्राप्त करें ।

ससन्तु त्या अरांतयो बोधन्तु शूर रातयः । आ तू० ॥४॥ ऋ० १।२९।४॥

भा०—(त्याः) वे (अरातयः) शत्रु-सेनाएं (ससन्तु) सो जायं और हे (शूर) शूरवीर ! (रातयः) दानशालि, दाता पुरुष (बोधन्तु) ज्ञानवान् होकर सदा धर्म-कार्यों में सावधान होकर रहें (आ तू न० इत्यादि) पूर्ववत् ।

समिन्द्र गर्दभं नृणु नुवन्तं पापयामुया । आ तू० ॥५॥ ऋ० १।२९।५॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! न्यायाधीश ! (गर्दभम्) गर्दभ के समान कठोर भापी एवं गर्ध्या-नृण्या से व्याप्त लोभी एवं विष से लोगों को मारने वाले (अमुया) अमुक २, नाना प्रकार के (पापया) पाप-पूर्ण रीति नीति से नुवन्तम्) बोलने चलने वाले, चापलूसी करने वाले, असत्य भापी, छली पुरुष को (संनृणु) अच्छी प्रकार विनष्ट कर । और (नः) हमें (शुभ्रियु) शुभ आचरण द्वारा न्यायपूर्वक प्राप्त गौ अश्ववादि धनों में प्रसिद्ध कर । (आ तू न०) इत्यादि पूर्ववत् ।

‘गर्दभः’—गर्द शब्दे इत्यतोरभम् । गर्धया धनतृण्याया भातीति वा गरेण विपेण दज्ञाति हिनस्तीति वा ।

पताति कुण्डूणाच्या दूरं बालो वनादधि । आ तू० ॥६॥ ऋ० १।२९।६॥

भा०—(कुण्डूणाच्या) दाह करने वाली प्रवृत्ति या गति या चाल करने वाला, कुटिल (वातः) वायु जिस प्रकार (वनात् अधि) वन से (दूरं पताति) दूर ही रहे तो ठीक है उसी प्रकार (कुण्डूणाच्या) दाहचारी, दुःखदायी प्रवृत्ति वाला कुटिल पुरुष भी प्रजागण से (दूरं पताति) दूर ही दूर रहे तो अच्छा है । (आ तू न० इत्यादि) पूर्ववत् ।

सर्वं परिक्रान्तं जहि जन्मया कृकटाश्वम् । आ तू नं इन्द्र शंसय गोश्वश्वेषु शुभ्रिपुं सुदक्षेपु तुवीमथ ॥ ७ ॥ ऋ० १।२९।७ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! राजन् ! तू (सर्वं) सब (परिक्रान्तम्) निन्दा करने वाले पुरुषों को (जहि) मार, दण्ड दे और (कृ-

कदाश्चम्) हमारे ऊपर हिंसाकारी, आघात देने वाले, हिंसाकारी प्रयोग करने वाले, अथवा कृकदाश्च=कृकलास, उल्लू या गिरगट के समान धूर्त, छली कपटी पुरुषों को (जंभय) विनाश कर (आ तू न० इत्यादि) पूर्ववत् ।

‘कृकदाश्चम्’ कृका हिंसा, तां दाशति प्रयच्छतीति कृकदाशुः, तम् ॥

[७५] राजा और आत्मा का अभ्युदय ।

वि त्वां ततत्रे मिथुना अंबस्यवो ब्रजस्य साता गव्यम्य निः
सृजः सत्तन्त इन्द्र नि सृजः । यद् गव्यन्ता द्वा जनास्वर्धन्ता
सुसूदंसि । आविष्करिन्द्र वृषं सचाभुवं ब्रजमिन्द्र सचा-
भुवम् ॥१॥

श्र० १ । १३१ । ३ ॥

भा०—व्याख्या देखो कां० २० । ७२ । २ ॥

विदुष्टे अभ्य वीर्यस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शारदीर्वातिरः
सासहानां अवातिरः । शासस्तामिन्द्र मर्त्यमयंज्युं शवसस्पते ।
मृहीममुखाः पृथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अपः ॥ २ ॥

श्र० १ । १३१ । ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यवन् कर्मबन्धनों के तोड़ने-हारे आत्मन् ! (पूरवः) आत्म शक्ति को पूर्ण करने वाले इन्द्रियगण (ते) तेरे (अस्य वीर्यस्य) इस वीर्य के विषय में (विदुः) जानते हैं (यत्) जिससे तू (शारदीः) शरद् अर्थात् वर्षों द्वारा मापी जाने वाली (पुरः) इन देहरूप पुरियों को (अवातिरः) ज्ञानवज्र से खण्डित करता है । और समस्त विरुद्ध बाधाओं को (सासहानः) सहन करता हुआ (शारदीः पुरः) वर्षरूप नदियों को (अवातिरः) पार कर जाता है । हे (शवस-स्पते) शक्तिशालिन् ! तू (अयज्युम्) अपने से संग रहित (मर्त्यम्) मरणशील (तम्) इस देह को ही (शासः) शासन करता है और

(इमाः अयः) इन नाना प्रजाओं और (इमाः अपः) इन्-नाना कर्मों को (मन्दसानः) हर्षपूर्वक करता हुआ (नहीम् पृथिवीम्) बड़ी भारी पृथिवी अर्थात् ब्रह्मरूप आश्रय भूमि को (अनुष्णाः) मूल जाता है ।

राजा के पत्र में—(पूरवः) पुरवासी जन, हे (इन्द्र) राजन् ! (ते अस्य वीर्यस्य विदुः) तेरे इस सामर्थ्य को जानते हैं जिसके बलपर तू (सासहानः) शत्रुओं को पराजित करता हुआ शत्रुओं का ही (अवातिरः) नाश करता है । (शारदीः पुरः) शरत् काल में, युद्ध यात्रा काल में त्वही की गई (पुरः) शत्रु की गड़ियों को भी (अवातिरः) नाश करता है । हे (शवसस्पते) बल के स्वामिन् ! (अयज्युन्) तुम्ह से सन्धि न करने वाले, कर न देने वाले शत्रु (नत्यं) ननुप्य को (शासः) शासन करता, दण्ड देता है (इमाः अपः) इन जलों को जिस प्रकार सूर्य शरत्काल में त्वच्छ कर देता है इसी प्रकार (इमाः अपः) इन प्राप्त प्रजाओं को (मन्दसानः) सदा प्रसन्न करता हुआ (नहीम् पृथिवीम्) बड़ी भारी पृथिवी को (अनुष्णाः) शत्रुओं के हाथों से छीन कर अपने हाथ में कर लेता है ।

आदित् तं अस्य वीर्यस्य चर्किरन्मदेषु वृषभुशिलो यदाविंथ
सखीयतो यदाविंथ । चकथं कारमंभ्यः पृतनासु प्रवन्तवे । तं
अन्यामंन्यां नृथं सनिष्णत अत्रस्यन्तः सनिष्णत ॥ ३ ॥

६० १।१३१।५ ॥

भा०—आत्मा-पत्र में—(आत् इत्) और इसके बाद (ते) वे योगिजन (अस्य वीर्यस्य) तेरे इस सामर्थ्य को (चर्किरन्) चारों तरफ फैलाते या स्तुति करते हैं (यत्) जिससे हे (वृषन्) हृदयों में शान्द-रस के वर्षक ! तू (नदेषु) आत्मा के आनन्द से वृत्त होजाने के अवसरों में उन (लशिजः) कामना युक्त, तुम्हें चाहने वाले अपने इच्छुकों को (भाविथ) प्राप्त होता है और (यत्) जिससे तू (सखीयतः) तुम्हें

अपने सखा व्रताने के इच्छुक पुरुषों को (आविथ) प्राप्त होता है । तू तभी (एभ्यः) उन साधकों के लिये (पृतनासु) काम्य पदार्थों से पूर्ण लोकों में (प्रवन्तवे) उत्कृष्ट पद या ऐश्वर्य के भोग्य के लिये (कारम्) क्रिया सामर्थ्य का (चकर्थ) प्रदान करता है । और (ते) वे भी (अन्याम् अन्याम्) एक से एक अगली (नद्यं) नदी या समृद्ध आत्मदशा को (सनिष्णत) प्राप्त करते हैं और (श्रवस्यन्तः) आत्म ज्ञानोपदेश की कामना करते हुए ही वे एक से एक उन्नत (नदीं) जल पूर्ण नदी, ज्ञान समृद्ध गुरु रूप सरस्वती को (सनिष्णत) प्राप्त होते हैं और ज्ञान लाभ करते हैं ।

तीर्थात् तीर्थान्तरं व्रजेत् गुरोर्गुर्वन्तरं व्रजेत् ।

राजा के पक्ष में—(यत्) जिस बल से हे (इन्द्र) राजन् ! सेना-पते ! (मदेपु) संग्राम के अवसरों में (ठशिजः आविथ) अपने कामना-वान् अभिलाषुक और (सखीयतः) मित्रता के इच्छुक पुरुषों का (आ-विथ) रक्षा करता है वे (ते अस्य वीर्यस्य चर्किरन्) तेरे इस वीर्य को सामर्थ्य को चारों ओर फैलाते हैं, विस्तृत करते हैं । तू (एभ्यः प्रवन्तवे) उन वीरों के भोग के लिये (पृतनासु) संग्रामों और सेनाओं में भी (कारं चकर्थ) यत्न करता है और (ते) वे वीरगण (अन्याम् अन्याम्) एक से एक आगे आती नदी को (सनिष्णतः) पार करते हुए जाते हैं । वे (श्रवस्यन्तः) यश के अभिलाषी (सनिष्णतः) आगे ही बढ़ते देशों को प्राप्त करते जाते हैं ।

[७६] आत्मा और राजा ।

बसुक्र ऐन्द्रो अषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुभः । नष्टर्वं सक्तन् ॥

वने न वा यो न्यत्राधि चाकं ह्युर्वैर्वा स्तोमां भुरणावजीगः ।

यस्येदिन्द्रं पुरु दिनंपु होता नृणां नर्यो नृतमः क्षपावान् ॥ १ ॥

ऋ० १०। २७। १ ॥

भा०—हे (भुरगौ) शरीर के पालन पोषण करने वाले माता पिता के समान प्राण और उदान दोनों ! (यः) जो (स्तोमः) स्तोम, वीर्य, सामर्थ्य, अथवा प्राणों का गण (वने) सबके भजन या सेवन करने योग्य या सबका भोग करने वाले आत्मा में (न्यधायि) निहित या स्थित है वह स्तोम, वीर्य या इन्द्रियगण (शुचिः) अत्यन्त विशुद्ध रूप से (चाकं न) मानो तुम्हारी कामना करता हुआ सा (वां अजीगः) तुम दोनों को ही प्राप्त होता है । (यस्य) जिस बल सामर्थ्य को (इन्द्रः) इन्द्र (पुरुदिनेषु) बहुत दिन तक (होता) स्वयं धारण करता हुआ (नृणां) मनुष्यों में (नर्यः) सब से श्रेष्ठ, सबका हितकारी (नृतमः) सबसे मुख्य नायक के समान समस्त प्राणगणों का नेता है और जो (क्षपावान्) समस्त रजों विकारों के नाश करने वाली चिति शक्ति का स्वामी एवं (क्षपावान्) रात्रि के स्वामी चन्द्र के समान घोर जड़ता रूप अन्धकार रात्रि में प्रकाशवान् है । अथवा रात में भी सोते समय पहरेदार के समान मुख्य प्राण के रूप में जागता और शरीर को चेतन बनाये रखता है ।

राजा के पक्ष में—हे (भुरगौ) राष्ट्र के पालक राजा और सभापति दोनों ! (यः) जो (शुचिः) शुद्ध (स्तोमः) वीर्य या अधिकार (वने वा न्यधायि) सबसे अधिक चाहने योग्य मुख्य, राजापद या राष्ट्र में स्थित है (चाकं न) मानो तुम दोनों को चाहता सा हुआ वह (वां) तुम दोनों को (अजीगः) प्राप्त हो । जिस अधिकार को (इन्द्रः पुरुदिनेषु होता) राजा बहुत दिनों तक रखता है । वह राजा (नर्यः) सब मनुष्यों का हितकर और (नृणां नृतमः) मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ और (क्षपावान्) जो सूर्य या चन्द्र के समान रात्रि या रमणकारिणी राज्य शक्ति का स्वामी है, या जो क्षपा, अर्षान् शत्रु के नाशकारिणी सेना का स्वामी है ।

अथवा (स्तोमः) स्तुति करने योग्य (शुचिः) शुद्धस्वरूप (वः) जो (वने) सेवन करने योग्य इस देह में (वने न शुचिः) वन में अग्नि के समान, या अन्तरिक्ष में सूर्य के समान (चाकं न) समस्त भोगों की कामना करता हुआ (नि अधायि) रक्खा गया है वह हे (भुरगौ) देह के पालन करने हारे प्राण और उदान (वां) तुम दोनों को भी (अजीगः) प्राप्त है । तुम दोनों में भी व्यापक है । (यस्य) जिसको (होता) स्वीकार करने वाला या आह्वान करने वाला स्वयं (इन्द्रः) यह आत्मा (पुरुदिनेषु) बहुतसे दिनों तक रहा । जो स्वयं (नृणां नृतमः नर्यः) शरीर के समस्त नेता प्राणों में सर्वश्रेष्ठ और (नर्यः) सबका हितकारी (क्षपावान्) दोषों के नाशक चेतना शक्ति का स्वामी है ।

इसी प्रकार (रतोमः) स्तुति योग्य (शुचिः) निष्कपट शुद्ध व्यवहारवान् (चाकम्) प्रजाओं को चाहने वाला विद्वान् पुरुष (वने न) वन में अग्नि के समान (वने) भोग भोग्य राष्ट्र में उज्ज्वल होकर हे (भुरगौ) राष्ट्र के पालकरूप सेनापति और सभापति गणो ! वह भी (वां अजीगः) तुम दोनों पर विद्यमान है (यस्य) जिसको (नर्यः) नरों का हितकारी (नृणां नृतमः) मनुष्यों में नरश्रेष्ठ (क्षपावान्) शत्रु क्षयकारी (इन्द्रः) राजा भी स्वयं (पुरुदिनेषु) बहुत दिनोंतक (होता) आदर से स्वीकार करता है ।

प्र ते अस्य उपसः प्रापरस्या नृतौ स्याम नृतमस्य नृणाम् ।

अनु त्रिशोकः शतमावंहन्तृन् कुत्सेन् रथो यो असत् सस्रवान्॥२

अ० १० । २९ । २ ॥

भा०—हे आत्मन् ! (नृणाम् नृतमस्य) शरीर के उठाने वाले नेता प्राणगण के बीच सर्वोत्कृष्ट प्राणरूप (ते) तेरी (अस्याः) इस (उपसः) पापदाहक ज्योतिःमती प्रज्ञा के और (अपरस्याः) दूसरी ब्रह्म विषयक

या अनन्तर भाविनी धर्ममेघ दशा के (नृतौ) प्राप्त हो जाने पर हम (प्रत्याग) उत्तम ज्ञानवान् हो जायें। यद् जो तू (कुत्सेन) समस्त बन्धनों को काटने वाले ज्ञानबल के साथ मिलकर स्वयं (रथः) रमणीय देह स्वरूप होकर (सप्तवान्) कर्म फलों का भोक्ता (असत्) होजाता है वह तू ही अथवा (कुत्सेन) बन्धन काटने वाला ज्ञान के बल से स्वयं (रथः) रस स्वरूप आनन्दमय होकर (सप्तवान्) उस आनन्द का भोक्ता (असत्) हो जाता है। (त्रिशोकः) वाणी, मन और प्राण इन त्रिविध तेजों से युक्त होकर (शतम्) सैंकड़ों (नृन्) नेता प्राणायाम को अथवा नर देहों को भी योग विभूति द्वारा (अनु आवहन्) अपने में रक्त कर धारण करता है।

राजा के पक्ष में—हे राजन् (ते नृणां नृत्तमत्स्य) समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ तुम्ह नरोत्तम के अधीन रहकर हम (अत्याः उपसः अपरत्याः नृतौ) इस प्रभात और अगली प्रभात वेला के अन्ते रअर्थात् बहुत शीघ्र, (प्रत्याग) उद्यत हों। तू (कुत्सेन) शत्रुओं को काट गिरा देने वाले वज्र के साथ (रथः) जो स्वयं (रथः) महारथ होकर (सप्तवान् असत्) स्वयं राष्ट्र का भोक्ता हो जाता है वह तू (त्रिशोकः सन्) कोश, प्रज्ञा और उत्साह अथवा मन्त्रबल, सेनाबल और कोशबल इन तीनों प्रकार के तेजों से युक्त होकर (शतम्) सैंकड़ों नेता पुरुषों को (अनु) अपने अनुकूल (आव हन्) चलाने में समर्थ है।

कर्त्ते मद इन्द्र रन्त्यां भूद् दुरो गिरौ अभ्युद्यो वि धाव । कद्
वाहो अर्वाणुर्प मा मनीषा आ त्वां शक्यामुष्मं राधो अन्नैः ॥३॥

३० १०।२९।३ ॥

भा०—अत्यान्म में—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (ते) तेरा (कः) यह कौनसा (रन्त्यः) अत्यन्त अधिक रक्षण करने योग्य (मदः) हृष्य और

आनन्द (भूत्) है । जिस का वर्णन नहीं किया जा सकता । तू (उग्रः) अति बलवान् होकर हमारे (दुरः) द्वारों के समान (गिरः) उत्तम वाणियों को (अभि वि धाव) लक्ष्य करके विविध रूपों से प्राप्त हो । हे आत्मन् ! (क्व) तू कब (वाहः) प्रवाह स्वरूप महासिन्धु के समान होकर (अर्वाक्) साक्षात् होगा ? और कब (मनीषा) समस्त अर्थों को साक्षात् करने वाली परम प्रज्ञा रूप होकर तू (मा उप) मुझे प्राप्त होगा । और कब (त्वा उपमं) तेरे समीप होकर मैं (अन्नैः) भोग किये जाकर भी क्षीण न होने वाले तेरे अन्न सुखों के सहित (राधः) परम ऐश्वर्य के (आ शक्याम्) प्राप्त करूंगा ।

राजा के पक्ष में—हे (इन्द्र) राजन ! (ते कः मदः रन्त्यः भूत्) तेरा कौनसा आनन्द सबसे अधिक चित्त रमाने वाला है । वह ही तुझे प्राप्त हो । तू (उग्रः) उग्र, अति बलवान् होकर (दुरः) नगर के द्वारों और (गिरः) हमारी वाणियों से स्वागत करते हैं । (ते वाहः) तेरा रथ (क्व) कब (उप) हमारे पास आवे (मनीषा मा उप) तेरी नति मुझ प्रजाजन की तरफ हो । और मैं (त्वा) तेरे (उपमं) समीप पहुँच कर तेरी तरह (अन्नैः राधः) अन्नों सहित ऐश्वर्य को (आ शक्याम्) प्राप्त कर सकूँ ।

कटुं द्युम्नमिन्द्र त्वावतो नृन् कया धिया करसे कन्न आगन् ।
मित्रो न सत्य उरुगाय भूत्या अन्नै समस्य यदसन्मनीषाः ॥ ४ ॥

श्र० १० । २९ । ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (उ) बतला तू (क्व) कब (द्युम्नम्) अपने ऐश्वर्य का प्रदान (करसे) करता है ? और हे आत्मन् ! (नृन्) मनुष्यों को और (नृन्) शरीर के नेता प्राणगण को तू (कया धिया) किस धारणाशक्ति और किस बुद्धि या किस प्रकार की क्रिया से (त्वावतः)

अपने जैसा (करसे) कर लेता है ? और बतला वृ (क्व) क्व (नः)
हमें (आगन्) प्राप्त होता है ? वृ (मित्रः) सबका स्नेही (सत्यः) स्वयं
सत्यस्वरूप, समस्त सत्यदार्थों में विद्यमान, या (सः त्यः) वह वृ (मित्रो
न) सूर्य के समान स्वयंप्रकाश (उरुगायः) महान् स्तुति का पात्र है ।
(यत्) जब तेरी (मनीषाः) बुद्धियाँ (समस्य) समस्त प्राणों के (अन्नैः)
आहार या जीवन या अन्न ऐश्वर्य के निमित्त (असन्) होती हैं तभी वृ
सबके (नृणैः) भरण पोषण के भी समर्थ होता है ।

राजा के पद में—हे राजन् ! तू (कद् उ दृग्मन् करसे) क्व ऐश्वर्य
उत्पन्न करता है ? (कया धिया नृन् त्वावतः करसे) और किस उपाय
से तू नेताओं और प्रजा लोगों को अपने समान कर लेता है (क्व नः
आगन्) हमें क्व प्राप्त होता है ये सब रहस्य ही हैं । वृ (मित्रः न सत्यः)
मित्र के समान सत्यवादी और सर्वस्नेही, न्यायकारी (उरुगायः) महान्
कीर्ति वाला है । और (यत्) जब भी तेरी (मनीषाः) इच्छाएं (असन्)
होती हैं तभी वृ (अन्नैः) अन्न द्वारा (समस्य नृत्वा) सबके भरण पोषण
करने में समर्थ होता है ।

प्रेरयं सूर्यो अर्थं न पारं ये अन्यं कामं जनिषा इव गमन् ।

गिरंश्च ये तं तुविजात पूर्वानरं इन्द्र प्रतिशिञ्जन्त्यन्नैः ॥ ५ ॥

३० १० । २६ । ५ ॥

भा०—हे इन्द्र ! आत्मन् ! (जनिषाः इव) पत्नियों के धारण पोषण
करने वाले पति लोग जिस प्रकार (कामं गमन्) अभिलाषा को पूर्ण करते
हैं उसी प्रकार (ये) जो (अस्य) इस आत्मा के (कामं) कामना योग्य
(अर्थं) पुरुषार्थ के समान ही (पारं) परमपद को (गमन्) प्राप्त करते
हैं । और हे (तुविजात) बहुजने देहों में प्रादुर्भूत ! (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्
प्रात्मन् ! (ये नरः) जो लोग (अन्नैः) अन्नादि अन्न भोगों या सुखों

को प्राप्त करते हुए उनके साथ (पूर्वीः) अभिप्राय या तत्त्व ज्ञान से पूर्ण (गिरः) वाणियों का (प्रति शिचन्ति) प्रदान करते हैं उनको तू (सूरः) सूर्य के समान सबका उत्पादक होकर (प्रेरय) उत्कृष्ट मार्ग पर चला ।

राजा के पक्ष में—(जनिधाः) पति लोग जिस प्रकार पत्नियों की अभिलाषा पूर्ण करते हैं इसी प्रकार (अस्य) इसके (अर्थम् न) अभिलषित के समान (पारं) पालन योग्य या परम, सर्वोत्कृष्ट (कामम्) काम, या संकल्प को पूर्ण करते हैं । और ये (अन्नैः) भोग्य ऐश्वर्यों सहित (पूर्वीः गिरः प्रतिशिचन्ति) ज्ञानपूर्ण वाणियों का उसको उपदेश करते हैं, तू उनको (प्रेरय) उन्नति पथ पर और आगे बढ़ा ।

मात्रे तु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी द्यौर्मज्जनां पृथिवी काव्येन ।

वराय ते घृतवन्तः सुतासः स्वाद्यन् भवन्तु पीतये मधूनि ॥ ६ ॥

ऋ० १०। २९। ६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! आत्मन् ! (ते) तुम्ह (मात्रे) प्रमाता, ज्ञानकर्ता के लिये तो (मज्जना) तेरे बल से और (काव्येन) तेरी क्रान्त दर्शी प्रज्ञा के बल से (पूर्वी द्यौः) पूर्ण द्यौ (पृथिवी) और पृथिवी ये दोनों (सुमिते) उत्तम रीति से जानी जावें । (वराय) श्रेष्ठ, वरण करने योग्य (ते) तेरे (स्वाद्यन्) सुखपूर्वक भोजन के लिये (घृतवन्तः) घृत, दूध आदि पुष्टिकारक (सुतासः) पदार्थ और (पीतये) पान करने के लिये (मधूनि) मधुर पदार्थ (भवन्तु) हों अथवा (वराय) सब से वरण करने योग्य (ते) तेरे लिये (घृतवन्तः) तेज से युक्त (स्वाद्यन्=स्वाद्यानः) अति आस्वादयुक्त (सुतासः) उत्पन्न आनन्द रस और (पीतये) पान करने के लिये (मधूनि) मधु के समान मधुर ब्रह्मरस और मधुर अनुभव और ज्ञान प्राप्त हों ।

राजा के पक्ष में-हे (इन्द्र) राजन् ! (मज्जना द्यौः) तेरी शक्ति से आकाश और (काव्येन पृथिवी) क्रान्तदर्शिता से पृथिवी (सुमिते) उत्तम रीति से मापी जायं । (वराय ते०) तेरे लिये खाने को उत्तम पदार्थ पान करने के लिये मधुर वृत्तिकर जल हों ।

आ मध्वो अस्मा असिचन्नमन्नमिन्द्राय पूर्णं स हि सत्यराधाः ।
स वावृधे वरिमन्ना पृथिव्या अभि क्रत्वा नर्यः पौंस्यैश्च ॥ ७ ॥

ऋ० १०।२९।७॥

भा०—(अस्मै इन्द्राय) इस इन्द्र आत्मा के लिये (मध्वः) मधुर ब्रह्मानन्द रस का (पूर्णम् अन्नम्) भरे हुए पात्र के समान आनन्दरस से पूर्ण (अन्नम्) सदा साथ विद्यमान (पूर्णम्) पूर्णब्रह्म को (आ-असिचन्) योगी लोग आ सेचन करते हैं । ब्रह्मरस का सब प्रकार से पान करते हैं । (हि) क्योंकि (सः) वह भी (सत्यराधाः) सत्य स्वरूप ऐश्वर्य का स्वामी है । (सः) वह (नर्यः) समस्त नरों, नेता और प्राणों में श्रेष्ठ, हितकारी (वरिमन्) विशाल सामर्थ्य से या विशाल ब्रह्म के आश्रय पर (वावृधे) बढ़ता है । (क्रत्वा) और कर्म सामर्थ्य और प्रज्ञा के बल से और (पौंस्यैः च) पौरुष के कार्यों से (पृथिव्या आ अभि वावृधे) पृथिवी को पूर्ण करके सर्वत्र वृद्धि को प्राप्त होता है ।

राजा के पक्ष में-(सः हि सत्यराधाः) वह राजा सत्य न्याय का धनी है । इसलिये उसके लिये (मध्वः पूर्णम् अन्नम् आ असिचन्) मधुर भोग्य पदार्थों के भरे पात्र के समान इस पृथिवी को लोग पूर्ण करते हैं । वह (वरिमन्) अपने बड़े सामर्थ्य के बल पर (क्रत्वा पौंस्यैः च) अपने कर्म और प्रज्ञा बल और पौरुषों से (आ पृथिव्याः अभि वावृधे) समस्त पृथिवी पर बढ़ता और शासन करता है ।

व्यान्लिन्द्रः पृतनाः स्वोजा आस्मै यतन्ते सख्याय पूर्वाः ।

आ स्मा रथं न पृतनासु तिष्ठ यं भद्रया सुमत्या चोदयासे ॥८॥

श्र० १० । २९ । ८ ॥

भा०—(इन्द्रः) आत्मा (स्वोजाः) उत्तम, श्रोजस्वी होकर (पृतनाः) समस्त मनुष्यों के भीतर (वि आनट्) विविध रूपों में व्यापक है । (पूर्वाः) पूर्ण सामर्थ्य वाली उत्कृष्ट कोटि की प्रजाएं सदा से (अस्मै सख्याय) इसके मैत्रिभाव को प्राप्त करने के लिये (आयतन्ते) यत्न करती रही हैं । हे मेरे आत्मन् ! तू (पृतनासु रथं न) संग्राम के लिये सेनाओं के बीच जिस प्रकार महारथी रथ पर सवार होता है उसी प्रकार तू भी (पृतनासु) समस्त मनुष्यों के बीच (रथम् अतिष्ठ) देह में स्थित है (यम्) जिस देह को तू (भद्रया) सुखप्रद, कल्याणकारिणी (सुमत्या) शुभ या उत्तम सुप्रबद्ध मननकारिणी मन शक्ति या बुद्धि द्वारा (चोदयासे) प्रेरित करता या चलाता है ।

राजा के पक्ष में—(स्वोजाः) उत्तम पराक्रमी (इन्द्रः) राजा (पृतनाः) शत्रु सेनाओं को (व्यानट्) विविध प्रकारों से व्यापता है (पूर्वाः) वे पूर्ण सामर्थ्य वाली शत्रु सेनाएं भी (अस्मै सख्याय आ यतन्ते) इसकी मित्रता या सन्धि के लिये यत्न करती हैं । हे राजन् ! तू (पृतनासु) संग्रामों में (रथं न) रथ के समान (पृतनासु रथं) प्रजाओं में रमणीय सिंहासन या राज्यरूप रथ पर (अतिष्ठ स्म) आरूढ़ हो । और (यं) जिसको (भद्रया) भद्र कल्याणकारी (सुमत्या) शुभमति से (चोदयासे) संचालित कर ।

[७७] परमेश्वर आचार्य राजा

वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुभः । अर्थे वक्तव्यम् ॥

आ सत्यो यांतु मधवाँ ऋजीपी द्रवन्त्वस्य हरय उष नः ।

तस्मा इदन्धः सुपुमा सुदक्षमिहाभिपित्वं करते गृणानः ॥ १ ॥

अ० ४।१६।१ ॥

भा०—(सत्यः) सत्यस्वरूप, (ऋजीपी) ऋजु, धर्म मार्ग में सबको प्रेरणा करने वाला, (मधवान्) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर और आचार्य (आ यातु) हमें प्राप्त हो । (अस्य) इसके (हरयः) गुण वर्णन करने वाले विद्वान् या शिष्यगण (नः) हमारे (उप आ द्रवन्तु) समीप आवें । (तस्मै इत्) उसके लिये ही हम (सुदक्षम्) उत्तम बलकारी (अन्धः) अज्ञ आदि समस्त भोग्य पदार्थों को (सुपुम) उत्पन्न करते या उसके निमित्त प्रदान करते हैं । वह ही (गृणानः) उत्तम उपदेश करत हुआ (अभिपित्वन् करते) हमें अभिमत फल प्राप्त कराता है ।

राजा के पक्ष में—सत्य और न्याय प्रिय होने से वह राजा 'सत्य' है, ऐश्वर्यवान् होने से 'मधवा' हैं । धर्म और सदाचार मार्ग पर प्रजाओं के संचालन से 'ऋजीपी' है उसके (हरयः) बुद्धिसार या संदेशहर हमें प्राप्त हों । उसके लिये हम प्रजाजन पृथ्वीपर अज्ञ आदि ऐश्वर्य उत्पन्न करें । वह (इह) इस राष्ट्र में (गृणानः) त्तुति किया जाकर अथवा उत्तम शिक्षा देता हुआ हमारा (अभिपित्वन् करते) साक्षात् पालन पोषण करे ।

अथं स्य शूराध्वनो नान्तेऽग्निन् नो अथ सवने मन्दर्ध्वै ।

शंसात्पृथ्व्यमुग्धनेव वेधाश्चिकितुषे अक्षुर्थाय मन्म ॥ २ ॥

अ० ४।१६।२ ॥

भा०—हे (शूर) दुष्ट वासनाओं के दमन करने में शूरवीर के समान हे परमेश्वर ! तू (अध्वनः अन्तेन) मार्ग के समाप्त हो जाने पर जिस प्रकार रथ से घोड़ों को मुक्त कर दिया जाता है उसी प्रकार (नः) हमारे (अग्निन्) इस (सवने) सवन, जन्म में ही (अध्वनः अन्ते) इस

जीवन मार्ग के समाप्त हो जाने पर (मन्द्ध्यै) परम मोक्ष-आनन्द को प्राप्त करने के लिये (नः) हमें (श्रवस्य) मुक्त कर इस प्रकार (वेधाः) विद्वान् पुरुष (दशनाः इव) कामनावान् पुरुष के समान होकर ही (चिकित्सुषे) सर्व भव व्याधि के निवारक एवं ज्ञानप्रद (असुर्याय) प्राणों में रमण करने वाले प्राणियों के हितकारी परमेश्वर की (मन्म) मनन योग्य (उक्थम्) स्तुति (शंसति) कहता है ।

कविर्न निरयं विदथानि साधन् वृषा यत् सेकं विपिगतो अर्चात् ।
दिव इत्था जजिनत् सप्त कारूनहा चिच्चक्रुर्व्युना गणन्तः ॥३॥

[३ म] ऋ० ६।२६।३ ॥

भा०—(यत्) जब (विदथानि) नाना ज्ञानों को और भीतर ज्ञान-विभूतियों को (साधन्) साधता हुआ (वृषा) ज्ञानी, बलवान् एवं हृदय में आनन्द-रस का वर्षण करने द्वारा आत्मा (निरयम्) गुप्त रूप से विद्यमान भीतर छुपे (सेकम्) आनन्दरस-प्रवाह को (विपिपानः) विशेष रूप से पान करता हुआ, (कविः) कान्तदर्शी, ज्ञानवान् होकर (अर्चात्) स्तुति करना या उस परमब्रह्म की उपासना करता है तब (दिवः) सूर्य के समान परम प्रकाशमय परमेश्वर के अनुग्रह से सप्त कारुण्) सात क्रियाशील प्राणों को (इत्था, सत्य रूप से (अ जीजिनत्) प्रकट करता है । और (अहा) दिनके समय जिस प्रकार सूर्य की सात रश्मियों समस्त पदार्थों का ज्ञान कराती हैं उसी प्रकार भीतरी ज्ञानवान् प्रबुद्ध आत्मा के वे सात मुख्य प्राण या सात ज्वाला (व्युना गणन्तः) नाना ज्ञानों का वर्णन करते हुए (अहा चित्) दिनके समान प्रकाश ही प्रकाश (चक्रुः) कर देते हैं ।

काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा ।

स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥

ये सात जिह्वाएं ही सात कारुण्य शीर्षगत सात प्राण सात कारुण्य हैं ।

वे ही सात ऋषियों के समान समस्त जगत् को नाना ज्ञानों का उपदेश करते हैं ।

स्वःर्यद् वेदिं सुदशीकम् नैर्महि ज्योतीं रुरुचुर्यद् वस्तोः ।

अन्धा तमांसि दुधिता विचक्षे नृभ्यश्चकार नृतमो अभिष्टौ ॥४॥

भा०—वह (नृतमः) समस्त नेताओं में श्रेष्ठ नरोत्तम, परमपुरुष आत्मा (यत्) जो (अर्कैः) किरणों से (सुदशीकम्) सुन्दर, सुचारु-रूप से दर्शन करने योग्य, अति सुन्दर, सूर्य के समान देदीप्यमान (स्वः) परमसुखमय प्रकाशमय (महि ज्योतिः) उस महान् ज्योति को (चकार) प्रकट करता है (यद् वस्तोः) जिसके भीतर रहने के लिये सभी प्राणगण और योगी जन एवं जिस परमब्रह्म नाम की ज्योति में समस्त सूर्य, चन्द्र, तारे आदि (रुरुचुः) कामना करते एवं प्रकाशमान हो रहे हैं । वह ही (अभिष्टौ) अभीष्ट प्राप्ति के निमित्त (विचक्षे) विशेष ज्ञानदर्शन कराने के लिये (नृभ्यः) मनुष्यों के ऊपर छाये (अन्धा तमांसि) घोर, कष्टदायी अन्धकारों को (दुधिता) विनष्ट (चकार) करता है ।

वृत्रक्ष इन्द्रो अमितमृजीष्युभे आ पंप्रौ रोदसी महित्वा ।

अतंश्चिदस्य महिमा वि रेंच्यभि यो विश्वा भुवना वृभूव ॥५॥

भा०—(ऋजीषी) महान् संचित ऐश्वर्य वाला, समृद्ध अधवा (ऋन्-ईषी=ऋजु-ईषी) ऋगादि मन्त्रों से स्तुत्य अधवा ऋजुमार्ग पर ले चलनेहारा (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, परमेश्वर (अमितम्) अमित, अपार. पता नहीं कितना (ववक्षे) धारण करता है । वह (महित्वा) महान् सामर्थ्य से (रोदसी), दौ और पृथिवी दोनों को (आ पंप्रौ) पूर्ण कर रहा है । (यः) जो वह (विश्वा भुवना) समस्त लोकों को (अभि वभूव) व्याप्त है और सबको वश कर रहा है तो भी (अस्य महिमा) इसका महान् सामर्थ्य (अतः चित् विरोचि) इससे भी अधिक दढ़ा है ।

विश्वानि शक्रा नर्याणि विद्वानपो रिरिच सखिभिर्निकामैः ।

अश्मानं चिद्दु ये विभिद्रुर्वचोभिर्व्रजं गोमन्तमुशिजो वि वन्तुः ॥६॥

भा०—मेघ जिस प्रकार वायुओं के साथ मिलकर जलों को प्रदान करता है वही प्रकार (शक्रः) शक्तिशाली, (विद्वान्) ज्ञानवान् आत्मा (निकामैः) कामना से रहित (सखिभिः) मित्रभूत चतुः आदि इन्द्रियों द्वारा (विश्वानि) समस्त (नर्याणि) मनुष्यों के हितकारी (अपः) ज्ञानों और कर्मों, कर्मफलों को (रिरिच) स्वयं त्याग देता है दूसरों पर न्योछावर करता है । और (ये) जो विद्वान् योगीजन (वचोभिः) अपनी स्तुतियों द्वारा (अश्मानं) पर्वत के समान अभेद्य और मेघ के समान रस र्पक आत्मा को (विभिद्रुः) भेदते हैं वे ही (उशिजः) परमपद के आकांक्षी होकर (गोमन्तं व्रजं) इन्द्रियों के समूह को (विवन्तुः) विशेष रूप से संयम करके रोक लेने में समर्थ होते हैं । अथवा वे ही (गोमन्तं) वेदवाणियों से सम्पन्न (व्रजं) परम गन्तव्य मोक्ष पद को (वि वन्तुः) विशेषरूप से वरण करते हैं, प्राप्त करते हैं ।

अपो वृत्रं वन्निवांसं पराहन् प्रावन्त् ते वज्रं पृथिवी सचेताः ।

प्राण्यसि समुद्रियाण्यैतोः पतिर्भवं छ्वंसा शूर घृणो ॥ ७ ॥

भा०—हे (घृणो) बाधक, अन्तःशत्रुओं के धर्षणशील, विजयी (शूर) शूरवीर ! सामर्थ्यवान् ! आत्मन् ! (ते) तेरा (वज्रं) वीर्य ज्ञान सामर्थ्य (अपः वन्निवांसं) ज्ञानों का आवरण करने वाले (वृत्रं) मेघ के समान धरने वाले, तामसं अज्ञान को (पराहन्) मेघ को सूर्य के समान विनाश करता है । और (पृथिवी) समस्त पृथिवी या विशाल शक्ति (सचेताः) तेरे बल से चेतनवती होकर तुझे (प्र आवत्) प्राप्त हाती है । (समुद्रियाणि) समुद्र के (प्राण्यसि) जलों या आकाशस्थ जलों को जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से ऊपर टाटाता है और विद्युत् मेघस्थ

जलों को नीचे फेंकना है उसी प्रकार तू (शवसा) अपने बलने (पतिः भवन्) सबका पालक होकर (समुद्रियाणि) समस्त पदार्थों के उत्पादक परमेश्वर सम्बन्धी (अर्थात्सि) ज्ञानों और बलों को (प्र एतेनः) उत्तम रीति से सबको प्रकट करता है ।

ऋषो यद्विद्मि पुरुहूत ददराविभुवत् सरमां पूर्ण्य तै ।

स नो नेता वाजुमा दधिं भूरिं गोत्रा रुजन्नङ्गिरोभिर्गृह्णानः ॥१॥

भा०—बलों के प्रकट करने के लिये वायु रूप इन्द्र जिस प्रकार (अद्रिन्) मेघों को तोड़ता है, उसी प्रकार हे (पुरुहूत) इन्द्रियों में व्याप्त आत्मन् ! समस्त प्रजाओं के पुकारे गये विश्वात्मन् ! (यत्) जब भी तू (अपः) ज्ञानों और कर्मों के प्रकट करने के लिये अद्रिन्) अखण्ड आत्मा में आवरण को (दर्दः) विदीर्ण करता है अर्थात् उस मेघ रूप आत्मा को प्राप्त करता है तब (सरमा) व्यापक ज्ञानशक्ति (ते) तेरे (पूर्ण्यन्) पूर्ण्यं पूर्वं पूर्वं के सनातन रूप को (आविः भुवत्) प्रकट करता है (सः) वह तू परमेश्वर (नः) हमें (भूरिन् वाजं) बहुतला ऐश्वर्य बल-पूर्व ज्ञान को (नेता) प्राप्त कराने वाला होकर (अंगिरोभिः) शंभु अर्थात् देह में स्वरूप से विद्यमान प्राणों द्वारा अथवा (अंगिरोभिः) ज्ञानी पुरुषों से (गृह्णानः) स्तुति को प्राप्त होता हुआ (गोत्रा) ज्ञानकी रीतियों को रोकने वाले बाधक आवरणों को नाश करता हुआ (आ दधिं) स्वयं प्रकट होता है ।

[७८] राजा और परमेश्वर ।

शिवुदधिः । इन्द्रो देवा । गायत्र्यः । त्वं सत्त्वं ॥

तद् वीं गाय सुते सत्त्वां पुरुहूताय सत्वने ।

शो यद् गवे न शक्तिने ॥ १ ॥ सू० ६ । ४५ । २२ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (वः) आप लोग (सुते) राज्याभिषेक हो जाने पर (सत्त्वा) सब मिलकर एक साथ (सत्वने) वीर्यवान् शाकिने) शक्तिशाली (गवे न । वृषभ के समान राज्यधुरा को उठाने में समर्थ राजा के लिये (यद्) जो (शं) सुख एवं कल्याणकर हो (तद् गाय) उमका उपदेश करो ।

अध्यात्म में—(गवे न शाकिने) वृषभ के समान शक्तिशाली, वीर्यवान् इन्द्र आत्मा के विषय में आप लोग (गाय) उपदेश करो जो (शं) ज्ञान्ति, सुखप्रदान करे ।

न ह्या वसुर्नि यमते दानं वाजस्य गोमतः ।

यत् सीमुष श्रवद् गिरः ॥ २ ॥ अ० ६ । ४५ । २३ ॥

भा०—(यत् सीम्) जब भी वह हमारी (गिरः) वाणियों, स्तुतियों को (उपश्रवत्) श्रवण कर लेता है तभी (वसुः) जिस प्रकार वसु-आदित्य अपने (गोमतः वाजस्य दानं) किरणों युक्त प्रकाश को नहीं रोकता उसी प्रकार वह (वसुः) सब प्राणियों में बसा, सबको वसाने वाला वह परमेश्वर (गोमनः) वाणियों और गऊओं से युक्त (वाजस्य) ऐश्वर्य और ज्ञान के (दानं) दान को (न घ नियमते) नहीं रोक लेता ।

कुविंसस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत् ।

शचीभिरप नो वरत् ॥ ३ ॥ अ० ६ । ४५ । २४ ॥

भा०—(दस्युहा) दस्यु अर्थात् नाशकारी लोगों का विनाशक, राजा के समान दुष्टों का विनाशक परमेश्वर (कुविंसस्य) बहुत से भोग्य पदार्थों के भोक्ता जीव को गोमन्तम्) गौओं से युक्त व्रज के समान नाना सुखप्रद इन्द्रियों या किरणों ज्ञानवाणियों से युक्त (व्रजम्) प्राप्य परमपद को (प्र अगमत्) प्राप्त कराता है । वह ही (नः) हमें (शचीभिः) अपनी ज्ञान शक्तियों से उस परमपद के द्वार को (अप वरत्) खोल दे ।

[७९] परमेश्वर ।

वनिष्ठः शक्तिर्वा ऋषिः । बृहन्वो । इदं च दत्तम् ॥

इन्द्रं क्रतुं न आ भरं पिता पुत्रेभ्यो यथा । शिखां शो अस्मिन्
पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ १ ॥ अ० ७ । ३२ । २६ ॥

भा०—स्याख्या देसो का० १८ । ३ । ६७ ॥

मा नो अज्ञाता वृजनां दुराध्योऽमाशिवासो अवं क्रतुः ।

त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोते शूर तरामसि ॥२॥ अ०७।३२।२७॥

भा०—हे इन्द्र ! राजन् ! (नः) हमें (अज्ञाताः) अनजाने, (वृ-
जनाः) वर्जन योग्य, हिंसक लोग और (दुराध्यः) दुखदायी व्याधियें,
मानस चिन्ताएं और दुष्ट व्याधियों वाले, (अशिवासः) अमङ्गलकारी लोग
भी (मा) न (अवं क्रतुः) दवावें । हे (शूर) शूरवीर ! (त्वया) तेरे
बल से (वयम्) हम (प्रवतः) प्रकषं को प्राप्त होकर (शश्वतीः अपः)
नित्य बहने वाली नदियों के समान (शश्वती अपः) चिरकाल से लगे
कर्म बन्धनों को (अति तरामसि) पार कर जाय ।

[८०] परमेश्वर ।

शंभुः ऋषिः । इन्द्रो देवता । इदं च दत्तम् ॥

इन्द्रं ज्येष्ठं न आ भरं औजिष्ठं पपुरि अवं । यन्नेमे चित्र
वज्रहस्त रोदसी आभे सुशिप्र प्राः ॥ १ ॥ अ० ६ । ४६ । ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (नः) हमें (औजिष्ठं) सबसे
अधिक पराक्रम से युक्त (ज्येष्ठम्) सबसे श्रेष्ठ, (पपुरि) पालन करने
वाला बड़ (अवं) अन्न (आ भर) प्राप्त करा । हे (चित्र) अद्भुत ! हे
(वज्रहस्त) वज्र या बल को हाथ में धारण करने वाले ! हे (सुशिप्र)

उत्तम बल और ज्ञानवन् ! तू (येन) जिससे (इमे) इन (उभे रोदसी)
दोनों लोकों को (आ प्राः) पूर्ण कर रहा है ।

त्वामुग्रमवसे चर्षणीसहं राजन् देवेषुं हूमहे । विश्वा सु नो
विथुरा पिन्दना वसो मित्रान् सुषहान् कृधि ॥२॥ ऋ० ६।४६। ६ ॥

भा०—हे (राजन्) राजन् ! (देवेषु) समस्त विजयशील पुरुषों
में से (उग्रम्) अधिक बलवान् और (चर्षणीसहम्) समस्त लोकों को
अपने बल से वश करनेहार (त्वाम्) तुम्हें हम (अवसे) रक्षा के लिये
(हूमहे) बुलाते हैं । तू (विश्वा) समस्त (पिन्दना) अव्यक्त शब्द
करने वाले गुप्त पुरुषों को (विथुरा) व्यथित, पीड़ित (सुकृधि) कर ।
अथवा (विथुरा) व्यथादायी पुरुषों को (पिन्दना) अप्रकट शब्द वाला होकर
ज्ञान्त कर । और हे (वसो) सबको वास देनेहार ! तू (अमित्रान्) शत्रुओं
को (सुसहान्) सुख से पराजय करने योग्य (कृधि) कर ।

[८१] परमेश्वर की महिमा ।

पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । द्वयत्वं सक्तम् ॥

यद् द्यावं इन्द्र ते शतं शतं भूमरुत स्युः । न त्वा वज्रिन्सहस्रं
सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ १ ॥ ऋ० ८ । ७० । ५ ॥

भा०— हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (यद्) यदि (ते) तेरे लिये
(शतं द्यावः) सैकड़ों धौलोक आकाश और (उ ते शतं भूमीः) सैकड़ों
भूमियें भी (स्युः) हों और हे (वज्रिन्) शक्तिमन् ! (सहस्रं सूर्याः)
हजारों सूर्य और (सहस्रं जातम्) हजारों उत्पन्न संसार और (सहस्रं
रोदसी) हजारों जमीन आस्मान हों तो भी (त्वा न अतुं अष्ट) तुम्हें ब्याप
नहीं सकते । तेरी बराबरी नहीं कर सकते ।

अर्थात् सैकड़ों आकाश ईश्वर की अनन्तता को नहीं ब्याप सकते ।
सैकड़ों भूमि तेरे चित् शक्ति को जीवों द्वारा माप नहीं सकतीं । सहस्रों

सूर्य तेरे तेज की स्पर्धा नहीं कर सकते । सहस्रों जगत् पैदा होकर भी उसकी उत्पादक शक्ति को समाप्त नहीं कर सकते । और सैकड़ों द्यौः पृथिवी उस पूर्ण को व्याप नहीं सकते ।

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता ।

यदि भाःसदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः ॥ गीता ११ । १२ ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्निः ॥

ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिवात् ज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्यो लोकभ्यः ॥

बृहदा० ॥

आ पंप्राथ महिना वृष्यां वृषन् विश्वां शविष्ठ शवसा ।

अस्माँ अत्र मघवन् गोमति व्रजे वज्रि चित्राभिर्जतिभिः ॥२॥

श्र० ८ । ७० । ६ ॥

भा०—हे (वृषन्) समस्त सुखों के वर्षक ! हे (शविष्ठ) सबसे अधिक शक्तिशालिन् ! तू (महिना) बड़े भारी (शवसा) अपने बल से अपनी शक्ति से (विश्वा) समस्त (वृष्या) बल के कार्यों को (आ पंप्राथ) फैला रहा है । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! (गोमति व्रजे) गौ, इन्द्रियों के इस समूह में या इन्द्रियों से युक्त इस गोष्ठ रूप देह में हैं (वज्रिन्) बलवन् ! चित्राभिः) विचित्र २ आश्चर्यजनक (जतिभिः) रक्षा साधनों से (अस्मान् अत्र) हमारी रक्षा कर ।

[८२] परमेश्वर और उपासक

वृषिष्ठ अग्निः । इन्द्रो देवता । वृहत्यो । द्रष्टृवं सक्तम् ॥

यदिन्द्र यावत्स्त्वमेतावद्दहमीशिय । स्तोतामिद् दिग्निपेय
रदावसो न पापन्वार्य रासीय ॥ १ ॥ श्र० ७ । ७ । ३२ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! परमेश्वर एवं राजन् ! (यावतः त्वम्) जितने ऐश्वर्य का तू हमें प्रदान करे, (तावद्) उतने धन का (अहम्) मैं

(ईशिय) स्वामी होजाऊं (यत्) जिससे मैं (स्तोतारम्) विद्वान्जन को (दिधिपेय) धारण पोषण करूं । हे (रदावसो) ऐश्वर्य के दातः ! मैं (पापत्वाय) पाप कार्य के लिये कभी (न रासीय) दान न दूँ ।

शिष्येयमिन्महयन्ते द्विवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे ।

नहि त्वदन्यन्मघवन् न आप्यं वन्थो अस्ति पिता चन ॥२॥

ऋ० ७ । ३२ । १९ ॥

भा०—परमेश्वर कहता है । (दिवे दिवे) दिनों दिन, प्रतिदिन, सदा (कुहचित् विदे) कहीं भी विद्यमान (महयते) उपासना करने वाले सत्पुरुष को मैं (रायः) धनों, ऐश्वर्यों को (आशिक्षयेम् इत्) प्रदान करता ही हूँ । भर्गु कहता है । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! (त्वद् अन्यत्) तुझ से दूसरा (नः) हमारा (आप्यम् न) बन्धु नहीं और (त्वदन्यः) तुझसे दूसरा (वस्यः) श्रेष्ठ हमारा (पिता चन न) पिता पालक भी नहीं है ।

[८३] राजा

शंय ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ वृहती, २ पंक्तिः । इयत्त्वं सूक्तम् ॥

इन्द्रं त्रिधातुं शरणं त्रिवरुथं स्वस्तिमत् । छुर्दियच्छ मघव-
द्भ्यश्च मह्यं च यावयां द्विद्युमंभ्यः ॥ १ ॥ ऋ० ६ । ४६ । ९ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (त्रिधातु) तीन धातु, धारण सामर्थ्यों से युक्त (त्रिवरुथम्) तर्जियों प्रकार के कणों को वारण करने वाला, (स्वस्तिमत्) कल्याणवान् (छुर्दिः) छुत या सुखों से युक्त (शरणम्) आश्रयस्थान, गृह (मघवद्भ्यः) धनाढ्य पुरुषों और (मह्यम्) मुझको भी (यच्छं) प्रदान कर और (पृभ्यः) इनसे (दिद्युम्) देदीप्यमान शत्रु का क्रोध आदि को (यवय) दूर कर । अथवा (पृभ्यः) इनके (दिद्युम्) प्रदीप्त क्रोध या अस्त्र को हमसे (यवय) दूर कर ।

‘त्रिधातु’—तीन धातु अर्थात् तीन प्रकार से धारण करने वाला, तिमंजिला, अथवा सुवर्ण, रजत, लोह, इनसे युक्त । अध्यात्म में त्रिधातु वात, पित्त, कफ अथवा शरीर के तीन धारक बल प्राण, उदान, अपान ।

‘त्रिवरुध्यम्’ तीन तारों को वारण करने में समर्थ, शीत, आतप, वर्षा, तीन कष्ट, अथवा, मानस, वाचिक, कायिक, तीनों पीड़ाओं का वारक अथवा अध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों का वारक यह देह ।

ये गन्व्यता मनसा शत्रुंमातृभुरभिप्रमन्ति घृष्णया ।

अथ रमा नो मघवान्निन्द्रं गिर्वेशस्तनूपा अन्तमो भव ॥२॥

अ० ६ । ४६ । १० ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! (ये) जो पुरुष (गन्व्यता मनसा) भूमि और गौ आदि पशु लेने की इच्छा वाले मन से (शत्रुम्) शत्रु को (आदसुः) मारने में समर्थ हैं और जो (घृष्णया) शत्रु को धरषण करने वाली शक्ति से (अभि प्रमन्ति) मार डालते हैं ऐसे पुरुषों के होते हुए हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! हे (गिर्वेशः) स्तुत्य ! (इन्द्र) हे शत्रुनाशक ! तू (तनूपाः) हमारे शरीरों का रक्षक होकर (नः अन्तमः) हमारा अति संमीपतम मित्र एवं रक्षक होकर (भव) रह ।

[८४] परमेश्वर

मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । रुचं छन्दः ॥

इन्द्रा यांति चित्रमानो सुता इमे त्वायवः ।

अर्वाभिस्तना पूनासः ॥ १ ॥ अ० १ । ३ । ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! हे (चित्रमानो) आश्चर्यजनक दीप्तियों वाले ! (इमे सुताः) ये सनस्त उत्पन्न पदार्थ और ज्ञानरस से अभिषिक्त शुद्ध आत्मा (त्वायवः) तुम्हें प्राप्त होना चाहते हैं । तू (आ

याहि, आ. साक्षात् दर्शन दे। ये सब (अण्वीभिः) सूक्ष्म योग क्रियाओं से या ज्ञानप्रकाशों से (तना) नित्य, विभूतिमान् एवं (पूतासः) पावित्र हैं।

इन्द्रा यांङि धियेपितो विप्रजूतः सुतावतः ।

उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ २ ॥ ऋ० १ । ३ । ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! तू (धिया इपितः) उत्तम ज्ञानवाली बुद्धि और उत्तम कर्म से प्राप्त होने योग्य और (विप्रजूतः) विद्वानों द्वारा जाना और अर्चना किया गया होकर (वाघतः) उपासक पुरुषों और (ब्रह्माणि उप) ब्रह्मज्ञानी पुरुषों को या ब्रह्मवेद के वचनों को (उप आ याहि) प्राप्त हो, दर्शन दे। अर्थात् वेदोक्त गुणों सहित प्रकट हो।

इन्द्रा यांङि तूतुंजान उप ब्रह्माणि हरिवः ।

सुते दधिष्व नश्चनः ॥ ३ ॥ ऋ० १ । ३ । ६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! तू (तूतुंजानः) अति वेगवान् होकर (ब्रह्माणि उप) वेद स्तुतियों को (उप आयाहि) प्राप्त हो। हे (हरिवः) वेगवान् सूर्यादि लोक के स्वामिन् ! या ज्ञानवान् विद्वानों के प्रभो ! (सुते) उत्पन्न इस संसार में (नः) हमें (चनः) अन्न आदि भोग्य पदार्थ (दधिष्व) प्रदान कर।

[८५]

मेधातिथिमेध्यातिथी ऋषी । इन्द्रो देवता ।

मा चिद्वन्पदु त्रि शंसत सखायो मा रिपण्यत ।

इन्द्रमित् स्तांता वृषणं सचा सुते मुहुंरुक्था च शंसत ॥१॥

ऋ० ८ । १ । १ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! हे (सखायः) मित्रजनों ! (अन्यत) मूढ़ की स्तुति के अतिरिक्त (मा चित् विशंसत) और किसी की विशेष

रूप से स्तुति न करो । और (मा रिषण्यत) व्यर्थ खेद में मत पड़ो ।
 (सुते) ज्ञान से परिकृत आत्मा में एवं उत्पन्न संसार में (इन्द्रम् इत्)
 ऐश्वर्यवान् (वृषणं) महान् समस्त सुखों के वर्षक परमेश्वर की (सत्वा)
 एकत्र मिलकर (स्तोत) स्तुति करो और (सुहुः) वार २ (उक्था च)
 स्तुतियां (शंसत) कहो ।

अवृक्षक्षिणं वृषभं यंध्राजुरं गां न चर्षणीसहम् ।

विद्वेषणं सेवननोभयंकरं मंहिष्ठमुभयाविनम् ॥ २ ॥ अ० ८।१।२।

भा०—(अवृक्षक्षिणम्) सबको अपने अधीन रखकर अपने प्रति
 आर्कषण करने वाले (वृषभम्) प्रजाओं पर समस्त सुखों के वर्षक,
 (अजुरं) जरा रहित, अजर, (गां न) सूर्य और महावृषभ के समान
 (चर्षणीसहम्) समस्त लोकों और पुरुषों को विजय करने वाले (विद्वे-
 षणम्) विरुद्ध आचारी पुरुषों के द्वेषी, (सेवनना) सज्जन पुरुषों के
 सेवनीय, (उभयंकरम्) निग्रह और अनुग्रह, दण्ड और कृपा दोनों के
 करने में समर्थ (मंहिष्ठम्) अति पूजनीय एवं अति दानशील (उभया-
 विनम्) शत्रु और मित्र दोनों की रक्षा करनेहारे और स्थावर, जंगम सबके
 रक्षक उस परमेश्वर की राजा के समान वार २ स्तुति करो ।

यच्चिद्धि त्वा जना इमे नाना हवन्त ऊतये ।

अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तद्वा विश्वां च वर्धनम् ॥ ३ ॥

अ० ८।१।३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! परमेश्वर (यत् चिद् हि) यद्यपि
 (इमे जनाः) ये समस्त लोग (त्वा) तुझे (ऊतये) अपनी रक्षा के
 लिये ही ' नाना) भिन्न २ उपायों से (हवन्ते) स्तुति करते हैं । तो भी
 (अस्माकं) हमारा (इदं ब्रह्म) यह वेद स्तुति वचन (ने) तारे गुणों को
 (विश्वा ब्रह्म च) सदा सय दिनों (वर्धनम्) बढ़ाने वाला (भूतु) रहे ।

वि तर्तूर्यन्ते मघवन् विप्रश्चितोर्वो विप्रो जनानाम् ।

उपं क्रमस्व पुरुरूपमा भरु वाजं नेदिष्ठमूतये ॥ ४ ॥ अ० ८६ । ४ ॥

भा०—हे (मघवन्) परमेश्वर ! (विपश्चितः) समस्त कर्मों और ज्ञानों के ज्ञाता (अयं) भाग्य बढ़ाने वाले (जनानां विपः) जनों के बीच में मेधावी, एवं विवेकवान् पुरुष (वि तर्तूर्यन्ते) विशेष रूप से पार हो जाते हैं । हे परमेश्वर ! तू (उपक्रमस्व) हमें प्राप्त हो । और (पुरुरूपम् वाजं) विविध प्रकार का रुचिकर अन्न और बल (आ भर) हमें प्राप्त करा । और (उतये) रक्षा के लिये (नेदिष्ठम्) अति समीप (उप क्रमस्व) समीप रह ।

[८६] आत्मा

विधाविन्न अग्निः । इन्द्रो देवता । त्रिण्डुप् । एकत्र वृत्तम् ॥

ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजां युनजिम हरी सखाया सप्रमादं आशू ।

स्थिरं रथं सुखमिन्द्रांघ्रितिष्ठन् प्रजानन् विष्टौ उपं याहि सोमम् ॥ १ ॥

अ० ३ । ३५ । ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) पेश्वर्यवन्, ज्ञानवन् ! अज्ञाननाशकारिन् आत्मन् ! मैं (सघमादे) एक साथ आनन्द अनुभव करने की समाहित दशा में, जब समस्त प्राण हर्षयुक्त और प्रफुल्लित हों तब (आशू) वेगवान्, (ब्रह्म युजा) उस महान् शक्ति आत्मा के साथ युक्त होने वाले (हरी) दुःखों के विनाशक (सखाया) समान रथाति वाले, एक दूसरे के मित्ररूप (हरी) शरीर के धारक, प्राण और अपान दोनों को (ब्रह्मणा) परम ब्रह्म के साथ (युनजिम) योग-अभ्यास द्वारा समाहित करता हूँ । हे (इन्द्र) आत्मन् ! तू (सुखं) सुखपूर्वक (स्थिरं) स्थिर रूप से रथम् । एक रस विद्यमान इस देह को स्थिर आसन में (अघितिष्ठन्) स्थित रहता हुआ इस पर बश करता हुआ (प्रजानन्) दृष्टष्ट ज्ञान-सम्पादन

करके (विद्वान्) ज्ञानवान् होकर (सोमम्) सबके प्रेरक परमेश्वर या
ब्रह्मरस को (उपयाहि) प्राप्त कर ।

[८७] राजा, आत्मा

वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुभः । सप्तैव सृजन् ॥

अध्वर्यवोरुणं दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभाय क्षितीनाम् ।

गौराद् वेदीयाँ अन्नपानमिन्द्रोँ विश्वाहेद्याति सुतसोमभिच्छन् ॥ १ ॥

अ० ७ । १८ । १ ॥

भा०—राजा के पक्ष में—हे (अध्वर्यवः) हिंसा रहित यज्ञ पूर्व
प्रजा पालन रूप राज्यकार्य के सम्पादन करने हारे विद्वान् पुरुषो ! आप
लोग (क्षितीनां वृषभाय) राष्ट्र में निवास करने वाली समस्त प्रजाओं
के प्रति सुखों के वर्णन करने वाले राजा के लिये (अरुणम्) प्राप्त करने
योग्य रुचिकर (दुग्धम्) दुग्ध के समान पुष्टिप्रद अथवा पृथ्वीरूप
भूमेनु से दोहन किये गये (अंशुम्) राजांचित अंश को (जुहोतन)
प्रदान करा । वह (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, शत्रु के नाश करने में समर्थ
होकर (गौराद्) केवल वाणियों में रमण करने वाले विद्वान् से भी
अधिक (वेदीयान्) ज्ञानवान् होकर अथवा (गौराद्) जाज्वल्यमान
आदित्य से भी अधिक (वेदीयान्) तेजस्वी और ऐश्वर्यवान् होकर (अ-
न्नपानं सुतसोमम्) अधीन रखकर पालन करने योग्य सुतसोम अर्थात्
अभिषेक द्वारा प्राप्त सोमपद, राष्ट्रपति के पद को (इच्छन्) अभिलाषा
कृता हुआ (विश्वाहा) सब दिनों ही (याति) राजाओं पर यान या
चढ़ाई करता है ।

आत्मा के पक्ष में—हे (अध्वर्यवः) अहिंसित जीवन यज्ञ के करने-
हारे योगिजनो ! तुम (क्षितीनां वृषभाय) देश में निवास करने वाले प्राण-
गुणों के बीच में समस्त जीवन रस के वर्णन करने वाले आत्मा के लिये

(अरुणम्) अति प्रकाश युक्त या गार्तशील, अरुद्धगति (दुग्धम्) सार रूप से प्राप्त (अंशुम्) व्यापक प्राण की (जुहोतन) आहुति दो । वह (इन्द्रः) आत्मा (गौरात्) इन्द्रियों में रमण करने वाले पुरुष से अथवा इन्द्रियों में रमणशील प्राण से भी अधिक (वेदीयान्) बलशाली होकर (अवपानम्) भीतर ही पान करने योग्य (सुतसोमम्) प्राप्त ब्रह्मरंस को (इच्छन्) चाहता हुआ (विश्वाहा इत्) सदा ही (याति) प्राप्त है ।

यद् दधिपे प्रदिवि चार्चनं द्विवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि ।

उत हृदात् मनसा जुपाण उशन्निन्द्र प्रस्थितान् पाहि सोमान् ॥२॥

श्र० ७। ८९। २ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (प्रदिवि) उत्कृष्ट तेजोमय ज्ञानस्वरूप परब्रह्म में आश्रित (चारु) अति उत्तम (यत्) जिस (अन्नम्) अन्न, अक्षय रस को (दिवे दिवे) प्रतिदिन, नित्य (दधिपे) धारण करता है (अस्य) उस साक्षात् प्राप्त रस के (पीतिम् इत्) पान को ही नित्य (वक्षि) चाहता है । (हृदा उत मनसा) हृदय और मन से (जुपाणः) चाहता हुआ और सेवन करता हुआ हे (उशन्) सदा उसकी अभिलाषा करता हुआ तू (प्रस्थितान्) इन आगे रक्त्वे, साक्षात् प्राप्त (सोमान्) ब्रह्मानन्द रसों का (पाहि) पान कर ।

राजा के पक्ष में—(प्रदिवि) उत्कृष्ट राजसभा के अधीन (यत् चारु अन्नं दधिपे) जिस उत्तम, अक्षय, भोग्य राष्ट्र को धारण करता है और (दिवेदिवे अस्य पीतिम्=वृद्धिम् वक्षि) दिनोंदिन उसकी वृद्धि चाहता है । (उत हृदा उत मनसा जुपाणः उशन्) हृदय और मनसे प्रेम करता और चाहता हुआ (अस्य) इस राष्ट्र के उच्च पदों पर स्थित (सोमान्) शासक अधिकारियों और विद्वानों की (पाहि) रक्षा कर ।

‘पीतिम्’—श्रोण्यायवृद्धौ—ध्यायः पीभावः ॥

जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र तं माता महिमानमुवाच ।

एन्द्रं पपाथोर्वःन्तरिङ्गं युवा देवेभ्यो वरिवश्चकथं । ३।७००ः३२३३

भा०—राजा के पद में—हे (इन्द्र) राजन् ! तू (जज्ञानः) उत्पन्न होते राजा बनने ही (सहसे) अपने शत्रुपराजपकारी बल से (सोमं) राजपद एवं राष्ट्र का (पपाथ) उपभोग करता एवं पालन करता है । (ते माता) तेरी माता, तुम्हें राजा बनाने वाली राजसंभा एवं यह पृथ्वी (ते महिमानम्) तेरे महान् सामर्थ्य को (प्र उवाच) कहती है । तू (उरु अन्तरिङ्गं) विशाल अन्तरिङ्ग को (आ पपाथ) पूर्ण करता अर्थात् अन्तरिङ्ग के समान प्रजाओं का रक्षक और उनपर जलादि वर्षण के समान सुखों का वर्षण करके स्वयं सानो अन्तरिङ्ग पद को (आ पपाथ) प्राप्त करता है । और (युवा) युद्ध द्वारा (देवेभ्यः) विजिगीषु सेना पुरुषों और विद्वानों के लिये वरिवः) धनैरवर्षवान् को भी (चकथं) उत्पन्न करता है ।

अध्यात्म के पद में—(जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ) ज्ञान सन्पादन करता हुआ अपने आत्मिक बल से योगी सोम रस, प्रश्नरस का पान करता है । हे आत्मन् ! (माता) ज्ञानी पुरुष (ते महिमानम् प्र उवाच) तेरी बड़े महान् सामर्थ्य का वर्णन करता है । (उरु अन्तरिङ्गम्) विशाल हृदयाकाश को तू (पपाथ) पूर्ण करता, (देवेभ्यः वरिवः चकथं) और प्राणों को भी बल प्रदान करता है ।

परमेश्वरपद में—शक्तिरूप से प्रदुर्भूत होकर या सृष्टि को उत्पन्न करता हुआ तू अपने बल से (सोमं) इन्द्र उत्पन्न संतार को स्वयं (पपाथ) पान करता है, प्रलयकाल में लील जाता है । (माता) जननी अस्तरुड प्रकृति तेरे इन्द्र महान् सामर्थ्य का वर्णन करती है । तू (उरु अन्तरिङ्गं) इस विशाल आकाश को विस्तृत करता है (देवेभ्यः) सृष्टादि लोकों को (युवाः) अपने बल से (वरिवः) तू ही संज्ञ (चकथं) देता है ।

यद् योत्रया महतो मन्यमानान् साक्षाम् तान् ब्राह्मिः शाशदानान् । यद्वा नृभिर्वृतं इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजिं सौश्रवसं जयेम ॥ ४ ॥ क० ८ । १८ । ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! सेनापते ! (यद्) जब तू (महतः मन्यमानान्) बड़े अभिमान करने वालों को (योधय) हमारे से लड़ाता है तब (शाशदानान्) हमारे पक्ष वालों को काटने वाले (तान्) उन शत्रुओं का हम (ब्राह्मिः) अपनी ब्राह्मियों से ही (साक्षाम्) पराजित करें । (यद् वा) और जब भी (नृभिः) उत्तम नेताओं से (वृतः) परिवृत होकर तू स्वयं (अभि युध्याः) शत्रु के मुकाबले पर लड़े तब (त्वया) तेरे द्वारा हम (सौश्रवसं) उत्तम यश और सन्पत्ति प्राप्त कराने वाले (आजिम्) युद्ध का (जयेम) विजय करें ।

परमेश्वर पक्ष में—जब भी हमपर परमेश्वर बड़े शत्रुओं से युद्ध का अवसर दे हम उनको अपने ब्राह्मण से पराजित करें । और हे (इन्द्र) परमात्मन् ! तू (नृभिः) अपनी नेतृ शक्तियों से (अभि युध्याः) उनका नाश करता हो । तब तो हम तेरी सहायता से उत्तम यश, अन्न के देने वाले संग्राम का विजय करें ।

प्रेन्द्रेस्य प्रवोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकार ।

यदेददेवीरसाहिष्ट मायां अथाभवत् केवलः सोमो अस्य ॥ ५ ॥

शू० ८ । १८ । ५ ॥

भा०—(इन्द्रस्य) वीर राजा या सेनापति के मैं (प्रथमा कृतानि) पहले किये हुए श्रेष्ठ उत्तम कार्यों को (प्रवोचं) वर्णन करूं । (या) और जिन (नूतना) नवीन कर्मों को (मघवा) वह ऐश्वर्यवान् करता है उन को भी मैं (प्रवोचन्) कहूं । (यद्) जब वह (अदेवीः) अविजिगीषु, शयोद्धा, भीरु लोगों की (मायाः) छलकपट की क्रियाओं को (असाहिष्ट)

विजय कर लेता है तब (सोमः) उत्तम ऐश्वर्य को देने वाला राष्ट्र (केवलः) समस्त (अस्य) उसके ही वश में (अभवत्) रहता है।

परमेश्वर के पक्ष में—परमेश्वर के पूर्व कल्पों में किये और नवीन इस कल्प में किये जगत्सर्गों के विषय में मैं वर्णन करूँ। (यद्) जब वह (अदेवीः) अग्नि आदि दिव्य पदार्थों से अतिरिक्त असत् पदार्थों के द्वारा उत्पन्न (मायाः) अम पूर्ण रचनाओं को अथवा (अदेवीः) प्रकाश रहित (मायाः) प्रकृति के विकृति सृष्टियों को भी (असहिष्ट) अपने वश किये रहता है तब जानों कि (सोमः केवलः) समस्त जगत् ही (अस्य) उसके वशमें (अभवत्) है।

तवेदं विश्वमभितः पशव्यं यत् पश्यसि चक्षसा सूर्यस्य ।

गवामसि गोपतिरेकं इन्द्र भञ्जीमहि ते प्रयतस्य वस्वः ॥६॥

३० २। १२। ६ ॥

भा०—हे राजन् ! (इदं) यह (अभितः) इधर उधर सर्वत्र राष्ट्र में विचारने वाला (विश्वं पशव्यम्) समस्त पशु समूह (यत्) जिसको तू (सूर्यस्य) सूर्य के (चक्षसा) प्रकाश से (पश्यसि) देखता है। (इदं तव) यह तेरा ही है। तू। गवां गोपतिः एकः) अकेले समस्त गौओं के पति। गोपाल के समान भूमियों का एकमात्र पालक है। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (प्रयतस्य) उत्कृष्ट, उत्तम नियन्ता रूप (ते) तेरे ही (वस्वः) ऐश्वर्य का हम (भञ्जीमहि) भोग करें।

ईश्वरपक्ष में—(इदम्) यह (अभितः) सब और फैला (पशव्यं) दोषायों चौपायों का हितकारी (विश्वम्) समस्त संसार (यत्) जिसको (सूर्यस्य चक्षसा पश्यसि) सूर्य के प्रकाश से तू प्रकाश करता मानो देखता ही है वह (तव) तेरा ही है। (गवाम्) गौओं के स्वामी गोपाल के समान एकमात्र समस्त प्राणियों और भूमियों का पालक तू ही गोपति है।

(प्रयत्नस्य) उत्तम शासक नियन्ता एवं सर्वत्र प्रयत्न या व्यापार चेष्टा करने वाले तेरे ही (वस्वः) ऐश्वर्य का हन (भस्मीमहि) भोग करते हैं ।

बृहस्पते युवमिन्द्रंश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य ।

धत्तं रयिं स्तुयते करिये चिद् यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

अ० ८ । १८ । ७ ॥

भा०—हे (बृहस्पते) बृहस्पते महान् राष्ट्र के स्वामिन् ! एवं बृहती वेदवाणी के पालक विद्वान् ! और राजन् ! हे इन्द्र ! ऐश्वर्यवन् ! (युवम्) तुम दोनों (दिव्यस्य) दिव्य ज्ञानरूप और (पार्थिवस्य) पृथिवी सम्बन्धी (वसु) ऐश्वर्य के (ईशाथे) दोनों स्वामी हो । आप दोनों स्तुति करने हारे विद्वान् पुरुष को (रयिम् धत्तम्) ऐश्वर्यवान् करो और (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) कल्याणकारी साधनों से (नः पात) हमारी रक्षा करो ।

व्याख्या देखो अथर्व० का० २० । १७ । १२ ॥

[८८] परमेश्वर सेनापति राजा

वामदेव ऋषिः । बृहस्पतिदेवता । त्रिण्डुभः । षडूर्ध्वं सत्तम् ॥

यस्तस्तम्भ सहस्रा वि ज्मो अन्तान् बृहस्पतिंस्त्रिपधस्थो रवेण ।

तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रा दत्रिरे मन्द्रजिह्वम् ॥१॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (बृहस्पतिः) बृहती वेदवाणी और बृहन् महान् राष्ट्र और बृहत् महान् ब्रह्माण्ड का पालक है और (त्रि पधस्थः) तीनों स्थान, तीनों लोकों में सूर्य के समान स्थित होकर (रवेण) अपने शासन उद्देश से (सहस्रा) बल पूर्वक (ज्मः) पृथिवी के (अन्तान्) दशों दिशाओं के दूरस्थ प्रदेशों को (वि) विविध प्रकार (तस्तम्भ) धामता है, वश करता है (प्रत्नाः ऋषयः) पूर्व के ऋषि, मन्द्रद्रष्टा (विप्राः) विविध ज्ञानों से पूर्ण मेधावी लोग (मन्द्रजिह्वम्) आनन्द जनक प्राप्ति

युक्त वचन वाले, सुत्रमद दीप्ति से युक्त उसको (दीघ्यानाः) ध्यान करते हुए
या धारण करते हुए (पुरः दधिरे) अपने आगे उपास्य रूप से और
प्रमाण रूप समी रूप या अध्वरूप रूप से स्थापित करते हैं ।

धुनेतयः सुप्रकेतं मदन्तो बृहस्पते अभि ये नस्ततसे ।

पृषन्तं सुप्रमदंघ्रमूर्वं बृहस्पते रक्षतादस्य योनिम् ॥ २ ॥

ऋ० ४ । ५० । २ ॥

भा०—हे (बृहस्पते) बड़े शक्ति, वाणी, राष्ट्र और ब्रह्माण्ड के
पालक ! विद्वन् ! सेनापते ! राजन् ! एवं परमात्मन् ! बृहस्पते ! (धुने-
तयः) शत्रुओं को कंपा देने वाली चढ़ाई करने वाले (सु प्रकेतं) उत्तम
दृष्टि ज्ञानवान् तुम्हको (मदन्तः) हर्ष देने वाले (ये) जो (नः) हम
में से (अभि ततसे) तेरी साहाय्य स्तुति करते हैं, तेरी शोभा बढ़ाते हैं
अथवा (नः अभि ततसे) हमारे शत्रुओं का नाश करते हैं (अस्य) उनके
(पृषन्तं) नाना फलों के देने वाले, अथवा अन्तरात्मा को और अज्ञ से
संक्चन करने वाले (सुप्रमदं) अति व्यापक, विस्तृत, सर्वगामी, (अदधम्)
शक्तिशालि, अविनाशी, अखण्ड, (अपूर्वम्) अपूर्व, लोकोत्तर (योनिम्)
आश्रय स्थान वेद और राष्ट्र को (रक्षतात्) रक्षा कर ।

बृहस्पते या परमा परावदतु आ तं ऋतस्पृशो नि पेंदुः ।

तुभ्यं स्वाता अंशता अद्रिदुग्धा मव्वश्चोतन्त्यमितां विरय्यम् ॥ ३ ॥

ऋ० ४ । ५० । ३ ॥

भा०—हे (बृहस्पते) बृहस्पते ! परमेश्वर ! (या) जो (परमा)
सर्वोद्वेष्ट (परावत्) परम ज्ञान की रक्षा करने वाली वेदवाणी है और
(मद्रः) उससे (आ) साहाय्य ज्ञान करनेहार जो (ऋतस्पृशः) सत्य
तात्त्व को पहुंचने वाले विद्वान् पुरुष (निपेंदुः) विराजमान हैं (स्वाताः
अवताः) तबे हुए कृपा के समान रस से भरे हुए और (अद्रिदुग्धाः)

मेंवों या पर्वतों से प्राप्त मधुर रसको धारण करने वाले जलाशय या झरने जिस प्रकार (मध्वः) मधुर जल (श्रोतन्ति) झरते हैं उसी प्रकार वे भी (खाताः) तपस्याओं से खने गये, गम्भीर (अवताः) ज्ञान, जल के रक्षक, (अद्रिदुग्धाः) अखण्ड ब्रह्मशक्ति का दोहन करने वाले या मेघ स्वरूप अपने धर्म मेघमय अखण्ड आत्मा के रस दोहन करने वाले होकर (अभितः) सर्वत्र (मध्वः) उस परम मधुर ब्रह्मानन्द रस के (विरप्साम्) महान् राशि को (श्रोतन्ति) झरते, उपदेश करते और वर्षण करते हैं ।

बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन् ।

सप्तस्यस्तुविजातो रवेण विष्वक्शर्मरधमत् तमांसि ॥ ४ ॥

भा०—(बृहस्पतिः) वह बहती वेद वाणी का स्वामी परमेश्वर (प्रथमं जायमानः) सबसे प्रथम सृष्टि को प्रकट करता हुआ (महः ज्योतिषः) महान् तेज के (परमे) सर्वोत्कृष्ट (व्योमन्) विविध ज्ञानों के रक्षास्थान, परब्रह्म, वेदस्वरूप में ही (सप्तस्यः) सात छन्दों रूप सात मुख वाला (तुविजातः) बहुत प्रकार से प्रकट होकर अपने (रवेण) उपदेश से (सप्तशर्मः) सात रश्मियों वाले सूर्य के समान (तमांसि) समस्त अन्धकारों और उनके समान आत्मा को पीड़ा देने वाले अज्ञानमय दुःखों का (विष्वक्शर्मत्) विविध उपायों से उनका नाशकरता है ।

इदमन्धं तमः क्लृप्तं जायेत भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते । स्फुटम् ॥

स सुष्टुभा स ऋकता गणैर्न वलं संरोज फलिगं रवेण् ।

बृहस्पतिरुच्चियां हव्यसूदः कर्निकट्टु वाचशतीरुदांजत् ॥ ५ ॥

भा०—जिस प्रकार (बृहस्पतिः) बड़ा सेनापति (सुष्टुभिः) शत्रु को स्तम्भन करने वाले (ऋकता) ज्ञानवान् (गणैर्न) सेनागण से (फलिगं वलं) शस्त्रास्त्र से युक्त घेरने वाले शत्रु को (रवेण) बड़ी

गर्जना से (रुरोज) नाश करता है उसी प्रकार (सः) वह (वृहस्पतिः) वेद वाणी का—बड़े भारी ज्ञान का पालक (सु-स्तुमा) उत्तम रूप से स्तुति करने वाले (ऋक्ता) ऋग्वेद के मन्त्रों से युक्त (गण्येन) विद्वद्गण से और (रवेण) वेदोपदेश के बल से (फलिंगम्) फालिग अर्थात् अंग भेदन कर देने वाले शस्त्रास्त्रों सहित आचड़ने वाले (वलम्) व्यापक शत्रुगण को (रुरोज) तोड़ डालता है, पीड़ित करता है। और वह ही (कनिक्रदत्) उपदेश करता हुआ (वावशतीः) हमभारव करने वाली (हव्यसूदः) घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थों को प्रदान करने वाली (उत्तियाः) गौश्रों के समान ज्ञानरस पूर्ण (वावशतीः) नित्य उपदेशमय शब्द करती हुई (हव्यसूदः) ग्राह्य ज्ञान को भरती हुई (उत्तियाः) वेदवाणियों को (उत् आजत्) प्रकट करता है।

पृथु स्तमे । श्वादिः ॥

एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैर्विधेम नमसा हविभिः ।

वृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ६ ॥

भा०—(एवा) इस उक्त प्रकार के ज्ञानवान् (पित्रे) सबके पालक (विश्वदेवाय) समस्त विजिगीषु पुरुषों के आश्रय या स्वामी एवं समस्त विद्वानों के अध्यक्ष, समस्त दिव्य शक्तियों के आश्रय, (वृष्णे) अति बलवान् पुरुष को हम (यज्ञैः) सत्संगों, यज्ञानुष्ठानों द्वारा (नमसा) आदर पूर्वक नमस्कार और (हविभिः) अन्नों द्वारा (विधेम) सेवा करें। हे (वृहस्पते) विद्वन् ! राजन् ! परमेश्वर (वयम्) हम (सुप्रजाः) उत्तम प्रजा वाले (वीरवन्तः) वीर पुरुषों और पुत्रों से युक्त और (रयीणां) पेश्वयों के (पतयः) पति स्वामी (स्याम) हों ।

[८८] राजा परमेश्वर

शुष्णा अग्निः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुभः । एकादशर्च सूक्तम् ॥

अस्तेषु सु प्रंतरं लायमस्यन् भूपन्नैव प्र भरु स्तोमंमस्मै ।

वाचा विप्रास्तरत् वाचमुर्यो नि रामय जरितः सोम इन्द्रम् ॥१॥

भा०—(प्रतरं) खूब अच्छी प्रकार वेगवान (लायम्) हृदय को लगाने वाले वाण को जिस प्रकार (अस्यन्) फेंकता हुआ (अस्ता इव) वाण प्रवेसा धनुर्धर अपने निशाने पर वाण फेंकता है और नहीं चूकता । और वाण समूहों को फेंकता ही जाता है और जिस प्रकार (भूपन् इव) सुभूपित करने वाला पुरुष रत्नों को जड़ता ही जाता है उसी प्रकार हे आत्मन् ! तू भी (अस्मै) इस परमेश्वर को लक्ष्य करके (स्तोमम्) स्तुति समूह को (प्र भर=प्र हर) प्रस्तुत कर ईश्वर पर निछावर कर और सूक्त रत्नों से उसे अलंकृत कर । हे (विप्राः) मेधावी विद्वान् पुरुषो ! (वाचा) वाणी से या अपनी प्रबल आज्ञा से जिस प्रकार योद्धा लोग (अर्थः वाचम्) शत्रु की वाणी को दबा लेते हैं उसी प्रकार तुम लोग भी (वाचा) वाणी से (अर्थः) अपने स्वामी परमेश्वर की (वाचम्) वाणी को (तरत्) अभ्यास द्वारा पार करो । हे (जरितः) स्तुतिशील विद्वन् ! तू (इन्द्रम्) शत्रुओं के नाशक राजा को (सोमे) राष्ट्रपति पदपर अभिषिक्त करके विद्वान् लोग (निरमयन्ति) प्रसन्न करते हैं इसी प्रकार तू भी (सोमे) अपने सेव्य गुणवान् आत्मा में (नि रमय) आल्लाहित कर अर्थवा (इन्द्रम्) अपने आत्मा को (सोमे नि रमय) सोम, परमेश्वर में आल्लाहित कर ।

दोहेन गामुपं शिञ्जा सखायं प्र वांशय जरितर्जारमिन्द्रम् ।

कोशं न पूर्णं वसुन्ता नृष्टमा च्यात्रय मघ्र देयाय शूरम् ॥ २ ॥

शू० १०। ४२। २॥

भा०—हे (जरितः) स्तुतिशील विद्वन् ! (दोहेन) दुग्धदोहन के निमित्त जिस प्रकार (गाम्) गौ को प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार आ-

न्तरिक रस प्राप्त करने के लिये भी (गान्) व्यापक, या सूर्यस्वरूप आत्मा को (उपशिक्ष) प्राप्त कर । और (जारन्) अपने चिर निवास से देहों और इन्द्रियों को कालवश जीर्ण कर देने वाले (इन्द्रम्) भीतरी साक्षात् प्रत्यक्ष होने वाले, स्वयंदृष्टा मोक्षा (सखापन्) अपने समान नाम वाले मित्र स्वरूप सखा, आत्मा को (प्र बोधय) ज्ञानवान् कर । और (वसुना पूर्ण) धन से भरे पूरे (कोशम्) स्वर्ग को जिस प्रकार ऐश्वर्य को सुरक्षित करने के लिये भेदन किया जाता है वसी प्रकार, (नय द्याय) ऐश्वर्य की रक्षा के लिये (नृष्टम्) सबके आश्रयभूत, (शूरम्) शूरवीर इन्द्र को (सा च्यावय) नियुक्त कर ।

राजा के पक्ष में—दोहन के लिये गौ के समान उपगन्तव्य राजा का आश्रय लो, (जारम्) शत्रुओं के नाशक (इन्द्रम्) सेनापति को जागृत करो, सदा सावधान करो । स्वर्ग के समान धन से पूर्ण राजा को ही ऐश्वर्य के संग्रह के लिये नियुक्त करो ।

किमुद्भ त्वां मयवन् भोजमाहु, शिशीहि मां शिशयं त्वां श्रुणोमि ।
अमस्त्वती मम धीरंस्तु शक्र वसुविदं भगंमिन्द्रा भरा नः ॥२॥

भा०—हे आत्मान् ! परमेश्वर ! (अहम्) हे (नववन्) ऐश्वर्यवन् ! (त्वाम्) तुम्हको लोग (भोजन्) सबका पालक, रक्षक (किम् आहुः) क्यों कहते हैं ? इसीलिये कि वू सबकी रक्षा करता है । मैं (त्वा) तुम्हको (शिशयं) अति तीक्ष्ण, बलवान् (श्रुणोमि) सुनता हूँ । वू (ना) तुम्हको भी (शिशयं) तीक्ष्ण, सूक्ष्म-बुद्धियुक्त कर । जिससे (मम) मेरी (धीः) धारणावती बुद्धि (अमस्त्वती) श्रेष्ठ कर्म वाली (अस्तु) हो । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (नः) हमें, हे (शक्र) शक्तिशालिन् ! (वसुविदं भगम्) ऐश्वर्यवन्, सेवनयोग्य ऐश्वर्य को (सा नर) प्राप्त करा ।

त्वां जनां ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना वि ह्वयन्ते समीके ।

अत्रा युजं कृणुते यो हविष्मान्नासुन्वता सख्यं वष्टि शूरः ॥५॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर (जनाः) लोग (मम सत्येषु) मेरा पक्ष सच्चा, मेरा पक्ष सच्चा है इस प्रकार अपने पक्ष को दृढ़ करने के कलहों में भी (त्वा वि ह्वयन्ते) तुझे विविध नामों से याद किया करते हैं । और (समीके) संग्राम में (संतस्थानाः) अच्छी प्रकार स्थिर होकर युद्ध करने वाले अथवा (संतस्थानाः) संग्राम में अपने जीवनों को समाप्त कर देने वाले भी (विह्वयन्ते) विविध प्रकारों से तुझे पुकारते हैं । पर तू (अत्र) इस लोक में (यः) जो (हविष्मान्) सत्य ज्ञानवान् है उसी को अपना (युजं) साथी बनाता है । और तू (शूरः) स्वयं शूर होकर (आसुन्वता) अपना सवन या चिन्तन करने वाले के साथ (सख्यं वष्टि) मित्रता करना चाहता है ।

इसी प्रकार हे राजन् ! लोग तुम्हको अपना २ पक्ष सत्य बतलाने के अवसरों पर भी कलहों में बुलाते हैं । युद्धविजयी भी तेरा नाम लेते हैं । पर जो (हविष्मान्) मन्त्रादि से समृद्धिमान् उपाय भेट देने में समर्थ है उसी को अपना साथी बनाता है और (आसुन्वता) अभिप्रेक करने वाले राष्ट्र के प्रति सत्य करना चाहता है ।

धनं न स्पन्दं बहुलं यो अस्मै तीव्रान्सोमो आसुनोति प्रयस्वान् ।
तस्मै शत्रून्सुतुकान् प्रातरहो नि स्वप्नान् युवति हन्ति वृत्रम् ॥५॥

भा०—(बहुलं) बहुतसारा (स्पन्दं) चलनशील, जंगम, गौ आदि पशु । धनं न) धन के समान (यः) जो (प्रयस्वान्) शत्रुओं का स्वामी जमींदार (तीव्रान् सोमान्) तीव्र सोम अर्थात् वेगवान् 'सोम' धीर्यवान् पुरुषों को (अस्मै) इस राजा के अधीन (आसुनोति) प्रदान करता है । (तस्मै) उसके (सुतुकान् शत्रून्) अति हिंसक (स्वप्नान्) उत्तम शत्रुओं

वाले शत्रुओं को भी (अहः प्रातः) दिन का प्रातःकाल भाग जिस प्रकार घन्घकार का नाश करता उसी प्रकार (नि युवति) दूर कर देता है । और उस के (वृत्रम्) विघ्न को भी (निहन्ति) दूर कर देता है ।

अव्यात्म में—(यः प्रयत्नान्) जो प्रयासी, परिश्रमी, साधक (अस्मै) इस आत्मा को (तत्रान् सोमान्) तीव्र, अतिहर्षकर ब्रह्मरसों से स्नान करता है, वन्हीं में निमग्न करता है उसके ही (सुनुकान्) विनाशकारी, आत्मा को निर्बल करने वाले काम क्रोधादि भीतरी शत्रुओं को वह (नि युवति) दूर करता है, (वृत्रं) आवरक अज्ञान को (निहन्ति) निर्मूलक करता है । (प्रातः अहः) दिन के प्रातःकाल के समान अज्ञान को नाश करता है ।

यस्मिन् वयं दक्षिमा शंसमिन्द्रे यः शिघ्राय मघवा कामं मस्मे ।
आराञ्चित्व सन् भयतामस्य शत्रुर्न्यस्मै शुम्ना जन्यां नमन्ताम् ॥६॥

भा०—(यस्मिन् इन्द्रे) जिस ऐश्वर्यवान् इन्द्र राजा या परमेश्वर के निमित्त (वयम्) हम (शंसम्) स्तुति (दधिम्) धारण करते हैं और (यः) जो (भववा) ऐश्वर्यवान् (अस्मै) हमारी (कामम्) अभिलाषा को (शिघ्राय) आश्रय देता है । (अस्त्य शत्रुः) उसका शत्रु (आराञ्चित्व सन्) दूर रहता हुआ (भयताम्) भय ही करे । और (अस्मै) उसके आगे (जन्या) युद्ध सत्बन्धी (शुम्ना) यश और ऐश्वर्य (अथ नमन्ताम्) उसके प्राप्त हों ।

शारोञ्जुमयं वावस्व दूरमुग्रो यः शम्बः पुरुहूत तेन ।

अस्मे धेहि यवंसुद्र गोमंदिन्द्र कृषी विर्यं जरित्रे वाजरत्नाम् ॥७॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! आत्मन् ! (यः) जो तेरा (शम्बः) शान्ति का साधन, तप या शत्रुशमन करने का साधन वज्र, वीर्य है, हे (पुरुहूत) बहुतों से स्तुति किये हुए ! वृ (तेन) उसके बल पर (शत्रुम्)

शत्रु को (आरात् दूरम्) दूर ही दूर से (अप बाधस्व) पीड़ित कर । (अस्मै) हमें (यवमत्) अन्न और (गोमत्) पशुओं से सम्पन्न ऐश्वर्य (धेहि) प्रदान कर । और (जरित्रे) विद्वान् स्तुतिकर्ता पुरुष को (वाजरत्नाम्) धैर्य और ज्ञान से अति रमणीय (धियं) धारणाशक्ति, बुद्धि और क्रिया शक्ति को (ऋधि) उत्पन्न कर ।

प्र यमन्तवृषस्रवासो अगमन् तीव्राः सोमा बहुलान्तास इन्द्रम् ।
नाहं दामानं मघवा नि यंसन् नि सुन्वते वहति भूरिं वामम् ॥८॥

भा०—(यम्) जिस (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् आत्मा के (अन्तः) भीतर ही भीतर (वृषसवासः) बलवान् प्राणों द्वारा उत्पन्न, (बहुलान्तासः) प्रभूत बल और सत्यज्ञान को धारण करने वाले (तीव्राः) तीव्र अति प्रबल स्वरूप में (सोमाः) ब्रह्मानन्दरस (प्र अगमन्) प्राप्त होते हैं । वह (मघवा) ऐश्वर्यवान् आत्मा (दामानं) उन रसों के देने वाले को क्या (नअह) कुछ भी नहीं (नियं सत्) देता ? नहीं, उसको तो वह (भूरि) बहुतसा (वामम्) सुन्दर ऐश्वर्य (नि वहति) प्रदान करता है ।

परमात्मा के पक्ष में—जिस परमेश्वर के भीतर उसके आश्रित (वृष-सवासः) बलवान् साधनों से उत्पन्न 'बहुल', अन्धकारमय मोह रात्रि का अन्त कर देने वाले (तीव्राः सोमरसाः) तीव्र, तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी प्राप्त हैं क्या वह परमेश्वर (दामानं) आत्म समर्पण शील भक्त जीव को कुछ नहीं देता ? नहीं । वह उसको बहुत ऐश्वर्य देता है ।

राजा के पक्ष में—(वृषसवासः तीव्राः सोमाः) बलवान् पुरुषों से अभिषिक्त, तीव्र स्वभाव के राजा ।जिस महान् राजा के वश में हैं क्या वह महान् सम्राट् अपने समर्पण करने वाले आश्रित को कुछ नहीं देता ? नहीं, वह उसको बड़ा ऐश्वर्य देता है ।

उत प्रहामतिदीवा जयाति कृतमिव श्वघ्नी वि विचिनोति काले ।
यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित् तं रायः सृजति स्वधामिः ॥६१॥

भा०—(उत) और (अतिदीवा) अति द्यूत का व्यसनी (श्वघ्नी)
जूझाखेर (काले) मौके पर जिस प्रकार (कृतम् इव) 'कृत' नाम अक्ष को
(विचिनोति) विशेष रूप से संग्रह कर रखता है । और (प्रहाम्) अपने
पासे पर आघात करने वाले अक्ष को जयाति जीत लेता है, उसी प्रकार
(इन्द्रः) यह आत्मा भी (अतिदीवा) अति दंभीस होकर (श्वघ्नी)
कुत्ते के समान विषय नृष्णालु इन्द्रिय और मन को मारकर उनको बश
करके (काले) यथावसर (कृतम्) अपने किये कर्मफल और सदाचार
का (विचिनोति) विशेषरूप से संग्रह कर लेता है और (प्रहाम्) विघ्नकारी
उपदेव को (जयाते) विजय कर लेता है । (यः) जो पुरुष (देवकामः)
देवों, विद्वानों की कामना करता हुआ उनके निमित्त (धन) धन को (न
रुणद्धि) नहीं रोकता (तं) उसको (इत्) ही वह (स्वधामिः) अलों
सहित (रायः) ऐश्वर्य (सृजति) प्रदान करता है ॥ का० २।१०।६७॥

गोभिष्टरेमामतिं दुरेधां यवेन वा लुधं पुरुहूत विश्वे ।

व्यं राजसु प्रथमा धनान्यरिणसो वृजनीभैर्जयम ॥१०॥

वृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥११॥

भा०—(१०.११) इन दोनों की व्याख्या देखो का० २०।१७।१०
११॥ तथा का० ७।२०।७ ॥

[१०] राष्ट्रपालक, ईश्वर और विद्वान् ।

भरद्वाज ऋषिः । बृहस्पतिदेवता । त्रिष्टुभः । वृचं सूक्तम् ॥

यो अदिभित् प्रथमजा क्रतावा वृहस्पतिराङ्गिरसो हविर्मान् ।
द्विवह्विमा प्रायर्मसत् पिता न आ रोदसी नृपभो रौरवीति ॥

भा०—(यः) जो (वृहस्पतिः) बृहती वेदवाणी और धौ और ब्रह्माण्ड का पालक (अदिभित्) मेघों के आवरण के दूर करने वाले वायु के समान अग्नि, नदीर्य होने वाले, दुर्भेद्य, जन्ममरण के बन्धन या अज्ञान का नाशक (ऋतावा) जल से पूर्ण (आङ्गिरसः) अंग २ में व्यापक प्राण के समान जगत् के समस्त देदीप्यमान लोकों में रस या परमबल रूप से विद्यमान (हविष्मान्) शक्तिशाली (द्विवर्हज्मा) आकाश के समान दोनों लोक पृथिवी और आकाश में शत्रु और मित्र दोनों में व्यापक अथवा ज्ञान कर्म दोनों में प्रविष्ट सूर्य के समान (प्रावर्मसत्) सर्वोत्कृष्ट तेजः स्वरूप में विद्यमान (पिता) सबके पालक मेघ के समान (वृषभः) समस्त सुखों का वर्पक (नः) हमें (रोदसी) सर्वत्र विश्व में (आरोरवीति) गर्जन करता और ज्ञान का उपदेश करता है।

जनाय चिद् य ईवंत उ लोकं वृहस्पतिर्देवहूतौ चकार ।

घ्नन् वृत्राणि वि पुरो दर्शयति जयं छत्रमित्रान् पृत्सु साहन् ॥२॥

भा०—(यः) जो (वृहस्पतिः) बड़े भारी राष्ट्र का पालक वा जगत् का पालक, राजा या परमेश्वर या वाणी का पालक विद्वान् (ईवंते) आने वाले (जनाय) मनुष्यों के लिये (देवहूतौ) यज्ञ में देवों की आहुति स्थान या प्राणायतन देह में (लोकं चकार) उत्पन्न हुए जीवों का निवासस्थान बनाता है। और (यः) जो (वृत्राणि) आवरणकारी, मोहजन्य अज्ञानों को (घ्नन्) नाश करता हुआ (पुरः) संवत्सर रूप पुरियों को या देहबन्धनों को (वि दर्शयति) विविध उपायों से बंध सेनापति के समान तोड़ता है। वह (शत्रून्) शत्रुओं को (जयन्) विजय करता हुआ और (अमित्रान्) मित्रों से विपरीत शत्रुपक्ष के अन्य सहायकों को भी (पृत्सु) संग्रामों में (साहन्) पराजित करे।


बृहस्पतिः समञ्जयद् वसुनि महो ब्रजान् गोमतो देव एयः ।

अपः सिषासन्स्वप्रतीतो बृहस्पतिर्हन्त्यमित्रं मुकैः ॥३॥

भा०—(बृहस्पतिः) बड़े भारी राष्ट्र का पालक राजा (वसुनि) ऐश्वर्यों को (सम् अजयत्) विजय करता है । और (गोमतः) गौ आदि पशुओं से सन्तान (महः ब्रजान्) बड़े भारी समूहों को (एयः देवः) वह विजयी (सम् अजयत्) विजय करता है । वह स्वयं (अप्रतीतः) किसी से भी विरोध द्वारा रोक न जाकर (स्वः) सुखमय (अपः) समस्त राष्ट्र के कार्यों को (सिषासन्) विभक्त करने की इच्छा करता हुआ (अमित्रम्) प्रजा के शत्रु को (मुकैः) अपने शस्त्रों से (हन्ति) विनष्ट करता है ।

अध्यात्म में—(एयः देवः) विजयी, योगी, बड़ी शक्ति का पालक होकर बहुतसे ऐश्वर्यों और इन्द्रियों से युक्त देहों पर वश करता है । (स्वः अपः) सुखोत्पादक मोक्षमयी बुद्धियों का सेवन करता हुआ (अप्रतीतः) वे रोक टोक होकर (मुकैः) ज्ञान-किरणों से या स्तुतियों द्वारा (अमित्रम्) विरोधी द्वेष भाव या अज्ञान को नाश करता है ।

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥



[६१] विद्वन्, राजा ईश्वर ।

अपान्त्वा कश्चित् शक्तिः । बृहस्पतिर्देवता । विद्वन्मनः । द्वादशवर्षं चतुर् ॥

इमां धियं सुप्तशीर्षीं पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत् ।

तुरीयं स्विजनयद् विश्वजन्योयान्यं बुक्यमिन्द्राय शंसन् ॥६॥

भा०—(नः) हमारा (पिता) पालक परमेश्वर (ऋत-प्रजाताम्) इस समस्त ऋत, संसार को उत्पन्न करने वाली और महान यज्ञ को सम्पादन करने वाली, (सप्तशीर्ष्णीम्) सात प्राण अपान आदि शिर वाली, या सात छन्दों वाली अथवा शिरोगत सात प्राण रूप शिर वाली (वृहतीम्) बड़ी भारी (इमां धियम्) इस धारण करने वाली चित् रूप शक्ति या कर्मशक्ति को (अविन्दत्) प्राप्त किये रहता है और वही परमेश्वर (विश्वजन्यः) समस्त जनों का हितकारी एवं सर्वव्यापक । तुरीयं चित्) तुरीय मोक्षपद को भी (जनयत्) उत्पन्न करता है और वही (अयास्यः) प्रयत्न रहित, निश्चेष्ट एवं निष्क्रिय या कभी न थकने वाला या मुख्य परमेश्वर (इन्द्राय) साक्षात् द्रष्टा जीव को (उक्थम्) ज्ञानोपदेश (शंसन्) करता है ।

अध्यात्म में—(नः पिता) हमारा पालक मुख्य प्राण, आत्मा, (ऋत-प्रजातां) सत्य ज्ञान को उत्पन्न करने एवं जीवन की जनक (सप्त-शीर्ष्णीं धियं) सात प्राणों रूप शिर वाली इस देह धारण में समर्थ (वृहतीम्) बड़ी भारी शक्ति को (अविन्दत्) प्राप्त करता है । वही (तुरीयं स्वित् जनयत्) चतुर्थ दशा जाग्रत्, स्वप्न सुषुप्ति इनसे भी उत्कृष्ट 'अमात्र' उन्मनी दशा को उत्पन्न करता है और वही (अयासः) मुख्य आत्मा (इन्द्राय) इन्द्र, परमेश्वर या प्राण को (उक्थम् शंसन्) स्तुति या आज्ञा करता है ।

ऋतं शंसन्त ऋजु दीर्घानां दिवस्पुत्रासो असुरम्य वीराः ।

विप्रं पुदमङ्गिरसो दधानां यज्ञस्य धामं प्रथमं मनन्त ॥ २ ॥

भा०—(असुरस्य) 'असु' समस्त संसार के प्रेरक बल में रमण करने वाले (दिवः) तेजोमय, सूर्य के समान, तेजस्वी, परमेश्वर के (पुत्रासः) मानो पुत्र के समान उसी से उत्पन्न (वीराः) वीर्यवान् महान्

आमर्थ्यवान् विद्वान् लोग (अतम्) उस सत्य ज्ञान का (शंसन्तः) उप-
देश करते हुए, उसी की स्तुति करते हुए (ऋजु) नित्य कल्याणमय
स्वरूप का । दीध्यानाः) ध्यान करते हुए और स्वयं (विप्रम्) विविध
ज्ञानों से पूर्ण (पदम्) ज्ञानगम्य, प्राप्तव्य परमपद को (दधानाः)
धारण केरत हुए उसका अभ्यास करते हुए (अङ्गिरसः) अग्नि के अङ्गिरों
के समान तेजस्वी ज्ञानी विद्वान् पुरुष (यज्ञसा) उस सब में पूजनीय
उपास्य परमेश्वर के (धाम) धारण सामर्थ्य एवं तेज को (प्रथमं) सर्व
श्रेष्ठ रूप से (मनन्त) मनन करते या उसका अभ्यास करते हैं ।

हंसैरिव सखिभिर्वावदङ्गिरश्मन्मया नि नहन्ता व्यस्यन् ।

वृहस्पतिरभिकनिक्रदद् वा उत प्रान्तौ दुश्च विद्वौ अगायत् ॥३॥

भा०—(वृहस्पतिः) वह वृहती महती शक्ति का पालक परमेश्वर
ही (वावदङ्गिः) निरन्तर आलाप करने वाले । सखिभिः) मित्रों के समान
उसीसे नित्य भाषण करने वाले । हंसैः) परमहंसों के साथ उन द्वारा
(अश्मनमयानि) पत्थर के समान दृढ़ एवं व्यापक, तामसः भोग
घासनाश्रों के बने (नहन्ता) आत्मा को बांधने वाले कर्म बन्धनों को
(वि-अस्यन्) वि-विध प्रकार से तोड़ता फोड़ता है । (उत) और वह
(गाः) ज्ञान वाणियों का (अग्नि कनिक्रदत्) साक्षात् उच्चारण करता
है अथवा ज्ञान रश्मियों का साक्षात् दर्शन करता है । और वह (विद्वान्)
परमपद को लाभ करने हारा ज्ञानवान् विद्वान् होकर (प्र अस्तोत्) परमे-
श्वर के पद की यथार्थ स्तुति करता है । और (उत् अगायत् च) उत्तम एवं
उच्चरवर से गान करता है । अथवा—(वृहस्पतिः) बड़ी भारी आत्मशक्ति
का पालक पति, ज्ञानी (सखिभिः हंसैः इव) परमहंस मित्रों के समान
(वावदङ्गिः) आलाप करने एवं संवाद द्वारा उपदेश करने वाले सद्गुरुओं
से अपने (अश्मनमयानि नहन्ता) शिला से बने कठोर कारागार-बन्धनों के
समान भोगमय बन्धनों को (व्यस्यन्) विशेष रूप से काटता हुआ (गाः

किरणों या ज्ञान-वाणियों को (अभि कनिकदत्) साक्षात् कराता है । और (विद्वान्) स्वयं ज्ञानी होकर (प्रश्स्तौत् उत् शगायत् च) उसकी स्तुति करता और गान करता है ।

श्रुवो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनुत्स्य सेतौ ।

बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छन्नुद्ग्रा आकर्षि दि तिस्र आवः ॥४॥

सू० १०।६७।४ ॥

भा०—(बृहस्पतिः) बृहती वेदवाणी एवं बृहती द्यौ, पृथिवियों और जगत् की सृष्टि स्थिति संहारकारिणी महती शक्तियों का स्वामी या विद्वान् पुरुष (द्वाभ्यां परः) ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों से परे (श्रवः) नीचे भीतर (गुहा) गुहा रूप हृदय में (तिष्ठन्तीः) विद्यमान (गाः) वेदवाणियों या ज्ञान-राशियों को (अनुत्स्य) अव्यक्त संसार या जड़ या प्रकृति के (सेतौ) बांधने वाले (तमसि) तमोगुण में (ज्योतिः) अन्धकार में प्रकाश के समान तेजःस्वरूप सत्वमय ज्ञान की (इच्छन्) कामना करता हुआ (तिस्रः) तीनों प्रकार की (उद्ग्राः) ज्ञानमय, कर्ममय, गानमय अर्थात् ऋग्, यजुः, साम तीनों प्रकार की वेद-विद्याओं को (उत् आ शकः) प्रकट करता है और (तिस्रः) तीनों को (वि आवः) विविध प्रकार से प्रकट करता है ।

अध्यात्म में—(श्रवः द्वाभ्यां परः) नीचे के दो द्वारों या वाणी या मन से परे (एकया) एकमात्र केवली चित्तिशक्ति रूप से (गुहा तिष्ठन्तीः) हृदय गुहा में या गुप्त आत्मा में स्थित (गाः) ज्ञान-ज्योतियों को (अनुत्स्य) अनुत्, असत् या मिथ्याज्ञान के (सेतौ) बांधने वाले (तमसि) अन्धकार रूप तमस आवरण में (ज्योतिः इच्छन्) ज्योति, ब्रह्मज्ञान को चाहता हुआ योगी (उद्ग्राः) ऊर्ध्व, ब्रह्माण्ड, मस्तक में प्रकट राशियों को (उत् आवः) प्रकट करता है और (तिस्रः) तीनों द्वारों गुदा, हृदय और ब्रह्मरन्ध्र या अधिष्ठान, माणिपूर और ब्रह्मरन्ध्र तीनों को (वि आवः) खोल लेता है ।

विभिद्या पुरं शयथेमपात्रीं निखीणिं साकमुदधेरंकुन्तत् ।

वृहत्पतिरूपसं सूर्ये गामर्के विवेद स्तनयन्निव चैः ॥५॥

सू० २०।६७।५ ॥

भा०—(वृहत्पतिः) वृहती आत्मशक्ति का पालक योगी (शयथा) शयन या सुषुप्ति रूप में विद्यमान समस्त बाह्य प्राणों के भीतरी आत्मा में अण्वय या विलयन के अन्यास द्वारा (अपात्रीन्) अधोमुखी (पुरं) शत्रु के गड़ के समान देहगत चित्-पुरी को (विभिद्य) भेदकर (उदधेः) जीवनरूप अमृत के धारण करने वाले मेघ के समान सुखवर्षक या रस-सागर के समान धर्ममेघ समाधि के बल से (त्रीणि) शेष तीन द्वारों को भी (नि अकुन्तत्) सर्वथा काट देता है । और तब (उपसन्) अज्ञान, पाप और कर्मजाल के दहन करने वाली विशोका प्रज्ञा और (गाम्) ज्ञानमयी वाणी और (अर्कन्) अर्चनीय (सूर्यन्) सूर्य के समान तेजस्वी विशुद्ध आत्मस्वरूप को (स्तनयन् चैः इव) मेघ की गर्जना से गर्जते हुए आकाश के समान भीतरी नाद से गर्जता, स्वयं प्रकाशमय होकर (विवेद) साक्षात् करता है ।

इन्द्रो वलं रञ्जितारं दुर्घानां कुरेण्वं वि चंकर्ता रवेण ।

स्वेदाञ्जिभिराशिराभिरुच्यमानोरादेयत् पृथिमा ना अमुग्यात् ॥६॥

सू० २०।६७।६ ॥

भा०—(इन्द्रः) योगज विभूतिमान् योगी (दुर्घानां) ब्रह्मरस को दहन करने वाली प्रकाश धाराओं को (रञ्जितारं) रोक रखने वाले (वलं) तामस आवरण को (कुरेण इव) 'कर' अर्थात् करपत्र हिंसा साधन शस्त्र से जैसे शत्रु के देह को काट डाला जाता है और जिस प्रकार किरण से अग्निधार दूर हो जाता है उसी प्रकार (रवेण) भीतरी नाद रूप रव से (विचर्त्त) विनष्ट करता है और वह योगी ही पुनः (स्वेदाञ्जिभिः) स्वेदों को

प्रकट करने वाले प्राणों के आयमन रूप तर्पों द्वारा (आशिरम्) परमानन्द रस को (इच्छमानः) प्राप्त करना चाहता हुआ (पणिम्) देह में नाना व्यापार करने हारे प्राण को ही (आरोदयन्) दमन करता है । और तब (गाः) आधमप्रकाश की ज्ञान-धाराओं या किरणों को (अमुष्णात्) प्राप्त करता है ।

स. ई. सत्येभिः सखिभिः शुचद्भिर्गोधायसं वि धनसैरन्दः ।

ब्रह्मणस्पतिर्वृषभिर्वराहैर्वर्मस्वेदेभिर्द्रविणं व्यानट् ॥ ७ ॥

सू० १० । ६७ । ७ ॥

भा०—(सः) वह ज्ञानवान्, निष्ठ योगी (सत्येभिः) बलवान्, सत्योपदेश (सखिभिः) अपने मित्र, (शुचद्भिः) दीप्तिमान् तेजस्वी (धन-सैः) ज्ञान धन के प्रदान करने वाले गुरुओं से जिस प्रकार शिष्य (गो-धायसं) ज्ञान-वाणियों को रोक रखने वाले अज्ञान को नाश करता है उसी प्रकार वह योगी भी (सत्येभिः) बलवान्, सत्ववान् (सखिभिः) मित्र के समान सदा साथ विद्यमान, अनुकूलगति वाले (शुचद्भिः) देह को शोधन करने वाले, मलदाहक (धनसैः) बल और ज्ञानप्रद प्राणों के बल से (ईन्) उस (गोधायसन्) प्रकाश के रोकने वाले अज्ञान-आवरण को (वि अददः) विशेषरूप से नष्ट करता है । और (धर्म-स्वेदेभिः) पसीना बहाने वाले (वृषभिः) बलवान् या आनन्द वर्षक, (वराहैः) सु आहत, उत्तमरूप से बशीकृत, प्रत्याहार द्वारा दमन किये गये प्रबल प्राणों द्वारा (द्रविणम्) अति द्रुतगति वाले मन को भी (वि आनट्) विशेष रूप से बश करता है ।

ते सत्येन मनसा गोपतिं ना इयानासं इषण्यन्त धीभिः ।

बृहस्पतिर्मिथो अंबद्यपेभिरुदुञ्जियां असृजत स्ययुग्भिः ॥ ८ ॥

सू० १० । ६७ । ८ ॥

भा०—(ते) वे प्राणगण (सत्येन मनसा) सत्य ज्ञान से युक्त एवं सात्विक बल से युक्त मन से, मनके बल से प्रेरित होकर (गोपतिम्) ज्ञान वाणियों, प्रकाश-किरणों और इन्द्रियों के पति आत्मा को (इयानासः) प्राप्त होकर, उसके वश होकर (धाभिः) अपने धारण और ध्यान के सामर्थ्यों या कर्मों या क्रिया सामर्थ्यों द्वारा (गाः) उन ज्ञान-रश्मियों को (इषण्यन्तः) प्रकट और प्रेरित करते रहते हैं। और (बृहस्पतिः) वह महती आत्मशक्ति का पालक योगी (मिथः) परस्पर एक दूसरे को (अवद्यपेभिः) राईणीय या निन्दनीय आचरण से रक्षा करने वाले (स्वयुग्भिः) स्वतः समाहित होकर योग करने वाले विद्वानों के समान (अवद्यपेभिः) निन्दित विषय भागों से रक्षा करते हुए (स्वयुग्भिः) स्व=आत्मा में स्वयं समाहित या स्थिर हुए प्राणगणों से (उस्त्रियाः) ऊर्ध्वं ब्रह्माण्ड में सर्पण करने वाली आनन्दरस धाराओं को (उत् अस्तृजत) प्रकट करते हैं।

तं वर्धयन्तो मतिभिः शिवाभिः सिंहमिव नानदतं सधस्थे ।

बृहस्पतिं वृषणं शूरसातौ भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम् ॥६॥

शु० १०।६७।९॥

भा०—(तम्) उस (बृहस्पतिम्) बड़ी आत्मशक्ति के पति, पालक विद्वान् (सिंहम् इव) वन में सिंह के समान (सधस्थे) इन्द्रियों के संघ में (नानदतम्) भीतरी प्राणरूप से नाद करने हारे (वृषणं) बलवान्, आनन्दवर्षक, (शूरसातौ) वीर पुरुषों द्वारा प्राप्त (भरेभरे) प्रत्येक संग्राम में सेनापति के समान विजयी (बृहस्पतिम्) बड़ी सेना के पति राजा के समान, (जिष्णुम्) विषय शत्रुओं पर वश करने हारे योगी आत्मा को (भरेभरे) प्रत्येक यज्ञ में (शिवाभिः) कल्याणमय (मतिभिः) स्तुतियों से (वर्धयन्तः) बढ़ाते हुए हम (अनुमदेम) स्वयं भी आनन्द प्राप्त होकर रहें।

यदा वाज्रमसंनद् विश्वरूपमाद्यामरुज्जुत्तराणि सन्न ।

बृहस्पतिं वृषणं वर्धयन्तो नाना सन्तो विभ्रतो ज्योतिरासा ॥१०॥

श्र० १० । ६७ । १० ॥

भा०—(यदा) जब बृहस्पति, महान् राष्ट्र का स्वामी या विद्वान् पुरुष (विश्वरूपम्) सब प्रकार के (वाजम्) ऐश्वर्य या ज्ञानी को (असनत्) प्राप्त कर लेता है और (द्याम्) ज्ञान की उत्तम कोटि, राजसभा और (उत्तराणि) उक्कृष्ट (सन्न) स्थानों या पदों को (आ अरुहत्) प्राप्त होता है तब (वृषणम्) बलवान् (बृहस्पतिम्) बड़े राष्ट्र के पालक एवं वेद के विद्वान् को (आसा) मुखसे (ज्योतिः विभ्रतः) तेज और प्रकाश के धारण करने वाले (सन्तः) सज्जन पुरुष स्तुति द्वारा (नाना वर्धयन्तः) नाना प्रकार से उसकी वृद्धि करते हैं । उसका गुणानुवाद करते हैं ।

योगी के पक्ष में—बह जब (विश्वरूपम् वाजम्) परमेश्वरीय वाज बल, ज्ञान या विभूति को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष और उक्कृष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है तब उसके (आसा ज्योतिः विभ्रतः) मुख द्वारा या उपदेश द्वारा ज्ञान ज्योति को धारण करने वाले सत्पुरुष नाना प्रकार से उसके गुणानुवाद करते हैं ।

सत्यामाशिपं कृणुता वयोधै कीरिं चिद्धचवंथ स्वेभिरेवैः ।

पश्चा मृधो अपं भवन्तु विश्वास्तद् रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ॥११॥

श्र० १० । ६७ । ११ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (वयोधै) दीर्घ आयु के धारण करने के निमित्त (सत्याम्) सत्य, यथार्थ (आशिपं) आशीर्वाद (कृणुत) प्रदान करो । आप लोग (स्वेभिः) अपने (एवैः) ज्ञानों द्वारा (कीरि-चित्) अपने स्तुतिकर्ता, मङ्गल प्रेमी को सदा (अवय) रक्षा करते हो ।

(विश्वाः मृधः) समस्त हिंसाजनक दुःखदायिनी विपत्तियां (पश्चा) पीछे

(आप भवन्तु) दूर हों । हे (रोदसी) स्त्री पुरुषो ! द्यौ और पृथिवी के समान परस्पररोपकारक गुरु और शिष्यो ! आप दोनों (विश्वम् इन्वे) समस्त संसार को ज्ञानों प्राणों अज्ञों द्वारा वृत्त करने वाले होकर (तत्) हमारा हितकर वेद के वृत्तन को (शृणुतम्) श्रवण करो, कराओ ।

इन्द्रो महता महतो अर्णवस्य वि मूर्धानमभिनदर्वुदस्य ।

अहन्नाहिमरिणात् सप्त सिन्धून् देवैर्द्यावापृथिवी प्रवृत्तं नः ॥१२॥

ऋ० १०।६७।१२ ॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् या मेघ के जल को नीचे बहा देने में समर्थ प्रबल वायु या विद्युत् जिस प्रकार (महतः अर्णवस्य) बड़े भारी समुद्र के समान (अर्बुदस्य) जलद मेघ के (मूर्धानम् अभिनत्) शिर के समान मुख्य अंग, जल को (वि अभिनत्) विविध प्रकार से छिल भिल करता है और (अहिम् अहन्) मेघ को आघात करता और (सप्त)-सर्पण करने वाले, यहने वाले (सिन्धून्) जल धाराओं को (अरिणात्) बहा देता है उसी प्रकार (इन्द्रः) ज्ञानैश्वर्यवान्, अज्ञान का नाशक आचार्य विद्वान्, परमगुरु और आत्मा (महतः) बड़े भारी (अर्बुदस्य) मेघ के समान आनन्दरस वर्षण करने में समर्थ (अर्णवस्य) सागर के समान विशाल गम्भीर आत्मा के (मूर्धानम्) अधिष्ठित देह के मूर्धा भाग को, सूर्यचक्र को (अभिनत्) प्राणशक्ति द्वारा भेदन करता है (अहिम् अहन्) मान को नाश करता (सप्त सिन्धून्) सात, गतिशील शीर्षगत प्राणों को प्रेरित करता है । हे (द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी ! स्त्री पुरुषो ! या गुरु शिष्यो ! आप लोग (नः) हमें (देवैः) विद्वान् पुरुषों द्वारा (प्र अवतम्) अर्च्छा प्रकार रक्षा करो । अद्यात्म में—हे (द्यावापृथिवी) प्राण और उदान तुम दोनों (देवैः) गतिशील प्राणों द्वारा (नः) हमारी (प्र अवतम्) रक्षा करो ।

[१२] ईश्वर स्तुति ।

१-१२ पिययेधः, १६-२१ पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १-३ गायत्र्यः ।
८, १३, १७, २१, १९, पंक्तयः । १४-१६, १८, २० बृहत्यः । शेषा
अनुष्टुभः । एकविंशत्युच्चं सूक्तम् ॥

अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्चं यथा विदे ।

सूनुं सत्यस्य सत्पतिम् ॥ १ ॥ ऋ० ८।६९।४ ॥

भा०—(सत्यस्य सूनुं) सत्य के उत्पादक, प्रवर्तक (सत् पतिम्)
सज्जनों के पालक (गोपतिम्) इन्द्रियों, भूमियों वेदवाणियों और समस्त
लोकों के स्वामी (इन्द्रम्) विद्वान्, आचार्य, राजा परमेश्वर की (अभि प्र
अर्चं) साक्षात् पूजा, सत्कार और उपासना कर (यथा विदे) जिससे
यथावत् ज्ञान प्राप्त हो ।

आ हरयः ससृजिरेरुपीरत्रिं ब्रह्मिणिं ।

यत्राभि संनवामहे ॥ २ ॥

इन्द्राय गात्रं आशिरं दुद्रुहे वृज्जिणे मधुं ।

यत् सीमुपहरे विदत् ॥ ३ ॥

भा०—(१-३) तीनों मन्त्रों की व्याख्या देखो (अथर्व का० २०।
२२।४—६)

उत् यद् ब्रध्नस्यं विष्टपं गृहमिन्द्रंश्च गन्वाहि ।

मध्वंः प्रीत्वा संचेवहि त्रिःसप्त सख्युः पदे ॥४॥ ऋ० २।६९।७॥

भा०—(यत्) जब (इन्द्रः च) मैं और विभूतिमान् परम=आत्मा
हम दोनों (ब्रध्नस्यं) सर्वोश्रय इस महान् परमेश्वर के मोक्षमय (विष्टपं
गृहम्) विविध तपस्याओं से युक्त अथवा ज्ञाविष्ट या उपविष्ट पुरुष की रक्षा
करने वाले शरण को (उत् गन्वाहि) प्राप्त होते हैं तब वहां (त्रिः सप्त)

इहोसर्वे, परम आदित्यस्वरूप, तेजोमय (सख्युः) सखा, मित्र, परमेश्वर के (पदे) ज्ञानमय वेद्य रूप में स्थित होकर (मध्वः) आनन्दरस का (पीत्वा) पान करके (सचेवहि) परस्पर संगत होते हैं ।

अर्चन्तु प्राचन्तु प्रियमेधासो अर्चन्त ।

अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृषण्वर्चन्त ॥ ५ ॥ अ० ८।६९।८ ॥

भा०—हे (प्रियमेधासः) यज्ञ को या पवित्र आत्मा को या मेघ अर्थात् अन्न को प्रिय रूप से प्राप्त करने वाले साधक पुरुषो ! आप लोग उस परमेश्वर की (अर्चन्त) अर्चना करो (प्र अर्चन्त) खूब उपासना करो । (अर्चन्त) नित्य उपासना किया करो । हे (पुत्रकाः) पुरुष, आत्मा का नरक से प्राण चाहने वाले पुत्रो ! (उत) और तुम लोग (पुरं न) दुर्ग के समान (धृषणु) शत्रु का धर्षण करने वाले उस परमेश्वर के अखण्ड रूप की (अर्चन्तु) उपासना करो, और (अर्चन्त) नित्य उपासना करो ।

अवं स्वराति गर्गरो गोधा परिं सनिष्वणत् ।

पिगा परिं चनिष्कदृदिन्द्राय ब्रह्मोद्यन्तम् ॥ ६ ॥ अ० ८।६९।९ ॥

भा०—(गर्गरः) शब्द करने वाले स्तुति वाचक के समान कण्ठ या कण्ठगत प्राण या प्रवक्त्रा गुरु (इन्द्राय) उस ऐश्वर्यवान् परमेश्वर के (उद्यन्तम्) सर्वोत्कृष्ट (ब्रह्म) वेदवचन को (अवं स्वराति) बोले, उपदेश करे । (गोधा) वाणी के धारण करने वाली स्त्री एवं इन्द्रियों को धारण करने वाली मनः शक्ति उसी को (परिं सनिष्वणत्) सर्वत्र वीणा के समान उपदेश करे, गुने । (पिगा) मधुर ध्वनि करने वाली वाणी, उसी का सर्वत्र (परिं चनिष्कदृत्) उच्चारण करे ।

आ यत् पतःत्येन्यः सुदुश्चा अनपस्फुरः ।

अपस्फुरं शृभायत् सोममिन्द्राय पातवे ॥ ७ ॥ अ० ८।६९।१० ॥

भा०—(सुदुधाः) उत्तम रीति से दूध देने वाली और (अनपस्फुरः) न चौंकने वाली, अपीड़ित (एनाः) शुभ्र गौओं के समान या सुदुधाः) उत्तम जल से पूर्ण (अनपस्फुरः पुन्यः) निश्चल, प्रशान्त नदियों या जलधाराओं के समान (यत्) जब भीतर ब्रह्मरस की धाराएं (आपतन्ति) प्राप्त होजाती हैं तब हे विद्वान् योगाभ्यासी पुरुषो ! तुम लोग (इन्द्राय) आत्मा के (अपस्फुरम्) स्थिर, चंचलताराहित, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न (सोमम्) आनन्दरस को (पातवे) पान करने के लिये (गृभायत) उस को ग्रहण करो, उसका साक्षात् करो ।

अपादिन्द्रो अपादिग्निर्विश्वे देवा अमत्सत ।

वरुण इदिह क्षयत् तमापो अभ्यनूयत वत्सं संशिश्वरीरिव
श्र० ८।६९।११ ॥

भा०—(संशिश्वरीः) गौएं (वत्सम् इव) बछड़े को देखकर जिस प्रकार इंभारती हैं उसी प्रकार (तम् अभि) उस आत्मा को लक्ष्य करके (आपः) समस्त प्राण एवं समस्त 'आप्त' या ब्रह्मपद प्राप्त विद्वान् एवं समस्त ज्ञान वाणी और कर्मपद्धतियां भी (अभि अनूयत) साक्षात् स्तुति करते हैं । (इन्द्रः अपात्) इन्द्र जीवात्मा उसी के रस का पान करता है (अग्निः अपात्) सबके अग्रणी ज्ञानी पुरुष या मुख्य प्राण भी उसी का पान करता है । (विश्वे देवाः) समस्त विद्वान्-गण एवं विषयों में क्रीड़ाशील इन्द्रियगण उसी में नृत होते हैं । (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ चरण योग्य, आत्मा या अध्यात्म में अपान भी (इह क्षयत्) इसी में स्थिर निवास करता है ।

सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः ।

अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्यं सुपिरामिव ॥६॥ श्र० ८।६९।१२॥

भा०—हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ आत्मन् ! तू (सुदेवः असि) सर्व-श्रेष्ठ, देव एवं उत्तम सुख और कल्याण का देनेहारा (असि) है । (यस्य

ते) जिस तरे (सप्त सिन्धवः) सर्पणशालि महानदों के समान सातों शिरोगत प्राण (सूर्यम्) उत्तम धारायुक्त (सुषिराम् इव) एक धारा के समान एक स्रोत को प्राप्त होकर (काकुदम्) तालु के प्रति (अनुसरन्ति) प्रवाहित होते हैं । योगान्यासी के सातों प्राणों का रस तालु से ऋणरूप से द्रवित होता है । नानो सात धाराएं एक धार होकर बहती हैं ।

अथवा—(सुषिराम् सूर्यम् इव) छेदवाली ज्वलनशील वारुद की भरी नालिका के समान फूटते हैं ।

यो व्यतीरिंफाण्यन् सुयुक्ताँ उपं द्राशुपे ।

तुको नेता तदिद् वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥ १० ॥ ३०८।६९।२३।

भा०—(यः) जो योगान्यासी पुरुष (व्यतीन्) विविध द्विषों में जाने वाले (सु युक्ताम्) उत्तम रीति से सन्नार्ग में लगाये गये, इन्द्रिय रूप प्राणों को (द्राशुपे उप) यज्ञशील आत्मा के निमित्त उसी को प्राप्त करने के लिये (उप अफाण्यत्) उसके प्रति पहुंचाता है उनको चशकर भीतर की तरफ ही पृकाय कर लेता है वह (तक्रः) कृच्छ्र तपस्वी (नेता) नायक के समान (यः उपमा) जो उसका साहाय्य ज्ञान कर लेता है (तव इव) तब ही (वपुः अमुच्यत) इस शरीर बन्धन से मुक्त हो जाता है ।

अतीदुं शक्र औहन इन्द्रो विश्वा अति द्विपः ।

भिनत् कनीनं औदुनं पच्यमानं पुरो गिरा ॥ ११ ॥ ३०८।३९।२४।

भा०—(इन्द्रः) वह आत्मा या योगान्यासी पुरुष (शक्रः) शक्तिमान्, राजा के समान (विश्वाः द्विपः) समस्त शत्रुओं को (अति) अतिक्रमण करके (अति इत्) समस्त दुःखों के पार ही (ओहते) पहुंचा देता है । और वह (कनीनः) अति कमनीय, अति सुन्दर, सुर्य, कान्तिमान्, (परः) समस्त इन्द्रियगत और मन से भी परे विद्यमान रहकर (पच्यमानम्)

श्रोदनम्) परिपक्व होने वाले भात के समान, भोग्य ब्रह्मरूप बल को अथवा (परः पच्यमानं श्रोदनं) परम स्थान पर परिपक्व होते हुए तेज को (गिरा) स्तुति द्वारा या उपदेश द्वारा या ओंकार-रूप नाद द्वारा (भिनत्) भेद लेता है, उसे प्राप्त होजाता है ।

श्रभंकां न कुंमारकोधि तिष्ठन्नवं रथम् ।

स पंचन्महिषं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्तुम् ॥ १२ ॥ ऋ० ८।६९।१५॥

भा०—(पित्रे मात्रे) मा बाप के लिये (श्रभंकः) बच्चा (कुमारकः न) नया कुमार जिस प्रकार नये रथ पर चढ़कर जंगल में वीरता से जाता और मृग और महिषको पकड़ कर लाता और मा बाप के हर्ष का हेतु होता है उसी प्रकार वह योगाभ्यासी भी (श्रभंकः) अति सूक्ष्म शरीर होकर (नवं रथं तिष्ठन्) नये रथ, देह पर आरूढ़ होकर (सः) वह (विभुक्तुम्) बड़े व्यापक ज्ञान और कर्म से युक्त महान् (मृगं) अति पवित्र एव सबसे खोजने योग्य (महिषं) महान् दानी परमेश्वर को (पित्रे मात्रे) पिता माता के पद पर (पचत्) स्वीकार कर लेता है ।

... पचपरिग्रहे । भ्वादिः ।

आ तू सुशिष्य दंपते रथं तिष्ठा हिरण्ययम् । अथ द्युत्तं

संचेवहि सहस्रपादमरुपं स्वस्तिगामनेहसम् ॥ १३ ॥ ऋ० ८।७०।१६ ॥

भा०—हे (सुशिष्य) उत्तम बलशालिन् ! हे (दम्पते) ^{उपके पति} के समान समस्त सुखों के उत्पादक प्रकृति के स्वामिन् ! ^{परमेश्वर ! स्वामी} चित्ति शक्ति या बुद्धि के स्वामिन् ! आत्मन् ! तू (हिरण्ययम्) ^{संसार नाश} के समान सुवर्ण के समान तेजोमय कान्तिमान् (^{रथ}) ^{रथ} , या परम रमणीय रस रूप परब्रह्म का (आतिष्ठ) आश्रय/क्षेत्र पर आरूढ़ हो । (अथ) उसके बाद हम दोनों जीव और परमेश्वर (सहस्रपादम्) सहस्र पादों से युक्त (अरुपं) अति तेजोयुक्त (स्वस्तिगाम्) सुखमय;

कल्याणमय सत्ता या स्थिति मोक्षपद को प्राप्त कराने वाले (अनेहसम्) पाप रहित या राजस कर्म में प्रवृत्ति रहित (शुद्धम्) अतिलेजोमय उस परमपद को (सचेवहि) प्राप्त करें ।

'सहस्रपादम्' विशेषण से 'रथ' शब्द रस स्वरूप परब्रह्म का वाचक है 'सहस्राङ्गः सहस्रपात्' । इसी का आगे भी वर्णन करते हैं ।

तं धेमित्था नमस्विन्न उर्यं स्वराजमासते । अर्थं चिदस्य
सुधितं यदेतंत्र आवर्तयन्ति द्वावने ॥ १४ ॥ अ० ८ । ६९ । १७ ॥

भा०—(अस्य) इसके (सुधितम्) उत्तम रूप से सुरक्षित (अर्थम्) प्राप्य, परम कोश, आनन्दमय धन या परम पुरुषार्थ को (एतत्रे) पहुँचाने के लिये उपासक लोग (द्वावने) आत्म समर्पण के निमित्त (यत्) जब जब (आवर्तयन्ति) पुनः २ ज्ञान और कर्म का अभ्यास करते हैं तब २ ही (नमस्विनः) नमस्कार करने वाले, उपासक जन (तं घ) उस (स्वराजम्) स्वतः प्रकाशमान परमेश्वर की ही (इत्या) इस प्रकार सत्य रूप में तब २ (उप आसते) उपासना करते हैं ।

अनुं प्रत्नस्यौकंसः प्रियमेधास एवाम् ।

पूर्वामनु प्रयतिं वृक्त्रवर्हिपो हितप्रयस आशत ॥ १५ ॥ अ० ८ । ६९ । १८

भा०—(प्रियमेधासः) पवित्र ब्रह्मज्ञान के प्रिय, (हित-प्रयसः) ज्ञान को प्राप्त कर लेने वाले (पूर्वाम् प्रयतिम् अनु) अपने पूर्व जन्म के किये उत्कृष्ट यत्न के अनुकूल (वृक्त्रवर्हिपः) यज्ञ में जिस प्रकार कुशादि लगे जाते हैं उसी प्रकार अध्यात्म यज्ञ के लिये प्राणों का आयमन क्रमण करके (विद्वान् साधक जन (एवाम्) इन में जीव के रहने योग्य और वह (कनीनः) से सबसे (प्रत्नस्य औकंसः) पुरातन, पुराय स्थान या (परः) समस्त इन्द्रियगण भ्र.

यो राजां चर्षणीनां याता रथेभिरधिगुः ।

विश्वासं तरुता पृथनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृणे ॥१६॥ अ० ८। ७०। १८

भा०—(यः) जो (चर्षणीनां राजा) मनुष्यों के बीच में राजा के समान (चर्षणीनां) दर्शनशील इन्द्रियों के बीच (राजा) स्वयं ज्ञान से प्रकाशित एवं उनका प्रकाशक है । (अधिगुः) स्वयं अथत, अस्थिर, घंचल इन्द्रियों से युक्त होकर भी (रथेभिः याता) रमणकारी नाना देहों से जीवन पथ पर यात्रा करने वाला (विश्वासम्) समस्त (पृथनानां) शत्रु सेनाओं के विनाशक सेनाओं के (तरुता) नाशक सेनापति के समान समस्त आभ्यन्तर शत्रुरूप वासनाओं का नाशक और (ज्येष्ठः) स्वयं सबसे श्रेष्ठ और (वृत्रहा) आवरणकारी अज्ञान का नाशक है उसका मैं (गृणे) स्तुति या उपदेश करता हूँ ।

इन्द्रं तं शुग्भ पुरुहन्मन्त्रवसे यस्य द्विता विधर्तरिं ।

हस्ताय वज्रः प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्यः ॥१७॥

अ० ८। ७०। १९ ॥

भा०—हे (पुरुहन्मन्) अति अधिक पदार्थों के जाननेहारे ! बहुत कष्टों के नाशक विद्वन् ! (यस्य) जिसके (विधर्तरिं) विविध उपायों से धारण करने हारे स्वरूप में (अत्रसे) संसार के रक्षण के लिये (द्विता) निग्रह, अनुग्रह स्वरूप दो प्रकार हैं (तं) उस (इन्द्रं) इन्द्र के (शुग्भ) गुणों को वर्णन कर । और (यस्य वज्रः) जिसका वज्र, बलन्वरूप वीर्य (हस्ताय) दुष्टों का हनन करने के लिये (दिवे सूर्यः न) आकाश में प्रकाश के लिये सूर्य के समान (महः दर्शतः) बड़ा दर्शनीय (प्रति धायि) प्रत्येक पुरुष के लिये स्थित है ।

नकिष्टं कर्मणा नशद् यश्चकार सुदावृधम् । इन्द्रं न

युक्षैर्विश्वगूर्तमृभ्वसुमधृष्टं धृष्टवांससम् ॥१८॥ अ० ८। ७०। १९ ॥

भा०—(यः) जो (सदा वृधम्) सदा शक्ति को बढ़ाने वाले, (विश्वगूर्तम्) सर्व स्तुत्य (ऋभवसन्) सत्य के बलसे बढ़ने वाले महान (धृष्यवोजसम्) धर्षणशील पराक्रम वाले (अष्टंष्ट) कभी भी न हारे हुए, सदा जयशील (इन्द्रम्) राजा के समान ऐश्वर्यवान् आत्मा को जो (चकार) साधता है (तम्) उसके पद को (नकिः) कोई भी न (कर्मणा नशत्) कर्म या चेष्टा से ही प्राप्त करता है और (न यज्ञैः) न यज्ञों से ही कोई उसके पद तक पहुंचना है ।

अपांलहमुग्रं पृतनानु सासहिं यस्मिन् महीत्वरुज्रयः ।

सं धेनवो जायमाने अनोनवुर्द्यावः क्षामो अनोनवुः ॥१६॥

ऋ० ८।७०।४ ॥

भा०—(यस्मिन् जायमाने) जिसके प्रकट होने पर (धेनवः) दुग्ध दूहने करने वाली गौओं के समान नाना ऐश्वर्य से राष्ट्र को पूर्ण करने वाली प्रज्ञा जिस प्रकार (अपालहम्) उस पराक्रमी, (उग्रम्) भयङ्कर; सदा बलवान्, (पृतनानु सासहिम्) शत्रु-सेनाओं पर विजय करने वाले राजा की स्तुति करते हैं उसी प्रकार जिस परमेश्वर या आत्मा के प्रकट हो जाने पर (महीः द्यावः) बड़े २ तेजस्वी सूर्य के समान विद्वान् गण (मही क्षामः) बड़ी पृथिवीयां, उनके निवासीजन भी (उरुज्रयः) विशाल स्तुतियों से युक्त होकर (अनोनवुः) नित्य स्तुति करते हैं ।

यद् द्यावं इन्द्र ते शतं शतं भूर्मरुत स्युः ।

न त्वां वृजिन्सहस्रं सूर्या अनु न ज्ञातमष्ट रोदसी ॥२०॥

आ पंप्राथ सहिना वृष्यां वृषन् विश्वां शविष्ठ शवंसा ।

अस्त्रां अत्र मश्वरुन् गामंति व्रजे वज्रिं वित्रामिंरुतिभिः ॥२१॥

भा०—(२०, २१) दोनों मन्त्रों की व्याख्या देखो अथर्व० २०।

५१।३ ॥ ऋ० ८।७०।५, ६ ॥

[६३) ईश्वर स्तुति

१-३ प्रगाथः ऋषिः । ४-८ देवजामय इन्द्रमातरः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः ।
अथर्वं सूक्तम् ॥

उत् त्वां मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व रात्रौ अद्रिवः ।

अत्र ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १ ॥ ऋ० ८।५३।१ ॥

भा०—हे (अद्रिवः) अखण्ड बलवीर्यवन् ! चञ्चिन् ! (त्वा) तुम्ह
को (स्तोमाः) स्तुतिसमूह और स्तुतिकर्ता जन (उत् मन्दन्तु) हर्षित
करें । तू (राघः कृणुष्व) अन्न और ज्ञान, भक्ति आदि ऐश्वर्य प्रदान कर ।
(ब्रह्मद्विषः) ब्रह्म, वेद और वेदज्ञ विद्वानों से द्वेष करने वाले पुरुषों को
(जहि) नाश कर ।

पदा पृणीरंराधसो नि चांधस्व मृहँ असि ।

नदि त्वा कश्चन प्रति ॥ २ ॥ ऋ० ८।५३।२ ॥

भा०—(अराधसः) ऐश्वर्य एवं आराधना आदि से रहित (पृणीन्)
केवल लोक व्यवहार में चतुर लोभी पुरुष को तू (पदा) पैर से (नि
चांधस्व) पीड़ित कर । तू (महान् असि) सबसे महान् है (त्वा प्रति)
तेरे मुकाबले पर (नहि कः चन) कोई भी नहीं है ।

त्वमींशिपे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम् ।

त्वं राजा जनानाम् ॥ ३ ॥ ऋ० ८।५३।३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! राजन् ! (सुतानाम्) अभिषिक्त और
(असुतानाम्) अनभिषिक्त सभी जनों का (ईंशिपे) स्वामी है । तू
(जनानाम्) समस्त उत्पन्न जनों का (राजा) राजा है ।

ईह्वयन्तरिण्युव इन्द्रं ज्ञातमुपासते ।

भेजानासः सुवीर्यम् ॥ ऋ० १०।१५३।१ ॥

भा०—(सुवीर्यम्) उत्तम वीर्य का (भेजानासः) सेवन करती हुई (अपत्युवः) तदनुकूल आचारण करती हुई स्त्रियां जिस प्रकार (ईङ्ख्यन्तीः) पति आदि का संग लाभ करती हुई (जातम् उपासते) उत्पन्न सुन्दर पुत्र को प्राप्त करती हैं और जिस प्रकार (सुवीर्यम्) उत्तम वीर्य या पुरुष को (भेजानासः) आश्रय करती हुई (अपत्युवः) तदनुकूल कार्य करना या रक्षा चाहती हुई प्रजाएं (ईङ्ख्यन्तीः) उसी के शरण जाती हुई प्रजाएं (जातं इन्द्रम्) प्रकट हुए, प्रत्यक्ष ऐश्वर्यवान् राजा का (उपासते) आश्रय लेती हैं उसी प्रकार (सुवीर्यम् भेजानासः) उत्तम वीर्यवान् परमवलस्वरूप परमेश्वर का (भेजानासः) भजन करती हुई (अपत्युवः) ज्ञान और कर्म का लाभ चाहती हुई (ईङ्ख्यन्तीः) इस परमेश्वर की शरण में जाती हुई (जातम्) हृदय में प्रकट हुए (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर की (उपासते) उपासना करती हैं।

त्वमिन्द्र वलादधि सहस्रो जात ओजसः ।

त्वं वृषन् वृषेदसि ॥ ५ ॥ ऋ० १०। १५३। २ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (त्वं) तू (वलाद्) बल से अग्नि के समान (सहसः) शत्रु पराजित करने हारे सैन्यबल से विजेता के समान और (ओजसः) वीर्य एवं पराक्रम से राजा के समान अथवा पुत्र के समान (अधिजातः) और भी अधिक गुणवान् वीर्यवान् और पराक्रमी रूप में प्रकट होता है। हे (वृषन्) सुखों के वर्षक ! तू (वृषा इत्थसि) साधारण मेघ के समान आनन्द घन होकर आनन्द की वर्षा करता है।

त्वं वृषन् वृषेदसि वृषेदसि व्यन्तरिक्षमतिरः ।

उद् वृषन् वृषेदसि ॥ ६ ॥ ऋ० १०। १५३। ३ ॥

भा०—हे (वृषन्) ऐश्वर्यवान् ! तू (वृषहा) वृत्र, आवरणकारी अन्धकार के नाशक सूर्य के समान मेघ के द्विज भित्त करने वाले वायु या विद्युत्

अथवा आवरणकारी शत्रु के नाशक वीर राजा के समान (असि) है । तू (अन्तरिक्षम्) उक्त सूर्य आदि के समान अन्तरिक्ष=हृदयाकाश को (वि अतिरः) विशेष रूप से व्याप लेता है और (ओजसा) अपने पराक्रम से (धाम्) आकाश को सूर्य के समान या राजसभा को राजा के समान समस्त (धाम्) तेजोमय शक्ति को (अस्तम्नाः) धारण करता है ।

त्वमिन्द्र सजोपसमर्कं त्रिभर्षिं बाहोः ।

वज्रं शिशानं ओजसा ॥ ७ ॥ ऋ० १०।१५३।४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (बाहोः अर्कम्) बाहुओं से जिस प्रकार वज्र को धारण किया जाता है उसी प्रकार जो (सजोपसम्) सेव-जीव गुणों से युक्त (अर्कम्) अर्चनीय स्वरूप को तू (बाहोः) बाहु के समान अपने ज्ञान और कर्म के द्वारा (त्रिभर्षिं) धारण करता है और (ओजसा) अपने वीर्य पराक्रम से (वज्रं शिशानः) ज्ञानरूप वज्र को और भी तीक्ष्ण करता है ।

त्वमिन्द्राभिभूरसि विश्वां ज्ञातान्योजसा ।

स विश्वा भुव आभवः ॥ ८ ॥ ऋ० १०।१५३।५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (ओजसा) अपने पराक्रम से (विश्वा जातानि) समस्त उत्पन्न लोकों में (अभिभूः) व्यापक, उनका चरीकर्ता है । (सः) वह परमेश्वर ही (विश्वा भुवः) समस्त पदार्थों के उत्पादक भूमियों को भी गैबों को वृष के समान उत्पादक रूप से (आभवः) सब प्रकार से प्राप्त है ।

[६४] राजा, आत्मा और परमेश्वर ।

आंगिरसः कृष्ण अपिः । १-३ १०, ११ त्रिष्टुभः । ४-६ जगत्यः । फ्ला-
द्रशर्वं सूक्तम् ॥

आ यात्विन्द्रः स्वर्पतिर्मदाय यो धर्मणा तृतुजानस्तुविष्मान् ।
प्रत्वृक्षाणो अति विश्वा सहांस्यपारेण महता वृष्येन ॥ २ ॥

[२-२१] सू० १० । ४४ । १-२१ ॥

भा०—(यः) जो (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् आत्मा ! राजा ! (धर्मणा) अपने धारण करने वाले सामर्थ्य से (तृतुजानः) सर्वत्र व्यापक (तुविष्मान्) महान् सामर्थ्यवान् है और जो (अपारेण) अपार अनन्त (महता) बड़े भारी (वृष्येन) बल से (विश्वा सहांसि) और समस्त बलों को (अति) पार करके उनको (प्रत्वृक्षाणः) उत्तम रीति से गढ़ता या बनाया है वह (स्वर्पतिः) समस्त धर्मों का स्वामी (मदाय) परमानन्द प्रदीप्त करने के लिये (आयात्) हमें साक्षात् प्राप्त हो ।

सुष्ठामा रथः सुयमा हरीं ते मिम्यञ्च वज्रं नृपते गर्भस्तौ ।

शीमं राजन् सुपथा याह्यर्वाङ् वर्धाम ते प्रपुषो वृष्यानि ॥ २ ॥

भा०—हे (नृपते) राजन् ! आत्मन् ! (ते रथः) तेरा रथ (सुष्ठामा) उत्तम रीति से युद्ध में स्थिर रहने वाला हो । (ते हरीं सुपथा) तेरे घोड़े उत्तम रीति से नियम में रहने वाले हों (ते गर्भस्तौ) तेरे हाथ में (वज्रः) वज्र, खड्ग (मिम्यञ्च) वर्तमान रहे । तू (सुपथा) उत्तम मार्ग से (शी-भम्) शीघ्र वेग से (अर्वाङ् याहि) सम्मुख, आगे प्रयाण कर (प्रपुषः) राष्ट्र के नित्य पालन करने वाले (ते) तेरे (वृष्यानि) बलों को हम (वर्धाम) बढ़ावें ।

अध्यात्म में—हे आत्मन् ! तेरा देहका रथ सदा सुख से स्थिर रहे । तेरे प्राण उदान रूप घोड़े उत्तम रूप से नियम में रहें (गर्भस्तौ) हाथ में सदा ज्ञानरूप वज्र रहे । तू उत्तम मार्ग से आगे बढ़ । पालनकारी एवं आनन्दरस के पान करने वाले तेरे बलों को हम बढ़ावें ।

एन्द्रवाहो नृपतिं वज्रवाहुमुग्रमुग्रासंस्तत्रिपासं एनम् ।

प्रत्वक्षसं वृषभं सत्यशुष्ममेमस्मत्रा संध्रमादो वदन्तु ॥ ३ ॥

भा०—(वज्रवाहुम्) खड्ग को हाथ में लिये (उग्रम्) अति भयं-
कर, बलवान् (प्रत्वक्षसम्) शत्रु बलों के नाशक, (सत्यशुष्मम्) सत्य
बल-वाले (वृषभम्) समस्त सुखों के तर्पक एवं गरश्रेष्ठ (नृपतिम्)
समस्त मनुष्यों के पालक राजा को (उग्रासः) अति बलवान् (तत्रिपासः)
वड़े २ (संध्रमादः) एक साथ आनन्द लाभ करने वाले (अस्मत्रा) हम
में से (इन्द्रवाहः) इन्द्र, राजा के कार्य को वहन करने या सञ्चालन
करने में समर्थ योग्य पुरुष (आविहन्तु) राजा को वहन करें राजा को
राज्यकार्य में संचालित करें ।

एवा पतिं द्रोणसाचं सचेतसमूर्जस्कम्भं धरुण आ वृषायसे ।

श्रोत्रः कृष्व सं गृभाय त्वे अग्रसो यथा केनियानामिनो वृधे ॥ ३ ॥

भा०—हे राजन् ! (एवा) इस प्रकार से तू ही (पतिम्) अपने
पालक (द्रोणसाचम्) राष्ट्र में विद्यमान (सचेतसम्) ज्ञानवान् (ऊर्ज
स्कम्भम्) बलों के स्वम्भन करने वाले पुरुषों या प्रजाजन को अपने
(धरुणे) धारण पोषण करने वाले सामर्थ्य या शासन में (आवृषायसे)
सर्वत्र पुष्ट करता है । तू (श्रोत्रः) बल, पराक्रम (कृष्व) सम्पादन कर ।
(त्वे) अपने में ही तू (संगृभाय) राष्ट्र के समस्त कार्यों को संग्रह कर
यथा जिससे तू (केनियानाम्) वड़े २ विद्वान् ज्ञानी पुरुषों की (वृधे)
बुद्धि के लिये (इनः असः) उनका राजा बनकर रह ।

अध्यात्म में—(द्रोणसाचं) देह रूप घर में व्यापक (सचेतसम्)
चेतनावान् (ऊर्जस्कम्भम्) बलके धारक (पतिम्) पालक प्राण को
हे आत्मन् ! तू (धरुणे) अपने शासन में धारक प्रयत्न में (आवृषायसे)
रक्षता है । तू (श्रोत्रः कृष्व) बल सम्पादन कर (त्वे संगृभाय) अपने

नै संचित कर (यथा) जिससे (केनिपानाम्) सुखमय आत्मा के परम रस को पान करने वाले अथवा सुखमय परब्रह्म तक पहुँचने वाले अध्यात्म ज्ञानियों को भी (इतः असः) स्वामी है ।

'केनिपानाम्'—केनिप इति मेधाविनास । केनि शब्दयोरुपपद्योः पततेः पातेर्वा डः । के आत्मीन सुखमये पर ब्रह्मणि पतन्ति गच्छन्ति पान्ति वा रसं इति केनिपाः ।

गमंत्रस्मे वसुन्या हि शंसिपं भरमा यांहि सोमिनः ।

त्वमीशिपे सास्मिन्ना सत्सि वरिष्यनाधृज्या तत्र पात्राणि धर्मणाश्च

भा०—(अस्मै) हमें (वसुनि) नाना ऐश्वर्य (आगमन्) प्राप्त हों । मैं (हि) तुम्हारे ही (शंसिपं) स्तुति करता हूँ । तू (सोमिनः) स्तम रस से यज्ञ करने वाले ज्ञानवान् पुरुष के (भरम्) यज्ञ को तू (आयाहि) प्राप्त हो । (त्वम् ईशिपे) तू सबका स्वामी है । (सः) वह तू (आत्मन् वरिषि) इस महान् यज्ञ में, इस आसन पर (आसत्सि) आ विराज । (तत्र पात्राणि) तेरे पालन सामर्थ्य (धर्मणा) धारण बल से ही (अना धृष्या) शत्रुओं से विजय किये नहीं जा सकते ।

पृथक् प्रायन् प्रथमा देवहृतयोऽकृण्वत ध्रुवस्यानि दुष्टराः ।

न ये शूरुर्धृष्टियां नात्रमावहंसीमैव ते न्यबिशन्त केरयः ॥ ६ ॥

भा०—(प्रायनाः) श्रेष्ठ (देवहृतयः) देव परमेश्वर के उपासक अथवा देव इन्द्रियों के वरा करने वाले पुरुष जो (दुष्टरा) दुस्तर अपार (ध्रुवस्यानि) ज्ञानधर्मों और यशों को (अकृण्वत) प्राप्त करते हैं वे (पृथक्) सबसे अधिक (प्रायन्) उच्छ्रेष्ठ मार्ग पर गमन करते हैं । और (ये) जो (यज्ञियाम्) यज्ञ, आत्मा, परमात्मा सम्बन्धी (नावम्) संसार में पार होने के साधनरूप नौका पर (आवहन्) चढ़ने में (न शुकुः) समर्थ नहीं होते (ते) वे (केरयः) कुलित आचरण वाले अध्यात्म

होकर (ईर्मा एव) मानों ऋण से ही (नि अविशन्त) नीचे ही नीचे
डूबते जाते हैं ।

एवैवाप्रागपरं सन्तु दूह्योश्वा येषां दुर्युजं आयुयुजे ।

इत्या ये प्रागुपरं सन्ति दावनें पुरुषि यत्र वयुनानि भोजना ॥७॥

भा०—(एव-एव) इसी प्रकार (अपरे) दूसरे लोग (येषां)
जिनके (दुर्युजः) कष्ट से योग मार्ग में एकाग्र होने वाले, अवश, दुर्दान्त
(अश्वाः) अश्वों के समान अजित इन्द्रिय (आ युयुजे) इधर उधर के
विषयों में लग जाते हैं वे (दूह्यः सन्तु) दुष्ट बुद्धि वाले हो जाते हैं ।
(इत्या) इस प्रकार (ये) जो (उपरे) उच्छ्रित मार्ग में (प्राक्) उत्तम
दिशा में (दावने) सर्व दुःखनाशक और समस्त सुखदायक परमेश्वर
के निमित्त (सन्ति) हो जाते हैं (यत्र) जहां (पुरुषि) बहुत से
(वयुनानि) ज्ञान और बहुत से (भोजना) नाना भोग्यफल प्राप्त होते
हैं, वे कृतकृत्य होते हैं ।

गिरीरञ्जान् रेजमानान् अधारयद् द्यौः क्रन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत् ।

समीचीने धिपणे वि स्कभायति वृष्णः पीत्वा मदं उक्थानि संसतिन् ।

भा०—वह परमेश्वर (रेजमानान्) निरन्तर चलने वाले (अञ्जान्)
गमनशील, कांपने वाले (गिरीन्) मेघों और पर्वतों को भी (अधारयत्)
स्थिर करता है, धारण करता है । (द्यौः) प्रकाशमान् सूर्य के समान जो
(क्रन्दत्) गर्जना करता और जो (अन्तरिक्षाणि) अन्तरिक्षस्थ विद्युत्,
मेघ, आदि नाना पदार्थों को (कोपयत्) बड़े वेग से चला रहा है । और
जो (समीचीने) परस्पर संगत हुए (धिपणे) सब पदार्थों के आश्रय द्यौ
और पृथिवी दोनों को भी (वि स्कभायति) विशेष रूप से थामे हुए हैं ।
वह (वृष्णः) आनन्द रसों के वर्षण करने वाले समस्त ज्ञानों और बलों

और लोकों को (पीछा) अपने भीतर बिलीन करके (नदे) अति आनन्द में (दक्षानि) ज्ञान-वचनों का भी (शंसति) उपदेश करता है।

इमं विभामिं सुकृतं ते अङ्कुशं येनारुजासि मध्वद्वफारुजः ।

अस्मिन्सु तु सर्वने अस्तवोक्यं सुत इष्टौ मध्ववन् घोष्याभगः ॥६॥

भा०—हे परमेश्वर ! मैं (ते) तेरे वचन या दिये (सुकृतम्) पुरुषाचरण रूप या उत्तम गीति से साधित (अङ्कुशं) अङ्कुश, प्रेरक यज्ञ या ज्ञान को अपने ऊपर शासक के रूप में (विभामिं) धारण करता हूँ। (येन) जिससे हे (मध्ववन्) पेश्वर्यवन् ! तू (शफरुजः) निन्दा वचनों से हृदय को पीड़ा देने वाले दुष्ट पुरुषों को भी तू (आ रुजासि) पीड़ित करता है। (ते) तेरे (अस्मिन् सर्वने) इस महान् पेश्वर्य या शासन में हमारा (शोक्यम्) निवास (सु अस्तु) उत्तम गीति से हो। और हे (मध्ववन्) पेश्वर्यवन् ! (आ भगः) सब प्रकार से सेवन करने योग्य तू (सुते इष्टौ) उपासना रूप यज्ञ के सम्पादन करने के अवसर में (बोधि) हमारे अभिप्राय और स्तुति को जान।

गोभिर्दरेमामंति दुरेवां यवेन जुधं पुरुहूत विश्वाम् ।

वृत्रं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनैना जयेम ॥ १० ॥

वृद्धस्पतिर्नः परिं पातु पश्चाद्भुतोत्तरस्मादधरादधायोः ।

इन्द्रः पुरस्ताद्भुत मध्वतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः हृणोतु ॥११॥

भा०—(१०, ११) दोनों मन्त्रों की व्याख्या देखो अथर्व० २० ।

११।१०।११ ॥ तथा २०।२६।१०।११ ॥

[६५]

१. जनमद ऋषिः । २-४ सुदाः पैजवनः । १ ऋषिः । ३-४ शुक्यः । इन्द्रो देवता । चतुर्दशं सूक्तम् ॥

त्रिकटुकेषु महिषो यवांशिरं तुविशुष्मस्तृपत् सोममपिडुट् विष्णुना सुतं यथावंशत् । स ई समाद् महि कर्म कर्तव्ये महामुक्त् सैनं सश्वट् देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्द्रुः ॥१॥ ऋ० २।२।२१॥

३ भा०—(महिषः) महान् (तुविशुष्मः) बड़ा बलवान् परमेश्वर (त्रिकटुकेषु) तीनों लोकों में (यवांशिरम्) मिलाने और विभाग करने अर्थात् संयोग और विभाग दोनों से मिश्रित (सोमम्) इस संसार के प्रेरक बल को स्वयं (तृपत्) तृप्त, पूर्ण होकर भी (विष्णुना) अपने अर्थात् बल से ऐसे (अपिडुट्) पान करता है, उसे ऐसे अपने वश करता है (यथा) जिससे (सुतम्) बल्पक हुए संसार को घटा (अवंशत्) अपने वश किये रहता है । वह महान् प्रेरक बल ही उस (महाम् उरुम् ईम्) महान् विस्तीर्ण, तेज पराक्रम वाले परमेश्वर को (महि कर्म कर्तव्ये) बड़े २ कर्म करने के लिये (समाद्) पूर्ण समर्थ बना रहा है । (सः) वह (देवः) देव, तेजोमय (सत्यः) सत्यमय, बलस्वरूप (इन्द्रुः) परम ऐश्वर्य रूप होकर (सत्यम्) सत्यरूप (इन्द्रम्) उम ऐश्वर्यवान् (देवम्) परम प्रकाशक, सर्वप्रद परमेश्वर को (सश्वत्) प्राप्त होता है ।

१.५—इदं सूक्तं पङ्चमनुक्रमणिकायां पठ्यते । तत्र आद्यानां तिसृणां गृहसमद ऋषिः अन्त्यानां तिसृणां सुदाः पैजवन ऋषिः । उपलब्धसंहितासु चतुर्दशमिदं सूक्तमुपलभ्यते । अनुक्रमणिकायां 'अथत्विपीमान'० 'साकं जातः०' इति शब्दयं (ऋ० २ । २२ । २, ३) अधिकं पठ्यते, तच्च समीचीनमेव । त्रिकटुकेष्विति तृचस्य सामवेदेऽपि तथैवोपलभ्यात् । शब्दयस्यानुपलभ्यः प्रमादान् शान्ताभेदाद्वा विदेषः ॥

अच्यात्म में—(महिषः) महान् (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् आत्मा (तृप्त) आनन्द रस से तृप्त होकर (विष्णुना) व्यापक परमेश्वर के संग से (सुतं सोमम् अपिबत्) प्राप्त सोम, ब्रह्मानन्द रस का पान करता है। (सः) वह ब्रह्मरस (महाम् ऊरुम्) उस महान् विस्तृत तेजस्वी, (इम्) इस योगी पुरुष को (महि कर्म कर्त्तवे ममाद्) महान् २ कर्म करने के लिये भी समर्थ करता है। (सः देवः सत्यः इन्द्रुः) वह तेजस्वी सत्यस्वरूप ऐश्वर्यवान् परमेश्वर (देवं सत्यम् इन्द्रं सश्वत्) प्रकाशमान ऐश्वर्यवान् आत्मा को ही प्राप्त होता है।

राजा के पक्ष में—(त्रिकटुकेषु) तीनों जोकों में (महिषः तुवि- शुम्भः) सर्वश्रेष्ठ, बड़ा बलवान् राजा (विष्णुना) अपने व्यापक बल सामर्थ्य से (यवाशिरं) शत्रुनाशक सेनापतियों पर आश्रित, उन द्वारा (सुतम्) पीड़ित या ऐश्वर्यजनक (सोमम्) राष्ट्र को (अपिबत्) भोग करता है। वह राष्ट्ररूप ऐश्वर्य (महाम् ऊरुम्) उस महान् विस्तृत बल वाले राजा को (महि कर्म कर्त्तवे ममाद्) बड़े २ कार्य करने के लिये प्रेरित करता है (सत्यः देवः इन्द्रुः सः) सत्य न्याय के बलवाला, 'कर- प्रद' ऐश्वर्ययुक्त वह राष्ट्र (सत्यं देवं इन्द्रं) सत्यकर्मा, न्यायी, विजंभी, ऐश्वर्यवान् राजा को (सश्वत्) प्राप्त होता है।

अनुक्रमणी के अनुसार नीचे लिखे दो मन्त्र और समझने चाहियें।
'अथ त्विषीमान्' और 'साकं जातः०' ॥ जिनका मूल पाठ इस प्रकार है।

१- अथ त्विषीमाँ अभ्योजंसा किंवि युधाभंवदा रोदंसी अपृण-
दस्यमज्मना प्रधावृधे । अथंज्ञान्यं जठरे प्रेमरिच्यत् सैनं
सश्वद् देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्द्रुः ॥ अ० २।२।२॥

२- साकं जातः ऋतुना साक मोजंसा ववक्षिथ साकं वृद्धो-वीर्यैः
साहहिर्मृशो विचर्षणिः । दाता राधः स्तुवते काम्यं वसु
सैनं सश्वद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्द्रुः ॥ अ० २।२।३॥

भा०—(१) (अथ त्विषीमान् भोजसा युधा क्रिविम् अभि अभवत्)
 और वह कान्तिमान् इन्द्र अपने पराक्रम और प्रहारशील युद्ध द्वारा अपने
 सैन्य और प्रजा के नाश करने वाले शत्रु को दबाता है । और वह (रोदसी
 आ अपृणत्) दालोक और पृथिवी लोक, राजसभा और प्रजाजन दोनों
 को अपने बल से पूर्ण करता है (अस्य मज्जना सः प्र वावृधे) इस राष्ट्र के
 बल से वह और अधिक बढ़ता है । और वह राष्ट्र के दो भाग करके
 (अन्यं) एक भाग को (जठरे) अपने वश में (अधत्त) करता है । और
 (ईम्) इस दूसरे भाग को (प्र अरिच्यत) अन्य राजाओं को प्रदान
 करता है । (सैनं० इत्यादि) पूर्ववत् ॥

(२) हे इन्द्र ! राजन् ! तू (क्रतुना साकंजातः) कर्म और प्रज्ञा सा-
 मर्थ्य से युक्त होकर (भोजस्य साकम्) बल पराक्रम के साथ और (वीर्यैः
 साकं वृद्धः) वीर्यों, सामर्थ्यों से वृद्धि को प्राप्त होकर (वि चर्षणिः) सब
 का दृष्ट राजा, (मृधः सासहिः) संग्रामकारियों का विजेता होकर
 (स्तुवने काम्यं वसु राधः च ज्ञाता) स्तुति करने वालों को धन ऐश्वर्य
 प्रदान करता है (सश्रवत्० इत्यादि) पूर्ववत् ।

प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूपमर्चत । अभीके चिदु लोककृत्
 संगे समत्सु वृत्रहाभ्याकं वाधि चोदिता नभन्तामन्यकेपां
 ज्याका अत्रि धन्वंसु ॥ २ ॥ ऋ० १०।१३३।१ ॥

भा०—(अस्मै) इस (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् राजा को (पुरोरथम्)
 रथ के आगे वर्तमान (शूपम्) बल की (प्रो अर्चत) स्तुति करो ।
 (अभीके) भय रहित (संगे) परस्पर के मेल मिलाप में (लोककृत्)
 समस्त लोकों का उपकार करने वाला, और (समत्सु वृत्रहा) संग्रामों के
 अवसरों में शत्रुओं का नाश करने वाला होकर (अस्माकं चोदिता) हमें
 न्यायपथ में लेजानेहारा, हमारा हित (बाधि) जानता है । (अन्यकेपां)

छुद अन्य शत्रुओं के (धन्वसु अधि) धनुषों पर (ज्याकाः) डोरियों (नभन्ताम्) टूट जायें ।

अध्यात्म में—(पुरोरथम् इन्द्राय शूपम् अर्चतः) रसदर्शन के समक्ष इन्द्र, आत्मा के बल का वर्णन करो । वह (अभीके संगे) साक्षात् संग लाभ-होने पर ही (चित्) मानो (लोक कृत्) अपने दर्शन कराता है या आश्रय प्रदान करता है । (समस्तु) परम आनन्द के अवसरों पर (वृत्रहा) आवरक अज्ञानों का नाशक है । वही (चोदिता) इन्द्रिय-राग का चालक होकर (बोधि) परम ज्ञान प्राप्त करता है । (अन्यकेषां अधि धन्वसु) अन्य छुद शत्रुओं के धनुषों की (ज्याकाः) डोरियां भी (नभन्ताम्) टूट जाती हैं अर्थात् अस्मिक बल के समक्ष शत्रुओं के हथियार निकम्मे होजाते हैं ।

त्वं सिन्धूर्वात्सुजाधुराचो अहन्नहिम् । अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं
पुष्यसि वार्यं तं त्वा परि ष्वजामहे नभ० ॥३॥ अ० १०।१३।१॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (त्वं) तू (सिन्धून्) बहने वाले नदी नदों को (अधराचः) नीचे जाने वाला (अनामजः) बनाता है । और (अहिम्) सूर्य जिस प्रकार मैघ को नाश करता है उसी प्रकार सूर्य के समान कुटिलाचारी पुरुष को भी (अहन्) नाश करता है । तू (अशत्रुः) शत्रुरहित (जज्ञिषे) जाना जाता है । तू ही (विश्वं वार्यम्) समस्त वरने योग्य ऐश्वर्य को (पुष्यसि) पुष्ट करता है । (तं त्वा) उस तुझ को हम (परिष्वजामहे) सब प्रकार से अपनाते हैं । (नभन्ताम्० इत्यादि) पूर्ववत् ।

राजा के पक्ष में—(सिन्धून्) अहिवेश से जाने वाले सेना दलों को अपने अधीन रखकर चलाता है । शत्रु ला नाश करता है । तू शत्रु रहित जाना जाता है । समस्त ऐश्वर्य की वृद्धि करता है, हम प्रजाजन तेरा आश्रय लेते हैं ।

वि पु विश्वा अरांतयोर्यो नंशन्त नो धियः । अस्तांसि शत्रवे
 चर्धं यो न इन्द्र जिघांसति या तं रातिर्ददिसु । नभन्तामन्यकेषां
 ज्याकां अत्रि धन्वसु ॥ ४ ॥ ऋ० १० । १३३ । ३ ॥

भा०—(विश्वाः) समस्त (अर्यः) सम्मुख चढ़ाई करने वाले
 (अरातयः) अराति, करादि न देने वाले शत्रुजन (सु विनशन्त) अच्छी
 प्रकार नष्ट हों । (नः धियः) हमारी स्तुतियां तुम्हे प्राप्त हों । हे (इन्द्र)
 शत्रुनाशक ! (नः यः जिघांसति) हमें जो मारना चाहता है उस
 (शत्रवे) शत्रु को नाश करने के लिये तू (वधं अस्तासि) बधकारी शस्त्र
 का प्रयोग करता है । और (या) जो तेरा (रातिः) दानशील हाथ है
 वह (वसु ददिः) सदा ऐश्वर्य प्रदान करता है ।

[६६]

१-५, पूरणो वैश्वामित्रः । ६-१० यक्ष्मनाशनः प्राजापत्यः । ११-१६ रक्षोहा
 जाकः । १७-२३ विष्टा काश्यपः । २४ प्रचेताः ॥ १-५ इन्द्रो देवता । ६-१०
 राजयक्ष्मणम् । ११-१६ गर्भसंलावे प्रायश्चित्तम् । १७-२३ यक्ष्मणम् । २४
 दुःस्वप्नम् ॥ १-१० त्रिष्टुभः । ११-२४ अनुष्टुभः । चतुर्विंशत्युचं सप्तम् ॥

[६६]—इदं सूक्तं राधहिदनीभ्यां त्रयोविंशत्युचं पठ्यते । वैतानसूत्रे चतुर्विंशत्युचं
 स्वीक्रियते । तत्र पूर्वाः पञ्च पूरणदृष्टाः । ततः पञ्च यक्ष्म नाशन-
 प्राजापत्यदृष्टाः । ततः षट् रक्षोहनादृष्टाः ततः षट् विष्टा काश्यप-
 दृष्टाः ततश्चैका प्रचेतीष्टा दुःस्वप्नी इति ऋग्वेदीयक्रमेण पठ्यमाना
 त्रयोविंशतिर्नोराधसम्मताः । पाण्डुरंगसंहितायां 'हृदयात्ते०' ॥ १७॥
 पर्येका ऋग् अंधिका पठ्यते । मेहनादित्यस्य स्थाने च 'अस्थिः
 भ्यस्ते०' इति ऋक् पठ्यते । 'ऊरुभ्यां०' 'ऊर्ध्वाने०' इत्यनयोः ।
 पाठभेदश्च पठ्यते ।

तीव्रस्थामिवयसो अस्य पांढि सर्वरथा वि हरी इह मुञ्च ।

इन्द्र मा त्वा यजमानासो अन्ये नि रीरमन् तुभ्यमिमे सुतासः

॥ १ ॥ [१-६] अ० १०।१६०।१ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यशील ! जीवात्मन् ! तू (तीव्रस्थ) तीव्र, तीक्ष्ण ज्ञानवान् (अभिवयसः) सब प्रकार योग्य कर्म-फलों से युक्त (अस्य) इस आनन्द-रस को (पांढि) पान कर, स्वीकार कर । (सर्वरथा) समस्त रमण योग्य देहों में विद्यमान (हरी) हरी हरणशील अश्वों के समान प्राण और अपान दोनों को (इह) इस ज्ञान की दशा में (वि मुञ्च) त्याग कर । हे (इन्द्र) आत्मन् (त्वा) तुम्हें (अन्ये यजमानासः) और दूसरे विपरीत मार्ग पर लेजाने वाले संगकारी, आस-क्तिजनक विषयगण (मा निरीरमन्) सर्वथा भी प्रलोभन में न फाँसलें (इमे) ये (सुतासः) समस्त उत्पन्न पदार्थ आभ्यन्तर आनन्दरस (तुभ्यम्) तेरे ही लिये हैं ।

तुभ्यं सुतास्तुभ्यम् सोत्वासस्त्वां गिरः श्वाज्या आ ह्वयन्ति ।

इन्द्रेदमद्य सर्वान् जुषाणो विश्वस्य विद्वाँ इह पांढि सोमम् ॥ २ ॥

भा०—हे (इन्द्र) जीवात्मन् ! ये (सुताः) उत्पन्न समस्त पदार्थ (तुभ्यम्) तेरे उपभोग के लिये ही हैं । (सोत्वासः) उत्पन्न होने वाले भावी पदार्थ भी तेरे लिये ही हैं । (श्वाज्याः) शक्ति शुभ्र एवं शीघ्र ही अपने अभिप्राय को बतलाने वाली, सुस्पष्ट (गिरः) वाणियों भी (स्वां आ ह्वयन्ति) तुम्हें ही लक्ष्य करके पुकारती हैं । हे इन्द्र आत्मन् ! (अद्य) आज (इदं) इम (सवनम्) उपासना को (जुषाणः) स्वीकार करता हुआ तू (विश्वस्य विद्वाँ) समस्त संसार का ज्ञाता होकर (सोमम्) सोम रूप ऐश्वर्य एवं आत्मानन्द रस का (पांढि) पान कर ।

य उशता मनसा सोममस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोति ।

न गा इन्द्रस्तस्य परां ददाति प्रशस्तमिञ्चारमस्मै कृणोति ॥३॥

भा०—(यः) जो पुरुष (उशता) कामनायुक्त, अभिलाषा वाले (मनसा) मन से (सर्वहृदा) पूर्ण हृदय से (देवकामः) उपास्यदेव की प्राप्ति की इच्छा करता हुआ (अस्मै) इसके साक्षात् के लिये (सोमम् सुनोति) ब्रह्मानन्द रस का निष्पादन करता है (इन्द्रः) आत्मा या परमात्मा (तस्य) उस पुरुष के (गाः) प्राप्त होने योग्य ज्ञानेन्द्रियों और वाणियों या शक्तियों को (न परा ददाति) विनष्ट नहीं होने देता । प्रत्युत (अस्मै) उसके लिये (प्रशस्तम् इत्) उत्तम उत्तम फल ही (कृणोति) उत्पन्न करता है ।

अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अस्मै रेवान् न सुनोति सोमम् ।

निररन्तौ मघवा तं दधाति ब्रह्माद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः ॥ ४ ॥

भा०—(यः) जो पुरुष (रेवान्) विभूतिमान् होकर भी (अस्मै) इस आत्मा के लिये (सोमम्) ब्रह्मरस को (सुनोति) सवन करता है ब्रह्म ध्यान का अभ्यास करता है (अस्य) उसको ही (एषः) वह आत्मा (अनुस्पष्टो भवति) साक्षात् होजाता है । (मघवा) वह ऐश्वर्यवान् आत्मा (तत्) उस अभ्यासी पुरुष को (अरन्तौ) अपने हाथ में अपनी विशेष रमण करने वाले रस में (नि दधाति) स्थापित करता है । और (अनानुदिष्टः) विना प्रार्थना किये ही (ब्रह्माद्विषः) उस महान ब्रह्म से प्रेम न करने वाले मानस दुर्व्यापारों को (हन्ति) प्रसन्न हुए राजा के समान विनाश कर देता है ।

अश्वान्तो गन्वन्तो वाजयन्तो हवामहे त्वोपगन्तुषा उं ।

आभूषन्तस्ते सुमत्तौ नवायां चयमिन्द्र त्वा शुनं हुवेम ॥५॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् आत्मन् ! (त्वा उपगन्तवा उ) तुम्हें प्राप्त होने के लिये ही जिस प्रकार अश्वों और गौवों या भूमियों की और अन्नों की कामना करते हुए प्रजाजन अपने राजा के पास पहुँचते हैं उसी प्रकार हम भी (अश्वयन्तः) शीघ्रगामी, बलवान् प्राणों या कर्मेन्द्रियों को चाहते हुए (गव्यन्तः) ज्ञान इन्द्रियों और ज्ञानवाणियों को चाहते हुए और (वाजयन्तः) अन्न या ऐश्वर्य, ज्ञान-समृद्धि चाहते हुए (त्वा हवामहे) तेरा स्मरण करते हैं । हम (आभूषन्तः) तेरी स्तुति करते हुए (ते) तेरी (नवापां सुमतौ) अति नवीन अथवा अति स्तुतियोग्य, उत्तम शुभ मति में रहते हुए (शुनम्) अति सुखस्वरूप (त्वा) तुम्हें (हुवेम) स्मरण करें ।

मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कर्मज्ञातयद्मामुत राजयद्माम् ।

आहिंज्ञं प्राह यद्येतदन्नं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम् ॥ ६ ॥

यदि क्षितायुर् यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव ।

तमा हंराभि निकृतेरुपस्थादस्पां शमेन शतशारदाय ॥ ७ ॥

सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषा हार्षमेनम् ।

इन्द्रो यथैनं शरदो नवात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम् ॥ ८ ॥

शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान्छतमु वसन्तान् ।

शतं तु इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषा हार्षमेनम्

आहार्षमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णावः ।

सर्वाङ्गं सर्वं ते चक्षुः सत्रमायुश्च तेविदम् ॥ १० ॥ अ० १०। १६। ११-५१

१—(२०) 'अग्निन्द्राग्नी स०' इति राधाभिमतः पाठः ।

१०—(प्र०) 'आहार्षत्वा विदं त्वा' इति राधाभिमतः ।

भा०—(६-६) इन ४ मन्त्रों की व्याख्या देखो अथर्व० ३ । ११ ।

१—४ ॥ मन्त्र १० की व्याख्या देखो अथर्व० ८ । १ । २० ॥

ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्षोहा बाधताम्रितः ।

अर्मावा यस्ते गर्भं दुर्णामा योनिमाशये ॥ ११ ॥

यस्ते गर्भमर्मावा दुर्णामा योनिमाशये ।

अग्निष्टं ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत् ॥ १२ ॥ ऋ० १० । १६२, १-२४

भा०—(रक्षोहा अग्निः) राक्षसों और विघ्नकारी, प्रजापीडक जीवों का नाशक अग्नि, ज्ञानवान् पुरुष राजा के समान (ब्रह्मणा संविदानः) ब्रह्मवेद और वेदज्ञ विद्वान् के साथ सहमति करके, (यः दुर्णामा) जो दुष्ट स्वभाव वाला रोग (ते) तेरे (गर्भं) गर्भ, ग्रहणशील (योनिम्) योनि भाग में (अर्मावा) रोगकारक होकर (आशये) बैठा है उसको (इतः) यहां से (बाधताम्) पीड़ित करके दूर करे ॥ ११ ॥ इसी प्रकार (यः ते गर्भं इत्यादि) पूर्ववत् । वह अग्निः (ब्रह्मणा सह) ब्रह्म, ज्ञान बल के साथ (तं क्रव्यादम्) उस कच्चा मांस खाने वाले दुष्ट पीड़ाकारी रोग दुष्ट पुरुष को (निः अनीनशत्) सर्वथा नष्ट करे ।

यस्ते हन्ति पतयन्तं निपत्सुं यः संरीक्षपम् ।

जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ १३ ॥ ऋ० १० । १६२ । ३ ॥

भा०—हे स्त्री ! (ते) तेरे गर्भाशय में (पतयन्तम्) वीर्यरूप से निपिक्त होते हुए और (निपत्सुम्) गर्भाशय में जमते हुए और (संरीक्षपम्) उसी में गति करते हुए और (जातम्) उत्पन्न हुए बालक को (यः ३) जो दुष्ट कीटाणु या पुरुष (हन्ति) नाश करता है और (यः) जो (जातम्) उत्पन्न हुए शिशु को (जिघांसति) मार देना चाहता है (तम्) उसको (इतः) इस राष्ट्र और देश से हम (नाशयामसि) नष्ट करेंगे ।

यस्तं ऊरु विहरंत्यन्तरा दम्पती शयं ।

योनिं यो अन्तरारेद्धि तमितो नाशयामसि ॥१४॥ अ० १०१२६२।१०॥

भा०—हे स्त्रि ! (यः) जो दुष्ट रोग या पुरुष (ते ऊरु) तेरे जांघों को (विहरति) पृथक् करता है उनका भोग करता है (दम्पती अन्तरा) स्त्री पुरुष, पति पत्नी दोनों के बीच तीसरा होकर (शये) तेरे साथ सोता है और (यः) जो (योनिम् अन्तः) गर्भाशय में प्रविष्ट होकर उसको (आरोद्धि) विनाश करता है (तम्) उसको (इतः) यहां से (नाशयामसि) दूर भगावें ।

यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा ज्वारो भूत्वा निपद्यते ।

प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥१५॥ अ० १०१२६२।११॥

भा०—हे स्त्रि (यः) जो दुष्ट पुरुष (भ्राता) भाई या (पतिः) पालक पति के समान होकर या (ज्वारः भूत्वा) ज्वार, व्यभिचारी पुरुष होकर (त्वा निपद्यते) तुम्हें भोग करता है और ऐसा करके (ते यः प्रजां) तेरी जो प्रजा, सन्तति का (जिघांसति) नाश करता है (तम्) उसको (इतः) हम यहां से (नाशयामसि) मार भगावें ।

यस्त्वा स्वप्नेन तमंसा मोहयित्वा निपद्यते ।

प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥१६॥ अ० १०१२६२।१६॥

भा०—और हे स्त्रि ! (यः) जो (त्वा) तुम्हें (स्वप्नेन) निद्रा (तमसा) या अन्धकार में (मोहयित्वा) तुम्हें मोहित करके, लुभाकर (त्वा निपद्यते) तुम्हें भोग करे और इस प्रकार (ते प्रजां जिघांसति) तेरी सन्तति का नाश करना चाहे (तम् इतः नाशयामसि) उसको यहां से दूर करें ।

शृङ्गीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुंकादधि ।

यदमं शीर्षण्यं मस्तिष्काञ्छिन्नाया वि वृहामि ते ॥ १७ ॥

श्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात् ।

यक्ष्मं दोषर्यामंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥ १८ ॥

[१७, १८] अ० १० । १६२ । १, २ ॥

हृदयात् ते परि क्लोमो हलीदणात् पार्श्वभ्याम् ।

यक्ष्मं मतस्नाभ्यां प्लीहो स्युक्तस्ते वि वृडामसि ॥ १९ ॥

ध्रान्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्टोरुद्रादधि ।

यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्लाशेर्नाभ्या वि वृहामि ते ॥ २० ॥

अ० १० । १६२ । ३ ॥

ऊरुभ्यां ते अष्टीवद्भ्यां पार्णिभ्यां प्रपदाभ्याम् ।

यक्ष्मं मस्रचं श्रोणिभ्यां भासदं भंसखो वि वृहामि ते ॥ २१ ॥

श्रुस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावंभ्यो घ्रमर्निभ्यः ।

यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते ॥ २२ ॥

अङ्गेअङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि ।

यक्ष्मं त्वचस्य ते वयं कश्यपस्य वीवर्हेण विष्वञ्चं वि वृहामसि २३

भा०—(१७-२३) इन ७ मन्त्रों की व्याख्या देखो अथर्व० २ ।

२३ । १-७ ॥

१९—इयसृक् रायसन्मतसंहितायां नास्ति ।

२०—(दि०) 'वनिष्टोर्हृदया०' (तृ०) 'यक्ष्मंमतस्नाभ्यां०' इति अ०

२१—'यक्ष्मं श्रोणिभ्या भासदाद् भंसखो वि वृहामिने' इति अ० । राधाभिमतश्च ।

२२—वत्साः स्थाने—मेहनाद्भनंकरणात्लोमभ्यस्ते नखेभ्यः ।

यक्ष्मं सर्वस्नादात्मनस्तमिदं विवृहामि ते ॥ २२ ॥ इति अ० । राधाभिमतश्च ।

२३—अङ्गाङ्गात्लोम्नो लोम्नो जावं पर्वणि पर्वणि ।


यक्ष्मं सर्वस्नादात्मनस्तमिदं विवृहामि ते ॥ इति अ० । राधाभिमतश्च ।

अपीदि मनसस्पतेर्पं काम पुरश्चरं ।

परो निऋत्या आ चक्ष्व बहुधा जीवतो मनः ॥ २४ ॥

भा०—हे (मनसः पते) मन को नीचे गिराने वाले ! दुष्ट विचार एवं दुःस्वप्न ! तू (अपेहि) दूर हो । (अप क्रान) परे हट । (परः घर) परे चला जा । (निऋत्यै) दुष्ट पापप्रकृति को भी (परः) दूर से ही (आ चक्ष्व) हृदयः विनष्ट कर क्योंकि (जीवतः) जीवनधारी पुरुष का (मनः) मन (बहुधा) बहुत प्रकार के विषयों में लग जाता है ।

॥ इत्यथोऽनुवाकः ॥



[१७] राजा

कलिःश्रुतिः । इन्द्रो देवता । बहुल्यः । वृवं इन्द्र ॥

व्यमैनमिदा ह्योपीपेनेह चञ्जिराम् ।

तस्यां उ अथ संनना सुतं भ्रा नूनं भूपत श्रुते ॥ १ ॥

[१-२] क्र० ८ । ६२।७-९॥

भा०—(वचन्) हम लोग (ह्यः) गये दिन और (इदा) इस समय आज और कल भी, नित्य (एतन् वञ्जिराम्) इस वीर्यवान् पुरुष को (इह) इस रात्रि में (अपीपेन) पुष्ट करें । और (अथ) आज (तस्मै) उसको ही (संनना) संग्राम के लिये (सुतं) पुरवय (भ्रा) प्राप्त करा (नूनं) निश्चय से वह (श्रुते) हमारी प्रार्थना सुनने पर (आ भूपत) आज्ञाता है ।

धाम्ना के पक्ष में—हम उस आत्मा को सदा पुष्ट करें (तस्मै) उस जीव के लिये ही (संनना) संग्राम में (सुतं) वीर्य को प्राप्त कराओ ।

और (श्रुते) वेदोपदेश या गुरुपदेश से उसे (नूनं) निश्चय से (आभूषत) तुम सुशोभित करो ।

वृकश्चिदस्य वारुण उरामथिरा व्युनेषु भूषति ।

स्तेमं नः स्तोमं जुजुषाण आ गृहीन्द्र प्र चित्रया त्रिया ॥ २ ॥

भा०—(उरामथिः) भेदों के नाश करने वाले (वृकः चित्) भेदिये के समान स्वभाव वाला दृष्ट पुरुष और (वारुणः) हस्ति के समान बलवान् जीव भी (अस्व व्युनेषु) इसके उत्कृष्ट ज्ञान और मार्गों में (आभूषति) उसके अनुकूल हो जाता है । हे (इन्द्र) राजन् ! नू (नः) हमारे (इमं स्तोमं) इस स्तुति समूह को (जुषाणः) प्रेम से सुनता हुआ (चित्रया धिया) अपनी सबको चेताने वाली बुद्धि और कार्यशैली से (नः आगहि) हमें प्राप्त हो ।

कदून्वस्याहंनुमिन्द्रस्यास्ति पौंस्यम् ।

केनो नु कं श्रोमतेन न शुश्रुवे जनुपः परि वृत्रहा ॥ ३ ॥

भा०—(अस्य इन्द्रस्य) इस शत्रुहन्ता राजा का (कदूनु पौंस्यम्) कौनसा शौर्य का कान (अहंनुमिन्द्रस्यास्ति) नहीं कर लिया है ? अर्थात् इसने सभी प्रकार के वीरता के कार्य कर लिये हैं । और (केन नु श्रोमतेन) कित्तु श्रवण करने योग्य धार्मिकजनक कार्य से (न शुश्रुवे) उसकी उपाति नहीं सुनी जाती । वह तो (जनुपः परि) जन्म से ही (वृत्रहा) विघ्नकारी शत्रुओं का नाशक है ।

[६८] राजा के कर्तव्य

संशुक्रपिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथी । इयुचं सक्तम् ॥

त्वामिद्धि हवामहे साता वाजंस्य कार्वः ।

त्वां वृत्रेपिन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्टास्वव्रतः ॥ १ ॥

सू० ६ । ४६ । १ ॥

भा०—हम (कार्वः) शिल्पी, विद्वान् लोग (वाजस्य सातौ) अन्न और संग्राम के लाभ करने के लिये (त्वाम् इत् हि) तुम्हें ही (इवा-महे) बुलाते हैं । (नरः) नेता मनुष्य लोग भी (वृत्रेषु) शत्रुओं के आ चढ़ने पर (सत्पतिम्) सज्जनों के प्रतिपालक (त्वाम्) तुम्हें ही स्मरण करते हैं और (अर्धतः) घोड़े या वेगवान् यानद्वारा जाने लायक (काष्ठासु) दिशाओं में या दूर के देशों में भी लोग (त्वां) तुम्हें ही पुकारते हैं ।

स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मृद स्तवानो अद्रिवः ।

गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥ २ ॥

शु० ६।४६।२ ॥

भा०—हे (वज्रहस्त) खड्ग को हाथ में धारण करने वाले । उम्र दण्ड ! हे (अद्रिवः) अशीर्ष, अमोघ बलवाले ! हे (चित्र) समस्त राष्ट्र का संचय करने एवं चित्र युद्ध करने में कुशल ! (त्वं) तू (धृष्णुया) स्वयं शत्रुओं का धर्षण तिरस्कार और पराजय करने में समर्थ होकर (महः स्तवानः) खूब अधिक गतिशाली होकर हे (इन्द्र) इन्द्र ! राजन् ! (जिग्युषे) विजयशील पुरुष को (गाम्) गौ, (अश्वं) अश्व, (रथम्) रथ और (सत्रा, बड़े भारी (वाजं न) नाना अन्न और ऐश्वर्य को भी (सं किर) अच्छी प्रकार आदर से प्रदान कर ।

[६६] राजा, सेनापति

मेधातिथिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहत्थौ, प्रगाथः । इत्थं सत्तम् ॥

अभि त्वां पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमैभिरायवः ।

समीचीनात् क्रमवः समस्वरन् । रुद्रां गृह्णन्त पूष्यम् ॥ १ ॥

शु० ८।३।७ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! परमेश्वर ! (ऋभवः) सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाले विद्वान्गण (रुद्राः) स्तुतिशालि और (आयवः) दीर्घायु (समीचीनासः) सम्यक्दृष्टि वाले, समदर्शी, तत्त्वज्ञानी मनुष्यगण (पूर्वगतये) तुझे पूर्ण रीति से ज्ञान द्वारा तेरे आनन्द को प्राप्त करने के लिये (स्तोत्रेभिः) स्तुति समूहों से (त्वा अभि) तुझे ही लक्ष्य करके (सम् अस्वरन्) एकत्र होकर गाते हैं और (रुद्राः) सत्योपदेष्टा लोग (पूर्व्यम् गृणन्तः) सबसे पूर्व विद्यमान एवं पूर्ण तेरा ही उपदेश करते हैं ।

अस्येदिन्द्रो वावृथं वृष्यं शशो मदं सुतस्य विष्णुवि ।

अथा तमस्य महिमानंमायत्रानु ष्टुवन्ति पूर्वथा ॥ २ ॥

अ० ८।३।२ ॥

भा०—(सुतस्य) प्रस्तुत किये अभिषेक द्वारा प्राप्त राज्य के (विष्णुवि) व्यापक (मदे) मद या हर्षाधिक्य से ही (इन्द्रः) शत्रुनाशक सेनापति (अस्य इत्) इस राजा के ही (वृष्यं) बलशाली बहुत अधिक (शवः) बल को (वावृथे) बढ़ा देता है । (अस्य) इसके (तन्) उस (महिमानम्) महिमा को ही (आयवः) मनुष्यगण (पूर्वथा) पूर्व के समान (अथ) आज तक भी (अनुस्तुवन्ति) निरन्तर स्तुति करते हैं ।

[१००] बलवान् राजा और आत्मा

नृमेष ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिहः । वृचं सूक्तम् ॥

अथा हीन्द्रुर्गिर्वण उपं त्वा कामान् महः संसृज्मदं ।

उदेव यन्तं उदभिः ॥ १ ॥ अ० ८।१२।७ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यवन् ! परमेश्वर ! हे (गिर्वण) स्तुतियों द्वारा भजन करने योग्य ! (अथा हि) अथ (त्वा) तुझ से हम (महः) बड़े (कामान्) अभिलाषायोग्य मनोरथों को (उप स

सृजन्हे) प्राप्त हों ऐसे (उदा इव) जैसे जलके मार्ग से (यन्तः) जाते हुए
पुत्र्य (उद्भिः) उन जलों से ही नाना कान्य सुक्तों को प्राप्त
करते हैं ।

अर्थात् ईश्वरभक्ति के साथ ईश्वर से और नाना सुक्त अनायास गौह
रूप से ऐसे ही प्राप्त होते हैं जैसे जल मार्ग से जाते हुए को जलों के पान
स्नानादि के समस्त सुख अनायास प्राप्त होते हैं ।

वाणी त्वां व्याभिर्चरन्ति शूरे ब्रह्माणि ।

वाचुध्वासं चिदद्विवो द्विवेदिवे ॥ २ ॥ अ० ८। ९८। ८

भा०—हे (शूरे) शूरवीर ! शक्तिमन् ! (व्याभिः वाः न) नदियों
से जिस प्रकार समुद्र में जल बढ़ते हैं उसी प्रकार हे (अद्विवः) वज्रिन्
अमोघ शक्तिमन् ! (द्विवेदिवे) प्रतिदिन (वाचुध्वासं चिन्) स्वयं सदा
बुद्धिशील होते हुए भी (ब्रह्माणि) वेद के मन्त्र (त्वा) तेरी महिमा
की वृद्धि करते हैं ।

युञ्जन्ति हरीं इषिरस्य गार्धयोरौ रथं उर्युगे ।

इन्द्रवाहां वचोयुजां ॥ ३ ॥ अ० ८। ९८। ९ ॥

भा०—(इषिरस्य) अति शीघ्रगामी इन्द्र राजा के (उर्युगे)
बड़े भारी जुप वाले (रथे) रथ में जिस प्रकार (हरीं) वेगवान् दो अश्वों को
लोग जोड़ते हैं उसी प्रकार (इषि रस्य) इन्द्रा, आत्मसंकल्प में रक्षण
करने वाले या सर्वभरक आत्मा के (उर्युगे) बड़े भारी योग बल रं
चुक्र (उरौ) बड़े भारी (रथे) रक्षण योग्य रक्षण स्वरूप में (वचोयुजा
वाणी के साथ ही सदा योग करने वाले (इन्द्रवाहा) इन्द्र, जीवात्
का निरोधवृत्ति द्वारा बहन करने वाले (हरीं) सदा गतिशील प्राण कं
शरान को (गार्धया) गुण स्तुति के साथ (युञ्जन्ति) चुक्र करते
अर्थात् योगाभ्यास द्वारा प्राणों का आयमन करते हैं ।

[१०१] विद्वान् राजा

मेधातिथिर्ऋषिः । अग्निर्देवता । गान्धर्व्यः । वृचं सूक्तम् ॥

अग्निं वृतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ।

अस्य यज्ञस्यं सुकृतुम् ॥ १ ॥ अ० १ । १२ । १ ॥

भा०—हम लोग (अग्निम्) ज्ञानवान्, अग्रणी, (विश्ववेदसम्) समस्त पेश्वर्यों से युक्त, सब विद्याओं में पारंगत, (होतारं) सब सुखों और ज्ञानों के दाता (यज्ञस्यं) यज्ञ राष्ट्र के (सुकृतुम्) उत्तम रीति से करने वाले पुरुष को (वृतम्) वृत या प्रतिनिधि रूप से (वृणीमहे) नियुक्त करते हैं ।

इसी प्रकार ज्ञानी, पेश्वर्यवान् उत्तम यज्ञकर्ता को होता, अग्रणी नायक बनाना चाहिये, यह भी स्पष्ट है ।

अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम् ।

हव्यवाहं पुरुप्रियम् ॥ २ ॥ अ० १ । १२ । २ ॥

भा०—हम (हवीमभिः) स्तुतियों और उत्तम उपायों से (विश्पतिम्) प्रजा के पालक राजा (अग्निम्) अग्नि के समान तेजस्वी और ज्ञानवान्, नेता (हव्यवाहम्) प्राप्तव्य उद्देश्य तक ले जागे वाले (पुरुप्रियम्) बड़ों के प्रिय, सर्वप्रिय, लोकप्रिय, पुरुष को (सदा हवन्त) सदा आदर करो, भेंट आदि उत्तम पदार्थ प्रदान करो ।

अग्नें देवाँ इहा यंह जज्ञानो वृक्तवर्दिपे ।

असि होतां न र्दुयः ॥ ३ ॥ अ० १ । १२ । ३ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! ज्ञानवान् ! प्रकाशक ! अग्रणी, नेता ! तू (वृक्तवर्दिपे) बड़े भारी राष्ट्र और प्रजा को प्राप्त करने हारे राजा के लिये (इह) इस सभाभवन में (देवान्) विद्वान् पुरुषों और अधीन विज्ञ-

गोषु पुरुषों को (ज्ञावह) प्राप्त करा । तू (नः) हमारे (ईड्यः) स्तुति योग्य, प्रशंसनीय, (होता) यज्ञ में होता के समान ही योग्य पुरुषों के योग्य पदाधिकार देने और उनको स्वीकार करने द्वारा है ।

[१०२] परमेश्वर राजा

विषामित्र ऋषिः । अग्निर्वेत्ता । गायत्र्यः । त्वं रक्षन् ॥

ईक्षेन्व्यो नमस्त्यंस्तिरस्तमांसि दर्शतः ।

समग्निरिन्ध्यते वृषां ॥ १ ॥ ३० ३ । २७ । १३ ॥

भा०—(अग्निः) ज्ञानवान् पुरुष अग्नि के समान तेजस्वी, सूर्य के समान (दर्शतः) दर्शनीय, (तमांसि) समस्त अन्धकारों को (तिरः) दूर करता हुआ (ईक्षेन्व्यः) सबके स्तुति योग्य (वृषा) समस्त सुखों का वर्षक और (नमस्त्यः) सबके नमस्कार करने योग्य है । वही नित्य (समिन्ध्यते) सूत्र प्रवृत्तित तेजस्वी क्रिया जाता है ।

राजा के पद में—'वृषः' दुष्टों का प्रतिबन्धक । परमात्मा के पद में—
मेघ के समान ज्ञानन्दघन ।

वृषां अग्निः समिन्ध्यतेष्वो न देववाहनः ।

तं हृदिष्मन्त ईक्षते ॥ २ ॥ ३० ३ । २७ । १४ ॥

भा०—(वृषः) मेघ के समान ज्ञानन्दघन, समस्त संसार को नियमों में बांधने वाला (अग्निः) सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, (अक्षः) सर्वव्यापक, सर्वभोजी (अश्वः न देववाहनः) और अश्व जिस प्रकार विभिर्गोषु पुरुषों को युद्ध में ले जाता है उसी प्रकार (देव-वाहनः) विद्वानों को अपने धारण करने वाला है । (तं) उसको (हृदिष्मन्तः) साधनों, ज्ञानों से समस्त पुरुष (ईक्षते) स्तुति करते हैं ।

आत्मा के पत्र में—देववाहनः=देव, इन्द्रियों और उत्तम गुणों का धारक है ।

वृषणं त्वा वृयं वृषन् वृषणः समिधीमहि ।

अग्ने दीद्यंतं वृहत् ॥ ३ ॥ अ० ३ । २७ । १५ ॥

भा०—हे (वृषन्) समस्त सुखों के वर्षक ! हे (अग्ने) तेजस्विन् ! (वृषणः) हम लोग स्वयं बलवान् होकर (वृषणम्) बलवान् (वृहत् दीद्यतम्) बहुत अधिक सूर्य के समान प्रकाशमान (त्वा) तुझ को (सम् इधीमहि) भली प्रकार प्रदीप्त और तेजस्वी बनाते हैं । तुझे प्रज्वलित करते हैं ।

[१०३] परमेश्वर, विद्वान्, राजा ।

१. सुदीतिपुरुमीहो । २-३ मर्ग ऋषिः । अग्निदेवता । १, २ वृहत्यौ ३, सप्तो बृहती । तृचं सूक्तम् ॥

अग्निर्माँलिष्वावसे गाथाभिः श्रिंशोँचिपम् ।

अग्निं राये पुरुमील्ह श्रुतं नरोभि सुदीतये छर्दिः ॥ १ ॥

अ० ८ । ७१ । १४ ॥

भा०—हे (पुरुमील्ह) बहुतों को ज्ञान, अन्न, पेश्वर्यों से सेचन करने हारे विद्वन् ! तू (अवसे) रक्षा के लिये (गाथाभिः) वाणियों से (शीरशोचिपं) व्यापक प्रकाशवाले (अग्निम्) ज्ञानवान्, प्रकाशयुक्त परमात्मा की (ईँलिष्व) उपासना, स्तुति कर । हे (पुरुमील्ह) विद्वन् ! (श्रुतम्) श्रवण करने योग्य उस (अग्निम्) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की (नरः) सभी पुरुष (रायः) पेश्वर्य के लिये स्तुति करते हैं उसी (छर्दिः) सबके शरणस्वरूप (अग्निम्) परमेश्वर को (सुदीतये) उत्तम कान्ति और उत्तम दीप्ति के प्राप्त करने के लिये भी तू (गाथाभिः ईँलिष्व) वाणियों से स्तुति कर ।

अग्न आ याज्ञग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे ।

आ त्वामनक्तु प्रयंता हविष्मती यजिष्ठं वहिरासदे ॥ २ ॥

शु० ८।४९।२ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! विद्मन् ! हे राजन् ! नेतः ! तू (अग्निभिः) अन्य ज्ञानवान् विद्वानों के साथ और तू अन्य नेताओं के साथ (आयाहि) इन्हें प्राप्त हो । हे परमेश्वर ! तू इन्हें अन्य ज्ञानवान् विद्वानों सहित प्राप्त हो । (होतारं त्वा वृणीमहे) तुझे होता स्वरूप से वरण करते हैं । तुम्हें सर्वदानों को हम स्वीकार करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं । (यजिष्ठं त्वान्) यज्ञशील, सबसे अधिक ज्ञानशील, संगतिकारक तुम्हें को (प्रयता) उत्तम नियम में वह (हविष्मती) अन्नादि से समृद्ध (वहिः) प्रजा या आसन (आसदे) विराजने के लिये (अनक्तु) प्राप्त हो तुम्हें प्रकाशित करे ।

परमात्मा के पक्ष में—(प्रयता) उत्तम नियमों में बँधी (हविष्मती) अन्नादि से युक्त (वहिः) बृहती चौ और पृथिवी (आसदे) तुम्हें अधिष्ठाता को अपने पर शासन करने के लिये (त्वान् अनक्तु) तुम्हें प्रकाशित करे ।

अन्त्या हि त्वां सहसः सूनो अङ्गिरः सुत्रश्चरन्त्यध्वरे ।

ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहेर्नि यज्ञेषु पूर्वम् ॥ ३ ॥ शु० ८।४९।२

भा०—हे (सहसः सूनो) बलके कारण राजन्सूय द्वारा अभियोग करने योग्य, अपव्रत बलों के प्रेरक राजन् ! हे (अङ्गिरः) राष्ट्रों के धर्म से रम या बल प्रदान करने वाले ! (अध्वरे) अहिंसित राष्ट्र में (त्वं तुम्हें साजान् (सुत्रः) लोक (चरन्ति) प्राप्त हों । (ऊर्जो नपातम् बल पगक्रम और अन्न को कभी नष्ट न होने देने वाले (घृतकेशम् तेजोयुक्त किरण वाले (पूर्वम्) सब से अधिक पूर्ण, पालक और

सबसे पूर्व सत्कार करने योग्य (अग्निम्) तुम्हें अग्रणी को हम (यज्ञेषु) सुसंगत प्रजाजनों के बीच (ईंनहे) याचना करते हैं ।

परमेश्वर के पद में—हे (सहसः सुनो) समस्त बलों के प्रेरक, (अद्भिरः) अग्नि, सूर्य के समान तेजस्विन् ! (अश्वरे) यज्ञ में (लुचः) घृत से भरे चमसे (त्वा अच्चा वरन्ति) तुम्हें लक्ष्य करके चलते हैं । हम (ऊर्गः नयानम्) अन्न को नष्ट न होने देने वाले अथवा बल के अज्ञय भण्डार रूप, (घृतकेशम्) तेजःस्वरूप, केश या किरणों वाले, सूर्य के समान तेजस्वी (पूर्यम्) सबसे पूर्व विद्यमान तुम्हें (अग्निम्) ज्ञानवान् से हम (ईंनहे) प्रार्थना करते हैं ।

[१०४] राजा परमेश्वर

१-२ मेध्यातिथिर्द्विषिः । ३-४ नृनेधः । इन्दो देवता । प्रगायाः । चतुर्दशं नृकम् ॥

इमा उं त्वा पुरुवसो गिरां वर्धन्तु या मम ।

पावकवर्णाः शुचयो विप्रश्चित्वाभि स्तोमैरनूपत ॥ १ ॥

शु० ८ । ३ । ३ ॥

भा०—हे (पुरुवसो) प्रचुर ऐश्वर्य वाले परमेश्वर ! (याः मम इमाः गिरः) जो मेरी ये वाणियाँ हैं वे (त्वा ३) तुम्हें ही (वर्धन्तु) बढ़ावें, तेरी ही महिमा गावें । (पावकवर्णाः) अग्नि के समान तेजस्वी, (शुचयः) शुद्ध पवित्र आचारवान् (विप्रश्चितः) ज्ञानवान्, मेधावी पुरुष (स्तौमैः) स्तुति सन्तुष्टों से (त्वा अनूपत) तेरी ही स्तुति करते हैं ।

अयं सुहृन्नृपिभिः सहकृतः समुद्र इयं पप्रथे ।

सत्यः सो अस्य महिमा गृणो शवां यज्ञेषुं विप्रराज्ये ॥ २ ॥

शु० ८ । ३ । ४ ॥

भा०—(अयं) यह (सहकृतः) बल के उत्पादक (समुद्र इयं) समुद्र के समान विलीन, अज्ञय भण्डार वाले, ऐश्वर्यवान् परमेश्वर और राजा

को (सहस्रम्) हजारों (ऋषिभिः) मन्त्रदशी ऋषिगण (पप्रथे) विस्तृत या प्रसिद्ध करते हैं। (अस्य) उसकी (सः) वह विद्वान् (महिमा) महिमा और (शबः) बल (यज्ञेषु) यज्ञों, उपासनाओं में और (विश्र राज्ये) विद्वानों के प्रदीप्त हृदय में (सत्यः) सत्य है। उसकी ही (गृणे स्तुति की जाती है।

राजा के पक्ष में—(सहस्रतः) शत्रु के पराजय करने योग्य बल से युक्त वह (ऋषिभिः) हजारों ऋषि, मन्त्रदद्या विद्वानों द्वारा (समुद्र इव) समुद्र के समान गम्भीर, अक्षय कोशवाला (पप्रथे) प्रसिद्ध किया जाता है। (यज्ञेषु) परस्पर संगत प्रजासंघों में, संग्रामों में और (विश्राज्ये) विद्वानों के शासन में (अस्य सत्यः महिमा) इनकी सत्य महिमाओं और (शबः) बल की (गृणे) स्तुति, प्रशंसा की जाती है।

आ नो विश्वास्तु हव्य इन्द्रः समस्तु भूपतु ।

उय ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहा परमज्या ऋचीषमः ॥ ३ ॥

३०८।१०।१॥

भा०—(हव्यः) स्तुतियोग्य (इन्द्रः) परमेश्वर (नः) हमारी (विष्वास्तु) समस्त (समस्तु) आनन्द प्रसन्नता की दशाओं में (ज्ञा-भूपतु) प्रकट होवे। और वह (वृत्रहा) आवरणकारी अज्ञान का नाशक (परमज्याः) प्रधान २ बाधक कार्यों और बंधनों को नाश करने वाला (ऋचीषमः) समस्त स्तुतियों या वेदनमंत्रों में समान रूप से व्यापक परमेश्वर (ब्रह्माणि) वेदनमंत्रों को और (सवनानि) स्तुतियों को (उय-भूपतु) प्राप्त करे।

राजा के पक्ष में—वह (हव्यः) स्तुति योग्य, (विष्वास्तु समस्तु आ-भूपतु) समस्त संग्रामों में विद्यमान हो। वह शत्रुनाशक परम प्रबल शत्रु-ओं का नाशक स्तुतियों का समान रूप से पात्र होकर (ब्रह्माणि) वदे २

वीरैवान् पदों अधिकारों को और अशों को और (सवतानि) अभिपेक क्रियाओं को (उपभूयतु) प्राप्त हों ।

त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत् ।

तुविद्युन्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः ॥ ४ ॥

श्र० ८ । १० । २ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! (त्वं) तू (राधसाम्) ऐश्वर्यों का (प्रथमः) सबसे प्रथम (दाता असि) दाता है । और तू ही (सत्यः) सत्य कर्म-वाला, सच्चा, वास्तविक (ईशानकृत् असि) हमें ऐश्वर्यवान् बनाने वाला है । (शवसः पुत्रस्य) अपने बल से समस्त पुरुषों को विविध कष्टों से रक्षा करने में समर्थ और (तुविद्युन्नस्य) बहुत धनाढ्य तेरे (युज्या) योग्य, उचित (महः) धनों को या तेरे (महः युज्या) बड़े भारी सत्संगों को (वृणीमहे) प्राप्त करें ।

राजा के पक्ष में भी स्पष्ट है ।

[१०५] राजा, सेनापति

नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथाः । पंचवर्षं सत्तम् ॥

त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वां अस्ति स्पृधः ।

अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्वं तूर्थं तरुष्यतः ॥ १ ॥

श्र० ८ । ११ । ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) शत्रुनाशक ! (त्वम्) तू (प्रतूर्तिषु) बड़े-२ संग्रामों में सम्मुख आये (विश्वाः स्पृधः) समस्त स्पर्धा करने वालों के (अभि असि) मुकाबले पर आकर उनको पराजित करता है । (त्वं) तू (अशस्तिहा) निन्दाओं का नाशक और (जनिता) शत्रु के लिये निन्दाओं का स्वयं उत्पन्न करने हारा, हे (तूर्थं) शत्रुहंसक ! (तरुष्यतः)

हिंसाकारी द्रुष्ट पुरुषों का (विश्वतुः) सब प्रकार से नाश करने वाला (अस्ति) है । अथवा, हे इन्द्र तू (तरुयन्तः तूर्व) हिंसा करने की इच्छा वालों का नाश कर ।

अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरां ।

विश्वांस्ते स्पृधः अथयन्त मन्यवे वृत्रं यद्विन्द्र तूर्वसि ॥ २ ॥

ऋ० ८ । १९ । ६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) शत्रुनाशक राजन् ! (मातरा शिशुं न) माता और पिता दोनों जिस प्रकार बालक के पीछे चलते हैं उसी प्रकार (तुर-बन्तम्) शत्रुओं के नाशक (ते शुष्मम्) तेरे बल के (अनु) पीछे २ (क्षोणी) शासकवर्ग और प्रजावर्ग दोनों आकाश और पृथिवी के समान बर्तमान बड़े और छोटे सभी (ईयतुः) चलते हैं । (यत्) जब तू (वृत्रं) विघ्नकारी का (तूर्वसि) विनाश करता है तब ही (विश्वाः स्पृधः) सब स्पर्धा करने वाले शत्रुगण (ते मन्यवे) तेरे क्रोध के लागे (अथ-यन्त) शिथिल होजाते हैं, दब जाते हैं और कोई विपरीत उद्योग नहीं करते हैं ।

इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम् ।

आशु जेतारं हेतारं रथीतममर्तुं तुग्न्यावृधम् ॥ ३ ॥

ऋ० ८ । १९ । ७ ॥

भा०—हे प्रजाजनों ! (अजरम्) कभी क्षीण या निर्दल न होकर विद्यमान, सदा उद्यत, (प्रहेतारम्) शत्रु को नार भगाने वाले, (अप्र-हितम्) आप कभी परार्थीन न हुए (आशुं) शीघ्रगामी, (जेतारम्) विजयशील, (हेतारम्) शत्रु के स्वयं नाश करने वाले (रथीतमम्) रथियों में सर्वश्रेष्ठ (अर्तुम्) कभी नष्ट या ताड़ित न होने वाले, न पड़ाइ खाने वाले अपराजित (तुग्न्यावृधम्) शत्रु नाशकारी वार सेनाओं

के हितकर बल को बढ़ाने वाले पुरुष को (वः) आप लोग (ऊतये) अपनी रक्षा के लिये (इतः) नियुक्त करो ।

यो राजां चर्षणीनां यात्ता रथेभिर्दधिगुः ।

विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गुणे ॥ ४ ॥

इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विश्वर्तरि ।

हस्ताय वज्रः प्रति धायि दर्शतो मृदो दिवे न सूर्यः ॥ ५ ॥

भा०—[४-५] इन दोनों मन्त्रों की व्याख्या देखो का० २० ।

६२ । १६, १७ ॥

[१०६] परमेश्वर

गोभूतशक्तिना वृषी । इन्द्रो देवता । उष्णिक् छन्दः । त्वं सूक्तम् ॥

तव त्वदिन्द्रियं बृहत् तव शुभममुत क्रतुम् ।

वज्रं शिशाति धिपणा वरेण्यम् ॥ १ ॥ ऋ० ८ । १५ । ७ ॥

भा०—(तव) तेरे (त्वत्) उस (बृहत् इन्द्रियम्) बड़े भारी ऐश्वर्य को, और (बृहत् शुभम्) बड़े भारी बल को, (बृहत् क्रतुम्) बड़े भारी विज्ञान को और (वरेण्यम्) सर्वश्रेष्ठ (वज्रं) शत्रुवारक और पापवारक दीर्घ को (धिपणा) बुद्धि और शुभमति और तेरी स्तुति (शिशाति) अति तीक्ष्ण कर देती है । अर्थात् अधिक प्रभावोत्पादक बना देती है ।

तव चौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवीं वर्धति श्रवः ।

त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॥ २ ॥ ऋ० ८ । १५ । ८ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर (पौंस्यः) यह महान् आकाश और तारे-गण और (पृथिवी) पृथिवी (तव पौंस्यं) तेरे पौंस्य बल और (श्रवः) शक्ति को (वर्धति) बढ़ाते हैं । और (आपः) समस्त जल, मेघ, नदी,

समुद्र आदि और (पर्वतासः च) हिमाचल आदि पर्वत (त्वां हिन्विरे) तुम्हे ही बतला रहे हैं । मानो तेरी महिमा गा रहे हैं ।

त्वां विष्णुर्वृहन् क्षयों मित्रो गृणाति वरुणः ।

त्वां शश्वो मदत्यनु मारुतम् ॥ ३ ॥ ऋ० ८ । १५ । ९ ॥

भा०—हे ईश्वर ! (वृहन्) बड़ा (विष्णुः) व्यापक तेजस्वी सूर्य, (क्षयः) सबका निवास स्थान पृथिवी, (मित्रः) मरण से बचाने वाला अन्न या जल और (वरुणः) सबको आवरण करने वाला मेघ आकाश, (त्वां गृणाति) तेरी स्तुति करते हैं । और (मारुतं शश्वः) वायु का महान् बल भी (त्वाम् अनु मदति) तेरे ही इच्छानुकूल प्रसन्न होकर चलता है ।

[१०७] परमेश्वर

समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः ।

समुद्रायैव सिन्धवः ॥ १ ॥ ऋ० ८ । ६ । ४ ॥

भा०—(समुद्राय सिन्धवः इव) समुद्र को प्राप्त होने के लिये जिस प्रकार नदियाँ झुकी चली जाती हैं उसी प्रकार (अस्य मन्यवे) इसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिये या इसके 'मन्यु', संसार को स्तम्भन करने वाले महान् सामर्थ्य के आगे (विश्वा विशः) राजा के आगे प्रजाओं के समान समस्त (कृष्टयः) मनुष्य (नमन्त) आदर से स्वभावतः झुकते हैं ।

ओजस्तदस्य तित्तिष उभे यत् समवर्तयत् ।

इन्द्रश्चर्मैव रोदसी ॥ २ ॥ ऋ० ८ । ६ । ५ ॥

भा०—(चर्म इव) जिस प्रकार चमड़े या मृगछाला को कोई जब चाहे दिछा देता और जब चाहे लपेट लेता है उसी प्रकार (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर (यत्) जो (उभे रोदसी) पृथ्वी और आकाश दोनों लोकों

को (सम् भवर्तयत्) बनाता है । (तत्) वह (अस्य) इस परमेश्वर का (श्रोत्रः) महान् पराक्रम ही (तित्विये) चमक रहा है, स्पष्ट प्रतीत होता है । अर्थात् पृथ्वी आकाश आदि का सुगमवा से पैदा होना और बने रहना यह ईश्वरी शक्ति का विलास है ।

वि चिद् वृत्रस्य दोषतो वज्रेण शतपर्वणा ।

शिरो विभेद वृष्णिना ॥३॥

भा०—(चिद्) जिस प्रकार (दोषतः) जगत् को भय से कंपा देने वाले दुष्ट पुरुष के (शिरः) शिर को राजा (शतपर्वणा) सैकड़ों पौह वाले (वज्रेण) शस्त्रों से (विभेद) तोड़ डालता है उसी प्रकार जगत् को कंपाने वाले (वृत्रस्य) सबको धावरण करने वाले समस्त अज्ञान के और प्रकृति के विकार स्वरूप महत् तत्व के (शिरः) शिर, मुख्य भाग को (वृष्णिना) बलवान् (शतपर्वणा) सैकड़ों सामर्थ्यों वाले या सैकड़ों पर्व या काल अवयवों से युक्त कालरु (वज्रेण) धीरे से, मेघ को सूर्य के समान (विभेद) क्षिप्त भिन्न कर देता है ।

तदिदांसु भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जलं उग्रस्त्रेपनुभूः ।

सुधे जङ्घानो नि रिणाति शत्रून्नु यदेतं मदन्ति विश्व ऊर्माः ॥४॥

चात्रधानः शर्वला भूयोज्ञाः शत्रुर्दासाय भियसं दधाति ।

अव्यनच्च व्यनच्च सस्ति सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥५॥

त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमाः ।

स्वाद्रोः स्वादीयः स्वा दुनां सृजा समदः सु मधु मधुनाभि योत्रीः ६

यदि त्रिभु त्वा धना जयन्तं रणे रणे अनुमदन्ति विप्राः ।

धोर्जायः शुभिनस्त्थिरमा तनुषु मा त्वा दभन् दुरेवांसः कृशोकाः ७

त्वया वयं शशङ्गहे रणेपु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि ।
 चोदयामि त्वा अपुष्टा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयोति ॥१॥
 नि तद् दक्षिणेऽवरे परे च यस्मिन्नाविधावसा दुरोरो ।
 आ स्थापयत् मातरं जिगत्नुमतं इन्वत् कवराणि भूरि ॥६॥
 स्तृष्व वन्मन् पुत्रवत्मानं सप्तभ्राणमिनतममाप्तमाप्तवानाम् ।
 आ दर्शति शवसा भूयोजाः प्र संक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥१०॥
 इमा ब्रह्म बृहदिवः कृणवदिन्द्राय शूपमभियः स्वर्पाः ।
 महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरश्विदु विश्वमणवत् तपस्वान् ११
 एवा महान् बृहदिवो अयर्वावोचत् स्वां तन्वमिन्द्रमेव ।
 स्वसारो मातरिभ्वरी अरिभे द्विन्वन्ति चैते शवसा वृधयन्ति च १२
 द्वित्रं देवानां केदुरनीकं ज्योतिमान् प्रदिशः सूर्य उद्यन् ।
 द्वित्राकरोति धुम्नैस्तमोसि विश्वांतारीद् दुरितानि शुक्रः ॥१३॥
 द्वित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमिन्द्रस्य वरुणस्त्राग्नेः । आप्राद्
 द्यात्रापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य अत्मा जगत्स्तस्थुपश्च ॥ १४ ॥

भा०—(४-१२) ये ६ मन्त्र देखो अथर्व० का० ५ । २ । १-६ ॥
 और (१३, १४) दोनो मन्त्रों की व्याख्या देखो अथर्व० १३।२।३४, ३५ ॥
 सूर्यो देवीमुपसं रोचमानां मय्यो न योषामभ्येति पृश्चात् ।

यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितव्यते प्रति भद्राय भद्रम् ॥१५॥

सू० १ । ११५ । २ ॥

भा०—(सूर्यः) सूर्य (देवीम्) प्रकाशमान (रोचमानाम्) स्वयं
 क्षान्तिमयी (उपसन्) उपा के (पश्चात्) पंछे २ (अभ्येति) चक्षता है ।

(यत्र) जहां (नरः) मनुष्य लोग (देवयन्तः) प्रकाशमान् दिव्य पदार्थों का श्रनुकरण करते हुए या उत्तम गुणों को धारण करते हुए (भद्राय) कल्याणकारी उत्तम पुरुष को (भद्रम् प्रति) कल्याणकारी, सुखप्रद साथी का प्रदान करते हुए (युगानि) युगल जोड़ें (वितन्वते) वनाते हैं । इधर और (न) उसी प्रकार (सूर्यः) मनुष्य भी (देवीम्) उत्तम गुणों से युक्त (रोचमानाम्) चित्त को हरने वाली (योषाम्) स्त्री के (पश्चात्) पीछे (अभि एति) चलता है और परिक्रमा करता है ।

[१०८] राजा, परमेश्वर ।

नृमेष ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ गायत्री, २ ककुप् ३ पुर उष्णिक् । त्वं सत्तन् ॥

त्वं न इन्द्रा भरुं श्रोजां नृम्यां शतक्रतो विचर्षणे ।

आ शिरं पृतनापहम् ॥१॥ अ० ८ । ९९ । १० ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! राजन् ! परमेश्वर ! (त्वं) तू (नः) हमें (श्राजः) वीर्य, बल, पराक्रम (आ भर) प्रदान कर । हे (शतक्रतो) सैकड़ों प्रज्ञावाले ! हे (विचर्षणे) विशेष रूप से सब के द्रष्टा ! तू हमें (नृम्याम्) धन और (पृतना-सहम्) शत्रुसेना को पराजित करने हारे (वीरम्) वीर पुरुष को (आ भर) प्रदान कर ।

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो वभूविथ ।

अथा ते सुम्नर्मांमहे ॥ २ ॥ अ० १० । ८ । ९९ । ११ ॥

भा०—हे (वसो) सबको बसाने हारे ! सब में बसने हारे, व्यापक ! हे (शतक्रतो) सैकड़ों प्रज्ञाओं और बलों से युक्त ! क्योंकि (त्वं हि) तू ही- (नः) हमारे (पिता) पिता के समान पालक, उत्पादक और (माता) माता के समान स्नेही, उत्पादक और शिक्षक (वभूविथ) है । (अथा) इसीसे (ते) तुम्हारे हम (सुम्नम्) सुख की (ईमहे) याचना करते हैं ।

इसी प्रकार राजा भी प्रजा का माता पिता के समान जेह से पालन करे, उसको ऐश्वर्य प्रदान करे ।

त्वां शुभिन् पुरुहूत वाजयन्तमुपं द्रुवे शतक्रतो ।

स नो रास्व सुवीर्यम् ॥३॥ ऋ० = १९९।१२ ॥

भा०—हे (पुरुहूत) बहुतसी प्रजाओं से नित्य पुकारे जाने योग्य ! हे (शतक्रतो) अनन्त प्रजावाले ! हे (शुभिन्) बलवान् ! (वाजयन्तम्) ऐश्वर्य प्रदान करने वाले (त्वाम्) तेरी मैं (उप द्रुवे) स्तुति करता हूँ । (सः) वह तू (नः) हमें (वीर्यम्) उत्तम वीर्य, बल (रास्व) प्रदान कर ।

[१०६] राजा, आत्मा, और परमात्मा ।

गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । ककुभः । वृचं सक्तम् ॥

स्वादोरित्था विपूवतो मध्वः पिवन्ति गौर्यैः ।

या इन्द्रेण स्यावरी वृष्णा मदन्ति शोभसे वस्त्रिरनुं स्वराज्यम् ॥१॥

ऋ० १ । २४ । १० ॥

भा०—जिस प्रकार (विपूवतः) व्याप्त तेज वाले सूर्य की (गौर्यैः) श्वेत किरणों (मध्वः पिवन्ति) जल का पान करती हैं । उसी प्रकार (गौर्यैः) पृथ्वी पर रमण करने वाली प्रजाएं (विपूवतः) व्यापक, विस्तृत राज्य वाले राजा, 'इन्द्र' के अधीन रह कर (स्वादोः) अति मधुर (मध्वः) अन्न और ऐश्वर्य का (पिवन्ति) रस के समान पान करती, भोग करती हैं । (याः) जो प्रजाएं (वृष्णा इन्द्रेण) बलवान् परमेश्वर के साथ (स्यावरीः) नित्य गमन करने वाली, (वस्वीः) धनैश्वर्य युक्त अथवा प्रजाएँ नित्य, सदा से बसी हुई (शोभसे) अपने अधिक ऐश्वर्य शोभा के लिये (स्वराज्यम्) अपने स्वतन्त्र राज्य शासन के अनुकूल रह कर ही (मदन्ति) सदा आनन्द प्रसन्न रहती हैं ।

अध्यात्म में—(गौर्यः) गौ, ज्ञानवाणियों में रमण करने वाली
 आत्मसाधक प्रजापं (विपूवतः) व्यापक (स्वादोः मध्वः) सुस्वादु ब्रह्मरस
 का आस्वादन करती हैं । वे (इन्द्रेण सयावरीः) आत्मा या परमेश्वर के
 साथ नित्य प्राप्त होकर भी (शोभसे) अपनी विभूति के निमित्त (स्व-
 राज्यम् अनु) अपने स्व=आत्मा के प्रकाश के अनुसार ही (मदान्ति)
 आनन्द लाभ करती हैं ।

आत्मा को अपने सात्विक भाव के अनुसार ही ब्रह्मरस की प्राप्ति होती
 है । अधिक सात्विक पुरुष अधिक आनन्द उठाते हैं ।

ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्यः ।

प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायकं वस्वीरन्तु स्वराज्यम् २

भा०—(ताः) वे (पृश्यः) नाना वर्गों की या हृष्ट पुष्ट (पृशना-
 युवः) परस्पर के स्पर्श या सम्पर्क या परस्पर प्रेम को चाहती हुई, सुसंग-
 ठित होकर (अस्य) इस राष्ट्र के लिये (सोमम्) राज्य, ऐश्वर्य को
 (श्रीणन्ति) परिपक्व करती हैं, उसकी रक्षा करती और उसकी वृद्धि
 करती हैं । (धेनवः) रसपान करानेहारी गौवों के समान (प्रियाः) अति
 प्रिय प्रजापं (स्वराज्यम् अनु वस्वीः) अपने स्वायत्त राज्य के कारण अति
 ऐश्वर्यवती होकर ही (सायकम्) शत्रुओं के अन्त कर देने वाले (वज्रं)
 शत्रुनिवारक बल या शस्त्रों को भी (हिन्वन्ति) शत्रु पर प्रहार करती हैं ।

ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः ।

व्रतान्यस्य सश्विरे पुत्राणि पूर्वचित्तये वस्वीरन्तु स्वराज्यम् ॥३॥

भा०—(ताः) वे प्रजापं (प्रचेतसः) उत्कृष्ट ज्ञानवान् होकर (अस्य)
 इस अपने राष्ट्रपति के (सहः) शत्रु पराजयकारी बल का (नमसा)
 आदर से या अज्ञादि पदार्थों से (सपर्यन्ति) सत्कार करती हैं और
 (अस्य) इसके बने (पुत्राणि) बहुतसे प्रजापालन सम्बन्धी (प्रदानि)

नियमों का (स्वराज्यम् धनु वस्त्रीः) स्वायत्त राज्य शासन के द्वारा ऐश्वर्य-
वान् होकर (पूर्वचित्तये) अपने आप पूर्ण ज्ञानवान् या पूरी रीति से सचेत
और उत्तरदायी होने के लिये (सश्विरे) पालन करती हैं।

[११०] परम त्मा, आत्मा।

सुतकक्षः सुकक्षो वा क्षयिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । त्वं बलन् ॥

इन्द्राय मद्भने सुतं परिं द्योभन्तु नो गिरः ।

अर्कर्मचन्तु कारवः ॥१॥ ऋ० ८ । १२ । १९ ॥

भा०—(मद्भने) हर्ष और आनन्दस्वरूप का सेवन करने वाले
(इन्द्राय) साक्षात् द्रष्टा, आत्मा के (सुतन्) ऐश्वर्य को लक्ष्य करके (नः
गिरः) हमारी वाणियां (परि स्तोभन्तु) स्तुतियां करती हैं। (अर्कम्)
उत्तम अर्चना योग्य, सूर्य के समान तेजस्वी परमेश्वर की (कारवः) उत्तम
विद्वान् पुरुष (अर्चन्तु) स्तुति करते हैं।

यस्मिन् विश्वा अग्निं श्रियो रक्षन्ति सप्त संसदः ।

इन्द्रं सुते हवामहे ॥२॥ ऋ० ८ । १२ । ३ ॥

भा०—(यस्मिन् अग्निं) जिसके आश्रय पर (विश्वाः श्रियः)
समस्त सेवन करने योग्य लक्ष्मियां और समस्त शोभाएं और (सप्त
संसदः) सात संसत्, राजा के आश्रय सात संसत्, राष्ट्र संस्थाओं के
समान परमेश्वर के आश्रय सात लोक, और आत्मा के आश्रयभूत शरीर
के सात प्राण या सात धानुएं (रक्षन्ति) शोभा देती हैं (इन्द्रम्)
आत्मा को लक्ष्य करके (सुते) परम आनन्द रस प्राप्त होने पर (हवामहे)
हम स्तुति किया करते हैं।

त्रिकटुकेषु चेतनं देवासो अज्ञमन्तत ।

तमिदं वर्धन्तु नो गिरः ॥३॥ ऋ० ८ । १२ । २१ ॥

भा०—(त्रिकटुकेषु) तीनों लोकों में (देवासः) दिव्य, तेजोमय महान् शक्तियां (चेतनम्) एक चेतनस्वरूप, सबके भीतर ज्ञाता रूप से विद्यमान (यज्ञम्) सबको संगत करने वाले, परस्पर मिलाए रखने वाले, परम पूजनीय, सबको शक्ति देने वाले परमेश्वर को (अतन्त) विस्तृत करते हैं। उसी के सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। (नः गिरः) हमारी वाणियां भी (तम् इत्) उस परमेश्वर को ही (वर्धन्तु) बढ़ाती हैं उसी का यश फैलाती हैं।

आत्मा के पक्ष में—(त्रिकटुकेषु) ज्योति, गौः आयु अर्थात् मन इन्द्रिय-गण और जीवन इन तीन रूपों में (देवासः) प्राणगण (चेतनं यज्ञम्) चेतन आत्मा को ही (अतन्त) विस्तृत करते हैं उसके ही सामर्थ्यों का विस्तार प्रकट करते हैं अथवा (देवासः) चिदान्गण सर्वत्र उसी परमेश्वर या आत्मा के सामर्थ्यों का निरूपण करते हैं (इम् इत् नः गिरः वर्धन्तु) उसी को हमारी वाणियां भी प्रकट करती हैं।

[१११] आत्मा ।

पर्वत-ऋषिः । सोमो देवता । उष्णिहः । तृचं चक्षन् ॥

यत् सोममिन्द्र विष्णोषि यद्वा घञ्जित आप्तये ।

यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥१॥ अ० २ । १२ । १७ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! साक्षात् अपने स्वरूप का दर्शन करने हारे (यत्) जब तू (विष्णोषि) व्यापक परमेश्वर के ध्यान में मग्न होकर (सोमम् मन्दसे) परम ऐश्वर्य को भरपूर प्राप्त करके ध्यानन्वित होता है और (यद् वा घ) जब भी तू (आप्तये) प्राणों के परिपालक (त्रते) सबसे उत्कृष्ट अपने ही स्वरूप में (सोमं मन्दसे) आनन्दरस या ऐश्वर्य को लाभ कर तृप्त होता है और (यद् वा) जब भी (मरुत्सु) प्राणों के

बीच में (मन्दसे) आनन्द लाभ करता है तब २ (इन्दुभिः सम् मन्दसे) ऐश्वर्यो और हृदय को द्रवित करने वाले रसों से ही तृप्त होता है ।
यद्वा शक्र परावति समुद्रे अधि मन्दसे ।

अस्माकमित् सुते रंगा समिन्दुभिः ॥२॥ अ० ८। १२। १७ ॥

भा०—(यद्वा) और जब भी हे (शक्र) शक्तिशालिन् आत्मन् ! तू (परावति) दूर विद्यमान (समुद्रे) रसों के परम भण्डार, समस्त लोकों के उद्भवस्थान परमेश्वर रूप परम रससागर में (अधि मन्दसे) आनन्दरस का लाभ करता है तब भी (अस्माकम् इत् सुते) हमारे ही अपने सेवन किये योगादि साधनों से प्राप्त आनन्द में (इन्दुभिः सम् रण) हृदय को द्रवित करने वाले परमानन्दों से ही रमण करता है ।

यद्वासि सुन्वतो वृधो यजमानस्य सत्पते ।

उक्थे वा यस्य ररायसि समिन्दुभिः ॥३॥ अ० ८। १२। २॥

भा०—हे (सत्पते) सज्जनों के प्रतिपालक ! हे सत् परमेश्वर के स्वरूप तक पहुंचने वाले आत्मन् ! (यत् वा) जब भी तू (सुन्वतः यजमानस्य) सदन क्रिया, उपासना और योगसाधना करने वाले एवं (यजमानस्य) देव पूजन करने वाले पुरुष की (वृधः) वृद्धि करता है (वा) और (यस्य उक्थे) जिस किलो के भी कहे स्तुति, वचन में (ररायसि) आनन्द अनुभव करता है तब भी तू (इन्दुभिः सम्) हृदय को द्रवित करने वाले अपने ही आनन्द, रसों में तृप्त होता है ।

[११२] आत्मा और राजा ।

सुव्यश्निः । इन्दो देवता । रणिगहः । वृचं इत्तन् ॥

यद्य कच्च वृत्रहृद्गदा अभि सूर्य ।

सर्वे तदिन्द्र ते वशं ॥१॥ अ० ८। १३। ४ ॥

भा०—हे (वृत्रहन्) मेघों को अपने प्रखर तेज से विनाश करने वाले सूर्य के समान अपने तेजों से आवरणकारी अज्ञान पटलों के नाशक हे (सूर्य) सूर्य के समान तेजस्विन् ! सबके प्रेरक ! एवं राजन् ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् आत्मन् ! (यत् शब्द) जब आज के समान नित्य (सम् अभि) जिस पदार्थ को भी लक्ष्य करके तू (उत् अगाः) उदय होता है, उठता है (तत् सर्वं) वह सब भी (ते वशे) तेरे वश में हो जाता है ।

यद्वा प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे ।

उतो तत् सत्यमित् तव ॥ २ ॥ ऋ० ८ । ८३ । ५ ॥

भा०—हे (सत्पते) सत् तत्व के पालक, सत्स्वरूप अविनाशिन् ! (यत् वा) और जब भी तू (प्रवृद्धः) अति शक्तिशाली होजाता है तब (न मरा) तू कभी नहीं मरता (इति) ऐसा ही (मन्यसे) जाना जाता था तू स्वयं जाना करता है । (उतो) और (तत्) वह (तव) तेरा (सत्यम् इत्) सत्य स्वरूप ही है, वही तेरा 'सत्' परमेश्वर में वर्तमान स्वरूप है ।

ये सोमांसः परावति ये अर्वावति सुन्विरे ।

सर्वास्ताँ इन्द्रं गच्छसि ॥३॥ ऋ० ८ । ८३ । ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (ये) जो (सोमांसः) आनन्दरस या ऐश्वर्य के (परावति) परम पद मोक्ष में स्थित, परमेश्वर और (अर्वावति) समीप में स्थित अपने आत्मा के भीतर (सुन्विरे) सवन किये जाते हैं, अनुभव किये जाते हैं (तान् सर्वान् गच्छसि) तू उन सब को ही प्राप्त होता है ।

राजा के पक्ष में—जो ऐश्वर्य दूर और समीप के देशों में उत्पन्न होते हैं तू उन सबको प्राप्त होता है ।

[११३] राजा, सूर्य और परमेश्वर ।

मगं अग्निः । इन्द्रो देवता । प्रगायः । इयुवं वचनम् ॥

उभयं शृणुवच्च न इन्द्रो अर्वाग्निं वचः ।

सुत्राद्या मघवा सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत् ॥१॥

ऋ० ८।६१।१॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजा, (अर्वाक्) साक्षात् (नः) हमारे (इयं) इस (उभयम्) अपने अनुकूल और अपने प्रतिकूल दोनों प्रकार के (वचः) वचन को (शृणुवत्) सुने। वह (सोमपीतये) सोमपान करने, राष्ट्र के पालन करने के लिये (मघवा) ऐश्वर्यवान् होकर (सुत्राद्या धिया) विवेकपूर्वक सत्य मात्र के ग्रहण करने वाली बुद्धि से (शविष्ठः) अति बलवान् होकर (आ गमत्) प्राप्त हो।

ईश्वर के पक्ष में—इन्द्र परमेश्वर हमारे वैदिक और लौकिक, ऐहिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार के वचन सुने, वह सदा विद्यमान धारणा-शक्ति से युक्त सर्व शक्तिमान् होकर हमें आनन्दरस प्राप्त कराने के लिये प्राप्त हो।

तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसे धिपणे निष्टुत्ततुः ।

उतोऽमानां प्रथमो नि पीदसि सोमज्ञामं हि ते मनः ॥२॥

ऋ० ८।६१।२॥

भा०—(स्वराजं) स्वयं अपने बल और तेज से प्रकाशमान, (वृषभम्) श्रेष्ठ, (तम् हि) उस पुरुष को (धिपणे) समस्त विश्व को धारण करने वाले आकाश और पृथिवी जिस प्रकार सूर्य को (ओजसे) पराक्रम के कार्य के लिये समर्थ करती हैं उसी प्रकार (तम्) उस वीर पुरुष को (धिपणे) धारण में समर्थ नर और नारीगण अथवा राजा-प्रजावर्ग मिलकर (ओजसे) बल पराक्रम की वृद्धि के लिये (निः ततुत्ततुः) अपना

राजा बनाते हैं। हे इन्द्र ! राजन् ! तू भी (उपमानाम्) अपने समान
अन्यों के बीच में (प्रथमः) सबसे श्रेष्ठ होकर (निपीदसि) विराजता
है। (ते मनः हि) तेरा मन भी अवश्य (सोमकामं) राष्ट्रैश्वर्य की
कामना करता है।

[११४] राजा और आत्मा ।

सौमरिऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री । द्वयुवं वृत्तम् ॥

अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्रं जनुपां सनादांसि ।

युद्धेदापित्वाभिच्छसे ॥१॥ ऋ० ८ । २१ । १३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! राजन् ! आत्मन ! तू (जनुपा) जन्म से
ही, स्वभाव से ही। (अभ्रातृव्यः) शत्रुरहित है। तू (अनाः) नेतारहित
है, अर्थात् तू सबका नेता है, तेरा कोई नेता नहीं। (अनापिः) तेरा कोई
बन्धु नहीं प्रत्युत तू सबका बन्धु है, तू (सनात् असि) चिरन्तन, पुराण
पुत्र है, सबसे अधिक पुरातन सनातन है, तू भी (युधा इत्) युद्ध
द्वारा ही (आपिबम्) शत्रुपक्ष से बन्धुता सन्धि द्वारा मेल (इच्छसे)
चाहता है। अर्थात् युद्ध करके ही शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता है।

परमेश्वर के पक्ष में—उसका कोई न शत्रु है, न बन्धु, उसका कोई
नार्यक नहीं, अतः (अनाः) विनायक है। वह सनातन है, (युधा) योग
द्वारा ही वह आत्मा का बन्धु होना चाहता है।

नर्का रेवन्तं सुख्याय विन्दसे पीयान्ति ते सुराश्वः ।

युद्धा कृणोषि नदन्तं समूहस्यादित् पितेव ह्यसे ॥२॥

ऋ० ८ । २१ । १४ ॥

भा०—हे इन्द्र ! राजन् ! तू (सुख्याय) अपने मित्रता के लिये भी
(रेवन्तं) केवल धनवान् स्वयं भोग्या, बंजूस को (नकिः) कभी भी

नहीं (विन्दसे) प्राप्त करता है, क्योंकि वे (सुराश्वः) सुरा, राज्यलक्ष्मी-
से समृद्ध, एवं सुरा, मदकारी पदार्थों के सेवन से मदमत्त होकर (ते)
तेरे उत्तम जनों को (पीयन्नि) विनाश किया करते हैं । (यदा) जब तू-
(नदनुम्) मेघ के समान गर्जन करता है तब (सम् जहासि) तू भली
प्रकार मेघ के समान ही समृद्धियों को भी प्राप्त कराता है और (आत् इत्)
तभी प्रजाओं द्वारा (पिता इव) पालक पिता के समान (ह्यसे)
पुकारा जाता है ।

[११५] राजा, परमेश्वर ।

वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । वृचं सक्तम् ॥

अहमिद्धि पितुर्परि मेधामृतस्य जज्रभं ।

अहं सूर्यं इवाजनि ॥२॥ ऋ० ८।६।१० ॥

भा०—(अहम् इत्) मैं ही केवल (ऋतस्य) सत्य ज्ञान, व्यक्त
जगत् और राष्ट्र के व्यवस्था कानून के और (पितुः) पालक प्रभु की
(मेधाम्) पवित्र सत्संगकारी बुद्धि को (परि जज्रभ) सत्र प्रकार से प्रदूषण
करता हूँ, धारण करता हूँ, इसलिये (अहं) मैं (सूर्य इव) सूर्य के समान
(अजनि) हो जाता हूँ ।

अहं प्रत्नेन मन्मना गिरिः शुम्भामि कएववत् ।

येनेन्द्रः शुम्भमिद् दूधे ॥२॥ ऋ० ८।६।१० ॥

भा०—(अहम्) मैं (प्रत्नेन) वदे पुरातन, सनातन से चले आये,
नित्य (मन्मना) वेदमय ज्ञान से (कएववत्) मेधावी ज्ञानी पुरुष के
समान (गिरिः) वाणियों को (शुम्भामि) प्रकट करता हूँ । (येन) जिस
से (इन्द्रः) इन्द्र ऐश्वर्यवान् राजा (शुम्भम्) बलको (इद्) ही (दधे)
धारण करता है । महा मन्त्री वेदानुकूल शाज्ञाओं को प्रकाशित करे जिस
से राजा का बल वदे ।

परमेश्वर ही के पुरातन ज्ञानरूप से वाणियों को प्रकट करता है जिस से जीवों के ज्ञानबल की वृद्धि होती है ।

ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवु ऋपंयो ये च तुष्टुवुः ।

ममेद् वर्धस्व सुष्टुतः ॥३॥ ऋ० ८।६।१२ ॥

भा०—हे राजन् ! (त्वम्) तेरी (ये) जो पुरुष (तुष्टुवुः) स्तुति नहीं करते और (ये च) जो (ऋपयः) साक्षात् मन्त्रदष्टा या तर्कशील विद्वान् होकर (तुष्टुवुः) स्तुति भी करते हैं, तुझे उपदेश भी करते हैं उन सब में (मम इत्) मेरी स्तुति द्वारा ही (सुष्टुतः) उत्तम रीति से स्तुति या उपदेश किया जाकर तू (वर्धस्व) वृद्धि को प्राप्त हो ।

परमेश्वर के पक्ष में—हे परमेश्वर जो तेरी स्तुति नहीं करते हैं और जो मन्त्रार्थदष्टा होकर तेरी स्तुति करते हैं उन सब में तू ही (सुष्टुतः) उत्तम स्तुति करने योग्य है । तू (मम इत् वर्धस्व) मेरी वृद्धि कर अथवा उनमें तू (मम सुष्टुतः सन् वर्धस्व) मेरे द्वारा उत्तम रीति से स्तुति किया जाकर वृद्धि को प्राप्त हो । अर्थात् उन सबसे अधिक मैं तेरी स्तुति करूँ, तेरे पक्ष को बढ़ाऊँ ।

[११६] आत्मा, परमेश्वर, राजा ।

मेध्यातिथिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहस्पतिः । इयं सूक्तम् ॥

मा भूम निष्ट्या इवेन्द्र त्वदरणा इव ।

चनान्नि न प्रजहितान्यद्रिचो दुरोपांसो अमन्महि ॥ १ ॥

ऋ० ८।१।१३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! राजन् ! हम (त्वत्) तेरी कृपा से कभी (निष्ट्याः इव) नीचों के समान संवरहित, निःसहाय और (अरण्याः इव) रण या रमण के अयोग्य, अशक्त, दुःखी (मा भूम) न होजावें । और (प्रजहितानि) छोड़ दिये गये या शास्त्र आदि से रहित, निःसहाय

(वनानि इव) वृक्षों के समान भी (मा भून्) न हों । हे (अग्निः)
 बज्रवन्, अभेद्य बल से युक्त ! हम (दुरोपासः) शत्रुओं से सन्ताप दिवों
 जाने योग्य कभी न होकर, अपने गृहों में युक्त से रहते हुए सदा तेरा
 (अमन्नाहि) स्मरण करें ।

प्रमन्मद्दिताशवांनुग्रासश्च वृत्रहन् ।

सहृद् स्तुतं महता शूर राधुस्तानु स्तोत्रं अनुदीमहि ॥२॥

६० ६।१।१४।।

भा०—हे (वृत्रहन्) शत्रुओं के नाशक ! विघ्ननाशक ! हम (अना-
 शवः) संग्राम में अति शीघ्र न होकर और (अनुग्रासः च) उग्र, भयंकर
 भी न होकर (अमन्नाहि इच्) ऐसा ही चाहते हैं कि (सहृद्) एक बार
 भी हे (शूर) शूरवीर ! (महता राधसा) तेरी बड़ी भारी आराधना से
 (स्तोत्रं) स्तुति के साथ (अनुदीमहि) अति आनन्द तृप्ति का
 लान करें ।

राजा के पक्ष में—हम (अनाशवः अनुग्रासश्च) जो सेना पुरुषों के
 समान तीव्रगामी हैं और जो उग्र बलवान् हैं । वे भी ऐसा चाहते हैं कि
 (ते राधसा) तेरे पुरुरव्य से एक बार (स्तोत्रं अनुदीमहि) तेरी स्तुति
 करके ही हम प्रसन्न हुआ करें, हमारा राजा बड़ा बलवान् है, ऐश्वर्यवान् है ।

[११७] राजा, आत्मा ।

कलिः शनिः । शशो देवता । विरान् । वृत्रं वृत्रन् ॥

पिषा स्तोत्रं निन्दु मन्दन्तु त्वा यं तं सृपावं हर्यश्वाङ्गिः ।

सोतुर्वाहुभ्यां सुयतो नावी ॥ २ ॥ ६० ७।२२।२ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! आत्मन् ! हे (स्तोत्रं पिष) स्तोत्र राष्ट्र के
 पुरुरव्य का पान कर, भोग कर । हे (हर्यश्च) तीव्रगति वाले घोड़ों से युक्त !

(यं) जिस राष्ट्रेश्वर्य को (अग्निः) तेरा अभेद्य वज्र, शासन (सुपाव) उत्पन्न करता है वह (त्वा) तुझे तृप्त करे, आनन्दप्रद हो। वह (सोतुः) आज्ञाकारी सर्वप्रेरक महामात्य की (बाहुभ्याम्) शत्रुओं को बाधन या पीड़ा देने वाली बाहुओं से, सेना बल से (सुयतः) उत्तम रीति से सुव्यवस्थित सुप्रबद्ध होकर (सुयतः अर्वा न) सुसंयत अश्व के समान सन्मार्ग पर चले।

यस्ते मदो युज्यश्चारुनस्ति येन वृत्राणि ह्यंश्व हंसि ।

स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥ २ ॥ अ० ७।२२।२ ॥

भा०—हे (हर्षश्व) वेगवान् अश्वों वाले ! (यः) जो (ते) तेरा (युज्यः) परस्पर संयोग, ससंग से प्राप्त होने वाला (चारुः) उत्तम (मदः) हर्ष या तृप्तिकर बल (अस्ति) है और (येन) जिससे तू (वृत्राणि) विघ्नकारी शत्रुओं को (हंसि) विनाश करता है हे (प्रभूवसो) अधिक ऐश्वर्यवाले ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (सः) वह (त्वाम्) तुझको (ममत्तु) आनन्द प्रसन्न रखे।

अध्यात्म में—(यः ते युज्यः चारुः मदः) जो तेरा योग समाधि से उत्पन्न व्यापक आनन्द है, जिससे हे (हर्षश्व) दुःखहारी प्राणों वाले जीव ! तू (वृत्राणि हंसि) बाधक तामस कारणों को विनष्ट करता है। (प्रभूवसो) अधिक सामर्थ्यवान् शरीरवासिन् जीव ! वह तुझे सदा आनन्दित रखे।

वाश्रा सु मे मघवन् वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम् ।

इमा ब्रह्मं सध्रमादे जुपस्व ॥ ३ ॥ अ० ७।२२।३ ॥

भा०—हे (मघवन्) ऐश्वर्यवान् ! (यां) जिस (प्रशस्तिम्) उत्तम शासन सम्बन्धी वाणी या शिक्षा को (वसिष्ठः) सदासे श्रेष्ठ पुरोहित विद्वान् (अर्चति) तेरे लिये उपदेश करता है उसका और (इमा)

इस (मे) मेरी (वाचम्) उत्तम वाणी को भी (सुबोध) उत्तम रीति से, जान और (सधसादे) एकत्र सुख अर्थात् हर्ष अनुभव करने के स्थान सभा भवन में भी (इमा ब्रह्म) इन ब्रह्म-वेदवचनों को (जुपस्व) प्रेम से सेवन कर ।

[११८] राजा ।

१, २ मर्गो ऋषिः । ३, ४ नेषातिधिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः ।

चतुर्व्रचं सक्तम् ।

शग्ध्युःपु शंचीपत् इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः ।

भगं न हि त्वां यशसं वसुचिद्रमनुं शूर चरामसि ॥ १ ॥

ऋ० ८ । ६१ । ५ ॥

भा०—हे (शचीपते) शक्ति के पालक ! हे (इन्द्र) शत्रुनाशक ! तू (विश्वाभिः) समस्त (उतिभिः) रक्षा साधनों से (सु शग्धि) उत्तम सुखकारी पदार्थ प्रदान कर । (भगं न) ऐश्वर्यवान् के समान (यशसं) यशस्वी (त्वा) तुझ को (वसुचिद्रम्) ऐश्वर्यों का देने वाला जानकर ही हे (शूर) शूरवीर हम (त्वा अनु चरामसि) तेरे पीछे अनुसरण करते हैं ।

पौरौ अश्वस्व पुरुहृद् गवामस्युत्सां देव हिरण्यः ।

नकिहि दानं परिमर्धिपत् त्वे यद्यद्यामि तदा भंर ॥ २ ॥

ऋ० ८ । ६१ । ६ ॥

भा०—हे (देव) दानशील देव ! तू (अश्वस्व पौरः), अश्वों को, पूर्य करने वाला और (गवाम् पुरुहृद्) गौ आदि पशु सम्पत्ति को बढ़ाने वाला और (हिरण्यः उत्सः) सुवर्ण आदि धनैश्वर्य का अक्षय कोष (अमि) है । (त्वे) तेरे दिये (दानम्) दान को (नकिः हि) कोई भी नहीं (परिमर्धिपत्) नाश कर सकता । हे राजन् (यत् यत्) जो जो

पदार्थ भी मैं (यामि) याचना करूं । तू (तत् तत्) वह (आ भर) प्राप्त करा ।

इन्द्रमिदं देवतांतय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे ।

इन्द्रं समीके वनिनो हवामहे इन्द्रं धनस्य सातये ॥ ३ ॥

अ० न । ३ । ५ ॥

भा०—(देवतांतये) देवों के लिये या दिव्यगुणों के प्राप्त करने और विद्वान् पुरुषों के उपकार के लिये (इन्द्रम् इत्) इन्द्र को ही हम (हवामहे) बुलाते हैं । (प्रयति अध्वरे) यज्ञ के प्रारम्भ में (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर का स्मरण करते हैं । (वनिनः) इन्द्र का मजन संवन करते हुए हम (इन्द्रम्) इन्द्र को (समीके) युद्ध में (हवामहे) बुलाते हैं । और (धनस्य सातये) धनके प्राप्त करने के लिये (इन्द्रं हवामहे) इन्द्र, ऐश्वर्यवान् का ही स्मरण करते हैं ।

इन्द्रो मह्ना रोदसी पप्रयच्छुच इन्द्रः सूर्यमरोचयत् ।

इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिरे इन्द्रं सुवानास इन्द्रवः ॥ ४ ॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ही (शवः मह्ना) अपने बलके महान् सामर्थ्य से (रोदसी) धौं और पृथिवी दोनों लोकों को (पप्रयत्) विस्तृत करता है । (इन्द्रः) वह ईश्वर ही (सूर्यम् अरोचयत्) सूर्य को प्रकाशित करता है । (विश्वा भुवनानि) समस्त लोक (इन्द्रे) इस महान् परमेश्वर के आश्रय पर ही (येमिरे) नियम में व्यवस्थित है । (इन्द्रे) परमेश्वर के आश्रय पर ही (सुवानासः) समस्त जीवों को स्तपन करते हुए (इन्द्रवः) द्रव पदार्थ जल आदि, एवं प्राकृतिक तेजस्वी पदार्थ नियम से कार्य कर रहे हैं ।

[११६] ईश्वर ।

१. आसुः शुद्धिर्द्विः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुभी । द्रव्यं दक्षन् ॥

अस्तावि मन्मं पूर्यं ब्रह्मेन्द्राय वोक्तत ।

पूर्वोक्तस्य बृहतीरनूपत स्तोतुर्मेधा असृजत ॥ १ ॥

ऋ० ८ । ५२ । ९ ॥

भा०—(पूर्यम्) सबसे पूर्व विद्यमान (मन्म) मनन करने योग्य ज्ञान को (अस्तावि) वर्णन किया जाता है । वही (ब्रह्म) महान् ज्ञान है विद्वान् पुरुषो ! (इन्द्राय) परमेश्वर के निरूपण करने के लिये (वोक्तत) उच्चारण करो । (ऋतस्य) सत्य ज्ञान, वेद के ज्ञान से (पूर्वीः) पूर्ण (बृहतीः) वाणियों को (अनूपत्) स्तुतिरूप से कहे । और (स्तोतुः) अर्थार्थ बचन कहने वाले पुरुष की (मेधाः) उत्तम बुद्धिभां आप से आप (असृजत) उत्पन्न होती हैं ।

तुरग्यञ्चो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रांसो अर्कमानृचुः ।

अस्मे रयिः पप्रथे वृण्यं शत्रोस्मे सुवानास इन्द्रवः ॥ २ ॥

ऋ० ८ । ५२ । १० ॥

भा०—(तुरग्यवः) अति शीघ्रता से कार्य सम्पादन करने वाले अप्रमादी, (विप्रासः) बुद्धिमान्, विद्वान् पुरुष (मधुमन्तम्) ज्ञानवान्, (घृतश्चुतम्) तेज के देने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, (अर्कम्) स्तुति करने योग्य परमेश्वर की (आनृचुः) स्तुति करते हैं । वह (अस्मे) हमारे लिये (रयिः) समस्त ऐश्वर्य (पप्रथे) विस्तृत करता है । (सुवानासः) अभिषेक करने वाले (इन्द्रवः) ऐश्वर्य और (वृण्यं शत्रोः) बलवान् पुरुषों का बल सब (अस्मे) हमें प्राप्त हो ।

[१२०] परमेश्वर ।

देवादिभिर्भयिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः । इष्टुं चकम् ॥

यदिन्द्र प्रागप्रागुद्भू न्यग्वा नृचसे नृभिः ।

सिमां पुरु नृपूतो अस्यान्वोसिं प्रशर्त्तुर्वशे ॥ १ ॥ ऋ० ८ । ५१ । १ ।

भा०—(यत्) क्योंकि हे (इन्द्र) इन्द्र ! परमेश्वर ! तू (नृभिः) मनुष्यों से (प्राक्) पूर्व से, (अपाक्) पश्चिम से, (उदङ्) उत्तर से और (न्यङ्) नीचे से भी अर्थात् आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से (हूयसे) बुलाया जाता है । हे (सिम) सर्वश्रेष्ठ ! हे (प्रशर्ध) उत्कृष्ट बलशालिन् ! शत्रुनाशक ! तू (पुरु) बहुत अधिक (ज्ञानवे) प्राणधारी, विद्वान् पुरुषों और (तुर्वशे) धर्मार्थ काम, मोक्ष के अभिलाषी, कामनावान् पुरुषों के बीच में उनके भले के लिये (नृपूतः) नेता पुरुषों द्वारा अभिषिक्त, पूजित, उपासित (असि) होता है ।

यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृपे इन्द्र मादयसे सचा ।

कएवासस्तुवा ब्रह्मभि स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥ २ ॥

श० ८ । ४ । २ ॥

भा०—(यद् वा) और हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! परमात्मन् ! तू (रुमे) उपदेश और श्रुतिसम्पन्न ज्ञानी पुरुष में, (रुशमे) हिंसाकारी चरित्र पुरुष में, (श्यावके) देश देशान्तर जाने वाले व्यापारी पुरुष में और (कृपे) शारीरिक शक्ति वाले, भ्रमी पुरुष में, इन चारों में (सचा) समान भाव से (मादयसे) स्वयं तृप्त, आनन्दमय, एवं सबके आत्मा को आनन्दित करता है । (स्तोमवाहसः) स्तुतियों को धारण करने वाले, (कएवासः) मेधावी विद्वान् पुरुष (ब्रह्मभिः) ब्रह्म, वेदमन्त्रों से, हे (इन्द्र) ईश्वर ! (यच्छन्ति) तुझे स्मरण करते हैं । तू (आगहि) साक्षात् प्राप्त हो, दर्शन दे ।

[१२१]

वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः । इत्युच्यते ॥

अभि त्वा शूर नोनुमोऽङ्गुश्रा इव धेनवः ।

ईशानमस्य जगतः स्वर्दशभीशानमिन्द्र तस्युपः ॥ २ ॥ श० ७ ३२ । २ ॥

भा०—हे (शूर) शूर, सब पदार्थों के वेगो देनेहारे ईश्वर ! (अदुग्धा घेनवः इव) दोहने योग्य, दुग्धार गौवें, जिनको अभी दुग्धा न गया हो वे जिस प्रकार अपने स्वामी के प्रति स्नेह से आती हैं उसी प्रकार हम (स्वर्ग्यम्) सूर्य के समान सब के द्रष्टा (अत्य जगतः) इस जगत्, जन्म संसार और (तत्पुत्रः) स्थवर संसार के (ईशानम्) स्वामी तुम्हको (अभि नोनुमः) लक्ष्य करके स्तुति करते हैं ।

न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जनिष्यते ।

अश्वान्तो मघवन्निन्द्र उजिनो गज्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २ ॥

श० ७ । ३२ । २३ ॥ ३

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (त्वावान्) तुम्हको (अन्वः) दूसरा (न दिव्यः न पार्थिवः) न आकाश में और न पृथिवी में (न जनिः न जनिष्यते) न पैदा हुआ है और न पैदा होगा । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवान् ! हम (अश्वान्तः) अश्वों की कामना करते हुए और (गज्यन्तः) गौश्रों की कामना करते हुए (वाजिनः) शत्रु और धनों के स्वामी होकर (त्वा हवामहे) तेरी स्तुति करते हैं ।

[१२२] ऐश्वर्यवान् राष्ट्र, गृहस्थ और राजा ।

शुनःशेष श्रुतिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । त्वं सत्तम् ॥

रेवतीर्निः सधमाद् इन्द्रं सन्तु तृविवाजाः जुमन्तो यासिर्मदेम ॥ १ ॥

श० १ । ३० । १३ ॥

भा०—(जुमन्तः) अन्न धन आदि से सम्पन्न होकर (याभिः) जिन दिव्यों और उत्तम प्रजाओं के साथ हम (नदेम) आनन्दयुक्त और प्रसन्न रहें वे (तृविवाजाः) बहुत बलवान्, ज्ञानवान् और (रेवतीः) ऐश्वर्य और सौभाग्यवती होकर (इन्द्रे) ऐश्वर्यवान् राष्ट्र या गृहस्थ में,

(नः) हमारे (सधमादः) साथ आनन्द, और हर्ष वृत्ति, तुष्टि लाभ करने वाली (सन्तु) हों ।

आ घृ त्वाग्रान् त्मनास स्तोतृभ्यां धृष्णविद्यानः ।

अग्र्योरक्षं न चक्रयोः ॥ २ ॥ अ० १ । ३० । १४ ॥

भा०—हे (धृष्णो) विपक्ष के धर्षण करने हारे ! अति प्रगल्भ ! राजन् ! (चक्रयोः) रथ के चक्रों का (अक्षं न) अक्ष जिस प्रकार अर्यों द्वारा चक्रों को अपने में धारण करके रथ को तो सम्भालता ही है और स्वयं भी अपने को सम्भाले रहता है इसी प्रकार तू भी अपने ऊपर स्वयं और पर राष्ट्र के चक्रों को अपने नीति बल से धारण करके भी तू (त्वावान्) अपने जैसा ही अद्वितीय होकर, (त्मना आसः) स्वयं अपने आत्म सामर्थ्य से स्थिर होकर (स्तोतृभ्यः) स्तोता, विद्वान् पुरुषों के लिये (इद्यानः) प्रार्थित होकर उनको अभिमत पदार्थ (आ अग्र्योः) प्राप्त कराता है ।

आ यद् दुवः शतक्रतुवा कामं जरितृणाम् ।

अग्र्योरक्षं न शचीभिः ॥ ३ ॥ अ० १ । ३० । १५ ॥

भा०—(शचीभिः अक्षं न) वहन करने वाली शक्तियों से प्रेरित होकर 'अक्ष' घुरा जिस प्रकार दूर स्थान पर स्थित पहुंचाता और अभिमत फल को प्राप्त कराता है उसी प्रकार, हे (शतक्रतो) सैकड़ों प्रजाओं और कर्मों में कुशल विद्वन् ! तू (जरितृणाम्) विद्वान्, यथार्थ गुणों के प्रवक्ता पुरुषों को (दुवः) परिचर्या, सेवा को प्राप्त कर उनके (कामं) अभिलषित इच्छा के अनुकूल पदार्थ को (आ अग्र्योः) प्राप्त कराता है ।

[१२३] सूर्य और राजा ।

कुल्ल शपिः । सूर्यो देवता । त्रिष्टुभौ । द्वयं सक्तन् ॥

तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्त्तवित्तुं सं जमार ।
यदेद्युक्त हरितः सुधस्यादाद्रात्री वासस्तसुते विमस्मै ॥१०॥

भा०—(सूर्ये) सूर्ये का, यही (देवत्वम्) देवत्व, दानशीलता है और (तत् महित्वम्) वह बड़ा महान् सामर्थ्य है जो (मध्या) अन्तर्दि के बीच में से (वित्तुं) वित्तृत नेश को भी (सं जमार) संहार कर देता है । और (यत्) जब (सधस्यात्) अपने एकत्र होने के केंद्र से (हरितः) रत्न हरण करने वाले किरणों को (अद्युक्त) डालता है (आत्) तभी (रात्री) रात्रि को और (वासः) दिन को भी (विमस्मै) समस्त जगत के लिये (तसुते) फैलाता है, करता है ।

राजा के पद में—(सूर्यस्य तत् देवत्वम्) सूर्य के समान सर्वदोष नेशस्त्री राजा की वह दानशीलता और (तत् महित्वम्) वह महान् सामर्थ्य है कि (कर्त्ताः मध्या) कार्य के बीच में (वित्तुं) वित्तृत शत्रुरूप विजय को भी (सं जमार) संहार करदे । (यत्) जब वह (सधस्यात्) हीतः अद्युक्त) अपने राजसभा से आज्ञा लेवाने वाले सदेशहरों को और किरणों के समान अधिकारियों को नियुक्त करता है तभी (रात्री) रात्रि के समान सुखदायी राज्यव्यवस्था और (वासः) दिन के समान आच्छादक शरण (विमस्मै) सबके लिये समान रूप से (तसुते) कर देता है ।

तन्मित्रस्य वरुणस्यामित्रज्ञे सूर्यो रूपं हंसते चोत्पत्थे ।

अन्तमन्वद् रशदस्य पाजः कृष्णमन्वद् हरितः सं भरन्ति ॥११॥

भा०—(सूर्यः) सूर्य (तोः उत्पत्थे) अरुण के बीच में स्थित होकर भी (मित्रस्य) 'मित्र' नाम भार, वायु और (वरुणस्य) वरुण अर्थात् नेश के भी (रूपं) रूप को (अमित्रज्ञे) साक्षात् स्वयं ही (हंसते) करता है । और (रशदः) इन्द्र (अन्तम्) अन्त (सादः)

दीप्तिमान् (पाजः) तेज या किरण (अन्यत्) और है और (कृष्णम्)
आकर्षण करने वाला बल (अन्यत्) अन्य है, जिसको (हरितः) हरण-
शील किरणों और लोकों को धारण करने वाली दिशाएं और गतिशील
लोक (सं भरन्ति) धारण करते हैं ।

[१२४] परमेश्वर, राजा और अत्मा ।

वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः, ३ पादनिचृत् । पठुंचं सूक्तम् ।

कयां नश्चित्र आ भुवदृती सदावृधः सखा ।

कया शचिष्ठया वृता ॥ १ ॥ ऋ० ४ । ३१ । १ ॥

भा०—(चित्रः) पूजनीय, (सदावृधः) सदा बढ़ाने हारा, (सखा)
मित्र (नः) हमें (कया ऊत्या) न जाने किस परिचर्या या विधि से
(आ भुवत्) साक्षात् हो और न जाने (शचिष्ठया) अति शक्तिवाली
(कया) किस प्रज्ञा के (वृता) वर्तन या व्यवहार से वह हमें प्राप्त हो ?
अथवा, नहीं जानते वह हमारे उत्साह और ऐश्वर्य की वृद्धि करने हारा
हमारा मित्र किस प्रकार के रक्षा कार्य और किस महान् शक्तिशाली कर्म
द्वारा हमें प्राप्त होता है ।

कस्त्वां सत्यो मदानां मंहिष्ठो मसुदन्धसः ।

दृष्ट्वा चिंद्रारुजे वसुं ॥ २ ॥ ऋ० ४ । ३१ । २ ॥

भा०—(अन्धसः) ऐश्वर्य के (मदानां) आनन्दप्रद हर्षों में से
(कः) कौनसा । सत्यः) सत्य, सज्जनों को हितकर हर्ष (त्वा) तुम्हको
(मसत्) प्रसन्न, तृप्त कर जिससे तू (दृष्ट्वा) दृढ़ से दृढ़ (वसु) ऐश्वर्यों
को (आरुजे) अति रोग के समान भयंकर शत्रु या पीड़ाजनक कष्टों के
लिये वारदे । अथवा—(दृष्ट्वा चित् वसु) दृढ़ से दृढ़ शरीर रूप निवास
स्थानों को (आरुजे) तोड़ने में समर्थ हो ।

अभी पु ऋः सखीनामविता जंरितृणाम् ।

शतं भवास्युतिभिः ॥ ३ ॥

भा०—हे इन्द्र ! राजन् ! (नः) हमारे (सखीनाम्) मित्र, (जंरि
तृणाम्) विद्वानों का तू (शतम् ऊतिभिः) सैकड़ों रक्षा साधनों से (सु
अभि अविता भव) उत्तम रक्षक हो ।

इमा तु कं भुवना लीपधामेन्द्रंश्च विश्वे च देवाः ।

यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सुह चीं कृत्वाति ॥४॥

आदित्यैरिन्द्रः सर्गणो मृद्धिरस्माकं भूत्वविता तु नूनाम् ।

हत्वायं देवा असुरान् यदायन् देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः ॥५॥

प्रत्यञ्जमकर्मनद्यं छवींभिरादित् स्वधामिपिरां पयंपश्यन् ।

अथा वाजं देवहितं सनस मदेम शतं विमाः सुवीराः ॥ ६ ॥

भा०—[४-६] तीनों मन्त्रों की व्याख्या देखो का० २० । ६३ ।

१—३ ॥

[१२५] राजा ।

कीर्तिर्ऋषिः । इन्द्रः, ४, ५ अश्विनौ च देवते । त्रिष्टुभः, ४ अनुष्टुप् ।

सप्तर्षे सुक्तम् ॥

अपेन्द्र प्रात्रो मघवन्नमित्रानपापांचो अभिभूते नुदस्व ।

अपोर्दाचो अपं शूराञ्चराचं उरौ यथा तत्र शर्मन् मदेम ॥ १ ॥

अ० १ । १३ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! शत्रुनाशक ! हे (मघवन्) धर्मों
के स्वामिन् ! तू (प्राचः) सन्मुख के (अमित्रान्) शत्रुओं को (अप
नुदस्व) दूर कर । हे (अभिभूते) पराजय करने हारे ! तू (अपाचः)
पीठ पीछे लगे शत्रुओं को (अप नुदस्व) दूर कर । (उर्दाचः) हमारे

ऊपर, अधिकार प्राप्त शत्रुओं को (अप) दूर कर । और (अधराचः) हमारे नीचे के भृत्य रूप से वर्तमान शत्रुओं को भी (अप) दूर कर (यथा) जिससे हे (शूर) शूरवीर ! हम (त्वं) तेरे (उरौ) बड़े भारी (शर्मन्) शरण में (मदेम) हर्ष, सुख प्राप्त करें ।

कुविद्रङ्ग यवमन्तो यवं विद् यथा दान्त्यनुपूर्वं त्रियूयं ।

दृष्टैषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नमोवृक्तिं न जग्मुः ॥ २ ॥

श्र० १० । १३ । २ ॥

भा०—(अङ्ग) हे इन्द्र ! (यवमन्तः) जौ आदि धान्यों के पैदा करने वाले खेतिहर लोग (यथा) जिस २ प्रकार के (यवं चित्) जौ आदि धान्य को (अनुपूर्वम्) क्रम से (वियूय) जुदा कर २ के (कुवित्) बहुतसा (दान्ति) काट लेते हैं उस २ प्रकार के तू (इह इह) नाना प्रदेशों में भी (एषाम्) उन लोगों के यवादि नये धान्यों के (भोजनानि) भोजनों को (कृणुहि) कर (ये) जो (बर्हिषः) यज्ञमय प्रजापालक राजा या इस राष्ट्र के (नमोवृक्तिं) नमनकारी बल या दण्ड व्यवस्था या शासन के भंग के अपराध को (न जग्मुः) नहीं करते । अथवा (बर्हिषः) उस महान् ब्रह्म परमेश्वर के (नमो वृक्तिम् न जग्मुः) नमस्सा, या पूजा में विच्छेद नहीं करते ।

नहि स्यूयंतुथा यातमस्ति नोत श्रवां त्रिविदे संगमेपुं ।

गव्यन्त इन्द्रं सुख्याय विप्रां अश्वायन्तो वृषणं वाजयन्तः ॥ ३ ॥

श्र० १० । ३१ । ३ ॥

भा०—(स्यूरि) एक बैल या एक घोड़े वाली गाड़ी या रथ से (अतुथा) ठीकर काल में, ठीकर अवसर पर (नहि यातम् अस्ति) नहीं पहुंचा जा सकता । (न उत) और न (संगमेपु) सज्जनों के सभा ससंगों में (श्रवः) यश ही प्राप्त किया जा सकता है अर्थात् एक घोड़े के रथ

से समयपर युद्ध में नहीं पहुंचा जा सकता और न संग्राम में विजय, यश ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिये (विप्रः) मेधावी विद्वान् पुत्र (नव्यन्तः) गौश्री के इच्छुक (अश्वयन्तः) शर्षो के इच्छुक (ज्ञानयन्तः) और अन्न धनैर्धर्म के इच्छुक होकर (इन्द्रम् वृषणं) ऐश्वर्यवान् बलशाली राजा और परमेश्वर को ही (सरयाय) अपने मित्र होने के लिये वरण करते हैं।

युवं सुराममश्विना नमुचावासुरे सचां ।

त्रिपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम् ॥३॥ अ० १०।२१।४ ॥

भा०—हे (अश्विना) व्यापक अधिकार वाले दो बड़े अधिकारी पुत्रो ! (नमुचौ) कर्मों भी न छोड़ने योग्य (असुरे) असुर, दुष्ट पुरुषों के इनन कार्य में (सचा) सदा साथ रहकर (युवन्) तुम दोनों (शुभस्पती) शुभ कार्यों के पालक होकर (सुरामन्) राज्य लक्ष्मी के साथ वर्तमान राष्ट्र की (त्रिपिपाना) नाना कर्मों में रक्षा करते हुए (कर्मसु) समस्त कर्मों में (इन्द्रं) मुख्य राजा की (अवतम्) रक्षा करो।

पुत्रमिव पितरांश्विनोभेन्द्रावधुः काव्यैर्दंसनाभिः ।

तत् सुरामं व्यापिंत्रुः शर्षीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक् ॥५॥

अ० १०।२२।५ ॥

भा०—और (यत्) जब (शर्षीभिः) अपनी प्रज्ञाश्री और शक्तियों से (सुरामं) उत्तम रमण योग्य राष्ट्र का (व्यापिंत्रुः) नाना प्रकार से भोग करता है और हे (मघवन्) ऐश्वर्यवान् (सरस्वती) उत्तम ज्ञान से युक्त विद्वत् सभा (त्वा) तुम्हको (अभिष्णक्) पीड़ा रहित करता है (पितरौ पुत्रम् इव) माता और पिता जिस प्रकार पुत्र की रक्षा करते हैं उसी प्रकार (अश्विना) व्यापक विस्तृत अधिकारों से युक्त दो बड़े अधिकारी (काव्यैः) अपने उपदेशों से और (दंसनाभिः) दर्शनीय

पुत्रं शत्रु नाशक वडे २ कर्मों से हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् राजन् ! तुम्हको
(शत्रुः) रक्षा करते हैं ।

इन्द्रः सुत्राम्ना स्वर्वाँ अवांभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः ।

चायतां द्वेषो अभयं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ ६ ॥

श्र० १० । १३१ । ६ ॥

स सुत्राम्ना स्वर्वाँ इन्द्रो अस्मद्याराद्धिद् द्वेषः सनुतयुंयोतु ।

तस्य त्रयं सुमृतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ७ ॥

श्र० १० । १३१ । ७ ॥

भा०—[६, ७] इन दोनों मन्त्रों की व्याख्या देखो अथर्व० का०
७ । सू० ६१ और ६२ ॥

[१२६] जीव, प्रकृति और परमेश्वर ।

वृषाकपिरिन्द्र इन्द्राणी च श्वयः । इन्द्रो देवता । पंक्तिः । त्रयोविंशत्युत्र
सक्तम् ॥

वि हि सोतो रसृत्त नेन्द्रं देवमंसत ।

यत्रामदद् वृषाकगिर्यः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१॥

भा०—आत्मज्ञान का वर्णन । इन्द्रियगण (सोतोः) रस ग्रहण
करने के लिये (वि असृत्त) नाना प्रकार का यत्न करते हैं । परन्तु वे
(इन्द्र देवम्) उनको शक्ति प्रदान करने वाले परमेश्वर्यवान् आत्मा के स्वरूप
को (न अंसत) नहीं जानते । (यत्र) जिन प्राणों के उपरं
(वृषाकगिः) उनमें समस्त सुखों का वर्णन करने वाला और उनमें कम्पन
या स्पन्द रूप से स्फूर्ति उत्पन्न करने वाला होकर (पुष्टेषु) भृति वेतनादि
द्वारा पुष्ट भृत्य जनों में (अर्थः) स्वामी के समान (यामदत्) बड़े इर्ष्य
अनुभव करता है । अर्थात् (अर्थः) स्वामी जिस प्रकार (पुष्टेषु) अपने दृष्ट

पुष्ट मृत्यों और प्रजाजनों के बीच बड़ा आनन्द लाभ करता है उसी प्रकार जो (धर्मः) समस्त प्राणों में व्यापक उनमें गति देने द्वारा उनका स्वामी होकर (पुष्टेषु) श्रद्धों से परि पुष्ट श्रद्धों में (अमदद्) बड़े आनन्द अनुभव करता है वही (मासखा) वास्तव में मेरा मित्र भीतरी आत्मा है । वह (विश्वस्मात्) सबसे (उत्तरः) उत्कृष्टः (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् साक्षात् सूर्य के समान तेजस्वी है । और जिस परमेश्वर के आश्रय में रहकर लोग नाना प्रकार का आध्यात्मिक आनन्द लेने का यत्न करते हैं पर वे उसका जानते नहीं हैं । जीव आत्मा जिसमें नित्य आनन्द लेता है वही मुझ उपसर्क का मित्र है । वह सबसे बड़ा है ।

अध्यात्म में - इन्द्र आत्मा है, वृषाकपि प्राण है, ब्रह्माण्ड में इन्द्र परमेश्वर है, वृषाकपि जीव है । राष्ट्र में - राजा इन्द्र है, वृषाकपि सेनापति है ।

वृषाकपि इन्द्र का पुत्र है, इन्द्राणी वृषाकपि और इन्द्र तीनों का इस सूक्त में संवाद ऐतिहासिक लोग मानते हैं । परन्तु यह अलंकार है । परा इन्द्रि धावसि वृषाकपेरतिव्यथिः ।

नो अहं प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! तू जय (वृषाकपेः) सुखों के वर्षण करने और दुःख कारणों के कंपा देने वाले जीवात्मा से (परा धावसि) परे चला जाता है तब तू (अतिव्यथिः) बड़ी व्यथा, अर्थात् भीतरी चित्त के कष्ट का कारण होजाता है । (अहं) और (अन्यत्र) अन्य स्थानों अर्थात् संसार के दृश्यों या व्युत्थित दशाश्रों में (सोमपीतये) परम आनन्द रस, सोमपान कराने के लिये अथवा सोमरूप आत्मा को स्वयं पान करने, उसको अपनी शरण में ले लेने के लिये (नो प्रविन्दसि) दूरतक भी इंडे नहीं मिलता, वह (इन्द्रः) परमेश्वर (विश्वस्मात्) सबसे अधिक (उत्तरः) उत्कृष्ट, ऊंचा है ।

परमेश्वर का साक्षात् न करके योगी साधक उसके लिये व्याकुल हो उठता है। वह ईश्वर फिर दुनियां के भोगों में उसे नहीं मिलता। वह भोग बन्धनों में पड़े उसको परम रस नहीं देता और अपने में नहीं मिलता। वह ईश्वर सबसे महान् है।

किमयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः । यस्मात्

हरस्यसीदु न्वार्यो वां पुष्टिमद् वसु विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (अयं) यह (वृषाकपिः) सूर्य के समान तेजस्वी, मेघ के समान अपनी आत्मभूमि में आनन्दरस का धर्म-मेघ समाधि द्वारा वर्षण करनेवाला, कपि, सूर्य के समान अति तेजस्वी आत्मा (हरितः) आदित्य के समान तेजस्वी, तेरे द्वारा हरण किया गया, तुझ में आकृष्ट एवं (मृगः) अपने को शुद्ध करने और तुझ को नित्य खोजने में लगा हुआ, (त्वां) तेरे प्रति (किम् चकार) क्या प्रिय कार्य या उपकार करता है कि (यस्मै) जिसको तू (तु) भज्जा (अर्यः वा) स्वामी के समान (पुष्टिमद्) गवादि धन धान्य से युक्त समस्त (वसु) ऐश्वर्य, (हरस्यसि इत् उ) दिये ही चला जा रहा है ? ठीक है (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) वह तू ऐश्वर्यवान् परमेश्वर सबसे उकृष्ट, सबसे बढ़कर है।

यभिंमं त्वं वृषाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षासि ।

श्वा न्वन्म्य जग्भिपदपि कणं वराहयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! परमेश्वर ! (यम् इमम्) जिस इम (वृषाकपिम्) सामर्थ्यवान् तेजस्वी, (प्रियम्) अपने प्रिय, जीव की तू (अभिरक्षासि) सब ओर से रक्षा करता है उस जीव को (अस्य कर्णे) इसके कर्म के निमित्त (वराहयुः) वायु को कामना करने वाला (श्वा) शाशु गतिशील प्राण (तु) ही (जग्भिपत्) उसे पकड़ लेता, या ग्रान्ध

लेता है अथवा-(वराहयुः) वायु या प्राण वायु के अभिलाषी, अथवा (वराहयुः) उत्तम कहाने योग्य पदार्थों का अभिलाषी (आ) कुक्कुर के समान भोग करने वाला देह इसको (जग्मिषत्) अपने बन्धन में डाल लेता है । (विश्वत्मात् इन्द्रः उत्तरः) वह परमेश्वर ही सबसे ऊंचा है जो कभी देह बन्धन में नहीं आता ।

जिस सामर्थ्यवान् जीव का ईश्वर रक्षक है वह जीवात्मा जब भी कर्म करता है तब २ प्राण से जीवित, भोगायतन देह उसको बांध लेता है । परन्तु संसार को चलाने हारे परमेश्वर पर वह देहबन्धन नहीं लगता ।

त्रिया तृष्टानि मे कृषिभ्यंक्ता व्यदूदुषत् ।

शिरांस्वस्य राविषं न सुगं दुष्कृते भुवुं विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१॥

भा०—(कृषिः) विषय वेगों से कम्पित, विचलित होजाने वाला, वानर के समान अति चञ्चल स्वभाव होकर यह आत्मा (मे) मेरे(तृष्टानि) बनाये गये, मुक्त प्रकृति में से परमेश्वर द्वारा सृजे गये, (त्रिया) प्रिय लगाने वाले, (व्यक्ता) व्यक्त, प्रकट हुए पदार्थों को वह (वि अदूदुषत्) विविध प्रकार से भोग का लेता है (सु अस्य) इसके तो मैं, प्रकृति (शिरः) शिर, अर्थात् मुख्य स्वरूप को (राविषं) नष्ट कर देती हूँ । (दुष्कृते) दुष्ट आचरण करने वाले के लिये मैं (सुगं न भुवम्) सुखकारिणी कभी नहीं होती । (इन्द्रः विश्वत्मात् उत्तरः) वह ऐश्वर्यवान् परमेश्वर सबसे उत्तम है ।

न मत्स्त्री सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत् ।

न मत् प्रतिव्ययीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१॥

भा०—(मत्) मुझसे बढ़के (स्त्री) कोई स्त्री, (सुभसत्तरा न) उत्तम कान्तिमती, सौभाग्यवती नहीं है । और मुझसे बढ़कर कोई स्त्री (सुयाशुतरा) सुन्न पूर्वक पति का संग करने वाली, उसको सुखद

(न भुवत्) नहीं है । (मत्) मुझसे बढ़कर (प्रतिच्यवीयसी) पति के प्रति विनय से झुकने वाली भी कोई दूसरी नहीं है । (सक्थुद्यमीयसी न) जिस प्रकार स्त्री पति के संगकाल में जवा आदि उठाती है उसी प्रकार मुझसे बढ़कर कोई दूसरी सक्थि अर्थात् समवाय शक्ति से (उद्यमीयसी) ईश्वरिय तंज को नियमन करने, धारण करने वाली भी नहीं है । इस लिये (इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् मुझ प्रकृति का पति परमेश्वर ही सबसे ऊंचा है ।

उवे अम्व सुलाभिके यथेवाङ्ग भवित्यति । भसन्मे अम्व सक्थि मे शिरां मे वाच हृष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ७ ॥

भा०—(उवे) हे (अम्व) व्यापक शक्तिमति ! हे (सुलाभिके) सुख का लाभ कराने वाली (अंग) अंग, हे व्यङ्गरूप प्रकृति ! (भसत्) हेदीप्यमान तेज (मे) मेरे हों । (सक्थि मे) यह तेरी समवाय शक्ति (मे) मेरे उपयोग में आवे । (मे शिरः) मेरा शिर, मुख्य चित्त (विहृष्यति इव) विविध रूपों से हर्ष को प्राप्त होता है । (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) इन्द्र, ऐश्वर्यवान् परमात्मा तो सबसे ऊंचा है । जीव कहता है कि ईश्वर विध से ऊंचा है । प्रकृति का यह सबसौभाग्य और सक्थि अर्थात् आसक्ति अर्थात् भोग्य शक्ति या जीवों को बांधने वाली शक्ति जीवके उपयोग में ही आती है । मैं जीव ही उससे प्रसन्न होता हूँ, ईश्वर भोग वन्दनों में नहीं पड़ता । किं सुवाहो स्वङ्गुरे पृथुजावने । किं शूरपति नस्तवमभ्यमीषि वृषाकृषि विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ८ ॥

भा०—सुन्दर स्त्री जिस प्रकार उत्तम वाहु वाली, (सु अङ्गरिः) उत्तम अंगुलियों या अंगों वाली, (पृथुष्टुः) विशाल केश पाशवाली और (पृथु जावना) विशाल नितम्ब वाली होकर (शूर परनी) शूरवीर पति की स्त्री होती है । इसी प्रकार हे प्रकृति ! तू भी हे (सुवाहो) उत्तम रीति से

वीरों को बांधने या संसार के जन्म मरण में पीड़ा देने वाली (स्वहृदि) हे-
 सोमन, अत्येक अवयव अवयव में दीप्ति वाली ! हे (पृथुजावने) विद्वान्
 व्यापक शक्तिवाली ! हे (शूरपति) सबके प्रेरणा करने वाले, जगत् के
 सन्चालक परमेश्वर को अपना पति, मानने वाली उसी की आज्ञा पालन
 करने हारी ! नू (किं २) ज्यों, किञ्च निमित्त (नः ; हमारे । वृषाकीमिन्)
 जीव ज्ञाना को (अग्नि अग्नेषि) लज्ज कर उसपर क्रोध करती है ।
 (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) ऐश्वर्यवान् मैं परमेश्वर ही सबसे उच्छृष्ट है ।
 अवीरामिञ्च मामयं शराहंभि मन्यते । उताडमस्ति वीरिणीन्द्र-
 पत्नी मरुत्तंखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २ ॥

भा०—(अयं शराहः) यह व्याघ्र के समान हिंसाकारी मृत्यु
 (मान्) सुम्भवेत्तना को (अवीराम् इव) वीर राजा से रहित प्रजा के
 समान या वीर पुरुष पति से रहिन की के समान अराहितज्ञा जानकर अग्नि
 मन्यते) मेरा विनाश करना चाहता है और सुम्भे का दिहाना है । परन्तु
 (उत अहम्) मैं तो (वीरिणी) दीर्घवान् ज्ञाना रूप वीर पति वाली या
 दीर्घवान् प्राण्य रूप पुत्र वाली (इन्द्रपत्नी) इन्द्र ऐश्वर्यवान् परमेश्वर को
 धरना पालक प्राप्त करने वाली, (मरुत्तंखा) शत्रुओं को नार देने वाली
 वीर पुरुषों के समान प्राणों को नित्र रूप से रखने हारी हूँ । (और इन्द्रः)
 वह परमेश्वर (विश्वस्मात् उत्तरः) सबसे उच्छृष्ट है ;

संहोत्रं स पुरा नारी समंनं वाव गच्छति । वेद्या ऋतस्य
 वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २० ॥

भा०—(वा) जिस प्रकार (नारी) स्त्री (संहोत्रं) एकत्र नित्र
 ज करने योग्य होत्र, हवन, यज्ञ में और (समनम्) संग्राम में
 (सव गच्छति स) जाया करती है और ऋतस्य सत्यज्ञान का (वेद्यः)
 मस करने हारी या सत्य न्यवस्था का विद्वान् करने हारी (वीरिणी) वीर

पुत्रवती और (इन्द्रपत्नी) ऐश्वर्यवान् पुरुष या स्वामी की स्त्री होकर (महीयते) आदर और सत्कार का पात्र होती है। उसी प्रकार (पुरा) पद्मले (नारी) समस्त भुवन के कायों की नेत्री प्रवर्तिका प्रकृति अथवा 'नर', सबके प्रवर्तक परमेश्वर के, स्त्री के समान सदा साथ रहने वाली उसकी महती शक्ति, (संहोत्रम्) एक साथ मिलकर एक दूसरे के ग्रहण करने वाले सर्गमय यज्ञ का और (समनम्) समष्टि प्राण शक्ति के धारण की क्रिया का (अब गच्छीत) प्राप्त करती है। अर्थात् प्रधान शक्ति ही नाना संयोग विभाग करती तथा वही सर्वत्र प्राण सञ्चार करती है। वही (ऋतस्य) सत्यज्ञान या सत्, गतिमत् रूप से प्रकट हुए जगत् की (वेधाः) विधात्री है। वही (वीरिणी) वीर्यवती (इन्द्रपत्नी) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर को अपना मुख्य पालक रखने वाली समान उसकी सहचारिणी होकर (महीयते) बड़ीभारी शक्ति रूप में प्रकट होती है। (विश्वस्मात् इन्द्रः उत्तरः) वह परमेश्वर ही सबसे उच्च है।

इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमंश्रवम् ।

अस्या अपरं च न जरसा मरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥११

भा०—(आसु नारिषु) इन समस्त नारियों में से मैं (इन्द्राणीम्) इन्द्र की स्त्री के समान उसके सदा साथ रहने वाली परमेश्वर की ऐश्वर्यवती प्रकृति को (सुभगाम्) सबसे अधिक उत्तम ऐश्वर्यवती सौभाग्यवती (अश्रवम्) गुरुपदेश द्वारा श्रवण करता हूँ (अपरं च न) और जिस प्रकार अन्य स्त्रियों के पति बूढ़े होकर मर जाते हैं उस प्रकार (अस्याः पतिः) इसका पति (जरसा) आयु के अन्त कर देने वाले बुढ़ापे के कारण (नहि मरते) नहीं मरता। वह अजर अमर है। (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) इन्द्र परमेश्वर समस्त संसार से ऊंचा है।

नाहमिन्द्राणि रारण सख्युर्वृपाकपैर्ऋते

यस्येदमप्य हविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१२

भा०—हे (इन्द्राणि) इन्द्र की परमशक्ते ! प्रकृते ! (अहम्) मैं परमे
श्वर भी (सख्युः) समान आत्मा या, इन्द्र नाम को धारण करने वाले सखा
अपने मित्र (वृपाकपेः) आनन्द वर्षण करक हृदय में कम्पन या रामञ्च
उत्पन्न करने हारं उस जीव के (ऋते) विना न रारण) मैं क्रीड़ा या विनोद
नहीं करता अर्थात् मैं जगत् सृजन रूप लीला का विस्तार नहीं करता ।
वह वृपाकपि जीव भी कैसा है ? (यस्य निमका (इदम्) यह (अप्यं-
हविः जलों में जिस प्रकार अन्न उत्पन्न होता है उसी प्रकार सर्वत्र
व्यापक प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं में उत्पन्न वा लिङ्ग शरीरों में स्थित वा
उनसे बना हुआ प्रियम् हवि) अति प्रिय, ग्रहण करने योग्य
अन्न, चेतनादायी प्राण ही (देवेषु) गन्ध आदि ज्ञानों के प्रकाशक इन्द्रिय
गण में . गच्छति) प्राप्त होता है । और (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) वह
परमेश्वर ही सबसे उत्कृष्ट है ।

वृपाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुररुपे ।

यस्येत् न इन्द्रं उच्चयः प्रियं काचित्करं हविर्विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः १३

भा०—हे (वृपाकपायि) आनन्द रस के वर्षण से हृदय को रोमा
ञ्चित करने हारे, साधक पुरुष की जननि ! सत्वभूमे ! प्रकृते ! हे (रेवति)
ऐश्वर्यवनि ! हे (सुपुत्रे) सुखपूर्वक पुरुषों का प्राण करने हारी ! हे
(सुररुपे) सुखका प्रसवण कराने हारी ! आत्मा में सुख बढ़ाने वाली ! (ते
इन्द्रः) तुम्हें ऐश्वर्य का देने वाला तेरा पति, परमेश्वर (प्रियम्) अतिप्रिय
(काचित्करम्) अति सुखकारी (हविः) उपादेय अन्न रूप जगत् को और
(उत्तमः) आनन्दरस, या वीर्य के वर्षण, या लेचन करने में समर्थ प्राणों को
आत्मा जिसप्रकार प्राणों को और सूर्य जिस प्रकार मेघों को अपने भीतर लेलता है

उसी प्रकार वह परमेश्वर जीवन्मृत के वर्षक प्रसारक सृष्टी को (घनत्)
अन्न के समान अपने भीतर प्रस जाता है अपने भीतर ले लेता है ।

उच्छ्रणां हि मे पञ्चदश साः पचन्ति विंशतिम् ।

उताहमग्निं पीत्र इदुभा कुञ्जीं पृणन्ति मे विश्वम्मादिन्द्र उत्तरः १५

भा०—(मे) मेरे लिये तो (उच्छ्रः) वीर्य सेचन, या सुख-
वर्षण में समर्थ, प्राणों को (पञ्चदश) पन्द्रह और (विंशतिम्) बीस, या
उनमें प्रविष्ट आत्मा को (साकम्) एक साथ (पचन्ति) विद्वान लोग
परिमद्ध करते हैं, तपस्या द्वारा उनका टूट करते हैं । (उत) और
(अहम्) मैं (अग्निं) उनका भोग करता हूँ, उनको स्वीकार करता हूँ । (पीत्र
इत्) और मैं अति बलवान् रहता हूँ । वे (मे , मेरे , उभा कुञ्जा) दोनों
कोशों को (पृणन्ति) पूर्य करते हैं । इसी प्रकार (इन्द्रः) इन्द्र परमेश्वर
(विरवस्मात्) सबसे (उत्तरः) उत्कृष्ट है ।

पंचदश-दश इन्द्रियगत प्राण और प्राण, आशान, ध्यान, समान, उदान,
ये पांच मिलकर १५ हुए । उनके भीतर प्रविष्ट होकर रहने वाला आत्मा
'विंशति' है ।

वृषभो न तिग्मशृङ्गोन्तर्गुथेष रोह्यत् ।

सन्धस्त इन्द्र शं हृदे यं तं सुनोति भावयुविश्वम्मादिन्द्र उत्तरः १५

भा०—(न) जिस प्रकार (तिग्मशृङ्गः) तीक्ष्ण शीशों वाला (वृषभः)
वीर्य सेचन में समर्थ सांड वृथेषु अन्तः) गौश्रीं के रेवड़ के बीच में (रो
ह्यत्) बराबर गर्जना करा करता है उसी प्रकार नृत्त के हृदयों में
रस वर्षण करने द्वारा परमेश्वर (तिग्मशृङ्गः) अन्धकारों का नाश करने
वाले तीक्ष्ण प्रकाश से युक्त होकर (वृथेषु अन्तः) नाना वृष्टियों, संमिलन
करने योग्य स्थानों, हृदयों में (रोह्यत्) अपनी ध्वनि कर रहा है

'सोहं' का नाद बजाता रहता है। हे इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! परमेश्वर ! यं जिस परम रस को (भावयुः) भक्ति भावों से युक्त उपासक (ते) तेरे निमित्त या तुझ से (सुनोति) उत्पन्न करता है, प्राप्त करता है वह (मन्थः) सब दुःखों का मथन, विनाश कर देने वाला एवं हृदय को मथन कर देने वाला, शक्ति आह्लादकारी (ते) तेरा आनन्दरस (हृदे) हृदय को (शं) शांति देने वाला होता है । । इन्द्रः विश्वत्मात् उत्तरः) इन्द्र परमेश्वर सबसे उत्कृष्ट परमानन्दकारी है ।

न संशे यस्य रभ्यतेऽन्तरा स्रक्थ्याऽकपृत् ।

सेदीशे यस्य रामशं निपेदुषो विजृम्भते विश्वस्माद्भिः उत्तरः १६

भा०—(यस्य) जिसका (कपृत्) कपाल, मस्तक (स्रक्थ्या अन्तरा) जाँघों के बीच तक देवता के प्रति मनौती के लिये, या अपने से बड़े बलवान् को देखकर उसके शर्मो झुकने के लिये (रभ्यते=लम्बते) लटक जाता है (न संः ईशे) वह स्वामी के समान शासन करने में समर्थ नहीं होता । (संः इत् ईशे) वही शासन करता है (निपेदुषः) राज्यासन पर विराजे हुए (यस्य) जिसका (रामशं) लोनों या नृहों वाला मुख (विजृम्भते) विविध प्रकार से या विशेष रूप से खुलता और आज्ञा देता है । (विश्वत्मात् इन्द्रः उत्तरः) शत्रुनाशक ऐश्वर्यवान् राजा ही सबसे उत्कृष्ट है ।

अध्यातन में—(यस्य) जिस जीवाना का (कपृत्) अल्प पालन सामर्थ्य या सुखग्राही वित्त (स्रक्थ्या अन्तरा) आसक्ति योग्य पदार्थों के बीच में ही (रभ्यते, लम्बते) लटक जाता है, मुग्ध होजाता है । (न सं, ईशे) वह संसार का स्वामी, ईश्वर नहीं हो सकता । (संः इत् ईशे) वही ईश्वर है (निपेदुषः) विगूढ रूप से सर्वत्र व्यापक (यस्य) जिसका वनाया (रामशन्) लोमयुक्त मुख के समान तेजस्वी किरणों से युक्त सूर्य (विजृम्भते)

विविध दिशाओं में फैलता है। अथवा [रोमशं=रु शब्दे। शैति शब्दयति इति रोम तेन युक्तं] सर्व उपदेशकारी, प्रवचन या गुरूपदेश के समान ज्ञान विविध रूपों से प्रकाशित होता है वह (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) परमेश्वर सबसे ऊंचा है। अथवा [रोमशं=लोमशं । लूयते इति लोम तद्=श्यति नाशयति इति लोमशम्]-अन्धकारों का काटने वाला और विघ्नों और जन्ममरण के बन्धनों को काटने वाला जिसका ज्ञानमय तेज सूर्य के समान चारों तरफ प्रखरता से विस्तृत है वह परमेश्वर सबसे ऊंचा है।

न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृम्भते ।

सेदीशे यस्य रम्वतेन्तरा सक्थ्याः कपृद् विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १७

भा०—(सः) वह (न ईशे) सबका स्वामी नहीं बन सकता (यस्य) जिसका (निषेदुषः) बैठे २ (रोमशं विजृम्भते) लोमयुक्त मुख केवल जंभाई लेता है। बलिक (सः इत् ईशे) वह ही पुरुष सामर्थ्यवान् ऐश्वर्य का स्वामी बनता है (यस्य) जिसका (कपृद्) सुख और आनन्द से पूर्ण करने वाला स्वरूप, तेज या सामर्थ्य (सक्थ्या अन्तरा) परस्पर मिले हुए आकाश और पृथिवी के बीच में (रम्वते) मध्याह्न के सूर्य के समान दिग्मान रहता है। इसी कारण (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर सबसे अधिक ऊंचा है।

अयमिन्द्र वृपाकपिः परस्वन्तं हतं विदत् ।

असि सृनां नवं चरुमादेध्रस्यान आचितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १८

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! (अयम्) यह (वृपाकपिः) सुखों का हृदय में वर्षण करने और दुःख के कारणों को कंपा कर अपने से पृथक् कर देने में समर्थ आत्मा (परस्वन्तं) अपने भीतर बसे, 'मैं परमेश्वर से दूर हूँ' ऐसे भाव को अय (हतं विदत्) विनष्ट हुआ जाने। अब वह (असि) दुखों के काटने वाले, तीव्र तलवार के समान ज्ञानवज्र को (सृनाम्)

परब्रह्म की तरफ प्रेरणा करने वाली तीव्र बुद्धि और (नवं चरुम्) स्तुति योग्य तप या आचरण को और (एधस्य तीव्र तेज के (आचितम्) पूर्ण सञ्चित (अन्नः) जीवन, इन सबको वह (विदत्) प्राप्त करे । क्योंकि (इन्द्रः) वह ईश्वर (विश्वस्मात् उत्तरः) सबसे उच्छ्रेष्ठ है ।

अयमंमि विचाकशद् विचिन्वन् दासमार्यम् ।

पिबामि पाकसुन्वनामि धीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १६

भा०—(अयन्) यह मैं साक्षात् (विचाकशत्) विवेक पूर्वक देखता हुआ और (दासम् आर्यम्) दास, आर्य, नाशक और पालक स्वामी दोनों का (विचिन्वन्) विवेक करता हुआ (एमि) परिणाम पर आता हूँ। (पाकसुन्वनः) जो पुरुष अपने ज्ञात्मज्ञान का परिपाक करता है और जो नित्य आत्मज्ञान रूप रस को योग समाधि द्वारा सवन करता है, उसको (पिबामि) मैं उसी का साक्षात् कर स्वीकार करूँ और (धीरम्) मैं धीर, धमिन् उसी पुरुष को (अमि अचाकशम्) साक्षात् स्वयं देखता हूँ और दूसरों दर्शाता हूँ कि (विश्वस्मात् इन्द्र उत्तरः) वह ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ही सबसे उच्छ्रेष्ठ है ।

धन्व च यत् कृन्तत्रै च कतिं स्वित् ता वि योजना ।

नेदर्शिनो वृषाकपेस्तमेहिं गृह्णां उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२०॥

भा०—हे (वृषाकपे) आत्मभूमि में आनन्दरस के वर्षणशील और सुख के पान करनेवाले आत्मज्ञ ! धन्व च । निर्जल देश और (कृन्तत्रै च) दुखदायी शरीर का छेदन भेदन करने वाला कांटेदार वन (ता) वे सब कुद्द कतिस्वित् : कितने ही योजना । योजन हैं, अर्थात् वे कितने पदार्थोंको योग करानेमें समर्थ हैं? यह संसार धन्व अर्थात् महेश्वर के समान है जहाँ मृगमरीचि का से लुब्ध होकर मनुष्य भ्रमता है । इसी प्रकार यह संसार कंटेदार झाड़ियों से भरा, कण्टकार्कण कष्टप्रद वन के समान है इसमें कितने पदार्थ हैं जो पुरुष के सदा साथ योग देने वाले हैं? एक भी

नहीं । तत्र तत्र हे जीव ! तू अस्तम् एहि अपने गृह के समान शरणप्रद उस परमेश्वर को प्राप्त हो जो (नेदीयमः) अति निकट विद्यमान (गृहान्) गृह अर्थात् स्त्री पुत्र कलत्रादि के समान ग्रहण करने योग्य आत्मा या आत्मा के हितकारी गुरु जनों को वि प्र एति विशय रूप से प्राप्त हो । (विश्वस्मात् इन्द्रः उत्तरः , और महान् गृहरूप शरण वही इन्द्र, परमेश्वर है जो सबसे उत्कृष्ट है ।

पुनरोहिं वृषाकपे सुविता कल्पयावहै ।

य एष स्वप्नंशनोस्तमेपि पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२१॥

भा०—हे जीव ! विद्वन् ! हे (वृषाकपे) बलवान् होकर आनन्दरस का पान करनेहारे मुमुक्षो ! (पुनः एहि) तू फिर आ, लौट आ. संसार में न भटक कर पुनः ईश्वर रूप शरण को प्राप्त हो । हम दोनों, ईश्वर और प्रकृति मिलकर पुत्र के लिये माता पिता के समान (सुविता) तेरे लिये सुख, कल्याणजनक फल ही (कल्पयावहै) उत्पन्न करेंगे । (यः एषः) जो तू (स्वप्नंशनः) स्वप्न, निद्रा और प्रमाद और मृत्यु को दूर करता हुआ आदित्य के समान (पथा , सन्मार्ग से इस मोक्ष मार्ग से पुनः अस्तम् एपि) फिर गृह के समान शरणरूप परमेश्वर को प्राप्त हो ।

जिस प्रकार सूर्य उदय होकर पुनः अस्त को प्राप्त होता है इसी प्रकार तेजस्वी मुमुक्षु भी मोक्ष मार्ग से अस्त अर्थात् शरण रूप ईश्वर को प्राप्त हो । जहाँ वह सूर्य के समान ही महान् आनन्द सागर में अस्त हो जाय, विलीन, मग्न होजाय ।

यद्दंश्रो वृषाकपे गृहमिन्द्राजगन्तन ।

कस्य पुंत्वयो मृगः न्मंग जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२२

भा०—हे (वृषाकप) बलवान् आनन्दरस पान करनेहारे ! हे (इन्द्र) आत्मज्ञान के साक्षात् करने हारे मुमुक्षो ! (यत्) जब (उद्

अन्वः) उदय को प्राप्त होने वाले, ऊपर उठने वाले, पुरुष (गृहम्) गृह के समान शरण, सबको अपने भीतर, शरण में ले लेने वाले परमेश्वर को प्राप्त होजाते हैं तब बतला कि (पुत्रवधः) अति पापभोगी (स्यः मृगः) वह विषयों को खोजने वाला (जनयोपनः मृगः इव) मनुष्यों के विध्वंस करने वाले भूखे सिंह के समान लोलुप जीव (क्व भगन् कम्) भला कहां चला जाता है ?

अर्थात् मृग, सिंह जिस प्रकार (पुलु-ऊघः-पुरु-अघः) बहुतों को मारता है और (जनयोपनः) बहुत से जन्तुओं का नाश करता है । वह जिस प्रकार पुरुष को गृह में आजाने फिर दिखाई नहीं देता, वह वन में ही रह जाता है इसी प्रकार जब मुमुक्षु ईश्वर को प्राप्त होजाता है तब (पुत्रवधः) पुरु अर्थात् इन्द्रियों द्वारा नाना पाप भोग करने हारा (मृगः) विषय को खोजने वाला, (जनयोपनः) जन्म का नाश करनेहारा जीव फिर (क्व स्यः) वह कहां रहता है वह तो (कम्) सुखस्वरूप उस आनन्दमय को प्राप्त होजाता है जो (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) परमेश्वर सबसे ऊंचा है ।


पशुं हि नाम मानवी साकं संसृव विंशतिम् ।

भद्रं भलं त्यस्या अभूद् यस्या उदरमामयद् विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

भा०—(पशुः इ नाम) पशु नाम (मानवी) मननशील पुरुष की सहचारिणी बुद्धि या विचारशक्ति जिस प्रकार (साकम्) एक साथ ही (विंशतिम्) बीस को (संसृव) उत्पन्न करती है । १० इन्द्रियों के स्थूल साधन और १० भीतरी ग्राहक सूक्ष्म साधन इन सबको मनु मननशील आत्मा की विचारशक्ति ही उत्पन्न करती है । वही सर्वत्र स्पर्श करनेहारी व्यापक होने से 'पशु' कहाती है । (भल) हे जीव ! (त्यस्याः) उसका (भद्रं) कल्याण (अभूत्) होता है (यस्या उदरम्) जिसके पेट को (शामयत्) जीव गर्भ-प्रसव से पीड़ित करता है । इसी प्रकार (मानवी)

मननशील परमेश्वर की वह (पशुः ह नाम) सदा पार्श्ववर्तिनी, सहचारिणी स्त्री के समान व्यापक प्रकृति है जो (विंशतिम्) २० प्रकृति विकारों को एक ही साथ उत्पन्न करती है । (त्यस्याः) उससे भी (भद्रम्) सुखकारी जगत् (अभून्) उत्पन्न होता है (यस्या) जिसके (उदरम्) उदर, गर्भाशय के समान भीतर में (आमयत्) व्याप्त होकर वह परमेश्वर स्वयं पीड़ित करता है उसमें विचोभ उत्पन्न करता है । (विश्वस्मात् इन्द्रः उत्तरः) वही परमेश्वर समस्त संसार से उत्कृष्ट है ।

‘पशु मानवी’ को देखकर यवन या इस्लाम सम्प्रदाय ने कदाचित् आदम की पसली से हँवा बनाकर सृष्टि क्रम चलाने की कथा गढ़ी है ।



॥ अथ कुन्तापसूक्तानि ॥

[१२७ (१)] स्तुति योग्य पुरुष का वर्णन ।

तिस्रो नाराशंस्यः । अतः परं त्रिशद् अत्र इन्द्रगाथाः ॥

इदं जना उपं श्रुत् नराशंस स्तविष्यते ।

पृष्टिं सहस्रां नवर्ति च कौरुम् आ रुशमेषु दग्धहे ॥१॥

भा०—हे (जनाः) मनुष्यो ! (इदम् उपश्रुत्) आप लोग इस बात को कान लगाकर श्रवण करो कि (नराशंसः) प्रजाओं के नेता पुरुषों के गुणों का (स्तविष्यते) यहां वर्णन किया जाता है । (कौरुम्) पृथ्वी पर रमण, या युद्ध क्रीड़ा करनेहारे ! राजन् ! सेनापते ! हम लोग (पृष्टिं सहस्रां) छः हजार । (नवर्ति च) नव्हे पुरुषों को (रुशमेषु) शत्रुओं के नाशकारी सेना के दलों में (आ दग्धहे) नियुक्त करें ।

६०६० पुरुषों द्वारा चक्रव्यूह का वर्णन पहले कर आये हैं ।

नाराशंसीः शंमतिः । प्रजावै नारा, वाक्शंसः । इति तै० ब्रा० ५।६।३॥

'कौरम=कौरव' कुरुषु भवः, साधुर्वा कौरवः । कुर्वन्ति इति कुरवः ।

खेलाचाराः अथवा कौ पृथिव्यां रमत इति वा ।

उष्ट्रा यस्य प्रवाहिणां वधूमन्तो द्विर्दश ।

वर्षा रथस्य नि जिहीडते । दिव ईपमाणा उपस्पृशः ॥२॥

भा०—(यस्य) जिसके (प्रवाहिणः) उत्तम स्थान को प्राप्त कराने वाले (वधूमन्तः) वधू अर्थात् हिंसाशील शत्रु नाशक शक्तियों वाले (द्विः दश) बीस (उष्ट्राः) ऊँट हैं । और (यस्य) जिसके (रथस्य) रथ की (वर्षाः) चोटियों (दिवः) आकाश को (उपस्पृशः) छूती हुई (ईप-माणाः) चलते हुए (दिवः) आकाश को (नि जिहीडते) नीचा दिखाती हैं ।

अथवा—(यस्य) जिस राजा के (द्विः दश) बीस, (वधूमन्तः) हिंसा करने वाली शत्रु नाशक शक्तियों से युक्त (उष्ट्राः) शत्रु को दग्ध करने वाले (प्रवाहिनः) आगे बढ़ने वाले या उत्तम अश्व आदि सवारियों पर चढ़ कर चलने वाले हों । और (रथस्य) रथ की (वर्षा) ऊँची ध्वजाएँ (ईप-माणाः) चलती-उपस्पृशः) गगन को छूने वाली (दिवः नि जिहीडते) आकाश या सूर्य को भी निरस्कार करती हैं ।

इस सूक्त के अत्यात्मिक अर्थ भी निकलते हैं ।

एष इपाथ नामहे शत निष्कान दश सृजः ।

त्रीणि शतान्यवन्तां सहस्रा दश गोनाम् ॥३॥ (१)

२—'प्रवाहिनः' इति शं० पा० । 'वधूमन्तो', इति क्वचिद् । 'वरिष्ठा' इति क्वचिद् । 'जिहीडते', 'जिहीडते' इति च क्वचिद् ।

३—(प्र०) 'इपाथ' इति क्वचिद् । 'सृजः' इति राधकान्ततः ।

भा०—(पृषः) वह प्रसिद्ध पुरुष (शतं निष्कान्) सौ स्वर्णमुद्राएं (दश स्रजः) दस मालाएं और (अर्बतां) घोड़ों के (त्रीणि शतानि) तीन सौ (गोनाम्) गौवों के (दश सहस्रा) दस हजार अर्थात् ३०० घोड़े और दस सहस्र गौवें इषाय इच्छा करने वाले, जन को (नामहे) प्रदान करता है । वंही व्यक्ति 'नराशंस' अर्थात् सर्व साधारण प्रजाजनों से स्तुति करने योग्य होता है ।

(२) विद्वान् पुरुष का कर्त्तव्य

तिस्रो रेभ्यश्चनः ।

वच्यस्व रेभ वच्यस्व वृक्षे न पक्वे शकुनः ।

ओष्टे जिह्वा चर्चरीति जुरो न भुरिजोरिव ॥४॥

भा०—हे (रेभ) स्तुतिशील ! विद्वन् ! (वच्यस्व वच्यस्व) अच्छी प्रकार वचन बोल, उत्तम प्रवचन कर । (पक्वे) पके फलवाले (वृक्षे) वृक्ष पर (शकुनः न) जिस प्रकार पक्षी प्रसन्न होकर मनोहर ध्वनि करता है उसी प्रकार (वृक्षे पक्वे) काटने योग्य इस देह के पकजाने पर या परिपक्व ज्ञान होजाने पर तू (वच्यस्व वच्यस्व) ईश्वर की स्तुति कर, अपने से न्यून अपरिपक्व ज्ञानवालों को प्रवचन द्वारा प्रसन्नता से उपदेश कर । और (जिह्वा) जीभ (जुरः) छुरे के समान और (ओष्टे) होंठ (भुरिजोः इव) कैंची के फलकों के समान (चर्चरीति) चले ।

४— वच्यःस्व' इति क्वचित् । (दि०) 'वृक्षेण' इति क्वचित् । 'नष्ट'

इति शं० पा० ।

'श्रामते' इति शं० पा० ।

'वाचं श्रीणिहीषुर्नादीरस्तारन्' [१] । इति शं० पा० ।

प्रमेधानो ननीषा वृषा गाव इवेरेते ।

अमोत पुर्वका एषाममोत गा उपासते ॥१॥

भा०—(रेभासः) विद्वान् जन और (ननीषाः) उनकी उत्तम मनन पूर्वक कही बालियां (वृषाः गावः इव) सांडों और गौवों के समान (प्र ईरेते) अग्ने बढ़ती हैं । (एत) और (अमा) घर पर (गाः उपासते) गौओं के समान बैठती हैं, रहती हैं ।

प्र रंभ धियं भरस्व गोविदं वसुविदम् ।

देवत्रेमां वाचं कृषीपुं न वीरो अस्ता ॥२॥

भा०—हे (रेभ) स्तुतिशील विद्वन् ! तू (गोविदं) उत्तम ज्ञानमय परमेश्वर को प्राप्त कराने वाली और (वसुविदम्) समस्त ब्रह्मांड और देह-में बसने वाले परमात्मा और आत्मा को ज्ञान कराने वाली (धियम्) बुद्धि को (भरस्व) धारण कर । और (इयं न) बारा को जिस प्रकार अस्ता) फँकने वाला धनुष पर फँकता है । (देवत्रा) उपास्य देव के निमित्त ही (इमां वाचं) इस वाली को (कृषि) प्रदान कर, प्रेरित कर ।

'देवत्रा वाचं श्रीरौहीपुर्नवीरस्तारम्' यह पाठ शंकरपाण्डुरंग सम्मत है । उसका पद पाठ—देवत्रा । वाचं । श्रीरौही । इयुः । न । अवीः । अस्तारम् ॥

(३) उत्तम राजा का स्वरूप 'परिहित'

सप कलः परिहितः ।

राज्ञो विश्वजनोंनस्य यो देवो मर्त्याँ अति ।

दैश्वानरस्य सुष्टुतिमा श्रुणोता परिहितः ॥७॥

भा०—(विश्वजनोंनस्य) समस्त जनों के हितकारी (परिहितः) समस्त प्रजा की रक्षायें उनके चारों और रहकर रूप से विद्यमान और

अपने इर्द गिर्द प्रजा को बसा लेने वाले (वैधानरस्य) समस्त नेताओं और प्रजाजनों के स्वामी, अग्नि के समान सबको जीवनाधार, सूर्य के समान तेजस्वी (राज्ञः) उस राजा की (सुस्तुतिम्) उत्तम स्तुति (आसुनोत) करो, अथवा—(आशृणोत) श्रवण करो । (यः) जो (देवः) दानशील एवं विजयशील होकर (मर्त्यान् अति) मनुष्यों से बढ जाना है ।

‘परीक्षित्’—अग्निर्वै परीक्षित् । अग्निर्दि इमाः प्रजा परिचेति अग्नि हि इमाः प्रजाः परिष्वयन्ति । ऐत, ६ । ५ । ६ ॥

परिक्षिप्तः क्षेममकरोत् तम् आमनमाचरन् ।

कुलायं कृण्वन् कौरव्यः पतिर्वदति जायया ॥८॥

भा०—(परिक्षित्) प्रजा को अपनी रक्षा में बसाने वाला राजा (कौरव्यः) समस्त कर्म कुशल पुरुषों में श्रेष्ठ (पतिः) पालक होकर (जायया) स्त्री के समान अपनी पृथ्वी या प्रजा के साथ ही (कुलायं कृण्वन्) एक कुटुम्बसा बनाता हुआ (आसनम्) आसन, सिंहासन प्राप्त करके भी (तमः=तपः) तप का (आचरन्) आचरण करता हुआ (नः) हमारे (क्षेमम्) कल्याण (अकरोत्) करे ।

अथवा—(तमः आसनम्) शत्रुओं को कष्टदायी (आसन) अपने सिंहासन या ‘आमन’ नामक पाहुण्य का प्रयोग करता हुआ प्रजा का (क्षेमम् अकरोत्) कल्याण करता है और (वदति) आज्ञा देता, शासन करता है ।

कृत्स्नत् त आ इराणि दधि मन्थं परिभ्रतम् ।

जाया पतिं वि पृच्छति द्राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥९॥

भा०—(परिक्षितः राज्ञः) प्रजा के उत्तम रीति से बसाने वाले, उत्तम सबक राजा के (द्राष्ट्रे) द्राष्ट्र में (जाया) स्त्री, प्रजा (पतिम्) पति

को (वि पृच्छति) विविध प्रकार के प्रश्न पूछनी है कि (दधि) दही, ऐश्वर्य, (मन्थन्) मठा, मथनबल और (परिलुतम्) लव और से प्राप्त मखन या श्री इनमें से (ते) तरे लिये (क्तरत्) क्या पदार्थ (आहराणि) ला उपस्थित करें ?

अभीव स्वप्न जिहीति यवः पृक्वः पुरो विलम् ।

जनः स भद्रमेयंते राष्ट्रे राज्ञः परिहितः ॥१०॥

भा०—(स्वः अभि इव । मानों सूर्य के घूप में हुआ । वक्रः यवः) पका जौ अदि अन्न जिस प्रकार विलम् परः) खेत की हल से बनी रेखाओं पर (प्रजिहीते) खड़ा हो उसी प्रकार (सः जनः) वह प्रजाजन भी परिहितः राज्ञः राष्ट्रे प्रजाओं को सब प्रकार से बसाने और उसकी रक्षा करने वाले राजा के राष्ट्र में (भद्रम्) अत्यन्त सुख (एयंते) खूब अधिक मात्रा में भाग करता है । उत्तम राजा के राज्य में प्रजा खूब सम्पन्न हो जाती है ।

(४) राजा को । वद्वान् का आदेश और समृद्ध प्रजाएं

कथ चत्स्यः कारुष्याः । वद्वान् ॥

इन्द्रः कारुमद्वुध्वृत्तिष्ठ वि चरा जरन् ।

समेदुग्रस्य चर्कधि सर्व इत् तं पृणादुरिः ॥११॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजा (कारुम्) क्रियाशील, कर्मस्य पुरुष को (अबुध्वत्) जगाता और चेतनाता है कि (उत् तिष्ठ) उठ (जरन्) सबको उपदेश करता हुआ तू । वि चर) विविध देशों में विचरण कर । (मन इत्) मेरे ही (उग्रस्य) बलवान् पुरुष के अधीन रहा मैं (चर्कधि) रह कर काम कर । (सर्वः अरिः) समस्त शत्रु भी (ते पृणान्) मेरा पालन करें ।

१०—(दि०) 'यथा' (तृ०) 'नेषति' इति इ० पा० ।

११—(दि०) जनम् इति इ० पा०

इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इह पूरुषाः ।

इहो सहस्रदक्षिणोपि पूषा नि पीदति ॥१२॥

भा० (इह गावः) इस राज्य में हे गौवो ! (प्रजायध्वम्) तुम खूब पैदा होवो । (इह अश्वाः) इम राष्ट्र में हे घोड़ो ! तुम खूब बढ़ो । (इह पूरुषाः) इस राज्य में हे पुरुषो ! वीर्यवान् बलवान् मदां ! खूब बढ़ो ! (इह) इस देश में (सहस्रदक्षिणः) हजारों का दान देने वाला (पूषा) प्रजा का पालक पोषक पुरुष (निपीदति) विराजता है ।

मेमा इन्द्र गावां रिपन् मां आसां गोपती रिपत् ।

मासांममित्रयुर्जन इन्द्र मा स्तेन ईशत ॥१३॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यवान् ! (इमाः गावः) ये गौवं (मा रिपन्) पीड़ित न हों । (आसां गोपतिः) इनका गोपति, स्वामी मी (मा रिपत्) पीड़ित न हो । हे (इन्द्र) राजन् (आसाम्) इनपर (अभि-
व्रथुः) शत्रु रूप से वर्नने वाला, इनसे सौद का व्यवहार न करने वाला (मा ईशत) स्वामी न हो । (स्तेनः मा ईशत) चोर डाकू स्वभाव का पुरुष भी इनका स्वामी न हो ।

उप नरं नोनुमसि सूक्तेन वचसा व्यं भद्रेण वचसा वयम् ।

वनादाधिध्वनो गिरो न रिप्येम कदाचन ॥१४॥

भा०—(वयम्) हम सब (सूक्तेन वचसा) उत्तम रीति से कहे गये, उत्तम ज्ञान युक्त वेद के सूक्त रूप वचन से (नरम्) उस सबके नेता नरश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, सबके प्रवर्तक, राजा और परमेश्वर की (उप नोनुमसि) उपासना पूर्वक प्रेम से स्तुति करें । वह (नः) हमारी (अधिध्वनः) उच्च ध्वनि वाली (गिरः) वाणियों को (वनात्) सेवन करे । हम (कदाचन्) कभी (न रिप्येम) पीड़ित और दुखी न हों ।

[१२० (५)] दिशाओं के नामभेद से पुरुषों के प्रकार भेद

जय पञ्च वरुणः ॥

यः सभेयो विद्वथ्यः सुत्वा यज्वाय पुरुषः ।

सूर्यं चामूं रिशादसं तद् [तं] देवाः प्रागंकल्पयन् ॥१॥

भा०—(यः) जो (सभेयः) सभा के कार्य में कुशल, (विद्वथ्यः) ज्ञानपरिपक्व और संग्राम में कुशल, (सुत्वा) सोम सवन करने हारा, राष्ट्र को अपने शासन में रखने हारा, (यज्वा) दानशील, यज्ञकर्ता (पुरुषः) पुरुष हो (तद् [तम्] अमुम्) उस (सूर्यम्) सूर्य के समान तेजस्वी (रिशादसम्) हिंसक प्राणियों के नाशकारी पुरुष का ही (देवाः) विद्वान् विजयेच्छु पुरुष (प्राक्) सबसे आगे चलने हारे मुख्य पदपर (अंकल्पयन्) नियुक्त करते हैं ।

यो जाग्या अमेथयद् यत् सखायं दुर्ध्वति ।

ज्येष्ठाय यदप्रचेतास्तदाहुरधरागिति ॥२॥

भा०—(यः) जो पुरुष (जाग्या) अपनी बहिन से (अमेथयत्) संग करे और (यत्) जो (सखायं) मित्र को (दुर्ध्वति) मारना चाहता है और जो (ज्येष्ठाय) अपने से बड़े भाई के लिये (अप्रचेताः) उत्तम रीति से आदर नहीं करता (तद्) उसको (अधराग्) नीचे गिरने वाला (इति) ऐसा (आहुः) कहते हैं । उसको समाज से च्युत कर देना चाहिये ।

यद् भद्रस्य पुरुषस्य पुत्रो भवति दाधृषिः ।

तद् शिप्रो अत्रवीदुद्गं गन्धर्वः काम्यं वचः ॥३॥

भा०—(यत्) जो (भद्रस्य) भले सज्जन (पुरुषस्य) पुरुष का (पुत्रः) पुत्र (दाक्षिणः) साहसी, अपने शत्रुओं और प्रतिपक्षियों को दवाने और पराजय करने में समर्थ (भवति) होता है (तत्) उसको (विप्रः) विविध प्रकारों से प्रजा के सुखों से पूर्ण करने हारा (गन्धर्वः) वाणी को धारण करने हारा विद्वान् पुरुष (काम्यम्) प्रिय मनोहर (वचः) वचन का (अब्रवीत्) उपदेश करता है। वह (उदग्) 'उद्गन्' अर्थात् उदय को प्राप्त होने वाला होता है।

यश्च पणिरभुजिष्ठो यश्च रेवाँ अदांशुरिः ।

धीराणां शश्वतामह तदपागिति शुश्रुम ॥४॥

भा०—और (यः च) जो (पणिः) व्यापारी, व्यवहारवान् होकर भी (अ-भुजिष्ठः) दूसरों का पालन नहीं करता या धन का भोग नहीं करता और (यः च) और जो (रेवान्) धन सम्पन्न होकर भी (अदा-शुरिः) दूसरों को दान नहीं करता (शश्वतां) पूज्य, (धीराणाम्) बुद्धिमान् पुरुषों के बीच में (अह) निश्चय से वह (अपाग्) 'अपाग्' नीचे पट्ट के पाने योग्य है (इति) ऐसा (शुश्रुम) सुनते हैं।

ये च देवाँ अयंजन्ताथो ये च परादुः ।

सूर्यो दिवमिव गत्वायं मघवानो वि रंशन्ते ॥५॥

भा०—(ये च) और जो (देवान्) विद्वान् पुरुषों का आदर सत्कार करते हैं (अथो) और (ये च) जो (परादुः) दान करते हैं, (दिवम् गत्वायं सूर्य इव) आकाश को प्राप्त हुए सूर्य के समान (दिवम्) मोक्ष या परलोक को प्राप्त या दिव्यतेज या ज्ञान प्रकाश या उन्नत पद को (गत्वायं) प्राप्त होकर (मघवानः) धनवान्, ऐश्वर्यवान् पुरुष (वि-रंशन्ते) विविध प्रकारों से शोभा को प्राप्त होते हैं।

(६) योग्य और अयोग्य पुरुषों का वर्णन ।

अथ षट्जनकल्पाः । अनुष्टुभः ॥

वोऽनाक्ताजो अनभ्यक्तो अमणिरहिरण्यवान् ।

अब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तो ता कल्पेषु संमिता ॥६॥

भा०—(यः) जो (ब्रह्मणः) ब्रह्म के जानने वाले विद्वान् या बड़े पुरुष का (पुत्रः) पुत्र होकर भी (अब्रह्मा) स्वयं ब्रह्म, वेद का विद्वान् नहीं है वह (अनाक्ताजः) बिना अंजी आंख के समान उत्तम रूप से देखने और विवेक करने में समर्थ नहीं है । (अनभ्यक्तः) शरीर पर तेल आदि न लगाये हुए के समान सुन्दर और चित्ताकर्षक, या स्वस्थ भी नहीं है । वह (अमणिः) मणि भूषणादि को न पहनने वाले के समान गुणहीन रहता है । वह (अहिरण्यवान्) सुवर्णादि धारण न करने वाले के समान निर्धन और ज्ञान और गुणों का दरिद्र रहता है । (ता उ ता) ये सूत्र (कल्पेषु) क्रिया सामग्रियों में (संमिता) समान जाने गये हैं ।

'ब्रह्मणः पुत्रः'—विद्वान् का पुत्र । विद्वान् से उत्पन्न पुत्र और शिष्य दोनों होते हैं ।

उत्पादकब्रह्मदानोर्गर्भियान् ब्रह्मदः पिता ।

ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १४६ ॥

कामान्माता पिता चैवं यदुत्पादयते मिथः ।

संभूतिं तस्य तां विद्याद् यद् योनावभिजायते ॥ १४७ ॥

आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद् वेदपारगः ।

उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा जरामरा ॥ १४८ ॥

ब्राह्मस्य जन्मनः कर्त्ता स्वधर्मस्य च शासिता ।
 वालोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ॥
 अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ १५० ॥
 मातुरग्रेधिजननं द्वितीयं मौञ्जिव्रन्धने ।
 तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात् ॥ १६६ ॥
 तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीव्रन्धनचिह्नितम् ।
 तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ १७० ॥
 वेदप्रदानात् आचार्यं पितरं परिचक्षते ।
 शूद्रेण हि समस्तावद् यावद्वेदे न जायते ॥ १७२ ॥ (मनु० अ० २)

पैदा करने वाले पिता से ब्रह्मज्ञान का देने वाला पिता बड़ा है । माता
 पिता पैदा कर लेते हैं सही, वह तो योनिमात्र से उत्पत्ति है परन्तु आचार्य
 उसको 'सावित्री' से उत्पन्न करता है, वह उसकी नित्य जाति है । ब्राह्म
 जन्म का देने वाला विद्वान् बालक भी बूढ़े का पिता है । अज्ञानी पुरुष
 बालक के समान है, ज्ञान देने वाला पिता है । उपनयन द्वितीय जन्म है ।
 उसमें सावित्री माता और पिता आचार्य है । वेद प्रदान करने से आचार्य
 पिता है । वेद को बिना पढ़े पुरुष शूद्र है ।

य आक्ताक्षः स्वभ्यक्तः सुमणिः सुहिरण्यवान् ।

सुब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तो ता कल्पेषु संमिता ॥७॥

भा०—(यः ब्रह्मणः पुत्रः) जो ब्रह्मवेत्ता, वेदज्ञ का पुत्र वा शिष्य,
 (सु-ब्रह्मा) स्वयं उत्तम वेद का ज्ञाता विद्वान् होजाता है वह (आक्ताक्षः)
 अंजी आंख वाले के समान उत्तम रीति से शास्त्र की चक्षु से युक्त होजाता
 है । वह (सु-अभ्यक्तः) मात्र में तैल आदि लगाने वाले के समान,

सुन्दर और स्वस्थ रहता है। वह (सुमणिः) उत्तम मणि को धारण करने वाले के समान सुशोभित और (सुहिरण्यवान्) उत्तम सुवर्ण आदि धन के स्वामी के समान ज्ञान का धनी होता है। (ता उ ता) वे वे सब जन (कल्पेषु) कर्म के सामर्थ्यों में (सं-मिता) समान हैं।

अप्रपाणा च वेशन्ता रेवाँ अप्रदिदिश्च यः ।

अयभ्या कन्या कल्याणी तो ता कल्पेषु संमिता ॥८॥

भा०—(वेशन्ता) बावड़ी, तालाब (अप्रपाणा) जिसका जल पीने योग्य न हो, अथवा जिसके जल पीने आदि के लिये घाट न हो, (रेवान्) वह धनी पुरुष (यः च) जो (अप्रदिदिः) कर्मों का नही करता है और वह (कन्या) जो (कल्याणी) सुख देने वाली, ऊपर से रूपादि उत्तम कल्याण, शुभ, गुण लक्षणों से युक्त होकर भी (अयभ्या) मैथुन के योग्य न हो। अथवा (कन्या अकल्याणी) वह कन्या सुखकारी शुभ लक्षणों से युक्त न होकर (अयभ्या) मैथुन करने योग्य भी न हो, अर्थात् अगन्या हो। (ता उ ता) वे सब (कल्पेषु) कर्म सामर्थ्यों में (सं-मिता) समान हैं। अर्थात् पीने योग्य जल से रहित, अपेय, खारे या सड़े जल वाला सरोवर, अदानशील कंजूस और अगभ्या, दुर्भगा कन्या तीनों समानरूप से निन्दनीय और त्याज्य हैं।

सुप्रपाणा च वेशन्ता रेवान्सुप्रदिदिश्च यः ।

सुयभ्या कन्या कल्याणी तो ता कल्पेषु संमिता ॥९॥

भा०—(सुप्रपाणा च वेशन्ता) सरोवर उत्तम पान करने योग्य जल वाला, (रेवान्) धनाढ्य पुरुष (यः च) जो (सुप्रदिदिः) उत्तम

८—'अप्रतिदिदिश्चः' इति शं० पा० ।

९—'सुप्रतिदिदिश्चः' इति शं० पा० ।

सात्विक दान देने वाला और (कल्याणी कन्या) कल्याणकारी, शुभ, रूप, गुण लक्षणों से युक्त कन्या जो (सुयभ्या) सुखपूर्वक मैथुन करने योग्य अर्थात् गृहस्थ धर्मपालन करने योग्य, 'सुमना' है (ता ट ता) वे वे सब पदार्थ (कल्पेषु) कर्म सामर्थ्यों में (संमिता) समान व्रतलाये गये हैं अर्थात् वे तीनों उत्तम और ग्रहण करने योग्य हैं ।

परिवृत्त च महिषी स्वस्त्या चायुधिगमः ।

अनाशुरश्वोऽयामी तो ता कल्पेषु संमिता ॥ १० ॥

भा०—(महिषी च) और वह रानी जो (परिवृक्ता) पति द्वारा छोड़ दी गई है (च) और (स्वस्त्या) सुख से, कुशलपूर्वक (आयुधिगमः) युद्ध में न जाने वाला, भीरु सैनिक, (अश्वः) वह घोड़ा, (अनाशुः) जो तेज़ न हो, (आयामी) और जो पुरुष किसी नियम में न रह सके (ता ट ता) ये सब (कल्पेषु संमिता) कर्म-सामर्थ्यों में समान हैं । ये सब कार्य के अवसर पर त्यागने योग्य हैं ।

वाता च महिषी स्वस्त्या च युधिगमः ।

आशुरश्वः सुयामी तो ता कल्पेषु संमिता ॥ ११ ॥

भा०—(महिषी च) और महिषी, रानी जो (वाता) उत्तम पुरुष सुगन्धयुक्त हो, सुख से पतिसंग करनेहारी, उसकी प्रेमपात्र हो, और वह सैनिक जो (स्वस्त्या) सुख से, कुशलपूर्वक, वीरता से (युधिगमः) युद्ध में गमन करे, (आशुः अश्वः) वह अश्व जो उत्तम तीव्र गति वाला हो और (सुयामी) सुख से नियम में रहने वाला संयमी पुरुष (ता उ ता) ये सब (कल्पेषु) कर्म-सामर्थ्यों में (संमिता) समान हैं । ये काम के अवसर पर ग्रहणयोग्य लाभकारी, श्रेष्ठ हैं ।

१०—'च युधिगमः', 'अनाशुरश्वः' इति शं० पा० ।

११—'आशुरश्वः सुयामी' इति शं० पा० ।

(७) वीर राजा का कर्तव्य ।

अथातः पञ्च इन्द्रगाथाः ।

यदिन्द्रो दाशराज्ञे[S]मानुषं विगाहथाः ।

वरुथः सर्वस्मा आसीत् स ह यज्ञाय कल्पते ॥१२॥

भा०—(यत्) जिस प्रकार से हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यवन् ! (दाशराज्ञे) तू दशों दिशाओं के राजाओं के बीच (मानुषं) मनुष्य समूह को, अथवा (अमानुषम्) सामान्य मनुष्य से विलक्षण होकर (विगाहथाः) विचरता है । तू ही (सर्वस्मा) सबको (वरुथः) धरु के समान शरण देने वाला और आपत्ति विपत्तियों और शत्रु के आक्रमणों को रोकने वाला (आसीत्) होता है (सः ह) वह ऐसा पुरुष ही (यज्ञाय) यज्ञ, प्रजापति पद के योग्य (कल्पते) होता है ।

त्वं वृषाक्षं [वृषाक्षं] मघवन्नम्रं नर्याकरो रजिम् ।

त्वं रौहिणं व्यास्यो वि वृत्रस्याभिन्नच्छिरः ॥१३॥

भा०—हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! हे (नर्यं) नेताओं में कुशल ! (त्वं) तू (वृषा) बलवान् होकर भी (रजिम्) राजस भाव में लिस (अक्षम्) अपने आँख को या इन्द्रियों को अथवा (वृषाक्षं) भूमि को घेरकर व्यापने वाले वृत्र के समान प्रबल शत्रु को (नम्रम्) नम्र, विनयशील, विजित (अक्षरः) करता है । और (त्वं) तू (रौहिणं)

१२—'यदिन्द्रो दाश-' इति तै० भा० भाष्ये साधनः । 'विरुपः', 'यदिन्द्राशे'

'यज्ञाय' इति शं० पा० । 'यस्माय' इति राथः । यज्ञाय इति वचन्ति ।

१३—वृषाक्षं, वृषाक्षं, वृषाक्षं, वृषापाडमघ-इत्यादि नानापाठाः । नर्या, मर्या मर्या, इत्यादयः पाठाः । व्यास्यो, वास्यो इति च पाठौ । 'वृषापाड' इति राथकामितः ।

रोहिण्य, वट के समान अपने नाना दृढ़ मूलों पर स्थिर राजा को भी (वि आस्यः) विविध उपायों से उखाड़ डालता है और (वृत्रस्य) मेघ के समान फैलने और राष्ट्र के घेरने और शस्त्रास्त्रों की वर्षा करने वाले शत्रु के भी (शिरः) शिर, मुख्य सेनाभाग को (अभिनत्) तोड़ डालता है, छिन्न भिन्न कर देता है ।

यः पर्वतान् व्यदधा यो अपो व्यगाहथाः ।

इन्द्रो यो वृत्रहा महान् तस्मादिन्द्र नमोस्तु ते ॥१४॥

भा०—(यः) जो तू (पर्वतान्) पर्वतों के समान दृढ़, अमेघ शत्रुओं को भी (वि अदधाः) छिन्नभिन्न करता है और (यः) जो (अपः) जलों या नदियों के या समुद्र के समान अपार सेनाप्रवाह को भी (वि अगाहथाः) विविध रूपों से विचरता है (यः) और जो तू (इन्द्रः) शत्रुविदारक होकर (महान्) बड़ा भारी (वृत्रहा) घेरनेवाले शत्रु को नाश करने हारा है (तस्मात्) इस कारण से हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् विद्युत् के समान तीव्र, वेगवान् (ते नमः अस्तु) तुम्हें हमारा आदर पूर्वक नमस्कार है ।

प्रष्टि धावन्तं हर्यौरैश्चैःश्रवसमंत्रुवन् ।

स्वस्त्यंश्च जैत्रायेन्द्रमा वह सुस्रजम् ॥१५॥

भा०—(औच्चैःश्रवसम्) ऊंचे कानों वाले, (धावन्तं) वेग से दौड़ते हुए, (प्रष्टि) वेगवान् अश्व को (अंत्रुवन्) लोग कहते हैं कि हे (अश्व) वेगवान् अश्व ! तू (जैत्राय) विजय करने के लिये (सुस्रजम्) उत्तम माला धारण करने वाले, या उत्तम सेना व्यूह की रचना करने वाले (इन्द्रम्) सेनापति वीर पुरुषों को (स्वास्ति आवह) कुशलपूर्वक लेजा, उसको सवारी दे ।

युक्त्वा श्वेता औन्वैःश्रवसं हयौ युञ्जन्ति दक्षिणम् ।

पूर्वतमं स देवानां विभ्रंदिन्द्रं महीयते ॥१६॥

भा०—(श्वेताः) अति गतिशील, तीव्रगामी घोड़ियों को (युक्त्वा) रथ आदि में जोड़कर (हयौः) वेगवान् दोनों तरफ के अश्वों में से (दक्षिणम्) दायें में स्थित, या अति वेगवान्, बलवान्, क्रियाशील (श्वैः श्रवसन्) ऊंचे कान के घोड़े को (युञ्जन्ति) रथ में लगाते हैं । (सः) वह उत्तम अश्व (देवानां पूर्वतनन्) सब देवों, विजिगीषु पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ (इन्द्रम्) शत्रु नाशकारी बलवान् सेनापति को (विभ्रम्) धारण करता हुआ (महीयते) पूजित होता है ।

इति कुन्तापचक्रम् ।

[१२६] वीर सेना और गृहस्थ में लो का वर्णन ।

कप देवराप्रदानः ॥ देवरा ऋषिः । कनेराद्युर्निलनम् ॥ कनेराद्युर्निलनायात्
यानं वा पञ्चततिल्ल्याकृद्गारनकं दक्षम् ॥

एता अश्वा आ प्लवन्ते ॥१॥ प्रतीयं प्रातिसुत्वनम् ॥२॥

भा०—(एताः) ये तन्निवेग वाली (अश्वाः) अश्वघण्ट, सुइसवारों की सेनाएं (प्रातिसुत्वनम्) प्रतिपद में अभिषेक को प्राप्त हुए राजा के (प्रतीयन्) विरुद्ध (आ प्लवन्ते) दौड़ रही हैं ।

तासामेका हरिकिका ॥३॥ हरिकिके किमिच्छसि ॥४॥

भा०—(तासान्) उनमें से (एका) एक (हरिकिकि] का) हरि=कलिका] प्राण हरण करने वाले कलों को छोड़ने वाली है । वह 'हरिकिका' कहाती है ॥ ३ ॥ हे (हरिकिके) प्राणहारी कलों, दूरों को छोड़ने वाली ! तू (किम् इच्छसि) क्या चाहती है ?

गृहस्थ पक्ष में—(एताः अश्वाः आ प्लवन्ते) ये सांसारिक सुख की इच्छा करने वाली स्त्रियें (प्रतीपं) सुन्दर (प्रातिसुखनम्) प्रातिसव, पुत्रोत्पादक करने में समर्थ वीर्यवान् पति को प्राप्त होती हैं। (तासाम् एका) इनमें से एक=प्रत्येक (हरिक्तिका=हरिकन्यका) मनोहर कन्या है। अथवा (हरिक्तिका=हरि क्तिका) हरणशील गर्भधारण समर्थ कला, कामकला से युक्त है।

पति को प्राप्त हो जाने पर पति पूछे कि हे—(हरिक्तिके) मनोहर, गर्भधारण में समर्थ स्त्रि ! तू क्या चाहती है ?

साधुं पुत्रं हिरण्ययम् ॥५॥ क्वाहृ तं परास्यः ॥६॥

भा०—सेना उत्तर देती है—(साधुं) शत्रुओं को वश करने में समर्थ (पुत्रम्) पुरुषों की रक्षा करने हारे, दुःखों से बचाने वाले (हिरण्ययम्) तेजस्वी पुरुष को चाहती हूँ ॥५॥

सेनापक्ष में—(ह) निश्चय से (क्) कहां तू (तम्) उसको (परास्यः) दूर फेंक सकती है। अथवा (अहतं क् परास्यः) बलपूर्वक अघात खाये हुए वाण को तू दूर कहां फेंकती है ? ॥६॥

स्त्री के पक्ष में—स्त्री कहती है—(साधुं हिरण्ययं पुत्रम्) उत्तम, तेजस्वी पुत्र को चाहती हूँ ।

पुनः पति पूछता है—हे स्त्रि ! तू निश्चय से (तं) उस बालक को (क्) कहां (परास्यः) दूर करेगी, कहां छोड़ेगी ?

यत्रामूस्तिस्त्रः शिशपाः ॥७॥

भा०—सेनापक्ष में—(यत्र) जहां (अमूः) वे दूर शत्रुसेनाएं (शिशपाः) अति निन्दाजनक वचन कह रही हैं वहां ही मैं शस्त्रास्त्र फेंकती हूँ ।

स्त्री—(यत्र) जहां (अमूः) वे दूरस्थ (शिशपाः) शिशु बालकों के पालन करने वाले माता, पिता, आचार्य अथवा पालकों के समान पालक

तीनों (शिशवाः) वेदविद्याएं हों, या चाणी, मन और कर्म तीनों की पालक संस्थाएं हों, वहां मैं अपने बालक को छोड़ दूंगी ।

परि त्रयः ॥८॥ पृदांकवः ॥६॥ शृङ्गं धमन्तु आसते ॥१०॥

भा०—सेनापक्ष में—उन सेनाओं के ऊपर (परि त्रयः) वे तीन (पृत्-आकवः) सेना संग्रामों में आज्ञा देने वाले (शृंगं धमन्तः) सींग अर्थात् नरसिंगे फूंकते हुए (आसते) बैठते हैं ।

स्त्री-पक्ष में—जहां उन संस्थाओं के ऊपर (परि त्रयः) तीन (पृदा-कवः) मनुष्यों को उपदेश करने वाले विद्यमान हैं और वे (शृङ्गं) अज्ञान नाशक ज्ञान का (धमन्तः) उपदेश करते हुए (आसते) विराजते हैं ।

घ्ना शब्दाग्निसंयोगयोः । भ्वा० ।

अयमिहागतो अर्वा ॥११॥ स इच्छक्ता सं ज्ञायते ॥१२॥

सं ज्ञायते गोमयाद् गोमतिरिव ॥१३॥

भा०—(अयम्) यह (अर्वा) ज्ञानवान् पुरुष और अश्व के समान वेगवान् बलवान् पुरुष (इह आगतः) यहां आगया है ।

(शक्ता) जिस प्रकार घोड़ा लोढ़ से भली प्रकार पहचाना जाता है उसी प्रकार बलवान् पुरुष भी (शक्ता) शक्ति से ही पहचाना जाता है ।

११—'अयन्महाते अर्वाहः' इति शं० पा० । सहिच्छकं, सइत्सकं' सहि छकं, सइच्छकं ॥

१२—छकं सवागते इति नाना पाठाः । 'सइच्छकं सवागते । इति शं० पा० ॥

१३—सवागते, सवागमे, सवागते, गोमती, गोपती, गोगती इत्यादि नाना पाठाः । सवागते गोनीतिं गोगतीरिति, इति शं० पा० ।

(गोमयात्) गोधर से जिस प्रकार (गोगतिः) गौ या बैल के जाने का मार्ग पता लग जाता है उसी प्रकार वह विद्वान् पुरुष भी (गोमयात्) वाणिमय ज्ञान से और शक्तिमान् पुरुष (गोमयात्) भूमिमय राष्ट्र से (संज्ञायते) पता लग जाता है ।

पुंसां कुले किमिच्छसि ॥१४॥

भा०—हे स्त्री ! तू (पुंसां) वीर्यवान् (कुले) पुरुषों के कुल में प्राप्त होकर (किम् इच्छसि) क्या चाहती है ?

हे सेने-तू (पुंसां) पुरुषों के (कुले) समुदाय में आकर क्या चाहती है?

पक्वौ व्रीहियवा इति ॥ १५ ॥

भा०—(पक्वौ) पके (व्रीहियवौ इति) धान और जौ चाहती हूं ।

गृहस्थ सदा पके धान और जौ के खेत की इच्छा करता है । व्रीहि अर्थात् वंशवृद्धि करने वाले पुरुष और पुरुष वीर्य-‘व्रीहि’ है और स्त्रियां युवतियां ‘यव’ हैं । वे दोनों परिपक्व वीर्य हों यही सबकी अभिलाषा है । सेनापत्त में—‘व्रीहि’ धान्य सम्पत्ति या गृहत् राष्ट्र और ‘यव’ शत्रुनाशक वीर ये दोही पदार्थ सेनाओं को इष्ट हैं ।

व्रीहियवा अंघा इति ॥१६॥

भा०—(व्रीहियवौ) उक्त धान्य और जौ इन दो को ही (अंघाः) क्या तुम भोजन करती हो ?

अजंगर इवाविकाः ॥१७॥

१४—पुमां कुस्ते निमिच्छसि इति शं० पा० ।

१५—पत्य वद वयो इति शं० पा० ।

१६—‘वदवो अवा इति’ इति शं० पा० ।

१७—‘अजागार केविका’ इति शं० पा० ।

भा०—‘अजगर इव’ जिस प्रकार अजगर. महासर्प (अविकाः) छोटी २ भेड़ों को खाकर तृप्त होता है उसी प्रकार मैं मेना छोटी २ (अविकाः) राजधानियों वा जागीरों, रिवासतों को भी अपने भीतर कर लेती हूँ।

स्त्री के पक्ष में—अजगर जिस प्रकार भेड़ों को खाकर तृप्त होता है इसी प्रकार मैं भी (अविकाः) जीवन के रक्षा करने वाली इन अन्न की बनी चपातियों को खाकर ही तृप्त होती हूँ।

अश्वंस्य वारो गोशफश्च ते ॥१८॥

भा०—हे पुरुष ! (अश्वस्य वारः) अश्व के बाल और (गोशफः) गौ का खुर (ते) तुम्हें प्राप्त हों। अर्थात् चंदर और गौओं के चरण अर्थात् गो सम्पत्ति दोनों प्राप्त हों।

हे राजन् ! तुम्हें (अश्वस्य वारः) अश्वारोहीगण का शत्रुवारण करने वाला बल और (गोशफः च) वाणी के संघ और भूमियों के संघ (ते) तुम्हें प्राप्त हों।

श्येनपर्णी सा ॥१९॥

भा०—(श्येनपर्णी) श्येन के समान शत्रु पर वेत से आक्रमण करने वाले पुरुष के पालन सामर्थ्य से युक्त, अथवा श्येनाकार व्यूह के पक्षों को धारण करने वाली (सा) वह सेना है। अथवा—स्त्री श्येन के समान वीर एवं ज्ञानवान् पुरुष को पालक पति रूप से स्वीकार करने वाली है।

अनामया उपजिह्विका ॥२०॥

भा०—(सा) वह स्त्री सदा (अनामया) रोगरहित, स्वस्थ और (उपजिह्विका) जिह्वा को बश करने हारी हो।

सेना—(अनामया) रोगरहित, स्वस्थ, पीड़ा से रहित, राष्ट्र को हानि न पहुंचाने वाली और (उपजिह्विका) सेनापति की आज्ञा के बशवर्ती

और (उपजिह्विका) दीमक के समान शनैः २ परराष्ट्र का गुप्त रूप से भोग करने वाली, सुरंग आदि के गुप्त मार्गों से जाने वाली हो ।

[१३०] भूमि और स्त्री

को अपावहादिमा दुग्धानि ॥१॥

भा०—(कः) कौन (इमा) इन (दुग्धानि) गौश्रों के दूधों के समान दोहकर प्राप्त हुए पेश्वर्यों को (अप अवहत्) ले जाने में समर्थ है ? अथवा गृहस्थ स्वयं जिस प्रकार समस्त गौश्रों के दूधों को ले जाता है उसी प्रकार (कः) प्रजापति, राजा ही समस्त प्रजाश्रों और भूमियों से दुहे रत्न आदि पेश्वर्यों को (अप अवहत्) ढोकर लेजाता है ।

को असिकन्याः पयः ॥२॥

भा०—(कः) कौन (असिकन्याः) गहरे काले रंग की गौ का (पयः) दूध लेता है ।

प्रजापति पक्ष में—(कः) राजा प्रजा पालक ही (असिकन्या) उस भूमि को जिस में नहरों और कूप आदि साधनों से सेचन नहीं होता उस भूमि का भी (पयः) पुष्टि कारक अन्न (अपावहत्) प्राप्त करता है ।

को अर्जुन्याः पयः ॥३॥

भा—(अर्जुन्याः) अर्जुनी, श्वेत गौ का (पयः) दूध (कः) कौन ग्रहण करता है ! (कः) प्रजापति राजा ही (अर्जुन्याः) श्वेत धातु रत्न आदि से पूर्ण पृथिवी और धनार्जन करने वाली प्रजा का (पयः) पुष्टिकारक, धनैश्वर्य आदि ग्रहण करता है ।

कः काण्य्याः पयः ॥४॥

[१३०] १-‘को अथ बहुलिमा इप्सुनि’ इति शं०पा० । ‘इप्सुनि, इप्सुनि इति पाठौ ।

भा०—(कार्पर्याः) कृष्णा गौ का (पयः) दूध (कः) कौन ग्रहण करता है ? (कः) प्रजापति, राजा ही (कार्पर्याः) कृषि की जाने योग्य भूमि को (पयः) पुष्टिकारक अन्न आदि प्राप्त करता है ।

एतं पृच्छ कुहं पृच्छे ॥५॥

भा०—(एतं) इस विद्वान् पुरुष से (पृच्छ) प्रश्न करो । (कुहं पृच्छे) मैं कहां पूछूं ?

कुहा कं पक्कं पृच्छे ॥६॥

भा०—(कुहा) कहां (कं) किस (पक्कं) परिपक्व ज्ञान वाले पुरुष को प्राप्त कर मैं (पृच्छे) प्रश्न करूं ।

यत्रा नोपतिष्ठन्ति कुक्षिम् ॥७॥

भा०—(यवाः) जौ आदि अन्न, खाद्य पदार्थ (कुक्षिम्) पेट में (न उपतिष्ठन्ति) नहीं ठहरते ।

अकुप्यन्तः कुपायवः ॥८॥

भा०—(अकुप्यन्तः) जो कभी क्रोध नहीं करते हैं वे भी (कुपायवः) क्रोध करने लगते हैं ।

अमणिका मणिच्छदः ॥९॥

५—'कुष्टपृच्छ' इति शं० पा० ।

६—'पृच्छ' इति शं० पा० ।

७—'यवानो वतिस्वभिक्षुभिः' इति शं० पा० । 'यवावो' इति क्वचित् ।

८—'कुपायकुः' । इति शं० पा०

९—'आमणत्तः' इति क्वचित् । 'आमणको' इति शं० पा० । मणत्तः मणत्स इति क्वचित् । मणत्स इति शं० पा० ।

भा०—(मणिच्छदः) मणियों से भूषित वस्त्र पहनने वाले पुरुष भी (अमणिकाः) मणियों से रहित हो जाते हैं । अर्थात् धनाढ्य भी दरिद्र हो जाते हैं ।

द्रेत्र त्वा प्रति सूर्यम् ॥१०॥ एनीहरिक्रिका हरिः ॥११॥

भा०—हे (देव) देव ! राजन् ! (सूर्यम्) सूर्य के समान तेजस्वी (त्वा प्रति) तुम्हें ही (एनी) श्वेत (हरिक्रिका) अति शीघ्रगति वाली घोड़ी या पूर्वोक्त सेना और (हरिः) वेगवान् या वीर अश्व प्राप्त हो ।

अथवा—(हरिक्रिका एनी) मनोहर निर्दोष निर्मल कन्य^१ और (हरिः) उत्तम अश्व तुम्हें प्राप्त हों ।

प्रदुद्रुमुर्त्रां प्रति ॥१२॥

भा०—(मघा प्रति) दान योग्य ऐश्वर्यों को लेने के लिये (प्रति प्रदुद्रुः) दौड़ रहे हैं । सेना में अश्वारोही और जगत् में पुरुष सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये दौड़ रहे हैं ।

शृङ्गे उत्पन्ने ॥१३॥ मा त्वापि सखा नो विदत् ॥१४॥

भा०—(शृङ्गे) सींग नरसिंगा (उत्पन्ने) वजने पर अर्थात् युद्ध की घोषणा हो जाने पर हे राजन् (त्वा) तुम्हें को (नः) हमारा (सखा अपि) मित्र राजा भी (मा विदत्) प्राप्त न करे, वह तुम्हें न जाने कि तू कहां सुरक्षित है ।

१०—'देवत्वप्रतिसूर्य' इति श० पा० ।

११—'एनश्चिपंक्ति का हविः' इति श० पा० । 'पत्तिका' इति क्वचित् ।

१२—'प्रदुद्रुद्रो' इति श० पा० ।

१३—'शृङ्ग उत्पन्न' इति श० पा० ।

१४—'मात्वाभि' 'विदन्' इति श० पा० ।

वशायाः पुत्रमा यन्ति ॥१५॥

भा०—(वशायाः) वश करने वाली पृथ्वी या राष्ट्र के (पुत्रम्) समस्त पुरुषों को कर्षों से त्राण करने में समर्थ पुरुष की शरण (आयन्ति) सब प्राप्त होते हैं। वशा का पुत्र राजा है। देखो वशाप्रकरण ॥

इरा देवममदत् ॥१६॥

भा०—(इरा) पृथ्वी, ऐश्वर्य को देने वाली होकर (देवम्) विजिगीषु को उसी प्रकार प्रसन्न करती है जैसे स्त्री, अपने अभिलाषा करने वाले पति को चाहती है।

अथो अयमयमिति [अयन्त्रयन्त्रिति] ॥१७॥

भा०—(अथो) तब सब लोग कहा करते हैं (अयम् अयम् इति) यह वह पुरुष है, यह वह पुरुष है, जो राजा, विजयी, भूमि रूप राजलक्ष्मी का पति है।

अथो अयमिति [अथो अयन्त्रिति] ॥१८॥

भा०—(अथो अयम् इति) और यह वह पुरुष है।

अथोऽश्वा अस्यूरि नो भवन् ॥१९॥

भा०—(अथो) इस प्रकार (नः) हमारे (अश्वाः) अश्व, घोड़े सवार (अस्यूरि) दोष रहित, (भवन्) हों।

१५—'मायन्ती' मायति' इति ऋचित् ।

१६—'इरावे दुमयं दत्' इति श० पा० ।

१७—'अयन्त्रियन्त्रिति' इति श० पा० । 'अयमियमिति' इति राधहि' ।

१८—'अयन्निति' इति श० पा० ।

१९—'अस्थिरो भवन्' इति श० पा० ।

इयत्तिका शलाकका ॥२०॥

भा०—(इयत्तिका) इननी बड़ी (शलाकका) शलाका, सलाई या मागदण्ड है । इसका वर्णन अगले सूक्त में है ।

[१३१] राजशक्ति का वर्णन ।

आमिनेति विभिद्यते ॥१॥

भा०—इतना छोटी सी शलाका या मानदण्ड है । पर वह ही (आमि-
नोति) सब भूमि को माप लेता है । वह (विभिद्यते) स्वयं भी
नाना अंशों में बंटती होती है । इसी प्रकार राजा की शक्ति मानदण्ड के समान
है । वह छोटी होकर भी समस्त पृथ्वी को मापती है । और स्वयं भी
नाना खण्डों या विभागों में बंटती है ।

तस्य कर्तं निभञ्जनम् ॥२॥

भा०—(तस्य) उसी दण्ड के बल से (निभञ्जनम्) शत्रु का
आमर्दन, पराजय भी (कर्तं) कर डालो । जिस प्रकार दण्ड से मापा
जाता है । उसी प्रकार दण्ड से ही मारा भी जा सकता है उसी प्रकार
राजशक्ति से भी शत्रु का नाश करो ।

वरुणो याति वसुभिः ॥३॥

भा०—वह (वरुणः) शत्रुओं का वारण करनेद्वारा राजा और स्वयं
कृत पालक (वसुभिः) बसनेवाली प्रजाओं, और वसु, विद्वानों और
पेश्वों से युक्त होकर (याति) प्रयाण करता है ।

२०—'उयं यकांशलोक्ता' इति श० पा० ।

[१३१] १—'आमिनो निति भद्यते' इति श० पा० ।

२—'तस्य वसु', 'तस्यनु', 'तस्य वसु', 'तस्यवसु' इति नाना पाठाः ।

'तस्यवसु' इति शं० पा० ।

३—'वसुभिः इति शं० पा० ।

शतं वायोरुभीश्वः ॥४॥

भा०—(वायोः) वायु के समान तीव्र वेग वाले अश्व को नियम में रखने के लिये जिस प्रकार लगाने होती हैं । उसी प्रकार वायु के समान उग्र वेग से जाने वाले और शत्रुरूप वृत्तों को तोड़ने फोड़ने वाले राजा के भी (शतं) सैकड़ों (अभीश्वः) रांक धान करनेहारे साधन हैं । अथवा (शतं अभि-श्वः) उसके पास सैकड़ों 'श्व', बल और क्रिया साधन हैं । वही 'शतक्रु' है ।

शतमश्वा हिरण्ययाः । शतं रथा हिरण्ययाः ।

शतं कुप्या हिरण्ययाः । शतं निष्का हिरण्ययाः ॥५॥

भा०—(शतं) सैकड़ों उस राजा के अधीन (हिरण्ययाः) सुवर्ण से मण्डित, अथवा उत्तम गति से जाने वाले (अश्वाः) अश्व, अश्वारोही हैं । (शतम् हिरण्ययाः रथाः) सैकड़ों स्वर्णादि से मण्डित, अथवा अति सुन्दर विहार योग्य (रथाः) रथ हैं (शतं कुप्याः) सैकड़ों खजाने (हिरण्ययाः) सोने आदि रमणीय, सुन्दर रत्नों से भरे हुए हैं । (शतं निष्काः) सैकड़ों स्वर्णमुद्राएं, या आभूषण उसके (हिरण्ययाः) सुवर्ण रत्नादि के बने हैं ।

अहल कुशवर्त्तक ॥६॥

भा०—(अहल) हे 'अहल' घटिलेखनयोग्य ! तुम्हें को कोई उखाड़ नहीं सकता । वू (कुशवर्त्तक) कुश घास के समान रहता है । जैसे कुश घास जहां हल नहीं चलता वहां जन घाता है । और हल चल जाने पर फिर भी वार २ घाता है इसी प्रकार राज भी जड़ से नहीं उखाड़ता । वह वार २ सिर उठाता है ।

शफे न पीव ओहते ॥ ७ ॥

भा०—(शफे) घोड़े के जिस प्रकार खुर भाग में (पीवः) स्थूल मांस भाग (न) नहीं (ओहते) रहता । इसी प्रकार राजा के चरण भाग, सेवक लोगों में अधिक स्थूलता, या भोगविलास नहीं होना चाहिये । अथवा—जिस प्रकार (शफेन) खुरके बल से (पीवः) स्थूल शरीर (ओहते) धारण किया जाता है इसी प्रकार चरण स्थानीय पुरुषों या आज्ञा के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त करता है ।

आयं वनेन तेज[द]नी ॥८॥

भा०—(तेजनी=तेदनी) अग्नि को भड़काने वाली पूषी, (आयवने न) कोयलों को ऊपर नीचे करके जिस प्रकार अग्नि को भड़का देती है या 'कशा' जिस प्रकार आग को तीव्र कर देती है उसी प्रकार भेद छेदकर राजा सब को वश करता है ।

वनिष्ठौ नावं गृह्यते ॥९॥

भा०—जिस प्रकार खाया हुआ भोजन आतों में अटकता नहीं प्रत्युत पच कर कुछ मल बाहर हो जाता है और शेष अंगों में मांस रुधिर आदि बनकर चला जाता है उसी प्रकार राजा के पास आया धन भी भुक्त होकर पुनः अन्यों के पास चला जाता है ।

इदं मह्यं मण्डूरिके ॥१०॥

भा०—हे (मण्डूरिके) 'मण्डूरिके' ! सबको अति आनन्दित करनेहारी राजसभे ! तू इदं यह राज्यैश्वर्य (मह्यम्) मुझ योग्य पुरुष को प्रदान कर ।

ते वृक्षाः सह तिष्ठन्ति ॥११॥

भा०—(ते) तेरे निमित्त वे समस्त राजागण (वृक्षाः) पृथ्वी को घेर कर, उनमें जड़ जमा कर खड़े हुए वृक्षों के समान राज्य जमा कर तिष्ठन्ति) स्थिर खड़े रहते हैं ।

पाकंवल्लिः ॥११॥

भा०—राजा (याकवल्लिः) परिपक्व वीर्य होकर ही बलवान् होता है।

शकंवल्लिः ॥१३॥

भा०—(शकवल्लिः) वह शक्तिशाली पुरुष से मिल कर सामर्थ्यवान् होकर ही बलवान् होजाता है।

अश्वत्थः खदिरो ध्रुवः ॥१४॥

भा०—वह (अश्वत्थः) अश्व के समान चतुरंग सेना रूप चारों चरणों पर विराजता है। वह (खदिरः) खदिर वृक्ष के समान दृढ़ एवं (खदिरः) अतिस्थिर होकर विराजता है। वह (ध्रुवः) उत्तम पुष्पवान् ध्रुव नामक वृक्ष के समान सुन्दर, सुभूषित और मनोहर है।

अरदुपर्णः ॥१५॥

भा०—वह (अरदुपर्णः) अरदुपर्ण नामक वृक्ष के समान दृढ़ एवं स्थायी, अविनाशी, पालन सामर्थ्य से युक्त है।

शयं हत इव ॥१६॥

भा०—वह राज्य में रहता हुआ भी ऐसा प्रसुप्त सत्ता से रहे, मानो (हतः इव) मरसा गया हो, लोग उसे भूलसा जायँ। उसकी तीक्ष्ण शक्ति से उद्विग्न होते रहें।

व्याप्तः पूरुषः ॥१७॥

भा०—वह राष्ट्र में ऐसा व्यापक होकर रहे जैसे समस्त ब्रह्माण्ड में परम पुरुष और शरीर में आत्मा व्याप्त है और उसके प्रत्येक अवयव को चेतन और क्रियावान् कर रहा है।

अदूहन्निन्पीयूषम् ॥१८॥

भा०—मभी राजा के अर्धान विद्वान्गण मिलकर (पीयूषम्) परि-
पुष्ट करने वाले रस को इसी प्रकार भूमि से प्राप्त करें जैसे गौ से दुग्ध
बुहा जाता है और सूर्य की रश्मियां पृथ्वी से जिस प्रकार जल खींचती हैं ।

अर्ध्यंश्च परस्वतः ॥१६॥

भा०—वह राजा (परस्वतः च) परस्वान् नामक जंगली घोड़े से
भी अवि-अर्धः) अधिक बलशाली हो अथवा (परस्वतः) स्वराष्ट्र परराष्ट्र
में भी अधिक ऐश्वर्यवान् और समृद्ध हो ।

द्वौ च हस्तिनो द्वौ ॥२०॥

भा०—जिस प्रकार (हस्तिनः) एक हाथी के (द्वौ च द्वौ) दो
विदारण करने वाले दांत होते हैं उसी प्रकार (हस्तिनः) उत्तम, प्रशस्त
चनुर हाथ वाले धनुर्धर योद्धा के (द्वौ च) दोनों हाथ (द्वौ) शत्रु की
सेनाओं को विदारण करने में समर्थ हों ।

[१३२]

आदलांशुकमेकं कम् ॥१॥

भा०—(आत् एककम्) और वह एकमात्र (अलांशुकम्) तूम्बे के
समान रहता है । अर्थात् जिस प्रकार तूम्बा एकमात्र समस्त जल के बीच
में रहकर भी उसके ऊपर तैरता है इसी प्रकार अग्रणी राजा समस्त प्रजा
और सेना के ऊपर विराजता है । और स्वच्छन्दता से जल प्रवाह और
सेना प्रवाह के साथ जाता है ।

अलांशुकं निखातकम् ॥२॥

भा०—परन्तु तूम्बा तो बहुत घंचक होता है उसके विपरीत वह
(अलांशुकम्) उस तूम्बे के भी समान है जो (निखातकम्) भीतर से
खनकर खोखला कर लिया गया है । जिस प्रकार भीतर से खोखला तूम्बा

जलपात्र बन कर अपने भीतर जलों का आश्रय रहता है उसी प्रकार वह अग्रणी राजा समस्त प्रजाओं का आश्रय रहता है । अथवा—

कर्कुरिकं निखांतकः ॥३॥

भा०—वह अग्रणी पुरुष (कर्कुरिकः) कर्करी के फल के समान (निखांतकः) भीतर से खुदा हुआ, खोखला किया होता है । वह जिस प्रकार अपने ऊपर लगे सप्त स्वर के तन्त्रियों की ध्वनि को प्रबल और मधुर करता है उसी प्रकार राजा भी सर्वोश्रय होकर सबके उत्साहों, हर्षों और इच्छाओं को द्विगणित करता है ।

तद् वात उन्मथायति ॥४॥

भा०—(तद्) वह राजा (वातः) वायु के समान वेगवान् होकर (उन्मथायति) शत्रु दल को उथल पुथल करके नष्ट कर डालता है ।

कुलायं कृण्वदिति ॥५॥

भा०—वह (कुलायं) गृह, आश्रय, बड़ा संगठन (कृण्वत्) बनावे (इति) इस कारण से ।

उग्रं वनिपदाततम् ॥६॥

भा०—वह (उग्रम्) बड़े बलवान्, भयंकर और (आततम्) अति विस्तृत सैन्य को (वनिपत्) प्राप्त करता है ।

न वनिपदाततम् ॥७॥

भा०—वह (अनाततम्) अविस्तृत, स्वल्प बल को (न वनिपत्) नहीं स्वीकार करता है ।

क एषां कर्करि लिखत् ॥८॥

भा०—(एषां) इनके बीच में (कः) कौन (कर्करिम्) उस 'कर्करी' के समान समस्त स्वरों के उत्पादक कर्ता रूप विजेता, राजा को (लिखत्) लिखता है, अर्थात् कौन उसको भीतर से खोखला करता और उसे तैयार करता है ।

रु एषां दुन्दुभिं हनत् ॥६॥

भा०—(एषाम्) इनके बीच में से (दुन्दुभिम्) दुन्दु युद्ध में शोभा पाने वाले, अथवा शत्रुनाशक इस प्रबल राजा को (कः) कौन (हनत्) मारने में समर्थ है।

यदीयं हनत् कथं हनत् ॥११॥

भा०—(यदि) यदि (हयं, अयं) यह सेना, या सेनापति (हनत्) उसको मारे तो (कथं हनत्) उसको किस प्रकार मारता है।

देवी हनत् कुह हनत् ॥११॥

भा०—(यदि) देवी, विजयशालिनी सेना उसको मारती है तो (कुह हनत्) वह कहां मारती है ?

पर्यागारं पुनः पुनः ॥१२॥

भा०—(परि-आगारम्) जिस प्रकार मनुष्य बार २ अपने घर का ही आश्रय लेता है। वही लौट २ कर आता है उसी प्रकार सेना भी (आगारं परि) अपने आज्ञापक के इर्द गिर्द ही घर के समान उसका (पुनः पुनः) घर २ आश्रय लेती है।

त्रीण्यष्टस्य नामानि ॥१३॥

भा०—वास्तव में—(उष्टस्य) दाढ़ करने वाले, सेनापकारी, प्रतापी पुरुष के (त्रीणि) तीन ही (नामानि) नाम, स्वरूप, या वश करने और नमाने या दूसरे को मुका लेने वाले बल हैं।

हिरण्यमित्येकः अब्रवीत् ॥१४॥

भा०—(हिरण्यम्) हिरण्य, सुख या ऐश्वर्य (इति) यह (एकः) एक वशकारी पदार्थ (अब्रवीत्) कहा जाता है।

द्वे वा यशः शवः ॥१५॥

भा०—(आ) और (द्वे) दो पदार्थ और हैं एक (यशः) यश और दूनरा कीर्ति या ब्रह्म (शवः) बल ।

नीलाशिलखण्डो वा हनन् ॥१६॥

भा०—(वा) निश्चय से (नीलाशिलखण्डः) नीले तुरे वाक्का सेनापति हो (हनन्) शत्रु का विनाश करता है ।

इति ऐतशप्रलापाः ॥

ऋग्वेदपरिशिष्टान्तर्गतकुन्तापसूक्तपाठो यथोपलभ्यते तथा खिल्यते—

एता अश्वा आप्लवन्ते । प्रतीपं प्रातिसत्वन् । तासामेका हरिक्लिका । हरिक्लिके किमिच्छसि । साधुं पुत्रं हिरण्यं । क्वाहकं परास्यः । यत्रामु-
स्त्रिजः शिशपाः । परित्रयः पृदाकवः । शृंगं धनन्त ज्ञासते । अयं महान् ते
अवहि ॥ १० ॥ स इत्यकं स एवकं । सघाघते सवागमे । गोनीव सोमनी-
रभि । पुमान्भूजे त्तिनिसति । वद्वयो इति । वद्वयो अयो इति । अजकोरको-
विका । अश्वस्य वालो गोशफः । केशिनीरियेनी एनी वा । अनामयोपलि-
हिका ॥२०॥ को अं व कुलिमायुनि । को अर्जुन्या पयः को असिन्न्या पयः ।
एतं पृच्छ कुहं पृच्छ कुहाकं पक्वकं पृच्छ । य आयन्ति विधमिष्कुभिः ।
अकुम्पन्तः कुमायवः । आनणका मणत्थकः । देवतः प्रतिहूर्यः । विनिष्टि
पतिका हविः ॥ ३० ॥ प्रबुद्धदा मयायति । शृंग उत्पत । नात्वा द्विसत्ताना
विदन् । वशायाः पुत्रमायान्तं । इसचेन्द्रममदत । इयं नियंनिति । अयो
इयं निति । अयोज्यायस्तुरो भवत् । इयं यका शलाकका । आनिणोति
निभज्यते ॥ ४० ॥ तस्या अनु निभज्जनम् । वरुणो याति वभ्रुभिः । शतं
वभ्रोरभीशवः । शतं कशा हिरण्ययीः । शतं रथा हिरण्ययाः । आहल्लु-
शंवर्तकुः । आयवने न तेजनिः । शफे न पीव ओहति । वनुष्टुनोपनृत्यति
इयं महानदुरिति ॥ ५० ॥ ते वृद्धाः सह तिष्ठन्ति । पाकवलिः शकवलिः ।
अश्वतः त्वरुरो धवः । अरदुः परमः शय । हत इव पाप पूरुपः । अद्रोहनि

पीयूषकम् । द्वौ च हस्तनौ दती । अर्ध्वर्धं च परस्वतः । आदलायुक्मेककम् ।
 अलायुक्तं निखातकम् ॥ ६० ॥ कर्करिको निखातकः । तद्वात उन्मथा इति ।
 कुलायं करवां इति । उग्रं बलिशदाततं । नबलिशनदाततं । क एपां
 कर्करिं खनत् । क एपां दुन्दुभिं हनत् । यदी हनत् कथं हनत् । दैर्ली
 हनत् कथं हनत् । पर्याकारं पुनः पुनः । इति सप्तति पदान्यैतश प्रलापाः ॥

अध्यात्म व्याख्या ।

अध्यात्म में आत्मा और ब्रह्माण्ड में परमेश्वर अग्रणी और ज्ञानवान्
 और प्रकाशस्वरूप होने से 'अग्नि' हैं अतः अब ऐतश प्रलापों की अध्यात्म
 परक व्याख्या की जाती है ।

१. ये भोग करने की वृत्तियाँ सब तरफ़ भाग रही हैं ।

२. और उनके प्रेरक आत्मा से प्रतिकूल उससे विपरीत दिशा में
 जा रही हैं ।

३. उनमें से एक 'हरिक्लिका' हरि, सबके इत्ता आत्मा की सूक्ष्म
 'कण' या दासि रूप में स्वर्ण ज्योति के रूप में दीपशिखा के समान
 'चिति कला' है वह इच्छास्वरूप है ।

४. हे 'हरिक्लिके' आत्मा की एक कला या चितिकले तू क्या चाहती है

५. मैं सबके वश करने वाले, नरक के त्रिविध दुःखों से बचाने वाले
 उस तेजोमय आत्मा को चाहती हूँ ।

६. (क आह तं) उसका कौन तुझे उपदेश करे ? (परा स्यः) वह तो
 बहुत दूर अवाद् मनसगोचर है ।

७. वह वहां है जहां तीन 'शिशपाः' उस परम सुस सत्ता के पालन
 करने वाली तीन अनादि शक्तियाँ विद्यमान हैं ।

८. वे तीनों बहुत दूर हैं ।

९. वे तीनों पूर्ण सामर्थ्य वाले हैं ।

१०. सब (शृङ्गं) मूल कारण को प्राप्त हुए रहते हैं ।

११. यह यहाँ, इस शरीर में आत्मा, गाढ़ी में अन्न के समान युक्त है ।

१२. वह इस शरीर में देखने, सुनने, बोलने आदि की शक्ति विशेष से भली प्रकार जाना जा सकता है ।

१३. गौत्रों के समूह को देखकर जिस प्रकार गौश्रों के एकमात्र गति, चारा या आश्रय रूप गोपति या ब्रज का अनुमान होता है उसी प्रकार इन्द्रियों को देखकर उनसे उत्पन्न (गोभय) ज्ञान से ही 'गोमति' अर्थात् इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान के एकमात्र आश्रय का भली प्रकार ज्ञान किया जाता है ।

१४. हे आत्मन् ! (पुंसाम्) प्राणों के समूह के बीच तू यहाँ क्या चाहता है ?

१५. जैसे कृषिकर्म के परिश्रम के अनन्तर किसान चाहता है कि उसे खेत में पके लौ, धान मिलें उसी प्रकार मैं आत्मा भी इस शरीर में प्राणों के बीच में बैठा हुआ अपने कर्मों के परिपक्व फलस्वरूप 'त्रीहि' शक्ति के बढ़ाने वाले फल, अभ्युदय और 'यव' त्रिविध तापों का नाश करने वाले साधन, निश्चय से इन दो पदार्थों को ही चाहता हूँ ।

१६. हे आत्मन् ! तू इस शरीरायतन में कर्म के परिपक्व, फलस्वरूप सुख, अभ्युदय रूप 'त्रीहि' धान्य और 'यव' शरीर से आत्मा का पृथक् होना अर्थात् जन्म और मृत्यु, सुख और दुःख (अघाः) भोग करता है ।

१७. मैं चाहता हूँ कि (अजगर इव) जिस प्रकार अजगर अनायास अरुपायाम से ही भेड़ बकरी आदि छुद्र जन्तुओं का भोग करता है उसी प्रकार मैं (अजगरः) अभोक्ता होकर भी (अविज्ञाः) नाना देहों में गमनागमन की क्रियाओं का भोग करूँ ।

१८. हे आत्मन् ! भोज्या तुम्ह आत्मा को (वारः) नाना वरण करने योग्य काम्य पदार्थ और (गोशफः च) इन्द्रियों द्वारा प्राप्त और वाणी द्वारा कहे जाने योग्य नाना ज्ञान (ते) तुम्हें प्राप्त होते हैं ।

१९. तुम्हें तो (श्येनपर्णी) ज्ञानवान् आत्मा के पालन करने वाली (सा) वह परम मोक्ष पदवी चाहिये ।

२०. जो (अनामया) सब प्रकार के रोग, शोक भय, पीड़ा दुःखादि से रहित (उपजिह्विका) जो सदा जिह्वापर रक्खी रसीली धार के समान निरन्तर रस देने वाली, रसस्वरूप है ।

(२)

१. इन आत्मानन्द रसों को कौन प्राप्त करता है ।

२-४. असिकी गहरे लाल रंग की श्वेत और काली इन तीन रंगों की सत्व, रजस्, तमस्, तीन गुणों वाली प्रकृति के रसों को कौन प्राप्त करता है ।

५. इस प्रश्न को इस विद्वान् से पूछ । मैं कहां प्रश्न करूं ?

६. कहां, किस परिपक्व ज्ञानवान् पुरुष से मैं यह प्रश्न पूछूं ?

७. 'यव' अर्थात् मुक्त होने के साधन (कुत्तिम्) कुत्सित आचरण वाले पुरुष को प्राप्त नहीं होते ।

८. निर्धन सदा धनकी आकांक्षा करते हैं ।

९. मणि रत्नादि से युक्त धनाढ्यजन भी 'अमणिक' अर्थात् मणि आदि से रहित हो जाते हैं ।

१०. हे देव (त्वा सूर्यं प्रति) तुम्हें सबके प्रेरक तेजस्वी पुरुष को मैं प्राप्त होऊँ ।

११. 'एनी' वह श्वेत 'हरिक्रिका' सर्व दुःखहरिणी दीप्ति तेरी है । तू 'हरि' सर्व दुःखहरण करने में समर्थ है ।

१२. सभी लोग धन पेशियों के प्रति वेग से जाते हैं ।

१२. विशेषज्ञान उत्पन्न होजाने पर,

१४. (ना त्वा अपि) सुक्त आत्मा को और (त्वा) तुम्हें परमेश्वर को (नः सन्नाः) हमारा मित्र ही (विद्वत्) प्राप्त करे ।

१५. सर्व वशकारिणी ब्रह्मशक्ति के पुत्र अर्थात् पुरुष को त्राण काने छोड़े राजा के समान वार्धवान् पुरुष की शरण में सभी आते हैं ।

१६. पृथ्वी जिस प्रकार राजा की और जल जैसे सूर्य को तृप्त करता है उसी प्रकार ज्ञान-राशि देव ज्ञानी को तृप्त करता है ।

१७. वह साक्षात् करता है कि वह वह रसघारा है । यह वह है ।

१८. और यह है, वस ।

१९ और (नः अन्धाः) हमारे भोक्ता जीवन्मृत नष्ट नहीं हों ।

२०. यह इतनी ही शलाका प्रकृति है ।

(३)

१. जो आत्मा को पीड़ित करती है । उसी का नाश किया जाता है ।

२. उसी का छुड़न करो । उसके कट जाने पर,

३. यह आत्मा स्वयं राजा के समान देह में बसाने हारे प्राणों के साथ जाता है ।

४. वायु के समान मुख्य आत्मा की सौ रश्मियां हैं ।

५. सौ तेजस्वी अश्वों के समान व्यापक सामर्थ्य हैं ।

६. रथों के समान सैकड़ों तेजस्वी रस, बल या रमण साधन हैं ।

७. सैकड़ों सुवर्ण समा ज्ञानों के समान रमण योग्य गुप्त पेश्य हैं ।

८. धामूपणों के समान सैकड़ों विशेष सुख हैं ।

६. बिना उखाड़े कुशा के समान हे नित्य ! वर्तमान परमात्मन् !
१०. तू एक चरण में भारी संसार को धारण करता है।
११. संसार के संचालन में तू कशा के समान है।
१२. ब्रह्माण्ड के उदरभाग में भी परिमित नहीं है।
१३. हे मरहूरिके ! अति सुखकारिणी ! (इदं) यह साक्षात् ज्ञान मुझे प्राप्त हो।
१४. वे वृद्ध के समान स्थिर समाहित आत्मा विराजते हैं।
१५. परिपक्व ज्ञान से आत्मा बलवान् होता है।
१६. शक्ति सामर्थ्य से बलवान् आत्मा है।
१७. वह आत्मा (शये) हाथ में रखे पदार्थ के समान साक्षात् है।
घयवा मृतपुरुष के समान प्रसुप्त, अव्यक्त रूप से विद्यमान है।
१८. वह 'अरद्दु' नाम वृद्ध के पत्र के समान लेप से रहित,
असंग है।
१९. वह 'अश्रुत्य' सनातन व्याप्त होकर विराजने वाला है, वह 'खदिर'
सदा स्थिरता से विद्यमान नित्य है। वह 'धव' सब दुःखों और पाप मलों
को नाश करने वाला शुद्ध, बुद्ध, सुकृत्वभाव है।
२०. वह पुरुष पूर्ण, परमेश्वर, सर्वत्र व्यापक है।
२०. उसी परम-अमृत को सब योगी प्राप्त करते हैं।
२२. वह परमस्वरूपवान् महान् समृद्ध है।
२३. (हास्तिनः) हाथी के दोनों दाँतों के समान आत्मा के दोनों
ज्ञान और कर्म बन्धन काटने वाले हैं।

(४)

१. तनन्तर एकमात्र वह आत्मा तूम्हें के समान संसार सागरपर
घैरता है। इसमें नहीं डूबता।

२. वह तूम्बे के समान आत्मा प्रकृति रूप पृथ्वी में गढ़ जाता है ।
३. वह आत्मा कर्करी के समान गढ़ जाता है ।
४. उसको 'वात' प्राण हिलाता डुलाता है ।
५. वह अपना उसे आश्रय बना लेता है ।
६. वह उग्र अतः बलशाली व्यापक ऐश्वर्य का भोग करता है ।
७. स्वत्व का भोग नहीं करता ।
८. इन प्राणगणमें से उस कर्ताको कौन उखाड़ता है, मुक्त करता है ?
९. उनमें से कौन दुन्दुभि अर्थात् भीतरी नाद को बजाता है ।
१०. जो बजाता है वह कैसे बजाता है ?
११. देव आत्मा की चितिशक्तिबनाती है, तो वह कहां बजाता है ?
१२. वह आत्मा पुनः अपने आश्रय में आता है अर्थात् पुनः २ देह में आता है ।

१३. सर्व दुःखदाहक के तीन नाम हैं ।

०४. एक 'हिरण्य' अर्थात् तेजोमय आत्मा ऐसा एकनाम कहा जाता है ।

१५. 'यश' वीर्य और 'शवः'—'बल' या 'ज्ञान' ये दो नाम और हैं ।

१६. या वह 'नीलशिखण्ड', इस आश्रय शरीर के मूर्धाभाग में स्थित ब्रह्मरन्ध्रत प्राण ही उस भीतरी नाद को बजाता है ।

इस प्रकार ऐतशमुनि' दृष्ट 'प्रकाश' अर्थात् उत्कृष्ट सूक्तों की आध्यात्मिक योजना है । इस सूक्त के और भी नाना विकृत पाठ हैं । जिन से विचित्र २ अर्थों की प्रतीत होती है । वस्तुतः यह सूक्त बड़े रहस्यमय है इन पर और भी अधिक विचार की आवश्यकता है ।

[१३३] ब्रह्म प्रकृति विषयक ६ पहेलियां ।

विततौ किरणौ द्वौ तावां पिनष्टि पुरुषः ।

न वै कुमारि तत तथा यथां कुमारि मन्यसे ॥१॥

भा०—(द्वौ) दो (किरणौ) पीस २ कर फेंकने वाले चक्की के दो पाटों के समान आकाश और पृथिवी (विततौ) अति विस्तृत हैं । (तौ) उन दोनों का (पुरुषः) पुरुष एक ही अकेला (आ पिनष्टि) निरन्तर चक्की के समान पीसता चलाता है ।

हे (कुमारि) नवयौवन वाली कन्ये ! (तत्) वह ब्रह्मत्व (तथा न) वैसा सरल नहीं (यथा) जैसा हे (कुमारि) रहस्य को न जानने वाली आलिका के समान सुगन्धयुद्धे ! तू (मन्यसे) जानती है । स्त्री और पुरुष या प्रकृति जीव ये दो किरण अर्थात् कर्ता भोक्ता रूप से हैं उनको (पुरुषः) दोनों को परम आत्मा ही अकेला सर्ग रचकर चलाता है ।

मातुष्टे किरणौ द्वौ निवृत्तः पुरुषादृतेः । न वै० ॥२॥

भा०—(ते) तेरे (मातुः) माता, रचने हारे (पुरुषात्) पुरुष से (द्वौ) दो (किरणौ) किरण, संसार के रचने वाले (ऋते) इस प्रकार व्यक्त संसार में (निवृत्तः) क्रिया करने में समर्थ होते हैं । अर्थात् भोग्य भोक्ता रूप में प्रकट होते हैं । अथवा वे दोनों (पुरुषादृते) परम पुरुष से भिन्न हैं । विधाता और ज्ञाता परमेश्वर से दोनों ' किरण ' अर्थात् कारक प्रकृति और जीव प्रेरित है । पर वे दोनों परम पूर्ण पुरुष से (ऋते) भिन्न हैं । वह परमेश्वर न भोग्य है, न भोक्ता है ।

निगृह्य कर्णकौ द्वौ निरायच्छि मध्यमं । न वै० ॥३॥

२—(द्वि०) ' नीवीतः पुरुषादृते ' इति श्र० प० । ' निवृत्तः पुरुषानृते ' इति श्र० पा० । निवृत्तः पुरुषादृतिः इति राय ॥

३—' मध्यमान् ' इति श्र० पा० ।

भा०—हे (मध्यमे) बीच में स्थित, सर्वव्यापक रूप से वर्तमान ब्रह्मशक्ते ! तू कर्णकौं। क्रियाशील दोनों कारकों के वश करके (निः श्राय-च्छसि) ऐसे बंध देती है जैसे रस्सियों के दो छोर पकड़ कर बीच में गांठ लगादी जाती है । (न वै० इत्यादि पूर्ववत्)

उत्तानायै शयानायै तिष्ठन्नेत्र वाचं गूहसि । न वै० ॥१॥

भा०—हे पुरुष ! परमेश्वर ! जिस प्रकार (उत्तानायै शयानायै) उत्तान लेटी हुई स्त्री को स्वयं पुरुष भी लेट कर भोग करता है उस प्रकार तू प्रकृतिरूप स्त्री को भोग नहीं करता, प्रत्युत उसके विपरीत यह है कि प्रकृति 'उत्ताना' तरे प्रति सर्व प्रकारसे अपना सर्वांग खोलकर स्तब्ध, निश्चल जब होकर विद्यमान है और 'शयाना' अर्थात् प्रसुप्त रूप में निश्चल संतव, रजस्, तमस तीनों गुणों में अविकृत भाव से अव्यक्त रूप से पड़ी है । पर तू सर्वत्र अकंला स्तब्ध रूप से 'स्थायु' वृद्ध के समान स्थित है तो भी (अवगूहसि) तू उसको सर्वाङ्गों में आलिंगन करता है, व्याप्त रहा है उसके कण २ में रज २ में, रम रहा है । नीचे पड़ी को खड़ा पुरुष किस प्रकार धारण करता है ! ऐसे जैसे पृथ्वी पर पड़ी जूती को खड़ा पुरुष पहन लेता है । (न वै० इत्यादि) पूर्ववत् ।

श्लक्ष्णायाम् श्लक्ष्णिकायाम् श्लक्ष्णैर्वाचं गूहति । न वै० ॥१॥

भा०—(श्लक्ष्णायाम्) स्नेह वाली, (श्लक्ष्णिकायाम्) घृतादिक के स्पर्श से अति स्निग्ध स्त्री में (श्लक्ष्णान्) अत्यन्त आसक्त पुरुष के समान (अवगूहसि) तू प्रकृति का आलिंगन करता है । कैसे ? जैसे उत्तम पति घृताक्त स्त्री को प्रेमपूर्वक आलिंगन करता है । अथवा जिस प्रकार धंजनदानी में सलाई ।

अवश्लक्ष्णमित्रं अंगदन्तलोमवतिं हृदे ।

न वै कुमारि तत् तथा यथां कुमारि मन्यसे ॥६॥

भा०—(श्लक्ष्णम्) पिच्छिल, अति स्नेहमय, चिकण पदार्थ (लोम-
वति हृदे अन्तः) लोम, केशों के समान शैवाल वाले तालात्र में जिस
प्रकार (अवश्लक्ष्णम्) नीचे फिसलसा जाता है, नीचे बैठ जाता है उसी
प्रकार (श्लक्ष्णम्) अति व्यापक ब्रह्म बीज भी (लोमवति) उच्छेद्य
पदार्थों से युक्त, विकारमय (हृदे) जलाशय के समान इस सलिलमय
प्रकृति तत्व में (अवश्लक्ष्णम्) नीचे उतरकर उसमें प्रविष्ट या व्याप्त होजाता
है । ऐसे जैसे अंजन भरी सत्ताई आंखों की कोरों में । (न वै० कुमारि०
इत्यादि पूर्ववत्)

५ से ६ तक ये ४ अक्षर्युं पं० ग्रीफिथ ने अश्लील, जानकर अनुवाद
में छोड़ दी हैं ।

व्याख्या में कहे दृष्टान्तों को अगले [१३५] सूक्त में देखिये ।

[१३४] जाव, ब्रह्म, प्रकृति ।

अथ पृ० आजिज्ञासेन्याः ॥

इहेत्थाप्रागपागुदंगधराग् । आसन्ना उदभिर्यथा ॥ १ ॥

भा०— इह) इस जगत् में (इत्था) इस प्रकार (प्राग्) प्रागे,
(अपाक्) पीछे, (उदक्) ऊपर और (अधराक्) नीचे ये सब दिशाएँ
(उदभिः) जलों और जीवों से (आसन्ना) व्याप्त हैं । वतलाओ कैसे ?
उत्तर—ऐसे भरी हैं जैसे जलों से जलपात्र भरे हों ।

वत्साः पुपन्तं आसते ॥ २ ॥

भा०—(वत्साः) जीवों के बसाने वाले लोक बिन्दु के समान उस
अनन्त ब्रह्म में स्थित हैं । कहां कैसे ? उत्तर—ऐसे जैसे जल में घी के
बिन्दु ।

स्थालीपाको वि लीयते ॥ ३ ॥

भा०—यह ममस्त प्राकृतिक संसार और जीव (स्थालीपाकः) आग पर रक्खी हंडिया के समान कलाभि से परिपक्व होता है और (विलीयते) स्वयं विविध प्रकारों से विलीन होजाता है । बतलाओ कैसे ? उत्तर—जैसे पीपल के पत्ते पीपल पर आप से आप परिपक्व होकर पीले पड़ जाते हैं और आप से आप दूर गिरते हैं । उसी प्रकार ये जीव ब्रह्म रूप अत्यथ पर पककर स्वयं मुक्त होजाते हैं और उसी में लीन होजाते हैं इसी प्रकार यह संसार भी प्रलयकाल में आप से आप कारण में लीन होजाता है ।

सा वै स्पृष्टा लीयते ॥ ४ ॥

भा०—(सा) वह अविद्या तो (प्राग्० इत्यादि) सब तरफ से ज्ञानरूप ब्रह्म से स्पर्श पाकर ही विलीन होजाती है । बतलाओ कैसे ? ऐसे जैसे पानी की बूंद हाथ से छूते ही उसी में लग जाती है ।

ऊष्णे लोहे न लिप्सेथाः ॥ ५ ॥

भा०—(ऊंष्णे) प्रतप्त, गरम (लोहे) लोहे पर (न) मत (लिप्सेथाः) लोभ करो । अर्थात् उष्ण, दाहकारी दुःखदायी (लोहे=रोहे) जन्म लाभ, संसार में जन्म लेने के निमित्त (न लिप्सेथाः) भोग आदि के लाभ की इच्छा मत करो । कैसे ? जैसे गरम चमचे पर मीठा पदार्थ लगा देखकर बालक लोभ से उसपर मुंह मारते हैं उनका मुख जल जाता है इसी प्रकार भोगमय, कष्टप्रद राजस, जीवन रूप जन्म लाभ पर मत ललचाओ । दुःख पाओगे ।

इदं त्वं प्रागयागुदंगधराग् । अशिक्षिलक्षुं शिशिक्षते ॥ ६ ॥

भा०—सब तरफ से (अशिक्षिलक्षुं) यह प्रकृति उस ब्रह्म को जो उससे चिपटना भी नहीं चाहता एवं असंग हैं स्वयं उससे चिपटन

चाहती है । उससे लगा चाहती है और संसार को उत्पन्न कर लेती है ।
वतलाओ कैसे ? जैसे चींटी वट बीज को ।

[१३५] जीव, ब्रह्म, प्रकृति ।

अथ तिस्रः प्रतिराश्वः ॥

भुगित्यभिगतः ॥१॥ शलित्यपक्रान्तः ॥२॥ फलित्यभिष्ठितः ॥३॥

भा०—१. (भुक्) यह जीवात्मा भोक्ता है (इति) इस रूप से ही वह (अभिगतः) समीप इस देह में आगया है । कहां कैसे ? उत्तर जैसे कुत्ता, रोटी दिखाने पर आ जाता है ।

२. (शल् इति) जब शरीर शीर्ण हो जाता है तब वह 'शल्' शरीरान्तरगामी आत्मा होने से आप से आप शरीर से (अपक्रान्तः) निकल भागता है । कहां कैसे ? जैसे पत्ती अपने घोंसले से उड़ जाता है ।

३. (फल् इति) वह फटकर दो भागों में टूटा (इति) इस प्रकार एकाक्षर प्रजापति भी स्त्री पुरुष दो मूर्ति होकर (अभिष्ठितः) यहां स्थित हो गया । कहां कैसे ? जैसे गाय का लुर । वह फटकर स्थित हो जाता है ।

अथ प्रवहिकानां पट् प्रवादाः ।

दुन्दुभिमादननाभ्यां जरितरोथामो द्वैव [जरितर्चर्दामो देव] ॥१॥

भा०—१ हे (द्वैव) देव ! विद्वन् ! (जरितः) हे जरितः स्तुति-कर्तः । (ओथामः=वदामः) तेरी कही प्रवृत्ति का रहस्य हम वतलाते हैं तुमने प्रथम कहा कि (वित्तौ किरणौ द्वौ तौ आपिनष्टि पुरुषः) दो साधन हैं उन दोनों को एक पुरुष पीसता है, कैसे—(आहननाभ्याम् दुन्दुभिम्) जैसे दो आघात करने वाले दरदों से एक ही पुरुष दोनों नक्कारों को एक ही साथ ताड़ता है इसी प्रकार एक आत्मा शरीर में प्राण और अपान द्वारा शरीर को चलाता है । और दो शक्तियों से परमेश्वर घाँ और पृथिवी रूप

'दुन्दुभि' द्वन्द्व या जोड़े रूप से प्रतीत होते हुए इन को सम्बोधित करता है ।

कोशविले (२)

भा०— मातुस्ते किरणौ द्वौ० इसका उत्तर यह है । दो साधन एक मूल में किम प्रकार रहते हैं ? उत्तर—ऐसे जैसे (कोशविले) एक मियान में दो विले हों ।

रज्जुनि ग्रन्थेर्दानम् (३)

भा०—(निगृह्यकर्णकौ० इत्यादि) इसका उत्तर यह है । दो कर्णाओं को किस प्रकार ब्रह्मशक्ति नियम में रक्षती है ? ऐसे जैसे (रज्जुनि) रस्सों में (ग्रन्थेः दानम्) गांठ देदी जाती है । दोनों छोर पकड़ कर गांठ लगा दी जाती हैं ।

उपानहिं पादम् (४)

भा०—प्रकृति अचेतन सोती स्त्री के समान है और पुरुष चेतन खड़े पुरुष के समान है । उनका परस्पर संयोग कैसे ? (उत्तानायां० इत्यादि) का उत्तर है । (उपानहि) जुते में (पादम्) चरण को जिस प्रकार पुरुष डाल देता है और उमे पहन लेता है उसी प्रकार खड़ा पुरुष पड़ी प्रकृति के व्याप लेता है । चेतन ब्रह्म अपने एक पाद से प्रकृति में व्याप्त होकर जगत् को धार रखा है । "पादोऽस्मा विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिदि" ॥

उत्तराञ्जनीमाञ्जन्याम् (५)

भा०—(श्लक्षणायां० इत्यादि) का उत्तर । स्वयं स्नेहयुक्त को कैसे व्यापता है ? जैसे (उत्तराञ्जनी) ऊपर की आञ्जने की सलाई । जैसे (आञ्जन्याम्) अञ्जनशानी में रक्खा जाता है ।

उत्तराञ्जनीं वर्त्मन्याम् (६)

भा०—(अवश्लक्ष्णम् इव० इत्यादि) का उत्तर (लोमवाले स्थानमें स्निग्ध पदार्थ किस प्रकार भीतर जाता है । ऐसे जैसे (उत्तराञ्जनीं) अञ्जने की सलाई को वर्त्मन्याम्) आंख की लोमवाली पलक की कोरों में ।

हमने अपने भाष्य में भी इन दृष्टान्तों को संक्षेप से दर्शाया है, देखो प्रवहिका सूक्त २०।१३३ ॥

अथ वाजिष्ठातेन्यानां पद् प्रवादः ॥

अलावूनि (१)

भा०—[प्रश्न] चारों तरफ से घिर कर भी उनमें विद्वान् किस प्रकार असक्त रहे ? उत्तर जैसे (अलावूनि) जलों में तूबे ।

पृषात्कान्थनि (२)

भा०—[प्र०] समस्त लोक विन्दुओं के समान कैसे हैं ? उत्तर—जैसे (पृषात्कानि) पानी में घृत के विन्दु हों ।

अश्वत्थपलाशम् (३)

भा०—[प्र०] जीवगण किस प्रकार परिपक्व ज्ञानवान् होकर ब्रह्म में लीन होते हैं ? उत्तर—हंडिया में चावलों के समान परिपक्व होते हैं । और (अश्वत्थपलाशम् वदामः) मुक्त होजाने में पीपल के पत्ते को हम दृष्टान्त रूप से कहते हैं । वह स्वयं पक कर टूट जाता है ।

विप्रुट् (४)

५. ६—'उत्तमां जनिवाज्जन्वामुत्तमां जनीत् वर्त्मन्याम्' इति शं० पा० ।

३—अलावूनि पृषात्कान्थनि अश्वत्थपलाशं दिपीति कावरश्वतो विधुत्स्वां पनीशतो गोशफो जरितरोधानोदेवः इति शं० पा० ।

भा०—[प्र०] अविद्या मल्लज्ञान को छूते ही कैसे विलीन हो जाती है जैसे—(विप्रुट्) पानी की बून्द ।

पिपीलिका वट्टः (५)

भा०—[प्रश्न] एक चिपटना नहीं चाहता तो भी दूसरा उस को चिपट ही जाता है । कैसे ? उत्तर—(पिपीलिका वट्टः) जैसे कीड़ी वटबीज को ।

चमसः (६)

भा०—[प्र०] दुःखदायी (लोह=रोह) जन्म की लालसा मत करो । कैसे ? उत्तर—जैसे (चमसः) 'गरम चमचा' । उसके मुक्त लगाने से मुक्त जल जाता है । उसी प्रकार दुःखदायी जन्म की अभिलाषा मत करो ।

त्रयः प्रतिराधानां प्रवादाः ॥

श्वा । पर्याशदः । गोशफः । जरितरावदामो देव ॥३॥

भा०—(१ प्रश्न) भोक्ता होकर जीव कैसे संसार में प्रविष्ट होता है ? उत्तर—जैसे रोटी को देखकर (श्वा) कुत्ता घाता है ।

(२ प्रश्न) शरीर से जीव किस प्रकार निकल जाता है ? उत्तर—ऐसे जैसे (पर्याशदः=पर्याश्रदः) पंखों वाला पक्षी घोंसला छोड़ कर निकल भागता है ।

(३ प्र०) दो भागों में फट कर वह कैसे स्थित है ? उत्तर—ऐसे जैसे (गोशफः) गौ का खुर फटकर भी पृथ्वी पर जम कर पड़ा करता है । हे (जरितः देव) विद्वन् हम इस प्रकार (श्रोयान=वंदामः) उक्त प्रश्नों का प्रति-वचन करते हैं ।

अथैकोऽतिवादः ॥

वामि देवा अक्रंसताध्वर्यो जिपिं प्रचरं ।

सुषदामिट् गवाममिं प्रखुदसि ॥ ४ ॥

४—'इत्यनिद् गवामात्यसि प्रखुदसि' इति सू० पा० ।

भा०—(इमे) ये सब (देवाः) विद्वान् पुरुष (वि अ क्रंसत) विविध मार्गों में चले जा रहे हैं । हे (अध्वर्यो) यज्ञ सम्पादन में कुशल पुरुष ! तू (क्षिप्रं) बहुत शीघ्र (प्रचर) आगे २ चल । तेरे पीछे सब चलें ।
 अध्यात्म में—(इमे देवाः) ये सब विषयों में क्रीड़ा करने वाले प्राण, चक्षु आदि इंद्रियगण (वि अक्रंसत) विविध विषयों में दौड़ते हैं । हे (अध्वर्यो) अहिंसक अथवा अविनाशिन् आत्मन् ! तू (क्षिप्रं प्रचर) अति शीघ्र इन सबका प्रमुख होकर चल या उत्तम भोगों का भोग कर । तू (गवाम्) समस्त इन्द्रियों का, गौवों के बाढ़े के समान, (सुपदम् इम्) सुख से आश्रय लेने का स्थान (असि) है । और तू (प्रखुद् असि) सबसे उत्तम स्तुतिशील आनन्द लेनेहारा है । अथवा (प्रखुदसि) सबसे बढ़कर आनन्द लेने वाला है । तू आनन्द का अनुभव कर ।

पत्नी य[व]दृश्यते पत्नी यद्यमाणा जरित्तरोथामो [तरावदामो]
 दैव । होता विष्ट्वीमेन [विष्ट्वी इम् एनाम्] जरित्तरोथामो
 [रावदामो] दैव ॥ ५ ॥

भा० (पत्नी) संसार का पालन करने वाली प्रकृति (यद्यमाणा) परमेश्वर से संगत होती हुई (पत्नी इव दृश्यते) पत्नी के समान दिखाई देती है । और (एनाम् विष्टः) इसके भीतर प्रविष्ट परमेश्वर इसमें बलाधान करने वाला होकर (होता) होता, उसका वशकर्ता है । हे (जरित्तः दैव) स्तुतिशील विद्वन् ! हम (आवदामः) इसी प्रकार जानते हैं अन्यो को प्रवचन करते हैं । इस मन्त्र का शुद्ध पाठ संदिग्ध है । कोपगत पाठ हमारा अनुमित है ।

ऋग्वेदपरिशिष्टान्तर्गतः प्रवल्हिकापाठः पाद्मटिप्पण्यां प्रदर्शितः ।

ग्रीफिय द्विटनीराथसेवकलालमुद्रितसंहितासु प्रवल्हिकात आरभ्य 'आ-
 दित्या ह जरित्त' इति पर्यन्तो ग्रन्थोऽधोलिखितरूपेणोपलभ्यते ।

॥१२३॥ वित्तौ किरणौ द्वौ तावापिनष्टि पुरुषः । दुन्दुभिमाहनान्याम् ।
 न वै कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥१॥ मानुष्टे किरणौ द्वौ
 निवृत्त पुरुषाद् दानिः । कोशविले । न वै० ॥२॥ निगृह्य कर्णकौ द्वौ
 निरायच्छुनि मध्यमे । रज्जुनि ग्रन्थेदानम् । न वै० ॥३॥ उत्तानायां
 शयानायां निष्टन्तमत्रगृहति । उपानहि पादम् । न वै० ॥ ४ ॥
 श्लक्ष्णायां श्लक्ष्णिकायां श्लक्ष्णमेवागृहति । उत्तराञ्जनीमाञ्ज-
 न्याम् । न वै० ॥ ५ ॥ अवरश्लक्ष्णमिव अंशदन्तल्लोमवति हृदे ।
 उत्तराञ्जनीं वर्त्मन्याम् । न वै० ॥६॥

॥१२४॥ इहेत्या प्राग्पागुदगघराणासन्ना उदभिर्दया । अल्लावृत्ति ॥१॥
 इहे० । वल्गाः पुषन्त आसते । पृषातकानि ॥२॥ इहे० । स्थाली-
 पाको विलीयते । अश्वत्थपलाशम् ॥३॥ सा वै स्पृष्टा विलीयते ।
 विदुः ॥ ४ ॥ इहे० । उप्ये लोहे न लीप्सेथाः । चमसः ॥५॥
 अशिशिलहं शिशिलहते ॥ पिपीलिकावटः ।

॥१२५॥ भुगित्यभिगतः । आ ॥१॥ शलित्यपक्रान्तः पर्याशदः ॥ २ ॥
 फलित्यभिष्टितः । गोराफः ॥३॥

वी इने देवाः अक्रंसताध्वर्यो विप्रं प्रचर । सुपदानिद् गवानस्ति
 प्रभुद ॥४॥.....॥५॥

लुभ देवताध्वर्यः सतमशपदसन्तुहः ।

आदित्या ह जरितरङ्गिरोभ्यो दक्षिणामनयन् ।

तां हं जरितुर्न प्रत्यायंस्तासु हं जरितुः प्रन्यायन् ॥ ६ ॥

भा०—(आदित्या ह) आदित्य, प्रजा से कर आदि लेने वाले राजा
 और लेनेके करने वाले वैश्यगण (जरितः—अङ्गिरान्यः) विद्यादि के
 उपदेश विद्वान् पुरुषों को (दक्षिणाम्) दक्षिणा (अनयन्) प्रदान करे ।
 (तान् ह) उसका या तो (जरितुः) विद्वान्जन नहीं लेते और या (तान्

उ ह) उसको वे (जरितः) विद्वान् जन (प्रति आयन्) स्वीकार कर लेते हैं । यह दो विकल्प हैं ।

तां हं जरितर्न प्रत्यगृभ्णंस्तानु हं जरितर्न प्रत्यगृभ्णः ।

अहां नेत सं न विचेतनानि जज्ञा नेतं सं न पुरोगवासः ॥ ७ ॥

भा०—यदि (तां) उस दक्षिणा को (जरितः) विद्वान् लोग (न प्रति अगृभ्णन्) नहीं लें तो (ताम् उ ह) उसको फिर (जरितः) विद्वान् (न प्रति अगृभ्णः) नहीं स्वीकार करें ।

हे मनुष्यो ! यह (सन् विद्वान् प्राप्त हो तो फिर तुम (अविचेतनानि) विशेष ज्ञान से रहित (अहा) दिनों को (न इत्) प्राप्त मत होना । प्रत्युत हे (जज्ञाः) ज्ञानी पुरुषो ! (सन्) यह विद्वान् प्राप्त ही है तो फिर (अपुरोगवासः) पुरोगामी, पथदर्शकरहित होकर (न इत्) मत चलो ।

यथा ह वा इदमनोऽपुरोगवं रिप्यति एवं हैत्र यज्ञोऽदक्षिणो रिश्यति तस्मादाहुर्दातव्यैव यज्ञे दक्षिणा भवति अल्पिकापि ॥ ऐत० ब्रा० ६।१।८ ॥

उत श्वेन आशुपत्वा उतो पद्याभिर्जविष्ठः ।

उतेमाशु मानं पिपति ॥ ८ ॥

भा०—(उत) और यह (श्वेतः) शुद्ध वर्ण का, ज्ञानवान्, आदित्य के समान तेजस्वी विद्वान् (आशुपत्वा) शीघ्र ही मार्ग से जाने में कुशल है । (उतो) और (पद्याभिः) गमन करने की नाना क्रियाओं और मार्गों से (जविष्ठः) अतिवेग से जाने में कुशल है । (उत) और (ईम्) इसको (आशु) बहुत ही शीघ्र (मानम्) सस्कार (पिपति) पूर्ण करता और पासन करता है ।

आदित्या रुद्रा वसवस्त्येळत इदं राधः प्रति गृभ्णीह्यङ्गिरः ।


इदं राधो विभु प्रभुं इदं राधो नृहत् पृथुं ॥ ९ ॥

भा०—हे (अद्भिरः) ज्ञानवन् ! (त्वा) तुम्हको (आदित्यः रुद्राः वसवः) आदित्य, रुद्र और वसु, विद्वान्, वीरगण और सामान्य प्रजा सभी जन (ईच्छते) स्तुति करते हैं । त्व (इदं राघः) यह धनैश्वर्य (प्रति गृम्णी-हि) स्वीकार कर । (इदं राघः) यह हमारा दिया धन (विभु) विशेष विविध सुखों का उत्पादक और विविध कार्यों से प्राप्त है । और (प्रभु) उत्तम फलजनक और उत्तम कार्यों से प्राप्त है (इदं राघः) यह धन (बृहत्) बहुत बड़ा और (पृथु) विलुप्त है ।

देवां ददृत्वावरुं तद् वीं अस्तु सुचेतनम् ।

युष्माँ अस्तु दिवोदिवे प्रत्येवं गृभायत ॥ १० ॥

भा०—। देवाः) देव, दानशील पुरुष (अघा) सब तरफ से (वरं) वरण करने योग्य उत्तम धन (ददत्तु) प्रदान करें । (तत्) वह धन, हे विद्वान् पुरुषो ! (वः) तुम लोगों को (सुचेतनम्) उत्तम ज्ञान कराने वाला (अस्तु) हो । और (दिवोदिवे) प्रतिदिन, दिनों दिन (युष्मान्) तुमको (अस्तु) प्राप्त हो । और आप लोग उसको (प्रति गृभायत एव) स्वीकार ही कर लिया करो ।



कथं तिलो भूतेच्छः ।

त्वमिन्द्र शर्म रिणा ह्वयं पारावतेभ्यः ।

विप्राय स्तुवते वसु निं दूरश्रवसे वह ॥ ११ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (त्वम्) तू (पारावतेभ्यः) परब्रह्म में शरण प्राप्त करने वाले ब्रह्मज्ञानियों को (शर्म) सुखकर (ह्वयं) ह्वय और धन (रिणाः=ऋणाः) प्रदान कर और (दूरश्रवसे) दूर तक परमपद तक श्रवण करने वाले बहुश्रुत, अतिविल्यात, यशस्वी, अथवा उच्चारण से वेद पाठ करने वाले या उत्तम व्याख्याता, (स्तुवते) स्तुति

करने हारे उपदेश (विप्राय) मेधावी विद्वान् को भी (वसु) धन (नि वह) प्राप्त करा, प्रदान कर ।

त्वमिन्द्र कपोताय च्छिन्नपत्ताय वञ्चते ।

श्यामाकं पक्कं पीलु च वारंस्मा अकृणोर्वहुः ॥ १२ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् पुरुष ! (त्वम्) तू (छिन्नपत्ताय) कटे पंख वाले (कपोताय) कवूतर के समान (च्छिन्नपत्ताय) आश्रय से रहित, परिग्रह गृहपरिवारादि से विरहित (वञ्चते) भ्रमण करने (कपोताय) नाना प्रकार के ज्ञान से युक्त, विद्वान् अतिथि को (श्यामाकम्) सावां चावल आदि (पक्कं) पक्क अन्न और (पीलु च) आश्रय और (वाः) जल और बहुतसे पदार्थ (अस्मै) इसके आदरार्थ (अकृणोः) कर ।

अरुंगरो वावदीति त्रेधा वृद्धो वरत्रया ।

हरामह प्रशंसत्यनिरामप सेधति ॥ १३ ॥

भा०—(अरुंगरः) अति उत्तम उपदेश पुरुष भी (वरत्रया) उत्तम दक्षिणा रूप, वरण योग्य धनकी पालना से (वरत्रया वद्धः) मानो रस्सी से कर, अधीन होकर (वावादीति) निरन्तर उपदेश ही करता है । वह (हराम्) अन्न आदि देने वाले की (प्रशंसति) प्रशंसा करता है और (अनिराम्) न देने वाले को (अप सेधति) छोड़कर चला जाता है ।

[१३६] राजा, राजसभा के कर्तव्य

अथ षोडश माहनस्या ऋचः ।

यदस्या अहुभेद्याः कृधु स्थूलमुपातसत् ।

मुष्काविदस्या एजतो गोशफे शंकुलाविं ॥ १ ॥

[१३६]—स्त्रीपुरुषयोः परस्परसयोगः माहन तद्वत् प्रजेऽपत्तिहेतुत्वात् ऋचोऽप्याह नस्याः । इति सायण ऐ० ब्रा० भाष्ये ।

भा०—(यद्) जब (अहुभेद्याः) पाप को नाश करने वाली (अरणाः) इन प्रजा या पृथ्वी का (कृष्टुः छोटा या (स्थूलम्) बड़ा भाग भी (उप अनसत्) विनष्ट होता है (अस्याः) इसके (सुष्कौ इत्) चौर स्त्री पुरुष ही (गोशके शकुलौ इव) छोटे से स्थान में फँसे सड़कियों के समान (पुजतः) कापा करते हैं ।

यदा स्थूलान् पत्तनाणौ सुष्का उपावंधीत् ।

विचञ्चावस्या वर्धतः सिकतास्विष्टु गर्दभौ ॥ २ ॥

भा०—(यदा) जब राजा (स्थूलान्, अधिक बड़े पत्तना) राज्यप्रदग्ध से (अणौ) छोटे २ अपराध पर भी (सुष्कौ) चौर स्त्री पुरुषों को (उप अवधीत्) दण्ड देता है तब (अस्याः) इसके (गर्दभौ) अति आकांक्षी वाले, (विचञ्चौ) सर्वत्र फँसे हुए प्रजा के- नरनारी (सिकतासु इव) चालुकामय देशों में अश्वों के समान (वर्धतः) बढ़ते हैं । वे खूब प्रसन्न होते हैं ।

यदल्लिका स्वल्पिका कर्कन्धूकेषु पद्यते ।

वासन्तिकमिष्ट तेजनं भंसं श्रातत्य विद्यते ॥ ३ ॥

भा०—(यत्) जब (अल्लिका) थोड़ी और (स्वल्पिका) बहुत ही छोटी प्रजा हो तो वह (कर्कन्धूका इव) सरवैरी के समान (पद्यते) समझी जाती है । तब वह शनैः २ (वासन्तिकं तेजनम् इव) वसन्त काल के नरकण्ड के समान अथवा वसन्त काल के सूर्य के समान (भंसः) अपने प्रकाश, तेज और बलको (श्रातत्य) फँसाकर (विद्यते) रहा करती है ।

यद् देवानां ललभन्तुं प्रविष्टीमिनंमाविषुः ।

/ सुकथ्ना देदिश्यते नारी सुत्यन्याङ्गिभुवो यथा ॥ ४ ॥

भा०—(यद्) जब (देवासः) विजयशील पुरुष (लक्ष्मणम्) सुन्दर उत्तम वाणी से युक्त, विद्वान् (प्रविष्टीमिनम्) उत्तम प्रजा के स्वामी को (आविषुः) प्राप्त होते हैं तब (यथा) जिस प्रकार (अग्निभुवः सत्यस्य , आंख से देखे को विशेष प्रमाण योग्य माना जाता है उसी प्रकार (नारी) मनुष्यों की बनी सभा में (सक्त्वा) समवाय या संघ शक्ति से जो (देदिश्यते) बात निर्धारित हो जाती है वह भी प्रमाण मानने योग्य हो जाती है ।

जब विद्वान् पुरुष सत्यवक्ता सभापति के अधीन सभा में विराजें तो बहुसम्मति का भी प्रमाण आंख देखे सत्य के समान करें ।

महानग्न्यदृष्टद्विमुक्तः क्रन्ददश्वो नासरन् ।

शक्तिं कनीना खुद मध्यमं सक्थ्युद्यंतम् ॥ ५ ॥

भा०—(महानग्नी) सर्वाङ्ग सुन्दर स्त्री के समान वह सभा भी (अदृष्ट्) गर्व करती है कि (विमुक्तः) छूटे हुए, स्वतन्त्र (अश्वः नः) घोड़े के समान (क्रन्दत्) भाषण करता हुआ विद्वान् भी (नासरन्) सब तरफ जा सकता है । और (कनीना) अति दीक्षिमती सभा (मध्यमम्) मध्य में स्थित (उद्यतम्) ऊपर उठे हुए (सक्थि) समवाय या संघ बल को ही (शक्तिं) शक्ति रूप से (खुद) प्राप्त करता है ।

महानग्न्युलूखलमतिक्रामन्त्यवतीत् ।

यथा तत्र वनस्पते निवन्ति नथैवति ॥ ६ ॥

भा०—(महानग्नी) सर्वाङ्ग सुन्दर स्त्री के समान महासभा (उलूखलम् अति क्रामन्ति) ओखली को दृष्टान्तरूप से प्राप्त करती हुई कहती हैं कि हे (वनस्पते) काष्ठ के बने ओखल ! (यथा) जिस प्रकार (तत्र) तेरे बीच में घान ढालकर कूटते हैं उसी प्रकार महान् का

कार्य के कर्त्तः राजन् ! सत्यासत्य का निर्णय करने के लिये सना के बीच
में हन तत्व को (पिपन्ति) पीसते हैं, विचारते हैं। इसलिये (तथैव
इति) यह सी वसी प्रकार है।

महान्त्युपं वृते श्रुथोथान्यवृमुवः ।

यथैव ते वनस्पते पिपन्ति तथैवेति ॥ ७ ॥

भा०—(महान्ती) वही राजसना (उपवृते) यह जान कहती
है कि हे (वनस्पते) समस्त प्रजाओं के पालक ! (अथपि : जब
(व्रष्टः) अपने न्यायमार्ग से या सत्याचार्य और विवेक से नृ (व्रष्टः
ऋवृमुवः) व्रष्ट हो जाय तो भी झोखल में (यथैव) जिस प्रकार
धान्यों को (पिपन्ति) पीसते हैं और दाना निकालते हैं (तथैव)
वसी प्रकार (ते) तेरे उपादेय तत्व को भी हन (पिपन्ति) पीसते हैं
तेरे किये पर पुनः विचार करते हैं।

महान्त्युपं वृते श्रुथोथान्यवृमुवः ।

यथा द्रावो विदह्यत्यङ्गानि नमं दह्यन्ते ॥ ८ ॥

भा०—(महान्ती) वही राजसना (उपवृते) कहती है कि (अ-
थपि) जब नी वृ हे राजन् ! (व्रष्टः ऋवृमुवः) व्रष्ट अर्थात् अपने सद्
नीति मार्ग से च्युत हो जाता है तब तब (यथा) जिस प्रकार (द्रावः)
वन आग से नष्ट रहता है वसी प्रकार आग भी नष्ट होती है और तब
(नमं दह्यन्ति) मेरे समस्त अंग भी (दह्यन्ते) जलते हैं, पीड़ा पाते हैं।

महान्त्युपं वृते स्वस्त्यावेशितं पसः ।

इत्थं फलस्य वृजस्य शूर्पं शूर्पं भजेमहि ॥ ९ ॥

भा०—(महान्ती) महान्ती (उपवृते) आज्ञा प्रदान करती
है कि (पसः) एकत्र होकर प्रजाजनों पर राष्ट्र (स्वस्ति) सुखपूर्वक

आवेशितम्) वसे । (इत्थम्) इस प्रकार (फलस्य वृक्षस्य) फले हुए या फलरूप से पके धान के कटे हुए अनाज को शोधने के लिये जिस प्रकार (शूर्प) छाज लेलिया जाता है उसी प्रकार हम सभासद्गण भी तत्व विवेचन के कार्य में (शूर्प) सूप को ही (भजेमहि । अनुकरण करे । उसी का सेवन करें । अथवा—(शूर्पसदृशं शूर्पं=शूरपम्) छाज के समान विवेकशील शूरपति, सेनापति का आश्रय लें वह 'वृक्ष' अर्थात् काटने योग्य शत्रु को धुन डाले ।

महानग्नी कृकवाकुं शम्यया परिं धावति ।

वयं न विद्म यो मृगः शीर्ष्या हरति धारिकाम् ॥ १० ॥

भा०—(महानग्नी) बड़ी राजसभा (कृकवाकुं) कण्ठ से उत्तम वचन बोलने वाले का (शम्यया) शान्तियुक्त वाणी से (परिं धावति) अनुगमन करती हैं । सभी कहते हैं (वयं न विद्मः) हम नहीं जानते कि (यः मृगः) कौन है जो मृग अर्थात् व्याघ्र के समान शूरवीर होकर (शीर्ष्या) अपने सिरपर (धारिकाम्) प्रजा के भरण पोषण के कार्य को, या भरण पोषण करने वाली राजशक्ति, या अन्नकणिका के समान सर्व पोषक पृथ्वी को (हरति) धारण करे ।

महानग्नी महानग्नं धावन्तमनुं धावन्ति ।

इमास्तदस्थ गा रक्ष यम मामद्भ्योदनम् ॥ ११ ॥

भा०—(महानग्नी) बड़ी सभा (धावन्तं) वेग से आगे बढ़ते हुए (महानग्नम्) बड़े सर्वाङ्ग सुन्दर नेता के (अनु धावति) पीछे जाती है । (तत्) वह तू हे राजन् ! (अस्य) इस प्रजाजन के (गाः) भूमियाँ और वाशियों की (रक्ष) रक्षा कर । (माम् यम) पुरुष जिस प्रकार त्री से संगत होकर प्रसन्न होता है उसीप्रकार तू मुझसे युक्त होकर हे प्रजापते ! राजन् ! (ओदनम् अद्भि) तू वीर्य बल और प्रजापतिपद का भोग कर ।

सुदेवस्त्वां महानग्निं वि वाचते महतः साधु खोदनम् ।

कृशे न [कृशितं] पीवरी[रो?] नशत् यम् मामद्भ्यौदनम् ॥१२॥

भा०—हे (महानग्नी) महासने ! (सुदेवः) उत्तम अर्थों का प्रकाशक एवं उत्तम तेजस्वी राजा (स्वा . तुम्हे वि वाचते) विविध प्रकार से नयना है, तुम्हें मे दूर से मन्त्र के समान मार पदार्थ प्राप्त करता है । (महतः) बड़े भारी राष्ट्र से (साधु) उत्तम (खोदनम्) सुख पेश्यें प्राप्त होता है । (पीवतः) बलवान् पुरुष (कृशं नशत् , कृश दुर्बल पुरुष को नष्ट कर देता है । अथवा (कृशितं पीवरी नशत् , कृश दुर्बल राजा को भी 'पीवरी' अति बलवती राजमन्त्रा प्राप्त हो जाना है । इत्यलिये हे राजन् ! (यम् नाम्) जिन प्रकार दृढ़ स्त्री अरने कृशगिनी ही प्राप्त करके भी उममें संग लाभ करती है और पति को सुख प्राप्त होती है उसी प्रकार तू भी मेरे साथ सुसंगत होकर रह और (खोदनम्) राज्यपद के अधिकार का भोगकर । वशा दुग्धाग्निनाङ्गुरिं प्र सृजते वनं करम् ।

महान् वै भद्रो विद्वो यम् मामद्भ्यौदनम् ॥ १३ ॥

भा०—(वशा) पृथ्वी या समस्त राष्ट्र को वश करने वाली शक्ति या वशीभूत प्रजा (दुग्धा) रास के समान दुग्ही जाकर (विना अंगुरिम्) विना अंगुलि लगाये, विना कंठ के ही, अनायास (वनं करम्) प्राप्त करने योग्य कर को (प्र सृजते) आगे उपस्थित करती है । (विद्वः) कर्टक ब्राले बिल्व वृक्ष के समान दृढ़ शरीर वाला शस्त्रास्त्रयुक्त तेजस्वी (भद्रः) सुखकारी राजा (महान् वै) निश्चय से बड़ा है । तू हे राष्ट्रपते ! (नाम् यम्) मुझ से पति के समान सुसंगत होकर रह । और (खोदनम् अदि) योग्य परिपक्व अन्न के समान, राज्याधिकार का भोग कर ।

विदेवस्त्वां महानग्निं वि वाचते महतः साधु खोदनम् ।

कृमारिका विङ्गलिकां कार्यं कृत्वा भस्मां प्रं वाचनि ॥ १४ ॥

भा०—विविध देशों को विजय करने हारा एवं विविध गुणों का प्रकाशक राजा, हे (महानग्नि) महासभे ! प्रजे ! (महतः) बड़े राष्ट्र के (साधु) उत्तम (खोदनम्) सुखकारी पेश्वर्य को (वि वाधते) विविध उपायों से दूध से मक्खन के समान मथकर प्राप्त करता है । (पिङ्गलिका कुमारिका) सुन्दर रूपवती कुमारी कन्या के समान पिङ्गलिका) तेजस्विनी सेना (कार्य कृत्वा) अपने आवश्यक कार्य को समाप्त करके (प्र धावति) आगि बढ़ती है, उन्नत पद को प्राप्त करती है ।

महान् वै भद्रो विल्वो महान् भद्र उदुम्बरः ।

महीं अभितौ वाधते महतः साधु खोदनम् ॥ १५ ॥

भा०—' विल्वः) शत्रु को भेदने में समर्थ (महान्) बड़ा पुरुष ही (भद्रः) प्रजा को कल्याणसुख का देन वाला होता है । इसी प्रकार (उदुम्बरः) भारी बलवान् पुरुष भी (भद्रः) प्रजा को सुखकारी है । (महान्) बड़ा पुरुष ही (महत्) बड़े राष्ट्र के (साधु) उत्तम (खोदनम्) पेश्वर्य को (अभितः) सब प्रकार से (वाधते) लेना चाहता है और उसको भोगता है ।

यं कुमारी पिङ्गलिका कृशितं पीवरी लभेत् ।

तैलकुण्डादिवाङ्गुष्ठं रदन्तं शुद्[द्ध]मद्धरेत् ॥ १६ ॥

भा०—(पिङ्गलिका) गौर वर्ण की सुन्दर कुमारी (पीवरी) स्वयं हृष्ट पुष्ट होकर भी जिस प्रकार (यं) जिस किसी (कृशितं) कृश पुरुष को भी (लभेत्) प्राप्त कर लेती है उसी प्रकार बलवती राजसभा जय (कृशितं लभेत्) निर्बल राजा को भी प्राप्त करती है तब जिस प्रकार (तैलकुण्डान्) तपे तेल के कड़ाह में से (अंगुष्ठम् इव) जैसे कोई अपने अंगुली को मट से अलग कर लेता है उसी प्रकार (रदन्तम्) प्रजा को पीड़ा देने वाले उस (शुद्धम्=सुद्धम्) अल्प बल के पुरुष को (उद्धरेत्) वह उखाड़ फेंकती है ।

अथवा—(रदन्तम्) शत्रुओं के नाश करने वाले (शुद्धम्=शुद्धम्)
उस शुद्धाचारवान् धार्मिक पुरुष को भी वह (उद् हरेत्) उन्नत-पद प्राप्त
कराती है ।

॥ इति कुन्तापस्तकानि समाप्तानि ॥

[१३७] राजपद ।

१. शिरिम्बिठिः, बुधः, ३, ४. ६, ययातिः । ७—११, तिरश्चीराङ्गिरसो द्युना
नो वा मास्त ऋषयः । १, लक्ष्मीनामनी, २ वैश्वीदेवी, ३, ४-६ सोमः पव-
मान इन्द्रश्च देवताः । १, ३, ४-६ अनुष्टुभौ, ५-१२-अनुष्टुभः १२-१४
गायत्र्यः । चतुर्शृङ्गं सूक्तम् ॥

यद्वा प्राचीरजगन्तोरों मरुद्हरधाणिकीः ।

हता इन्द्रस्य शत्रूः सर्वे बुद्बुदयाशवः ॥ १ ॥ ऋ० १०।१५५।४ ।

भा०—(यत् ह) और जब (उरः) बड़ी २ (मरुद्हरधाणिकीः)
लोहे की धाना, दाने, छुरे वाली तोपें (प्राचीः) आगे बड़ी हुई (अजगन्त)
चलती हैं तब (इन्द्रस्य) शत्रु के नाश करने वाले सेनापति के (सर्वे)
समस्त (बुद्बुदयाशवः) जल के बुलबुले के समान नष्ट हो जाने वाले
निर्बल होकर (हताः) मर जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं ।

'मरुद्हर' लोहविशेष क्रीलाद कहाता है । इसके आयुर्वेद में भस्म औ
धनुर्वेद में शास्त्र बनाने का विधान है । 'धाणिका' = गोली, धाना, दाना ।
कपृन्नरः कपृथमुद् दधातन चादयत खुदत वाजंसातये ।

निष्टिन्नधः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रं सवाधं इह सोमपीतये ॥२॥

ऋ० १०।१०२।१२ ॥

भा०—हे (नरः) नेता लोगो ! हे पुरुषो ! राजा इन्द्र (कपृत्)
सुख को एवं प्रजापालक पदको पूर्ण पालन और विस्तृत करने, एवं निभाने

में समर्थ हैं। उसी (कपृथम्) सुख के पालक, पूर्ण और विस्तृत करने वाले को (उत् दधातन) ऊँचे पदपर स्थापित करो। उसको (वाजसातये) युद्ध करने और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये (चोदयत) प्रेरित करो और (सुदत) उसको प्रसन्न एवं सुखी रखो। हे (सन्नाधः) शत्रुओं को एक साथ मिलकर विनाश करने वाले वीर पुरुषो ! आप लोग (इह) इस राष्ट्र में (सोमपीतये) सोम पद, सर्वप्रेरक राजा के परमपद या राष्ट्र के भोग के लिये (निष्टिव्यः पुत्रम्) गुप्त रूप से सबको वश करने का उपदेश करने वाली राजसभा के पुत्र के समान आज्ञाकारी, राष्ट्र के पुरुषों के रक्षक (इन्दम्) ऐश्वर्यवान् पुरुष को (ऊतये) राज्य की रक्षा के लिये (च्याचय) अधिकार प्रदान करो।

दधिक्राव्यो अकारिपं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः।

सुरभि नो मुखां करत् प्र ण आयूँपि तारिपत् ॥ ३ ॥

श० ४।३९।६ ॥

भा०—(अश्वस्य) अश्व के समान (वाजिनः) बलवान्, वेग से जाने में समर्थ, ऐश्वर्यवान् (दधिक्राव्यः) अन्वियों को अपनी पीठ पर उठाकर ले चलने में समर्थ, अपनी जीवन यात्रा के साथ २ दूसरे के भरण पोषण पालन के भार को उठा लेने वाले, (जिष्णोः) विजयशील पुरुष को मैं (अकारिपम्) उच्च पदाधिकार प्रदान करता हूँ। वह (नः) हमारे (मुखा) मुख्य २ अंगों और पदाधिकारियों को (सुरभि) उत्तम, कार्य करने में समर्थ, सुदृढ़, बलवान् (करत्) करे (नः) हमारे (आयूँपि) आयुओं की (प्र तारिपत्) वृद्धि करे।

सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मुन्दिनः।

प्रवित्रन्तो अक्षरन् देवान् गच्छन्तु वो मदाः ॥ ४ ॥

श० १०।१०२।४ ॥

भा०—(सुनासः) उन्नत किये, (मधुमत्तमाः) अत्यन्त मधुर (सोमाः) समस्त ऐश्वर्य (इन्द्राय) उस शत्रु नाशकारी राजा को ही (मन्दिनः) आनन्द देने वाले हैं । वे (पवित्रवन्तः) पवित्र करने वाले सदाचारों पुरुषों के निमित्त (अन्नान्) पात्रों में जल के समान बहें, प्राप्त हों । वे पुरुषों ! (वः) तुम लोगों के (मदाः) समस्त हर्षदायी, कृतिकारी सुखजनक पदार्थ (देवान्) उत्तम ज्ञानवान् पुरुषों को भी प्राप्त हों । वे उसके सदा देखें कि हानिकारक तो नहीं हैं ।

इन्द्रुरिन्द्राय पवत इति देवासां अत्रवन् ।

वाचस्पतिर्मन्त्रस्यते विश्वस्येशान् ओजसा ॥५॥ ३० १०१०१।७॥

भा०—(इन्द्रुः) यह द्रुतगति से जाने वाला, ज्ञानवान्, दयापूर्णपुरुष (इन्द्राय) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु राजा के लिये ही सोमरस के समान (पवते) कार्य करता है । (इति) इस प्रकार (देवासः) विद्वान् पुरुष (अन्नान्) कहा करते हैं । (वाचस्पतिः) वाणी का पालक, वाणी का स्वामी, (मन्त्रस्यते) सब प्रकार की पूजा अन्न सत्कार के योग्य है । वही (ओजसा) अपने बल पराक्रम से (विश्व) समस्त विश्व का (ईशानः) ईश्वर, स्वामी है ।

सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीड्वयः ।

सोमः पती रयीणां सत्वेन्द्रस्य द्विवेदिवे ॥ ६ ॥ ३० १०१०१।८॥

भा०—(इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् राजा (द्विवेदिवे) नित्य प्रतिदिन (सत्त्वा) मन्त्र (रयीणां पतिः) समस्त ऐश्वर्यों का पालक (सोमः) सोम, सबका श्रेष्ठ (वाचमीड्वयः) वाणी, आज्ञाओं और उत्तम ज्ञानवाणियों का उपदेश, विद्वान्, (सहस्रधारः) सहस्रों विद्वानों को धारण करने वाला और मेघ के समान हजारों ज्ञान-धाराओं को वर्षा करने वाला (समुद्रः)

समुद्र के समान ज्ञानरत्नों और धार्मिक विद्याओं का सागर होकर (पवते) राष्ट्र में स्थित हो और सबको प्रेरित करे ।

अत्र द्रप्सा अंशुमतीमतिष्टदियानः कृष्णो दशभिः सहस्रैः ।

आवृत् तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेहितीर्नृमणा अधत्त ॥५॥

श्र० ८ । २५ । १३ ॥

भा०—(द्रप्सः) दर्पवान्, गर्वीला अथवा (द्रप्सः) कुत्सित कुटिल आचार वाला और प्रजाओं को कुनीतियों और अत्याचारों से खा जाने वाला (कृष्णः) प्रजाओं का कर्षण, पीड़न करने वाला, अत्याचारी राजा (दशभिः सहस्रैः) दशों हजारों सैनिकों के साथ आक्रमण करता २ (अंशुमतीम्) परस्पर विभाग या फूट वाली प्रजा पर (अतिष्टत्) अधिकार कर लेता है । परन्तु (नृमणाः) समस्त मनुष्यों के मन को हरने वाला, प्रजा का अभिमत प्रिय (इन्द्रः) पेश्वर्यवान् राजा (धमन्तम्) गर्जते हुए उस गर्वीले दुष्ट राजा पर (शच्या) अपनी शक्तिशाली सेना से (आवृत्) चढ़ाई करे । और उसकी (स्नेहितीः) हिंसाकारी दुष्ट सेनाओं को (अधत्त) दूर करे, पराजित करे ।

द्रप्समपश्यं विपुणं चरन्तमुपहरे नद्यो अंशुमत्याः ।

नभो न कृष्णमवतस्त्रिवांसमिष्यामि वो वृषणो युष्यन्ताजौ ॥६॥

श्र० ८ । २५ । १४ ॥

भा०—मैं (द्रप्सम्) कुत्सित आचरण करने और प्रजा के माल खाजाने वाले, (कृष्णम्) प्रजा के पीड़क पुरुष को (नद्यः) नदियों के समान जलवत् धन से भरी हुई, धनको पानी के समान यहाँ जाने वाली (अंशुमत्याः) परस्पर के विभाग और फूट से भरी प्रजा के (उपहरे) समीप (विपुणे) विषम, सब ओर फैले अति विषम व्यवहार में (चरन्तम्) विचरते हुए और (नद्यः) नदी के तट पर मेघ के समान (अवतस्त्रिवांसम्) गुप्त रूप से छिपकर बैठे को मैं (अपरयम्) देखता हूँ । हे

(वृषयः) वीर बलवान् पुरुषो ! आप लोग (आज्ञा) युद्ध में (युच्यत) युद्ध करो, जून जाओ । (इष्यामि) मैं यही चाहता हूँ ।

अथ द्रुप्तो अंशुमत्या उपस्थेऽग्रारयत् तन्वं तित्विषारः ।

विशो अदेवीरभ्याश्चरन्तीर्वृहस्पतिना यूजेन्द्रः ससाह ॥२॥

३० ८ । ८५ । १५ ॥

भा०—(अथ) और (द्रुप्तः) कुत्सित चाल से प्रजा को खाने वाला पुरुष (अंशुमत्याः उपस्थे) फूट, परस्पर विभाग वाली या खद्य पदार्थ, अन्नादि से सन्तुष्ट प्रजा के बीच में रह कर (तित्विषारः) अति तेजस्वी होकर अपने (तन्वं) शरीर को, अति विस्तृत राज्य को (अघारयत्) धारण किये रहता है । (वृहस्पतिना) बड़ी भारी सेना के स्वामी सेनापति अथवा वारी, ज्ञान के स्वामी विद्वान् पुरुष को (युजा) साथ लेकर (इन्द्रः) शत्रु विनाशक राजा (अभि-आचरन्ती) सन्मुख मुकाबले पर आती हुई या प्रतिकूल आचरण करती हुई (अदेवीः विशः) उत्तम गुणों से रहित तानत्र प्रजाओं को (ससाह) पराजित करता है ।

त्वं ह त्वत् सप्तभ्यो जायमानोऽशत्रुभ्यो अभवः शत्रुंन्द्रि ।

गूढे धावापृथिवी अन्विन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो ररां घाः१०

३० ८ । ८५ । १६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! हे इन्द्र ! (त्वं) तू (जायमानः) प्रकट होता हुआ (अशत्रुभ्यः) प्रजा का शासन या विनाश न करने वाले, सत् पुरुषों के हित के लिये तू (शत्रुः अभवः) दुष्टों का नाश करने वाला हो । और (सप्तभ्यः) सातों, (विभुमद्भ्यः) प्रचुर धन, सामर्थ्य वाले (भुवनेभ्यः) लोकों, प्रजाजनों के हित के लिये (ररां घाः) संग्राम कर और (गूढे) अति सुरक्षित (धावापृथिवी) आकाश और पृथिवी के समान राजा और प्रजा को (अनु अविन्दः) प्राप्त कर और अपने वश कर ।

त्वं ह त्यदप्रतिमानमोजो वज्रेण वज्रिन् धृषितो जघन्य ।

त्वं शुष्णस्यावातिरो वधत्रैस्त्वं गा इन्द्र शच्येदविन्दः ॥११॥

श्र० ८ । ८५ । १७ ॥

भा०—हे (वज्रिन्) वज्रधारिन्, वीर्यवान् ! (त्वं) तू (वज्रेण) बल से (धृषितः) शत्रुओं को धरपण करने द्वारा होकर (त्यत्) उस अवर्णनीय (अप्रतिमानम्) अमित, असीम, (ओजः) पराक्रम को (जघन्य) प्राप्त होता है । और (त्वं) तू (वधत्रैः) हिंसाकारी साधनों से (शुष्णस्य) प्रजा शोषक दुष्ट पुरुष को (अव अतिरः) विनाश करता है । और (त्वं) तू (शच्या इत्) शक्ति या सेना प्रज्ञा या कर्म सामर्थ्य से ही (गाः अविन्दः) भूमियों को अपने वश करता है ।

तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे ।

स वृषां वृषभो भुवत् ॥ १२ ॥ श्र० ८ । ८२ । ७ ॥

भा०—हम (तम्) उस (इन्द्रं) शत्रु नाशकारी पुरुष को (महे वृत्राय) बड़े भारी विघ्नकारी शत्रु के (हन्तवे) नाश करने के लिये (वाजयामसि) बलवान् बनावें । (सः वृषा) वह मेघ के समान सुखैश्वर्यों का वर्षक (वृषभः) अति श्रेष्ठ (भुवत्) सामर्थ्यवान् हो ।

इन्द्रः स दामने कृत आजिष्ठः स मदं हितः ।

द्युम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ १३ ॥ श्र० ८ । ८२ । ८ ॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष (सः) वह (दामने) दान देने के लिये ही (कृतः) बनाया गया है । (सः) वह (मदे) तृप्त करने वाले हर्ष के हेतु राज्यैश्वर्य के निमित्त ही (आजिष्ठः) अति पराक्रमी होकर (हितः) स्थापित किया जाता है । (सः) वह (श्लोकी) स्तुति योग्य (सोम्यः) सोम अर्थात् सर्वप्रेरक ऐश्वर्यवान् पद के योग्य है ।

गिरा वज्रो न संभृत सवल्लो अनपच्युतः ।

वृचक्रुष्वो अस्तृतः ॥ १४ ॥ श्र० ८ । ८२ । ९ ॥

भा०—(गिरा) वाणी द्वारा (संभृतः) अच्छी प्रकार स्तुति किया जाकर (वज्रः न) शस्त्र के समान अति तीक्ष्ण (सेवलः) बलवान् (अनपच्युतः) शत्रुओं से कभी पदच्युत न होने वाला (अश्वः) महान् तेजस्वी श्वर (अस्तृतः) अहिंसित, अविनाशी होकर (चवत्) राष्ट्र के भार को उठाता है ।

[१३८] परमेश्वर और राजा ।

वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । वृचं सूक्तम् ॥

महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यां वृष्टिमाँ ईव ।

स्तोमैर्वत्सम्यं वा वृधे ॥ १ ॥ ऋ० ८ । ६ । १ ॥

भा०—(यः) जो (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष या परमेश्वर (ओजसा महान्) बल पराक्रम में बड़ा है और (वृष्टिमान् पर्जन्य इव) वर्षण करने वाले मेघ के समान समस्त प्रजाओं पर सुख सामग्री प्रदान करता है । वह (वत्सस्य) स्तुति करने हारे या राष्ट्र में बसने वाले प्रजाजन की (त्तोमैः) स्तुति समूहों से या बसने वाली प्रजा के दिये बल, चीयों, अधिकारों से (वावृधे) नित्यप्रति बढ़ता है ।

प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद् भरन्त वह्नयः ।

विप्रां ऋतस्य वाहसा ॥ २ ॥ ऋ० ८ । ६ । २ ॥

भा०—(यद्) जब (वह्नयः) राज्यकार्य को वहन करने वाले नेतागण विवाहित गृहस्थों के समान । ऋतस्य) सत्य व्यवहार का पालन करते हुए (प्रजाम्) प्रजा को (प्र भरन्त) अच्छी प्रकार भरण पोषण करते हैं तब (विप्राः) विद्वान् पुरुष (ऋतस्य) सत्य के (वाहसा) प्राप्त कराने वाले ज्ञान से युक्त होते हैं ।

करवा इन्द्रं यदक्रतु स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम् ।

जामि वृचत् आयुधम् ॥ ३ ॥ ऋ० ८ । ६ । ३ ॥

भा०—(कण्वाः) मेघावी, बुद्धिमान्, तेजस्वी पुरुष (यन्) जय (स्तौमैः) उत्तम ज्ञानयुक्तं स्तुति-वचनों और पदाधिकारों से ही यज्ञस्य प्रजापालक, परस्पर सुसंगत राष्ट्र पालन के कार्य के (साधनम्) साधने वाले राजा को (अकृत) समर्थ कर देते हैं तब वे (आयुधम् । हथियार आदि को (जामि) अतिरिक्त, निष्प्रयोजन (द्रुवते) कहा करते हैं ।

सुव्यवस्थित राज्यशासन में चोर आदि का भय न होने से स्वयं जीवन सुरक्षित रहता है । फिर हथियार रखने की आवश्यकता नहीं है ।

[१३६] माता, पिता, विद्वान् ।

शस्त्रकर्मा श्पिः । अश्विनौ देवते । १, ४ बृहत्सो, २, ३ गायत्र्यौ, शेषाः अनुष्टुभः ।

५ ककुप् । पञ्चचै वक्तम् ॥

आ नूनमश्विना युवं वृत्सस्य गन्तमवसे ।

प्रास्मै यच्छतामवृकं पृथुच्छदियुयुतं या अरांतयः ॥ १ ॥

श० ८ । ९ । १ ॥

भा०—हे (अश्विनौ) अश्वियो ! माता पिताओ, एवं राज्य के संचालक दो मुख्य पुरुषो ! शरीर में प्राण और अपान के समान, विष में सूर्य और चन्द्र, या दिन रात के समान व्यापक शक्ति वाले पुरुषो ! (युवम्) तुम दोनों बच्चे को माता पिता के समान (वत्सस्य) स्तुतिशालि, एवं राष्ट्र में बसने वाले प्रजाजन को पुत्र या प्रजा जानकर उसकी (अवसे) रक्षा करने के लिये (आगन्तम्) आओ और (अस्मै) उसको (अवृकं) चोर आदि दुष्ट पुरुष और भेड़िये आदि हिंसक जीवों से रहित (पृथु । विस्तृत, पालनकारी, (छद्विः) शरण (यच्छतम्) प्रदान करो, और (याः अरांतयः) जो शत्रु हैं उनको (युयुतम्) पृथक् करो ।

यदन्तरिक्षे यद् द्विवि यत् पञ्च मानुषाँ अन्तुं ।

नृभ्यं तद् धत्तमश्विना ॥ २ ॥ श० ८ । ९ । १ ॥

भा०—हे (अश्विना) विद्या में व्याप्त ज्ञाननिष्ठ और कर्म निष्ठ विद्वान् पुरुषों ! (यत् नृन्मं) जो धन ऐश्वर्य, मनुष्यों के अभिमत पदार्थ (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (यत् दिवि) जो द्यौ लोको में और (यत् पञ्च मानुषान् धनु) जो पांच प्रकार के मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और निपाद इनके हितकारी धन हैं (तत्) उसको (धत्तम्) धारण करो और प्रदान करो ।

ये वां दंसांस्यश्विना विप्रांसः परिमामृशुः ।

एवेत् काएवस्य बोधतम् ॥ ३ ॥ ऋ० २।९।३ ॥

भा०—(ये) जो (विप्रांसः) विद्वान् लोग (वाम्) तुम दोनों के (दंसांसि) कर्मों के (परिमामृशुः) विचार करते हैं (एमा इत्) उसी प्रकार तुम दोनों भी (काएवस्य) विद्वान् पुरुषों के हित का (बोध-तम्) ज्ञान रखो, उनके हितपर भी विचार करो ।

अयं वां धर्मो अश्विना स्तोमेन परि पिच्यते ।

अयं सोमो मधुमान् वाजिनीवसू येन वृत्रं चिक्रेतयः ॥४॥ ऋ० ८।१।४

भा०—(अयं) यह (वां) तुम दोनों का (धर्मः) अभिप्रेक (स्तो-मेन) उत्तम गुण स्तुति और सत्योपदेश के साथ ही (परिपिच्यते) सम्पा-दन किया जाता है । (अयं) यह (मधुमान्) मधुर, सौम्य गुणों से युक्त एवं अन्नदि ऐश्वर्यों से युक्त (सोमः) राष्ट्र अथवा (मधुमान्) ज्ञानवान् सौम्य विद्वान् पुत्र्य है (येन) जिस के द्वारा तुम दोनों (वाजिनीवसू) संग्राम करने हारी सेना को बसाकर, सेना रूप धन से धनी होकर (वृत्रं) राष्ट्र के कार्य में विघ्न करने वाले शत्रु को (चिक्रेतयः) रोग के समान दूर करते हों ।

यदृप्सु यद् वनस्पतौ यदोपधीषु पुदंससा कृतम् ।

तेनं माविष्टमश्विना ॥ ५ ॥ ऋ० ९।९।५ ॥

भा०—हे (पुरुदंससा) बहुत कर्मों में कुशल एवं पालन कर्म में सिद्धहस्त पुरुषो ! हे (अधिना) विद्याओं में व्यापक ज्ञानवाले विद्वान् पुरुषो ! तुम दोनों (यद्) जो रस या बल (अप्सु) जलों और आह प्रजा जनों (यद् वनस्पतौ) जो वनस्पति अर्थात् वड़े वृक्षों एवं प्रजा पालक पुरुषों (यद् ओषधीषु) और जो तीव्र रस वाली ओषधियों और तीव्र तेजस्वी सैनिक पुरुषों ने से (कृतम्) उत्पन्न करते हो (तेन) उससे (मा) मुझ राष्ट्र की और पुरुष की (आविष्टम्) रक्षा करां ।

[१४०] सत्यपालक दां अधिकारी ।

अदिवनीं देवने । शशिकर्ण अपिः । अनुष्टुभः । पञ्चम्यं च सूक्तम् ॥

यद्नांसत्या भुरगयथो यद् वा देव भिपज्यथः ।

अयं वां वृत्सो मतिभिर्न विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथः ॥१॥

अ० ८ । ९ । ६ ॥

भा०—हे (नासत्यौ) कभी भी असत्य व्यवहार न करने वाले सदा सत्यपरायण ! (यत्) क्योंकि तुम दोनों अग्नि और जल (भुरगयथः) समस्त विश्व को प्राण और अपान के समान पालन पोषण करते हो । हे (देवा) बलदाताओं ! तुम दोनों (भिपज्यथः) शरीरों की चिकित्सा करने हो इसलिये (वत्सः) स्तुतिशील विद्वान् (अयं) यह (वां) तुम दोनों को (मतिभिः) मनन करने योग्य स्तुतियों से ही केवल (न विन्धत) नहीं प्राप्त करता प्रत्युत, तुम दोनों (हविष्मन्तं) अन्न और साधन सम्पन्न पुरुष के पास स्वयं (गच्छथः) प्राप्त होते हो ।

आ नूनमश्विनोर्ऋषि स्तोमं चिक्रेत वामयां ।

आ सोमं मधुमत्तमं धर्मं सिञ्चादथर्वणि ॥ २ ॥ अ० ८ । १ । ७ ॥

भा०—(ऋषिः) विज्ञानदृष्ट पुरुष (नूनं) निश्चय से (वामया) सब पदार्थों को ज्ञान करने वाली, ज्ञानमयी बुद्धि से (अश्विनोः) अग्नि

और जल दोनों व्यापक तत्वों के (स्तोमं) यथार्थ गुणज्ञान को (आचि-
क्रेत) जान ले वह (अथर्वणि) हिंसा रहित जनों के पालक पुरुष में
(मधुमत्तमम्) अति मधुर (धर्मम्) तेज से युक्त एवं सेचन योग्य
(सोमम्) बल वीर्य को (सिञ्चात्) प्रदान करता है ।

आ नूनं रघुवर्तनि रथं तिष्ठाथो अश्विना ।

आ वां स्तोमां इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥ ३ ॥ अ० ८।१।८ ॥

भा०—हे (अश्विना) व्यास शक्ति वाले वा शीघ्रगतिशील तुम दोनों
(नूनं) निश्चय से (रघुवर्तनिम्) शीघ्रता से जाने वाले (रथं) रथ में
शरीर में प्राण अपान के समान (आतिष्ठथः) स्थित हो । (इमे) मे
सय (वां स्तोमाः) तुम दोनों के यथार्थ स्तुति योग्य गुण (मम) मेरे द्वारा
प्रकट किये हुए (नभः न) सूर्य के समान (चुच्यवीरत) हमें भी प्राप्त हों ।

यद्व्य वां नासत्योक्थैरांचुच्युवीमहि ।

यद् वां वाणीभिरश्विनेवेत् कारवस्य बोधतम् ॥ ४ ॥ अ० ८।१।९ ॥

भा०—हे (नासत्या) सदा सत्य व्यवहारवान् ! हे (अश्विनौ) विद्य-
वान् एवं पदाधिकार पर स्थित पुरुषो ! (वां) तुम दोनों के (उक्थैः)
प्रशंसनीय वचनों से हम विद्वान् पुरुष (आचुच्यवीमहि) यलों को बड़ावें और
(यद् । जब हम (वाणीभिः) उत्तम वाणियों से (वां आचुच्यवीमहि)
तुम दोनों को ज्ञानोपदेश करें उस समय तुम दोनों (कारवस्य) विद्वान्
पुरुष को भी (बोधतम्) ज्ञान का प्रदान करो ।

यद् वां कृत्वीं उत यद् व्यंश्च ऋषिर्यद् वां दीर्घतमा जुहाव ।

पृथी यद् वां वैन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतयेथाम् ॥ ५ ॥

अ० ८।१।११ ॥

भा०—हे (अश्विना) अश्विगण राष्ट्र में विशेष रूप से व्यापक
अधिकार वाले जनों ! (वां) तुम दोनों को (कृत्वीन्) शासन शक्ति का

स्वामी और (यत्) जो (व्यश्वः) विविध अश्वसेना का स्वामी (ऋषिः) तत्त्वज्ञानी और (दीर्घतमाः) खेद, शोक, प्रजापीडा को नाश करने वाला और (वैन्यः) विद्वानों का हितकारी स्वयं बुद्धिमान्, (पृथी) विस्तृत भूमि का रक्षक, ये पुरुष (यत् ३) जिस कारण से (वां३) तुम दोनों को (आजुहाव) बुलाते हैं स्मरण करते हैं, तुमको पदाधिकारी रूप से नियुक्त करते हैं (अतः) इसलिये (सादेनपु एव) सब गृहों में और पदाधिकारों में (चेतयेथाः) शरीर के समस्त अंगों में प्राण और उदान के समान विशेष चेतना प्रदान करो ।

अध्यात्म में—देह में व्यापक ज्ञान और शासन वाला होने से आत्मा ही कड़ीवान् है । विविध कर्म फलों का भोग्ना होने से 'व्यश्व' है शोक मोह को नाश करने से 'दीर्घतमा' है, कान्तियुक्त तेजस्वी होने से 'वैन्य' और विस्तृत महती शक्ति वाला होने से 'पृथी' है । वह प्राण अपान दोनों को अपने वश करता है इसी से वे दोनों शरीर के सब अंगों को चेतना युक्त करते हैं ।

[१४१] दो अधिकारी ।

. शशकर्म ऋषिः । अद्विनी देवता । पञ्चमूर्त्त सत्त्वम् ॥

यातं छुर्दिप्पा उत नः परस्पा भूतं जगत्पा उत नस्तनूपा ।

वर्ति स्तोकाय तनयाय यातम् ॥ १ ॥ अ० ८ । ९ । ११ ॥

भा०—हे अश्विगण ! हे प्राण और अपान के समान राष्ट्र के प्राण स्वरूप दो अधिकारियो ! तुम दोनों (छुर्दिप्पा) गृहों की रक्षा करने वाले (उत) और (नः) हमारे (परस्पा) परम पालक, होकर आप दोनों (यातम्) प्राप्त होवो । (उत) और (जगत्पा) जगत् के पालक, जंगम प्राणियों के पालक और (नः तनूपा) हमारे शरीरों के पालक (भूतम्) होवो । (तोकाय) हमारे पुत्रों और (तनयाय) सन्तति प्रसारक

दोनों के हित के लिये भी (वार्तः) हमारे गृहों तक को भी (यातम्) प्राप्त होवे ।

यदिन्द्रेण सरथं याथो अश्विना यद् वा वायुना भवथः समोक्तसा
यदादित्येभिर्ऋभुभिः सजोपसा यद् वा विष्णोर्विक्रमणेषु तिष्ठथः॥२॥

ऋ० ८ । ९ । १२ ॥

भा०—हे (अश्विनौ) व्यापक अधिकार वाले दो शासको ! तुम दोनों (यत्) जो कि (इन्द्रेण) ऐश्वर्यवान् मुख्य सम्राट् के साथ (सरथम्) समान रथपर चढ़कर (याथः) जाते हो । (यद्वा) और क्योंकि (स मोक्तसा) समान पदाधिकार वाले, (वायुना) वायु के समान तीव्र गति से आक्रमणकारी सेनापति के साथ भी (भवथः) रहते हो, और (आदित्येभिः) अदिति, अखण्ड शासन के प्रणेता १२ मासों के समान १२ मुख्य मन्त्रीगण के साथ और (ऋभुभिः) ऋतुओं एवं ज्ञानवान् ६ प्रधान राजसभा के अधिकारियों के साथ भी (सजोपसा) समान प्रेम व्यवहार वाले हो और (यद्वा) क्योंकि तुम दोनों (विष्णोः) प्रजा में व्यापक शासन वाले राजा के (विक्रमणेषु) विविध कार्यों में भी (तिष्ठथः) रहा करते हो । और—

यद्वाश्विनावहं हुवेय वाजसातये ।

यत् पृत्सु तुर्वणे सहस्तच्छ्रेष्ठमश्विनोरवः ॥ ३ ॥ ऋ० ८ । ११ । ३ ॥

भा०—और क्योंकि (अश्विनौ) उक्त दोनों व्यापक अधिकारवान् पुरुषों को (अहम्) मैं (वाजसातये) ऐश्वर्य के लाभ, और संग्राम के करण के लिये भी (हुवेय) बुलाता हूँ । और क्योंकि उनका (सहः) शत्रु पराजय करने का सामर्थ्य (पृत्सु) संग्रामों के बीच में (तुर्वणे) शत्रु के नाश करने में समर्थ होता है, (तत्) इसलिये (अश्विनोः) उन दोनों का (भवः) रक्षण सामर्थ्य भी (श्रेष्ठम्) सबसे श्रेष्ठ है ।

आ नूनं यांतमश्विनेमा हव्यानि वां हिता ।

इमे सोमासो अग्निं तुर्वशे यदाग्निं कण्वेषु वामथं ॥४॥ अ० ८।९।१४

भा०—हे (अश्विना) अश्विगण, व्यापक अधिकारवान् पुरुषो ! आप दोनों (नूनम् आयातम्) अवश्य प्राप्त होवो । (वां) तुम दोनों के लिये (इमा हव्यानि) ये ग्रहण करने योग्य अन्न आदि भोग्य पदार्थ (हिता) रखे हैं । (इमे) ये (सोमासः) ऐश्वर्य वाले पदार्थ जो (तुर्वशे) चारों पुरुषार्थों की कामना करने वाले और (यद्वा अग्नि) यत्नशील प्रजाजन के अधिकार में हैं और (इमे) ये समस्त ऐश्वर्य जो (कण्वेषु) विशेष मेधावी विद्वान् पुरुषों में हैं वे सब (अथ वाम्) तुम दोनों के ही हैं ।

यन्नांसत्या पराके अर्वाके अस्ति भेपजम् ।

तेन नूनं विमदाय प्रचेतसा छुर्दिर्वत्साय यच्छतम् ॥५॥ अ० ८।९।१५

भा०—हे (नासत्यौ) सदा सत्य व्यवहार वाले तुम दोनों (पराके) दूर देश में और (अर्वाके) समीप देश में भी (यत्) जो (भेपजम् अस्ति) रोगादि निवारक औषधि और उपद्रवों के निवारक उपाय हैं । हे (प्रचेतसौ) उत्कृष्ट ज्ञान वाले पुरुषो ! (तेन) उस उपाय से वैद्यों के समान (वत्साय) विद्वान् या राज्य में सुख से बसने वाले (विमदाय) विशेष हर्षवान्, या मद रहित पुरुष को (छुर्दिः) शरण या सुख (यच्छतम्) प्रदान करो ।

[१४२] वेदवाणी ।

शशकर्म अपिः । अश्विनो देवते १-४ अनुष्टुभः । ५, ६, गायत्र्यो । पठुं वृत्तम् ॥

अभुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहमश्विनोः ।

व्यावर्देव्या मतिं वि रतिं मर्त्येभ्यः ॥ १ ॥ अ० ८।९।१६ ॥

भा०—(अश्विनोः) दो अश्विणों, दिन रात्रि के बीच प्रकट (देव्या) प्रकाशयुक्त उपा के समान, एवं प्राण अपान दोनों के बीच प्रकट हुई वाणी

के समान (देव्या) बल और ज्ञान प्रदान करने वाले उपदेशक और श्रद्धापाकों की (दिव्या वाचा) दैवी वाणी, आज्ञा या उपदेशमयी वाणी से (ब्रह्मन् अभुस्तु) मैं बोध प्राप्त करूँ। (देवी) वह प्रकाश-ज्ञानवादी वाणी, (मर्त्येभ्यः) मनुष्यों को (मतिन्) मनन योग्य ज्ञान और (रातिन्) शिष्यों को प्रदान करने योग्य प्रवचन भी (वि श्रावः) विविध प्रकार से प्रकट करती है।

प्र वींश्रयोपो अश्विना प्र देवि सुनुते महि ।

प्र यज्ञहोतरानुषक् प्र मदाय श्रवां बृहत् ॥ २ ॥ ३०८ । ९ । १७ ॥

भा०—हे (उषः) पापों को दग्ध करनेहारी उषः ! हे (महि) पूजनीय ! हे (सुनुते) उत्तम सत्य ज्ञान को धारण करने वाली वेदवाणी ! हे (देवि) ज्ञान प्रकाश देने वाली ! तू (अश्विना) स्त्री पुरुष नर नारी दोनों को (प्र बोधय) भली प्रकार उद्घाति के लिये जगा दे, प्रबुद्ध कर, उनको ज्ञानवान् बना। हे (यज्ञहोतः) यज्ञ, परस्पर सुसंगत व्यवहारों के प्रवर्तक राजन् ! तू भी (प्र) नर नारी दोनों को उत्तम ज्ञानवान् बना, चेता, (आनुषक् प्र) तू निरन्तर जगा। (मदाय) हर्ष प्राप्त करने के लिये (बृहत् श्रवः) जो बड़ा भारी यश, ज्ञान और ब्रह्म है, उसको (प्र) प्रदान कर।

यदुपो यासि भानुना सं सूर्येण रोचसे ।

आ हायमश्विनो रथो व्रतियति नृपाच्यम् ॥ ३ ॥ ३०८।९।१८॥

भा०—हे (उषः) पापों के नाश करने वाली ! उषः ! जिस प्रकार 'उषा' प्रभातवेला (भानुना याति) दीप्ति के साथ आती है और (सूर्येण रोचसे) सूर्य के साथ प्रकाशित होती है और दिन और रात्रि रूप अश्वियों का सूर्यरूप रथ समस्त पुरुषों का पालन करनेहारा होता है उसी प्रकार जब हे (उषः) पाप दग्ध करनेहारी ज्ञान वाणी ! तू (भानुना) धर्मप्रकाश रूप ज्ञान के साथ (यासि) हर्ष प्राप्त होती है और (सूर्येण) सूर्य के

समान ज्ञान के अगाध सागर विद्वान् के साथ उसको प्राप्त होकर (सं
रोचसे) बड़ी उत्तम रूप से प्रकाशित होती है तब ही (अश्विनोः) प्राण
और अपान दोनों का एवं नर नारी दोनों का (अयम् रथः) यह रमण
योग्य, सुखजनक व्यवहार (नृपाप्यम्) नरों के पालन करने वाले
(वर्तिः) देह और गृह को (याति) प्राप्त होता है ।

यदापीतासो अंशवो गावो न दूह ऊर्ध्वभिः ।

यद्वा वाणीरनूपत् प्र देवयन्तो अश्विना ॥ ४ ॥

भा०—(यद्) जब (आपीतासः) कुट्ट २ पीले २ रंग के (अंशवः)
किरण, प्रकाश (ऊर्ध्वभिः) थनों से (गावः न) दूधों के समान (दूहे)
उत्पन्न होते हैं और (यत्) जब (देवयन्तः) देवोपासना करनेवाले
उपासकजन (वाणीः) वाणियों द्वारा (अनूपत्) स्तुति करते हैं तब
(अश्विना) विद्या में पारंगत गुरु और ज्ञानी पुरुष हमें (प्र बोधयतम्)
उत्तम रीति से प्रबुद्ध करें ।

प्र धुम्नाय प्र शवसे प्र नृपाहाय शर्मणे ।

प्र दत्ताय प्रचेतसा ॥ ५ ॥

भा०—(प्रचेतसा) उत्कृष्ट ज्ञान वाले गुरु, आचार्य और अध्यापक
दोनों (धुम्नाय) यश, उत्कृष्ट धन, (शवसे) बल, (नृपाहाय)
नायकोचित, शत्रु दमनकारी बल एवं (दत्ताय) ज्ञान और कर्म सामर्थ्य
के लिये (प्र बोधयतम्) हमें नित्य उत्तम शिक्षा से ज्ञानवान् करें ।

यन्नूनं श्रीभिरश्विना पितुर्योना निपीदथः ।

यद्वा सुम्नेभिरुक्थ्या ॥ ६ ॥

भा०—हे (अश्विनौ) विद्या और कर्म में पारंगत आचार्य और अ-
ध्यापक एवं विद्वान् स्त्री पुरुषो ! (यत्) क्योंकि आप दोनों (धीभिः) कर्मों

और ज्ञानों से (पितुः) पालक पिता के (योनौ) स्थान पर (निपीदयः) विराजते हो तुम दोनों पिता के तुल्य पूजनीय हो (यद्वा) और क्योंकि तुम दोनों (सुग्नेभिः) सुखकारी उपायों से भी पिता के पद पर बैठने योग्य हो इसलिये तुम दोनों (उक्त्या) प्रशंसा के योग्य हो ।

[१४३] विद्वानों के वर्तव्य

पुष्मीडाजनीढावृषी । त्रिष्टुभः । = मधुमती । वानदेव ऋषिः । ९ नेभातिथि
मैध्यातिथी ऋषी ॥

तं वां रथं वृथमद्या हुवेम पृथुज्रयमश्विना संगतिं गोः ।

यः सूर्यां वहति वन्धुरायुर्गिवाहसं पुरुतमं वसूयुम् ॥ १ ॥

भा०—हे (अश्विना) आचार्य और गुरो ! (अथ) आज, सदा, (वयम्) हम (वां) तुम्हारे (गोः संगतिम्) सूर्य के समान ज्ञान वाणी को प्राप्त करने वाले, (पृथुज्रयम्) अति विस्तृत शक्ति वाले, (गिवाहसम्) वाणियों को धारण करने वाले, (वसूयुम्) विद्वान् ब्रह्मचारी छात्रों, अन्तेवासी वसुओं की कामना करने वाले (रथम्) सबको प्रसन्नकारी, रमणीय स्वरूप को (आ हुवेम) हम सदा प्राप्त करें (यः) जो (वन्धुरायुः) सब के आधारभूत, आश्रयप्रद, टेक के समान (सूर्याम्) विद्वानों के हित की वाणी को (वहति) धारण करता है ।

युवं श्रियंमश्विना देवतातां दिवो नपाता वनथः शर्चीभिः ।

युवोत्रिपुराभि पृक्षः सचन्ते वहन्ति यत् ककुहासो रथं वाम् ॥२॥

भा०—हे (अश्विना) अश्विगण ! दोनों तुम (देवता) देवस्वरूप हो । तुम (दिवः नपाता) ज्ञानशक्ति को कभी नष्ट नहीं होने देते । और (शर्चीभिः) अपनी प्रज्ञाओं, बुद्धियों के कारण (श्रियं वनथः) परम शोभा को प्राप्त हो । (यत्) जब (वाम्) तुम दोनों को (ककुहासः) उत्तम

बैल और अश्व (रथं वहन्ति) रथ में लेजाया करें (युवोः) तब तुम दोनों के (वपुः) शरीरों को (पृञ्जः) नाना प्रकार के अन्न आदि पुष्टि-जनक पदार्थ (अभिसचन्ते) प्राप्त होते हैं ।

जब तुम रथ पर सवार होकर यात्रा करते हो तो बहुत भोग्य पेश्वर्य तुमको प्राप्त होते हैं ।

को वासिद्या करते रातहृन्व्य ऊतये वा सुतपेयाय वृकैः ।

ऋतस्य वा वनुपे पूर्याय नमो येमानां अश्विना ववर्तन् ॥३॥

भा०—हे (अश्विना) विद्याओं में पारंगत विद्वान् आचार्य और गुरु जनो ! या विद्वान् स्त्री पुरुषो ! (अद्य) आज (कः) कौन (रातहृन्व्यः) अन्नादि का दानशील पुरुष (वाम्) तुम दोनों की (ऊतये) जड़िनरत्ना के लिये (वा) और (वृकैः) पूजा, आदर सत्कार के कर्मों द्वारा (सुतपेयाय) उत्पन्न सोमरस आदि पान योग्य पदार्थों के पान के लिये (करते) प्रबन्ध करता है ? और (कः) कौन उत्साही शिष्य (ऋतस्य) सत्य ज्ञान, वेद के (पूर्याय) सब से पूर्व विद्यमान (वनुपे) सेवनीय ज्ञान के लिये तुम्हारे पास (नमः) नमस्कार और आज्ञा पालन के व्रत को प्राप्त होकर (ववर्तन्) रह रहा है ।

हिरण्ययेन पुरुभू रथेनमं यज्ञं नासृत्योपं यातम् ।

पिचांध इन्मधुनः सोम्यस्य दधयो रत्नं विधृते जनाय ॥ ४ ॥

भा०—हे (नासत्या) कभी असत्याचरण न करने वाले विद्वान् पुरुषो ! (पुरुभू) बहुत अधिक संख्या में शिष्य प्राशिष्यों द्वारा स्वयं हो जाने वाले आप दोनों (हिरण्ययेन) सुवर्ण या लोहे के बने रथ से जिस प्रकार देशान्तर जाते हैं उसी प्रकार दूद रथ से (इमं यज्ञम्) इस यज्ञ को (उप यातम्) प्राप्त होओ । (सोम्यस्य) सोम से युक्त (मधुनः) मधुर मधु के समान उत्तम औषधि रस से युक्त अन्न और ज्ञान का (पिचांधः इत्)

आप दोनों स्वयं पान करो । और (विघते जनाय) परिचर्या करने वाले
पुरुष को (रत्नं द्रव्यः) रमणीय उत्तम ज्ञानरत्न का प्रदान करो ।

आ नो यातं दिवो अञ्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सुवृता रथेन ।
मा वामन्ये नि यमन् देवयन्तः सं यद् ददे नामिः पूर्या वाम् ॥१॥

भा०—हे (अश्विना) अश्विगो ! एक रथ में संयुक्त अश्वों के समान
एकत्र एक कार्य में नियुक्त विद्वान् पुरुषो ! तुम दोनों (दिवः) आकाशनाभों
से और (पृथिव्याः) पृथिवीभाग से भी (सुवृता) अच्छी प्रकार चलने
वाले (रथेन) रथ से (नः आदातम्) हमें प्राप्त होओ । (यत्) जब
कि (पूर्या नामिः) पूर्व का कोई बांधने वाला कारण (संददे) बांधता
हो तो (अन्ये) दूसरे लोग (देवयन्तः) आप विद्वानों की परिचर्या
करने के इच्छुक होकर भी (वाम्) तुम दोनों को (मा नियमन्) न बांधे ।
जब दूसरे से कोई वचन हो जाय तो वे उसको निभाने के लिये औरों से
उसी समय न बांधे, प्रत्युत पूर्व स्वीकृत कार्य को यथासमय करने के लिये
शीघ्र यान द्वारा समय पर पहुंचे ।

नू नो रयिं पुरुवीरं बृहन्तं दत्त्वा मिमांथानुभयेऽवृस्मे । नरो
यद् वामश्विना स्तोमभावन्त्सवस्तुतिमाजमीलहासो अग्नन् ॥६॥

भा०—हे (अश्विना) उक्त विद्वान् पुरुषो ! हे (दत्त्वा) दर्शनीय
पुरुषो ! एवं दुःखों का दाय करने होरे आप दोनों (नः) हमारे (उभ
येषु) दोनों स्त्री वर्ग और पुरुष-वर्गों में (पुरुवीरन्) बहुतसे वी
पुरुषों और पुत्रों से युक्त बृहन्तं रथिन्) बड़े भारी ऐश्वर्य को मिमांथास
उत्पन्न करो । (यत्) जब (वाम्) तुम्हारे (स्तोमम्) स्तुति सन्तुष्टों
(नरः) सनस्त पुरुष (आवन्) प्राप्त होने हैं तब (आजमीलहासः
धनाद्य पुरुष नी।सधस्तुतिन्) तुम्हारी स्तुति उनके साथ ही (अग्नन्
करंतं है ।

इहेह वद् वां समना पंपूजे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना ।

उरूप्यतं जरितारं युवं हं श्रितः कामो नासत्या युवद्विक् ॥ ७ ॥

भा०—हे (समना) समान चित्त वालो ! और हे (वाजरत्ना) ऐश्वर्य, बल वीर्य रूप रत्न को धारण करने वालो ! (यत्) जो उत्तम बुद्धि (इह इह) इस २ नाना कामों में (वां पंपूजे) तुम दोनों का प्राप्त है (सा सुमतिः) वह उत्तम मति (अस्मे) हमें भी प्राप्त हो । (युवं) तुम दोनों ही (जरितारम्) गुण स्तवन करने वाले विद्वान् की (उरूप्यतम्) रक्षा करो । हे (नासत्या) सत्याचरण करने वाले विद्वानो ! स्त्री पुरुषो ! (कामः) अभिलाषा (युवद्विक् श्रितः) तुम्हारे आश्रय पर स्थित है ।

मधुमतीरोपश्रीर्वाच आपो मधुमन्नो भवन्त्यन्तरिक्षम्

क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो अन्तरिष्यन्तो अन्नं चरम ॥ ८ ॥

भा०—(नः) हमारे लिये (ओपधीः) ओपधियां (मधुमतीः) मधुर गुण वाली हों । और (आचः) सूर्य की किरणें और प्रकाशमान अग्नि सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ सुखकारी हों । (नः अन्तरिक्षम् मधुमन् भवतु) हमें अन्तरिक्ष सुखकर, उत्तम जल वायु के देने वाला हो । (नः) हमारा (क्षेत्रस्य) क्षेत्र का (पतिः) पालक, किमान वर्ग भी (मधुमान् अस्तु) मधुर अन्नादि पदार्थों से समृद्ध हो और हम (अरिष्यन्तः) किसी प्रकार की हिंसा न करते हुए (एनन् अनु) कृपक वर्ग या क्षेत्र के स्वामी के हित और आज्ञा के अनुकूल होकर (चरम) वर्ताव करें ।

पुनाय्यं तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः ।

खड्खो शसां उत ये गविष्टौ सर्वा इत् ताँ उप याता निवंध्यै ॥ ९ ॥

भा०—हे (अश्विना) विद्वान् पुरुषो ! (वां) तुम दोनों का (तत्) वह नाना प्रकार का (कृतम्) किया हुआ कार्य (पुनाय्यं ; स्तुति करने योग्य है । (दिवः) द्यौलोक से (वृषभः) वर्षण करने वाला सूर्य । रजसः वृषभः)

अन्नरिद्धि से वर्षण करने वाला मेघ और उसके यमान (पृथिव्या वृषभः) पृथिवी लोक का भी सर्वश्रेष्ठ सुखों का वर्षण करपति (वत्) और (गविष्टौ) वाली पृथिवी और इन्द्रियों के प्राप्ति कार्य में (सहस्रंशंसाः) हजारों स्तुतिकर्ता ज्ञानप्रद विद्वान् पुरुष हैं (तान् सर्वात् इत्) उन सबको (पिवधै) पान करने के लिये ज्ञान-रस ग्रहण करने के लिये उम सब लोग (उपयात) प्राप्त होंगे ।

॥ इति नमोऽनुनाकः ॥

॥ इत्युनाकं नाम विद्वाणं समाह्वयम् ॥

॥ अथर्ववेदसंहिता च संपूर्णा ॥

रमवन्ङ्कवन्द्राद्ये पौषे युक्ते बुधेऽहनि ।
चतुर्दश्यां पूर्तिमागाद्विशंकाण्डमयर्वणः ॥

ज्ञानविज्ञानसंपूर्णा नानाधर्मपरिष्कृतः ।

कुर्व्याच्छिवनधीतो नो वेदज्ञानमयः प्रभुः ॥

नानुपोऽहं स्वल्पमतिः स्वभावेन स्वतद्-गतिः ।

इति ज्ञानवतां ह्यन्योऽनुप्राह्यस्तद् दयादृशा ॥

ज्ञानप्रवणश्चाहं नापत्राद्यः स्वल्पश्चपि ।

नहि सद्दर्शननागच्छन् स्वल्पितेष्वप्यपोद्यते ॥

गच्छतः स्वल्पं ह्यपि भवत्येव प्रमादतः ।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥

कावलेन सह स्पृष्ट्वां सज्जनत्वभिमानिनः ।

नापणं भयिणं साधुदूषणं यस्य नूषणम् ॥

इति प्रतिष्ठितविनालंकार-मीमांसादीर्थविरहोक्तोऽस्मिन्-श्रीमन्वेदवेदधर्मना

विरचितेऽर्थानो ब्रह्मवेदलोकभाष्ये विंशोऽनुनाकं समाह्वयम् ।

समाह्वयं विद्वान्-समाह्वयम् ॥ इति ॥ लो० शं० ॥